

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

\*\*\*\*\*[ग्रन्थांक ४५]\*\*\*\*\*

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क - श्रीमद् - उद्द्योतनसूरि - विरचिता

कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

प्रथम भाग - मूल कथाग्रन्थ



SINGHI JAIN SERIES

\*\*\*\*\*[NUMBER 45]\*\*\*\*\*

KUVALAYAMĀLĀ

OF

UDDYOTANA SŪRI

(A Unique Campū in Prākṛit)

साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त

प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

# सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[ जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुम्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगूजरी, -राजस्थानी आदि नानाभाषानिबद्ध सार्वजनिक पुरातन वाङ्मय तथा नूतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशनी सर्वश्रेष्ठ जैन ग्रन्थावलि ]

प्रतिष्ठाता

श्रीमद् - डालचन्दजी - सिंघीसत्पुत्र

स्व० दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक

आचार्य जिन विजय मुनि

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

\*

ऑनररी डायरेक्टर

राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान)

निवृत्त सम्मान्य नियामक

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना (दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पञ्जाब)

\*

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रकाशनकर्ता-

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७  
मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलमाट स्ट्रीट, बम्बई, नं. २

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क - श्रीमद् - उद्द्योतनसूरिविरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

\*

अतिदुर्लभ्यप्राचीनपुस्तकद्वयाधारेण सुपरिशोध्य बहुविधपाठभेदादियुक्तं  
परिष्कृत्य च संपादनकर्ता

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम् ए., डी. लिट्.  
प्राध्यापक, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर (दक्षिण)

प्रथम भाग - मूल कथाग्रन्थ



प्रकाशनकर्ता

अधिष्ठाता, सिं घी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

विक्रमाब्द २०१५ ]

प्रथमावृत्ति

[ ख्रिस्ताब्द १९५९

ग्रन्थांक ४५ ]

सर्वाधिकार सुरक्षित

[ मूल्य रु० १५-५०

# SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL,  
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS  
IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RAJASTHANI-  
GUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT  
RESEARCH SCHOLARS

ESTABLISHED

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

**ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ**

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA - SAHITYARASIKA - SANSKRITIPRIYA

**SRI BAHADUR SINGH SINGHI**

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

**ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI**

*ADHIṢṬHĀTĀ, ŚINGHĪ JAIN ŚĀSTRA ŚIKṢHĀ PĪṬHA*

Honorary Founder-Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur;  
General Editor, Rajasthan Puratan Granthamala ; etc.  
(Honorary Member of the German Oriental Society, Germany, Bhandarkar  
Oriental Research Institute, Poona; Vishveshvanand Vaidic Research  
Institute, Hoshiarpur, and Gujarat Sāhitya Sabhā, Ahmedabad.)

PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

**SRI RAJENDRA SINGH SINGHI**

AND

**SRI NARENDRA SINGH SINGHI**

BY THE ADHIṢṬHĀTĀ

**SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH**

**BHARATIYA VIDYA BHAVAN**

**BOMBAY**

UDDYOTANA-SŪRI'S  
**KUVALAYAMĀLĀ**

(A Unique Campū in Prākṛit)

Critically Edited from Rare Mss Material for the First Time  
with an Introduction, Various Readings, Notes etc.

AND

RATNAPRABHA-SŪRI'S  
**KUVALAYAMĀLĀ-KATHĀ**

(A Stylistic Digest of the Above in Sanskrit)

Critically Edited with Various Readings etc.

BY

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt  
RAJARAM COLLEGE, KOLHAPUR



Part I

**KUVALAYAMĀLĀ**

PRĀKRIT-TEXT & VARIOUS READINGS



PUBLISHED BY

**Adhiṣṭhātā, Singhi Jain Śāstra Śikṣāpīṭha**  
**BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVANA**  
**BOMBAY**

V. E. 2015 ]

First Edition

[ A. D. 1959

Vol. No. 45 ]

\* \*  
\* \*

[ Price Rs. 15-50

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| अस्ति बङ्गामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥                   | १  |
| बहवो निवसन्त्यत्र जैना उकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥                          | २  |
| श्रीडालचन्द्र इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सच्चरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥            | ३  |
| बाह्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यां धृतधर्मार्थनिश्चयः ॥                 | ४  |
| कुशाग्रीयया सद्बुद्ध्या सद्बुद्ध्या च सन्निष्ठया । उपार्ज्यं विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ | ५  |
| तस्य मञ्जुकुमारीति सञ्चारीकुलमण्डना । जाता पतिव्रता पत्नी शीलसौभाग्यभूषणा ॥                         | ६  |
| श्रीबहादुरसिंहाख्यो गुणवोस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥                   | ७  |
| प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥             | ८  |
| श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहुवत् पितुः ॥ | ९  |
| नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वरिन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥            | १० |
| सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आसभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥                | ११ |
| अन्येऽपि बहवस्तस्याभवन् स्वस्त्रादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥               | १२ |

### अन्येषु -

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तच्चित्रं विदुषां खलु ॥     | १३ |
| नाहंकारो न दुर्भावो न विलासो न दुर्व्ययः । दृष्टः कदापि यद्गोहे सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥            | १४ |
| भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पौष्यगणेष्वपि ॥             | १५ |
| देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥                | १६ |
| समुच्चयै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥                     | १७ |
| गत्वा सभा-समित्यादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥       | १८ |
| एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । अकरोत् स यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥                           | १९ |
| अथान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥         | २० |
| पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥    | २१ |
| विचार्यैवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धेयानां स्वमित्राणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥ | २२ |
| जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्तिं नि के त ने । सिंघीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठमितिष्ठितम् ॥             | २३ |
| श्रीजिनविजयः प्राज्ञो मुनिनाम्ना च विश्रुतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥       | २४ |
| तस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैर्यौदार्यादिसद्गुणैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥               | २५ |
| कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रसैर्नागाङ्कैश्चन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यधीयत ॥           | २६ |
| प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सूनां ग्रन्थानां ग्रथनं तथा ॥             | २७ |
| तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥           | २८ |
| उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । व्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यसुसिद्धये ॥                     | २९ |
| छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥           | ३० |
| जलवाग्वादिकानां तु प्रातिकूल्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥          | ३१ |
| तत्रापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । ग्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥                  | ३२ |
| नन्द-निर्धर्क-चन्द्राब्दे कृता पुनः सुयोजना । ग्रन्थावल्याः स्थिरत्वाय विस्तराय च नूतना ॥           | ३३ |
| ततो मुनेः परामर्शात् सिंघीवंशनभस्वता । भाविद्या भवना येयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥                     | ३४ |
| आसीत्तस्य मनोवान्छाऽपूर्वग्रन्थप्रकाशने । तदर्थं व्ययितं तेन लक्षावधि हिं रूप्यकम् ॥                | ३५ |
| दुर्विलासाद् विधेर्हन्त ! दौर्भाग्याच्चात्मबन्धूनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गं स सुकृती ययौ ॥    | ३६ |
| विर्षु-शून्य-सं-नेत्रा-ब्दे मासे आषाढसञ्ज्ञके । कलिकातानगर्यां स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥          | ३७ |
| पितृभक्तैश्च तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाश्यतेऽधुना त्वियम् ॥      | ३८ |
| सैषा ग्रन्थावलिः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । मूयाद् मूल्यै सतां सिंघीकुलकीर्तिप्रकाशिका ॥ | ३९ |
| विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके श्रीसिंघी ग्रन्थमालिका ॥               | ४० |

## ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशोऽभारतविश्रुत । रूपाहेलीति सन्नाम्नी पुरिका यत्र सुस्थिता ॥           | १  |
| सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्चतुरसिंहोऽत्र राठोढान्त्रयभूमिपः ॥                 | २  |
| तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्र प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाग्रणीः ॥         | ३  |
| सुख-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥                 | ४  |
| पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक् सौजन्यभूषिता ॥                 | ५  |
| क्षत्रियाणां प्रभापूर्णां शौर्योद्दीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वैव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥ | ६  |
| पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रिय । रणमल्ल इति चान्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥                    | ७  |
| श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भेषज्यविद्याना पारगामी जनप्रियः ॥               | ८  |
| आगतो मरुदेशाद् यो अमन् जनपदान् बहून् । जातः श्रीवृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥         | ९  |
| तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्पुत्रुः स्वसन्निधौ । रक्षितः शिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥        | १० |
| दौर्भाग्यात् तच्छिशोर्वाल्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढः स्वगृहात् सोऽथ यदृच्छया विनिर्गतः ॥      | ११ |

तथा च-

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संसेच्य च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥   | १२ |
| ज्ञानान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेपिणा ॥             | १३ |
| अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नूतनकालिकाः ॥                    | १४ |
| येन प्रकाशिता नैके अन्या विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥             | १५ |
| बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनविजयनाम्नाऽयं विख्यातः सर्वत्राभवद् ॥           | १६ |
| तस्य तां विश्रुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥      | १७ |
| पुरे चाहम्मदावादे राष्ट्रीय शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥          | १८ |
| आचार्यत्वेन तत्रोच्चैर्नियुक्तः स महात्मना । रस-मुनि-निधीन्द्रवन्दे पुरा तत्त्वा ख्यमन्दिरे ॥   | १९ |
| वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥          | २० |
| ततः आगत्य सैलमो राष्ट्रकार्ये च सक्रियम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥     | २१ |
| क्रमात् ततो विनिर्मुक्तः स्थितः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥      | २२ |
| सिंघीपदयुतं जैनज्ञानपीठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्द्रस्य सूनुना ॥              | २३ |
| श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥                     | २४ |
| प्रतिष्ठितश्च तस्यासौ पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् ग्रन्थयन् जैनवाङ्मयम् ॥   | २५ |
| तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे ह्येषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥     | २६ |
| अथैवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ॥                 | २७ |
| वार्ण-रत्न-नैवेन्द्रवन्दे मुंवाहैनगरीस्थितः । मुंशीति विरुदख्यातः कर्णैयालाल-धीसखः ॥            | २८ |
| प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयत्नः सफलोऽचिरात् ॥      | २९ |
| विदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेतः विद्याभवनसञ्ज्ञया ॥              | ३० |
| आहूतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सुहृदा । ततः प्रभृति तत्रापि तत्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥          | ३१ |
| तद्भवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका ह्यपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥          | ३२ |
| नन्द-निर्धय-चन्द्रवन्दे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्थैर्यकृते नूतनयोजना ॥             | ३३ |
| परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंघीकुलभास्वता । भाविद्याभवनार्थं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥                | ३४ |
| प्रदत्ता दशसाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपितृस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥                     | ३५ |
| दैवादल्पे गते काले सिंघीवर्यो दिवंगतः । यस्तस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥               | ३६ |
| पितृकार्यप्रगल्भ्यर्थं यत्नशीलैस्तदात्मजैः । राजेन्द्रसिंहमुख्यैश्च सत्कृतं तद्वचस्ततः ॥        | ३७ |
| पुण्यश्लोकपितुर्नाम्ना ग्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो ह्यर्दलक्षं धनं ददौ ॥    | ३८ |
| ग्रन्थमालाप्रसिद्धयर्थं पितृवत् तस्य कांक्षितम् । श्रीसिंघीसत्पुत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥ | ३९ |
| विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्विर्यं लोके जिनविजयभारती ॥                   | ४० |

# SINGHI JAIN SERIES

Works in the Series already out.

ॐ अद्यावधि मुद्रितग्रन्थनामावलि ॐ

- |                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| १ मेरुणाचार्यरचित प्रबन्धचिन्तामणि<br>मूल संस्कृत ग्रन्थ.          | १९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंग्रह.           |
| २ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिहासिकपरिपूर्ण<br>अनेक निबन्ध संचय. | २० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-श्रुति       |
| ३ राजशेखरसूरिरचित प्रबन्धकोश.                                      | २१ कवि भाहिलरचित पठमसिरीचरित. (अप०)                |
| ४ जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकल्प                                    | २२ महेश्वरसूरिकृत नाणपंचमीकथा. (प्रा०)             |
| ५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य.                             | २३ श्रीभद्रबाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता.           |
| ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.                                  | २४ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा०)           |
| ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.                                | २५ उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य.             |
| ८ भद्रकालकृत अकलङ्कग्रन्थप्रयी.                                    | २६ जयसिंहसूरिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा०)            |
| ९ प्रबन्धचिन्तामणि - हिन्दी भाषांतर.                               | २७ कौञ्जलरचित लीलावई कथा. (प्रा०)                  |
| १० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.                                | २८ जिनदत्ताग्र्यानद्वय. (प्रा०)                    |
| ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणितचरित.                    | २९ स्वयंभूरिचित पठमचरित. भाग १ (अप०)               |
| १२ यशोविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानविन्दुप्रकरण.                        | ३० " " " " २                                       |
| १३ हरिषेणाचार्यकृत घृह्यकथाकोश.                                    | ३१ सिद्धिचन्द्रकृत काम्यप्रकाशसंग्रह.              |
| १४ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग.                             | ३२ दामोदरपण्डित कृत टकिस्यक्तिप्रकरण.              |
| १५ हरिभद्रसूरिविरचित धूर्ताख्यान. (प्राकृत)                        | ३३ मित्रभिज कृत कुमारपालचरित्रसंग्रह.              |
| १६ दुर्गदिवकृत रिष्टसमुच्चय. (प्राकृत)                             | ३४ जिनपालोपाध्यायरचित रत्नतरंगच्छन्दःसुवर्वावलि.   |
| १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.                            | ३५ उल्लोतनसूरिकृत कुचलयमाला कथा. (प्रा०)           |
| १८ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपभ्रंश)                       | ३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरित्रं. (प्रा०)             |
|                                                                    | ३७ पूर्वाचार्यविरचित जयपायड-निमित्तशास्त्र (प्रा०) |
|                                                                    | ३८ धनसारगणीकृत-भर्तृहरशतकत्रयटीका.                 |

## Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Buhler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- स्व. बाबू श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ [ भारतीयविद्या भाग ३ ] सन १९४५.
- Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume.  
BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution  
to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara,  
M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Literary History. Two Volumes.  
By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

## Works in the Press.

ॐ संप्रति मुद्र्यमाणग्रन्थनामावलि ॐ

- |                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| १ विविधगच्छीयपट्टावलिसंग्रह.                                                            | ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. (बौद्धशास्त्र)    |
| २ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, भाग २.                                                       | १० भोजनवृत्तिरचित शृङ्गारमञ्जरी. (संस्कृत कथा)  |
| ३ विज्ञप्तिसंग्रह विज्ञप्ति महालेख-विज्ञप्ति त्रिवेणी<br>आदि अनेक विज्ञप्तिलेख समुच्चय. | ११ रामचन्द्रकविरचित-मल्लिकामकरन्दादिनाटकसंग्रह. |
| ४ कीर्तिकौमुदी आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह.                                              | १२ तरुणप्रभाचार्यकृत षडावश्यकबालावबोधवृत्ति.    |
| ५ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रबन्ध.                                           | १३ प्रद्युम्नसूरिकृत मूलशुद्धिप्रकरण-सटीक       |
| ६ नयचन्द्रविरचित हम्मरीरमहाकाव्य.                                                       | १४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुशासन.             |
| ७ महेंद्रसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. (प्रा०)                                              | १५ स्वयंभुकविरचित पठमचरित. भा० ३                |
| ८ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र-सटीक. (कतिपयअंश)                                               | १६ ठकुर फेरूरचित ग्रन्थावलि (प्रा०)             |



**To**  
**Pandit Dr. Sukhalalaji Sanghavi**  
**and**  
**Āchārya Śrī Jina Vijayaji Muni**

## PREFACE

AFTER working for the last six years and more on the critical edition of this unique Prākṛit Campū, the *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (A. D. 779), it is a matter of pleasure and relief for the Editor that the Text with the Various Readings is being placed before the world of scholars, in this Part I.

The Second Part will include the Introduction which gives a description of the Mss. along with the principles of Text-constitution and presents an exhaustive study of the various aspects of the *Kuvalayamālā*. In it is included a critical edition of Ratnaprabhasūri's *Kuvalayamālā-lathā* which is a stylistic digest in Sanskrit of Uddyotana's Prākṛit work. All this material is nearly ready, and it is hoped that the Second Part also will be published soon.

The Prākṛit Text is edited according to the best standards of critical scholarship. Only two Mss. of this Prākṛit Campū are available one written on paper in Poona (P) and the other on palm-leaf in Jaisalmer (J): both of them are used for this edition.

Muni Shri JINAVIJAYAJI had undertaken a critical edition of this work; and, as early as 1931, he had even printed the first form of it. The students of Prākṛit literature have to regret that due to various preoccupations and multifarious duties this great *savant* could not continue his work on this important Prākṛit Text. A *kalyāṇa-mitra* as he is, he generously placed the Jaisalmer material at my disposal; and it is out of great respect for his wish that I undertook to edit this work. But for his help and constant encouragement I would not have been able to complete this arduous task. Words are inadequate to express my sense of gratitude towards him.

My sincere thanks are due to the ex-Government of Kolhapur and the University of Poona for their research grants which enabled me to continue my work on the *Kuvalayamālā*.

Two years back some unexpected developments were about to dislocate my work on the *Kuvalayamālā*. Thanks to Pt. Dr. Sukhalalji Sanghavi, Ahmedabad, Dr. Hiralal Jain, Muzffarpur, and other well-wishers that I could complete the text-constitution of this *Kuvalayamālā* which by its publication has positively enhanced the greatness of Indian literature in general and Prākṛit literature in particular.

*Karmaṇyevādhikāras te.*

Rajaram College }  
Kolhapur : 1-5-59. }

A. N. UPADHYE

# किञ्चित् प्रास्ताविक ।

( कुवलयमाला कथाके प्रकाशनकी पूर्व कथा । )

\*

अनेक वर्षोंसे जिसके प्रकाशित होनेकी विद्वानोको विशिष्ट उत्कण्ठा हो रही थी, उस दाक्षिण्य चिंहाङ्कित उद्धोतन सूरिकी बनाई हुई प्राकृत महाकथा कुवलयमाला, सिंधी जैन ग्रन्थमाला के ४५ वें मणिरत्नके रूपमें, आज प्रकट करते हुए मुझे अतीव हर्षानुभव हो रहा है ।

इस कथा ग्रन्थको इस रूपमें प्रकट करनेका आजसे कोई ४५ वर्ष पूर्व, मेरा संकल्प हुआ था ।

विद्वन्मतल्लिक मुनिवर्य्य श्री पुण्यविजयजीके स्वर्गीय गुरुवर्य्य श्री चतुरविजयजी महाराजने रत्नप्रमसूरिकृत गद्यमय सस्कृत कुवलयमाला कथाका संपादन करके भावनगरकी जैन आत्मानन्द सभा द्वारा ( सन् १९१६ ) प्रकाशित करनेका सर्वप्रथम सुप्रयत्न किया, तब उसकी सक्षिप्त प्रस्तावनामें प्रस्तुत प्राकृत कथाका आद्यन्त भाग उद्धृत करनेकी दृष्टिसे, पूनाके राजकीय ग्रन्थसंग्रह ( जो उस समय डेक्कन कॉलेजमें स्थापित था ) में सुरक्षित इस ग्रन्थकी, उस समय एकमात्र ज्ञात प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मगवाई गई । हमारे स्वर्गस्थ विद्वान् मित्र चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, एम्. ए. ने उस समय 'गायकवाडस् ओरिण्टल सिरीज़' का काम प्रारंभ किया था । प्रायः सन् १९१५ के समयकी यह बात है । उन्हींके प्रयत्नसे पूना वाली प्रति वडौदामें मंगवाई गई थी । मैं और श्री दलाल दोनो मिल कर उस प्रतिके कुछ पन्ने कई दिन टटोलते रहे, और उसमेंसे कुछ महत्त्वके उद्धरण नोट करते रहे । श्री दलालके हस्ताक्षर बहुत ही अव्यवस्थित और अस्पष्ट होते थे अतः इस ग्रन्थगत उद्धरणोंका आलेखन मैं ही स्वयं करता था । ग्रन्थका आदि और अन्त भाग मैंने अपने हस्ताक्षरोंमें सुन्दर रूपसे लिखा था । उसी समय कथागत वस्तुका कुछ विशेष अवलोकन हुआ और हम दोनोंका यह विचार हुआ कि इस ग्रन्थको प्रकट करना चाहिये । मैंने श्री दलालकी प्रेरणासे, गायकवाड सीरीज़के लिये, सोमप्रभाचार्य रचित कुमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत ग्रन्थका संपादन कार्य हाथमें लिया था; और उसका छपना भी प्रारंभ हो गया था । मैंने मनमें सोचा था कि कुमारपालप्रतिबोधका संपादन समाप्त होने पर, इस कुवलयमालाका संपादन कार्य हाथमें लिया जाय ।

श्री दलाल द्वारा संपादित गायकवाडस् ओरिण्टल सीरीज़का प्रथम ग्रन्थ राजशेखरकृत 'काव्यमीमांसा' प्रकट हुआ । इसके परिशिष्टमें, कुवलयमालाके जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनकी मूल नकल सर्वप्रथम मैंने ही की थी ।

पूना वाली प्रतिका ऊपर ऊपरसे निरीक्षण करते हुए मुझे आभास हुआ कि वह प्रति कुछ अशुद्ध है । पर उस समय, जेसलमेरकी प्रति ज्ञात नहीं थी । उसी वर्ष जेसलमेरके ज्ञानभडारोंका निरीक्षण करनेके लिये, स्वर्गवासी विद्याप्रिय सयाजीराव गायकवाड नरेशका आदेश प्राप्त कर, श्री दलाल वहा गये और प्रायः तीन महिना जितना समय व्यतीत कर, वहाके मंडारोकी ग्रन्थराशिका उनने ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया । तभी उनको जेसलमेरमें सुरक्षित प्राकृत कुवलयमालाकी ताडपत्रीय प्राचीन प्रतिका पता लगा । पर उनको उसके ठीकसे देखनेका अवसर नहीं मिला था, अतः इसकी कोई विशेषता उनको ज्ञात नहीं हुई । बादमें वडौदासे मेरा प्रस्थान हो गया ।

सन् १९१८ में मेरा निवास पूनामें हुआ । भाडारकर ओरिण्टल रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके काममें, जैन समाजसे कुछ विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करानेकी दृष्टिसे, इन्स्टिट्यूटके मुख्य स्थापक

विद्वान् स्वर्गवासी डॉ० पाण्डुरंग गुणे, डॉ० एन्. जी. सरदेसाई और डॉ० एस्. के. बैल्लकर आदिके आमंत्रणसे मैं पूना गया था। मेरा उद्देश इन्स्टिट्यूटकी स्थापनामें जैन समाजसे कुछ आर्थिक सहायता दिलानेके साथ, स्वयं मेरा आन्तरिक प्रलोभन, पूनाके उस महान् ग्रन्थसंग्रहको भी देखनेका था जिसमें जैन साहित्यके हजारों उत्तमोत्तम ग्रन्थ संग्रहीत हुए हैं। पूनामें जा कर, मैं एक तरफसे इन्स्टिट्यूटको अपेक्षित आर्थिक मदत दिलानेका प्रयत्न करने लगा, दूसरी तरफ मैं यथावकाश ग्रन्थसंग्रहके देखनेका भी काम करने लगा। उस समय यह ग्रन्थसंग्रह, डेकन कॉलेजके सरकारी मकानमेंसे हट कर, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटका जो नया, पर अधूरा, मकान बना था उसमें आ गया था।

अहमदाबादकी वर्तमान गुजरात विद्या सभाके विशिष्ट संचालक, प्रो० श्री रसिकलाल छोटालाल परीख, जो उस समय पूनाकी फर्गुसन कॉलेजमें रीसर्च स्कॉलरके रूपमें विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे, मेरे एक अभिन्नहृदयी मित्र एवं अतीव प्रिय शिष्यके रूपमें, इस महान् ग्रन्थसंग्रहके निरीक्षण कार्यमें मुझे हार्दिक सहयोग दे रहे थे।

सन् १९१९ के नवंबर मासमें, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी तरफसे, भारतके प्राच्यविद्यामित्र विद्वानोकी सुविख्यात ओरिएण्टल कॉन्फरन्सका सर्वप्रथम अधिवेशन बुलानेका महद् आयोजन किया गया। मैंने इस कॉन्फरन्समें पढ़नेके लिये महान् आचार्य हरिभद्रसूरिके समयका निर्णय कराने वाला निवन्ध लिखना पसन्द किया।

इन आचार्यके समयके विषयमें भारतके और युरोपके कई विख्यात विद्वानोंमें कई वर्षोंसे परस्पर विशिष्ट मतभेद चल रहा था जिनमें जर्मनीके महान् भारतीयविद्याविज्ञ डॉ० हेर्मान याकोबी मुख्य थे।

जैन परंपरामें जो बहु प्रचलित उल्लेख मिलता है उसके आधार पर आचार्य हरिभद्रसूरिका स्वर्गमन विक्रम संवत् ५८५ माना जाता रहा है। पर डॉ० याकोबीको हरिभद्रके कुछ ग्रन्थगत उल्लेखोंसे यह ज्ञात हुआ कि उनके स्वर्गमनकी जो परंपरागत गाथा है वह ठीक नहीं बैठ सकती। हरिभद्रके स्वयंके कुछ ऐसे निश्चित उल्लेख मिलते हैं जिनसे उनका वि० सं० ५८५ में स्वर्गमन सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, उनको महर्षि सिद्धर्षिकी उपमितिभवप्रपंचा कथामें जो उल्लेख मिलता है, कि आचार्य हरिभद्र उनके धर्मबोधकर गुरु हैं,—इसका रहस्य उनकी समझमें नहीं आ रहा था। सिद्धर्षिने अपनी वह महान् कथा विक्रम संवत् ९६२ में बनाई थी, जिसका स्पष्ट और सुनिश्चित उल्लेख उनने स्वयं किया है। अतः डॉ० याकोबीका मत बना था कि हरिभद्र, सिद्धर्षिके समकालीन होने चाहिये। इसका विरोधी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको मिल नहीं रहा था। अतः वे हरिभद्रका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दी स्थापित कर रहे थे। जैन विद्वान् अपनी परंपरागत गाथा का ही संपूर्ण समर्थन कर रहे थे।

मेरे देखनेमें प्राकृत कुवलयमालागत जब वह उल्लेख आया जिसमें कथाकारने अनेकशास्त्रप्रणेता आचार्य हरिभद्रको अपना प्रमाणशास्त्रशिक्षक गुरु बतलाया है और उनकी बनाई हुई प्रख्यात प्राकृत रचना 'समराइच्चकहा' का भी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है, तब निश्चय हुआ कि हरिभद्र कुवलयमालाकथाकार उद्द्योतनसूरिके समकालीन होने चाहिये। उद्द्योतनसूरिने अपनी रचनाका निश्चित समय, ग्रन्थान्तमें बहुत ही स्पष्ट रूपसे दे दिया है; अतः उसमें भ्रान्तिको कोई स्थान नहीं रहता। उद्द्योतनसूरिने कुवलयमालाकी रचनासमाप्ति शक संवत् ७०० के पूर्ण होनेके एकदिन पहले की थी। राजस्थान और उत्तर भारतकी परंपरा अनुसार चैत्रकृष्णा अमावस्याको शक संवत्सर पूर्ण होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको नया संवत्सर चालू होता है। उद्द्योतनसूरिने चैत्रकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपनी ग्रन्थसमाप्ति की, अतः उनने स्पष्ट लिखा

कि एक दिन न्यून रहते, शक संवत्सर ७०० में यह ग्रन्थ समाप्त हो रहा है। शक संवत्सर ७०० की तुलनामें विक्रम संवत् ८३५ आता है। इस दृष्टिसे हरिभद्रसूरि, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें हुए यह निश्चिन्त होता है। न वे जैसा कि परंपरागत गाथामें सूचित वि० सं० ५८५ में ही स्वर्गस्थ हुए, और न सिद्धार्थिके समकालीन वि० सं० ९६२ के आसपास ही हुए।

मैंने इस प्रमाणको सन्मुख रख कर, हरिभद्रसूरिके समयका निर्णायक निबन्ध लिखना शुरू किया था। पर साथमें पूनाके उक्त ग्रन्थसंग्रहमें उपलब्ध हरिभद्रसूरिके अन्यान्य विशिष्ट ग्रन्थोंके अवलोकनका भी मुझे अच्छा अवसर मिला। इन ग्रन्थोंमें कई ऐसे विशिष्ट अन्य प्रमाण मिले जो उनके समयका निर्णय करनेमें अधिक आधाररूप और ज्ञापकरूप थे। डॉ० याकोवीके अवलोकनमें ये उल्लेख नहीं आये थे, इस लिये मुझे अपने निबन्धके उपयोगी ऐसी बहुत नूतन सामग्री मिल गई थी, जिसका पूरा उपयोग मैंने अपने उस निबन्धमें किया।

मैंने अपना यह निबन्ध संस्कृत भाषामें लिखा। और उक्त 'ऑल इण्डिया ओरिएण्टल कॉन्फरन्स'के प्रमुख अधिवेशनमें विद्वानोंको पढ़ कर सुनाया। उस कॉन्फरन्सके मुख्य अध्यक्ष, स्वर्गस्थ डॉ० संतीशचन्द्र विद्याभूषण थे, जो उन दिनों भारतके एक बहुत गण्य मान्य विद्वान् माने जाते थे। उनमें भी अपने एक ग्रन्थमें हरिभद्रसूरिके समयकी थोड़ीसी चर्चा की थी। मैंने अपने निबन्धमें इनके कथनका भी उल्लेख किया था और उसको अमगत बता कर उसकी आलोचना भी की थी। विद्याभूषण महाशय स्वयं मेरे निबन्धपाठके समय श्रोताके रूपमें उपस्थित थे। मेरे दिये गये प्रमाणोंको सुन कर, वे बहुत प्रसन्न हुए। मेरी की गई आलोचनाको उदार हृदयसे विल्कुल सत्य मान कर उनमें, बादमें मेरे रहनेके निवासस्थान पर आकर, मुझे बड़े आदरके साथ बधाई दी। ऐसे सत्यप्रिय और साहित्यनिष्ठ प्रखर विद्वान्की बधाई प्राप्त कर मैंने अपनेको धन्य माना। पीछेसे मैंने इस निबन्धको पुस्तिकाके रूपमें छपवा कर प्रकट किया और फिर बादमें, 'जैन साहित्य संशोधक' नामक संग्रहनात्मक त्रैमासिक पत्रका संपादन व प्रकाशन कार्य, स्वयं मैंने शुरू किया, तब उसके प्रथम अंकमें ही "हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय" नामक विस्तृत लेख हिन्दीमें तैयार करके प्रकट किया।

मैंने इन लेखोंकी प्रतियां जर्मनीमें डॉ० याकोवीको भेजी जो उस समय, आधुनिक पश्चिम जर्मनीकी राजधानी बॉन नगरकी युनिवर्सिटीमें भारतीय विद्याके प्रख्यात प्राध्यापकके पद पर प्रतिष्ठित थे। डॉ० याकोवीने मेरे निबन्धको पढ़ कर अपना बहुत ही प्रसन्न भाव प्रकट किया। यद्यपि मैंने तो उनके विचारोंका खण्डन किया था और कुछ अनुदार कहे जाने वाले शब्दोंमें भी उनके विचारोंकी आलोचना की थी। पर उस महामना विद्वान्ने, सत्यको हृदयसे सत्य मान कर, कटु शब्दप्रयोगका कुछ भी विचार नहीं किया और अपनी जो विचार-भ्रान्ति थी उसका निश्छिन्न भावसे पूर्ण स्वीकार कर, मेरे कथनका संपूर्ण समर्थन किया।

हरिभद्रसूरिकी **समराइच्चकहा** नामक जो विशिष्ट प्राकृत रचना है उसका संपादन डॉ० याकोवीने किया है और बंगालकी एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 'त्रिविध्योयिका इन्डिका' नामक सीरीज़में वह प्रकट हुई है। इस ग्रन्थकी भूमिकामें डॉ० याकोवीने मेरे निबन्धकी प्रशंसा करते हुए वे सारी बातें बड़े विस्तारसे लिखी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दिया है।

डॉ० याकोवीके विचारोंको जब मैंने पढ़ा तो मुझे जर्मनीके महान् विद्वानोंकी सत्यप्रियता, ज्ञानोपासना एवं कर्तव्यनिष्ठाके प्रति अत्यन्त समादर भाव उत्पन्न हुआ। मेरे मनमें हुआ कि कहा डॉ० याकोवी जैसा महाविद्वान्, जिसको समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिका हस्तामलकवत् स्पष्ट दर्शन हो रहा है, और कहा

मेरे जैसा एक अतीव अल्पज्ञ और यथाकथंचित् पुस्तकपाठी सामान्य विद्यार्थी जन, जिसको अभी संशोधन की दिशाकी भी कोई कल्पना नहीं है—वैसे एक सिखाऊ अभ्यासीके लिखे गये लेखके विचारोंका स्वागत करते हुए, इस महान् विद्यानिधि विद्वान्ने कितने बड़े उदार हृदयसे अपनी भूलका स्वीकार किया और मुझे धन्यवाद दिया। मेरे मनमें उसी समयसे जर्मन विद्वत्ता और विद्याप्रियताके प्रति अतीव उत्कृष्ट आदरभाव उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हींके प्रदर्शित मार्ग पर चल कर, अपनी मनोगत जिज्ञासा और ज्ञानपिपासाको तृप्त करते रहनेका संकल्प किया। मैं मान रहा हूँ कि मेरी यह जो अल्प-खल्प साहित्योपासना आज तक चलती रही है उसमें मुख्य प्रेरक वही संकल्प है।

इस कुवलयमालाके अन्तभागमें जहां हरिभद्रसूरिका उल्लेख किया गया है वह गाथा पूनावाली प्रतिमें कुछ खण्डित पाठवाली थी। मैंने त्रुटित अक्षरोंको अपनी कल्पनाके अनुसार वहां छिठानेका प्रयत्न किया। इसी प्रसंगमें पुनः कुवलयमालाकी प्रतिको बारंबार देखनेका अवसर मिला और मैं इनमेंसे अन्यान्य भी अनेक इतिहासोपयोगी और भाषोपयोगी उल्लेखोंके नोट करते रहा जो आज भी मेरी फाईलोंमें दबे हुए पड़े हैं।

पूनामें रहते हुए स्व० डॉ० गुणेसे घनिष्ठ संपर्क हुआ। वे जर्मनी जा कर, वहांकी युनिवर्सिटीमें भारतीय भाषाविज्ञानका विशिष्ट अध्ययन कर आये थे और जर्मन भाषा भी सीख आये थे। अतः वे जर्मन विद्वानोंकी शैलीके अनुकरण रूप प्राचीन ग्रन्थोंका संपादन आदि करनेकी इच्छा रखते थे। वे प्राकृत और अपभ्रंश भाषा साहित्यका विशेष अध्ययन करना चाहते थे। मुझे भी इस विषयमें विशेष रुचि होने लगी थी, अतः मैं उनको जैन ग्रन्थोंके अवतरणों और उल्लेखों आदिकी सामग्रीका परिचय देता रहता था। उनकी इच्छा हुई कि किसी एक अच्छे प्राकृत ग्रन्थका या अपभ्रंश रचनाका संपादन किया जाय। मैंने इसके लिये प्रस्तुत कुवलयमाला का निर्देश किया, तो उनने कहा कि—‘आप इसके मूल ग्रन्थका संपादन करें; मैं इसका भाषाविषयक अन्वेषण तैयार करूँ; और अपने दोनोंकी संयुक्त संपादनकृतिके रूपमें इसे भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित होने वाली, राजकीय ग्रन्थमालामें प्रकट करनेका प्रबन्ध करें।’ इस विचारके अनुसार मैंने स्वयं कुवलयमालाकी प्रतिलिपि करनेका प्रारंभ भी कर दिया।

सन् १९१९-२० में देशमें जो भयंकर इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ, उसका शिकार मैं भी बना और उसमें जीवितका भी संशय होने जैसी स्थिति हो गई। ३-४ महिनोमें बड़ी कठिनतासे स्वस्थता प्राप्त हुई। इसी इन्फ्लुएंजाके प्रकोपमें, बडौदानिवासी श्री चिमनलाल दलालका दुःखद स्वर्गवास हो गया, जिसके समाचार जान कर मुझे बड़ा मानसिक आघात हुआ। मैं गायकवाडस् ओरिएन्टल सीरीजके लिये जिस कुमारपालप्रतिबोध नामक प्राकृत विशाल ग्रन्थका संपादन कर रहा था उसमें भी कुछ व्याघात हुआ। श्री दलाल स्वयं धनपालकी अपभ्रंश रचना भविस्सयत्तकहा का संपादन कर रहे थे। उसका कार्य अधूरा रह गया। सीरीजका इन्चार्ज उस समय जिनके पास रहा वे बडौदाके ओरिएन्टल इन्स्टीट्यूटके क्युरेटर डॉ० ज. स. कुडालकर मेरे पास आये और दलाल संपादित अधूरे ग्रन्थोंके कामके बारेमें परामर्श किया। भविस्सयत्तकहा का काम डॉ० गुणेको सौंपनेके लिये मैंने कहा और वह स्वीकार हो कर उनको दिया गया।

महात्माजीने १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, और मैं उसमें एक विशिष्ट सेवकके रूपमें संलग्न हो गया। मेरे प्रस्तावानुसार विद्यापीठके अन्तर्गत ‘भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट’के नमूने पर ‘गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर’की स्थापना की गई और मैं उसका मुख्य संचालक बनाया गया।

मेरी साहित्यिक प्रवृत्तिका केन्द्र पूनासे हट कर अब अहमदाबाद बना। मैंने गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित करने योग्य कई प्राचीन ग्रन्थोंके संपादनकार्यकी योजना बनाई। इन ग्रन्थोंमें यह

कुवलयमाला भी सम्मिलित थी। डॉ० गुणे पीछेसे क्षयरोगग्रस्त हो गये। उनके साथ जो इसके सहसंपादन का विचार हुआ था वह अब सम्भव नहीं रहा। पर मेरी इच्छा इस ग्रन्थको प्रकट करनेकी प्रबल बनी हुई थी, उसके परिणामस्वरूप मैंने अहमदाबादमें एक उत्तम प्रतिलिपि करने वाले कुशल लेखकसे पूरे ग्रन्थकी प्रेस कॉपी करवा ली।

इसी बीचमें स्व० पूज्यपाद प्रवर्तकजी श्री कान्तिविजयजी व श्री चतुरविजयजी महाराजके प्रयत्नसे जेसलमेरकी ताडपत्र वाली प्राचीन प्रतिकी फोटो कॉपी उतर कर आ गई। इसके आधार पर अब ग्रन्थका संपादनकार्य कुछ सुगम मान कर मैंने दोनों प्रतियोंके पाठभेद लेने शुरू किये। गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी ओरसे अनेक ग्रन्थोका संपादन—प्रकाशन कार्य चाट्ट किया गया था, इस लिये इसका कार्य कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। इतनेमें मेरा मनोरथ जर्मनी जानेका हुआ और जिन जर्मन विद्वानोंके सङ्घनात्मक कार्योंके प्रति मेरी उक्त रूपसे विशिष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, उनके कार्यकेन्द्रोका और उनकी कार्यपद्धतिका, प्रत्यक्ष अनुभव कर आनेकी मेरी इच्छा बलवती हो गई। इंग्रेजी भाषाके प्रति मेरी कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी और मुझे इसके ज्ञानकी प्राप्तिकी कोई वैसी सुविधा भी नहीं मिली थी। पर जब मुझे ज्ञात हुआ कि जर्मन भाषामें, हमारी भारतीय विद्या और सस्कृति पर प्रकाश डालने वाला जितना मौलिक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका अंश भी इंग्रेजी भाषामें नहीं है, तब मेरी आकांक्षा जर्मन भाषाके सीखनेकी बहुत ही बलवती हो उठी। मेरे जैसी परिस्थिति और प्रकृति वाले व्यक्तिके लिये, इस देशमें बैठे बैठे जर्मन भाषाका विशेष परिचय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ। क्यों कि जर्मन सीखनेके लिये पहले इंग्रेजी भाषाका अच्छा ज्ञान होना चाहिये, उसके माध्यमसे ही जर्मन भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। मेरे लिये वैसा होना सम्भव नहीं लगा, अतः मैंने सोचा कि जर्मनीमें जा कर कुछ समय रहनेसे अधिक सरलताके साथ, जर्मन भाषा सीधे तौरसे सीखी जा सकेगी, और साथमें वहाके विद्वानो, लोगो, सस्थाओ, कारखानों, विद्यालयो, पुस्तकालयो एवं प्रदेशों, नगरों, गावों आदिका साक्षात् परिचय भी प्राप्त हो सकेगा।

मैंने अपना यह मनोरथ महात्माजीके सम्मुख प्रकट किया, तो उनने बड़े सद्भावपूर्वक मेरे मनोरथको प्रोत्साहन दिया और मुझे २ वर्षके लिये गुजरात विद्यापीठसे छुट्टी ले कर जा आनेकी अनुमति प्रदान कर दी। इतना ही नहीं परन्तु अपने युरोपीय मित्रोके नाम एक जनरल नोट भी अपने निजी हस्ताक्षरोसे लिख कर दे दिया। उधर जर्मनीसे भी मुझे प्रो० याकोबी, प्रो० शुर्नीग आदि परिचित विद्वानोके प्रोत्साहनक पत्र प्राप्त हो गये थे—जिससे मेरा उत्साह द्विगुण हो गया। सन् १९२८ के मई मासकी २६ तारीखको मैं ववईसे P and O की स्टीमर द्वारा विदा हुआ।

जर्मनीमें जाने पर प्रो० याकोबी, प्रो० शुर्नीग, प्रो० ग्लाजेनाप, डॉ० आल्सडोर्फ, प्रो० ल्युडर्स और उनकी विद्वुपी पत्नी आदि अनेक भारतीय विद्याके पारंगत विद्वानोंका घनिष्ठ सपर्क हुआ और उन उन विद्वानोंका स्नेहमय, सौजन्यपूर्ण, सद्भाव और सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मन राष्ट्र मुझे अपने देशके जितना ही प्रिय लगा। मैं वहाके लोगोका कल्पनातीत पुरुषार्थ, परिश्रम और विद्या एवं विज्ञानविषयक प्रभुत्व देख कर प्रसुद्धित ही नहीं, प्रसुग्ध हो गया। हांबुर्गमें डॉ० याकोबीसे भेंट हुई। उनके साथ अनेक ग्रन्थोंके संपादन—सशोधन आदिके बारेमें बात-चीत हुई। उसमें इस कुवलयमालाका भी जिक्र आया। उनने इस ग्रन्थको प्रसिद्ध कर देनेकी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने जो पूना वाली प्रति परसे प्रतिलिपि करवा ली थी उसका परिचय दिया और साथमें जेसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतिकी फोटू कापी भी प्राप्त हो गई है, इसका भी जिक्र किया। मैंने इन दोनों प्रतियोंके विशिष्ट प्रकारके पाठभेदोंका परिचय दे कर अपना अभिप्राय प्रकट किया कि

कुवलयमालाकी आज तक ये दो ही मूल प्रतियां उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी प्रति अभी तक कहीं ज्ञात नहीं है। ये दोनों प्रतियां विल्कुल स्वतंत्र हैं। इनमें जो पाठभेद प्राप्त हो रहे हैं वे ऐसे हैं जो स्वयं ग्रन्थकार ही के किये हुए होने चाहिये। डॉ० याकोबी इस बातको सुन कर चकित हुए। उनने स्वयं कुवलयमालाके इस प्रकारके पाठभेद वाले १०-२० उदाहरण देखने चाहे। पर मेरे पास उस समय इसकी प्रतिलिपि थी नहीं। मैंने पीछेसे उनको इसके भेजनेका अभिवचन दिया। जैन भण्डारोंमें ऐसे कुछ ग्रन्थ मेरे देखनेमें आये हैं जो इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकार द्वारा किये गये पाठान्तरोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं। प्रो० वेवरके बर्लिन वाले हस्तलिखित ग्रन्थोंके विशाल कैटेलॉगमें से धर्मसागर उपाध्यायकी तपागच्छीय पट्टावलिका मैंने उल्लेख किया, जिसको उनने अपनी नोटबुकमें लिख लिया। प्रो० याकोबीने वार्ताके अन्तमें अपना अभिप्राय पुनः दौराया कि आप भारत जा कर कुवलयमालाको प्रकट कर देनेका प्रयत्न अवश्य करें।

हाम्बुर्गमें मैं ३-४ महीने रहा और जैन साहित्यके गर्मज्ञ विद्वान् प्रो० शुर्बागके और उनके विद्वान् शिष्य डॉ० आल्सडोर्फ वगैरहके साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा विषयक जैन साहित्यके प्रकाशन आदिके बारेमें विशेष रूपसे चर्चा वार्ता होती रही। डॉ० आल्सडोर्फ उस समय, गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरीज़में प्रकाशित 'कुमारपालप्रतिबोध' नामक बृहत् प्राकृत ग्रन्थका जो मैंने संपादन किया था उसके अन्तर्गत अपभ्रंश भाषामय जो जो प्रकरण एवं उद्धरण आदि थे उनका विशेष अध्ययन करके उस पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही तैयार कर रहे थे।

हाम्बुर्गसे मैं फिर जर्मनीकी जगद्विख्यात राजधानी बर्लिन चला गया। वहांकी युनिवर्सिटीमें, भारतीय विद्याओंके पारंगत विद्वान् गेहाइमराट्ट, प्रो० हाइन्रीश ल्युडर्स और उनकी विदुषी पत्नी डॉ० एल्जे ल्युडर्ससे घनिष्ठ स्नेहसंबन्ध हुआ। मैं वारंवार उनके युनिवर्सिटी वाले रूममें जा कर मिलता और बैठता। वे भी अनेक बार मेरे निवासस्थान पर बहुत ही सरल भावसे चले आते। उस वर्षकी दीवालीके दिन मैंने उन महामनीषी दम्पतीको अपने स्थान पर भोजन के लिये निमंत्रित किया था—जिसका सुखद स्मरण आज तक मेरे मनमें बड़े गौरवका सूचक बन रहा है। डॉ० ल्युडर्सकी व्यापक विद्वत्ता और भारतीय संस्कृतिके ज्ञानकी विशालता देख देख कर, मेरे मनमें हुआ करता था कि यदि जीवनके प्रारंभकालमें—जब विद्याध्ययनकी रुचिका विकास होने लगा था, उस समय,—ऐसे विद्यानिधि गुरुके चरणोंमें बैठ कर ५-७ वर्ष विद्या ग्रहण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानज्योति कितनी अच्छी प्रज्वलित हो सकती और मेरी उत्कट ज्ञानपिपासा कैसे अधिक तृप्त हो सकती। डॉ० ल्युडर्स भारतकी प्राग्-मध्यकालीन प्राकृत बोलियोंका विशेष अनुसन्धान कर रहे थे। मैंने उनको कुवलयमालामें उपलब्ध विविध देशोंकी बोलियोंके उस उल्लेखका जिक्र किया जो प्रस्तुत आवृत्तिके पृष्ठ १५१-५३ पर मुद्रित है। उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस विषयके संबन्धका पूरा उद्धरण उनको उपलब्ध कर दूं। पर उस समय मेरे पास वह था नहीं, और मेरे लिखने पर कोई सज्जन यहांसे उसकी प्रतिलिपि करके भेज सके ऐसा प्रबन्ध हो नहीं सका।

जर्मनीसे जब वापस आना हुआ तब, थोड़े ही समय बाद, महात्माजीने भारतकी स्वतंत्रताप्राप्तिके लिये नमक-सत्याग्रहका जो देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया था उसमें भाग लेने निमित्त मुझे ६ महीनेकी कठोर कारावास वाली सजा मिली और नासिककी सेंट्रल जेलमें निवास हुआ। उस समय मान्य मित्रवर श्री कन्हैया-लालजी मुन्शीका भी उस निवासस्थानमें आगमन हुआ। हम दोनों वहां पर बड़े आनन्द और उल्हासके साथ अपनी साहित्यिक चर्चाएं और योजनाएं करने लगे। वहीं रहते समय श्री मुन्शीजीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर' के बहुतसे प्रकरण लिखे, जिनके प्रसंगमें गुजरातके प्राचीन साहित्यके



विषयमें परस्पर बहुत ऊहापोह होता रहा और इस कुवलयमाला कथाके विषय और वर्णनोके बारेमें भी इनको बहुत कुछ जानकारी कराई गई । नासिकके जेलनिवास दरम्यान ही मेरा सकल्प और भी अधिक दृढ़ हुआ कि अवसर मिलते ही अब सर्वप्रथम इस ग्रन्थके प्रकाशनका कार्य हाथमें लेना चाहिये ।

जेलमेंसे मुक्ति मिलने बाद, बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके आग्रह पर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके सान्निध्यमें रहनेकी इच्छासे, मैंने कुछ समय विश्वभारती—शान्तिनिकेतनमें अपना कार्यकेन्द्र बनानेकी योजना की । सन् १९३१ के प्रारंभमें शान्तिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की गई और उसके साथ ही प्रतुत सिंघी जैन ग्रन्थमालाके प्रकाशनकी भी योजना बनाई गई ।

अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठस्थित गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी ग्रन्थावलि द्वारा जिन कई ग्रन्थोके प्रकाशनका कार्य मैंने निश्चित कर रखा था, उनमेंसे प्रबन्धचिन्तामणि आदि कई ऐतिहासिक विषयके ग्रंथोका मुद्रणकार्य, सर्वप्रथम हाथमें लिया गया । प्रबन्धचिन्तामणिका कुछ काम, जर्मनी जानेसे पूर्व ही मैंने तैयार कर लिया था और उस ग्रन्थको बंबईके कर्णाटक प्रेसमें छपनेको भी ठे दिया था । ५-६ फार्म छप जाने पर, मेरा जर्मनी जानेका कार्यक्रम बना और जिससे वह कार्य वहाँ रुक गया । मेरे जर्मनी चले जाने बाद, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरका वह कार्य प्रायः सदाके लिये स्थगित-सा हो गया । इस लिये शान्तिनिकेतनमें पहुँचते ही मैंने इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया और बंबईके सुविख्यात निर्णयसागर प्रेसमें इसे छपनेके लिये दिया ।

इसीके साथ ही मैंने कुवलयमालाका काम भी प्रारंभ किया । शान्तिनिकेतनमें विश्वभारतीके मुख्य अध्यापक दिवगत आचार्य श्री विधुशेखर भट्टाचार्यके साथ इस ग्रन्थके विषयमें विवेक चर्चा होती रही । उनको मैंने इस ग्रन्थके अनेक अवतरण पढ कर सुनाये और वे भी इस ग्रन्थको शीघ्र प्रकाशित करनेका साग्रह परामर्श देते रहे ।

इस ग्रन्थको किस आकारमें और कैसे टाईपमें छपवाया जाय इसका परामर्श मैंने प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर किया । और फिर पहले नमूनेके तौर पर १ फार्मकी प्रेसकॉपी ठीक करनेके लिये, पूना और जेसलमेर वाली दोनों प्रतियोके पाठमेद लिख कर उनको किस तरह व्यवस्थित किया जाय इसका उपक्रम किया ।

पूना वाली प्रति परसे तो मैंने पहले ही अहमदाबादमें उक्त रूपमें एक अच्छे प्रतिलिपिकारके हाथसे प्रतिलिपि करवा रखी थी और फिर उसका मिलान जेसलमेरकी प्रतिके लिये गये फोटोसे करना प्रारंभ किया । जैसा कि विज्ञ पाठक प्रस्तुत मुद्रणके अवलोकनसे जान सकेंगे कि इन दोनो प्रतियोमें परस्पर बहुत पाठमेद हैं और इनमें से कौनसी प्रतिका कौनसा पाठ मूलमें रखा जाय और कौनसा पाठ नीचे रखा जाय इसके लिये प्रत्येक शब्द और वाक्यको अनेक बार पढना और मूल पाठके औचित्यका विचार करना बड़ा परिश्रमदायक काम अनुभूत हुआ । इसमें भी जेसलमेरकी जो फोटोकॉपी सामने थी वह उतनी स्पष्ट और सुवाच्य नहीं थी, इस लिये वारंवार सूक्ष्मदर्शक काचके सहारे उसके अक्षरोका परिज्ञान प्राप्त करना, मेरी बहुत ही दुर्बल ज्योति वाली आंखोके लिये बड़ा कष्टदायक कार्य प्रतीत हुआ । पर मैंने बड़ी साइझके ८-१० पृष्ठोंका पूरा मेटर तैयार करके प्रेसको भेज दिया और किस टाईपमें यह ग्रन्थ मयपाठमेदोके ठीक ढंगसे अच्छा छपेगा और सुपाठ्य रहेगा, इसके लिये पहले १-२ पृष्ठ, ३-४ जातिके भिन्न भिन्न टाईपोंमें कंपोज करके भेजनेके लिये प्रेसको सूचना दी और तदनुसार प्रेसने वे नमूनेके पेज कंपोज करके मेरे पास भेज दिये । मैंने उस समय इस ग्रन्थको, डिमाई ४ पेजी जैसी बड़ी साइझके आकारमें छपवाना निश्चित

किया था। क्यों कि सिरीज़के मूल संरक्षक स्व० बाबू बहादुर सिंहजी सिंघी, ग्रन्थमालाके सुन्दर आकार, प्रकार, मुद्रण, कागज, कवर, गेट-अप आदिके बारेमें बहुत ही दिलचस्पी रखते थे और प्रत्येक बातमें बड़ी सूक्ष्मता और गहराईके साथ विचार-विनिमय करते रहते थे। ग्रन्थमालाके लिये जो सर्वप्रथम आकार-प्रकार मैंने पसन्द किया, उसमें उनकी पसन्दगी भी उतनी ही मुख्य थी। प्रेसने जो नमूनेके पृष्ठ मेजे उसमें से मैंने निर्णयसागर प्रेसके स्पेशल टाईप ग्रेट नं. ३ में ग्रन्थका छपवाना तय किया। क्यों कि इस टाईपमें ग्रन्थकी प्रत्येक गाथा, पृष्ठकी एक पंक्तिमें, अच्छी तरह समा सकती है और उस पर पाठ-मेद और पाठ-टिप्पणी के लिये सूचक अंकोंका समावेश भी अच्छी तरह हो सकता है। प्रेसने मेरे कहनेसे इसके लिये बिल्कुल नया टाईप तैयार किया और उसमें २ फार्म एक साथ कंपोज करके मेरे पास उसके प्रुफ मेज दिये।

जिन दिनों ये प्रुफ मेरे पास पहुंचे, उन दिनोंमें मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब था और उसी अवस्थामें मैंने प्रुफ देखने और मूल परसे पाठमेदोंका मिळान करके उनको ठीक जगह रखनेका विशेष परिश्रम किया। खास करके जेसलमेर वाली फोटोकॉपीको, प्रतिवाक्यके लिये देखने निमित्त आंखोंको जो बहुत श्रम करना पडा उससे शिरोवेदना शुरू हो गई और उसका प्रभाव न केवल मस्तकमें ही व्यापक रहा पर नीचे गर्दनमें भी उतर आया और कोई २-३ महिनों तक उसके लिये परिचर्याकी लंबी शिक्षा सहन करनी पडी। तब मनमें यह संकल्प हुआ कि कुवलयमालाका ठीक संपादन करनेके लिये, जेसलमेर वाली प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिको खयं जा कर देखना चाहिये और उसकी शुद्ध प्रतिलिपि खयं करके फिर इसका संपादन करना चाहिये। विना ऐसा किये इस ग्रन्थकी आदर्शभूत आवृत्ति तैयार हो नहीं सकती। इस संकल्पानुसार जेसलमेर जानेकी प्रतीक्षामें, इसका उक्त मुद्रणकार्य स्थगित रखा गया और ग्रन्थमालाके अन्यान्य अनेक ग्रन्थोंके संपादन-प्रकाशनमें मैं व्यस्त हो गया। सन् १९३२-३३ का यह प्रसंग है।

उसके प्रायः १० वर्ष बाद (सन् १९४२ के अन्तमें) मेरा जेसलमेर जाना हुआ और वहां पर प्रायः ५ महिनों जितना रहना हुआ। उसी समय, अन्यान्य अनेक अलभ्य-दुर्लभ्य ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियां करानेके साथ इस कुवलयमालाकी सुन्दर प्रतिलिपि भी, मूल ताडपत्रीय प्रति परसे करवाई गई।

द्वितीय महायुद्धके कारण बाजारमें कागजकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो रही थी, इसलिये ग्रन्थमालाके अन्यान्य प्रकाशनोंका काम भी कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। नये प्रकाशनोंका कार्य कुछ समय बन्द करके पुराने ग्रन्थ जो प्रेसमें बहुत असेंसे छप रहे थे उन्हींको पूरा करनेका मुख्य लक्ष्य रहा था। पर मेरे मनमें कुवलयमालाके प्रकाशनकी अभिलाषा बराबर बनी रही।

कुवलयमाला एक बड़ा ग्रन्थ है एवं पूना और जेसलमेरकी प्रतियोंमें परस्पर असंख्य पाठमेद हैं, इसलिये इसका संपादन कार्य बहुत ही समय और श्रमकी अपेक्षा रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य और आयुष्यकी परिमितताका खयाल भी बीच-बीचमें मनमें उठता रहता था। उधर ग्रन्थमालाके संरक्षक और संस्थापक बाबू श्री बहादुर सिंहजीका स्वास्थ्य भी कई दिनोंसे गिरता जा रहा था और वे क्षीणशक्ति होते जा रहे थे। उनके स्वास्थ्यकी स्थिति देख कर मेरा मन और भी अनुत्साहित और कार्य-विरक्त बनता जा रहा था।

इसी असेंमें, सुहृद् विद्वद्दर डॉ० उपाध्येजी बंबईमें मुझसे मिलने आये और ४-५ दिन मेरे साथ ठहरे। उन दिनोंमें, डॉ० उपाध्येने मेरे संपादित हरिभद्रसूरिके धूर्ताख्यान नामक ग्रन्थका इंग्रेजीमें विशिष्ट ऊहापोहात्मक विवेचन लिख कर जो पूर्ण किया था, उसे मुझे दिखाया और मैंने उसके लिये अपना संपादकीय संक्षिप्त प्रास्ताविक वक्तव्य लिख कर इनको इंग्रेजी भाषानुवाद करनेको दिया। इन्हीं दिनोंमें इनके साथ कुवलयमालाके प्रकाशनके विषयमें भी प्रासंगिक चर्चा हुई। कुवलयमालाको सुन्दर रूपमें प्रकाशित

करनेका मेरा चिरकालीन उत्कट मनोरथ बना हुआ है पर शारीरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक्त आन्तरिक मनोवृत्ति और चाहू अनेक ग्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, मैं अब इन ग्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था। अतः डॉ० उपाध्येजी — जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, — यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सौंप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया।

डॉ० उपाध्ये अपने प्रौढ पाण्डित्य और सञ्चोधनात्मक पद्धतिके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविज्ञान विद्वन्मंडलमें सुप्रसिद्ध हैं। इत पूर्व अनेक महत्त्वके ग्रन्थोंका, इनने बड़े परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंधी जैन ग्रन्थमालामें इनके संपादित 'वृहत्कथाकोष' और 'लीलावई कथा' जैसे अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कथा का संपादन सर्वथा उत्तम स्वरूपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी। अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रेरित किया। इनने बड़ी नम्रता एवं आत्मीयताके साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्यसे पूर्ण सन्तोष है, तो इस सेवाका सहर्ष स्वीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझूंगा' इत्यादि। चर्चाके परिणामस्वरूप इनने बड़े उत्साह और सद्भावपूर्वक इस कार्यका स्वीकार किया।

कुछ दिन बाद, कुवलयमालाकी जो प्रतिलिपि आदि सामग्री मेरे पास थी, उसको मैंने कोल्हापुर डॉ० उपाध्येजीके पास भेज दी। पर उस समय इनके हाथमें, 'लीलावई कथा' का संपादन कार्य चाहू था— जो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ। उसके बाद सन् १९५०—५१ में, वास्तविक रूपसे इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। ववईके नि० सा० प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इसके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा। क्योंकि २० वर्ष पहले जब मैंने (सन् १९३१—३२ में) इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईंझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुलभता इस समय नहीं रही थी। अतः मुझे साईंझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और तदनुसार ग्रन्थका मुद्रणकार्य प्रारंभ किया गया— जो अब प्रस्तुत स्वरूपमें समाप्त हुआ है।

जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है—यह इस ग्रन्थका प्रथम भाग है। इसमें उद्योतन सूरिकी मूल प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुद्रित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरल संस्कृतमें गद्य-पद्यमय सक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० श्लोक परिमाणमें, रत्नप्रभसूरि नामक विद्वान्ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत-रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है। अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुद्रित करनेका मेरा विचार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीने भी बहुत पसन्द किया। अतः उसका मुद्रण कार्य भी चाहू किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी ग्रन्थके अन्तरंग—बहिरंगपरीक्षण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दृष्टिसे अपना विस्तृत संपादकीय निबन्ध लिखेंगे जो काफी बडा हो कर कुछ समय लेगा। अतः मैंने इस ग्रन्थको दो भागोंमें प्रकट करना उचित समझ कर, मूल ग्रन्थका यह प्रथम भाग सिंधी जैन ग्रन्थमालाके ४५ वें मणिरत्नके रूपमें विज्ञान पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है। आशा तो है कि वह दूसरा भाग भी यथाशक्य शीघ्र ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो जायगा।

ग्रन्थ, ग्रन्थकार और ग्रन्थगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निबन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बातोंके विषयमें मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता।

यह जो मैंने अपना किञ्चिद् वक्तव्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस ग्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ कितना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तभूत बना हूँ।

†  
 प्रायः १२०० वर्ष पहले (वरात्र ११८० वर्ष पूर्व) उद्योतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिह्न सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर (आधुनिक जालोर) में रहते हुए, वीरभद्रसूरिके बनवाए हुए, ऋषभदेवके चैत्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर, इस महती कथाकी भव्य रचना की। ग्रन्थकारने ग्रन्थान्तमें अपने गुरुजनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य थोड़ी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। शायद, उस समय इस ग्रन्थकी १०—२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गई होंगी। क्यों कि ऐसे बड़े ग्रन्थों का ताडपत्रों पर लिखना—लिखवाना बड़ा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होना था। इस ग्रन्थकी प्रतियोंकी दुर्लभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन-श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ। कारण, एक तो कथाका विस्तार बहुत बड़ा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते वाले कदली वृक्षके पेड़की तरह, कथाके अन्दर कथा, एवं उसके अन्दर और कथा—इस प्रकार कथाजालके कारण यह ग्रन्थ जटिल-सा हो गया है। दूसरा, ग्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनो और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका हृदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गईं। हरिभद्रसूरिकी समराइच्चकहा की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, वसुदेवहिंडी आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रति विक्रमकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि पूना वाली कागजकी प्रति १६ वीं शताब्दीमें लिखी गई प्रतीत होती है, पर है वह प्रति किसी विशेष प्राचीन ताडपत्रीय पोथीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनों प्रतियां परस्पर भिन्न मूलपाठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं ग्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं। ग्रन्थकारने जब अपनी रचनाके, सर्वप्रथम जो एक-दो आदर्श तैयार करवाये होंगे, उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दविशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वैसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका संशोधन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूसरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन आदि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिलिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे पूना वाली कागजकी प्रतिका प्रत्यालेखन किया गया है।

प्राचीन ग्रन्थोंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवलयमालाकी ये दोनों पाठभेद वाली प्रतियां बहुत ही महत्त्वकी जानकारी कराने वाली हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस कृतिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

\*

ग्रन्थकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें बड़ी आत्मश्रद्धा है। वे ग्रन्थके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—“जो सज्जन भावयुक्त इस कथाको पढेगा, अथवा वंचावेगा, अथवा सुनेगा, तो, यदि वह भव्य जीव होगा तो अवश्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—दृढ होगा। जो विदग्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयत्नपूर्वक सब जन इस कुवलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके भेद जानना चाहते हैं, तथा वदनक, गाथा आदि छन्दोंके भेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुवलयमालाको अवश्य पढ़ें।

जो इन बातोंको नहीं जानते, वे भी इसकी पुस्तक ले कर उम्मीद वाचन करावें जिससे उनको कविताकी निपुणताके गुण ज्ञात होंगे—इत्यादि। जिन भगवती ही देवीने मुझे यह सत्र आश्रयान कहा है उसने इसकी रचना करवाई है—मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूँ। यदि इस ग्रन्थके लिखने समय, ही देवी मेरे हृदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक प्रहरमात्र जितने समयमें सौन्दा श्लोकों जितनी ग्रन्थरचना कान मनुष्य कर सकता है।” इत्यादि—इत्यादि।

सचमुच ग्रन्थकार पर वाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही। नहीं तो इनके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएँ, कालके कुटिल गर्भमें विलीन हो गई हैं, जिनके कुछ नाम मात्र ही आज हम प्राचीन ग्रन्थोंमें पढ़ने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं ज्ञात नहीं होता। पादलिख सूरिकी तरंगवती कथा, गुणाढ्य महाकविकी पैशाची भाषामयी वृहत्कथा, हलिक कविकी विलासवती कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएँ नामशेष हो गई हैं।

प्राकृत वाङ्मयका यह एक बड़ा सद्भाग्य समझना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्लभ्य ग्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियाँ, आज तक विद्यमान रह सकी, और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकथा शतशः प्रतियोंके व्यापक रूपमें सुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही छिपी न रह कर, ससारके सारे सम्य मानव समाजके बड़े बड़े ज्ञानागारोंमें पहुँच सकेगी और सैकड़ों वर्षों तक हजारों अम्यासी जन इसका अव्ययन-अव्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह ग्रन्थकार उद्योतन सूरिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्थ ही देवीकी प्रेरणाके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है, इसी तरह मेरा क्षुद्र मन भी मानना चाहता है कि उसी वाग्धिष्ठात्री भगवती ही देवीकी कोई अन्तःप्रेरणाके कारण, इस रचनाको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें मैं भी निमित्तभूत बना होऊंगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोरथमय, अकिञ्चित्कर, जीवन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्र मनोरथ, धीरे धीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-स्वरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपाका यह परिणाम होना चाहिये।

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, मैं मुख्य रूपसे निमित्तभूत बना हूँ, परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृदय विद्वत्सखा डॉ० उपाध्येजीका सहयोग भी इतना ही मुख्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर सूचित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिपि खय करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हाथमें लेनेको बहुत उत्सुक हो रहा था, पर शारीरिक शिथिलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ० उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सौत्सुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये द्विगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामस्वरूप यह प्रकाशन मूर्त स्वरूपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पडा है वह मैं ही जानता हूँ। जिन लोगोंको ऐसे जटिल और बहुश्रमसाध्य ग्रन्थोंके संपादनका अनुभव या कल्पना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें भी असमर्थ हैं। ‘नहि बन्ध्या विजानाति प्रसूतिजननश्रमम्’ वाली विज्ञानोक्ति

यह जो मैंने अपना किञ्चिद् वक्तव्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस ग्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ कितना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तभूत बना हूँ।

\*

प्रायः १२०० वर्ष पहले (बराबर ११८० वर्ष पूर्व) उद्योतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिह्न सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर ( आधुनिक जालोर ) में रहते हुए, वीरभद्रसूरिके बनवाए हुए, ऋषभदेवके चैत्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर, इस महती कथाकी भव्य रचना की। ग्रन्थकारने ग्रन्थान्तमें अपने गुरुजनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य थोड़ी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। शायद, उस समय इस ग्रन्थकी १०-२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गई होंगी। क्यों कि ऐसे बड़े ग्रन्थों का ताडपत्रों पर लिखना—लिखवाना बड़ा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होना था। इस ग्रन्थकी प्रतियोंकी दुर्लभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन-श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ। कारण, एक तो कथाका विस्तार बहुत बड़ा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते वाले कदली वृक्षके पेड़की तरह, कथाके अन्दर कथा, एवं उसके अन्दर और कथा—इस प्रकार कथाजालके कारण यह ग्रन्थ जटिल-सा हो गया है। दूसरा, ग्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनों और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका हृदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गईं। हरिभद्रसूरिकी **समराञ्चकहा** की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, **वसुदेवाहिंडी** आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रति विक्रमकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि पूना वाली कागजकी प्रति १६ वीं शताब्दीमें लिखी गई प्रतीत होती है, पर है वह प्रति किसी विशेष प्राचीन ताडपत्रीय पोथीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनों प्रतियां परस्पर भिन्न मूलपाठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं ग्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं। ग्रन्थकारने जब अपनी रचनाके, सर्वप्रथम जो एक-दो आदर्श तैयार करवाये होंगे, उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दविशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वैसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका संशोधन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूसरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन आदि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिलिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे पूना वाली कागजकी प्रतिका प्रत्यालेखन किया गया है।

प्राचीन ग्रन्थोंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवलयमालाकी ये दोनों पाठभेद वाली प्रतियां बहुत ही महत्त्वकी जानकारी कराने वाली हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस कृतिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

\*

ग्रन्थकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें बड़ी आत्मश्रद्धा है। वे ग्रन्थके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—“जो सज्जन भावयुक्त इस कथाको पढेगा, अथवा वंचावेगा, अथवा सुनेगा, तो, यदि वह भव्य जीव होगा तो अवश्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—दृढ होगा। जो विदग्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयत्नपूर्वक सब जन इस कुवलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके भेद जानना चाहते हैं, तथा वदनक, गाथा आदि छन्दोंके भेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुवलयमालाको अवश्य पढ़ें।

जो इन बातोंको नहीं जानते, वे भी इसती पुस्तक ले कर उमर्रा वाचन करवें जिमसे उनको कविताकी निपुणताके गुण ज्ञात होंगे—इत्यादि। जिस भगवती ही देवीने मुझे यह मंत्र आख्यान कदा है उर्तीने इसकी रचना करवाई है—मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूँ। यदि इस ग्रन्थके लिखने समय, ही देवी मेरे हृदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक प्रहरमात्र जितने गमयों सौ-नों श्लोकों जिनकी ग्रन्थरचना कान मनुष्य कर सकता है।" इत्यादि—इत्यादि।

सचमुच ग्रन्थकार पर वाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही। नहीं तो इनके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएँ, कालके कुटिल गर्भमें विलीन हो गई हैं, जिनके कुछ नाम मात्र ही आज हमें प्राचीन ग्रन्थोंमें पटने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं ज्ञात नहीं होता। पादलिप्त सूरिकी तरंगवती कथा, गुणाढ्य महाकविकी पेशाची भाषामयी वृहत्कथा, हलिक कविकी विलासवती कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएँ नामशेष हो गई हैं।

प्राकृत वाङ्मयका यह एक बड़ा सद्भाग्य गमना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्लभ ग्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियाँ, आज तक विद्यमान रह सकी, और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकथा शतशः प्रतियोंके व्यापक रूपमें सुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही छिपी न रह कर, संसारके सारे सभ्य मानव समाजके बड़े बड़े ज्ञानागारोंमें पहुँच सकेगी और सैकड़ों वर्षों तक हजारों अम्यासी जन इसका अध्ययन-अध्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह ग्रन्थकार उद्द्योतन सूरिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्थ ही देवीकी प्रेरणाके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है, इसी तरह मेरा क्षुद्र मन भी मानना चाहता है कि उसी वाग्धिष्ठात्री भगवती ही देवीकी कोई अन्त प्रेरणाके कारण, इस रचनाको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें मैं भी निमित्तभूत बना होऊँगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोरथमय, अकिञ्चित्कर, जीवन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्र मनोरथ, धीरे धीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-स्वरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपाका यह परिणाम होना चाहिये।

५

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, मैं मुख्य रूपसे निमित्तभूत बना हूँ, परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृदय विद्वत्सखा डॉ० उपाध्येजीका सहयोग भी इतना ही मुख्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर सूचित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिपि खय करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हाथमें लेनेको बहुत उत्सुक हो रहा था, पर शारीरिक शिथिलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ० उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सौस्तुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये द्विगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामस्वरूप यह प्रकाशन मूर्त स्वरूपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पडा है वह मैं ही जानता हूँ। जिन लोगोंको ऐसे जटिल और बहुश्रमसाध्य ग्रन्थोंके संपादनका अनुभव या कल्पना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें भी असमर्थ हैं। 'नहि वन्ध्या विजानाति प्रसूतिजननश्रमम्' वाली विज्ञानोक्ति

इसमें सर्वथा चरितार्थ होती है। पिछले ७-८ वर्षोंसे डॉ० उपाध्येजी इस ग्रन्थके संपादन कार्यमें सतत व्यग्र बने रहे हैं। कई बार इनको इसमें अनुत्साह उत्पन्न करने वाले प्रसंग भी उपस्थित होते रहे। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, उसे देख कर, मैं भी कमी कमी व्याकुल होता रहा हूँ कि क्या यह रचना मेरे जीते-जी प्रसिद्धिमें आ सकेगी या नहीं। पर माता ही देवीकी कृपासे आज मेरा चिर मनोरथ इस प्रकार सफल होता हुआ जान कर अन्तर्मन एक प्रकारकी 'कुछ' सन्तोषानुभूतिसे समुल्लसित हो रहा है।

\*

१ इस आवृत्तिका अन्तिम फार्म जब मेरे पास आया तब मुझे एका-एक इस ग्रन्थका, प्रस्तुत - मूलग्रन्थात्मक प्रथम भाग, तुरन्त प्रकट कर देनेका विचार हो आया और उसको मैंने डॉ० उपाध्येजीको सूचित किया। इनने भी इस विचारको बहुत पसन्द किया और ता. २९, अप्रैल, ५९ को, मुझे नीचे दिया गया भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र द्वारा विज्ञ पाठकोंको इसका भी कुछ इंगित मिल जायगा कि इस कथाके संपादन कार्यमें डॉ० उपाध्येजीको कितना शारीरिक और मानसिक - दोनों प्रकारके कठोर परिश्रमका सामना करना पडा है।

I obey you and accept heartily your suggestion to issue the Part First of the *Kuvalayamālā*. As desired by you, I am sending herewith by return of post, the face page, the Preface and the page of Dedication.

You alone can appreciate my labours on this works · .....

I have tried to be very brief in the Preface. The Notes for the longer Preface were ready, and I just took those items which could not and should not be omitted. If you think that I have left anything important, please give me your suggestions so that the same can be added in the proofs.

Dr. Alsdorf, Dr. A. Master and others in Europe are very eager to see the work published. From June I can definitely start drafting the Intro., and you will please do your best to start printing of the Sanskrit Text. I have spent great labour on that too. Unless this text is printed soon, some of my observations in the Notes cannot be sufficiently significant. So let the printing start early. You may approve of the types etc. and send to me the specimen page. I shall immediately send some matter. I send the press copy in instalments, because now and then I require some portion here for reference.

I fully understand your sentiments and thrilling experience on the publication of the *Kuvalayamālā*. You know, I paid my respects to Girnar on my way back from Somanāth. That early morning Dr. Dandekar, Dr. Hiralal and myself started climbing the hill at about 3 o'clock. If I had seen the height before climbing I would not have dared to undertake the trip. Luckily the dark morning did not disclose the height. Well the same thing has happened in my working on the *Kuvalayamālā*. If I had any idea of the tremendous labour the text-constitution demanded, perhaps I would not have undertaken it. It is really good that you also did not tell me that, from your own experience. There is a pleasure in editing a difficult text. I enjoyed it for the last six or seven years. The work was heavy, exacting and irritating; still I could do it using all my leisure for the last six or seven years. I really wonder what sustained my spirits in this strenuous work - at least you know how strenuous it is: it must be something spiritual, perhaps the same Hreedevi behind the scene! I know, the Second Part is still to come; but I find all that within my reach, within a year or so.



यहा पर यह 'कुछ' शब्दका प्रयोग इसलिये हो रहा है कि यदि आज इस महतीप्रतिष्ठाप्राप्त और युग-युगान्तर तक विद्यमान रहने वाली सिंघी जैन ग्रन्थमालाके सस्थापक और प्राणपोषक स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी विद्यमान होते तो उनको इससे भी अधिक आनन्दानुभव होता, जितना कि मुझेको हो रहा है। पर दुर्भाग्यसे वे इस प्रकाशनको देखनेके लिये हमारे सम्मुख सदेह रूपमें विद्यमान नहीं हैं। इस लिये मेरी यह सन्तोपानुभूति 'कुछ' आन्तरिक खिन्नतासे मगिश्रित ही है। योगानुयोग, इन शब्दोंके लिखते समय, आज जुलाई मासकी ७ वीं तारीख पढ रही हूँ। इसी तारीखको आजसे १५ वर्ष (सन् १९४४ में) पूर्व, बाबू श्री बहादुर सिंहजीका दुःग्द स्वर्गवास हुआ था। उनके स्वर्गवाससे मुझे जो आन्तरिक खेद हुआ उसका जिक्र मैंने अपने लिखे उनके सस्मरणात्मक निबन्धमें किया ही है। सिंघी जैन ग्रन्थमालाका जब कोई नया प्रकाशन प्रकट होता है और उसके विषयमें जब कभी मुझे 'यत्किञ्चित् प्रास्ताविक' वक्तव्य लिखनेका अवसर आता है, तब मेरी आंखोंके सामने स्वर्गीय बाबूजीकी उस समय वाली वह तेजोमयी आकृति आ कर उपस्थित हो जाती है, जब कि उनने और मैंने कई कई बार साथमें बैठ बैठ कर, ग्रन्थमालाके बारेमें अनेक मनोरथ किये थे। दुर्दैवके कारण और हमारे दुर्भाग्यसे वे अपने मनोरथोंके अनुसार अधिक समय जीवित नहीं रह सके। इन पिछले १५ वर्षोंमें ग्रन्थमालामें जो अनेक महत्त्वके ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और जिनके कारण आज यह ग्रन्थमाला आन्तरराष्ट्रीय ख्यातिको प्राप्त कर, विश्वके अनेक विद्वानो एव प्रतिष्ठानोंका समादर प्राप्त करने वाली जो बनी है, इसके यदि वे प्रत्यक्ष साक्षी रहते, तो मैं अपनेको बहुत ही अधिक सन्तुष्ट मानता।

५

पर, बाबूजीकी अनुपस्थितिमें, उनके सुपुत्र बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी और श्री नरेन्द्र सिंहजी सिंघी अपने पूज्य पिताकी पुण्यस्मृतिको चिरस्थायी करनेके लिये, उनकी मृत्युके बाद, आज तक जो इस ग्रन्थमालाके कार्यका यथाशक्य सरक्षण और परिपोषण करते आ रहे हैं, इससे मुझे बाबूजीके अभावके खेदमें अवश्य 'कुछ' सन्तोष भी मिलता ही रहा है। यदि इन सिंघी बन्धुओंकी इस प्रकारकी उदार सहानुभूति और आर्थिक सहायता चाह न रहती, तो यह कुवलयमाला भी, आज शायद, इस ग्रन्थमालाका एक मूल्यवान् मणि न बन पाती। इसके लिये मैं इन सिंघी बन्धुओंका भी हृदयसे कृतज्ञ हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि भविष्यमें भी ये बन्धु अपने पूज्य पिताकी पवित्रतम स्मृति और कल्याणकारी भावनाको परिपुष्ट करते रहेंगे और उसके द्वारा ये अपने दिवंगत पिताके स्वर्गीय आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहेंगे।

अन्तमें मैं कुवलयमालाकारकी अन्तिम आशीर्वादात्मक गाथा ही को यहा उद्धृत करके अपनी इस कुवलयमालाके प्रकाशनकी कथाको पूर्ण करता हूँ।

इय एस समत्त च्चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण ।

कङ्गो होउ पसण्णा इच्छियफलया य संघस्स ॥

अनेकान्त विहार, अहमदाबाद

जुलाई ७, सन् १९५९

आषाढ शुक्ला १, सं २०१५

—मुनि जिन विजय

## आभार - प्रदर्शन

\*

प्राकृत भाषाकी इस अद्भुत महाकथाके प्रकाशनमें जो मुद्रण संबन्धी व्यय हुआ है, उसका अर्ध भाग, भारत सरकारने देनेकी कृपा की है । तदर्थ सरकारके प्रति हम अपना धन्यवाद पूर्वक सादर कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते हैं ।

- मुनि जिनविजय

# उज्जोयणसूरिविरइया कुवलयमाला

卐

॥ ओं नमो वीतरागाय ॥

§ १) पढमं णमह जिणिंद जाणु णवति जम्मि देवीओ । उव्वेहिर-वाहु-लया-रणंत-मणि-वल्लय-त्तालेहिं ॥

पुरिस-कर-धरिय-कोमल-णलिणी-दल-जल-तरग-रगत । णिव्वत्त-राय-मज्जण-विंवा जेणप्पणो दिट्ठ ॥

वसिउं चिर कुलहरे कला-कलाव-सहिया णरिंदेसु । धूय व्व जस्स लच्छी अज्ज वि य सयंवरा भमइ ॥

जेण कओ गुरु-गुरुणा मिरि-वर-गुरु णियम-गहण-समयम्मि । स-हरिस-हरि-वामदंत-भूसणो केस-पवभारो ॥

तव-तविय-पाव-कलिणो णाणुप्पत्तीण जस्स सुर-णिवहा । संसार-णीर-णाहं तरिय त्ति पणच्चिरे तुट्ठा ॥

जस्स य तित्यारमे तियस-वहत्तण-विमुक्क-माहप्पा । कर-कमल-मठलि-सोहा चलणेसु णमंति सुर-वहणो ॥

तं पढम-पुहह-पालं पढम-पवत्तिय-सुधम्म-वर-चक्क । णिव्वाण-गमण-इद पढमं पणमह मुणि-गणिंद ॥ अहवा ।

उब्भिण्ण-चूय-मंजरि-रय-मारुय-विल्ललियवरा भणइ । माहव-सिरी स-हरिसं कोइल-कुल-मज्जालावा ॥

अहिणव-सिरीस-सामा आयविर-पाढलच्छि-जुयल्लिहा । दीहुणह-पवण-णीसास-णीसहा गिम्ह-लच्छी वि ॥

उण्णय-गारुय-पओहर-मणोहरा सिहि-फुरत-धम्मिहा । उब्भिण्ण-णवंकुर-पुलय-परिगया पाउस-सिरी वि ॥

वियसिय-तामरस-मुही कुवलय-कलिया विलास-दिट्ठिहा । कोमल-मुणाल-वेल्लहल-वाहिया सरय-लच्छी वि ॥

हेमंत-सिरी वि स-रोद्ध-तिलय-लीणालि-सललियालइया । मल्लिय-परिमल-सुहया णिरतरुब्भिण्ण-रोमचा ॥

अणवरय-भमिर-महुयरि-पियंगु-मंजरि-कयावयसिहा । विप्फुरिय-कुंद-दसणा सिंसिर-सिरी सायर भणइ ॥

दे सुहय कुण पसायं पसीय एसेस अंजली तुज्ज । णव-णीलुप्पल-सरिसाएँ देव दिट्ठीएँ विणिण्णसु ॥

इय जो संगमयामर-कय-उउ-सिरि-राय-रहस-भणिओ वि । ध्वाणाहि णेय चलिओ तं वीर णमह भत्तीए ॥ अहवा ।

जाइ-जरा-मरणावत्त-खुत्त-सत्ताण जे दुहत्ताणं । भव-जलहि-तारण-सहे सव्वे चिय जिणवरे णमइ ॥ सव्वहा,

उज्जति जत्थ जीवा सिज्झंति य के वि कम्म-मल-मुक्का । ज च णमियं जिणेहि वि त तित्थं णमइ भावेण ॥

§ २) इह कोह-लोह-माण-माया-मय-मोह-महाणुत्थल्ल-मल्ल-णोल्लणावडण-चमडणा-मूढ-हिययस्स जत्तुणो तथा-संकिलिट्ठ-परिणामायास-सेय-सलिल-संसग्ग-लग्ग-कम्म-पोग्गलुग्ग-जाय-घण-कसिण-कलंक-पंकाणुलेवणा-गारुय-भावस्स गुरु-लोह-पिंडस्स

The references 1), 2), etc are to the numbers of the lines of the text, put on both the margins

1) ण उ नमो after the symbol of bhale which looks like Devanāgarī ६० 2) P नमइ, P नवति, P नमि, J उब्बिह्वरवाहु, P नालेहिं 3) J विंवा 4) P सहिया, J धूय 5) J गुरुगहणणियमसमयम्मि, P -नियम, P \*यंमि, J \*दन्त 6) J णाणुप्पत्तीए P नाणुप्पत्तीइ, णP-निवहा, णP-नीरनाह 8) J पवित्तिय, J णेव्वाण P निव्वाण, P इदं or इडु, J पढम for पणमइ, J om अहवा 9) P उब्भिन्न, J चूय, J \*यम्भरा भमइ । सहरिस वसंतलच्छी कोइल 10) P आयवर P \*न्ह, P नीसास 11) J धम्मेल्ल, P उब्भिन्नव 12) J-वाहिया 13) P लीलालि, J सललियालइया, J मल्लिय P निरतरुब्भिन्न 14) J महुअरि, J पियंगु, J \*रिअ- 15) P नवनीलु, P दिट्ठिय विणिण्णसु 16) J कयकसिरि, J ध्वाणाउ P नमइ, J om अहवा 17) P \*णावत्तरिय(खित्त)सं, P दुहत्ताण, P सव्वे विय, J चिय, P नमइ, P अहवा for सव्वहा, J repeats here दे सुहय कुण पसाय पसीय एसेस अजली तुज्ज 18) J \*ज्झन्ति, P अ for य, P कंम, J कलि for मल P त च नमिउ, P नमइ भत्तीए । 19) J \*रमडणा 20) P \*णाम आ, J गरुव, J पिण्ड-

1 व जलमिम झत्ति णरए चेव पडणं । तत्थ वि अणेय-कस-च्छेय-ताव-ताडणाहोडण-घडण-विहडणाहिं अवगय-बहु-कम्म-किट्टस्स 1  
जच्च-सुवण्णस्स व अणट्ट-जीव-भावस्स किंचि-मेत्त-कम्म-मलस्स तिरिय-लोए समागमणं । तत्थ वि कोइल-काय-कोल्लुया-  
3 कमल-केसरी-कोसिएसु वग्घ-वसह-वाणर-विच्छुएसु गय-गवय-गंडय-गावी-गोण-गोहिया-मयर-मच्छ-कच्छम-गाक्क-चक्क-तरच्छ- 3  
च्छभल्ल-भल्लुकि-मय-महिस-मूसएसुं सस-सुणउ-संवर-सिवा-सुय-सारिया-सलभ-सउणेसु, तथा पुहइ-जल-जलणाणिल-गोच्छ-  
गुम्म-वल्ली-लया-वणस्सइ-तसाणेय-भव-भेय-संकुलं भव-संसार-सागरमाहिंडिऊण तथाविह-कम्माणुपुव्वी-समायद्धिओ कह-कह  
6 वि मणुयत्तणं पावइ जीवो त्ति । अवि य । 6

§ ३) बहु-जम्म-सहस्स-णीरए बहु-वाहि-सहस्स-मयरए । बहु-दुक्ख-सहस्स-मीणए बहु-सोय-सहस्स-णक्कए ॥

एरिसए संसारएँ जलहि-समे हिंडिऊण पावएँहिं । पावइ माणुस-जम्मयँ जीवो कह-कह वि पुव्व-पुण्णएँहिं ॥

0 तत्थ वि सय-जवण-बबवर-चिलाय-खस-पारस-भिल्ल-सुरंदोडु-वोक्कस-सवर-पुलिंद-सिंघलाइसु परिभंमत्तस्स दुल्लहं चिय 9  
सुकुल-जम्मं ति । तत्थ वि काण-कुंट-मुंट-अंध-बहिर-कल्ल-ल्लायंगमो होइ । तयो एवं दुल्लह-संपत्त-पुरिसत्तणेण पुरिसेण  
पुरिसत्थेसु आयरो कायव्वो त्ति । अवि य ।

12 रुद्धमिम भव-समुद्दे तुलगा-लद्धमिम कह वि मणुयत्ते । पुरिसा पुरिसत्थेसुं णिउणं अह आयरं कुणह ॥ 12

§ ४) सो पुण तिविहो । तं जहा । धम्मो अत्थो कामो, केसिं पि मोक्खो वि । एएहिं विरहियस्स उण पुरिसस्स  
महल्ल-दंसणाभिरामस्स उच्छु-कुसुमस्स व णिप्फलं चेय जम्मं ति । अवि य ।

16 धम्मत्थ-काम-मोक्खाण जस्स एक्कं पि णत्थि भुयणमिम । किं तेण जीविएणं कीडेण व दड्ड-पुरिसेणं ॥ 16

एए चिय जस्स पुणो कह वि पडुप्पंति सुकय-जम्मस्स । सो चिय जीवइ पुरिसो पर-कज्ज-पसाहण-समत्थो ॥

इमाणं पि अहम-उत्तिम-मज्झिमे णियच्छेसु । तत्थत्थो कस्स वि अणत्थो चेव केवलो, जल-जलण-णारिंद-चोराईणं साहा-  
18 रणो । ताण चुक्को वि धरणि-तल-णिहिओ चेव खयं पावइ । खल-क्किविण-जणस्स दुस्सील-मेच्छ-हिंसयाणं च दिण्णो 18  
पावाणुबंधओ होइ । कह वि सुपत्त-परिग्गहाओ धम्म-कलं पावइ काम-कलं च । तेण अत्थो णाम पुरिसस्स मज्झिमो पुरिसत्थो ।  
कामो पुण अणत्थो चेव केवलं । जं पि एयं पक्खवाय-गबभ-णिग्गभर-मूढ-हियएहिं भणियं कामसत्थयारेहिं जहा 'धम्मत्थ-  
21 कामे पडिपुण्णे संसारो जायइ' त्ति, तेसिं तं पि परिकप्पणा-मेत्तं चिय । जेण एयंत-धम्म-विरुद्धो अत्थ-क्खय-कारओ य कामो, 21  
तेण दुग्गय-रंडेकल्ल-पुत्तओ विव अट्टट्ट-कंठयाभरण-वलय-सिंगार-भाव-रसरसिओ ण तस्स धम्मो ण अत्थो ण कामो ण जसो  
ण मोक्खो त्ति । ता अलं इमिणा सव्वाहमेण पुरिसाणत्थेणं ति । धम्मो उण तुलिय-धणवइ-धण-सार-धण-फलो । तथा  
24 णारिंद-सुर-सुंदरी-णियंब-विंबुत्तुंग-पओहर-भर-समालिंण-सुहेल्लि-णिग्गभरस्स कामो वि धम्माणुबंधी य । अत्थो धम्माओ चेव, 24  
मोक्खो वि । जेण भणियं ।

लहइ सुकुलमिम जम्मं जिणधम्मं सव्व-कम्म-णिज्जरणं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं मोक्खं पि हु धम्म-लामेण ॥

27 तेण धम्मो चेव एत्थ पुरिसत्थो पवरो, तहिं चेव जुज्जइ आयरो धीर-पुरिसेण काउं जे । अवि य । 27

अत्थउ होइ अणत्थउ कामो वि गलंत-पेम्म-विरसओं य । सव्वत्थ-दिण्ण-सोक्खउ धम्मो उण कुणह तं पयत्तेण ॥

§ ५) सो उण गोविंद-खंद-रुंदारविंदणाह-गाइंद-गाइंद-चंद-कविल-कणाद-वयण-विसेस-वित्थर-विरयणो बहुविहो लोय-

1 > P जलमिम झत्ति, P च्चिअ णेयकयच्छेय, J °होडणाषण 2 > P सुवन्नस्स वाणट्ट, J तत्थ कोइला, J कोल्लुआ 3 >  
J गण्ड°, P गाय for गावी, J गोहिया P गोहिय, P तरछाछ° 4 > J मअ, P मूसएसु, J सुणउ सउर P ससउणसवर, J सुअ, P  
सउणेसु J सउणसिप्पईसु, P णानिल, J गोच्छ P गुच्छ. 5 > J °स्सई, J भवसयभेय, P सकुलम्, P om सागर, J °हिण्ड°, J वि  
तथाविह, J समायद्धिओ 6 > J मणुअत्तण, J अवि अ 7 > J णरए P नीरए, J बहुसोयमहाममुदए बहुमाणतरगए संसारए  
जलहि सम हिण्डि°. 8 > P हिंडिऊण य पावइ, J माणुस्स, J वि पुण्णएहिं P वि पुव्वपुणएहिं 9 > J मुरुडोणवोक्कस, J दुल्लहं  
चेव आरियखेत्तं ति । 10 > J काणकोण्टमण्टअन्ध, P कल्लछां, J सपत्तआरियत्तणे पुरिसेण 12 > P रुद्धमि, P लद्धमि, J  
मणुअत्ते, P निउणं, J तह for अह 13 > J सो उण, J एएहिं रहियस्स पुण 14 > J °णाहिटा°, P जंम 15 > P एक्कं, J  
मुअंमि P भुयणंमि, J डड्डपुरिसेण 16 > J कहउ पडुप्पंति सुकय, P जमस्स 17 > J मज्झिमे वियारेसु ।  
P om. चेव केवलो, P नरिंद, P °राईण 18 > J -यलणिहित्त P तलनिहिओ, P वच्चइ for पावइ, J किमिण, J दिण्ण।  
19 > J धम्मकाल 20 > J कामा उण, P केवलम्, J एअ, P एगतपक्खवायंगंतनिग्गभर, J हियएहिं 21 > J पटिपुण्ण, P संपावइ  
for संसारो जायइ, P om तेसिं, J °कम्मणा, J च्चिअ, J जेण एअतधम्म P लेण अत्थो धम्म 22 > J रण्डेकल्ल पुत्त विअ°, J  
has a marginal note thus: विवित्तरूपयामं पाठातरं with a reference to अट्टट्ट, J कंठया P कंठिया, P न तम्म  
23 > P न मोक्खो, J अलमिमिणा, J °ण त्ति ॥ छ ॥, P धणप्फओ, J सव्वहा for तथा 24 > P नरिंद, P णिअव, P मुहेल्लि, P  
om. य, J मोक्खो वि for अत्थो, J चेय 25 > J om मोक्खो वि 26 > J कुसलमिम P सुकुलमिम, P °धम्म, P निज  
27 > P om. एत्थ, J धीरण काउ 28 > Here in J उ looks like ओ P अत्थो, P अणत्थओ, J निअल्लं, P धम्मं, P  
दिअ, J मोक्खउ for सोक्खउ 29 > J रुंदारविंदणागिंदगइंदवदकविलकपाय, J लोअ.

- 1 पासिद्धो । ताणं च मञ्जे मणीण व कोत्थुहो, गयाण व सुर-गओ, समुदाण व खीरोवही, पुरिसाण व चक्कहरो, दुमाण व कप्प- 1  
पायवो, गिरीण व सुरगिरी, सुराण व पुरदरो, तथा सव्व-धम्माण उवरिं रेहइ जिणयंढ-भासिओ धम्मो त्ति । सो उण चउ-  
3 न्विहो । तं जहा । दाणमइओ, सीलमइओ, तवोमइओ, भावणामइओ त्ति । तत्थ पढम चिय पढम तित्थयर-गुरुणा इमिणा 3  
चेव चउन्विह-धम्म-कमेण सयल-विमल-केवलं वर-णाणं पि पाविय । जेण अविभाविय-णिण्णुणय-जल-थल-विवराइ-भरिय-  
भुवणेणायाल-काल-जलहरेण विय वरिसमाणेण णीसेस-पणइयण-मणोरहवभहिय-दिण्ण-विहव-सारेण पवत्तिओ पढमं तेलोक्क-  
6 वंधुणा 'भो भो पुरिसा दाणमइओ धम्मो' त्ति । पुणो 'सुर-सिद्ध-गधव्व-किण्णरोरय-णर-दइच्च-पच्चक्ख सव्व मे पाव अकर- 6  
णिज्ज' ति पइण्णा-संदरमारुहंतेण पयासिओ तेलोक्क-गुरुणा सीलमइओ धम्मो त्ति । पुणो छट्ठम-दसम-दुवालय-मासद्व-  
मास-संवच्छरोववास-परिसंठिण्ण पयासिओ लोए 'तवोमइओ धम्मो' त्ति । तहिं चिय एगत्तासरणत्त-ससार-भाव-कम्म-  
9 वगणायाण-बंध-मोक्ख-सुह-दुक्ख-णारय-णरामर-तिरिय-गइ-गमणागमण-धम्म-सुक्क-ज्जाणाइ-भावणाओ भावयंतेण भासिओ 9  
भगवया 'भावणामइओ धम्मो' त्ति । तओ ताव अम्हारिसा तारिसेहिं दाण-सील तवेहिं दूरओ चेव परिहरिया, जेण धण-  
सत्त-संधयण-वज्जिया संपयं । एसो पुण जिणवर-वयणावदोहओ जाय-संवेग-कारणो भावणामइओ सुह-करणिज्जो धम्मो त्ति ।  
12 कहं । जाव महा-पुरिसालिय-दोस-सय-वयण-वित्थरावद्ध-हलवोल-वड्डिय-पहरिसस्स दुज्जण-सत्थस्स मज्ज-गया पर-मम्म-12  
मगण-मणा चिट्ठम्ह, ताव वर जिणयद-समण-सुपुरिस-गुण-कित्तणेण सहलीकयं जम्म त्ति । अवि य ।

जा सुपुरिस-गुण-वित्थर-मइलणा-मेत्त-वावडा होमो । ता ताव वर जिणयंढ-समण-चरिय कयं हियए ॥

- 15 इमं च विचिंतिज्जण तुव्भे वि णिसामेह साहिज्जमाणं किंचि कहावत्थुं त्ति । अवि य । 15  
मा दोसे च्चिय गेण्हह विरले वि गुणे पयासह जणस्स । अक्ख-पउरो वि उयही भण्णइ रयणायरो लोए ॥

§ ६ ) तओ कहा-बंध विचिंतेमि त्ति । तत्थ वि

- 18 पालित्तय-सालाहण-छप्पणय-सीह-णाय-सदेहिं । संखुद्ध-सुद्ध-सारगओ व्व कह ता पयं देमि ॥ 18  
णिम्मल-मणेण गुण-गरुयण परमत्थ-रयण-सारेण । पालित्तएण हालो हारेण व सहइ गोट्टीसु ॥  
चक्काय-जुवल-सुहया रम्मत्तण-राय-हस-कय-हरिसा । जस्स कुल-पव्वयस्स व वियरइ गंगा तरगवई ॥  
21 भणिइ-विलासवइत्तण-चोळ्ळिके जो करेइ हलिए वि । कव्वेण कि पउत्थे हाले हाला-वियारे व्व ॥ 21  
पणईहि कइयणेण य भमरेहि व जस्स जाय-पणइहिं । कमलायरो व्व कोसो विलुप्पमाणो वि हु ण झीणो ॥  
सयल-कलागम-णिलया सिक्खाविय-कइयणस्स मुहयंदा । कमलासणो गुणडो सरस्सई जस्स वड्डुक्का ॥  
24 जे भारह-रामायण-दलिय-महागिरि-सुगम्म-कय-मग्गे । लंघेइ दिसा-करिणो कइणो को वास-वम्मीए ॥ 24  
छप्पणयाण किं वा भण्णउ कइ-कुंजरण भुवणम्मि । अण्णो वि छेय-भणिओ अज्ज वि उवमिज्जए जेहिं ॥  
लायण-वयण-सुहया सुवण्ण-रयणुज्जला य वाणस्स । चंदावीडस्स वणे जाया कायंवरी जस्स ॥  
27 जारिसयं विमलंको विमलं को तारिसं लहइ अत्थं । अमय-मइयं व सरसं सरसं चिय पाइय जस्स ॥ 27  
ति-पुरिस-चरिय-पासिद्धो सुपुरिस-चरिएण पायवो लोए । सो जयइ देवगुत्तो वसे गुत्ताण राय-रिसी ॥  
बुहयण-सहस्स-दइय हरिवंसुप्पत्ति-कारय पढम । वंदामि वंदिय पि हु हरिवरिसं चेव विमल-पयं ॥  
30 सण्हिय-जिणवरिंदा धम्मकहा-बंध-दिक्खिय-णरिंदा । कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरण व ॥ 30  
सत्तूण जो जस-हरो जसहर-चरिएण जणवए पयडो । कलि-मल-पभंजणो च्चिय पभंजणो आसि राय-रिसी ॥

1 > P गयो 2 > J म्माण, P om भासिओ, J om धम्मो 3 > J तओम, P मइओ (last three)  
J दम ति 4 > P कमेण, P om वरणाण 5 > P मुयणे काल, J विअ, J माणेण सेस P समाणे णीसेस, J विविह for विहव,  
J पढम तेलोक्क P पढमतेलक्क 6 > J भोहो पु, P पुरिम, P किन्नरोरयणायर 7 > P मदि, P मइओ, J पुणो च्छं 8 > J तओ,  
for तवो, P मइओ, J चिअ P तिय, P सरणत्ता, P सहाव for भाव 9 > P नरामर, P धम, J ज्ञाणाईभावणाउ, J यन्तेण, P  
भाविओ 10 > J त्ति । छ 1, J चेय for चेव 11 > P सवय, J उण, J वोह for वोहओ, P जाद, P मइओ, J सुर for सुह,  
J त्ति । छ । 12 > P रावद्ध, P वड्डिय य हरिसदुज्जण 13 > J चिट्ठम्ह, P ता वर 14 > J गुण, P वित्थर, J om ता  
15 > J च विचिन्ति P च चिंतिज्जण, P निसा, J वत्थु त्ति 16 > P पत्तसइ जिणस्स, J उअही 17 > J कहावद्ध, J om त्ति  
18 > P साहलाहण, J च्छप्प, P सदेण 1, J P गउ 19 > P निम्मलगुणेण, J गरुअ ण, P गरुअण्यण 20 > J जुअल,  
P रम, P कुलपव्व, P तरगमई 21 > J भणिइ P भणिय, J वो (चो) छिके P चोक्किले, J has a marginal gloss मदिरा  
on the word हाल 22 > P ईहिं, J कइयणेण, P रेहि, P न for ण 23 > P निलया, P कइयणो मुमुहं, P सणा  
गुणडो 24 > P om कय, J धम्मीए P वमीए 25 > P छप्पन्न, P भन्न, P कय for कइ, J मुअणमि P भुवणमि, P  
अओ 26 > P लायन्न, P सुयण, P वीणस्स 27 > J को अण्णो (= दुअणो on the margin) for the 2nd विमल  
को, J मइअ व P मइय च, J चिय पायय P विय पाइय 28 > P तिउरिस 29 > J दइअ, P हु हरिवमं चेव 30 >  
J सण्हिय P सन्निहिय, P नरिंदा, J सुकहियाउ सुं, P वा for व । 31 > P जमहरिचरिएहिं, P मलयभजणो, P पइजणो

जेहि कए रमणिजे वरंग-पउमाण चरिय-वित्यारे । कह व ण सलाहणिजे ते कइणो जडिय-रविसेणे ॥  
जो इच्छइ भव-विरहं भवविरहं को ण वंदए सुयणो । समय-सय-सत्थ-गुरुणो समरमियंका कहा जस्स ॥  
अणणे वि महा-कइणो गरुय-कहा-बंध-वितिय-मईओ । अभिमाण-परकम-साहसंक-विणए विइंतेमि ॥  
एयाण कहा-बंधे तं णत्थि जयमि जं कह वि चुकं । तह वि अणतो अत्थो कीरइ एसो कहा-बंधो ॥

§ ७) तामो पुण पंच कहाओ । तं जहा । सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा, तथा घरा कहिय त्ति ।  
एयाओ सन्वाओ वि एत्थ पसिद्धाओ सुंदर-कहाओ । एयाण लक्खण-धरा संकिण्ण-कह त्ति णायन्वा ॥  
कत्थइ रूवय-रइया कत्थइ वयणेहि ललिय-दीहेहि । कत्थइ उल्लावेहि कत्थइ कुलएहि निम्मविया ॥  
कत्थइ गाहा-रइया कत्थइ दुवईहि गीइया-सहिया । दुवल-चकलएहि तियलय तह भिण्णएहि च ॥  
कत्थइ दंडय-रइया कत्थइ णाराय-तोडय-णिबद्धा । कत्थइ वित्तेहि पुणो कत्थइ रइया तरंगेहि ॥  
कत्थइ उल्लावेहि अवरोप्पर-हासिरेहि वयणेहि । माला-वयणेहि पुणो रइया विविहेहि अणणेहि ॥  
पाइय-भासा-रइया मरहट्टय-देसि-वण्णय-णिबद्धा । सुद्धा सयल-कह चिय तावस-जिण-सत्थ-वाहिहा ॥  
कोऊहलेण कत्थइ पर-वयण-वसेण सकय-णिबद्धा । किंचि अवभंस-कया दाविय-पेसाय-भासिहा ॥  
सव्व-कहा-गुण-जुत्ता सिंगार-मणोहरा सुरइयंगी । सव्व-कलागम-सुहया संकिण्ण-कह त्ति णायन्वा ॥  
एयाणं पुण मज्जे एस चिय होइ एत्थ रमणिजा । सव्व-भणिइण सारो जेण इमा तेण तं भणिसो ॥

§ ८) पुणो सा वि तिविहा । तं जहा । धम्म-कहा, अत्थ-कहा, काम-कहा । पुणो सव्व-लक्खणा संपाइय-तिवग्गा १५

संकिण्ण त्ति । ता एसा धम्म-कहा वि होऊण कामत्थ-संभवे संकिण्णत्तणं पत्ता ।  
ता पसियह मह सुयणा खण-मेत्तं देह ताव कणं तु । अब्भत्थिया य सुयणा अवि जीयं देति सुयणाण ॥ अणं च ।  
सालंकारा सुहया ललिय-पया मउय-मंजु-संलावा । सहियाण देइ हरिसं उव्वूढा णव-वहु चेष ॥  
सुकइ-कहा-इय-हिययाण तुम्ह जइ वि हु ण लग्गए एसा । पोढा-रयाओ तह वि हु कुणइ विसेसं णव-वहु व्व ॥ अणं च ।  
णज्जइ धम्माधम्मं कजाकजं हियं अणहियं च । सुव्वइ सुपुरिस-चरियं तेण इमा जुज्जए सोउं ॥

§ ९) सा उण धम्मकहा णाणा-विह-जीव-परिणाम-भाव-विभावणत्थं सव्वोवाय-णित्तोहिं जिणवरिंदेहिं चउव्विहा २१  
भणिया । तं जहा । अक्खेवणी, विक्खेवणी, संवेग-जणणी, णिव्वेय-जणणि त्ति । तत्थ अक्खेवणी मणोणुकूला, विक्खेवणी  
मणो-पडिक्कूला, संवेग-जणणी णाणुप्पत्ति-कारणं, णिव्वेय-जणणी उण वेरग्गुप्पत्ती । भणियं च गुरुणा सुहम्म-सामिणा ।  
अक्खेवणि अक्खित्ता पुरिसा विक्खेवणीए विक्खित्ता । संवेयणि संविग्गा णिव्विण्णा तह चउत्थीए ॥  
जहा तेण केवलिणा अरणं पविसिऊण पंच-चोर-सयाइं रास-णञ्जण-च्छलेण महा-मोह-गह-गहियाइं अक्खिक्खिऊण इमाए  
चच्चरीए संबोहियाइं । अवि य ।

संबुज्जइ किं ण बुज्जइ एत्तिए वि मा किंचि सुज्जइ । कीरउ जं करियव्वयं पुण बुज्जइ तं मरियव्वयं ॥ इति धुवयं । २७  
कसिण-कमल-दल-लोयण-चल-रेहंतओ । पीण-पिहुल-थण-कडियल-भार-किरंतओ ।  
ताल-चलिर-वलावलि-कल्यल-सइओ । रासयमि जइ लब्भइ जुवई-सत्थओ ॥

संबुज्जइ किं ण बुज्जइ । पुणो धुवयं ति । तओ अक्खित्ता ।  
असुइ-मुत्त-मल-रुहिर-पवाह-विरुवयं । वंत-पित्त-दुग्गंघि-सहाव-विलीणयं ।

1 > P जेहिं, P न, J जडिय, P सेणो 2 > P को न वधए, J सुअणो, J सवर 3 > P अत्रे, J गरुअ, J चिन्तिअमईआ,  
P अहिमाण, P संकवियणे 4 > J बद्धे, P नत्थि जयमि कहवि, J कविचि चुकं, J कहावद्धो 5 > P puts numbers after  
each kahā, J खण्ड°, P वरकहिय, J कहिअ त्ति 6 > P एयाउ सन्वाउ एत्थ, J एयाण P पयाण, P संकिण, P त्ति व नायन्वा ॥छा।  
7 > P कत्थय (in both the places), P वयणेहिं, P -दियएहिं 1, J adds कत्थइ उल्लावेहिं on the margin in a  
later hand [उल्लावेहिं], P कुलएहिं निम्मविया 8 > P रइया, J दुवतीहिं, P तियलय, P भिन्न 9 > J दण्डय (१), P नाराय,  
J चित्तेहिं P वित्तेहिं 10 > P हासिरेहिं, J अणेहिं P अत्रेहिं 11 > J पायय, P वण्णयणिबद्धा, J वाहिहा. 12 > P  
निबद्धा, J कया, P दो विय 13 > P कलागुण, J इअंगी, P संकिण, P नायन्वा, J भणिसो ॥ छ ॥ 15 > J संपाडिअ P संपाईय-  
16 > J कामवत्थ, P सकिण°. 17 > J पसिय महह सुअणा P पसियह महासुयणा, P देसु, J कण त्ति P कत्रं तु, J सुअणा, J जीव  
देन्ति सुअणाण, P अत्र 18 > J मउअ, P मंजुल्लावा, P नव, J येव for चेष 19 > J सुकय, P जय वि हु न लग्गए, P पोढ  
P नव, P अत्रं 20 > P नज्जइ, J धम्माहम्मं, J हिअं, J हिअ 21 > P सो उण, P नाणा, P विभावणसव्वो°, P वेण°. 22 > J  
विक्खेवणीय P विक्खेवणीए, P निव्वित्ता, J संजमइ त्ति ॥ for तह eta. 25 > J अरणं पडिसिं, P वरत्रं, P न्धगच्छेण,  
J हिआइं, P मोहगहग्गहिं 26 > P हिआणि 27 > J P किण्ण, J एत्तिइए, P बुक्कइ, J मरिअ°. 28 > P लोयण वज्जइतओ,  
P पिहुलघणकहियल, J कडिअल, P किरतओ 29 > J चलिर, P वलावलि, P रामयमि, J जुवतीसत्थओ. 30 > J P किण्ण,  
J om. ति, P तत्तो for तओ 31 > J मंस for वंत, P पित्त, P विरुवयं ।

- 1 मेय-मज-वस-फोफस-हड्ड-करकयं । चम्म-मेत्त-पच्छायण-जुवइ-सत्ययं ॥ 1  
संबुज्जह किं ण बुज्जह । तओ विक्खित्ता ।
- 3 कमल-चद-णीलुप्पल-कंति-समाणयं । मूढएहि उवमिज्जह जुवइ-अंगयं । 3  
थोवयं पि भण कय्यह जह रमणिज्जयं । असुइय तु सव्वं चिय इय पच्चक्खय ॥  
संबुज्जह किं ण बुज्जह । तओ सविग्गा ।
- 6 जाणिऊण एय चिय एत्य असारए । असुइ-मेत्त-रमणूसव-कय-वावारए । 6  
कामयम्मि मा लग्गह भव-सय-कारए । विरम विरम मा हिंडह भव-संवारए ॥  
संबुज्जह किं ण बुज्जह ।
- 9 एवं च जहा काम-णिब्बेओ तहा कोह-लोह-माण-मायादीणं कुत्तियाणं च । समकालं चिय मव्व-भाव-वियाणणुण गुरुणा 9  
सव्वणुणा तहा तहा गायतेण ताइं चोराण पच वि सयाइं संभरिय-पुव्व-जम्म-जुत्तताइ पडिवण्ण-म्मण-लिंगाइं तहा कयं  
जहा संजम पडिवण्णाइं ति । ता एत्तियं एत्य सार । अम्हेहि वि एरिसा चउव्विहा धम्म-कहा समाढत्ता । तेण किंचि  
12 काम-सत्य-संवदं पि भणिहिइ । तं च मा गिरत्थयं ति गणेजा । किंतु धम्म-पडिवत्ति-कारण अक्खेवणि ति काऊण 12  
बहु-मयं ति । तओ कहा-सरिरं भण्णह । तं च केरिस ।

§ १०) सम्मत्त-लंभ-नास्य अवरोप्पर-णिव्वडंत-सुहि-कञ्जं । णिव्वाण-गमण-मार रइयं दक्खिण्णइधेण ॥

- 15 जह सो जाओ जत्य व जह हरिओ संगएण देवेण । जह सीह-देव-म्याहू दिट्ठा रण्णम्मि सुण्णम्मि ॥ 15  
जह तेण पुव्व-जम्मं पंचण्ह जणाण साहियं सोउं । पडिवण्णा सम्मत्तं सग्गं च गया तवं काउ ॥  
भोत्तूण तत्य भोए पुणो वि जह पाविया भरहवासे । अण्णोण्णमयाणंता केवल्लिणा वोहिया मव्वे ॥
- 18 सामण्णं चरिऊणं सविग्गा ते तवं च काऊणं । कम्म-कलंक-विमुक्का जह मोक्खं पाविया सव्वे ॥ 18  
एयं सव्व भणिमो एएण कमेण इह कहा-अथे । सव्व सुणेह सुयणा साहिजंत मए पुण्ह ॥  
एयं तु कहा-करणुज्जयस्स जह देवयाएँ मह कहिय । तह चित्तरेण भणिमो तीएँ पसाएण णिसुणेह ॥
- 21 तत्थ वि ण-याणिमो चिय केरिस-रूवं रएमि ता एयं । किं ता वक रइमो किं ता ललियक्खर काइं ॥ जेण, 21  
सुद्धो ण सुणह वंके ओ पुण हसइ उज्जुय भणिय । उज्जुय-छेयाण हिय तम्हा छेउज्जुयं भणिमो ॥  
अलं च इमिणा विहव-कुल-वालियालोल-लोयण-कडक्ख-विकखेव-विलाग-वित्तरेण विय गिरत्थएणं वाया-पवित्तरेणं । एयं  
24 चियं कहावत्थं ता णिसामेह । अत्थि चउसागरुज्जल-मेहला । 24

§ ११) अहह, पम्हुट्टं पम्हुट्टं किंचि, पसियह, त ता णिसामेह । किं च त । हू,

ससुहमइसुंदरो चिय पच्छा-भायम्मि मंगुलो होइ । विंझ-गिरि-वारणस्स व खलस्स वीहेइ कइ-लोओ ॥

- 27 तेण वीहमाणेहिं तस्स थुइ-वाओ किंचि कीरइ त्ति । सो व दुज्जणु कइसउ । हूं, सुणउ जइसउ, पढम-दसणे चिय 27  
भसणसीलो पट्टि-मासासउ च्व । तहेव मंडलो हि अपच्चमिण्णायं भसइ, मयहिं च मासाइं असइ । खलो घइं  
मायाहि वि भसइ । चडप्फडंतहं च पट्टि-मासाइं असइ त्ति । होउ काएण सरिसु, णिच्च-करयरण-सीलो छिड्ड-पहारि च्व ।
- 30 तहेव वायसो हि करयरंतो पउत्थ-वइया-यणहो हियय-हरो, टिड्ढेहिं च आहार-मेत्तं विलुंपह । खलो घइं पउत्थ-वइया 30  
कुल-वालियाण विज्ज-संपयाणेहिं दुक्ख-जणउ, अच्छिड्ढे वि जीवियं विलुप्पह । जाणिउ खरो जइसउ, सुयण-रिद्धि-दंसणे

1) J मय, J वसफो, J प्पच्छायणजुअती- 2) J किण्ण, P किं न बुज्जहा 3) P नीलु, P एहि, J जुवसी-  
4) P भणइह तत्थ जह, P तु for तु, J इअ 5) J किण्ण P किं न बुज्जहा, J सविग्गाउ P संकिग्गा 6) J चिय एत्य  
P चियत्य, P रमणसववावारए । 7) JP 'यमि, J हिण्टह. 8) J om किं न बुज्जह of P 9) P निब्बेओ, P  
मायाईण तु ति, J चिय, J विभाण 10) P 'व्वज्जणा, P गाइएण, J ताण चोराण, J om वि, P सयाणि, J 'रिअ, P 'वन्न,  
P लिंगाणि 11) P सयम, J पवण्णाइ त्ति, P पवन्नाय ति, J एत्तिअं, J वि एमा 12) P 'सत्यपडिवद्ध, P भणिहिइं, P मा  
निर, P माण ना 14) J गकजं, P -निव्व, J णेव्वाण P णि, J रइअ, J दक्खिण्णइधेण P दक्खिण्णं ॥ छ ॥ 15) P च  
for व, J जह परिओसं, P जह दिओ व सं, J रण्णम्मि सुण्णम्मि P रत्तमि मुत्तमि 16) P पचन्ह, J 'हिअ, P 'वन्ना,  
P संमत्त 17) P अन्नोन्नमयागतो, J वोहिआ 18) P सामन्न, J च कातूण P व काऊण, P पाविया 19) J 'वद्धे, J सुअणा  
साहिप्यत्त. 20) P कइ, P तत्थ for तह, P निमुणेणु 21) P वि न, J ललियक्खर 22) P न याणइ, J तसर, J हु ।  
उज्जुअ, J हिअ, J 'उज्जुअं 23) J वि for विहव, J वालिआं, J लोअण, J विअ P चिय, P वायाए वि 24) J एय  
चिय P पत्थुरय, P ति निसा ॥ छ ॥, for ता etc., P सागरुज्ज 25) J om one पम्हुट्ट, J पमिअह, P निसामेह, P व  
for च, P हु 26) J चिय, J भावमि P भायमि, P विज्ज, P कयलोओ । 27) P सो च्व, उ in J at times looks  
like ओ, P 'णो कइसओ, P हु, P जइसुओ 28) P 'सालो, J तहे मण्ड, J om हि, J 'अभिण्णाअ P 'व्वमिन्नाहयइ, P  
'मयाहिं स मा, P थय मायहे 29) J 'फड P 'फडताह, J चमडिमासइ, P सरिसओ निच्च 30) J तहे, P 'यरंतो, P  
वइयाण होइ हिययरो, P थय, J 'वइया वालिआण P वालियाण 31) P सपयाणेहिं, P जणओ (even in J sometimes  
उ looks like ओ), J जीविय P जीविय विलुंपओ, P जाणियो, P जइसइओ, J सुयण

- 1 द्विजह, णिहज्जो महलेण च सहे उल्लवह । तहेव रासहो हि इमं तण-रिद्धि-महलं असिउं ण तीरह ति चित्तए द्विजह, 1  
 अविभाविजंत-अक्खरं च उल्लवह । खलो घइं आयहो किर एमहल-रिद्धि जायल्लिय ति मच्छरेण द्विजह, पयड-दोसक्ख-  
 3 रालावं च उल्लवह । अवि कालसप्पु जहसउ, छिद्ध-मग्गण-वाचडो कुडिल-गह-मग्गो व्व । तहेव भुयंगमो हि पर-कयाइं 3  
 छिद्धाईं मग्गह, सव्वहा पोद्रेणं च कसइ । खलो घइं सइं जे कुणह छिद्धाईं, थद्वो व्व भमइ । चित्तेमि, हूं, विसु जइसउ,  
 पमुहरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुरउ मुहे, महुरं मंतेहिं च कीरइ रसायणं । खलो घइं मुहे जे कडुयउ मंतइ,  
 6 घडियइ वि विसंघटइ । हूं, बुज्झइ, चट्टइ खलु खलो जि जइसउ, उज्झिय-सिणेहु पसु-भत्तो य । तहेव खलो वि वराओ 6  
 पीलिजंतो विमुक्क-णेहु अयाणंतो य पसुहिं खजइ । इयरु घइं एकपए जे मुक्क-णेहु, जाणंतो जे पसु तह वि खजइ । किं च  
 भण्णउ । सव्वहा खलु असुइ जइसउ, विसिट्ठ-जण-परिहरणिज्जो अपरिप्फुड-सहावइ-खुद्ध-मंडली-णिणिणिणाविउ व्व ।  
 9 तहे सो वि वरउ किं कुणउ भण्णहो जि कस्सइ वियारु । खलो घइं सइं जे बहु-वियार-भंगि-भरियल्लउ ति ॥ सव्वहा 9  
 मह पत्तियासु एयं फुडं भणंतस्स संसयं मोतुं । मा मा काहिसि मेत्ति उग्ग-भुयंगेण व खलेण ॥ जेण,  
 जारजायहो दुज्जणहो दुट्ट-तुरंगमहो जि । जेण ण पुरओ ण मग्गओ हूं तीरइ गंतुं जि ॥ अवि य ।  
 2 अकए वि कुणइ दोसे कए वि णासेइ जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुज्जणस्स को वा ण वीहेइ ॥ अहवा । 12  
 कीरउ कहा-णिवंधो भसमाणे दुज्जणे भगणिऊण । किं सुणएहिं धरिजइ विसंखलो मत्त-करिणाहो ॥

§ १२) होंति सुयण चिय परं गुण-गण-गरुयाण भायणं लोए । मोत्तूण णई-णाहं कथं व णिवसंतु रयणाइं ॥

- 5 तेण सज्जण-सत्थो घेय एत्थ कहा-बंधे सोउमभिउत्तो ति । सो व सज्जणो कहसउ । रायहंसो जइसउ, विसुद्धो-भय- 15  
 पक्खो पय-विसेसण्णओ व । तहेव रायहंसो वि

उच्च-जलयाढंवर-सहेहिं पावइ माणसं दुक्खं । सज्जणु पुण जाणइ जि खल-जलयहं सभावाइं ॥

- 8 तेण हसिउं अच्छइ । होइ पुण्णिमाइंदु जइसउ, सयल-कला-भरियउ जण-मणाणंदो व्व । तहे पुण्णिमायंदो वि कलंक- 18  
 दूसेओ अहिसारियाण मण-दूमिओ व । सज्जणो पुण अकलंको सव्व-जण-दिहि-करो व्व । अत्रि मुणालु जइसउ, खंडिजंतो वि  
 अक्खुडिय-णेह-तंतु सुसीयलो व, तहेव मुणालु वि ईसि-कंडूल-सहाउ जल-संसगि वद्धिओ व्व । सज्जणु पुणु महुरसहावु  
 11 वियइ-वडिय-रसो व्व । हूं, दिसागओ जइसउ, सहावुण्णउ अणवरय-पयट्ट-दाण-पसरो व्व । तहे दिसागओ वि मय- 21  
 वियारेण घेप्पइ, दाण-समए व्व सामायंत-वयणो होइ । सज्जणु पुणि अजाय-मय-पसरु देंतहो व्व वियसइ वयण-कमलु ।  
 होउ मुत्ताहारु जइसउ, सहाव-विमलो बहु-गुण-सारो व्व । तहेव मुत्ताहारो वि छिद्ध-सय-णिरंतरो वण-वडिउ व्व । सज्जणो  
 14 पुण अच्छिद्ध-गुण-पसरो णायरउ व्व । किं बहुणा, समुद्धो जइसओ, गंभीर-सहाओ महत्थो व्व । तहेव समुद्धो वि 24  
 उक्कलिया-सय-पसरो णिच्च-कलयलारावुव्वेविय-पास-जणो व्व दुग्गय-कुडुंबहो जि अणुहरइ । सज्जणु पुण मंथर-सहाओ महु-  
 महुर-वयण-परितोसिय-जणवउ व्व ति । अवि य ।

1) J द्विजह P द्विज्जइ निं, P सहेण, J तहे, J हिस्सुत्तणरिद्धिमहल असिउं ण, P वा इम नूणरिद्धिमहल पासिउं न, P चित्तए

- 2) J तक्खर, J खलु एइं, P om आयहो, J कि एमहल P किर महल, J जायल्लिय P जाएलए, P दोसाखरलादु च 3) P  
 जइसओ, P om गइ, J व for व्व, J तहे भुयंगमो हि P भुयंगो वि 4) P छिद्धाईं मग्गइं, J सव्वहं, P पोद्रेण व कसइ,  
 P घइं सय जे छिद्धइ कुणइ ।, P थद्वो, J व for-व्व, P चित्तेहु, P जइसओ (in J उ looks like ओ) 5) P रसिओ, J  
 जीयंतकरो वि P जीयंतहरो व्व, P मुहर for महुर, P व for च, P रसायण, P घय मुहे जे कडुयउ, J कडुअउ मतं व 6) P  
 घडियइं वि विसंघटति, P डो for हूं, P om बुज्झइ, P खलो for खलु, P om जि, P जइसओ, P सिणेहो, J व for य, J  
 तह खलो, P om वि, J वरउ 7) P पीडिजंतो, J णेहो, J व for य, P पसुहिं for पसुहिं, J इयरु P इयो, J घइ P घय, P  
 एकपयमुक्कणेहो, J जाणइ जे, P जे एसु 8) J om सव्वहा, P खलो, P जइसओ, P परिहरणिज्जो, P फुड, J गइ for खुद्ध, J  
 मण्डली, J व for व्व 9) P अण्णहेव कस्सइ, J विआरु, J विआर, P भगमरिल्लउ, J भरियल्लउ 10) J पत्तियासु, P सुयणा for  
 एयं, J भणन्तस्स, J भुयंगेण, P वि (for व) खलेण 11) J ज्जाअहो, P जेण नरायहो, P जि for जि, P 2nd line thus ह  
 ण अग्गिपण पच्छिए गतु हु तीरइ । 12) P न for ण 13) P कीरइ, J णिवद्धो P निवयो, P माणो, J णाहो ॥ छ ॥ 14)  
 J होन्ति सुवण चिय, J गरुआण भाअण, P निवं, P रयाणाईं 15) J ज्जेअ P चेय, J वदं, P ममिमउत्तो, P सोव्व,  
 P कइसओ (in J उ and ओ look alike), P जइसओ 16) P ण्णुउ व्व, J तहे 17) P माणस, P सज्जणो, J पुणु, P जे  
 for जि, J सहावइ P सभावाइं 18) JP होउ, J मायदु P माइदो जइसयल, P हरिओ for भरियउ, J adds जगण जणं, J  
 om. व्व, P तहेय पुं, P माइदो 19) P अहिसारियाजणदूसिउव्व, P जइसओ 20) J डियनरततु सुसीतलो, P व्व for व,  
 J तहे, P ईत्तकडुलसहावो, J वडिओ व P वडिउ व्व, P सज्जणो पुण, P सहावो 21) J वियड, J रसो व, P हु,  
 J सहाउण्णओ P सहाउण्णउ, J व for व्व 22) J विआरेण, J व for व्व, P सज्जणो पुण, J व for व्व, J विअसर 23)  
 P होइ, P हारो, P सओ, P गुणसीरो, J व for व्व, J तहे, J om सय, JP निरतरो, J व for व्व 24) P अच्छिद्धगुणपयो  
 णोयं, J व हिं for व्व कि, J समुद्ध, P सहावो, J व for व्व, J तहे 25) J लिआ, J णिच्चु P निच्च, P उवेविपयामजाणो, J व  
 for व्व, P कुट्टवहो, P om. जि, P सज्जणो, J पुण्णिमथिर. 26) J om. व्व.



- 1 सरलो पियंवओ ढक्खिण्णो चाई गुणण्णुओ सुहवो । मह जीविण्णु त्रि चि सुयणो चिय जियउ लोयम्मि ॥ अहवा । 1  
गुण-सायरम्मि सुयणे गुणाण अंत ण चेव पेच्छामि । रयणाई रयण-दीवे उच्चैउ को जणो तरइ ॥
- 3 एत्थं च उण ण कोइ दुज्जणो, उपेक्खह सज्जण च केवल्लय । तहे णिसुणेतु भडरय त्ति । 3

§ १२) अत्थि द्ढ-मेरु-गाहिं कुल-सेलार समुह-णोमिह । जवुदीव दीवं लोए चक्क व णिक्खित्तं ॥ अवि य ।

तस्सेय ढाहिण्णे वहुए कुल-पच्चए विलंबेउ । वेयद्वेण विरिक्क सासय-वास भरहवाम ॥

- 6 वेयद्व-ढाहिणेण गगा-सिंधूय मज्जयारम्मि । अत्थि बहु-मज्ज-देसे मज्जिम-देसो त्ति सुपसिद्धो ॥ 6  
सो य देसो बहु-धण-धण-समिद्धि-नाविय-पामर-जणो, पामर-जण-वद्धावाणय-नीय-मणहरो, मणहर-नीय-रव-रसुकटिय-  
सिहिउलो, सिहिउल-क्या-रवावद्ध-हल्लयोलुट्ठिमजमाण-कंदल-णिहामो, कंदल-णिहाय-गुजत-भमिर-भमरउलो, भमरउल-  
9 भमिर-अकार-राव-वित्तय-हरिणउलो, हरिणउल-पलायत-पिक्क-कलम-कणिस-कय-तार-रवो, तार-रव-संकिउट्टीण-कीर-पंखा-  
भिघाय-डलमाण-तामरसो तामरस-कंसरुच्छलिय-वहल-तिंगिच्छि-पिंजरिजंत-कलम-गोवियणो, गोवियण-महुर-नीय-रव-रसा-  
खिप्पमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिजमाण-तरुणियणो, तरुणियणावद्ध-राम-मंडली-ताल-वम-चलिर-  
12 वलय-कल्लयलारावुदीविजंत-मयण-मणोहरो त्ति । अवि य । 12

वहु-जाइ-समाहणो महुरो अत्यावगाढ-जइ-जुत्तो । देमाण मज्जदेसो कहाणुवधो व्व सुकट-कओ ॥

§ १४) तस्स देसस्स मज्ज-भाए दूमह-खय-काल-भय-पुजिय पुण्णुप्पत्ति-सूसमेक्क-वीय पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय-

- 15 हला-हलारावुप्पाय-खुहिय-समुह-मह-गंभीर-सुच्चमाण-पडिरव, तुग-भवण-मणि-नोरणावद्ध-धवल-धयवहुद्व-वमाण-सखुद्ध- 15  
सुद्ध-रवि-सुरय-परिहरिजंत-भुवण-भाग, णाणा-मणि-विणिम्मविय-भवण-भित्ति-करविजंत-किरणावद्ध-सुर-चाव-रम्म-णहयलं,  
महा-कसिण-मणि-वडिय-भवण-सिहर-प्पहा-पडिरद्ध-जलहर-वद्ध, णिहय-करयल-ताडिय-सुरव-रविजंत-नीय-नाजिय-णिणायं,  
18 तविय-तवणिज-पुजुजल-ललिय-त्रिलासियण-मचरत-विज्जु-लयं तार-मुत्ताहलुद्ध-पमरत-किरण-वारि-धारा-णियर णव-याउस- 18  
समयं पिव सव्व-जण-मणहर सुच्चए णयर । जं च महापुरिस-नायाभिसेय-समय-समागम-वासवाभिसेय-समणंतर-संपत्त-  
णालिणि-पत्त-णिक्वित्त-वारि-वावद्ध-कर-पुरिस-मिहुण-पल्हत्थिय-चलण-जुयलाभिसेय-उसण-सहरिस-हरि-मणिय-साहु-विणीय-  
21 पुरिस-विणयंक्रिया विणीया णाम णयरि त्ति । 21

§ १५) सा पुण कइसिय । समुह पिव गभीरा महा-रयग-भरिया य, सुर-गिगी विय थिरा कंचणमया य, भुवण

- पिव सासया बहु-जुत्ता य, सगं पिव रम्मा सुर-भवण-गिरंतरा य, पुह्हे विय त्रिथिण्णा बहु-जण-सय-संकुला य, पायालं 24  
24 पिव सुगुत्ता रयण-पदीवुज्जोइया य त्ति । अवि य । 24

चंद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमल-जल-हीरण-भाग्ण । घडिओ जीए विहिणा पायारो सेउ-वंधो व्व ॥

- जत्य य विवणि-मग्गेसु वीहीओ वियइ-कासुय-लीलाओ त्रिय कुंकुम-कप्पूरागरु-मयणाभिवास-पडवाइ-विच्छडाओ । 27  
27 काओ वि पुण चेला-वण-राईओ इव एला-लवग-ककोलय-रासि-नाटिभणाओ । अण्णा पुण इवम-कुमारिया इव मुत्ताहल- 27  
सुवण्ण-रयणुजलाओ । अण्णा छंछइओ इव पर-पुरिस-उसगे वित्थारियावद्ध-कसण-धवल-दीहर-जेत्त जुयलाओ । अण्णा  
खलयण-नोट्टि-मंडली इव बहु-विह-पर-वमण-भरियाओ । तहा अण्णाओ उण खोर-मडलिओ इव संधिहिय-विदाओ

1) P वच, J ढक्खिण्णायवाहं, J सुहओ, J चिय जिअउ, J लोअमि P लोयमि, J अवि य for अहवा 2) JP रमि, J सुयणो, JP न, J चय, P पेक्खामि, P उच्चैय 3) P एत्थ पुण, J उपेक्खह, J केवल्ल, P तह, P निमुणेतु, JP त्ति ॥ छ ॥ 4) P णाही, P नेमिह, P चक्क, P om अवि य 5) P बहुविहकुल, P अ for वि P वेयद्वुनगवि 6) J यारमि, J मज्जदेसो, P य for सु 7) J पभूत for बहु, J गव्विअ P गडिय 8) P उलासमयकेया, P निहाओ, P निहाय, P उर for उल 9) P उहरि 10) P पक्खाभिघायडल्लण, J गोवियणो गोवियण, P रसत्थिप 11) J पहिययणो पहिययण, P हामिज, J णिअणो, J णिअणा, J मण्ड 12) J हरो व त्ति, P माणहरो 13) P कन्वावधो, J कउ ॥ छ ॥ 14) P काले, J वच्चिय P पुजिया, P पुण्णुप्पत्ति, J वीअ, J पिवा 15) P हलहला, J बुप्पय, P पडिरवा, P सखुद्ध 16) P भाया, P नाणामणिनिम्मविय, J विअ, P कराविजंत, P णावद्ध, P नहयला 17) P om महा, J वडिय, J has a danda after प्पहा, P वद्धा for वद्ध J करअल, P ताडियसुरवरगिज्जण, P निनाया 18) P मिणीयण, P लया, J ताल, P हलुद्ध, P णवरवारि, P णियरा, P महा for णव 19) J om सव्व, P मणोहरा, P सुव्वइ, P नयरी, P जा य महारिम, P सेयमणतर 20) J om नलिणि of P, P निक्खि, J om कर, J पल्हत्थिय 21) P विणीयक्रिया, P नाम, P नयरि 22) P मिया, P समुहो विय, J गिरि विअ, P च for य 23) P जुत्ता च, P तिर, J व for विय, P विच्छन्ना, J om सय 24) J मयुत्ता, P पडंबु, J जोइय त्ति ॥ छ ॥ 25) P लवण for हीरण, P वडिय च जीय, J व्व ॥ छ ॥ 26) J om य, J विमणि, J वीहीओ विअडुकासुअ P वीही-विहय त्ति कासुअ, J विय, P वयणाहिवास, P पट्टिवासविच्छइओ 27) P चिय for इव, P ककोलय, P गत्तणाउ, P कुमारियाउ विय 28) P विव for इव, P टंमणरथ for टमणे, J वित्थारियअवकसण, P रियाय च कमिण, P नेत्त, J जुअ P अन्ना 29) J मण्ड, P मट्ठीओ इय, J विविहवहुयर for बहु etc., J याओ ॥ छ ॥, P अन्ना उण, J मण्ड, J सणि, P सन्निहिय

- 1 द्विजह, गिल्लो महलेण च सहे उलवह । तहेव रासहो हि इमं तण-रिद्धि-महलं असिउं ण तीरह ति वित्तए द्विजह, 1  
 अविभाविजंत-अक्सरं च उलवह । खलो घइं आयहो किर एमहल-रिद्धि जायहिय ति मच्छरेण द्विजह, पयड-दोसकख-  
 2 शालाव च उलवह । अवि कालसपु जइसउ, छिड्ड-मगण-वावडो कुडिल-गइ-मगो व्व । तहेव भुयंगमो हि पर-कयाइं - 2  
 छिडाइं मगगइ, सव्वहा पोद्रेण च कसइ । खलो घइं सइं जे कुणइ छिडाइं, थडो व्व भमइ । चित्तेमि, हूं, विसु जइसउ,  
 पसुहरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुरउ मुहे, महुरं मंतेहिं च कीरइ रसायणं । खलो घइं मुहे जे कडुयउ मंतइ,  
 3 घडियइ वि विमंघडइ । हूं, धुज्मइ, वट्टइ खलु खलो जि जइसउ, उज्झिय-सिणेहु पसु-भत्तो य । तहेव खलो वि वराओ 3  
 पीडिजंतो विमुक्-गेहु अयाणांतो य पसूहिं खजइ । इयरु घइं एकपए जे मुक्-गेहु, जाणंतो जे पसु तह वि खजइ । किं च  
 भण्णउ । मव्वहा खलु असुइ जइसउ, विसिट्ट-जण-परिहरणिज्जो अपरिप्फुड-सहावद्ध-सुडु-मंदली-गिणिगिणाविउ व्व ।  
 4 तहे सो वि वरउ किं कुणउ भण्णहो जि कस्तइ वियारु । खलो घइं सइं जे बहु-वियार-भंगि-भरियलउ ति ॥ सव्वहा 4  
 मह पत्तियासु एयं फुटं भणंतस्स संसयं मोत्तुं । मा मा काहिसि मेत्ति उग्ग-भुयंगेण व खलेण ॥ जेण,  
 जारजायहो दुज्जणहो दुट्ट-तुरंगमहो जि । जेण ण पुरओ ण मगगओ हूं तीरइ गंतुं जि ॥ अवि य ।  
 5 अकए वि कुणइ दोसे कए वि णासेइ जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुज्जणस्स को वा ण वीहेइ ॥ अहवा । 5  
 कीरउ कहा-णिबंधो भसमाणे दुज्जणे अगणिऊण । किं सुणएहिं धरिजइ विसंखलो मत्त-करिणाहो ॥

§ १२) होंति सुयण चिय परं गुण-नाण-गरुआण भायणं लोए । मोत्तूण णई-णाहं कथ्य व णिवसंतु रयणाइं ॥

- 16 तेण सज्जण-सत्यो चेत्य पत्य कहां-ंधे सोडमभिउत्तो ति । सो व सज्जणो कइसउ । रायहंसो जइसउ, विसुद्धो-भय- 16  
 पक्खो पय-विसेसणुओ व । तहेव रायहंसो वि

उच्चमड-जलयाडंबर-सदेहिं पावइ माणसं दुक्खं । सज्जणु पुण जाणइ जि खल-जलयहं सभावाइं ॥

- 18 तेण हसिउं अच्छइ । होइ पुणिमाइंदु जइसउ, सयल-कला-भरियउ जण-मणाणंदो व्व । तहे पुणिमायंदो वि कलंक- 18  
 दूसिओ अहिसारियाण मण-दूमिओ व । सज्जणो पुण अकलंको सव्व-जण-दिहि-करो व्व । अवि मुणालु जइसउ, खंडिजंतो वि  
 अक्सुडिय-णेह-तंतु सुसीयलो व, तहेव मुणालु वि ईसि-कंहुल-सहाउ जल-संसग्गि वट्ठिओ व्व । सज्जणु पुण महुरंसहाउ  
 21 वियद्व-वडिय-रसो व्व । हूं, दिसागओ जइसउ, सहावुण्णउ अणवरय-पयट्ट-दाण-पसरो व्व । तहे दिसागओ वि मय- 21  
 वियारेण घेप्पइ, दाण-समए व्व सामायंत-वयणो होइ । सज्जणु पुणि अजाय-मय-पसरु देंतहो व्व वियसइ वयण-कमलु ।  
 -- होउ मुत्ताहारु जइसउ, सहाव-विमलो बहु-गुण-सारो व्व । तहेव मुत्ताहारो वि छिड्ड-सय-णिरंतरो वण-वडिउ व्व । सज्जणो  
 24 पुण अच्छिड्ड-गुण-पसरो णायरउ व्व । किं बहुणा, समुहो जइसओ, गंभीर-सहाओ महत्थो व्व । तहेव समुहो वि 24  
 उक्कलिया-सय-पसरो णिच्च-कलयलारावुव्वेविय-पास-जणो व्व दुग्गय-कुडुंबहो जि अणुहरइ । सज्जणु पुण मंथर-सहाओ महु-  
 महुर-वयण-परितोसिय-जणवउ व्व ति । अवि य ।

- 1 > J द्विजह P द्विजह निं, P सहेण, J तहे, J हिंसुत्तणरिद्धिमहल असिउ ण, P वा इम नूणरिद्धिमहल पासिउ न, P चित्तए  
 2 > J तक्खर, J खलु एइं, P om. आयहो, J किं एमहल P किर महल, J जायहिय P जाएलए, P दोसाखरलाडु च 3 > P  
 जइसओ, P om. गइ, J व for व्व, J तहे भुयंगमो हिं P भुयंगो वि 4 > P छिडाइं मगगइं, J सव्वइं, P पोद्रेण व कसइ,  
 P घइं सय जे छिडाइं कुणइ, P थडो, J व for व्व, P चित्तेहु, P जइसओ (in J उ looks like ओ) 5 > P रसिओ, J  
 जीयंतकरो वि P जीयंतहरो व्व, P मुहरु for महुर, P व for च, P रसायण, P घय मुहे जे कडुयउ, J कडुअउ मंतउं व 6 > P  
 घडियइं वि विसंघटति, P हो for हूं, P om. वुज्मइ, P खलो for खलु, P om जि, P जइसओ, P सिणेहो, J व for य, J  
 तह खलो, P om. वि, J वरउ 7 > P पीडिजंतो, J णेहो, J व for य, P एसुहिं for पसुहिं, J इयरु P इयो, J घइं P घय, P  
 एकपयमुक्केहो, J जाणइ जे, P जे एसु 8 > J om सव्वहा, P खलो, P जइसओ, P परिहरणिज्जो, P फुड, J गइ for सुडु, J  
 मण्डली, J व for व्व 9 > P अण्णहेव कस्तइ, J विआरु, J विआर, P भगभरिलउ, J भरिअलउ 10 > J पत्तियासु, P सुयणा for  
 एयं, J भणन्तस्स, J भुयंगेण, P वि (for व) खलेण 11 > J ज्जावहो, P जेण नरायहो, P जि for जि, P 2nd line thus: ह  
 ण अग्गिएण पच्छिए गंतुं हु तीरइ । 12 > P न for ण. 13 > P कीरइ, J णिवडो P निवधो, P माणो, J णाहो ॥ छ ॥ 14 >  
 J होन्ति सुयण चिय, J गरुआण भाजण, P निव, P रयणाइं 15 > J जेअ P चेत्य, J वद्धे, P मभिमउत्तो, P सोव्व,  
 P कइसओ (in J उ and ओ look alike), P जइसओ 16 > P ण्णुउ व्व, J तहे 17 > P माणस, P सज्जणो, J पुण, P जे  
 for जि, J सहावइं P सभावाहिं 18 > J होउ, J मायदु P माइंदो जइसयल, P हरिओ for भरियउ, J adds जणाण जणं, J  
 om. व्व, P तहेय पुं, P माइंदो 19 > P अहिसारियाजणदूसिउव्व, P जइसओ 20 > J वियनरततु सुसीतलो, P व्व for व,  
 J तहे, P ईसकंदुलसहावो, J वट्ठिओ व P वडिउ व्व, P सज्जणो पुण, P सहावो 21 > J वियड, J रसो व, P डु,  
 J सहाउण्णओ P सहावुण्णउ, J व for व्व 22 > J विआरेण, J व for व्व, P सज्जणो पुण, J व for व्व, J विमसर 23 >  
 P होइ, P हारो, P सओ, P गुणसीरो, J व for व्व, J तहे, J om सय, J निरतरो, J व for व्व 24 > P अच्छिड्डगुणपयरो  
 पोय, J व हिं for व्व किं, J समुह, P सहावो, J व for व्व, J तहे 25 > J लिआ, J णिच्चु P निच्च, P वुवेवियपासजाणो, J व  
 for व्व, P कुडुंबहो, P om. जि, P सज्जणो, J पुणिमधिर. 26 > J om. व्व.

1 सरलो पियंवओ ढक्खिण्णो चाई गुणण्णुओ सुहवो । मह जीविण्ण वि चिर सुयणो चिय जियउ लोयम्मि ॥ अहवा । 1  
गुण-सायरम्मि सुयणे गुणाण अंत ण चेव पेच्छामि । रयणाई रयण-दीवे उच्चैउ को जणो तरह ॥

3 एत्थं च उण ण कोइ दुज्जणो, उप्पेक्खह सज्जणं च केवल्लय । तहे णिसुणेंतु भडरय त्ति । 3

§ १३) अत्थि दढ-मेरु-णाहिं कुल-सेलार समुह-णेमिळं । जंबुदीवं दीवं लोए चक्क व णिक्खित्तं ॥ अवि य ।

तस्सेय दाहिणद्धे बहुए कुल-पच्चए विल्लवेउं । वेयद्धेण विरिक्क सासय-वासं भरहवासं ॥

6 वेयद्ध-दाहिणेण गंगा-सिंधूय मज्झयारम्मि । अत्थि बहु-मज्झ-देसे मज्झिम-देसो त्ति सुपसिद्धो ॥ 6

सो य देसो बहु-धण-धण-समिद्धि-गव्विय-पामर-जणो, पामर-जण-वद्दावाणय-गीय-मणहरो, मणहर-गीय-रव-रसुकंठिय-  
सिहिउलो, सिहिउल-केया-रवावद्ध-हलवोलुट्ठिभजमाण-कंदल-णिहाओ, कंदल-णिहाय-गुजत-भमिर-भमरउलो, भमरउल-

8 भमिर-अकार-राव-वित्तय-हरिणउलो, हरिणउल-पलायंत-पिक्क-कलम-कणिस-कय-तार-रवो, तार-रव-संकिउट्ठीण-कीर-पंखा- 8

भिवाय-उलमाण-तामरसो तामरस-क्खेरुच्छलिय-वहल-तिंगिच्छि-पिंजरिजत-कलम-गोवियणो, गोवियण-महुर-गीय-रव-रसा-  
खिप्पमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिजमाण-तरुणियणो, तरुणियणावद्ध-रास-मंडली-ताल-वम-चलिर-

12 वलय-कलयलारावुट्ठीविजंत-मयण-मणोहरो त्ति । अवि य । 12

बहु-जाइ-समाइण्णो महुरो अत्थावगाढ-जइ-जुत्तो । देसाण मज्झदेसो कहाणुवओ च्च सुकड-कओ ॥

§ १४) तस्स देसस्स मज्झ-भाए दूसह-खय-काल-भय-गुजियं पुण्णुप्पत्ति-सूसमेक्क-वीय पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय-

15 हला-हलारावुप्पाय-खुहिय-समुह-मह-गंभीर-सुव्वमाण-पडिरव, तुग-भवण-मणि-तोरणावद्ध-धवल-धयवहुद्धु-वमाण-संबुद्ध- 15

सुद्ध-रवि-तुरय-परिहरिजंत-भुवण-भाग, णाणा-मणि-विणिम्मविय-भवण-भित्ति-करविजंत-किरणावद्ध-सुर-चाव-रम्म-णहयलं,  
महा-कसिण-मणि-घडिय-भवण-सिहर-प्पहा-पडिवद्ध-जलहर-वद्र, णिहय-करयल-ताडिय-सुरव-रविजंत-गीय-गजिय-णिगायं,

18 तविय-त्तवणिज-पुंजुजल-ललिय-त्रिलामियण-सचरत-विज्जु-लयं तार-मुत्ताहलुद्ध-पमरत-किरण-वारि-घारा-णियर णव-पाउम- 18

समयं पिव सव्व-जण-मणहर सुव्वए णयर । जं च महापुरिस-रायाभिसेय-समय-समागम-वासवाभिसेय-समणंतर-संपत्त-  
णालिणि-पत्त-णिक्खित्त-वारि-वावद्ध-कर-पुरिस-मिहुण-पल्हत्थिय-चलण-जुयलाभिसेय-उसण-सहरिस-हरि-भणिय-साहु-विणोय-

21 पुरिस-विणयकिया विणीया णाम णयरि त्ति । 21

§ १५) सा पुण कइसिय । ममुह पिव गमीरा महा-रयग-भरिया य, सुर-गिरी विय थिरा कंचणमया य, भुवणं  
पिव सासया बहु-जुत्ता य, सग्ग पिव रम्मा सुर-भवण-णिरंतरा य, पुहई विय वित्थिण्णा बहु-जण-सय-संकुला य, पायाल 24

चद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमल-जल-हीरण-भण्ण । घडिओ जीए विहिणा पायारो सेउ-वंवो च्च ॥  
जत्थ य विवणि-मग्गेसु वीहीओ चियद्ध-कामुय-लीलाओ विवय कुंकुम-कप्पूरागरु-मयणाभिवास-पडवास-विच्छडाओ ।

27 काओ वि पुण वेला-वण-राईओ इव एला-लवंग-ककोलय-रामि-नाटिभणाओ । अण्णा पुण इड्ढ-कुमारिया इव मुत्ताहल- 27

सुवण्ण-रयणुजलाओ । अण्णा छंछइओ इव पर-पुरिम-उसणे वित्थारियायव-कसण-धवल-दीहर-णेत्त-जुयलाओ । अण्णा  
खलयण-नोट्टि-मंडली इव बहु-विह-पर-उसण-भरियाओ । तहा अण्णाओ उण खोर-मंडलिओ इव संपिहिय-विडाओ

1 > P वड, J ढक्खिण्णायचाई, J सुहओ, J चिय जिअउ, J लोअमि P लोयम्मि, J अवि य for अहवा 2 > JP रमि, J  
सुअणो, JP न, J चेय, P पेक्खामि, P उच्चैय 3 > P एत्थ पुण, J उप्पेक्खह, J केवल्ल, P तह, P निमुणतु, JP त्ति ॥ छ ॥ 4 > P

णाही, P नेमिळ, P चक्क, P om अवि य 5 > P बहुविहकुल, P अ for वि P वेयद्धुनगवि 6 > J थारमि, J मज्झदेसो, P  
य for सु 7 > J पभूत for बहु, J गव्विअ P गदिय 8 > P उलाममयकेया, P -निहाओ, P -निहाय, P उग for उल 9 > P

उहरि 10 > P पक्खाभिवायउल्लण, J गोवियणो गोविअण, P रसखिप्प 11 > J पहिययणो पहिययण, P हामिअ, J गिअणो,  
J गिअणा, J मण्ड 12 > J हरो व त्ति, P माणहरो 13 > P कवावधो, J कउ ॥ छ ॥ 14 > P काले, J वच्चिय P पुजिया,

P पुण्णप्पत्ति, J वीअ, J पिवा 15 > P हलहला, J उप्पयं, P पडिरवा, P मुखुद्ध 16 > P भाया, P नाणामणिनिम्मविय, J  
विअ, P कराविजत, P णाववद्ध, P नहयला 17 > P om महा, J घटिअ, J has a danda after प्पहा, P वद्धा for वद्र

J करअल, P ताडियसुरवरगिज्जन, P निनाया 18 > P मिणीयण, P लया, J ताल, P हलुद्ध, P णवरवारि, P णियरा, P  
महा for णव 19 > J om सव्व, P मणोहरा, P सुव्वड, P नयरी, P जा य महारिम, P सेयमणतर 20 > J om नलिणि of

P, P निक्खि, J om कर, J पल्हत्थिअ 21 > P विणीयकिया, P नाम, P नयरि 22 > P मिया, P समुहो विय, J गिरि  
विअ, P च for य 23 > P जुत्ता च, P निर, J व for विय, P निच्छन्ना, J om सय 24 > J मगुत्ता, P पडंबु, J व्णोइय  
त्ति ॥ छ ॥ 25 > P उवण for हीरण, P घडिय च्च जीय, J च्च ॥ छ ॥ 26 > J om य, J विमणि, J वीहीओ विअद्धकामुअ P वीही-  
विहय त्ति कामुअ, J विय, P नयणाहिवास, P पडिवाविच्छट्टाओ 27 > P चिय for इव, P ककोलय, P गत्ताउ, P कुमारियाउ  
विय 28 > P विव for इव, P दमणय्थ for दमणे, J वित्थारियअवकसण, P रियाय च्च कमिण, P नेत्त, J जुअ  
P अन्ना 29 > J मण्ड, P मंडलीओ थय, J विविहवहुर for बहु etc., J थओ ॥ छ ॥, P अन्ना उण, J मण्ड, J सणिं,  
P मन्निहिय

१ कच्छद्वि-गिच्छित्त-सरस-गहवयामो य । अण्णा गाम-जुवईओ इव रीरिय-संख-वलय-काय-मणिय-सोहाओ कच्चूर-वयण-  
 १ गिम्महंत-परिमलाओ य । अण्णा रण-भूमीओ इव सर-सरासणम्मसं-चक-संकुलाओ मंडलग-गिधियामो य । अण्णा मत्त-  
 २ मार्यग-घडाठ इव पलंबत-संस-चामर-घटा-सोहाओ सलेंदूराओ य । अण्णा मलय-वण-राईओ इव संगिहिय-विचिह-ओसहीओ  
 ३ बहु-चंदणाओ य । अण्णा सज्जण-पीईओ इव सिणेह-णिरंतराओ बहु-सज्ज-पेज्ज-मणोहराओ य । अण्णा मरहट्टिआ इव उहाम-  
 ४ हलिही-नय-पिंजरामो पयड-समुग्गय-पओहर-मणोहराओ य । अण्णा णंदण-भूमिओ इव स्सुराओ संगिहिय-महुमासाओ त्ति ।

§ १६) भवि य ।

५ जे पुहईं सुणिज्जइ दीसइ जं चित्तिं च हियण्ण । तं सम्भं चिय लब्भइ मग्गिजंतं विवणि-मग्गे ॥ जत्थ य ।  
 ६ पुवईयण-गिम्मल-सुह-मियेक-जोण्हा-पवाह-पसरेण । घर-वावी-कुमुयाइं मउलेउं णेय चाएंति ॥  
 ७ गिम्मल-माणिक्क-सिहा-पुरंत-संकंत-सूर-कंतेहिं । विय-राई-गिन्विसेसाईं णवरि वियसंति कमलाइं ॥  
 ८ जल-जंत-जलहरोत्थय-णहंगणाहोय-चेलविजंता । परमत्थ-पाउसे वि हु ण माणसं जंति घर-हंसा ॥  
 ९ कर-ताडिय-सुरव-रुक्कलंत-पडिसइ-नाज्जिउकंठा । गिम्हम्मि वि हलबोलेंति जत्थ मत्ता घर-मज्जरा ॥  
 १० णेउर-रव-रस-चलिया मग्गालगंत-रेहिरा हंसा । जुवईहिं सिम्भविजंति जत्थ बाल व्व गह-मग्गे ॥  
 ११ भणिण्ण विलासिणीहिं विलास-भणियम्मि मंजुले वयणे । पडिभणिण्णहिं गुणेइ व घर-यंजर-सारिया-सत्थो ॥  
 १२ जत्थ य पुरिसो एकेकमो वि मयरद्वओ महिलियाण । महिला वि रई रइ-वम्महोईं ठाणं चिय ण लडं ॥  
 १३ इय जं तत्थ ण दीसइ तं णत्थि जयम्मि किंचि अच्चरियं । जं च कहासु वि सुव्वइ तं संगिहियं तहिं सव्वं ॥  
 १४ मह एक्के चिय दोसो भाउच्छ-णियंत-बाह-मइलाइं । दइया-सुहाईं पहिया दीणाइं ण संभरंति जहिं ॥

§ १७) जत्थ य जणवण्ण ण दीसइ खलो विहलो व । दीसइ सज्जणो समिद्धो व, वसणं णाणा-विष्णाणे व, उच्छाहो

१५ धजे रणे व, पीईं दाणे माणे व, अब्भासो धम्मे धम्मे व त्ति । जत्थ य दो-सुहउ णवर मुहंगो वि । खलो तिल-विचारो वि ।  
 १६ सूवओ केयइ-कुसुमुग्गमो वि । फरुसो पत्थरो वि । तिकखओ मंडलगो वि । अंतो-मलिप्पे चंदो वि । भमणसीले  
 १७ महुरो वि । पवसइ हंसो वि । चित्तलो वरहिणओ वि । जलु कीललो वि । अयाण्णो बालओ वि । चंचलो वाणरो वि ।  
 १८ परोवयावी जलणो वि त्ति । जत्थ य

पर-लोय-तत्ती-नय णवर दीसंति साहु-भडरय । कर-भग्गइं णवर दीसंति वर-करिहिं महहुमइं ॥

वंडवायाइं णवरि दीसंति छत्ताण य णच्चणहं । माया-वंचणाइं णवरि दीसंति इंदियालिय-जणहं ॥

१९ विसंवयंति णवर सुविणय-जंपियइं । खंडियइं णवरि दीसंति कामिणियण्हो अहरइं । द्द-बद्धइं णवरि दीसंति कज्ज-  
 २० संगहेहिं महारयणइं । वलामोडिय धेपंति णवर पणय-कलह-कय-कारिम-कोव-कुविष-कंत-कामिणियण्हो अहरइं वियडु-  
 २१ कामुएहिं ति । अहवा ।

२२ कह वणिज्जइ जा किर तियसेहिं सक्क-वयणेण । पढम-जिण-णिवास्तथं गिम्मविया सा अउज्झ त्ति ॥

§ १८) तम्मि य राया

वरियारि-वारण-घटा-कुंभ-त्थल-पहर-दलिय-मुत्ताहलो । मुत्ताहल-णिवह-दलंत-कंत-रय-धूलि-धवल-करवालो ॥

१) P निच्छित्त, P अन्ना, P रीरीया, J वया for वयण २) P निम्मं, P अन्ना, J सरासणम्मस P सराणम्मसं, J मण्डं, J गिच्छिआउ P निच्छिआओ, P अन्ना ३) P चिय for इव, J अ for य, P अन्ना, J मलय, J राइठ, J सण्णिं P सन्निं, P विविहोसं. ४) P अन्ना, J पीडीओ इव P पाईतो यव, P निरं, J पेम्म for पेज्ज, P अन्ना, J मरहट्टिआ P मरहट्टियाओ. ५) J adds य before पयड, P स्सुग्ग for समुग्गय, J सण्णिं P सन्निं. ७) J हियण्ण JP ॥ छ ॥, P जीय च for जत्थ य. ८) J जुवईयण P जुईयण, P निम्मल, J कुमुयाईं P नेय चारंति. ९) P मिम्मल, P संकतरविकरग्गेहिं, J कन्तेहिं, J विय, P निच्चिं, J णवर P नवरि, J वियसंति १०) P णसगणाहोय, P न ११) JP गिम्हम्मि, P जत्त. १२) P नेउर, P सं for रस, P जुवईहिं १३) J विलाण, J भणियं पि P वइयमि, J सारिया. १४) J चिय, P न. १५) P न, P नत्थि, JP जयमि, J ण for वि, JP सण्णिं १६) P चिय, P नियत्तवाइ, P न. १७) P व्व for व, P व्व for व, J वसणु णाणा, P वसण्णणाणे विष्णाणे च, J उच्छाहु १८) J पीवी, JP माणे च, J धम्मे । धम्मे च त्ति ॥ छ ॥, P धम्मे धम्मे च, P सवर, P तिलवचारे. १९) J सूअउ P सूअओ, J केयइ P केइ, P कुसुमं, J फरुस, J तिकखओ P तक्खओ, J मण्डं P मंडलो वि, J सीळ. २०) J वरहिणउ P विरहिणो, J बालउ बालउ वि, P वि for वि, J चवलु वी (य)णवो वि for चंचलो eto, P वानरो २१) P व for वि, J त्ति ॥ छ ॥, J om य. २२) J लोअ, P भरय, P भग्गईं नवर, P करहिं, P महाहुमइं. २३) P वंणवायइं नवरि, J adds on the margin छत्ताण...नवर दीसति, P नच्चणहं, P वंचणयं, J नवर P नवरि. २४) J जंविअइं, J खण्डियइं, P नवरि, J णिण्हो, P णिण्हो, J मवर P नवरि २५) P रयणाइ, J वलयामोडिय धेपंति, P बलामोडिय, P नवर, P म कारियकोव, J कुविअ, J कामिणियण्हो P कामिणीअण्हो. २६) J ति ॥ छ ॥, P पहि त्ति २७) P निवां, P निम्मं, P सा विउं, J त्ति ॥ छ ॥ P त्ति ॥ छ ॥ २८) P तम्मि, J om य २९) P वारणावड, P निवइ, P धूलिचवल.

- 1 करवाल-सिहा-णिजिय-महंत-सामत-णिवह-णय-चलणो । चलण-जुयल-भणि-विणन्विय-कंत-महा-मउड-घडिय-सुपीढो ॥ 1  
 त्ति । णवर पुण ससि-वंस-संभवो वि होऊण सय चेय सो चोरो मुद्धड-लडह-विलासिणि-हियय-हरणेहिं, सयं चेय पर-कलत्त-रओ  
 3 दरिय-रिवु-सिरी वलामोडिय-समाकडुणेहिं, सय चेय सो वाडो पडिवक्ख-गरिंद-वंद्र-वाडणेहिं त्ति । जो य दोगच्च-सीय- 3  
 संतावियाण दहणो, ण उण दहणो । णियय-पणइणि-वयण-कुमुयायरारणं मयलंछणो, ण उण मय लछणो । विणिज्यासेस-  
 पुरिस-रूवेणं अणगो, ण उण अणगो । दरियारि-महिहर-महावाहिणीण जलही, ण उण जलही । सुयण-वयण-कमलायरारण  
 6 तवणो, ण उण तवणो त्ति । जो य घण समओ वंधुयण-कयवयाण, सरयागामो पणइयण-कुमुय-गहणाणं, हेमंतो पडि- 6  
 वक्ख-कामिणी-कमलिणीणं, सिसिर-समओ णिय-कामिणी-कुंद-लइयाणं, सुरहि-मासो मित्तयण-काणणाणं, गिम्हायवो  
 रिउ-जलासयाणं, कय-जुओ णियय-पुहइ-मडले, कलि-कालो वहरि-गरिंद-रजेसुं त्ति । अणणं च ।  
 9 सरलो महुरो पियंवओ चाई ढक्खो दक्खिणो टयाल्ल । सरणागय-वच्छलो संविभागी पुव्वाभिभासि त्ति ॥ 9  
 संतुट्ठो सकलत्तेसु, ण उण कित्तीसु । लुद्धो गुणेषु, ण उण अत्थेषु । गिद्धो सुहासिएसु, ण उण अकज्जेसु । सुसिक्खिओ  
 कलासु, ण उण अलिय-चाडु-कवड-वयणेषु । असिक्खिओ कडुय-वयणेषु, ण उण पणइयण-संमाणेषु त्ति । अहवा ।  
 12 गहिय-सगाह-दलम्मि तम्मि अचुण्णए वियड-वच्छे । णंदण-वणे व्व कत्तो अंतो कुसुमाण व गुणाण ॥ 12  
 अह सो णिय-साहस-खग-मेत्त-परिवार-पणय-सामतो । वच्छत्थल-दढ-वम्मो दढवम्मो णाम णरणाहो ॥

§ १९) तस्स थ महुमहस्स व लच्छी, हरस्स व गोरी, चदस्स व चंडिमा, एरावणस्स व मय-लेहा, कोत्थुहस्स व  
 15 पभा, सुरगिरिस्स व चूला, कप्पतरुणो इव कुसुम-फल-समिद्ध-तरुण-साहिया, पसंसिया जणेणं अवहसिय-सुर-सुंदरी-वंद्र- 15  
 लायण-सोहस्स अंतैउरिया-जणस्स मज्जे एक च्चिय पिययमा पियगुसामा णाम सयंवर-परिणीया भारिय त्ति । अह तीए  
 तस्स पुरदरस्स व सईए भुंजमाणस्स विसय-सुहे गच्छइ कालो, वचंति दियहा थ ।

§ २०) अह अण्णम्मि दिवसे अब्भंतरोवत्थाण-मंडवमुवगयस्स राइणो कइवय-मेत्त-मंति-पुरिस-परिवारियस्स पिय- 18  
 पणइणी-सणाह-वाम-पासस्स संकरस्स व सच्च-जण-सकरस्स एक-पए च्चैय समागया पिहुल-णियंव-तडप्फिण-विसमदोल-  
 माण-मंडलग-सणाह-वामंस-देसा वेल्हल-णियय-वाहु-लइया-कोमलावलंवि-वेत्तलया पडिहारी । तीय थ पविसिऊण कोमल-  
 21 करयलगुली-दल-कमल-मउलि-ललियजलि उत्तिमगे काऊण गुरु-णियव-विंव-मथर उत्तुंग-गरुय-पओहर-भरोवणामियाए 21  
 ईसि णमिऊण राइणो विमल-कमल-चलण-जुवलय विण्णत्तं देवस्स । 'देव, एसो सवर-सेणावइ-पुत्तो सुसेणो णाम । देवस्स  
 चैय आणाए तइया मालव-गरिंद-विजयत्थं गओ । सो संपय एस दारे देवस्स चलण-दंसण-सुहं पत्थेइ त्ति सोउं देवो  
 24 पमाणं' त्ति । तओ मंतिण-वयण-णयणावलोयण-पुव्वय भणियं राइणा 'पविसउ' त्ति । तओ 'जहाणवेसि' त्ति ससंभम- 24  
 सुट्टिऊण तुरिय-पय-णिकखेवं पहाइया दुवार-पाली उयसप्पिऊण थ भणिओ 'अज्ज पविससु' त्ति ।

§ २१) तओ पविट्ठो सुसेणो । दिट्ठो थ णरवइणा वच्छत्थलाभोय-मंडलगगाहिघाय-गरुय-वणावद्ध-दीहर-धवल-खोम-  
 27 वण-पट्ठओ त्ति, तियस-गाहो इव पौंडरीय-वयणोवसोहिओ, पहरिस-वस-वियंभमाण-वयण-सयवत्तेण साहंतो इव सामिणो 27  
 जय-लच्छि सेणावइ-सुओ त्ति । उवसप्पिऊण थ पणमिओ णेण राया । राइणा वि 'आसणं आसण' ति आइसमाणेण  
 पसारिय-दीहर-दाहिण-भुया-दंड-कोमल-करयलेणं उत्तिमगे छिविऊण संमाणिओ । तओ कय-देवी-पणामो असेस-मंतिण-  
 30 कय-जहारूह-विणओ थ उवविट्ठो आसणे । सुहासणत्थो थ हिययव्भंतर-घर-भरिय-उच्चरत-पहरिसामय-णीसंद-विंदु-संदोहं 30

- 1) J corrects मणि into मण and adds हर on the margin in a later hand, P विणिम्मविय, P सुवीढो  
 2) P सममो, P होउ, P 'सिणी, P णेहिम्, P चेव 3) J दरियारिउसिं, J 'यमाकडुं, J वीडो for वाडो P सयमेव वाडो,  
 J वडुणेहि त्ति, P दोगच्च 4) P पणइणी- 5) P भाएण for रूवेण 6) J om त्ति, J वधुअण P वधुयण, P कयवाण,  
 J सरयगमो, P गहयाण. 7) J कामिणि-, J कामिणीण, P लयाण 8) P क्रिय, J 'सु त्ति 9) P दक्खिओ, P  
 पुव्वातिभासी वे त्ति 10) P 'ट्ठो कलं, P लुद्धा, J सुहासिए, P सुसुक्खिओ 11) P अलिया-, J कवड for कडुय, J  
 पणइणसम्मां, P समायणं 12) P संगाह, P -फलमि, P तमि । अचुण्णए, P नदणवण व 13) P दढधम्मो दढधम्मो  
 14) P 'महुस्स 15) P पहा, P समिद्धा, J पवं for अवं 16) P सोहग्गअं, J 'रियाण-, P एक्के चिय, P पिया  
 for पिययमा, J परिणिया, J तीय 17) J सुहेहि थ, P दिहहा, P om थ 18) P अन्नसि दियहे, P मटलसुं, P  
 पुरिपरिं, J 'वारयस्स, J वियप्पिय for पिय 19) P जणपए, J चैय, J पिहुण-, J णियवयदुप्फिं, P विसअंणेण  
 20) J देसे, P निययनिअय, P om थ, P 'सित्तण 21) P करयगुली, P मउलललियमगे, P गरुयनिवं, J -गुरुय, P  
 भारावणां 22) P अव for ईसि, P om कमल, P जुयल विणत्त, P om देवस्स, J om देव, P 'वइणो उत्तो, P  
 सुसेणे नामा ।, P देवपासे चेव 24) J पमाणो, J om. त्ति ।, P वयणलीलावणोवणां, P om भणिय, P ज आणं 25) P  
 J 'भमुट्टिं, J पयणुक्खेव P निक्खे', J दुवारं, JP उअसं, P अज्जउत्त 26) J 'त्थलोभयसमण्डं, P -गुरुय 27) P  
 दियस, P विससमाण, P 'वन्नेण, P विय for इव 28) P 'वइओ तो त्ति, P om थ, P रायणो वि, J आसणट्टि आइं  
 29) J 'रिया दीह दां, J भुअदण्ड, J करेण, J सम्मां P समां, P देवि- 30) J om. कय, P व for थ, P उपविट्ठो,  
 P या for थ, P om घर, P मरिउव्वं, J णिसंद

- 1 पिव भुञ्जमाणेणं गिन्ध्र-धवल-त्रिलोल-पम्हल-चलंत-णयण-जुवलेणं पलोइऊण राइणा 'कुमार, कुसलं' ति पुच्छिओ । सविणयं 1  
पणमिऊण उत्तिमणेण 'देवस्स चलण-जुयल-दंसणेणं संपयं सोमं' ति संलत्तं कुमारेण ।
- 2 § २२) पुच्छिओ राइणा 'मालव-णरिदेण सह तुम्हाणं को जुत्ततो' ति । भणियं सुसेणेण । 'जयउ देवो । इओ 2  
देव-सगाएसेणं तहिं चैव दिवसे दरिय-महा-करि-तुरय-रह-णर-सय-सहस्सुच्छलंत-कलयलाराव-संघट्ट-घुट्टमाण-णहयलं गुरु-  
भर-दलंत-महियलं जण-सय-संवाह-रंभमाण-दिसावहं उदंड-पांडरीय-संकुलं संपत्तं देवस्स संतियं बलं । जुज्झं च समावत्तं ।  
3 तओ देव, सर-सय-गिरंतरं सग्गाग-खणखणा-सह-बहिरिय-दिसिवहं दलमाण-संगाह-च्छणच्छणा-संघट्टुट्टे-जलण-जाला- 3  
कराल-मीसणं संपलगं महाजुद्धं । ताव य देव, अम्ह-वलेणं विवडेंत-छत्तयं णिवडंत-विधयं पडंत-कुंजरं रडंत-जोहयं खलंत-  
आसयं फुरंत-कौत्तयं सरंत-सर-वरं दलंत-रह-वरं भगं रिउ-यलं ति । तओ घेप्यंति सार-मंडारयाइं सेणिएहिं । ताणं च मज्जे  
4 एओ बालो अवाल-चरिओ पंच-वरिस-मेत्तो तस्स राइणो पुत्तो ससत्तीए जुज्झमाणो गहिओ अम्हेहिं । तओ देव, एस सो 4  
दुयारं पाविओ अम्हेहिं' ति । राइणा भणियं 'कथ सो, पवेसेसु तं' । 'जहाणवेसु' ति भणमाणो णिग्गाओ, पविट्टो य तं वेत्तुं  
भणियं च 'देव, एस सो' ति ।
- 12 § २३) कुमारो वि भविस्स-महा-गंधगओ विय अदीण-विमणेहिं दिट्ठि-वाएहिं पलोएंतो सयलमत्थाण-मंडलं उवगओ 12  
राइणो सयासं । तओ राइणा पसरंततर-सिणेह-णिट्ठभर-हियएण पसारिओभय-दीहर-भुया-दंडेहिं गेण्हऊण अत्तणो उच्छंओ  
णिवेसिओ, अवगूओ य एसो । भणियं च णरवइणा 'अहो वज्ज-कट्ठिण-हियओ से जणओ जो इमस्स वि विरहे जियइ' ति ।  
15 देवीए वि पुत्त-गेहेणमवलोइऊण भणियं 'धण्णा सा जुयइं जीए एस पुत्तओ, दारुणा य सा जायस्स विरहम्मि संधीए 15  
अत्ताणयं' ति । मंतीहिं भणियं 'देव, किं कुणउ, एरिसो एस विहि-परिणामो, तुह पुण्ण-विलसियं च एयं । अवि य ।  
कस्स वि होंति ण होंति व अहोंति होंति ष कस्स वि पुणो वि । एयाओं संपयाओ पुण्ण-वसेणं जणवयमि ॥
- 18 § २४) एत्यंतरम्मि हिययदंभंतर-गुरु-दुक्ख-जलण-जालावलि-तत्तेहिं वाह-जल-लवेहिं रोविउं पयत्तो कुमारो । तओ 18  
राइणा ससंभमेण गलिय-वाह-विंदु-प्पवाहाणुसारेणावलोइयं से वयणयं जाव पेच्छइ जल-तरंग-पव्वालियं पिव सयवत्तयं ।  
तओ 'अहो, बालस्स किं पि गरुयं दुक्खं' ति भणमाणस्स राइणो वि वाह-जलोलियं णयण-जुवलयं । पयइ-करुण-हिययाए  
21 देवीओ वि पलोट्टो वाह-पसरो । मंतियणस्स वि णिवडिओ अंसु-वाओ । तओ राइणा भणियं । 'पुत्त कुमार, मा अद्धिइं 21  
कुणसु' ति भणमाणेण णियय-पटंसु-अत्तेण पमज्जियं से वयण-कमलयं । तओ परिणोवणीय-जलेण य पक्खालियाइं  
णयणाइं कुमारस्स अत्तणो देवीय मंतियणेणं ति ।
- 24 § २५) भणियं च राइणा 'भो भो सुर-गुरु-प्पमुहा मंतिणो, भणह, किं कुमारेण मह उच्छंग-गएण रुणं' ति । 24  
तओ एकेण भणियं 'देव, किमेत्थ जाणियच्चं । बालो खु एसो माया-पिइ-विउत्तो विसण्णो । ता इमिणा दुक्खेण रुणं' ति ।  
अण्णेण भणियं 'देव, तुमं पेच्छिऊण णियए जणणि-जणए संभरियं ति इमिणा दुक्खेण रुणं' ति । अण्णेण भणियं 'देव,  
27 तथा जं आणियं ति, कथ राया देवी य कं वा अवत्थंतरमणुभवन्ति, इमिणा दुक्खेण रुणं' ति । राइणा भणियं 'किमेत्थ 27  
वियारेण, इमं चैव पुच्छामो' । भणिओ य राइणा 'पुत्त महिंदकुमार, साहह महं कीस एयं तए रुणयं' ति । तओ ईसि-  
ललिय-महुर-गंभीरक्खरं भणियं कुमारेण । 'पेच्छह, विहि-परिणामस्स जं तारिसस्स वि तायस्स हरि-पुरंदर-विक्रमस्स एयस्स  
30 एरिसे समए अहं सत्तयणस्स उच्छंग-गओ सोयणिज्जो जाओ ति । ता इमिणा मह मण्णुणा ण मे तीरइ वाह-पसरो हंमि- 30


1) P °णेण निद्ध°, P पम्हलं, P नयणजुयलेणं, P सविणय पणउत्ति° 2) P has जुयल tw10e. 4) P °पसेण, P  
चेव दियहे, P सहसु°, P पुट्टमाण 5) J सवाह, P कड्डमाणदिसी°, P देवसत्तिय, P जुद्ध. 6) P दरल°, P सन्नाह, P च्छणसं°. 7) J देवम्हवलेण, J om. विवडेंतछत्तयं, P बलितविधय 8) P रिपु; P मंडारयाइ, J ताणिपहि for सेणिपहि 9) P  
चरिउ, P ससत्ती°. 10) P पवियो, J °हि ति, P पवेससु, P °वेस ति, J अ for य which P om. 11) J णियं व  
for भणिय च. 12) P गंधराओ, J विअ P विव, P om. दिट्ठिवाएहिं, P पलोयतो, P उवागओ 13) J om. तओ, J  
राइणा वि, P °रतसिणेह, P गिन्धि° 14) P च राइणा, J कट्ठिणो से 15) P देवीय, J जीय, P सा जा इमस्स, P त घीरे  
for संधीए 16) P मंतीहि, P विहसिय 17) P इ for वि, J वि for व, P अह होंति व कस्स वी पुणो हुति ।, P पुत्र-  
18) P °वली, J तत्तेहि 19) J वाहा°, P -पवाहा°, P °लोविय, P वयणं, P तरलजलरपव्वा°. 20) J तओ बालस्स  
अहो किं, P जुयलयं, P पइ for पयइ 21) P देविय, P पलोट्टिओ वाह, P निवाओ for वाओ, P ततो, P अद्धियं. 22) P  
P अद्धतेण, P om. य. 23) P नयणीइ 24) P -पमुहा, J om. मह. 25) J वि भणियं, J -पित्तिवि° 26) P  
°भरिए ति, J ति ता इमिणा 27) P तथा तंमि समए ण याणीयइ कथ, J देवी वा कं P देवी य वा, P अवत्थंतरं अणुहवन्ति-  
28) P पुच्छामि, P om. य, J ताय for पुत्त, P साहमहं, J om महं, J एयन्तए, P रुवइ ति, P इसि 29) P महुयर,  
P तारिसयस्स, P om. एयस्स. 30) P -गणस्स उत्संग, P मनुणा, P om. मे, P भंति for हंमि.

1 ऊणं' ति । तत्रो राइणा विम्ह्यावद्ध-रस-पसर-खिप्पमाण-हियण्ण भणियं । 'अहो, वालस्स अहिमाणो, अहो सावट्ठभत्तणं, 1  
 अहो वयण-विण्णासो, अहो फुडक्करालावत्तणं, अहो कज्जाकज्ज-वियारण ति । सव्वहा विम्हावणीय एयं, जं इमाए वि अत्र-  
 3 त्याए परिसो बुद्धि-वित्थरो वयण-विण्णासो य' ति भणमाणेण राइणा पलोइयाइं मंति-वयणाइ । तत्रो मतीहिं भणियं । 3  
 'देव, को एत्थ विम्हो । जहा गुजाहल-फल-प्पमाणो वि जलणो ढहण-सहावो, मिद्धत्य-प्पमाणो वि वड्डर-विसेसो गुरु-  
 सहावो, तहा एए वि महावस-कुल-प्पसूया रायउत्ता सत्त-पोरुस्स-माण-प्पमाण-प्पभूय-गुणेहिं संवड्ढिय-सरीरा एव होति ।  
 6 अण्ण च देव, ण एए पयइ-पुरिसा, देवत्तण-सुया सावसेस-सुह-कम्मा एत्थ जायंति' ति । तत्रो राइणा भणिय 'एव 6  
 चिय एयं, ण एत्थ संदेहो' ति ।

§ २६) भणियो य साणुणय कुमारो राइणा 'पुत्त महिंदकुमार, मा एव चित्तिसु जहा अहं तुम्हाणं सत्तु । जं सच्चं 9  
 आसि ण उण संपयं । जत्तो च्चेय तुम अम्हाण गेहे समागओ, तत्रो च्चेव तुह ढंसणे मित्तं सो राया संवुत्तो । तुमं च मम 9  
 पुत्तो ति । ता एवं जाणिऊण मा कुणसु अट्ठिइं, मुंचसु पडिवक्ख-त्ताट्ठिं, अभिरमसु एत्थ अप्पणो गेहे । अवि य जहा  
 सव्व सुंदर होहिइ तहा करेमि' ति भणिऊण परिहिओ से सयमेव राइणा रयण-कठओ, टिण्णं च करे करेण तंवलं ।  
 12 'पसाओ' ति भणिऊण गहिय, समप्पिओ य देव-गुरुणो । भणियो य मत्तिणो 'एस तए एव उवयरियव्वो जहा ण कुलहर 12  
 संभरइ ति । सव्वहा तहा कायव्वो जहा मम अउत्तस्स एस पुत्तो हवइ' ति । तत्रो कंचि काल अच्छिऊण समुट्ठिओ  
 राया आसणाओ, कय-दियह-वावारस्स य अइक्कतो सो दियहो ।

§ २७) अह अण्णभिम दियहे वाहिरोवत्थाण-मंडवमुवगयस्स दरिय-महा-गरिंद-वंद-मंडली-परिगयस्स णरवइणो 15  
 सुर-गिरिस्स व कुल-खेल-मज्झ-नायस्स आगया धोय-धवल-दुगुल-जुवल्लय-णियंसणा मंगल-नीवा-सुत्तमेत्ताहरण-रेहिराललिय-  
 सुणाल-धवलज्जल-क्खेस-कलाविया सरय-समय-ससि-दोसिणा-पवाह-पूर-पव्वाल-धवला इव छण-राइं सुमगला णाम राइणो  
 18 अंतैउर-महत्तरि ति । दिट्ठा य राइणा पोढ-रायहसी विय ललिय-नाइ-मग्गा । आगंतूण य ताए सविणय उवरिम-वत्थद्वंत्त- 18  
 ठइय-वयणाए वर-रयण-कौंडलालंकिए विविह-सत्थत्थ-वित्थर-सयण्णे दाहिण-कण्णे किं पि साहिय । साहिऊण णिक्खंता ।  
 तत्रो राया वि किंचि विभाविज्जमाण-हिययच्चभतर-वियभत्त-वियप्पणा-सुण्ण-णयण-जुयलो खण अच्छिऊण विसजियासेस-  
 21 णरिंद-लोओ समुट्ठिओ आसणाओ, पयट्ठो पियंगुसामाए वास-भवणं । 21

§ २८) चित्तिय च णरवइणा 'अहो इमं सुमगलाए साहियं जहा किर अज्ज देवीए पियंगुसामाए सुवहुं पि रुण्ण-  
 माणाए अलकारो विय ण गहिओ आहार-वित्थरो, अमाणो विय अवलंविओ चिंता-भारो, परिमलिय-पत्त-लेक्खं पिव विच्छाय  
 24 वयण-कमलय, माणस पिव दुक्ख अंगीकयं मोणय ति । किं पुण देवीए कोव-कारणं हवेज्ज' ति । अहवा सयं च्चेव चित्तेमि । 24  
 'महिलाणं पच्चहिं कारणेहिं कोवो संजायइ । त जहा । पणय-खलणेणं, गोत्त-खलणेण, अविणीय-परियणेण, पडिवक्ख-  
 कलहणेण, सासु-वियत्थणेण ति । तत्थ ताव पणय-क्खलण ण संभाविज्जइ ति । जेण मह जीवियस्स वि एम च्चेय सामिणी,  
 27 अच्छउ ता धणस्स ति । अह गोत्त-खलण, तं पि ण । जेण इमीए च्चेय गोत्तेण सयलमतेउरिया-जणमहं सद्देमि ति । अह 27  
 परियणो, सो वि कहिंचि मम वयण-खडण कुणइ, ण उण देवीए ति । पडिवक्ख-कलहो वि ण संभाविज्जइ । जेण सव्वो  
 च्चेय मम भारियायणो देवय पिव देवी मण्णइ ति, तं पि णदिय । सेसं सासु-भडण, तं पि दूराओ च्चेव णत्थि । जेण अम्ह  
 30 जणणो महाराइणो अण्णारुहिय देवी-भूय ति ता कि पुण इम हवेज्ज' । चित्तयतो संपत्तो देवीए वास-भवणं, ण उण 30



1 > P रायणा वयणवि°, J om रस, P वस for पसर, J-क्खिय° 2 > P विन्नासत्तण, J °रालवत्तण, P °वणीयमेय, P  
 इमाए व उवत्थारिए परिसी बुद्धी- 3 > J om य, P पुलो°, P ततो 4 > P om हल, P °त्थप्प° 5 > J प्पसत्ता ।  
 रायपुत्ता । संते पोरुसे । माणप्पभूतीहिं सह सवड्ढिय, P च्चेव for एव, J होति ति । 6 > J om ण, J जुआ एव, P सुभ- 8 >  
 P ता for पुत्त, P अम्ह, J तुम्हाण, JP सत्तु 9 > J जाउ च्चेव तुम्ह अम्हाण, P मित्तत्त, P संवुत्त । 10 > P अट्ठेइ, P  
 पडिवक्ख, अहिर°, J om एत्थ, J गेह for गेहे, J om अवि य 11 > P सव्वसु°, J होहि ति, J करीहामो, J राइणा वयणे,  
 J करे करेण P कर क° 12 > P om ति, P om य, [ भणियो ] added by Ed, P जह ण 13 > P हवइ, J किंचि 14 >  
 J य after आसणाओ, P om य, P om सो 15 > P नरिंदचद्द 16 > J र for व, P दुगुल, P om जुवल्लय 17 >  
 P om समय, P पच्छारण- 18 > J महतेउर महतारिअत्ति ।, P om य 19 > ठइय in J looks like a later correc-  
 tion, P ढइय, P °णाए व वर, J कोण्डला° P कुडला° 20 > P कि for वि, J om वि°, J विअमत्त omitted by P, P  
 °प्पणसुत्त° 21 > P समुट्ठिओ 22 > J इम मम सु°, P भत्त for रुण्ण 23 > J यमाणो विअ P मोणो चिय, P om.  
 परि, P लेख 24 > J °कयमाण ति । ता कि, J °त्त ति ।, J om च्चेव 25 > J संजायइ ति । P जायइ ।, P-क्खलणेण, P  
 °क्खल°, P °णीय 26 > J सासवि°, J-क्खलण P जलण, P °वियइ, P om वि, P च्चेव or व्वेव 27 > P ता वण्णस्स,  
 P णो for ण, J इमीय, J अहवा for अह 28 > J कहवि मम, P देवीउ, P खलण पि for कलहो वि, J °विज्जइ ति P  
 संभावीयइ 29 > P om च्चेय, J om देवी, P om ति, J om तपि णत्थि, P नत्थि मम, P दूरओ, P लेणम्ह 30 > P  
 °राइणा, P अणुरभिय, P पय for इम, P देवीवास, P तत्रो ण for ण उण

1 दिवा देवी । पुच्छिया एका विलासिणी 'कथ देवि' ति । तीए ससंभमं भणियं 'देव, कोवहरयं पविट्ट' ति । गमो कोव- 1  
हरयं । दिवा य जेण देवी उम्भूलिया इव धल-कमलिणी, मोडिया इव वण-लया, उक्खुडिया इव कुसुम-मंजरी । पेच्छमाणो 3  
उवगमो से समीयं । तमो पटंसुय-भसूरद्धंत-णिमिय-णीसह-कोमल-करयला गुरु-घण-जहण-भरुवहण-खेय-णीसास-णीसहा 8  
सणियं सणियं अलसायमाणी अब्भुट्टिया आसणामो । दिणं च राहणो णिययं चेय आसणं ति । उवविट्टो राया देवी थ ।

§ २९) तमो भणियं च राहणा 'पिण् पिण् अकोवणे, कीस एयं अकारणे चेय सरय-समयासार-वारि-धारा-हयं पिव 6  
पल्हत्थे कोमल-बाहु-लहया-मुणाल-णालालीणं समुव्वहसि घयण-कमलयं ति । कीस एयं अणवरय-वाह-जल-पवाह-णयण- 6  
पणाल-णाल-वस-पव्वालियं पिव घणवटं समुव्वहसि । णाहं किंचि अवराह-ट्टाणमपणो संभरामि ति । ता पसिय पिण्,  
साह किं तुम्भ ण संमाणो वंधुयणो, किं वा ण पुह्णो गुरुयणो, किं ण महिओ सुर-संघो, किं वा ण संतोसिओ पण्ड- 9  
10 धग्गो, अहयाविणीओ परियणो, अहवा पडिक्कलो सवत्ती-सत्थो ति । सव्वहा किं ण पटुप्पह मण् भिच्चमि थ पिययमाए, 9  
जेण कोवमवलंघिऊण टियासि ति । अहवा को वा वियद-दाढा-कोडि-कराल-भीम-भासुरं कयंत-वयण-भज्जे पविसिऊण  
इच्छह । अहवा णहि णहि, जेण तुमं कोविया तस्स सुवण्णद्ध-सहस्सं देमि । जेण कोवायंब-णयण-जुवलं सयवत्त-संपत्ता- 9  
12 इरित्त-सिरी-सोहियं किंचि णिवोहियाहर-दर-फुरंत-दंत-किरण-केसरालं कज्जल-सामल-विलसमाण-भुमया-लया-भमर-रिच्छोलि- 12  
रेहिरं चारु-णयण-कोस-वाह-जल-महु-विट्टु-णीसंदिरं अउव्व-कमलं पिव अदिट्ट-उव्वयं मम दंसयंतेण अवकरंतेणावि  
उवकयं तेण ।

§ ३०) तमो ईसि-वियसिय-विहट्टमाणाहरउदंतर-फुरंत-दंत-किरण-सोहियं पहसिऊण संलत्तं देवीए । 'देव, तुह पसा- 15  
एण सव्वं मे अरिथ किंतु णवर सयल-धरा-मंडल-गरिंद-त्रंद-मंडली-मउड-मणि-णिहसण-भसणिय-चलण-जुयलस्स वि महा-  
राहणो पिय-पणहणी होऊण इमिणा कजेण विसूरिमो, जं जारिसो एस तीए धण्णाए कीए वि जुयइए पिय-पुत्तओ सिणेह- 15  
18 भायणं महिंदकुमारो तारिसो मम मंद-भागाए तहयं पि णाहेण णरिथ । इमं च भावयंतीए अत्ताणयस्स उवरिं णिवेओ, 18  
तुह उवरिं मम कोवो संजाओ' ति । तमो राहणा हियएण पहसिऊण चितियं । 'अहो पेच्छह अविवेहणो महिलायणस्स  
असंयद्ध-पलवियाहं । अहवा,

21 एरिसं चेव अलिया-मलियासंबद्ध-प्लविण्णि । हीरंति हिययाइं कामिणीहिं कामुययणस्स' ति ॥ 21  
चितयंतेण भणियं 'देवि, जं एयं तुह कोव-कारणं, एत्थ को उवाओ । देव्वायत्तमेयं, ण एत्थ पुरिसयारस्स अवसरो,  
अणस्स वा । भण्णह थ ।

24 अत्थो विजा पुरिसत्तणाइं अण्णाइं गुण-सहस्साइं । देव्वायत्ते कजे सव्वाइं जणस्स विहडंति ॥ 24  
ता एवं ववत्थिए कीस अकारणे कोवमवलंघसि' ।

§ ३१) तमो भणियं देवीए 'णाह, णाहमकजे कुविया, अवि थ कजे चिय । जेण पेच्छह सयल-धरा-मंडलभंतेरे 27  
जोय-जोयणी-सिद्ध-तंत-मंत-सेवियस्स महाकालस्स व तुज्ज देव-देवा वि आणं पडिच्छंति, तह वि तुह ण एरिसी चिंता 27  
संपज्जह । किं जइ महाराओ उज्जमं च काऊण किंपि देवयं आराहिऊण वरं पत्थेइ, ता कहं मम मणोरहो ण संपज्जह ति ।  
ता पसीय मम मंद-भागिणीए, कीरउ पसाओ' ति भणमाणी णिवडिया से चलण-जुवलए राहणो । णिवडमाणी चेव अवलं-  
30 30 बिया दीहरोभय-बाहु-उंडेहिं पीणेषु भुवा-सिहरेसु । तमो वण-णएण व कर-पम्मार-कलिया मुणालिणि व्व उक्खिऊण 30

1) P पुच्छिया थ, P चेडिया for विलासिणी, J भणिय ति, P पविट्टेत्ति. 2) P om. थल, P इव चलणया, P 'डियार.  
3) J om. से, P 'सुरयद्ध', P करलया, J om. वण, P 'कखेय', P णीसास twice. 4) P 'णियमल', J णियं, P om. चेय, P  
om. ति. 5) J om च, J कोवणे. 6) P 'नालालील, P कयण, J 'यन्ति', P 'पवाहपवाह' 7) P 'पणाल, P  
नालयसरपव्वा', P 'वट्टमुव्व', P 'रावि ति 8) J तुम ण P तुह न, J 'अणो P जणो for यणो in both places, JP किण्ण, P  
सुर, P ता for वा, P पणय-. 9) P आऊण for अहवा', P अह प', P सवत्ति, J किण्ण P किं वा ण, P om थ 10) P  
om ति, P चियड, P 'मज्ज. 11) J सुवण्णद्ध', J कोवासयंबणं P 'यचण', P जुयल, P सयपत्त. 12) J सिरि, J हरहर  
P हरंत for हर, P om. दर, P विमलसं, P 'नुमयालिया, JP रिच्छोलि 13) P कोवसवाह, P निसं, P पुव्वं for  
उव्वयं, J अपकरंते' P अवकारते' 15) विहसिय, J 'उदंतर. 16) P किंतु एक नवर, J मण्डव, P नरिंदचंद्र, J 'हसणा.  
17) P वि होऊण, J तीअ, P कीअ, P जुवईपिय, पियय- 18) J 'दयकु', P तए व for तइयं पि, P णाहे णित्थि ति 1, P om.  
च. 19) P उवरि, J om. मम, J संजाओ P जाउ, P अविवेणिणो. 20) P om अहवा. 21) P 'याहिं कामिणीहिं  
कामुअजणस्स थ ति for the whole stanza एरिसं ..ति ॥ 22) P चितियं, J जं तए एय, J om. तुह, P कोव ओवा',  
P देवाय'. 24) J some marginal addition of missing words, P 'सत्तणं च अत्राह 26) P om. णाह, P पेच्छ,  
27) J जोयणी P जोयणो, P वि न तुह 28) P महाराउ, P om च, P om वर. 29) P पसिय, P भारणीए,  
J णिवडिया, P om. से, P जुवयले 30) J उण्डेहिं P दडेहिं, P भयासिहं, P करिन्मार, P उक्खुवि'.



1 आरोविद्या वामभिः ऊर्यभिः । तत्रो समज्जन्-मउकंप-रज्जावणय-त्रयण-कमला भणिया राहणा । 'पिण्, जं तुमं भणसि 1  
तं मण् अवस्यं कायच्चं । तेण विमुच विमाय, मा कुणसु अट्टिह, णिच्चच्छेहि मोग, परिहरसु मंताव, मज्जसु जहिच्छियं,  
3 भुजसु भोयणं ति । 3

§ ३२) सव्वहा जह् वि पिण्,

णिसियासि-छेय-धारा-गलंत-रुहिर-लव-छिमिच्छिमायंतं । तिणयण-पुरओ हुणिऊण णियय-ममं भुय-प्फलिहा ॥

6 जह् वि तिसूल-णिवडिय-महिमोवरि-णिमिय-चारु-चलणाए । क्काहणांणं पुरओ सीसेण वालिं पि टाऊण ॥ 6

जह् वि दर-द्वह-माणस-पहरिम-वम-किलिकिलेत-वेयाले । गतु महा-मसाणे त्रिवेऊण महामसं ॥

दज्जत-वहल-परिमल-फुरत-मिर-सयल-मिमिमिसायत । धरिऊण गुग्गुलं सुयणु जह् वि साहेमि मत्तीण ॥

9 णियय बहु-रुहिर-विच्छह-त्तप्पणा तुट्ट-भूय-सुर-मव । धाराहिउ फुड चिय रोहं जह् माह-मत्थ पि ॥ 9

ह्य सुयणु तुज्ज कजे पत्येऊण पुरदर जह् वि । तह् वि मण् कायच्चो तुज्ज पिय-पुत्तओ एको' ॥

ह्य णरवहणा भणिय सोऊणं हरिम-णिच्चरा देवी । भणिट 'महा-ममाओ' ति णिवडिया चलण-जुवलमि ॥

12 § ३३) तत्रो समुट्टिओ राया आसणाओ देवी य । कय-मज्जण-भोयणा य मवुत्ता । णरवहणा वि आहट्टा मन्तिणो 12

'सिगवमागच्छ' ति । आप्पमाणंतर धागया उवहट्टा उवविट्टा जहारुहेसु आमणेषु सुहायणन्था य । भणिया य राहणा 'भो

हो सुर-गुरु-पमुहा मंतिणो, अज्ज परिमो एरिमो य वुत्ततो' । देवीण कोव-कारण अत्तणो पट्टजारुहण सच्चं माहिय । 'तत्रो

16 एयमि एरिसे वुत्तते किं करणीय ति मतिऊण माहह तुच्चे किं कीरउ' ति । तत्रो मतीहिं भणिय 'देव, 16

तण-मेत्तं पिव कज्ज गिरि-वर-सरिमं असत्तिमताण । होह गिरी वि तण-समो अहिओय-सकक्खंसे पुरिसे ॥

तेण देव, जं तए चित्तिय

18 त कुविय-कयतेण वि हु अण्णहा णेय तीरणु काउ । कुविओ वि जवुओ कुणह कि व भण तस्य केयरिणो ॥ 18

अण्णह य देव,

जाव य ण दंति हिययं पुरिसा कज्जाहं ताव विहट्टति । अह टिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कज्ज परिसमत्तं ॥

21 तत्रो देव, ज तए चित्तियं तं तह् चेय । सुदरो एस एरिमो देवस्स अज्जवसाओ । जेण भणिय किर रिमीहिं लोय-सत्येसु 21

'अउत्तस्स गहं णत्थि' ति । अण्ण च देव, सव्वाहं किर कज्जाहं पिह-पिंड-पाणिय-पयाणाइंणि विणा पुत्तेण ण सपडति पुरि-

सार्ण । तहा महा-मंदर-सिहरोयरि-परुद्ध-तुग-महावंमो विय उम्मूलियासेस-तरु-तमाल-साल-मालेण पलय-कालुघाय-

24 मारुणण विय रिबुयणेण राय-वंसो बहूहिं णाणुणामण-वियत्यणाहिं उम्मूलिज्जह्, जह् ण पुत्तो दढ-मूल-वंघण-सरिसो हवइ 24

ति । अण्णह य ।

जस्स किर णत्थि पुत्तो विजा-विक्रम-धणस्स पुरिसस्स । सो तह् कुसुम-पसिद्धो फल-रहिओ पायओ चेव ॥

27 ता देव, सुदरो एस देवस्स परक्कमो, किंतु किंचि विण्णवेमि देव । चिट्टहु एण् ससिसेहर-सामि-महामास-विक्रय-कचायणी- 27

समाराहण-प्पमुहा पाण-संसय-कारिणो उवाया । अत्थि देवस्स महाराय-वंस-प्पसूया पुव्व-पुरिस-सणेज्जा रायसिरी भगवइं

कुल-देवया । तं समाराहिउं पुत्त-वर पत्येसु' ति । तत्रो राहणा भणिय 'साहु, हो विमल-जुद्धि साहु, सुदर मंलत्त ति ।

30 जेण अण्णह 30

~~~~~

1 > P वामयमि, J सेउकप 2 > J अवस्स, P °व्व ति l, P अधिह, J णिच्चच्छेहि P निच्चच्छेहि, P सोय, P जहिच्छ 4 >

P पिण् जह् वि 5 > J च्छेय, P च्छिमिच्छिमायत, J यत, J पुरओ l, P °ऊण हुयासण नियमास, J °माम (?), P भुयफलिया ।

6 > P निवाडिय, J णियय 7 > J वेयालो 8 > P फुट्ट, J -मिहर, P -सिमिसिमायत, P सुयलणु, P वि वाममि यिच्छीए 9 >

P नियवाहु, J विच्छहत्तं, P °हिय, P माणसत्थ 10 > J कए। for कजे 11 > P जुयलमि 12 > P भोयणो, P om य, P

'वुत्तो । 13 > P °गच्छ ति l, P om उवहट्टा, P सहासं 14 > P मो for हो, P -प्पमुहा, P -अज्जिर एरिसो बु°, P पइण्णार°

P om सव्व 15 > J om तुच्चे, P देवा 16 > P gives here the verse जाव परिसमत्त instead of तणमेत्त ..

पुरिसे, P °सिचन्नाण, J होंति गिं, P व for वि, P तणसोमो, J सहिलव्वस P अहिओगस, P पुरिमो 17 > P तत्रो for तेण

18 > P om हु, J अण्णहा, J जवुओ किं कुणह किं व भणह, P च for व, J om. तस्स P तमि 20 > P has here the

verse तणमेत्त पुरिसे ॥ instead of जाव परिसमत्त', P य नावति, P ताह वि°. 21 > P एमो, P om एरिसो, J

'स्सज्जवसाओ, P सत्तेसु जहा अ° 22 > J देव किर सव्वाह कज्जाह, J पिति- P पिहं, J °टति ति पुरि° 23 > J

सिहरोओरओरिपडमत्तुग, P °रोयरप°, J वि for विय, P तमालमाल, P पेण्य, J काणपय 24 > J रिबुयणेण P रिबुयणेण, P

नामुण्णामण, P वियड्डुणाहि, P om ण, J गूह for मूल 26 > P समिद्धो for पमिद्धो, P पावय चेव 27 > P तेण for देव, P

सुदरो देवस्स एस पर°, J एससिमिर (some correction seen), P सामिहामम, J विक्रय कचाइणि 28 > P °मारुण, J,

om प्पमुहा, J भगवइ 29 > P °राहिय, P भणिओय, J om साहु (second)

1 पुत्र-पुरिसाणुचरियं जं कम्ममार्णदियं हवइ लोए । पुत्तेण वि कायव्वं तं चिय एसो जणे गियमो ॥  
अण्णे च सयल-नेलोक्क-णरिंद-वंद-पत्थणिज-दरिसणाए भगवईए रायसिरीए दंसणं पि दुल्लहं, अच्छड ता वरो त्ति । दंसणेण  
2 चैय तीए सव्वं सुंदरं होहि' त्ति भणिकण समुट्ठिओ राया महासणाओ मंतियणो य ।

१ ३५) अह अण्णमि पूस-णक्खत्त-जुत्ते भूय-दियहे असेस-तिय-चउक्क-चच्चर-सिंघाडग-सिवाणं खंद-रंद-नोविंद-वंद-  
तियसिंद-गहंद-णाहंदारविंदणाहाणं तहा जक्ख-रक्खस-भूय-पिसाय-किंणर-किंपुरिस-महोरगाईणं देवाणं वलिं दाऊण  
3 तहा चरग-परिवायय-भिकखभोय-णिगंय-सक्क-तावसाईणं दाउं जहारुहं भत्त-पाण-णियंसणाईयं, तहा दुग्गय-दुक्खिय-पंथ-  
4 कप्पवियादीणं मणोरहे पूरिऊणं, तहा सुणय-सउण-कायल-प्पमुहे पुण्ण-मुहे काऊण, आयंत-सुह-भूओ धोय-धवल-दुगुल्लय-  
5 णियंसणो सिय-वंदण-सुमण-मालाहरो पासट्टिय-परियणोधरिय-कुसुम-बलि-पडलय-णिहाओ पविट्ठो राया देवहरयं । तथ्य य  
6 जहारिहं पूहऊण देवे देवीओ य, तओ विरइओ मणि-कोट्टिमयले चंदण-गोरोयणा-दोव्वं-कुर-गोर-सिद्धत्थ-सत्थियक्खय-  
7 सिय-कुसुमोवयार-णिरंतरो परम-पवित्तेहिं कुसुमेहिं सत्थरो त्ति । तओ पेसियासेस-परियणो राया णिसण्णो कुस-सत्थरे,  
8 णिसमिऊण य कमल-मउल-कोसलेहिं अणवरय-महाधणु-जंत-समायड्ढण-किणंक-कडिणिएहिं करेहिं अंजलिं काऊण इमं  
9 धुह-कुल्यं पडिठमारदो ।

१ ३५) 'जय महमह-वच्छत्यल-हारंदोलिर-ललंत-दुल्लिए । जय कोत्थुह-रयण-विसट्टमाण-फुड-किरण-विच्चुरिए ॥  
जय खीरोय-महोवहि-तरंग-रंगंत-धवल-तणु-वसणे । जय कमलायर-महुयर-रणंत-कल-कणिर-कंचिल्ले ॥  
15 जय खगग्ग-णिवासिणि णरणाह-सहस्स-वच्छ-दुल्लिए । जय कोमल-कर-पंकय-गंधायट्ठिय-भमंत-भमरउले ॥  
देवि णिसुणेसु वयणं कमला लच्छी सिरी हिरी किती । तं चिय रिद्धी णेव्वाणी णिव्वुह-संपया तं सि ॥  
ता दायव्वं मह दसणं ति अट्ठंतरे ति-रत्तस्स । अहवा पडिच्छियव्वं सीसं मह मंडलग्गाओ' ॥  
18 त्ति भणिकण य अवणउत्तमंगेणं कओ से पणामो । काऊण य णिवण्णो कुस-सत्थरे, ठिओ य रायसिरीए चैय गुण-गहण-  
19 वावड-हियओ एकमहोरत्तं दुइयं जाव तइयं पि । तइय-दियहे य राइणा अदिण्ण-दंसणामरिस-वस-विलसमाण-कसिण-  
कुडिल-भुमया-रुपणं आबद्ध-मिउट्टि-भंगुर-भीम-वयणेणं ललिय-विलासिणी-कमल-दल-कोमल-करयलालिहण-दुल्लिओ  
20 कवलिओ दीहर-कसिण-कुडिल-कंत-कौतल-कलावो, गहियं च पउर-वइरि-करि-कुंभ-सुत्ताहलुदलणं दाहिण-हत्थेण खगा-रयणं ।  
21 भणियं च 'किं बहुणा

जइ सग्गे पायाले अहवा खीरोयहिम्मि कमल-वणे । देवि पडिच्छसु एयं मह सीसं मंडलग्गाओ' ॥

24 त्ति भणिकण समुकरिसिओ णियय-खंधराभोए पहारो । ताव य हा-हा-रव-सद-गडिभणं काउं थंमिओ से दाहिणो भुयादंडो ।  
उण्णामिय-वयणेण णियच्छियं राइणा, जाव पेच्छइ  
वयण-मियकोहामिय-कमलं कमल-सरिच्छ-सुर्पिजर-थणयं ।  
थणय-भरेण सुणामिय-मज्झं मज्झ-सुराय-सुपिहुल-णियंबं ॥  
27 पिहुल-णियंब-समंधर-ऊरं ऊर-भरेण सुसोहिय-गमणं ।  
गमण-विराविय-णेउर-कडयं णेउर-कडय-सुसोहिय-चलणं ॥ ति । अवि य ।

30 भसलालि-सुहल-हलबोल-वाउलिजंत-केसरुप्पीले । कमलम्मि पेसियच्छि लच्छी अह पेच्छइ णरिंदो ॥  
दट्ठूण थ अवणउत्तमंगेण कओ से पणामो ।

1 > J 'साण च', P 'मंणदिय सहइ, P य for वि, P जणो 2 > P 'तइलोक्क, P चद, P om. भगवईए, P वावारो for ता  
वरो, P 'णेण तीए चैव सव्वं 3 > P होहिइ त्ति, P समुवट्ठिओ, P सीहा' for महा' 4 > P अन्नमि दियहे पू', P दियहो, P  
चच्चरे, P खड', J om. चद. 5 > J गइदारविं', J भूत for भूय, P देव्वाण, P दाऊण 6 > P चरयपरिवाय भिक्खु', P पाण,  
P दुग्गह- 7 > P 'डियाणं, J सुणया-, P कायप्प', P परितुट्ठे for पुण्णमुहे, J सुचीहोउ, J दुग्गुल्लय- P दुगुल्लनि'. 8 > P  
'हरणो, J पास परिअणधरिअ, J om. य 9 > P om देवे, P थिरईओ, P गोरोयणो, P 'व्वकुर', P सिद्धसत्थियकयसिय. 10 >  
J पेसिओ परिअणो, P य राया, J कुसुम for कुस 11 > J 'महाकड्ढण', J किणकडि', J om करेहिं 13 > P वत्थल, P  
कुल्लत, P किरण repeated. 14 > P महोवहि, P रणंत 15 > P 'नाहस्स 16 > P कमलच्छी सिरीहिरी तहा किती, P  
णिव्वाणि निव्वुह'. 18 > P भणिकण, P om. य, P णिसण्णो, P सत्थरो, P om य, J 'सिरी तीए, P चैवागुण 19 > P तर  
for तइय, J राइणो, P नरिस for मरिस, J रस for रिस 20 > J भगुर, J 'सिणि, P 'लाणिहण. 21 > J कवलीओ, P  
'इलण 23 > P सग्गो 24 > P om. काउं 25 > P य नियच्छियं, P जा for जाव. 26 > P मिययको', P सर्पिजर-  
28 > P सुमंधरऊर 29 > P विराइय. 30 > J भसलालि, P 'रुप्पीलो 31 > J अवणउत्त'.

1 § ३६) भणियं च रायलच्छीए 'भो भो गरिंद, अणेय-पडिवक्ख-संदणुहलग-पउर-रिउ-सुंदरी-वद्र-वेहव्व-ठाण-दक्खं 1  
कीस एय तए खग-रयणं जयसिरि-कोमल-भुय-लयालिंगण-फरिस-सुह-दुल्लिए गिय-खधराभोए आयासिज्जइ' । तओ णर-  
3 वहणा भणिय 'देवि, जेण तिरत्तं मम णिरसणस्स तह वि दंसण ण देसि' त्ति । तओ इंसि-वियगिय-सिय-दसण-किरण- 3  
विभिजंताहर-रायं भणियं रायसिरीए 'अहो महाराय दढवम्म, तिरत्तेण चिय एस पुरिसो तवस्सी असहणो संबुत्तो' ।  
भणियं च राहणा 'देवि,

6 मणणइ हु तण-समाणं पि परिभव मेरु-मंदर-सरिच्छं । को वि जणो माण-धणो अवरो अवरो च्चिय वराओ' ॥ 6  
तओ भणियं रायलच्छीए 'सव्वहा भणसु मए कि कज्ज' ति । राहणा भणियं 'देवि,

सव्व-कलागम-णिलओ रज्ज-धुरा-धरण-घोरिओ धवलो । गिय-कुल-माणक्खभो दिज्जउ मह पुत्तओ एक्को' ॥

9 तओ सपरिहासं सिरीए संलत्तं । 'महाराय, किं कोइ मम समप्पिओ तए पुत्तओ जेणेवं मं पत्थेसि' । भणिय च राहणा 'ण 9  
समप्पिओ, गियय चेय देसु' त्ति । लच्छीए भणिय 'कुओ मे पुत्तओ' त्ति । तओ राहणा इंसि हामिऊण भणिय  
'देवि, भरह-सगर-माहव-णल-णहुस-मंधाइ-दिलीम-प्पमुह-सव्व-धरा-मडल-पत्थिव-सत्थ-वित्थय-वच्छथलाभोय-पल्लक-सुह-  
12 सेजा-सोविरिए तुह एक्को वि पुत्तो णत्थि' त्ति । संलत्तं सिरीए 'महाराय, कओ परिहासो । 12

रूपण जो अणगो दाणे धणओ रणम्मि सुरणाहो । पिहु-वच्छो मह वयणेण तुज्ज एक्को सुओ होउ' ॥

त्ति भणिऊण अदंसण गया देवी ।

15 § ३७) णरवई वि लद्ध-रायसिरी-वर-प्पसाओ णिगओ देवहरयाओ । तओ ण्हाय-सुह-भूओ महिऊण सुर-संध, पण-15  
मिऊण गुरुयण, दक्खिऊण विप्पयण, संमाणिऊण पणइयण, सुमरिऊण परियणं, क पि पणामेण, क पि पूयाए, क पि विण-  
एणं, कं पि माणेण, क पि दाणेण, कं पि समालिंगणेण, कं पि वायाए, कं पि दिट्ठीए, सव्वं पहरिस-णिठभर सुमुहं काऊण  
18 णिसण्णो भोयण-मंडवे । तत्थ जहामिखइयं च भोयण भोत्तूण आयत-सुह-भूओ णिगओ अट्ठंतरोवत्थाण-मडव । तत्थ 18  
य वाहिता मतिणो । समागया कय-पणामा य उवविट्ठा आसणेसुं । साहिओ य जहावत्तो सयलो सिरीए समुल्लावो । तओ  
भणिय मतीहिं 'देव, साहिय चेय अग्हेहिं, जहा

21 जावय ण देति हियं पुरिसा कज्जाइं ताव विहडंति । अह विण्ण चिय हियं गुरुं पि कज्जं परिसमत्तं ॥ 21  
तं सव्वहा होउ जं रायसिरीए संलत्त' ति ।


§ ३८) तओ समुट्ठिओ राया । गओ पियंगुसामाए मंदिरं । दिट्ठा य देवी गियम-परिट्ठव्वलंगी । अट्ठभुट्ठिऊण टिण्ण  
24 आसणं, उवविट्ठो राया । साहियं च राहणा सिरि-वर-प्पयाणं । तओ पहरिस-णिठभराए भणिय च देवीए 'महापसाओ' त्ति । 24  
तओ समाइदं वद्धावणय । जाओ य णयरे महुसवो । एवंविह-खज्ज-येज्ज-मणोहरो छणमओ विय बोलीणो सो दियहो । तावय,

कुंकुम-रसारुंगो अह कत्थ वि पत्थिओ त्ति णाउ जे । संज्ञा-दूई राईए पेसिया सूर-मग्गेण ॥

27 णिच्च पसारिय-करो सूरु अणुराय-णिठभरा संज्ञा । इय चित्तिऊण राई अणुमग्गेणव सपत्ता ॥ 27

संज्ञाए समासत्तं रत्त दट्ठूण कमल-वण-णाह । वहइ गुरु-मच्छरेण व सामायंतं मुह रयणी ॥

पच्चक्ख-विलय-दसण-गुरु-कोवायाव-जाय-संतावे । दीसंति सेय-विट्ठु व्व तारया रयणि-देहम्मि ॥



1 > P -महलुहलग, P -चदलेहव्व 2 > P जयसिरी, P भुय for भुय, J फरम, P om. सुह, P नियकधरा<sup>१</sup>

3 > P जेण, P om मम, P तहा वि, P विहसियदसण 4 > P विहिज्जता<sup>२</sup>, P om रायं, P दढधम तिरत्तेरण चिय परिसो त सि  
असहणो जाओ । 6 > P य for हु, P तणय-, P जीविय for परिभव, P मदिर 7 > P देवि सुणसु सव्व 8 > P -धारिओ, P

मह पोत्तओ 9 > P कोवि, P तओ for तए, J मम for म 10 > P चेव, P पुत्तिउ, P त्रिहसिऊण 11 > J महवि for  
माहव, J मंधारं P मंधाय, P डिलीपपमुह 12 > P सेजो-, P तु for तुइ, P om त्ति, P 'हासो । अहवा 13 > P रुवेण, P

दाणेण धणउरमि, P वच्छ मज्झ वं, J होहि 15 > P 'सिरि- 16 > P किं for क (throughout) 17 > J om कं (P  
किं) पि दाणेण 17 > P -निच्चरसमुह काऊण 18 > P 'रुइअ जहारुहच भुत्तूण भोयण, J सुभूई 19 > J तत्थ वाहराप्रिता,

P य आसीणा आमणेसुं, J साहिय च जहाविच, P om सयलो, P सिरिए, J सहमुल्लावो 20 > P om देव, P चेहिं for चेय  
21 > P नदेति, P विय for चिय 22 > P ता for त, J om ति 23 > P समुवट्ठिओ 25 > P छणमओ विय

26 > J 'रसायणो P 'रसारुणो, P अकत्थव पं, P माउ for णाउं, P पिसिया चरि- 27 > P गइइ इयमग्गेण व 28 > J  
संज्ञासमोसरत, J मुहु for मुह 29 > J -विलिय-, P 'यास जायसतावा

- 1 उत्तार-भारयाण् विलुलिय-तम-णियर-कसिण-केसीए । चंद-कर-धवल-दसणं राईएँ समच्छरं हसियं ॥  
पुम्भ-दिसाएँ सहीय व दिण्णा णव-चंद-चंदण-णिडाली । रवि-विरह-जलण-संतावियरिम वयणम्मि रयणीए ॥
- 3 सरियर-पंडर-देहा कोसिय-हुंकार-नाव-णित्थामा । अह झिज्जिउं पयत्ता रएण राई विणा रविणा ॥  
अरुणाएण-भीउट्टिं आयंबिर-त्तारयं सुरय-भीणं । दट्टूण पुव्व-संझं राई रोसेण व विलीणा ॥  
इय राई-रवि-संझा-तिण्हं पि हु पेच्छिउं इमं चरियं । पल्लत्थ-दुद्ध-धवलं अह हसियं दियह-लच्छीए ॥
- 6 § ३९) तओ एयम्मि एरिसे अवसरे धोव-धवल-पडच्छाए सुवित्थिण्णे पल्लंके पसुत्ता दुद्ध-धवल-जल-तरल-कल्लोल-  
माला-पम्वाल्लिए खीरोय-सायरुच्छो व लच्छी पियंगुसामा देवी सुविणं पेच्छइ । तं च केरिसं ।  
जोण्हा-पवाह-णीरोरु-पूर-पसरंत-भरिय-दिसियकं । पेच्छइ कुमुयाणंदं सयलं पि कलंक-परिहीणं ॥
- 9 अह बहुल-परिमलायट्ठियालि-हलवोल-णिठभर-दिसाए । कुवल्लयमालाएँ दढं अवगूढं चंदिमा-णाहं ॥
- तओ जावय इमं पेच्छइ तावय पहय-पडु-पडह-पडिरव-संखुद्ध-विउद्ध-संदिरुज्जाण-वावी-कलहंस-कंड-कलयलाराव-रविज्जंत-  
सविसेस-सुह-सुहेणं पडिबुद्धा देवी । पाहाउय-मंगल-त्तूर-रवेणं पडिबुज्जिऊण य णियय-भावाणुसरिस-सुमिण-दंसण-रस-  
12 वस-पहरिसुच्छलंत-रोमंच-कंचुव्वहण-पहाए देवीए भागंतूण विणओणय-उत्तमंगाए साहियं महाराइणो जहा-दिट्ठं महा-  
सुविणयं ति । तओ राया वि हियय-ट्ठिय-संवयंत-देवी-वर-प्पसाओ अमय-महासमुहे विय मज्जमाणो इमं भणित्ताओत्तो ।  
'पिए, जो सो रायसिरीए भयवईए तुह दिण्णो पुत्त-वरो सो अज्ज णूणं तुह उदरत्थो जाओ' ति । तओ देवीए संलत्तं ।
- 16 'महाराय, देवयाणं अणुगगहेणं लच्छीए वर-प्पसाएणं गहाणं साणुकूलत्तणेणं गुरुयण-आसीसाए तुह य प्पभावेणं एवं चेय 16  
एयं इच्छियं मए पडिच्छियं मए अणुमयं मए पसाओ महं' ति भणमाणी णिवडिया राइणो चलण-जुयलए ति ।

- § ४०) तओ राया कयावस्सय-करणीओ महिऊण सुर-संघं दक्खिऊण य दक्खिणिज्जे पूइऊण पूयणिज्जे संमाणिऊण  
18 संमाणिज्जे वंदिऊण वंदणिज्जे णिकंतो बाहिरोवत्थाण-भूमिं, णिसण्णो तविय-त्तवणिज्ज-रयण-विणिम्मविए महरिहे सीहासणे । 18  
आसीणस्स य आगया सुर-गुरु-सरिसा मंतिणो, उवविट्ठा कण्ण-णारिंदस्स व महाराण्दिं, पणमंति दुग्गइय-सरिसा महावीरा,  
उग्गाहंति आऊ-सत्थं धणंतारि-समा महावेज्जा, सत्थिकारंति चउवयण-समा महावंभणा, सुहासणत्था वास-महरिसि-समा  
21 महाकइणो, विण्णवेंति छम्मुह-समा महासेणावइणो, पविसंति सुक्क-सरिसा महापुरोहिया । णिय-कम्म-वावड्ढाओ अवहसिय-  
सुर-सुंदरी-वंद्र-लायणाओ वारविलासिणीओ ति । केएत्थ पायय-पाढया, केइत्थ सक्कय-पाढया, अण्णे अवबंभंस-जाणिणो,  
अण्णे भारह-सत्थ-पत्तट्ठा, अण्णे विसाहिल-मय-णिउणा, अण्णे इस्सत्थ-सत्थ-पाढया, अण्णे फरावेड्डु-उवज्जाया, अण्णे  
24 छुरिया-पवेस-पविट्ठा, अवरे वाणय-सत्ति-चक्क-भिंडिमाल-पास-जुद्ध-णिउणा, अण्णे पत्त-छेज्ज-पत्तट्ठा, अण्णे चित्तयम्म-कुसला, 24  
अण्णे हय-लक्खण-जाणिणो, अण्णे गय-लक्खणणू, अण्णे मंतिणो, अण्णे धाउ-वाइणो, अण्णे जोइसिणो, अण्णे उण सउण-  
सत्थ-पाढया, अण्णे सुविणय-वियाणया, अण्णे णेमिच्चिय ति । अवि य ।

- 27 सा णत्थि कला तं णत्थि कोउयं तं च णत्थि विण्णाणं । जं हो तत्थ ण दीसइ मिलिए अत्थाणिया-मज्जे ॥ 27

- § ४१) तओ तम्मि एरिसे वासव-सभा-संणिहे मिलिए महत्थाणि-मंडले भणियं राइणा । 'ओ भो मंतिणो, अज्ज  
एरिसो एरिसो य सुविणो देवीए दिट्ठो पच्छिम-जामे, ता एयस्स किं पुण फलं' ति । तओ भणियं सुविण-सत्थ-पाढएहिं ।  
30 'देव, एयं सुविणय-सत्थेसु पडिज्जइ जहा किर महा-पुरिस-जणणीओ सत्ति-सूर-वसह-सीह-गय-प्पसुहे सुमिणे पेच्छति, 30

1 > P विलुलिसय, J चंद्र P थंद, P -दंसण 2 > P सहियं व, P त्विर for रवि 3 > P पंडुर, P णिच्छामा. 4 > P  
भाणोट्टि आयंचिर, J संझा P संज्झ, P रोसेण वलीणो 5 > P उ for हु, P -हच्छीए [=इत्थीए?] 6 > P धोर, P  
पडवच्छाइए, P सुविच्छिण्णं 7 > P सुमिणं 8 > P -खीरोर, P सयण पि. 9 > P अइ for अह, P अवज्जदं 10 > P जाव  
इमं, J om. पहय, P विउद्धसुद्धमंदिरुज्जाणो वावि- 11 > P पहाओ य I, P 'सरस 12 > P कंचउव्वहणरोहाए, P गंतूण  
विणयावणउत्तमंगाण 13 > J हियअट्ठियमहासंवयंत वर', P पसाउ त्ति, P मज्जमाणा, J भणितं समाढत्तो. 14 > P भगवईय, P  
अजुत्तणं, P उअरत्थो, P संलत्ति 15 > P अणुगगहो णं लच्छीय वरप्पहाणेणं महणाण साणु', P गुरुणं आ', J चेव. 16 > P मे  
for मए, J पसाओ त्ति महं, J om. राइणो, J जुवलत्ति 17 > J om य, P दक्खीणिज्जे, P पूइणिज्जे. 18 > P भूमी, P  
तविणिच्छो, P विणम्मविह महरिह 19 > P नरिंदसंमा महा', P महा for महावीरा. 20 > P आउसत्थं, P 'वंभणो J महरिसि, P  
om. समा. 22 > J वंद्र P विंद, J -णीयणाओ, P केरय पाइय, P om. के इत्थ सक्कयपाढया, P अवमस 23 > P भरह, P  
इसत्थत्थपाढया, J om. अण्णे फरावेड्डुउवज्जाया 24 > J कय for वाण, P भिंडिया 25 > P गयलक्खण अत्रे, J om. उण.  
26 > P -वाढया अत्रे सुविणसत्थ-, J वीणया for विया', P नेमित्तय. 27 > P हो जत्थ, P अत्थाणमज्जामि 28 > P सत्थिमे, P  
मंदवे. 29 > J om. य, P 'देवीए पच्छिमजामे दिट्ठो, J पुण हलन्ति, J सुमिण, J om. सत्थ 30 > P सुमिणसत्थे.

1 तेण एयस्स एरिसस्स सयल-चंद-दंसणस्स महापुरिस-जम्म साहेति' ति । राइणा भणियं 'देवीए पुत्त-जम्म-फलं सिरीए 1  
चेव साहियं भगवईए । जो पुण सो ससी कुवलयमालाए अवगूढो तं किंचि पुच्छिमो' । तओ भणियं सुमिण-सत्थ-पाढएहिं  
3 'देव, तेण एसा वि तुह दुइया धूया भविस्सइ' ति । तओ देव-गुरुणा भणियं 'देव, जुज्जइ एयं, जइ कुवलयमाला 3  
केवला चेय दीसेज्ज मिण्णा चंदाओ, ता होज्ज इम । एसा पुण त चेय मियकं अवगूहिज्जण ठिया, तेण एसा का वि  
एयस्स राय-पुत्तस्स पुव्व-जम्म-गेह-पडिवन्दा कुवलयमाला विय सव्व-जण-मणोहरा पिययमा होहि ति । तीए चेय  
6 समालिंणिओ एस दिट्ठो' ति । भणिय च राइणा 'एय सभावज्जइ' । तओ ठिया किंचि कालं विविह-णरिंद-वेसरि- 6  
कला-कलाव-सत्थ-विण्णाण-विज्जा-कहासुं । समुट्ठिओ राया कय-दियइ-वावारो कय-राइ-वावारो थ अच्छिउं पयत्तो ।

§ ४२) अह देवी तं चेय दियइ धेत्तूण लायण्ण-जल-प्पवड्डिया इव कमलिणी अहिययर रेहिउं पयत्ता ।  
9 अणुदियइ-पवड्डमाण कला-कलाव-कलक-परिहीणा विय चंदिमा-गाह-रेहा सव्व-जण-मणोहरा जाया । तहा परिवड्डमाण-दाण- 9  
दया-दक्खिण्ण-विज्जा-विण्णाण-विणय-णाणाभिमाणा सुसमया गुरुयणस्स, पिययमा राइणो, सुपसाया परियणस्स, बहुमया  
सवत्ति-सत्थस्स, दाण-परा वधु-वगस्स, सुमुहा पउर-जणस्स, अणुकूला साहुयणस्स, विणीया तवस्सीणं, साणुकपा  
12 सव्व-पाणि-गणस्स जाव गव्वं समुव्वइ ति । 12

अह तीएँ डोहलो सुंदरीएँ जाओ कमेण चित्तमि । जो जं भग्गइ त चिय सव्वं जइ दिज्जए तस्स ॥

संपुण्ण-दोहला सा पणइयणवभहिय-दिण्ण-धण-सारा । लद्ध-रइ-प्पसरा वि हु सुपुरिस-गव्वं समुव्वइ ॥

16 § ४३) सव्वहा महा-पुरिस-गव्वं समुव्वइउमाइत्ता । कह । 16

अंतो-णिहित्त-सुपुरिस-मुणाल-धवल्लुच्छलंत-जस-णिवहो । धवलेइ व तीएँ फुड गव्वं-भरापंडु-गंडयले ॥

मंदर-गिरि-वर-गरुय तमुव्वइंतीय भार-विण्णाए । अलसायंति अलंवि-मुणाल-मउयाइँ अंगाइ ॥

18 तुंगं समुव्वभइयर तीय वइंतीय अप्पणो गव्वं । सामायंति मुहाइँ ऊणिस-गहियाण व थणाण ॥ 18

आपूरमाण-गव्वं अणुदियइं जइ पवड्डए देवी । तह सरय-जलय-माल व्व रेहए पुण्णयंदेण ॥

अह दल-थवण पि कयं समाणिज्जंत-गुरुयण रम्मं । णच्चिर-विलासिणीयण-जण-णिवहुइम-पूरत ॥

21 अह तिहि-करणमि सुहे णक्खत्ते सुंदरमि लग्गमि । होरासुइ-मुहासुं उच्च-स्थाणमि गह-चके ॥ 21

वियसत-पकय-मुहो कुवलय-कलिया-दुरंत-गयण-जुओ । सरय-सिरीए सरो इव जाओ रुहरो वर-कुमारो ॥

§ ४४) अह तमि जाय-मेत्ते हरिस-भरिज्जंत-वयण-कमलाण । अंतोउर-विलयाणं के वावारा पयट्टेति ॥

24 'हला हला पउमे, विरएसु मरगय-मणि-मिच्छित्त-त्यल्लुच्छलत-कसिण-किरण-पडिप्फलत-वहलधयार-पत्थार-रेहिरे मणि पईवय- 24  
णिहाए । पियसहि पुरदरदत्ते, सय चेव कि ण पडियग्गसि सयल-भवण-मिच्छित्त-सकत-कंत-चित्तयम्म-सकुलाओ पौण्णिमायद-  
रिंछोलि-रेहिराओ मंगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरी, किं ण विरएसि सरय-समय-ससि-दोसिणा-मऊहोहा-  
27 मिय-सिय-माहप्ये महाणील-कोट्टिम-तलेसु णलिणी-दलेसु धवल्लु-मुणालिया-णिवहे व्व भूइ-रक्खा-परिहरंतए । पियसहि 27  
हसिए, हंसउल-पक्खावली-पम्ह-मउइय कि ता ण गेण्हसि चामर । वयंसि सिद्धत्थिए, गोर-सिद्धत्थ-करवियाओ दे विरएसु  
अहिणवक्खय-णटावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहडिए, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पहुं गेण्हसु बालयस्स  
30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

24 'हला हला पउमे, विरएसु मरगय-मणि-मिच्छित्त-त्यल्लुच्छलत-कसिण-किरण-पडिप्फलत-वहलधयार-पत्थार-रेहिरे मणि पईवय- 24  
णिहाए । पियसहि पुरदरदत्ते, सय चेव कि ण पडियग्गसि सयल-भवण-मिच्छित्त-सकत-कंत-चित्तयम्म-सकुलाओ पौण्णिमायद-  
रिंछोलि-रेहिराओ मंगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरी, किं ण विरएसि सरय-समय-ससि-दोसिणा-मऊहोहा-  
27 मिय-सिय-माहप्ये महाणील-कोट्टिम-तलेसु णलिणी-दलेसु धवल्लु-मुणालिया-णिवहे व्व भूइ-रक्खा-परिहरंतए । पियसहि 27  
हसिए, हंसउल-पक्खावली-पम्ह-मउइय कि ता ण गेण्हसि चामर । वयंसि सिद्धत्थिए, गोर-सिद्धत्थ-करवियाओ दे विरएसु  
अहिणवक्खय-णटावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहडिए, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पहुं गेण्हसु बालयस्स  
30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

27 मिय-सिय-माहप्ये महाणील-कोट्टिम-तलेसु णलिणी-दलेसु धवल्लु-मुणालिया-णिवहे व्व भूइ-रक्खा-परिहरंतए । पियसहि 27  
हसिए, हंसउल-पक्खावली-पम्ह-मउइय कि ता ण गेण्हसि चामर । वयंसि सिद्धत्थिए, गोर-सिद्धत्थ-करवियाओ दे विरएसु  
अहिणवक्खय-णटावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहडिए, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पहुं गेण्हसु बालयस्स  
30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

हसिए, हंसउल-पक्खावली-पम्ह-मउइय कि ता ण गेण्हसि चामर । वयंसि सिद्धत्थिए, गोर-सिद्धत्थ-करवियाओ दे विरएसु  
अहिणवक्खय-णटावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहडिए, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पहुं गेण्हसु बालयस्स  
30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

अहिणवक्खय-णटावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहडिए, रिउ-सुहड-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पहुं गेण्हसु बालयस्स  
30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

30 देवीए थ इम रक्खा-मडल्लग' ति । 30

- 1 § ४५) इय जा विलासिणियणो पडिहारीए णिउंजए ठाणे । वद्धाविया सरहसं उद्धावइ ता णरिंदस्स ॥ कहं । 1
- 2 रहसुदाम-विसंदुल-नामणं गमण-खलंत-सुणेउर-चलणं । 1
- 3 चलण-चलंतुत्तावल-हिययं हियउत्तावल-फुरिय-णियंबं ॥ 3
- 4 फुरिय-णियंब-सुवज्जिर-रसणं रसण-विलग्ग-पओहर-सिचयं ।
- 5 सिचय-पदंत-सुलज्जिर-वयणं वयण-मियंकुज्जोइय-भवणं ॥ ति । अवि य ।
- 6 वित्थय-णियंब-गुरु-भार-मंधरुवहण-खेय-सुडिया वि । उद्धावइ णरवहणो विलया वद्धाविया एक्का ॥ 6
- 7 ताव य सा संपत्ता णरवहणो वास-भवणं । भणियं च णाए 'देव, पियं पियं णिवेएमि सामिणो, सुहं-सुहेणं वो देवी संपयं कुमारं पस्य' ति । ताव य राइणो पियंवइया-वयण-परितोस-रस-वस-रोमंच-कंचुओव्वहण-समूससंत-भुयासु सविसेसं गाढ-
- 8 इए वि समयारिउण सयं चैव विलएइ पियंवइयाए कडय-कंठय-कुंडलाइए आहरण-णिहाए । समाइहं च राइणा वद्धावणयं । 9
- 9 भापूसाणंतरं च,
- 10 पवण-पहय-मीसणुवेळ-संचल्ल-मच्छ-च्छडाघाय-मिजंत-गंभीर-धीरुच्छलंताणुसद्दाभिपूरंत-लोयंत-संखुद्ध-कीलाल-गाहाणुघोसं समुद्धाइयं तूर-सइं [तहा] । 12
- 11 पवर-विलय-हत्थ-पम्मुक-गंधुद्धुरुद्धुव्वमाणुल्लसंतेण कप्पूर-पूरुच्छलंतेण कत्थूरिया-रेणु-राएण संछण्ण-सूरं दिसा-मंडलं तक्खणं चैय तं रेहिरं राइणो मंदिरं ।
- 12 मय-रस-वस-धुम्भिरं णच्चमाणण पीण-स्थणाभोग-घोलंत-हाराण तुटंत-मुत्तावली-तार-मुत्ता-गलंतेक्क-विंदु व्व लायण्णयं 16
- 13 णच्चमाणण विक्खिप्पए कामिणीणं तहा ।
- 14 सरहस-विलया-चलंतावदंतेहिं माणिक-सारंतराणेउरेहिं तहा तार-तारं रणंतेहिं कंची-कलावेहिं ता किंकिणी-ताल-माला-रवारद्ध-गंधव्व-पूरंत-सइं दिसा-मंडलं ॥ अवि य । 18
- 15 णचंत-विलासिणि-सोहणयं मव्हंत-सुखुज्जय-हासणयं । गिजंत-सुसुंदर-मणहरयं इय जायं तं वद्धावणयं ॥
- 16 § ४६) तावय खग्गगा-धारा-जलण-जालावली-होमियाइं णीसेस-डद्धाइं वइरि-वंस-सुद्धुमंकराइं ति । तेण णत्थि 21
- 17 वंधणं । तह वि विमुक्काइं पंजर-सुय-सारिया-सउण-सत्थाइं । दिजंति मय-जलयलिय-बहल-परिमलायड्वियालि-गुंजंत-कोव-21
- 18 गुलेगुलेंताओ वियरंत-महामायंग-मंडलीओ । पणामिजंति सजल-जलय-गंभीर-सइं हेसा-रवहे हसंतीओ इव दरिय-वर-तुरय-वंदुर-मालाओ । उवणिजंति महासामंताणं गुरु-चक्क-णेमी-घणघणाराव-बहिरिय-दिसिवहाओ हारि-रहवर-णियर-पत्थारीओ ।
- 24 समपिजंति सेवयाणं महापडिहारेहिं गाम-णयर-खेड-कब्बड-पट्टणाणं पत्तलाओ ति । अवि य । 24
- 19 सो णत्थि जस्स दिज्जइ लक्खं ऊणं च दिज्जए णेय । तह णरवइणा दिण्णं जह गेण्हंत खिय ण जाया ॥
- 20 तह वि दिजंति महामणि-णिहाए, विक्खिपिजंति थोर-मुत्ताहले, अवमणिजंति दुगुल्लय-जुवलए, उज्जिजंति रल्लय-कवलए, 27
- 21 फालिजंति कोमले णेत्त-पट्टए, णियंसिजंति चित्त-पडिणिहाए, पक्खिविजंति सुवण्ण-चारिमे, पसाहिजंति कडय-कौंडले, 27
- 22 अवहत्थिजंति कणय-कलघोय-थाल-संकरे, कणच्छिजंति वाम-लोयणद्धंत-कडच्छिएहिं दीणार-णाणा-रुवय-करंबय-कयारुक्केर ति । अवि य ।
- 23 तं णत्थि जं ण दिज्जइ णूणमभावो ण लब्भए जं च । ण य दिज्जइ ण य लब्भइ एकं चिय णवर दुव्वयणं ॥ 30
- 24 णच्चइ णायर-लोओ हीरइ उवरिल्लयं सहरिसाहिं । अण्णोण्ण-बद्ध-रायं रायंगणयम्मि विलयाहिं ॥

1 > J विलासिणीअणो P विलासिणी य लेणो, P पडिहारी निउजए ठाणे, P उद्धावइ ता, J om. कहं 2 > P सुद्धाम P चरण 3 > J हिययुत्तां 4 > P सलज्जिर 5 > P कुज्जोविय- 6 > P वद्धावइ 7 > P य संपत्ता स नरं, J पियं only once, P om. वो 8 > J पसूअत्तत्ति, J राइणा, J तोसवसरसरो, P भुयासविसेसमाइइए वि समयारिः 9 > J विलए J om. कडयकंठयकुंडलाइए, P निवहाए 11 > P मीसणुवेळसंचसमच्छुत्थडा, P मिजंतगंभीरवीरः 13 > J विलया, J पम्मुक P पम्मुक, J माणुल्लसंतेण, J om. कत्थूरियारेणुराएण 14 > P रेहिरे राइणा 15 > J मयवसरस, P नच्चमाणेण, P भोयघोलत 16 > J विक्खिप्पए 17 > P वडत्ता for चलंता, P सारंतरं, J किंकिणि, P ताला 19 > P सुसुंदरमणहरयं. 20 > P खग्गयधारा, P भोमियाइ, P दद्धाइं, P कुराह वि । 21 > P तहा वि विमुक्करं पंजरि, P जलोआलिय, P कोवगुणंताउ विय मत्तमहा 22 > J जलयर, P सइंसारवहसंतीओ 23 > P उवणिजंत. 24 > P पडिहारेहिं गामानर 25 > P जहा, J गेण्हते 26 > P विक्खिप्पति, P कंबलय 27 > J कोमल, P नेत्तवट्टए तियसिजंति, P चित्तवट्टि, P सुवण्णारिसे 28 > P कणयकणाहायथालसकारे, J रुक्केरोत्ति P कयारुक्केवंति. 30 > P विज्जइ, J ममाने, J पक्खिय, P नवरि.

1 § ४७) जावय एस बुत्ततो तावय राहणा सहाविओ सिद्धत्य-सवच्छरिओ । आणुसाणतर च समागओ धवल-जुवलय- 1  
 गिर्यंसणो वंदिय-सिद्धत्य-रोयणा-रेहिर-सुह-भियको हरियाल-हरिय-(हरियाले फुड दुव्वंकर)पवित्तुचमगो । आंगतूण य उण्णा-  
 3 मिय-दाहिण-करयलेणं सत्थिकारिओ राया, वद्धाविओ पुत्त-जम्मम्भुदण्ण । उवविट्ठो य परियणोवणीए आमणे त्ति । तओ 3  
 भणियं राहणा 'भो भो महासवच्छर, साह कुमारस्स जम्म-णक्खत्तस्स गहाण दिट्ठि' त्ति । संवच्छरेण भणियं 'देव, जहाणवेसि  
 त्ति, णिसुणेसु संवच्छरो एस आणटो, उट्ठू सरय-समओ, मासो कत्तिओ, तिही विजया, वारो बुहस्स, णक्खत्तं हत्थो,  
 6 रासी कण्णो, सुक्कमो जोगो, सोम-ग्गह-णिरिक्खिय लगं, उच्च-ट्टाण-ट्टिया सव्वे वि गहा । उट्ठू-सुहा होरा, एक्कारस-ठाण-ट्टिया 6  
 सुहयरा पाव-गाहय त्ति । अवि य ।

गह-रासि-गुणम्मि सुहे जाओ एयम्मि एरिसे जेण । होइ कुमारो चक्की चक्कि-समो वा य राय' त्ति ॥

9 § ४८) अह णरवड्डणा भणिय 'अहो महासंवच्छर, काओ रासीओ के वा रासि-गुण त्ति, ज भणसि एरिसे रासि- 9  
 गुणम्मि जाओ कुमारो' त्ति । भणियं संवच्छरेणं 'देव, रासीओ त जहा । मेसो विसो मिहुणो कक्कडो सिंघो कण्णो तुलो  
 विच्छिओ धणू मगरो कुंभो मीणो त्ति । एयाओ रासीओ, संपय एयासु जायस्स गुणे पुरिमस्स महिलाए वा णिसामेह ।  
 12 मेसस्स ता वदंते । 12

णिच्चं जो रोग-भागी णरवड्ड-सयणे पड्डओ चक्खु-लोलो, धम्मत्ये उज्जमतो महियण-वलिओ ऊरु-जंघो कयण्णू ।  
 सूरुओ जो चड-कम्मो पुणरवि मडओ वल्लहो कामिणीणं, जेट्ठो सो भाउयाणं जल-णिच्चय-महा-मीरुओ मेस-जाओ ॥

15 अट्टारस-पणुवीसो चुक्को सो कह वि मरइ सय-वरिसो । अंगार-चोहसीए कित्तिय तह अट्ट-रत्तम्मि ॥ १ ॥ 15

भोगी अत्थस्स दाया पिहुल-गल-महा-गंड-वासो सुमित्तो, टक्खो सच्चो सुई जो सललिय-गमणो दुट्ट-पुत्तो कलत्तो ।  
 तेयसी भिच्च-जुत्तो पर-जुवइ-महाराग-रत्तो गुरुण, गंडे खंधे व्व चिण्ह कुजण-जण-पिओ कंड-रोगी विसम्मि ॥

18 चुक्को चउपपयाओ पणुवीसो मरइ सो सय पत्तो । मगसिर-पहर-सेसे बुह-रोहिणि पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ २ ॥ 18

मिट्टण्णू चक्खु-लोलो पड्डियण-सहो मेहुणासत्त-चित्तो, कारुण्णो कण्ण-वाही जण-णयण-हरो मज्झिमो कित्ति-भागी ।  
 गंधव्वे णट्ट-जुत्तो जुवइ-जण-कए भट्ट-छाओ धणट्टो, गोरो जो दीहरगो गुण-सय-कलिओ मेहुणे रासि-जाओ ॥

21 जइ किर जलस्स चुक्कह गोलस-वरिसो मरेज्ज सो ऽसीती । पोसे मिगसिर-वारो बुहम्मि जलणे जले वा वि ॥ ३ ॥ 21

रोगी सीसे सुवुद्धी धण-कणग-जुओ कज्ज-सारो कयण्णू, सूरुओ धम्मणे जुत्तो विवुह-गुरु-जणे भत्तिमंतो किसंगो ।  
 जो वालो टुक्ख-भागी पवसण-मणसो भिच्च-कज्जेहिं जुत्तो, खिण्प-कोवी सधम्मो उदय-ससि-समो मित्तवंतो चउत्थे ॥

24 जइ कह वि वीसओ सो चुक्कह पडणस्स जियइ सो ऽसीती । पोसे मिगसिर-सुक्के राईए अट्ट-जामम्मि ॥ ४ ॥ 24

माण-भाणी सुखंती गुरुयण-विणओ मज्ज-भास-प्पिओ य, देसादेसं भमंतो वसण-परिगओ सीय-भीरु किवाल् ।  
 खिण्प-कोवी सुपुत्तो जणणि-जण-पिओ पायडो सव्वलोए, मिंघे जाओ मणूसो सुर-गिरि-सरिसो णाण-विज्जाण पुज्जो ॥

27 जइ जीवइ पंचामो मरइ वसते सएण वरिसाण । णक्खत्तम्मि मघासुं सणिच्छरे पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ ५ ॥ 27

धम्मिट्ठो बुह-भावे धण-कणग-जुओ सव्व-लोयस्स इट्ठो, गंधव्वे कव्व णट्टे वसण-परिगओ कामिणी-चित्त-चोरो ।  
 दाया दक्खो कवी जो पमय-जण-कए छाया-भंसेण जुत्तो, इट्ठो देवाण पुज्जो पवसण-मणओ कण्ण-जाओ मणूसो ॥

30 सत्य-जलाण चुक्को तीसइ वरिसो जिण्ज्ज सो ऽसीती । मूलेण वडसाहे बुह-चित्ता-पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ ६ ॥ 30

तओ देव, एरिस-गुण-जुत्तो रायउत्तो । एसो ण केणइ पाव-गाहेण णिरिक्खिओ, तेण जहा-भणियं रासि-गुण-वित्थर पावइ ।  
 जेण सुह-गुण-णिरिक्खिओ तेण अच्चत-सुह-फलोदओ भवइ' त्ति ।

~~~~~

1) P om सिद्धत्य, J om च, J आगओ P समागतो, P धोयधवलसुय- for धवल eto 2) J वदिया, P मिद्धरोवणा,  
 J हरिताल हरिआले फुड दुव्वंकर । अविजुत्तं P हरियालहरियहरियालिया फुड कुरु पवित्तुत्तं, P पन्नामिय 3) J वणिण 4)  
 P जहाणवेसे त्ति 5) P संवत्तरो, P उड, P कत्तिगोचिही, P बुद्धवारो for बुहस्स 6) J सुक्कमो, P निरक्खियं, P सव्वगहा,  
 P ट्टाण 7) P ग्गह त्ति 8) J चक्कीममो जहा राय, P महाराय for राय 10) P सवत्तरेण 11) P विच्छिओ, P  
 त्ति । अवि य । एमो उ रासीओ 12) P जा for ता 13) P धम्मत्थिय, J सहियणवलिओ P मण्णववलिओ 14) J कम्मो,  
 P जो for सो 15) J ॥ छ ॥ P ॥ < ॥ 16) P लड for दुट्ट 17) P तेजस्सी, P जुयट, J ऋणे खडे व for गडे  
 eto, P विष for चिण्ह 19) P मिहुणो, J मेहुणामत्तु, P नयणधरो 20) J कूए for जुत्तो, P भट्ट, JP छाओ  
 21) P जम्मम्म, JP मो सीतो (अवग्रह is put here because J puts it once below), P मियनिर 22) P कणय,  
 P मत्तिवतो 23) P निच्च for खिण्प, P मधम्मो 24) P किर जम्मस्स for कह वि वीसओ मो, P पट्ठेस्स, P सो मीति ।  
 P पत्तो for पोसे 25) J माम, P परिगतो 26) P मिहो जाओ, P गिरिसुर, P नामधेज्जेण for णाणविज्जाण 27) J  
 वसतोमटेण 29) J दक्खेक्खिओ, J छायाच्चमेण, P मणुम्मो 30) J जण्ण मोऽसीती (note J uses अवग्रह here)  
 P मोमीई, J वेसाहे, P बुहचित्ता 31) P गुणो for पुणजुत्तो, J om रायउत्तो, P निरक्खिओ, J य for जहा, J गमी-  
 32) P निरक्खिओ, P हवड for भवइ

1 § ४९) भणियं च राहणा 'अह केण एस एरिसो गुण-वित्थरो भणियो' ति । भणियं च संवच्छरिण 'देव, आसि 1  
किर को वि संवण्णू भगवं दिव्व-णाणी, तेण एयं सुसिस्ताणं साहियं तेहि वि अण्णेसिं ताव, जाव वंगाल-रिसिणो । संपयं 1  
3 तेहिं एयं भणियं । तेण एयं वंगाल-जायगं भण्णह' ति । भणियं च राहणा 'सुंदरं एयं, ता सेसं पि उदाहरणं णिसुणेमि' 3  
ति । संवच्छरेण भणियं 'देव णिसुणेसु ।

अथाणे रोसमंतो फुड-वियड-वओ सोय-दुक्खाण भागी, पत्तट्टो जो वणिज्जे णिय-धर-महिला सूर-चित्तो विरागी ।  
6 देवाणं भत्तिमंतो चिर-सुहिय-महा-मित्त-वच्छल-जुत्तो, णिच्च-क्खंती-पवासो चल-णयण-धणो बाल-भावे तुलमि ॥ 6  
कुट्टाईणं चुक्को वीसह-वरिसे मरेज्ज सो सीती । जेट्टे सिव-खेत्तमि य अणुराहंगार-दियहमि ॥ ७ ॥  
कूरो जो पिंगलच्छो पर-धर-मणसो साहसा साहियत्थो, सूरु माणेण जुत्तो सयण-जणवए णिट्टरो चोर-चित्तो ।  
9 बालो जो विप्प-पुत्तो जणणि-परिजणे दुट्ट-चित्तो मणूसो, भागी अत्थस्स जुत्तो पुणरवि विहलो विच्छिण होइ जाओ ॥ 9  
अट्टारस-पणुवीसो जइ चुक्कइ चोर-सत्थ-सप्पाणं । जेट्टमि सिवे खेत्ते अंगारे सत्तरो मरइ ॥ ८ ॥  
सूरु जो बुद्धि-जुत्तो जण-णयण-हरो सत्तवंतो य सच्चो, सिप्पी णेउण्णवंतो धण-रयण-धरो सुंदरा तस्स भज्जा ।  
12 माणी चारित्त-जुत्तो सललिय-वयणो छिड्ड-पाओ विहण्णू, तेयस्सी थूल-देहो णिय-कुल-महणो होइ जाओ धणमि ॥ 12  
पढमट्टारस-दिवसे चुक्को सो सत्तसत्तरो मरइ । सवणे सावण-भासे अणसणएणं मरइ सुक्के ॥ ९ ॥  
सीयाळ् दंसणीओ जण-जणणि-पिओ दास-भूओ पियाणं, चाई जो पुत्तवंतो पर-विसय-सुही पंडिओ दीह-जीवी ।  
15 मणणे कोऊहलो जो पर-महिल-रओ लंछिओ गुज्झ-भागे, गेजेसुं जुत्त-चित्तो बहु-सयण-धणो काम-विंधमि जाओ ॥ 15  
वीसह-वरिसो चुक्को सत्तरि-वरिसो मरेज्ज सूलेणं । भइवयमि य मासे सयभिस-णक्खत्ते सणि-दियहे ॥ १० ॥  
दाया दिट्ठीएँ लोलो गय-तुरय-सणो थद्ध-दिट्ठी कयग्घो, आलस्सो अत्थ-भागी करयल-चवलो माण-विज्जाहि जुत्तो ।  
18 पुण्णो साल्हर-कुच्छी पर-जण-धणदो णिब्भओ णिच्च-कालं, कुंभे जाओ मणूसो अवि पित्ति-जणणी-विक्किणे सत्तिवंतो ॥ 18  
सो चुक्को वग्घाओ अट्टारसओ जिण्णु चुलसीति । रेवइ अस्सिणमासे आइच्च-दिणे जले जाइ ॥ ११ ॥  
सूरु गंभीर-चेट्टो अइपडु-वयणो सज्जणाणं पहाणो, पण्णा-बुद्धी-पहाणो चल-चवल-गई कोव-जुद्ध-प्पहाणो ।  
21 गव्वेणं जो पहाणो इयर-जणवयं सेवए णेय चाई, मीणे जाओ मणूसो भवइ सुह-करो बंधु-वग्गस्स णिच्चं ॥ १२ ॥ 21  
देव, एए गुणा थिरा, आउ-प्पमाणं पुण काल-भेएणं जं सुयं ति भणियं । तं तिण्णि पळाइं, दुवे पळे, एक पळं, पुव्व-कोडीओ,  
पुव्व-लक्खाइं, वास-कोडीओ, वास-लक्खाइं सहस्साइं सयाइं वा । णियय-कालाणुभावाओ जं जहा भणियाइं तं तहा  
24 भवंति । तओ देव, एरिसं एयं वंगाल-रिसी-णिहिट्टं । जइ रासी बलिओ रासी-सामी-गहो तहेव, सव्वं सव्वं । अह एए ण 24  
बलिया कूरगह-णिरिक्खया य होंति, ता किंचि सव्वं किंचि मिच्चं' ति ।

§ ५०) तओ भणियं राहणा 'एवमेयं ण एत्थ संदेहो' ति । 'ता वीसमसु संपयं' ति आइट्टं च राहणा संवच्छरस्स  
27 सत्त-सहस्सं रूवयाणं । समुट्ठिओ राया कय-मज्जणो उवविट्टो आवाणय-भूमी । सज्जिया से विविह-कुसुम-वण्ण-विरयणा 27  
आवाणय-भूमी, सज्जियाइं च अहिणव-कंदोद-रेणु-रंजियाइं महु-विसेसाइं, दिण्णाइं च कप्पूर-रेणु-परिसप्यंत-धवलाइं आसव-  
विसेसाइं, पिजंति अहिणव-जाई-कुसुम-सुरहि-परिमलायद्वियालि-रुयाराव-रुणरणेताओ णिब्भर-रसमुकंठियाओ सुराओ  
30 ति । पाऊण य जहिच्चं संलीणो भोयणत्थाणि-मंडवं । तत्थ जहामिरुइयं भोत्तूण भोयणं उवगओ अथाण-मंडवं ति । एवं 30

1 > J पुण for एस, P संवत्सरेण, J om. देव 2 > J कोइ, J भगवान् P भयव, P सुसीसाणं, P साहितेण अत्रेसिं, P  
वंगालं. 3 > P om एयं, P वंगाल एय जायगं मन्नह ति, J om. ति, P सिसं, J उदाहं. 4 > J om. ति, P संवत्सरेण 5 > P  
अत्थोणे, P फुडवयणवचो, J रओ for वओ, P सोग-, P जो सविज्जो. 6 > P भत्तिवंतो, P सुहिद-, P निच्चरंती 7 > P  
कुट्टीदीण, P वीसतिवरिसो, J सीतो P सीओ, J स for य, P अणुरायगाए, J गारा- 8 > J कूरोज्जो, P om. धर, J मानिअत्थो.  
9 > P पिय for परि, P मणुस्सो, P जुत्तो for पुत्तो, P विच्छिण 10 > J अट्टारपं, P जेट्टमि व सिवखेत्ते 11 > P  
धणो for धरो 12 > J छिड्ड (डु?) पातो, P पावो, P होंति जाओ धणुमि 13 > P -दियहे, J मरति, P सुक्को. 14 > P  
कुजणजणपिओ, J चाइत्तो पुत्तं, P परवसय 15 > P मळे कोऊहले, J कोतूहलो, P भावे for भागे J बहुजणमुधणो होइ  
मगरमि 1, P कामविधेमि 16 > P वीसति, P सत्तरिवासो, J णक्खत्त P तक्खत्ते, P दियहो 17 > J दिट्ठीय लोलो, P णसणो  
षड्ढदिट्ठी 18 > P धणओ, P मणुस्सो, J जणणो णिक्खवो सत्तवंतो. 19 > P धम्माओ for वग्घाओ, P रेवति, P दिण जले  
जाई. 20 > P सरी, J गंभीरकोट्टो, P अतिपढपवणो सेज्जं 21 > JP सेवते, P मणुस्सो, P सुहयरो 22 > P प्पते, J थिता  
for थिरा, P सत्तंति for सुय ति, P दुच्चे for दुवे, J दुवे पळं पुव्वं. 23 > P om. वामकोडीओ, J महस्सा सयाइं, P तं for वं.  
24 > P भवणं ति, P om. एयं वंगालरिसी, P रासिचलिओ रासीसानीसगहो, J तदेव P ता देव, P ते for एए. 25 > J  
कूरगह, P निरिक्खया, J om. य 26 > P तओ राहणा भणियं, P om. एवमेयं 27 > J सयसहस्सं, P निरयणी 28 > P  
om. च, J परिअप्यंत P धरप्यंत, P आसविसेसाइं पिच्चइ 29 > P कुमयसुरट्टिपरि, J om. रया P रुया, J सुयुहं, J  
णिम्मसंक्कठियाओ. 30 > P पाऊणयं, P अलीणो for सलीणो, J भोअणत्थाणमण्डवं ति एवं च P मंडवंमि.



1 च विविह-खज-पेज-द्राण-विष्णाण-परियणालाव-कहासुं अदृक्कतो सो दिव्यहो । एपुण चेय कमेणं सेस-दिवसा वि ताव जाव 1  
सपुण्णो वारमो दिव्यहो । तत्य राहणा सदाविया वास-महारिसि-समा महा-वभणा । यपूहूळण भणियं राहणा 'पुयस्स 1  
3 वालस्स किं णामं कीरट'त्ति । तेहिं भणियं 'जं चेय महाराहणो रोयइ'त्ति । भणियं राहणा 'जइ एवं ता णिसामेह 3  
दियाइणो ।

कुवलयमाला चद्रो ढोण्णि वि दिट्ठाइं जेण सुमिणम्मि । णामं पि होउ तम्हा कुवलयचंदो कुमारस्स ॥

6 जेण य सिरीपुं दिण्णो गुरु-साहस-तोसियापुं रहसेण । सिरिपुत्तो त्ति य तम्हा णामं विडयं पि से होउ ॥' 6

§ ५१) एवं च कय-णामधेवो पंच-धाइ-परिवृत्तो अणय-णरवइ-विलया-सहस्स-धवल-ल्योयण-माला-कुमुय-वण-संड-  
मुदड-मियकओ विय वड्ढिउं पयत्तो । अवि य ।

9 हत्याहत्थिं धेप्पइ पिजइ णयणेहिं वसइ हिययम्मि । अमयमइओ च्च वडिओ एसो णूण पयावइणा ॥ 9  
अह ललियक्खर-महुरं जं ज कुमारस्स णीड वयणाओ । सुकइ-भणियं व लोपु तं त चिय जाइ वित्थारं ॥ किं बहुणा,  
चंक्रमिइहिं तह पुलइइहिं हसिइहिं तस्स ललिइहिं । चरिइहिं राय-लोओ गयं पि काल ण लक्खेइ ॥  
12 अणुदियह-वड्डमाणो लायण्णोयर-समुद-णीसंदो । अट्ट-कलो च्च मियको अह जाओ अट्ट-वरिमो सो ॥ 12  
अह तिहिं-करणम्मि सुहे णक्खत्ते सुदरम्मि लगाम्मि । सिय-चंदण वासहरो लेहायरियस्स उवणीओ ॥  
जत्य ण दीसइ सुरो ण य चदो णेय परियणो सयलो । तम्मि पपुसम्मि कयं विज्जा-धरय कुमारस्स ॥  
15 लेहायरिय-सहाओ तम्मि कुमारो कलाण गहणट्ठा । वारस वरिसाइं ठिओ अदीसमाणो गुरुयणेण ॥ 15  
अह वारसम्मि वरिसे गहिय-कलो सयल-सत्य-णिम्माओ । उकंठियम्म पियणो णीहरिओ देव-धरयाओ ॥

तो कय-मज्जणोवयारो धोव-धवल-हंसगवभ-णियंसणो मिय-चंदण-चच्चिय-सगीरो सुपसन्थ-सुमण-माला-धरो णियय-वेस-सरिस-  
18 पसाहण-प्यसाहिय-गुरु-जण-मगालगो आगओ पियणो चलण-जुयल-समीव कुमारो । उयमपियऊण य गुरुय-मिणेह-णिडभ- 18  
रुक्कंठ-पूरमाण-हियय-भर-गरुडपुण विय कओ से राहणो पणामो । तओ राहणा वि असरिस-गेह-चिर-विरइ-वियभमाण-वाह-  
जल-णिडभर-णयण-जुवलपुणं पसारिय-डाहिण-वाहु-डडेण सलत्त 'उवज्जाय, किं अभिगओ कला-कलाओ कुमारेण ण व'  
21 त्ति । भणियं च उवज्जाएण 'देव, फुडं भणिमो, ण गहिओ कला-कलाओ कुमारेण' ति । तओ राहणा गुरु-वज्ज-पहार- 21  
णिइउहलिय-कुंभत्यलेण विय विसा-कुजरेण आउड्विय-थोर-दीहर-करेण भणियं 'कीम ण गहिओ' । उवज्जाएण भणियं  
'देव, मा विसायं गेणह, साहिमो जहा ण गहिओ' ।

24 § ५२) 'आसि किर एत्य पढम-पत्थिवो कय-धम्मामहम्म-ववत्थायारो भयव पयावइं । तेण किर भरह-णरिंठ-प्पसुहन्स 24  
णियय-पुत्त-सयस्स साहिओ एस कला-कलाओ । तेहिं वि महा-मइंहिं गहिओ । तओ तेहि वि अण्णोण-णियय-पुत्त-णत्तुयाण ।  
एव च देव, कमेण णरणाह-सहस्सेसु रायपुत्त-सपुसु राय-कुमारिया-णिवहेसु य महामइंसु संचरमाणो पारंपरेण एम कला-  
27 कलाओ एयं कालंतरमुवागओ । तओ अणुदियह हाणीए कालस्स ण कोइ तारिसो कला-कलाव-गहण-धारण-समत्थो एत्य 27  
पुइइ-मंडले अत्थि त्ति । तओ देव, असरणेण पलीण-कुल-वंम-णाहेण दुस्सील-आहिला-सत्येण विय कला-कलावेणं चैव संपय  
सयवरं गहिओ कुमारो त्ति । तेण णाह, भणिमो ण गहिओ कुमारेण कला-कलाओ' त्ति । तओ सविसेम-जाय-पहरिसेण  
30 गहिओ कुमारो राहणा, उविओ य उच्छगे, उवउदो य णेह-णिडभर, जुविओ उत्तिमगे, पुच्छिओ य 'पुत्त कुमार, कुसल 30  
तुइ सरीरस्स' । तओ मविणय-पणउत्तमंणेण 'देवस्स चलण-उसणेणं मपयं कुसल' ति सलत्तं कुमारेण ति । भणिय च  
राहणा 'उवज्जाय, काओ पुण कलाओ गहियाओ कुमारेण' ति । उवज्जाएण भणियं 'देव, णिसुणिजंतु । तं जहा ।

1 > P दिवसो एतेण चैव, P सेसदियहा 2 > P महारिसि, P महावतणा, P भणिया 3 > P चैव स महा°, J एय for एव  
5 > P कुवलयमालाचद्रो कुमारस्स for the entire verse कुवलयमाला etc., J नाममि 6 > P जेणे य सिरीय, P रहसेणा,  
सिरिपुत्तो वि य, P वीय for विह्य 7 > P किय for कय, P धाइ, P आणेइरवई 9 > P हत्याहत्याहत्थ, P अमइम°, P पयावइणो  
10 > P वयणीओ, P च for व, P वित्थरमुवेइ for जाइ वित्थार 11 > J चक्रमिइहिं P वक्कमि° 12 > P वट्टमाणो  
लायण्णोयर 13 > J वासधगे 14 > परियणे सयणे, P विज्जाहरइं 15 > P वामाइ for वरिमाइ, J वडिओ, P असीसमाणो  
16 > P वारसमे, P कला 17 > P धोयधवल, P गन्मिणि°, J सुपसन्थो, P समणमालाहरो, J णियपवेम, P मरियम- 18 > J  
पसाहणममाहियगुरुणमग्गा°, J om जुयल, J कुमारो त्ति उवम°, P om य, P गुरुय, J णिचमकठ P निचमकठ 19 >  
P हिययभगएण त्ति य 20 > P सलत्तन्, P गहिओ for अभिगओ, J कुमारेण त्ति य । 21 > J कलाओ, P पहरनिइलियकुम°  
22 > J °रेण विय आउड्विय, P om थोर, P दीह for दीहर, P कीस न कहिओ 23 > J जइ for जहा, J गहिआओ 24 > J  
पत्थिवो P पढमत्थिवो, P धम्म for हम्म, J °हम्मधवत्थारो, P पसुइस्स निययस्स माहिओ 25 > P तेहिं मिच्छेहिमिमहामइगहिओ,  
P तेहि मि अत्राणनियय 26 > P नरनाह ससोसुरायउत्त, P महामइंसु, J परपरेण, J एक्क for एम 27 > J एवं for एय  
J °मुवगओ, P न कोइ, P धारणा- 28 > P दुसील, P कलावे य सपय 30 > J om. उवरुदो य 31 > J 'पणत्तुत्त',  
P मविणसंपणामिओ उत्तिमगे, P कुमारेण त्ति 32 > P एण for पुण, J णिसुणेज तुम for णिसुणिजन्तु

- 1 आलेखं णट्टं जोहसं च गणियं गुणा य रयणाणं । वागरणं वेय-सुई गंधव्वं गंध-जुत्ती य ॥  
संखं जोगो वारिस-गुणा य होरा य हेउ-सत्थं च । छंदं वित्ति-णिरुत्तं सुमिणय-सत्थं सउण-जाणं ॥
- 3 आउजाणं तुरयाणं लक्खणं लक्खणं च हत्थीणं । वत्थुं वट्टा खेहुं गुहागयं इंदजालं च ॥  
दंत-कयं तंब-कयं लेप्पय-कम्माइं चेत्य विणिओगो । कव्वं पत्त-च्छेज्जं फुल्ल-विही अल्ल-कम्मं च ॥
- 0 धाउच्चाओ भक्खाहया य तंताइं पुप्फ-सयडी य । भक्खर-समय-णिघंटो रामायण-भारहाइं च ॥  
कालायस-कम्मं सेक्क-णिण्णओ तह सुवण्ण-कम्मं च । चित्त-कला-जुत्तीओ जूयं जंत-प्पओगो य ॥
- 0 धाणिजं मालाहत्तणं च खारो य वत्थ-कम्मं च । आलंकारिय-कम्मं उयणिसयं पण्णयर-तंतं ॥  
सव्वे णाडय-जोगा क्हा-णिब्रंधं फुडं धणुव्वेओ । देसीओ सुव-सत्थं आरुहयं लोण-वत्ता य ॥
- 0 ओसोवणि तालुग्घाडणी य भायाओ मूल-कम्मं च । लावय-कुक्कुड-जुइं सयणासण-संविहाणाइं ॥  
काले दाणं दक्खिण्णया य मउयत्तणं महुरया य । बाहत्तरी कलाओ वसंति समयं कुमारम्मि ॥

§ ५३) तमो भणियं राहणा 'उवज्जाय, एताणं कलाणं मज्जे कयरा पुण कला विसेसओ रायउत्तेण गहिया परिणया

12 वा, कहिं वा अहिओ अब्भासो' ति । भणियं च उवज्जाएण 'देव,

जं जं दावेइ कलं हेलाएँ कह वि मंथरं राय-सुओ । णजइ तहिं तहिं चिय अहिययरं एस णिम्माओ ॥ तह वि

सोहग्ग-पढम-इंधं सयल-कला-कामिणीण मण-दइयं । सुपुरिस-सहाव-सुलहं दक्खिण्णं सिक्खियं पढमं ॥ तमो देव,

15 णियय-कुल-माण-पिसुणं गुरु-कुल-वासस्स पायडं कज्जं । लच्छीएँ महावासं दुइयं विणयं अदुइयं से ॥

जाणइ काले दाउं जाणइ महुरत्तणं मउयया य । एक्कं णवरि ण-याणइ वेसं पि हु अप्पियं भणिउं ॥

सव्व-कला-पत्तट्टे एक्को दोसो णरिंद-कुमारम्मि । पणइयण-अमित्ताण य दाउं पि ण-याणए षट्ठिं ॥

18 ताव य राहणा 'सुंदरं सुंदरं' ति भणमाणेण जलहर-पलय-काल-वियलंत-कुवलय-दल-ललिय-लायण्णा वियारिया रायउत्त-18

देहम्मि दिट्ठी । दिट्ठो य अणवरय-वेणु-वायणोग्ग-लगंत-लंछणा-लंछिओ महासेल-सिहरइंतो विय तुंगो वामो अंस-सिहरो ति ।

तहा अणुदियह-वाहु-जुइ-जोगा समय-भुया-समप्पोडण-किण-कठिणियं दिट्ठं लच्छीय मंदिरं पिव वच्छयलं, तहा अणवरय-

21 धणुजंत-कड्डणा-कठिण-गुण-घाय-ककसं वामं भुया-फलहं, दाहिणं पि विविह-असिधेणु-अविसेस-बंधण-जोग्गालक्खिज्जमाण-21

किणंकियं पेच्छइ ति । तहा अणवरय-सुरय-ताडण-तरलियाओ दीह-कठिणाओ पुलएइ अंगुलीओ ति । अणेय-णट्ट-करणंगहार-

चलण-कोमलाइं सेसयाइं पि से पलोएइ अंगयाइं । सिंगार-वीर-वीहच्छ-करुण-हास-रस-सूययाइं णयणाणि वि से

24 जिज्जाइयाइं, अणेय-सत्थय-वित्थर-हेउदाहरण-जुत्ति-सावट्टंभं वयणयं ति । अवि य ।

दीसंति कला कोसल-जोग्गा संजणिय-लंछणं पयडं । पेच्छइ सुणाल-मउयं रायगं अह कुमारस्स ॥

§ ५४) दट्टण य णेह-णिम्भरं च भणियं राहणा 'कुमार पुत्त, तुह चिर-विओग-दुब्बलंगी जणणी तुह दंसणासा-

27 विमुज्जंत-संधारिय-हियया ददं संतप्पइ । ता पेच्छसु तं गंतूणं' ति । एवं च भणिय-मेत्ते राहणा 'जहाणवेसि' ति भणमाणो 27

समुट्ठिओ राहणो उच्छंणाओ, पयट्टो जणणीए भवणं । ताव य पहावियाओ बबबर-वावण-सुज्जा-वडभियाओ देवीए

वद्धावियाओ ति । ताव य कमेण संपत्तो जणणीए भवणं । दिट्ठा य णेण जणणी । तीए वि चिर-विओग-दंसणाणंद-बाह-भर-

30 प्पुयच्छीए दिट्ठो । संमुइं उयसप्पिउण य णिवडिओ से राय-तणओ जणणीए चलण-जुयलए । तीए वि अवयासिओ सुह-30

सिणेह-णिम्भर-हिययाए, परिउंभिओ उत्तमंगे, कयाइं सेस-कोउयाइं । उयारिउण य पलोट्ठिओ से पाय-मूले दहि-फल-

1 > P चूट्ट for णट्टं, P om च, P वायरणं वेयसुती 2 > P यंखजोगो वरिसणगुणा, P वित्ती, P समणसत्थं. 3 > J

आउजाणं तुरअलक्खण, P वत्थुवट्टाखेहु 4 > J दंतजालं दंतकयं P दंतकम्मं तंबकम्म, J कय लेप्पयं लेप्पयकं, J च्छेज्ज अस्स (हा)

कम्मं च फुल्लविहिं धाउच्चायं, P फुल्लविही 5 > P अक्खाइयाइं तं, P पुप्फसडी, J पय for समय. 6 > P सुवन्नकरणं च, J पओगो

P प्पओगा. 7 > J अल्ल for वत्थ, P कारियं, J पण्ण for पण्णयर. 8 > J णागर for णाडय, P नाडयजोगो कशानिउदं,

J लोअवत्ता P लोणजुत्ता 9 > J ओसोवणी तालुग्घाडणी, P तालुग्घाडणा य पासाओ, P कुक्कुड 10 > P बाहत्तरी 11 > P

om. एताण, J om. पुण, P रायपुत्तेण 12 > P च for वा, P अब्भासो 13 > P हेलाय विकह व, P नेज्जइ. 14 > P तदो

for तओ 15 > P नियकुलकम्माण, P लच्छीय, J सहावास, J अइइइ. 16 > P महत्तरत्तण समठं, P नवर न जाणइ, P

वेसिं पि, P अप्पियं. 17 > J पत्तट्टो, J पणिइयण P पणइ पणमित्ताण, P दाउं चिय नयण एएहिं. 18 > P om. ति, J लायण्ण,

19 > P वायणलगंतलंछण, P वासो for वामो. 20 > J जुज्जजोगो, P समउया समप्पोडणकेण, J मंदिरयं, J वच्छयलं.

21 > P कड्डिणा, P वघायं, J वाममुआदलिह, P सुयप्फलहं, J असिधेणु अविसेसं, P पवेस for अविसेम 22 > J तदा for

तहा, P मुखताडण, J वल्लिअड for तरलियाओ, P दीहर for दीह, J कठिणीओ, P पुलएइ, P नट्टकरणमहावहावरलक्खण 23 > P

य. 25 > P -सुरयं राया अगं कुमा. 26 > P नेय for णेह, J णिम्भर भणियं च, P विरइविउलियं for चिरविओग 27 > P

एवं भणियमेत्तो 28 > P ताविय, P वामणयसुज्जा. 29 > P विओय. 30 > P मरहपणुयच्छीए, J पप्पुयच्छीए, P मसुरं,

P om. य, P वियवयासिया, J अइ for सुह 31 > P परिउंभिओ उत्तमंगे, J से for सेम, P om. य, J कयउउय

1 अक्खय-णियरो । तओ कयासेस-मंगलो परिसेस-माइ-जणस्स जहारिहोवयार-कय-विणय-पणामो णिवेसिओ जणणीए णिय- 1  
उच्छंगे । भणिओ य 'पुत्त, दढ-वज्ज-सिल्लिका-णिम्मविय पिव तुह हिययं सुपुरिस-सहाव-सरिसं, ता दीहाउओ होहि' । 'माऊण 1  
3 सईण रिसीण गाईण देवाणं बभणण च पभावेणं पिउणो य अणुहरसु' त्ति भणिऊण अहिणंदिओ माइ-जणेणं तु । 3

§ ५५) ताव य समागओ पडिहारो णरवइणो सयासाओ । आगंतूण य पायवडणुट्टिणं विण्णत्तं महा-पडिहारेण 1  
'कुमार, तुम राया आणवेइ जहा किर संगाम-समय-धावण-वहण-खलण-चलण-पडिहत्य-जोग्गाणिमित्त थोवं-थोवेसुं चैय 1  
6 दियहेसु णाणा-तुरगमा आवाहिज्जति, ता कुमारो वि आगच्छउ, जेण सम चैव वाहियालीए णिग्गच्छामो' त्ति । तओ 'जं 6  
आणवेइ ताओ' त्ति भणमाणेण पेसिया कुवलय-दल-दीहरा दिट्ठी जणणीए वयण-कमलम्मि । तओ भणियं च से जणणीए ।  
'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेइ तहा कीरउ' त्ति भणमाणीए विसज्जिओ, उवागओ राइणो सयासं । भणियं च राइणा ।  
9 'भो भो महासवइ, उयट्टवेइ तुरगे । तत्थ गरुलवाहण देसु महिंदकुमारहो, रायहंसं समप्पेइ वोप्परायहो, रायसुयं 9  
सूरसेणहो, ससं पुण देवरायहो, भगुर रणसाहसहो, हूण सीलाइच्चहो, चचल चारुदत्तहो, चवलं बलिरायहो, पवण च  
भीमहो, सेसे सेसाण उवट्टवेइ तुरए रायउत्ताणं, महं पि पवणावत्तं तुरगम देसु त्ति । अवि य  
12 कणयमय-वडिय-खलण रयण-विणिम्मविय-चारु-पल्लाण । तुरिय तुरगमं देइ कुमारस्स उयहिकल्लोल ॥' 12  
ताव य आएसणंतर उवट्टविओ कुमारस्स तुरगमो । जो व केरिसओ । वाउ-सरिसओ, गमणेक्क-टिण्ण-माणसो । मणु-  
जइसओ, खण-संपत्त-दूर-देसंतरो । जुवइ-सहाउ-जइसओ, अइणिरइ-चंचलो । खल-संगइ-जइसओ, अत्थिरो । चोरु-जइसओ,  
15 णिच्चुव्विगो त्ति । अवि य खलु-णरिद-जइसेण णिच्चुत्थइएण कण्ण-जुवल्लएणं, पिप्पल-किसलय-समेण चलच्चलंतेण सिर- 15  
चमरेण, महासुरुक्खु-जइसियए खमखमंतियए गीवए, परिहव-कुविय-महासुणि-जइसएण फुरुफुरतेण णासउडेण, महादहु-  
जइसएण गमीरावत्त-मडिएण उरत्थलेण, विमणि-मगु-जइसएण माणप्पमाण-जुत्तेण मुहेण सुपुरिस-जुद्धि-जइसियए  
18 थिर-विसालए पट्टियए, वेस-महिल-पेम्म-समेण अणवट्टिण चलण-चउक्केणं । अवि य 18  
जलहि-तरा व्व चलं विज्जुलया-विलिसियं व दुल्लक्ख । गज्जिय-हेसा-रावं अह तुरयं पेच्छए पुरओ ॥

§ ५६) दट्टण थ तुरगमं भणिय राइणा 'कुमार, किं तए णज्जए तुरय-लक्खण' । ताहे भणिय कुमारेण 'गुरु-चलण- 1  
21 सुस्सूसा-फलं किंचिं णज्जइ' त्ति । भणिय च राइणा 'कइवय तुरयाण जाईओ त्ति, किं वा माण, किं वा लक्खण, अह 21  
अवलक्खण' त्ति । कुमारेण भणियं 'देव, णिसुणेसु । तुरयाणं ताव अट्टारस जाईओ । तं जहा । माला हायणा कलया  
खसा कक्कमा टंका टकणा सारीरा सहजाणा हूणा सैंधवा चित्तचला चंचला पारा पारावया हंसा हंसगमणा वत्थव्वय त्ति  
24 एत्तियाओ चैव जाईओ । एयाण जं पुण वोलाहा कयाहा सेराहाइणो त वण्ण-लच्छण-विसेसेण भण्णइ । अवि य । 24  
आसस्स पुण पमाण पुरिसगुल-णिन्मिय तु जं भणियं । उक्किट्टवयस्स पुरा रिसीहिं किर लक्खणण्णूहिं ॥  
वत्तीस अंगुलाइ मुह णिडाल तु होइ तेरसयं । तस्स सिर केसं तो य होइ अट्टट्ट विच्छिण्ण ॥  
27 चउवीस अंगुलाइ उरो ह्यस्स भणिओ पमाणेणं । असीति से उस्सेहो परिहं पुण तिउणिय वेंति ॥ तओ देव, 27  
एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सव्व-जाईया । ते राईणं रजं करेंति लाहं तु ह्यरस्स ॥ अण्णं च ।  
रथे उवरंधम्मि थ आवत्ता णूण होंति चत्तारि । दो य पमाण-णिडाले उरे सिरे होंति दो दो य ॥  
30 दस णियमेणं एए तुरयाण देव होंति आवत्ता । एत्तो ऊणहिया वा सुहासुह-करा विणिद्धिटा ॥ 30

1 > J परिसमागयस्स जगस्स जहारिहोवयारा, P जणसीए उत्संगे 2 > J वज्जले for वज्ज, P हियवय सुपुरिस, J दीहाउय  
होइ 3 > P सतीण, J माइजणेण । ताव 4 > P 'रो त्ति नरं, J णरवइसया' 5 > P om तुम, P महाराया for राया,  
P om वहण, J om चलण, P चचलण परिहत्य, P थोयथोएसु, विशय for चैय 6 > P वाहयालीए, P तहाओ जहाणवेइ  
7 > J 'वेत्ति ताओ त्ति, J णिवेसिया for पेसिया, P om दल 8 > J जहाणवेइ तहा, J उवगओ, P राइणा सगास 9 > P  
अवट्टवेइ तुरगमे, P रायइसु, J om रायसुय 10 > J सेस for सस, P रणमाइसहूण, J सिला, P चारुयत्तहो, P om च.  
11 > J सेसो सेसाण उवट्टवेइ, P पवणवेत्तु 12 > P खलण, P 'गम तु देय कुमारस्स य उअहि' 13 > J उवट्टिओ, P जो  
ताव सो केरिसो वाओ जइसओ 14 > J सहाउ, P om अइ, P सगो for सगइ, P अथिरचोरो 15 > P om अवि य,  
J जइसेण P जइसएण, P निच्चत्थइएण, P जुवल्लं, P किसलजइसएण सीसेण चलचलं, P om सिरचमरेण 16 > P  
महासुरुक्खुखुजइसियाए खमखमतीए गीवाए, J जइसिए, P पुरुपुरतेण, P महइहो 17 > P विवणि, P जुत्तेण अणेण खु  
पुरिस, P जइसियाए थिरविलासीए पट्टीए 18 > P महिला, P पेम for पेम्म, P चउक्केण 19 > P च for व्व, P हसाराव,  
J तुरिओ for पुरओ 20 > P नज्जइ किंचिं तुरगलक्खण । तओ भणिय, J om चलण 21 > P सुस्सूसाराहणफल, P कइ  
for कइवय, P om त्ति, P om वा before लक्खणं, P om अह 22 > P च त्ति for ति, P सुणेसु, J तुरियाण,  
P अट्टारसु, J माला for माला, P माइला कलया for हायणा etc 23 > P साहजाणा, P सैंधवा, P चित्ता, P पैरा पैरावत्ता  
24 > P om एत्ति, P वत्तलंघण, J भणति for भण्णइ 25 > J सुण for पुण, P 'गुणनिम्मय, P कर for किर 26 > P  
तेरसया, P स for य 27 > P ऊरो, P य for प, P असीति, J om से, P om तओ देव 28 > J एयप्पमाण, P जाईओ,  
29 > P व for य, J has a marginal note प्रपान उपरितनोष्ठ possibly for the word आवत्ता, J उरं 30 > J एत्ते,  
P आवत्तो, J अहिया वा P ऊणहिया य वसुहा

- 1 षोडशोऽपि लोयणाग य मज्जे घोणाएँ जस्स भावत्तो । रुसइ अवस्स सामी अकारणे बंधु-वगो य ॥  
 भुय-गण-मज्जायारे भावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सामी घोडय-पालो य तस्स भत्तं ण अजेइ ॥
- 2 णाराएँ पास-लग्गो भावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सो सामियं च णिहणइ खलिय-पट्टिण ण संदेहो ॥  
 जाणूसु जस्स दोसु वि भावत्ता दो फुडा तुरंगस्स । खलिय-पट्टिण णिहणइ सो भत्तारं ण-सुहम्मि ॥  
 कण्णोसु जस्स दोसु वि सिप्पीओ होति तह णुलोमाओ । सो सामियस्स महिलं दूमेइ ण एत्थ संदेहो ॥
- 3 ता देव, एते असुह लक्खणा, संपयं सुह-लक्खणेमे निसामेहि त्ति ।  
 संघाडपसु जइ तिण्णिणसु द्विया रोमया णिडालम्मि । जण्णेहिं तस्स पहु दक्खिणेहिं णिच्चं जयइ सामी ॥  
 उवरंघाणं उवरिं भावत्तो जस्स होइ तुरयस्स । वड्ढेइ कोट्टयारं धणं च पड्ढणो ण संदेहो ॥
- 4 बाहूसु जस्स दोसु वि भावत्ता दो फुडा तुरंगस्स । मंडेइ सामियं भूसणेहिं सो मेहली तुरओ ॥'

§ ५७) जाव य एयं एत्तियं आस-लक्खणं उदाहरइ कुमारो कुवलयचंदो ताव राहणा भणियं । 'कुमार, पुणो वि सत्या सुणिहामो' त्ति भणमाणो आरूढो पवणावत्ते तुरंगमे राया । कुमारो वि तम्मि चैव समुदकल्लोले वलगो तुरंगमे ।  
 12 सेसा वि महा-सामंता केइत्थ तुरंगमेसुं, केइत्थ रहवरेसुं, केइत्थ गयवरेसुं, के एत्थ वेसरेसुं, अण्णे करहेसुं, अवरे णरेसुं, 12  
 अवरे जेपाणेसुं, अवरे जंगएसुं, अण्णे झोलियासुं त्ति । अवि य ।

हय-गय-रह-जोहेहिं य बहु-जाण-सहस्स-वाहणाहणं । रायंगणं विरायइ रुंदं पि हु मडह-संचारं ॥

- 16 तओ उहंड-पुंडरीय-सोहिओ चलंत-सिय-चारु-चामरागय-इंस-सणाहो हर-हार-संख-फेण-धवल-णियंसण-सलिल-समोत्थओ 16  
 सरय-समय-सरवरो विय पयट्टो राया गंतुं । तस्स मग्गाणुलगो कुमार-कुवलयचंदो वि । तम्मि पयट्टे सेसं पि उच्चाइयं बलं ।  
 तओ णिहय-पय-णिकखेव-चमढणा-भीया णराणं णरा, खराणं खरा, वेसराणं वेसरा, तुरयाणं तुरया, करहाणं करहा, रहवराणं
- 18 रहवरा, कुंजराणं कुंजरा वि पहाविया भीया णियय-हत्थारोहाणं त्ति । ताव थ केरिसं च तं दीसिउं पयत्तं बलं । अवि य । 18

तुंग-महागय-सेलं चलमाण-महातुरंग-पवणिहं । णजइ उप्पायम्मि व पुढवीए मंडलं चलियं ॥

तओ फुरंत-खगगयं चलंत-कुंजरिल्लयं । सुतुंग-चारु-चिंधयं फुडं तुरंगमिल्लयं ॥

- 21 सुसेय-छत्त-संकुलं खलंत-संदणिल्लयं । तुडंत-हार-कंठयं पहावियं त्ति तं बलं ॥ 21  
 ओसरह देह पंथं अह रे कह णिट्टुरो सि मा तूर । कुप्पिहिइ मज्झ राया देह पसाएण मगं मे ॥  
 जा-जाहि तूर पसरसु पयट्ट वच्चाहि अह करी पत्तो । उच्छलिय-कलयल-रवं मग्गालगं बलं चलियं ॥
- 24 तओ एवं च रह-गय-णर-तुरय-सहस्स-संकुलं कमेण पत्तो राय-मगं । ताव थ महाणई-पूरो विय उत्थरिउं पयत्तो महा-राय- 24  
 मग्ग-रच्छाओ त्ति ।

अह णयरीएँ कलयलो परियट्टइ जिय समुद-णिग्घोसो । कुवलयचंद-कुमारे चंदम्मि व णीहरंतम्मि ॥

- 27 णीहरइ किर कुमारो जो जत्तो सुणइ केवलं वयणं । सो तत्तो च्चिय धावइ जहुज्जयं गो-गहे व्व जणो ॥ 27  
 अइकोउय-रहस-भरंत-हियय-परियलिय-लज्ज-भय-पसरो । अह धाइ दंसण-मणो णायर-कुल-बालिया-सत्थो ॥  
 ताव थ कुमारो संपत्तो धवलट्टालय-सय-सोहियं णयरी-मज्झदेसं रायंगणाओ त्ति ।

- 30 § ५८) ताव थ को बुत्ततो णायरिया-जणस्स वट्टिउं पयत्तो । 30  
 एक्का णियंब-गरुई गंतुं ण चएइ दार-देसम्मि । सहियायणस्स रुस्सइ पढमं चिय दार-पत्तस्स ॥  
 अण्णा धावंति च्चिय गरुय-थणाहार-भोय-सुडियंगी । णीससइ च्चिय णवरं पिययम-गुरु-विरह-तविय व्व ॥

1 > J सुभावत्ता P होइ भावत्तो !, P आकारणे 2 > P भुययाणे मज्जायाए, P 'त्तो जस्स होइ तु', P बालो for पालो, J सज्जेइ P अज्जेति. 3 > J सासाय P णाहीए पासग्गो, P 'त्तो जस्स होइ तु', P तो for सो, P om. च, P निहणए. 4 > J चट्टिण. 5 > P वि सिप्पिओ होति आणुलो, P दूसेइ 6 > P सुहलक्खणा मेति निसामेइ त्ति 7 > P सिघाड, J द्विता, P ता जाण for जण्णेहिं, J बहु for पहु, P जयति 8 > J उवरगाणं, P भावत्ता, P होति, P वड्ढेइ कोट्टायार, P पड्ढणो 9 > P यस्म, J दुडा for फुडा, P मंडेहिं, P भूसणाहिं, J तुरगो 10 > P एय च एत्तिय, P उदाहरइ कुमार, P पुणो वीमत्था. 11 > P समारूढो for आरूढो, P य for चैव 12 > P om. केइत्थ रहवरेसु, J om. केइत्थ गयवरेसु के एत्थ वेसरेसुं. 13 > P झोलियासु त्ति 14 > P वारुणाइन्न, P वियारइ 15 > P पुंडरिय, P चामररायहस, J समत्थओ. 16 > J तम्मि पयट्टो, P सेसं पसेसं पि 17 > P निद्धय, P om. णराणं, J वेगसराण वेगसरा 18 > P य for भीया णियय, P इरिय for इत्था. 19 > P उप्पाय पिव पुहईए 20 > P खगगयं, J om चलंतकुंजरिल्लय 21 > J सदणिल्लयं P सं gap, J तुट्टा P उट्टंत, J पहावियं तं बल त्ति P चलति for वलंति 22 > P कुप्पिही 23 > J रवो for रवं, J तओ (on the margin) for वट्टे 24 > P संपत्तं for पत्तो, J महाणइपहो 25 > P मग्गच्छाउ 26 > P कुमारो 27 > P बुत्तो for जत्तो 28 > P रहमरंति, J इय for अह 29 > P सयलसाहिच्चं नयरिमग्गुदेसं 30 > P वट्टिउपयट्टो 31 > P न एक्का नियंमग्गयी तुपं न, P रुसइ. 32 > P धावंत, P थणाभायभोय.

- 1 एका लज्जाप्र धर आणिज्जह कोउएण दारद्ध । अंदोलह च्व बाला गयागएहिं जण-समखं ॥ 1  
अण्णा गुरूण पुरओ हियएणं चय गिगया बाहिं । लेप्पमहय च्व जाया भणिया वि ण जंपए किंचि ॥
- 3 गुरुरयण-वचण-तुरियं रच्छा-सुह-पुलयणे य तल्लिच्छ । एकाए णयण-जुयल सुत्ताइदं व धोलेह ॥ 3  
गमण-रय-सुडिय-हारा थणवट्ट-लुढत-मोत्तिय-पयारा । अण्णा विमुंचमाणी धावह लायण-विंदु च्व ॥  
पसरिय-गईए गलिया चलणालगा रसंत-मणि-रसणा । मा मा अगणिय-लजे कीय वि सहिय च्व वारेह ॥
- 6 वियलिय-कडि-सुत्तय-चलण-देस-परिखलिय-गमण-मगिहा । करिणि च्व सहह अण्णा कणय-महा-संकलं-दुइया ॥ 6  
इय जा तूरति दढ णायर-कुल-वालियाओ हियएणं । ता णयरि-राय-मगं सपत्तो कुवलयमियंको ॥  
ताव य का वि रच्छा-सुहम्मि सठिया, का वि दार-देसद्धए, का वि गवक्खएसु, अण्णा मालएसुं, अण्णा चोपालएसुं,  
9 अण्णा रायगणेषु, अण्णा णिज्जहएसुं, अण्णा वेइयासुं, अण्णा कओलवालीसुं, अण्णा हम्मिय-तलेसुं, अण्णा भवण-सिहरेसु, 9  
अण्णा घयगोसुं ति । अवि य ।

जत्तो पसरह दिट्ठी गज्जह पुर-सुदरीण वयणेहिं । उप्पाउग्गम-ससि-विंव-संकुलं दीसए भुयणं ॥

- 12 तओ के उण आलावा सुविउं पयत्ता । 'हला हला, किं णोल्लेसि इमेण दिसा-करि-कुभ-विचभमेण मम पओहर-भारेण' । 12  
'सहि, दे आमंच सुपट्टि-देसम्मि तडुविय-सिहडि-कलाव-सच्छहं केस-भार' । 'अह सुत्तियए, मणयं वालेसु कणय-कवाड-  
संपुड-वियड णियवयड । पसीय दे ता अंतरं, किं तुह चय एकीए कोउयं' । 'अह अहव्वे, उक्खुडियाए हारलयाए दारुणे  
16 मा मोडियाइं कणय-तल-वत्ताइं' । 'अह वज्ज मे मुसुमूरिय कुंडल' । 'इ अवडिय-णिग्घणे, जियउ कुमारो । अलज्जिए, 16  
संजमेसु थण-उत्तरिज्ज' ति ।

अह सो एसो च्चिय पुरओ मग्गेण होइ सो च्चय । कथ व ण एस पत्तो णूणं एसो च्चिय कुमारो ॥

- 18 इय जा महिला-लोओ जंपह अवरोप्पर तु तुरमाणो । ता सिरिदत्तो पत्तो जुवईण दिट्ठि-देसम्मि ॥ ताव य, 18  
एक्कम्मि अणेयाओ सलोणए तम्मि दीह-धवलओ । सरियाओ सायरम्मि व समयं पडियाओ दिट्ठीओ ॥

§ ५९) तओ केरिसाहिं उण दिट्ठीहिं पुलइओ कुमार-कुवलयचदो जुवईयणेणं ।

- 21 णिइय-सुरय-समागम-राई-परिजग्गणा-किलताहिं । वियसत-पाडलापाडलाहिं काणं पि सवियार ॥ 21  
दइयाणुराय-पसरिय-गइसासव-मएण मत्ताहि । रत्तुप्पल-दल-रत्ताहिं पुलइओ काण वि विलक्ख ॥  
पिययम-विट्ठिण-वासय-खडण-सताव-गलिय-वाहाहिं । पउम-दलायविर-तविराहिं काण पि दीणाहिं ॥
- 24 साहीण-दइय-सगम-वियार-विगलत-सामलगीहिं । णोलुप्पल-मालाहिं व ललिय विलयाण काण पि ॥ 24  
इंसि-पसरत-कोउय-मयण-रसासाय-धुम्ममाणाहिं । णव-वियसिय-चदुज्जय-दल-मालाहिं व काणं पि ॥  
रहस-वलतुव्वेहिर-धवल-विलोलाहिं पम्हलिहाहिं । णव-वियसिय-कुंड-समप्पमाहिं सामाण जुवईण ॥
- 27 दिह्लिडिलियाण पुणो पसरियमासण-कोउहलाहिं । कसणोयय-तारय-सच्छहाहिं ताविच्छ-सरिसाहिं ॥ 27  
एवं च णाणा-विह-वण्ण-कुसुम-विसेस-विणिम्मविय-मालावलीहिं व भगव अइट्टउव्वो विव विरूथ-विरूविय-रूवो ओमालिओ  
दिट्ठि-मालाहिं कुमारो । अवि य ।

- 30 णोलुप्पल-मालियाहिं कमल-दलेहिं सणेहयं वियसिय-सिय-कुसुमएहिं अहिणव-पाडल-सोहयं । 30  
रत्तुप्पल-णिवहएहिं तह कुद-कुसुम-सोहयं अच्चियओ णयणएहिं कुसुमेहिं व सो मयणओ ॥

अंगम्मि सो पएसो णत्थि कुमारस्स वाल-मेत्तो वि । सुमया-धणु-प्पसुक्का णयण-सरा जम्मि णो पडिया ॥

- 33 तओ कुमार-कुवलयचद उहिसिय किं भाणिउं पयत्तो जुवइ-जणो । एकाए भणिय 'हला हला, रूवेण णज्जह अणगो कुमारो । 33  
अण्णाए भणिय 'मा विलव मुद्धे,

1) P लज्जाइ, P दारत for दारद्ध 2) P गुरुरयण, P च्व 3) P पुलयणेण तच्छिच्छा, P नमणजल 4) J (ग)  
मणिरयण, P रइ for रय, J 'वट्ट-', P लुठत, P लावण 6) P विहडिय, P 'खलियतुरियगमणिहा, P करणि, P कणयमय संखल  
8) P मुह सठिया, P दारमदेसद्धतएसु, P आलएसु 9) P रायासणेषु, P कओलवासीसु, P अमियपलेसु for हम्मियं, P om  
अण्णा before भवण- 10) P घयगएसु ति 11) J सुर for पुर, P दीसइ भुवण 12) P om तओ, J विचभवेण,  
P om मम 13) J देयासु च, P पट्टदेसम्मि, P सुथिए, P कवाडसपुड नियवयड 14) P तादे for दे ता, P णय for चय,  
P उक्खुडिया हारलया दारुणो मोडियाइ कणयवत्ताइ 15) P वज्जा मे, P हा हा यवटिया 16) J संजमसु थणुत्तरिज्जय ति  
17) P चय for च्चय 18) P om तु, P तुरयमाणो, J जुवईयण 19) P धवलो 20) J पुण पुलइओ दिट्ठीहिं,  
J 'यणेण । अवि य । 21) P परिजग्गणा किलतीहिं, J कोव for काण 22) P मयण for मएण, J कोवि व for काण वि  
23) P विहत्तं, J गडण, J 'खलियवासाहिं, J काहिं for काण 24) P -विलयतसामलत्ताहिं, J विलयाहिं काहिं पि । 25) P  
वियलियचदुज्जल, J काहिं for काण 26) P पम्हलीलाहिं, J समप्पमाहिं 27) J दिह्लिडियाण, P पसरियमासतु  
कोवयहिहाहिं, P कसिणोअइतरेय, P तापिच्छ 28) P अदिट्टपुव्वो, P विरूववियरूवो 30) J णिलुप्पलमालीआहिं, P विहसिय,  
P कुसुमएहिं 32) P य देतो for पएसो, J 'पन्सुक्का 33) P जुवईयणो, J मए कीए भणिय 34) P लव for विलव

- 1 होज अणगो जह पहरइ दीण-जुवइ-सत्यमि । एसो पुण वहरि-गइंद-दंत-सुसुमूरणं कुणइ ॥  
अण्णेक्काए भणियं 'सहि, पेच्छ पेच्छ णजइ वच्छत्यलामोएण णारायणो' ति । अण्णाए भणियं ।
- 8 'सहि होज फुडं णारायणो ति जह गवल-कज्जल-सवण्णो । एसो पुण तविय-सुवण्ण-सच्छहो विहइए तेण ॥'  
अण्णेक्काए भणियं 'कंतीए णजइ हला, पुण्णिमायंदो' ति । अण्णाए भणियं ।  
'हूँ हूँ षडइ भियंको सामलि जह झिजइ जइ थ मय-कलंकिलो । एसो उण सयल-कलंक-वज्जिओ सहइ संपुण्णो ॥'
- 6 अण्णेक्काए भणियं 'सतीए पुरंदरो य णजइ' । अण्णेक्काए भणियं ।  
'ओ ए पुरंदरो खिय जइ अच्छि-सहस्स-संकुलो होज । एसो उण कक्खड-वलिय-पीण-दढ-सललिय-सरीरो ॥'  
अण्णेक्काए भणियं 'अंगेहिं तिणयणो णजइ' । अण्णेक्काए भणियं 'हला हला, मा एवं अलियं पलवह ।
- 9 होज हरेण समाणो जह जुवइ-घडिय-हीण-वामद्धो । एसो उण सोहइ सयल-पुण्ण-चउरंस-संठाणो ॥'  
अण्णेक्काए भणियं 'सहि, णजइ दित्तीए सूरु' ति । अण्णाए भणियं ।  
'सहि सब्बं चिय सूरु चंडो जह होज तविय-भुवणयलो । एसो उण जण-मण-गयण-दिहियरो अमयमइओ व्व ॥'
- 12 अण्णाए भणियं 'हला हला, णजइ सुद्धत्तेण सामिकुमारो' । अण्णाए भणियं ।  
'सब्बं होज कुमारो जह ता बहु-खंड-संघडिय-देहो । रुवाणुरूव-रूवो एसो उण कक्कसो सहइ ॥'  
इय किंचि-मेत्त-घडिओ देवाणं वि कह वि जाव सुद्धाहिं । विहडिजइ ता बहु-सिक्खियाहिं जुवइहिं सिरिणिलओ ॥'
- 15 § ६०) ताव थ कुमार-कुवलयचंद-रूव-जोव्वण-विलास-लायण्ण-हय-हिययाओ किं किं काउमाढत्ताओ णायर-तरुण-  
जुवाणीओ ति ।  
एका वायइ घीणं अवरा वक्कीसयं मणं छिवइ । अण्णा गायइ महुरं अण्णा गाहुलियं पढइ ॥
- 18 देइ मुरवमि पहरं अण्णा उण तिसरियं छिवइ । वंसं वायइ अण्णा छिवइ मउंदं पुणो तहा अण्णा ॥  
उच्चं भासइ अण्णा सहावइ सहियणं रुणरुणेइ । हा ह ति हसइ अण्णा कोइल-रडियं कुणइ अण्णा ॥  
जइ णाम कह वि एसो सहं सोज्जण कुवलय-दलच्छो । सहसा विलोल-यम्हल-ललियाइं णिएइ अच्छीणि ॥
- 21 तओ कुमार कुवलयचंदस्स वि  
जत्तो वियरइ दिट्ठी मंथर-धवला भियंक-लेह व्व । अच्चो वियसंति तहिं जुवइयण-गयण-कुमुयाइं ॥  
तओ कुमार-कुवलयचंद-पुलइयाओ कं अवल्यं उवगयाओ णायरियाओ ति ।
- 24 अंगाइं वलंति समूससंति तह णीससंति दीहाइं । लज्जति हसंति पुणो दसणेहिं दसंति अहराइं ॥  
दंसंति णियंबयडं विलियं पुलपंति ईसि वेवंति । अत्यक्क-कण्ण-कंडूयणाइं पसरंति अण्णाओ ॥  
आलिं गयंति सहियं बालं तह सुंबयंति अण्णाओ । दंसंति णाहि-देसं सेयं-गेणइंति अवराओ ॥
- 27 इय जा सुंदरिय-ज्जणो मयण-महा-मोह-मोहियाहियओ । ताव कमेण कुमारो बोलीणो राय-मग्गाओ ॥ ति ।  
कमेणं संपत्तो विमणि-मग्गं अणेय-दिसा-देस-वणिय-णाणाविह-पणिय-पसारयाबद्ध-कोलाहलं । तं पि बोलेज्जणं पत्तो वेगेणं चेव  
वाहियालिं । अचि थ ।
- 30 सखलिय-भास-प्पसरं समुज्जयं णिव्विलीय-परिसुद्धं । दीहं सज्जण-मेत्ति व्व वाहियालिं पलोएइ ॥  
दट्टण थ वाहियालिं धरियं एकमि पदेसे सयल-बलं । णीहरिओ पवणावत्त-तुरंगमारूढो राया, समुद्ध-कलोल-तुरयारूढो  
कुमारो थ । ताव थ
- 33 धावंति वलंति समुच्छलंति वग्गंति तह णिमज्जंति । पलय-पवणोवहि-समे सहि-लंघण-पच्चले तुरए ॥  
तओ-णाऊण तूरमाणे तुरंगमे पमुक्को, राइणा कुमारेण थ । णवरि थ कह पहाइउं प्रयत्ता ।  
पवणो व्व तुरिय-नामणो सरो व्व दढ-घणुय-जंत-पम्मुक्को । धावइ पवणावत्तो तं जिणइ समुद्धकलोलो ॥
- 36 तं तारिसं दट्टण उद्धाइयं बलमि कलयलं ।

1 > P होजणगो, P उण. 2 > P om. पेच्छ पेच्छ णजइ, P सहिच्छत्यलामोएण नजइ णारा 3 > P गवलस वज्जो.  
4 > P पुण्णिमाइंदो. 5 > P जय अमय, P सयल 6 > J om. थ 7 > P होज्जा. 8 > P नज्जति, P पलवह अलियं.  
9 > JP जुवइ, P एसो पुण 10 > P om. सहि, णजइ दित्तीए etc. to सामिकुमारो । अण्णाए भणिय । 11 > J दीहियरो.  
14 > P om. वि after देवाणं 15 > P कुवलयचंदो, P om हय, P om one किं 16 > P जुवइ इत्ति. 17 > J वायइ,  
J अण्णा for अवरा. 18 > P मुरवमि, P अण्णाउ तिसरियं, P छिवइ मुद्धा, P om. तहा. 19 > P सहावइ, P रुणरुणेति, J हा,  
इति 20 > P निमेइ. 22 > P रेह for लेह, J जुवइयण 25 > P दसेइ, J निअवतड, P दुलापंति, J अत्यक्ककण्णकुमुयाइं,  
P कडुयाइ पकरंति, P अवराओ for अण्णाओ 26 > J अण्णाओ for अवराओ. 27 > P जाव सुंदरियणो, J om. मोह,  
J मोहियं. 28 > P विवणि, P अन्ने थ, P वणियां, P पणय, J बोलेज्जणा, P वेष्ण, J om. चेव. 30 > P अक्कडिय आसरसरं,  
P मेत्ति वाहियालिं 31 > P om. थ, P वाहियालिं, J धारिअं, P पपसे, P सयलवणनीइ, P कलोलयारूढो. 33 > J पथय.  
34 > P om. णाऊण, P तूरमाणो, P पहाइय प्रयत्तो. 35 > J तिरिय for तुरिय, JP पमुक्को. 36 > J om. कलयलं.

- 1 जय जय जयइ कुमारो कुवलयचंदो समुद्रकल्लोले । लच्छि-सहोदर-तुरण् आरुढो तियसणाहो व्व ॥ 1
- § ६१) जावय जय-जय-सह-गच्छिभणं जणो उल्लवइ तावय पेच्छंताणं तक्खणं समुप्पइओ तमाल-दल-सामलं 3 गयणयल तुरगमो । 3
- धावइ उप्पइओ विय उप्पइओ एस सच्चयं तुरओ । एसेस एस वच्चइ दीसइ अइंसणं जाओ ॥ 4
- इय भाणिरस्स पुरओ जणस्स उच्छलिय-वहल-वोलस्स । अक्खित्तो तुरएण देवेण व तक्खणं कुमरो ॥ 5
- 6 अह णह-लंघण-तुरिओ उद्धावइ दक्खिणं दिसा-भागं । पट्टि-णिवेसिय-चक्की गरुलो इव तक्खणं तुरओ ॥ 6
- धावंतस्स यं तुरियं अणुधावति व्व महियले रुक्खा । दीसंति य धरणिधरा ओमंथिय-मल्लय-सरिच्छा ॥ 7
- पुरिसा पिपीलिया इव णयराइं ता ण णयर-सरिसाइं । दीसंति य धरणियले सराय-अदाय-मेत्ताओ ॥ 8
- 9 दीसंति दीहराओ धवलाओ तंस-वंक-वलियाओ । वासुइ-णिम्मोयं पिव महा-णइंओ कुमारेणं ॥ 9
- तओ एवं च हीरमाणेणं चित्तियं कुमार-कुवलयचंदेण । 10
- ‘अव्वो जइ ता तुरओ कीस इमो णहयलम्मि उप्पइओ । अह होज्ज कोइ देवो कीस ण तुरयत्तणं सुयइ ॥ 11
- 12 ता जाव णो समुइं पावइ एसो रएण हरि-रूवो । असिधेणु-पहर-विहलो जाणिज्ज ताव को एसो ॥ 12
- जइ सच्चं चिय तुरओ पहार-वियलो पडेज्ज महि-पीढे । अह होज्ज को वि अण्णो पहओ पयडेज्ज णिय-रूवं ॥’ 13
- एवं च परिवित्तिज्जण कुमारेण समुक्खया जम-जीह-संणिहा छुरिया । णिवेसिओ य से णिइय कुच्छि-पएसे पहरो 15 कुमारेणं । तओ 15
- णिवडंत-रुहिर-णिवहो ललंत-सिरि-चामरो सिढिल-देहो । गयणयलाओ तुरगो णिवडइ मुच्छा-णिमीलियच्छो ॥ 16
- थोवत्तरेण ज चिय ण पावए महियल सरैरेण । ता पासम्मि कुमारो मच्चु व्व तेण से पडिओ ॥ 17
- 18 तुरओ वि णीसहगो धरणियलं पाविज्जण पहरतो । सुसुमूरियगमंगो समुज्झिओ णियय-जीएण ॥ 18
- तओ तं च तारिसं उज्झिय-जीविय पिव तुरगमं पेच्छिज्जण चित्तियं कुमारेण । 19
- ‘अव्वो विम्हयणीय जइ ता तुरओ कहं च णह-नामणो । अहवा ण एस तुरओ कीस विवण्णो पहारेण ॥’ 20
- 21 § ६२) तओ जाव एव विम्हय-वित्त-हियओ चित्तिउं पयत्तो, ताव थ णव-पाउस-सजल-जलय-सइ-गंभीर-धीरोरल्लि- 21
- महुरो समुद्धाइओ अदीसमाणस्स कस्स वि सवो । ‘भो भो, णिम्मल-ससि-वस-विभूसण कुमार-कुवलयचंदं, णिसुणेसु मह 22
- वयणं । 22
- 24 गतव्वं ते अज्ज वि गाउय-मेत्तं च दक्खिण-दिसाप । तत्थ तए दट्ठव्वं अइट्ठ-पुव्वं च तं किं पि ॥’ 24
- इमं च सोऊण चित्तियं कुमार-कुवलयचंदेण । ‘अहो, कहं पुण एस को वि णाम गोत्तं च वियाणइ महं ति । अहवा कोइ 25
- एस देवो अरूवी इइ-ट्ठिओ विय सव्वं चियाणइ । दिव्व-णाणिणो किर देवा भवति’ त्ति । भणियं च इमिणा ‘पुरओ ते 26
- 27 गतव्वं । तत्थ तए किं पि अदिट्ठ-पुव्वं दट्ठव्वं’ ति । तां किं पुण तं अदिट्ठ-पुव्वयं होहि ति । दे दक्खिण-दिसाहुत्तो चय 27
- वच्चांमि । ‘अलंघणीय-वयणा किर देवा रिसिणो य होति’ त्ति चित्तियं च तेण । पुलइया णेण चउरो वि दिसि-विदिसी- 28
- विभागा, जाव पेच्छइ अणेय-गिरि-प्रायव-वल्ली-लया-गुविल-गुम्म दूसंचार महा-विंझाडविं ति । जा व कहसिया । पंडव- 29
- 30 सेण्ण-जइसिया, अज्जुणालंकिया सुभीम व्व । रण-भूमि-जइसिया, सर-संय-णिरंतरा खग-णिचिय व्व । णिसायरि-जइसिया, 30
- भीसण-सिवारावा दंव-मसि-मइलंगा व । सिरि-जइसिया, महागइद-सणाहा दिव्व-पउमासण व्व । जिणिंद-आण-जइसिया, 31
- महव्वय-दूसंचारा सावयं-सय-सेविय व्व । परमेसरत्थाणि-मंडलि-जइसिया, रायंसुयाहिट्टिया अणेय-सामंत व्व । 32
- 33 महाणयरि-जइसिया, तुग-सालालंकिय सप्पागार-सिहर-दुलंघ व्व । महा-मसाण-भूमि-जइसिया, मय-सय-संकुला जलत- 33

1 > P कल्लोले, P सहोदर 2 > P जाव जयासइ 4 > P वच्चइ for धावइ J चय for एस 5 > P भामिरस्स, P इल for वहल, P om व 6 > P उद्धावइ, P भाय, P गरुटो 7 > P वि for य तु°, J मच्छिय but मथिय is written on the margin. 8 > P पिपीलिया, J यव for इव, J णयराइं (corrected as नयराइं on the margin) P नयणाइं, J सराय (ह?) 11 > P नहयल समुप्पइओ, J कोवि, P दिव्वो for देवो 12 > P नएण for रएण, J विअलो 13 > P विहलो, P बीढे, P कोइ 14 > P जमह for जम, P विवेसिओ सो निइय, P पहारो 16 > J ललत सिअचा°, J गयणाओ 17 > P थोवत्तरेण इच्चिय P P मच्चु, JP तेण 18 > P वी for वि, P पहहरत्तो 19 > P जीय, P om पिव, P om चित्तिय 20 > J ताओ for ता, J om तुरओ 21 > P एव, P repeats पयत्तो 22 > P अदीणमा°, P om कस्स, P सदा, P वीस for वम, P निसुणे सुहवयण 24 > P तत्थ तए, P अदिट्ठ 25 > J कुमारेण for कुमार, P एय for एम, J कोवि for कोइ 26 > P अरूई रूइट्ठिओ ट्टे सव्व, P एवविहा for देवा 27 > J om तए, P पुव्व for पुव्वय, J त्ति होहिति त्ति, P ददक्खिणा for दे etc. P विय for चय 28 > P अलघणिय, P देवया for देवा, P य हवति, P om. णेण, P om. वि, P दिसीविभाया 29 > P पेच्छइ किर पायवाणेय, P om गिरिपायव, P गुहिलगुमदुस्सचारा, P विंझाडविं त्ति, P om. कहसिया 30 > J सेण्णो, J अज्जुणालंकिय-सुभीम च P अज्जुणालं, P सिरनिरतर, J णिचिअ चं P निच्चय व्व 31 > P सिवारावदवमसिमहल्लगव्व, JP सणाइ, JP पउमासण च 32 > J दूसंचारय P दुस्सचारा, P सा साविया सविय वां, J सेवियं च, J सामंत च 33 > P हेसागारसीहदुलंघ च, J संकुलं च P संकुल

- 1 सागयं तुह, आगच्छसु' ति । तओ नाम-गोत्त-कित्तण-संभाविय-णाणाइसएण रोमच-कच्चुव्वहण-रेहिरंगेण विणय-यणएण 1  
पणमियं णेण सयल-संसार-सहाव-मुणिणो महामुणिणो चलण-जुयलयं ति । भगवया वि सयल-भव-भय-हारिणा सिद्धि-  
3 सुह-कारिणा लंभिओ धम्मल्लाह-महारयणेण ति । तेण वि दिव्व-पुरिसेण पसारिओ ससंभमं सुर-पायव-किसलय-कोमलो माणिक्क- 3  
कडयाभरण-रेहिरो दाहिणो करयलो । तओ राय-सुएणावि पसारिय-भुय-करयलेण गहियं से ससंभमं करयलं, ईसि  
विणउत्तमंगेण कओ से पणामो । मयवहणा वि दरिय-मत्त-महावण-करि-वियड-गंडयल-गालिय-मय-जलोएणा-णिम्महंत-बहल-  
6 केसर-जडा-कडप्पेण उव्वेहमाण-दीह-गंगूलेण पसंत-कण्ण-जुयलेण ईसि-मउलियच्छिणा अणुमण्णिओ राय-तेणओ । कुमारेण 6  
वि हरिस-वियसमाणए सुहज्जंतंवर-सिणेहाए पुलइओ णिद्ध-धवलाए दिट्ठीए । उव्विट्ठो य णाइदूरे मुणिणो चलण-जुवलय-  
संसिए चंदमणि-सिलायले ति । सुहासणथो य भणिओ भगवया 'कुमार, तए चित्तियं, पुच्छामि णं एयं मुणिं जहा केणाहं  
9 अवहरिओ, किं वा कारणं, को वा एस तुरंगमो ति । एयं च तुह सव्वं चेष सविथरं साहेमो, अवहिणुण होयव्वं' ति । 9  
भणियं च सविणयं कुमारेण । 'भयवं, अइगरुओ चेष पसाओ जं गुरुणा मह हियइच्छियं साहिज्जइ' ति भणिऊण कर-  
यलंगुली-गह-रयण-किरण-जाला-संवलयंत-कयंजली ठिओ रायउत्तो । भगवं पि

- 12 अविलंबिओ अचवलो वियार-रहिओ अणुव्वभडाडोवो । अह साहिउं पयत्तो भव्वाणं हियय-णिव्ववणं ॥ 12

§ ६६ ) संसारम्मि अणंते जीवा तं णत्थिं जं ण पावेंति । णारय-तिरिय-णरामर-भवेसु सिद्धिं अपावेंता ॥

- जस्स विओए सुंदर जीयं ण धरेंति मोह-मूढ-मणा । तं चेष पुणो जीवा देसं दट्ठुं पि ण चयेंति ॥  
15 कह-कह वि मूढ-हियएण वड्ढिओ जो मंगोरह-सएहिं । तं चिय जीवा पच्छा ते चिय खयर व्व छिंदंति ॥ 15  
जो जीविणएण णिच्चं णियएण वि रक्खिओ ससत्तीए । तं चियं ते चियं मूढा खग्ग-पहारेहिं दारेंति ॥  
जेणं चिय कोमल-करयलेहिं संवाहियाइ अंगाइ । सो चिय मूढो फालइ अन्वो करवत्त-जंतोहिं ॥  
18 आसा-विणडिय-तण्हालएहिं पिय-पुत्तओ ति जो गणिओ । संसारासार-रहट्ट-भामिओ सो भवे सत्तू ॥ 18  
पीयं थणय-च्छीरं जाणं मूढेण बाल-भावम्मि । विसमे भव-केतारे ताणं चिय लोहियं पीयं ॥  
जो चलण-पणामेहिं भत्तीए थुओ गुरु ति काऊणं । णिइय-पाय-पहारेहिं चुण्णिओ सो चिय चराओ ॥  
21 जस्स य मरणे रुव्वइ बाहं-भरंतोत्थएहिं णयणेहिं । कीरइ मय-करणिज्जं पुणो वि तस्सेयं मंसोहिं ॥ 21  
भत्ति-बहु-माण-जुत्तेण पूइयां जा जणेण जणणि ति । संजाय-मयण-मोहेणं रमिया एस महिल ति ॥  
पुत्तो वि य होइ पंइ पंइ वि सो पुत्तओ पुणो होइ । जाया वि होइ माया माया वि य होइ से जाया ॥  
24 होइ पिया पुण दासो मरिउं दासो वि से पुणो जणओ । माया वि होइ सत्तू सत्तू वि सहोयरो होइ ॥ 24  
भिच्चो वि होइ सामी सामी मरिऊण हवइ से भिच्चो । संसारम्मि असारे एस गई होइ जीवाणं ॥

इय कुमार, किं वा भण्णउ ।

- 27 खर-पवणाइहं विसमं पत्तं परिभमइ गिरि-णिउंजम्मि । इय पाव-पवण-परिहट्ठिओ वि जीवो परिभमइ ॥ 27  
तेण कुमार, इमं भावेयव्वं ।

- ण य कस्स वि को वि पिया ण य माया णेय पुत्त-दाराइ । ण य मित्तं णं य सत्तू ण बंधवो सामि-भिच्चो वा ॥  
30 णिययाणुभाव-सरिसं सुहमसुहं जं कयं पुरा कम्मं । तं वेदंति अहण्णा जीवा एएण मोहेण ॥ 30  
बद्धंति तत्थ वि पुणो तेसिं चिय कारणेण मूढ-मणा । भव-सय-सहस्स-भोजं पावं पावाए बुद्धीए ॥ अहवा ।  
जह वालुयाए बाला पुलिणे कीलंति अलियं-कय-वरया । अलिय-वियपियं-माया-पिय-पुत्त-परंपरा-मूढा ॥  
33 कलहं करेंति ते चिय भुंजंति पुणो वरावरिं जंति । बालं व्व जाण बाला जीवा संसार-पुलिणम्मि ॥ 33

1 > P कंचउव्वहण, P विणयप्पणं. 2 > P जुवलयं, J सय for मय. 3 > P धम्मल्लामिओ for लंभिओ, P धम्मल्लाम 4 > P कडयाहरण, P पसारिउभय 5 > P विणिमिउत्तं, P मइवयणा, P om. गंड. 6 > P जडाजटप्पेण, P दीहरलगूलेण पसमंत, P अणुमओ, P कुमारेणा 7 > J हरी वियसमाणं सुहं, P पुलोइओ, J om. धवलाए, P दिट्ठीए । उव्विट्ठो, P मुणिणा, P जुयलयं. 8 > J has a marginal note. समीवे-पा. on the word संसिए, P सिलायलए ति, P भयवया 9 > P om. ति, P एयं वा 10 > J चेष for चेष. 11 > P रायपुत्तो, J तुरंगमाहरणापेरंवलंत कयंजली for एयं च तुह सव्वं etc. to संवलियतकयंजली. 12 > J चेष for चेष. 13 > P पावेंति, P adds something like भगवं पि in later hand. 14 > P अवलंबिओ, P साहिय, P निव्वहण. 15 > P चिय जीवा अपावेंता. 16 > P चिय जीवा 17 > P om three lines from य कोमल to गणिओ सं 20 > P चलयण, P पहारेहिं. 21 > P त्थएण वयणेण. मूढा 22 > P om. 23 > P सो for विय, P होइ, P से for सो, P विय से पुणो जाया. 24 > P पुण दोसो 25 > P सो भवे for हवइ से, J om. संसारम्मि to जीवाणं । 27 > P पवणाइहं, J वसमं, P परिहट्ठिओ 28 > P इमं संभावे. 29 > J सत्तू 30 > P वेयंती अन्ने जीवा. 31 > P बंधंति 32 > P बाले, J अणियकयवरए, J विदि for पिय. 33 > P भंजति, P वरि वरि जंति, J बालो व्व.



- 1 तत्रो कुमार कुवलयचंद्र, एयमि एरिसे असारे संसार-वासे पुण कोह-माण-माया-लोह-मोह-मूढ-माणसेहिं अम्हेहिं चैय जं 1  
समणुभूयं त तुम तुरगावहरण-पेरतं एगमणो साहिज्जंतं गिसामेहिं त्ति ।
- 3 § ६७) अत्थि बहु-जण्णवाड-जूय-संकुलो अणवरय-होम-धूम-धूसर-नायंगणो महिसि-चंद्र-सय-संचरत-कसिण-च्छवी 3  
गो-सहस्स-वियरत-धवलायंचिर-पेरतो णील-तण-वण-सास-संपया-पम्हलो लोयण-जुयलं पिव पुहइं-महिलाए वच्छो णाम  
जणवओ । जत्थ य
- 6 पवण-पहल्लिर-पुडुच्छु-पत्त-सिलिसिलिय-सह-वित्तथं । पसरइ रण्णुवेसं मय-जूहं पुण्ण-तरलच्छं ॥ 6  
पुण्ण-तरलच्छ-दसण-णिय-दइया-संमरत-णयण-जुओ । अच्छइ लेप्प-मओ विय सुण्ण-मणो जत्थ पहिययणो ॥  
पहिययण-दीण-पुलयण-विम्हय-रस-पम्हुसंत-क्रायव्वो । अच्छइ पामरि-सत्थो चल-णिच्चल-धरिय-णयण-जुओ ॥
- 9 णिच्चल-णयण-जुयं चिय कुवलयं-संकाए जत्थ अहिलेइ । अगणिय-केयइ-नांघा पुणो पुणो भमर-रिंछोली ॥ 9  
महुयंर-रिंछोलि-मिलंत-भमर-रुण्णुणिय-सह-जणिण्ण । मयणेण जुवाण-जणो उक्कंठुलयं रुण्णुणेइ ॥  
इय किंचि-मेत्त-कारण-परपरुप्पण-कज्ज-रिंछोली । जम्मि ण समप्पइ चिय विम्हय-रस-नांघिभणा णवर ॥
- 12 जत्थ य पिसुणिज्जति सालि-नृण-महाखलेहिं कलम-रिद्धीओ, साहिज्जति सुर-भवण-मंडवेहिं जणस्स धम्म-सीलत्तणाइं, सीसंति 12  
उच्छिट्ठाणिट्ठ-मल्लएहिं गाम-महा-भोज्जाइ, उप्पालिज्जति उद्ध-भुय-दंड-जुवल-सरिसेहिं केवल-जंतवाएहिं उच्छुवण-साम-  
ग्गीओ, लधिज्जति महा-समुद्ध-सच्छमेहिं तलाय-वधेहिं जणवय-विहवइं पि, सूहज्जति जत्थ पंडिप्पवा-मंडवासत्तायारेहिं दाण-  
15 वहत्तणाइं, वजरिज्जति खर-महुर-फरुस-महावट्टा-सदेहिं गोहण-समिद्धीओ त्ति । जहिं च दिय-वर-खंडियाइं दीसंति कमल- 15  
केसरइं विलासिणीयण-अहरयं व, राय-हंस-परिगयाओ दीसंति महत्थाण-मंडलीओ दीहियाओ व, कीलंति राय-सुया पंजरेसु  
रायंगणे व, दीसंति चक्कवायाइं सरिया-पुलिणेसु रहवरेसु व, सेवंति सावया महारण्णाइं जिण-भवणइं व त्ति । अवि य ।
- 18 सरिया-जल-तरलच्छं सरोद्ध-तिलयं तमाल-धम्मेल्ल । सुद्ध-दिय-चारु-सोहं व वहइ धरणीए तं देसं ॥ त्ति 18  
§ ६८) तत्थत्थि पुरी रम्मा कोसंबी सग्ग-णयर-पडिर्विवा । तुंगट्टालय-मदिर-तोरण-सुर-भवण-सोहिल्ला ॥  
धवलहर-सिहर-काणण-भममाण-पवंग-जणिय-लच्छीए । कीलासेलं ति इमं जीय णिसम्मंति गयणयरा ॥
- 21 गंभीर-णीर-फरिहा-समुद्ध-पायार-वेइया-कलिया । जंबुद्वीवं मण्णे सहसा दिट्ठा सुरेहिं पि ॥ 21  
राव-तुरय-गमण-संताव-जायं-मुह-फेण-पुंज-धवलइए । कोडि-पढागा-णिवहे जा मारुय-चंचले वहइ ॥  
जम्मि भवणग्ग-लग्गं णह-लंघण-णीसह-णिसम्मंतं । अहिसारियाओ चंदं पणय-सगव्व उवलहंति ॥
- 24 हम्मिय-तलेसु जम्मि य मणि-कोट्टिम-विष्फुरत-पडिर्विवा । पडिसिहि-जायासंका सहसा ण णिलंति सिहिणो वि ॥ 24  
इय केत्तियं व भणिमो जं ज चिय तत्थ दीसए णवर । अण्ण-णयरीण त चिय णीसामणं हवइ सव्व ॥  
जत्थ य फरिहाओ वि णत्थि जाउ ण विमल-जल-भरियओ । विमल-जलइं जे णत्थि जाइं ण सरस-त्तामरस-विहूसियइं ॥
- 27 सरस-त्तामरसइं जे णत्थि जाइं ण हंस-कुल-चच्चु-जुणियइं । हंसउलइं जे णत्थि जाइं ण णीलुप्पल-दल-भूसियइं ॥ 27  
णीलुप्पलइं जे णत्थि जाइं ण भमिर-भमरउल-जुवियइं । भमरउलइं जे णत्थि जाइं ण कुसुम-रेणु-पिंजरियइं ॥  
कुसुमइं जे णत्थि जाइं ण णिम्महंत-वहल-मयरं-परिमलाइं ति । अवि य ।
- 30 जलहि-जलयरम्मि रेहेज्ज व महु-महणस्स वल्लहा । अहव तिकूड-सेल-सिहरोयरि लंका-णयरिया इमा ॥ 30  
अहव पुरदरस्स अलया इव रयण-सुवण्ण-भूसिया । इय सा अमरएहिं पुलइज्जइ विम्हियएहिं णयरिया ॥  
§ ६९) त च तारिसं महाणयारिं पिय-पण्णणिं पिव परिभुंजइ पुरंदरदत्तो णाम राया ।
- 33 तुग-कुल-सेल-सिहरे जो पणइं-सउणयाण विस्सामो । जह चित्तिय-दिण्ण-फलो दढ-मूलो कप्प-रूखो व्व ॥ 33

1) P ससारे 2) P तुरंगमापहरण, J गिसाहेमि 3) P जत्रवाडुच्छुआसकुलो 4) P नियलत, J धवलायपिर P धवलायचिर, J वहलो for पम्हलो, J जुवल, P पुहइ, J वच्छ P वच्छ । 5) J om य 6) J पुण्णुच्छु, P सिलिमिय, P परसइ, P चुन्न for पुण्ण 7) P चुन्न for पुण्ण, P सुन्नजणो 8) P पुलइय, J पामरी 10) P महुरवर, J भमिर, P उक्कुट्टुलय रुण्णुणेइ, 12) P तत्थ for जत्थ, P तण for तण ( a line is added here on the margin ), P सीलत्तणइ 13) P महेहिं सि गाम, P भोज्जइ, P उप्पालिज्जति उद्ध, P कंवल for केवल, P उत्थुरयणसमग्गिओ सविज्जति 14) P om पि, J सुणिज्जति, P तत्थ for जत्थ, P महवमण्णायारेहितो पावइत्तणइ- 15) P वयरिज्जति, P घट, P जहिं विदियखरखडियइ 16) P विलासिणी अहरइ, J om व, P परिगयाओ, P महत्थाणि, P दीहिअउव्व, J य for व, P सुयसु पजरोयरेसु रायणेषु 17) P चक्कवाइयइ, P पुलणीसु, P सावयमहारइ, J om अवि य- 18) J सोहव्व, P सुह च for व वहइ 19) J कोसदि, P भवणे 20) P सिहण- 21) J दरिहा for फरिहा 22) J धवलाए, P पढाया- 23) P सारियतो, P उवलहति 24) P हम्मियलेसु 25) P दीमए, P नीसमण्ण वहइ 26) J जत्थ व फरिहइ, J भरियाओ, P विभूसियइ 27) P नवहंसउल, J जुणिगअट, P हसउलय, J om णं, P दलदूसियइ 28) P भमर for भमिर, P तव for ण 29) P कुसुमय, P परिमलय 30) P किं होज्ज for रेहेज्ज, J तिउह 31) P रवग for रयण, P पुलइज्ज, J विम्हयएण णयं 32) P पीयपण्णी, J om णाम 33) P पणइंघयण सउणं, P वीसम्मो, P जय for जह, P मूढो for मूलो

१ जो शक्रिद-करवाल-विरण-जालावली-करालो रिउ-पणइणीहिं जलओ सुदुस्सहो पिय-विभोयम्मि, दरिय-पुरंदर-करि-कुंम-  
 विभम-यण-कळपोवरि गुणाल-मउय-वाहा-लया-संदाणिओ गियय-कामिणि-जणेण, पच्चकळ-मंतु-दंसण-कय-कोव-पसायण-  
 २ चच्चालओ भांगरिणीहिं, गिच्च-पयसिय-दाण-पसारिय-करो पणइयणेणं, सब्भाव-णेह-परिहास-सहत्थ-ताल-हासिरो मित्त-  
 मंडहेणं, सच्च-पसाय-सुमुहो भिच्च-यग्गेण, सधिणय-भत्ति-पणजो गुरुयणेण । तस्सेय गुण-सायर-परिपयत्त-खेय-सुद्धिय-पसुत्तेहिं  
 सुविणंगेमु वि परिओ परिओ य दीसइ त्ति । जस्स य अत्ताणं पिव मंतियणो, मंतियणो इव सहिययणो, सहिययणो विय  
 ३ महिलायणो, महिलायणो प्रिय विलासिणियणो, विलासिणियणो इव परियणो, परियणो विय णरिंद-लोओ, णरिंद-लोओ  
 इव सुर-सयो, सुर-सयो इव जस्स सच्च-नाओ गुण-सागरो, गुण-सागरो इव जस-प्यभावो त्ति ।

बह एओ चिय दोओ तम्मि णरिंदम्मि गुण-समिद्धम्मि । जं सुह-पायव-मूले जिण-वयणे णत्थि पडिवत्ती ॥

४ तस्स य राइओ पारंपर-पुच्च-पुरिस-कमागओ महामंती । चउच्चिहाणु महाउद्धीणु समालिगिय-माणसो सुरु-गुरुणो इव गुरु  
 सच्च-मंति-सामंत-दिण्ण-महामंति-जय-सहो घासवो णाम महामंती । तं च सो राया देवयं पिव, गुरुं पिव, पियरं पिव, मित्तं  
 पिय, बंधुं पिय, गिद्धं पिय मण्णइ त्ति । अघि य

५ विजा-विण्णाण-गुणाहियाइ-दाणाइ-भूसणुबेरे । चूडामणि व्व मण्णइ एकं चिय णवर सम्मत्तं ॥

जिण-वयण-वाहिरं सो पडिवज्जइ कास-कुसुम-लहुययर । मण्णइ सम्मद्विट्ठि मंदर-भाराओ गरुययरं ॥

६ तस्स य राइओ तेण मंतिणा किंचि तुद्धीणु किंचि दाणेणं किंचि विक्रमेणं किंचि सामेणं किंचि मेएणं किंचि विण्णाणेणं किंचि  
 ७ दक्खिण्णेणं किंचि उवयारेणं किंचि महुरत्तणेणं सच्चं पुहइ-मंडलं पसाहियं पालयंतो चिट्ठइ त्ति ।

§ ७०) तओ तस्स महामंतिणो वासवस्स अण्णम्मि दियहे कयावस्सय-करणीयस्स ण्हाय-सुईभूदस्स अरहंताणं

भगवंताणं तेओक्क-बंधुं पूया-गिमित्तं देवहरयं पविसमाणस्स दुवार-देसम्मि ताव णाणा-विह-कुसुम-परिमलायद्वियालि-माला-  
 ८ गुंजंत-मणहरेणं संघावलंघिणा पुष्प-करदण्णं समागओ वाहिरुजाण-पालओ थावरो णामं त्ति । आगंतूण य तेण चलण-पणाम-  
 पशुट्टिण्णं उग्वाडिऊण पुष्प-करंदयं 'देव, वद्धाविज्जसि, सयल-सुरासुर-गर-किंणर-रमणीय-मणोहरो कुसमवाण-पिय-बंधवो

संपत्तो वसंत-समओ' त्ति भगमाणेण महु-मय-मत्त-भमिर-भमर-रिंछेलि-पंखावली-पवण-पक्खिप्यमाणुदुय-रय-णियरा समप्पिया  
 ९ महामंतिणो सहयार-कुसुम-मंजरि त्ति । अण्णं च 'देव, समावासिओ तम्मि चेइय-उज्जाणे बहु-सीस-गण-परिवारो धम्मणंदणो  
 आयरिओ' त्ति । तं च सोऊण मंतिणा अमरिस-वस-विलसमाण-भुमया-लएणं आवद्ध-भिउडि-मीम-भासुर-वयणेणं 'हा अणज्ज'

त्ति भगमाणेणं अउओट्टिया स चिय विसट्टंत-मयरंद-विंदु-णीसंदिर-सहयार-कुसुम-मंजरी, गिवडिया य सेय-लओवरि कय-  
 १० रेणु-लंछणा । भणियं च मंतिणा 'रे रे दुरायार, असयण्णाणिविवेय सच्चं थावरय, वद्धावेसि मं पढमं, पहाणं सायर च  
 वसंतं साहसि, भगवंतं पुण धम्मणंदणं पच्छा अप्पहाणं अणायरेण साहसि । कत्थ वसंतो, कत्थ वा भगवं धम्मणंदणो ।

जो सुरभि-कुसुम-मयरद-लुद्ध-झंकार-मणहर-रवेण । भमरावलीहि हिययं मयणग्गि-सगग्गिभणं कुणइ ॥  
 ११ भगवं पुण तं चिय मयण-जलण-जालावली-तविज्जंतं । णिव्वइ णवरि हिययं जिण-वयण-सुहासिय-जलेणं ॥

संसार-महाकंठार-केसरी जो जणइ रे रायं । मूढ वसंतो कत्थ व कत्थ व भगवं जिय-कसाओ ॥  
 १२ ता गच्छ, एयस्स अत्तणो दुवुद्धि-विलसियस्स जं भुंजसु फलयं' त्ति । 'रे रे को एत्थ दुवारे' । पडिहारेण भणियं 'जिय देव' ।

१३ मंतिणा भणियं । 'दवावेसु इमस्स चम्म-रुक्खस्स दीणाराणं अद्ध-लक्खं, जेण पुणो वि एरिसं ण कुणइ' त्ति भगमाणो ३०  
 महामंती वेत्तूण तं चय सहयार-मंजरिं आरुढो तुरंगमे, पत्थिओ य राय-पुरंदरदत्तस्स भवणं, कज्जलियणा-जण-सय-सहस्सेहिं  
 अणिणजमाणो ताव गओ जाव राइणो सीह-दुवारं । तत्थ य अवइण्णो तुरंगओ । पइट्ठो य जत्थच्छइ पुरंदरदत्तो । उवसप्पिऊण य

१४ 'कुसुम-रय-विंजरंगी महुर-झंकार-महुर-जंपिछा । दूइ व्व तुज्ज गौदी माहव-लच्छीए पेसविया ॥'  
 ३३

१) J किरिउ for रिउ, P om. जलओ सुदुस्सहो पियविभोयम्मि (which is added in J on the margin perhaps  
 later). 2) J थणयरसोवरि, P वाहालिया. 4) P ससुहो, P परिपयतक्खेय 5) P omits one एरिसो, P repeats  
 जस्स, J सुहिययणो इव. 6) J इव for विय throughout, P विलासिणिजणो (in both the places) 7) J सर  
 (in both the places), P सब्बमओ, P om. गुणसागरो, P जसपम्भारो 8) P विय for चिय. 9) P वि  
 for महा, 10) P मंतिसामतिसामंत, P om. मति, P ज for तं, P गुरुयण for गुरुं, P adds सहोयर पिव before  
 मित्तं 11) P om. वधुं पिव, P om त्ति 12) P णुक्केरो, P नवरि 13) P दिट्ठी, P गुरुय 14) P om.  
 य. 15) J दक्खिणेण, P छ for त्ति. 16) P om. महा, P 17) J भयवं, P जाव for  
 ताव. 18) P पुष्प, P वालओ, P पुष्प 19) P om. णर. 20) P om. ममिर  
 21) P निवासिओ, P चव for चेइय, P सस्स for सीसगण, P नंद  
 P भिउडिभंगमीमभासुयणेणं. 23) P विसट्टमयरंदविंदुनीसदिरा, P सेअलि  
 पढम for मं. 25) P साहेमि for साहसि, P भगव, P अप्पहाणेणं अणा  
 27) P तविज्जति, P नयर for णवरि 28) J भयवं 29) P  
 J om. दुवारे. 30) J om. मतिणा भणियं, J दवाएसु, P सुरुक्खस्स  
 P मंजरी, J तुरागओ, P om. य, P राइणो. ३२) P om.  
 जत्थच्छय राया पुदयत्तो उवसप्पिऊण P दूव, P तुज्ज गंदी.

- 1 एवं भणमाणेण राहणो समप्पिया सहयार-कुसुम-मंजरी । राहणा वि महरिस गहिया । भणिय च । 'अहो 1  
सव्व-जिय-सोक्ख-जणओ वम्मह-पिय-वधवो उऊ-राया । महुयर-जुवइ-मणहरो अचो कि माहवो पत्तो ॥'
- 3 भणियं च मतिणा 'जहाणवेसि देव, एह वच्चाओ वाहिरुजाण-काणणं । तत्थ गंतूण पुलुपुओ जहिच्छ वाल-माहव-लच्छि' त्ति । 3  
राया वि 'एव होउ' त्ति भणमाणो समुट्ठिओ, आरुओ य एऊ चारुआसजं करिणिं । अणेय-जण-सय-सहस्स-सवाह-संकुल  
फालेंतो राय-मग्गं संपत्तो वेगेण तं चेय काणणं । तं च केरिस ।
- 6 सहरिस-गरवइ-चिर-ट्टिण-दसण-पसाय-नारवग्घविय । उजाण-सिरीएँ सम सहसा हियं व ऊससिय ॥ 6  
अवि य णच्चंत पिव पवणुवेळ-कोमल-ल्या-भुयाहिं, गायतं पिव णाणा-विहंग-कलयल-रवेहि, जयजयावंतं पिव मत्त-कोइला-  
राव-कंठ-कूविएहिं, तज्जत पिव विलसमाण-चूएऊ-कलिया-तज्जणीहिं, सदावंत पिव रत्तासोय-किसलय-दलग्ग-हत्यएहिं,
- 9 पणमत पिव पवण-पहय-विणमंत-सिहर-महासालुत्तमगेहिं, इसत पिव णव-वियसिय-कुसुमदहासेहि, स्यतं पिव वधण-खुडिय- 9  
णिवडंत-कुसुमसु-धाराहिं, पढंतं पिव सुय-सारिया-फुडक्खरालाबुल्लावेहिं, धूमायतं पिव पवणुदुय-कुसुम-रेणु-रय-णिवहेहिं,  
पज्जलतं पिव लक्खा-रय-राय-सिलिसिलेत-मुद्ध-णव-पल्लवेहिं, उक्कठिय पिव महु-मत्त-माहवी-मयरदामोय-मुद्धय-रणुणंत-
- 12 महु-मत्त-महुयर-जुयाणेहिं त्ति । अवि य । 12  
उग्गाइ इसइ णच्चइ रुयइ धूमाइ जलइ तह पडइ । उम्मत्तओ व्व दिट्ठो णरवइणा काणणाभोओ ॥  
§ ७१ ) तं च तारिस पेच्छमाणो णरवइं पविट्ठो चेय उजाणे । विचारिया य णेण समतओ कुवलय-दल-दीहरा  
16 दिट्ठी, जाव माहवि-मडवम्मि परिमुज्जइ, धावइ वउल-रुक्खए, रत्तासोययम्मि आरोहइ, सज्जइ चूय-सिहरए, दीहर- 16  
तालयम्मि आरोहइ, विज्जइ सिंदुवारए, णिवडइ चट्टणम्मि, वीसमइ खणे एला-वणुल्लए ।  
इय णरवइणो दिट्ठी णाणा-विह-दुम-सहस्स-गहणम्मि । वियरइ अप्पडिफलिया महु-मत्ता महुयराण पति व्व ॥
- 18 पेच्छइ य णव-कुसुम-रेणु-वहल-मयरद-चट-णीसंद-विंदु-सदोह-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलवोल-वाउलिजंत-उपफुल्ल-फुल्ल-सोहिणो 19  
साहिणो । तं च पेच्छमाणेण भणियं वासव-महामतिणा । 'देव दरियारि-सुदरी-वट्ट-वेहव्व-डागेक्क-वीर, पेच्छ पेच्छ, एए  
महुयरा णाणावत्थंतरावडिया महु-पाणासव-रस-वसणा विणडिया । अवि य ।
- 21 उय माहवीय कुसुमे पुणरुत्तं महुयरो समलियइ । अहवा कारण-वसया पुरिसा वक पि सेवति ॥ 21  
पत्त-विणिगूहिय पि हु भमरो अलियइ कुज्जय-पसूय । दुज्जण-णिवहोत्थइया णज्जति गुणेहिं सप्पुरिसा ॥  
चंपय-कलियं मयरद-वज्जिय महुयरो समलियइ । आसा-वधो होहि त्ति णाम भण कत्थ णो हरइ ॥
- 24 धवल्लेक्क-कुसुम-सेस कुंदं णो सुयइ महुयर-जुवाणो । विमलेक्क-गुणा वि गुणणुएहिं णूण ण सुचति ॥ 24  
अलीण पि महुयारिं पवणुवेळंत-दल-हय कुणइ । अहव असोए अह्णिइयम्मि भण केत्तिय एय ॥  
चूय-कलियाए भमरो पवणाइद्धाइ कीरए विमुहो । णूणं सट्टण-सीलो जुवइण ण वल्लहो होइ ॥
- 27 मोत्तूण पियगु-लय भमरा धावति वउल-गहणेसु । अहवा वियलिय-सार मलिण च्चिय णवरि सुचति ॥ 27  
भम रे भम रे अह्भमिर-भमर-भमरीण सुरय-रस-लुद्धो । इय पणय-कोव-भणिरी भमरी भमग्ग समलियइ ॥  
एव साहेमाणो णरवइणो वासवो महामती । महुयारि-भमर-विलसियं लोव-सहात्रं च बहु-मग्गं ॥
- 30 एव च परिभममाणेण तम्मि काणणे महामंतिणा विचारिया सुहमत्थ-दंसणा समतओ दिट्ठी । चिंतिय च वासवेण । 'सव्वं 30  
इमं परिभमिय पिव काणण, ण य भगव सो धम्मणंदणो दीसइ, ज हियए परिट्टविय एस मए इहाणिओ राया । ता  
कहिं पुण सो भगवं जंगमो कप्प-पायवो भविस्सइ । कि वा सुत्तय-पोरिम्मि करिय अण्णत्थ अइक्कतो होहिइ त्ति । ता ण  
33 सुदर कय भगवया । 33

1) J त्ति for एव 2) P सव्वजिय, J ऊराया for उऊराया, P जुयइ 3) P 'देव जहाणवेति एहि, J 'रुज्जाणे,  
P जहित्थए 4) P एऊ चारुपसज्जिय करिणीं, P om सहस्स 5) P वेएण, P चेव 6) P दसणा, J सिरीय समय,  
7) J पवणुवेळ P पवणुवेळ, P ल्याहिं, P कलरमिहि, P कोइलाकलाकलाराव 8) P -कोविपहिं तज्जत, P सदावत, P  
हयेहिं, 9) P वणमत, J रुअत, J पिव वद्धण 10) J कुसुमसुएहिं, J सूअ, P 'छाविपहिं 11) J मिलिसेलेंत, P मास  
for मत्त 12) P जुवाणएहि त्ति, J om. ति 14) P नरवई तमि च्चिय पविट्ठो उं, P om य, P दीहदिट्ठी 15) P  
माहवमटव ति, J आरोहइ 16) J विज्जइ for विज्जइ, P वीमम खग एलावणुल्लए 17) P दिट्ठिया, P गहणयम्मि, P अप्फ-  
डिफलिअया 18) J om. णवकुसुम etc to विणडिया । अवि य उ, P मयरिद-चट्टनीसदा, P वलवोलवारलिज्जति उप्फळं, P  
फुल्लनाहिणो सोहिणो 19) P पिच्छमाणेण, P मतिणो 20) P महुरा 21) P पुणारुत्त, P समुद्धियइ 23) P नाम तण किच  
नो, J भरट for हरट 24) J कुद णा P कुद तो, J जुआणो, P गुणा वि twice 25) P पिव महुयारि, P पवणुवेळिंत, P अमोए  
एथ णिंदयम्मि 26) J महुअरो for भमरो, J कट्टण P रुद्धण, J चेय for होइ 27) P मलिणि, J णवर सुचति 28) P  
सुरयसुरलोणे । 29) J वासओ, P लोय- 30) J om च, J परिभममाणेण P परिभमनां, J सुहमत्थं, P दममणा, P सव्व-  
मिम 31) J परिभनिय, J om. पिव, P काणेण, P परिट्ठविया 32) P नुत्तत्तयपोमिमी, P होहि त्ति, P ण य सुदरय  
5

- 1 कण्ठागं धमय-रसं दाऊण य दंसगं अदंतेणं । दायेऊणं वर-णिहिं मण्णे उप्पाडिया अच्छी ॥  
 धह्या जाणिये मण् । एत्थ तण-वच्छ गुम्म-वल्ली-लया-संताणे सुपुष्फ-फल-कोमल-दल-किरल्लयंकुर-सणाहे बहु-कीडा-  
 3 पयंग-पिदीलिया-सुंथु-तस-भावर-जंतु-संकुले भगवंताणं साधूणं ण कप्पह आवासिडं जे । ता तम्मि सव्वावाय-विरहिण्  
 फाणुए देसे सिंदूर-कोट्टिम-तले सिस्स-गण-परिवारो होहिइ भगवं' ति विवयंतेण भणिओ महामंतिणा णरवई । 'देव, जो सो  
 तए कुमार-समए सिंदूर-कोट्टिमासण्णे सहत्थारोविओ असोय-पायवो सो ण-याणियइ किं कुसुमिओ ण व' ति । राहणा  
 6 भणियं । 'सुंदरं संलत्ते, पयइ तहिं चेष, वच्चाओ' ति भणमाणेण गहियं करं करेण वासवस्स । गंतुं जे पयत्तो णरवई ॥  
 सिंदूर-कोट्टिमयलं, जाव य धोयंतरमुवगओ ताव पेच्छइ साहुणो ।

§ ७२ ) ते च केरिसे ।

- 1 धम्म-महोयहि-सरिसे कम्म-महासेल-कटिण-कुलिसस्ये । संति-गुण-सार-नारुए उवसग्ग-सहे तरु-समाणे ॥  
 पंच-महप्पय-फल-भार-रोहिरे गुत्ति-कुसुम-चंचइए । सीलंग-पत्त-कल्लिए कप्पतरु-रयण-सारिच्छे ॥  
 जीवाजीव-विहाणं कजाकजा-फल-विरयणा-सारं । साधूण समायारं आयारं के वि ज्ञायंति ॥  
 12 त-समय-पर-समयाणं सुहज्जइ जेण समय-सवभावं । सूतयडं सूयगडं अण्णे रिसिणो अणुगुणंति ॥  
 अण्णेय सुट्टिया संजमम्मि णिसुणंति के वि ठाणं । अण्णे पढंति धण्णा समवायं सव्व-विजाणं ॥  
 संवार-भाज-मुण्णिणो मुण्णिओ अण्णे वियाह-पण्णत्ती । अमय-रस-मीसियं पिव वयणे चिय णवर धारंति ॥  
 15 णाया-धम्म-कहाओ कहंति अण्णे उवासग-दसाओ । अंतगड-दसा अवरे अणुत्तर-दसा अणुगुणंति ॥  
 जाणय-पुच्छे पुच्छइ गणहारी साहए तिलोय-गुरु । फुड पण्हा-वागरणं पढंति पण्हाइ-वागरणं ॥  
 वित्थारिय-सयल-तिहुयण-पसत्थ-सत्थय-अत्थ-सत्थाहं । समय-सय-दिट्ठिवायं के वि कयत्था अहिजंति ॥  
 18 जीवाणं पण्णवणं पण्णवणं पण्णवति पण्णवया । सूरिय-पण्णत्तिं चिय गुणंति तह चंद-पण्णत्तिं ॥  
 अण्णाइ य गणहर-भासियाहं सामण्ण-केवल्लि-कयाहं । पचेय-सयंबुद्धेहिं विरहयाइ गुणंति महारिसिणो ॥  
 कत्थइ पंचावयवं दसह चिय साहुणं परुवंति । पच्चक्खणुमाण-पमाण-चउक्कयं च अण्णे वियारंति ॥  
 21 भव-जलहि-जाणवत्तं पेम्म-महाराय-णियल-णिहलणं । कम्मट्ट-गंठि-वज्जं अण्णे धम्मं परिकहंति ॥  
 मोहंधयार-रविणो पर-वाय-कुरंग-दरिय-केसरिणो । णय-सय-खर-णहरिल्ले अण्णे अह वाहणो तत्थ ॥  
 लोयालोग-पयासं दूरंतर-सण्ह-वत्थु-पज्जोयं । केवल्लि-सुत्त-णिवद्धं णिमित्तमण्णे वियारंति ॥  
 24 णाणा-जीउप्पत्ती-सुवण्ण-मणि-रयण-घाउ-संजोयं । जाणंति जणिय-जोणी जोणीणं पाहुडं अण्णे ॥  
 अट्ठि-सय-पंजर इव तव-सोसिय-चम्म-सेत्त-पडिबद्धा । आवद्ध-किडिगिडि-रवा पेच्छइ य तवस्सिणो अण्णे ॥  
 ललिय-वयणत्थ-सारं सव्वालंकार-णिव्वडिय-सोहं । अमय-प्पवाह-महुरं अण्णे कव्वं विहंतंति ॥  
 27 बहु-तंत-मंत-विजा-वियाणया सिद्ध-जोय-जोइसिया । अच्छंति अणुगुणंता अवरे सिद्धंत-साराइ ॥  
 मण-वयण-काय-गुत्ता णिरुद्ध-णीसास-णिचलच्छीया । जिण-वयणं ज्ञायंता अण्णे पडिमा-गया मुण्णिणो ॥  
 अवि य कहिंचि पडिमा-गया, कहिंचि णियम-ट्टिया, कहिंचि वीरासण-ट्टिया, कहिंचि उक्कुडियासण-ट्टिया, कहिंचि गोदोह-  
 30 संठिया, कहिंचि पडमासण-ट्टिय ति । अवि य ।

इय पेच्छइ सो राया सज्जाय-रए तवस्सिणो धीरे । णित्थिण्ण-भव-समुद्धे रुंदेण जिणिंद-पोएणं ॥

- § ७३ ) ताणं च मज्जे सव्वाणं चेष णक्खत्ताणं पिव पुण्णिमायंदो, रयणाणं पिव कोत्थुभो कंतीए, सुराणं पिव  
 33 पुरंदरो सत्तीए, तरुणं पिव कप्पपायवो सफलत्तणेणं, सव्वहा सव्व-गुणेहिं समालिंणिओ चउ-णाणी भगवं भूय-भविस्स-33

1 > P सदसग for दंसण, P णिही, J अर्च्छि 2 > P न एत्थ, J सणाह, J कीडपयग. 3 > P साहूणं, P आवसिउ, J om  
 जे, P सव्वावायरहिया 4 > J om. देसे, P कोट्टिमयलो, J यण for गण, J P चित्तियतेण, J भणिय 5 > P समय-पर-समय, P  
 सहत्थरो, P न याणइ 6 > P पयट्टा, J चेष, P om. जे 7 > P om. य, J थोवतर गओ 8 > P केरिसो 9 > P महोयहि,  
 P उयसग्ग 11 > P साहूण, J आयारे 12 > P सूयज्जइ, P सूयगड, J सूअयड P सूयगड. 13 > J ठुण्ण P ठाणाम, P  
 पढंति अत्रे धणा 14 > P विवाह, J पि for पिव, P नवरि 15 > P कहति. 16 > P जाणइ, J तिलोय, P वागरण, P पण्हाइ  
 वागरण. 17 > P सत्थसत्थय for सत्थय, P सत्थ for अत्थ, P वि वयत्था, J अभिजंति 18 > P पत्रत्ति चिय, P पत्रत्ति.  
 19 > J पचेयइसयंबुद्धेहि विरयाइ, P पचेय, P महारिसिणो 20 > P साहारण for साहूणं, J पच्चक्खणु, P चउक्कमण्णे 22 >  
 P वाइ for वाय, P नयरिह्हे, P वाइणा 23 > P लोयालोय, P पज्जत, J णिवध, P वियारंति. 24 > जीवुप्पत्ती, J जाणित्ति. 25 >  
 P अट्ठिमय, P पच्छइ 26 > P धणयच्छ for वयणत्थ, P निवडिया, P विश्रतेति, J has a marginal note. च विरइ पा-  
 (which means that च विरइति is a पाठान्तर) 27 > P जोईसा, P अच्छंति अणुगुणंता 28 > P विरुद्ध for णिरुद्ध,  
 P ज्ञायंता 29 > P पडिमा ठिया, P नियम ठिया, P वीरासण ठिया कहिं उक्कुडियासण ठिया 30 > P पोमासण ठिया ।, P om.  
 ति. 31 > P सज्जाय, P विच्छिन्नतवसमुद्धे 32 > P om. च, P चेष, P पुण्णिमाइदो, P कोत्थुहो 33 > P om. सव्वहा.

- 1 भव्व-वियाणओ दिट्ठो णरवइणा धम्मणंदणो णाम आयरिओ । दट्ठण य पुच्छियं णरवइणा 'भो भो वासव, के उण इमे 1  
एरिसे पुरिसे' । भणिय च वासवेणं 'एए सयल-तेलोक्क-वंदिय-वंदणिज-चलण-जुयले महाणुभावे महाणाणिणो मोक्ख-मग्ग-  
3 मुणिणो भगवंते साहुणो इमे' त्ति । भणियं च राइणा 'एसो उण को राया इव सस्सिरीओ इमाण मज्ज-गओ दीसइ' त्ति । 3  
भणियं च मंतिणा 'देव, एसो ण होइ राया देसिओ । कहं । संसाराडवीए जर-मरण-रोगायर-मल-दोगाच्च-महा-वण-गहणे  
मूढ-सोग्गइ-दिसि-विभागाण णिइय-कुत्तिय-त्तियाहिव-पावोवएस-कुमग्ग-पत्थियाण कट्ठुग्गुसिय महा-णयर-पंथ-देसिओ भव्व-  
6 जीव-पहियाण भगवं धम्मणंदणो णाम आयरिओ त्ति । ता देव, देवाणं पि वट्ठणीय-चलण-जुयलो इमो, ता उव- 6  
सप्पिऊण वंदिमो, किचि धम्माहम्म पुच्छिमो' त्ति । 'एव होउ'त्ति भगमाणो राया पुरदरदत्तो वासवस्स करयलालगो  
चेय गतु पयत्तो । गुरुणो सयासं उवंगतूण य मतिणा कय-कमल-करयल-कमल-मउलेण भणियं ।
- 9 जय तुग-महा-कम्मट्ठ-सेल-सुसुमूरणमि वज्ज-सम । जय संसार-महोवहि-सुघडिय-वर-जाणवत्त-सारिच्छ ॥ 9  
जय तुज्जय णिज्जिय-काम-वाण खतीय धरणि-सम-रूव । जय घोर-परीसह-सेण-लद्ध-णिइलण-जय-सइ ॥  
जय भविय-कुसुय-वण-गहण-त्रोहणे पुण्ण-चंद-सम-सोइ । जय अण्णण-महातम-पणाग्गे सूर-सारिच्छ ॥
- 12 देव सरण तुम चिय तं णाहो वधवो तुमं चेव । जो सव्व-सोक्ख-मूलं जिण-वयणं देसि सत्ताण ॥ 12  
त्ति भगमाणो तिउण-पयाहिणं करेऊण णिवडिओ से भगवओ चलण-जुवलय वासवो त्ति राया वि पुरदरदत्तो ।  
दरिसण-मेत्तेणं चिय जण-मणहर-वयण-सोम्म-सुह-रूव । सइ-वंदिय-वहुयण-चलण-कमल तुज्ज णमो धीर ॥ त्ति
- 15 भणिए, भगवया वि धम्मणदणेण सयल-संसार-दुक्ख-वखय-कारिणा लमिओ धम्मलाह-महारयणेण ति । 15
- § ७४ ) भणियं च भगवया 'सागयं तुम्हाण, उवविसह' त्ति । तओ 'जहाणवेह' त्ति भगमाणो पणउत्तमंगो  
भगवओ णाइदूरे तम्मि चये पेमराय-मणि-सरिसुल्लसत-किरण-जाले सिंदूर-कोट्टिमयले णिसण्णो राया । वासवो वि अणु  
18 जाणाविउ भगवतं तहिं चये उवविट्ठो । एयमि समये अण्णे वि समागया णरवर-चट्ट-पथि-कप्पडियाइणो भगवंते 18  
णमोक्कारिऊण उवविट्ठा सुहामणत्था य । गुरुणा वि जाणमाणेणावि सयल-तिहुयण-जण-मणोगय पि सुह-दुक्खं तह वि लोय-  
समायारो त्ति काऊणं पुच्छियं सरीर-सुह-वट्टमाणि-वुत्तत । विणय-पणय-उत्तमगेहिं भणियं 'भगव, अज्ज कुसल तुम्ह  
21 चलण-दंसणेण' ति । चित्तिय च राइणा । 'इमस्स भगवओ मुणिदस्स असामण्ण रूव, अणण्ण-सरिसं लायण्ण, असमा हि 21  
कित्ती, असाहारणा दित्ती, असमा सिरी, सविसेसं दक्खिण्णं, उदाम तारुण्ण, महता विज्जा, अहियं विण्णाण, साइसयं णाणं ।  
सव्वहा सव्व-गुण-समालिंण-सफल-संपत्त-मणुय-जम्मस्स वि कि वेरग-कारण समुप्पण्ण, जेण इम एरिम एगत-दुक्ख  
24 पव्वजं पव्वणो त्ति । ता कि पुच्छामो, अहवा ण इमस्स एत्तियस्स जणस्स मज्जे अत्ताण गाम-कूड पि व हियएणं हसावेस्स' 24  
त्ति चित्तयतो गुरुणा भणिओ ।
- 'एत्थ णरणाह णवर चउगइ-संसार-सायरे घोरे । वेरग-कारणं चिय सुलह परमत्थ-रूवेण ।  
27 जं जं जयमि मण्णइ सुह-रूवं राय-मोहिओ लोओ । त त सयलं दुक्ख भणति परिणाय-परमत्था ॥ 27  
तिण्हा-डुहा-किंलंता विसय-सुहासाय-मोहिया जीवा । जं चिय रुंरंति पाव तं चिय णाणीण वेरग ॥  
जेण पेच्छ, भो भो णरणाह,
- 30 जे होति णिरणुकंपा वाहा तह कूर-कम्म-वाउरिया । केवट्टा सोणहिया महु-घाया गाम-वाया य ॥ 30  
णरवइ-सेणावइणो गाम-महाणयर-सत्थ-वाया य । आहेडिया य अण्णे जे विय मासासिणो रोइ ॥  
दंति वणमि दवग्गि खणति पुहडं जल पि वधति । धाउ धमति जे चिय वणस्सई जे य छिंठति ॥
- 33 अण्णे वि महारभा पंचेदिय-जीव-घाइणो मूढा । विउल-परिगह-जुत्ता खुत्ता बहु-पाव-पकम्मि ॥ 33

1 > J आयरिओ त्ति, P इमे केरिसा पुरिमा 2 > P om च, P एए तियलोक्क सयल वदिय, P सोगट for मोक्ख 3 > J मज्जे गओ 4 > P om ण होइ राया देसिओ । कहं ।, P संसाराडवीए, J रोगयमल 5 > J दिसी, P निद्वय, P तित्थाहिवोवएस, J कट्ठुग्गुसियमहा P कट्ठुजुय मिवमहा 6 > P पयाहिण for पहियाण, P वट्ठणिय, J ताओ अवमण्णिऊण, P उम्मप्पिऊण वतामो 7 > P कचि धम्माधम्म, J एव ति होउ, P पुरदत्तो, P करयललगो 8 > P मतिणि 9 > J समा P सम, P महोवहि, P om वत्त 10 > P खतीय, J रूवा P रूव, J सेण 11 > P मममोहे, J सारिच्छा 12 > P वि त for the second तुम 13 > P तिउण, J वामओ, P om त्ति 14 > P दमण for दरिसण, P मुयणमोम, J सुहरूवे, J सइ P मय 15 > P om. वि, P धम्मलाभ, P om ति 16 > P उवविमनु, P जहाणवेसु, P पणयउत्तिमगो 17 > P नारट्ट दूरमि चेव, P नरमुत्तमत, P जाले कोट्टिमसिंदूरमयले नीमणो 18 > P चेव, P नववट्टेचट्टाय, P भगवत 19 > J om वि after गुरुणा, P om जण 20 > P पुच्छिओ, P वट्टमाणि, J पणमुत्तं 21 > P नरवइणा for राइणा, P असामन्नरूव, J P अणण्ण, P om मरिम, P om हि 22 > J हि कन्ती (?), P असाधारणा, J यवित्तेन, J कारुण्ण for तारुण्ण, J विण्णाण ति, J om साट्ठमय णाण P साइमण नाण 23 > J समालिंण, P दुत्तर for दुक्ख 24 > P om त्ति, P पुच्छिमो, P एयम्मय पत्तियमज्जे अत्ताणय गामउद, J हम्मणम्म 26 > P नागरे 28 > P तण्हा, P नाणेण 29 > P विच्छा 30 > P कोवट्टा मोणिहया 31 > P नरवट्ट, P ममामिणो 32 > P ददन्ती for दवग्गि, P खण च पुं, P च for पि, P जे निय वणम्मय 33 > P च for वि, P मूला



- 1 जीवे मारेसि तुमं जइया रे पाव णिइओ होउ । तइया ण पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि अवरद्धं ॥ 1  
मंसं खाइसि जइया जीवाणं चडचडस्स फालेउं । तइया ण पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि अवरद्धं ॥
- 3 अलियं जंपसि जइया रे पावय पावएण हियएण । तइया मुद्ध ण-याणसि भणसि मए किं कयं पावं ॥ 3  
गेण्हसि अदिण्णयं चिय जइया रे मूढ णिग्घिणो होउं । तइया ण पुच्छसि चिय कस्स कय किं व अवरद्धं ॥  
परदार-मोहिय-मणो जइया रे रमसि अण्ण-जुवईहिं । तइया मूढ ण-याणसि भणसि मए किं कयं पावं ॥
- 6 गेण्हसि परिग्गहं रे जइया असराल-लोह-पडिबद्धो । तइया मूढ ण-याणसि भणसि मए किं कयं पाव ॥ 6  
रे रे खेलसि जइया रत्तो आहेडयं सराय-मणो । तइया मूढ ण-याणसि एक्कस्स कए वहुं चुक्को ॥  
आलप्पाल-पसत्तो सुयणे पीडेसि रे तुमं जइया । तइया मूढ ण-याणसि एक्कस्स कए वहुं चुक्को ॥
- 9 णिय-जाइ-मओम्मत्तो णिंदसि रे सेसय जण जइया । तइया मूढ ण-याणसि एक्कस्स कए वहुं चुक्को ॥ 9  
रोहाणुबद्ध-चित्तो मारेमि इमं ति परिणओ जइया । तइया जाणसि सव्वं संपइ मुद्धो तुम जाओ ॥  
मोत्तूण हरि-हराई जइया तं भणसि को व सव्वण्णू । तइया सव्व जाणसि एण्हिं रे मुद्धओ जाओ ॥
- 12 वेय-विहाण-विउत्तो जइया तं भणसि णत्थि सो धम्मो । तइया सव्व जाणसि एण्हिं रे अयाणओ जाओ ॥ 12  
पावारभ-णियत्ते णिंदसि ते साहुणो तुमं जइया । तइया तं चिय जाणसि अण्णो पुण अयणओ सव्वो ॥  
ण य संति के वि देवा ण य धम्मं मूढ जंपसे जइया । तइया चित्तेसि तुमं म मोत्तुं ण-यणए अण्णो ॥
- 15 मारेह पसु दारेह महिसय णत्थि पाव-संवधो । तइया चित्तेसि तुमं मं मोत्तुं ण-यणए अण्णो ॥ 15  
इय भणमाणेहिं चिय फाडेउं चडयडस्स सव्वगो । विक्खिपंति बलीओ मासम्मि सरुहिर-मांसाओ ॥  
सो वि बहु-पाव-वसओ छिणो खइर व खंडखंडेहिं । संगलइ गलिय-देहो पारय-रम-सरिस-परिणामो ॥
- 18 हा ह त्ति विलवमाणो छुवभइ जलणम्मि जलिय-जालोले । खर-जलण-ताव-तत्ते सामिय तिसिओ त्ति वाहरइ ॥ 18  
अह ते वि णरय-पाला आणे आणे जलं ति जंपता । आणेंति तंव-तउयं कदमाण-फुलिंग-दुप्पेच्छ ॥  
अह तम्मि दिण्ण-मेत्ते गुरु-टाह-जलत-गलय-जीहालो । अलमलमलं ति सामिय णट्टा णट्टा हु मे तण्हा ॥
- 21 अह ते वि णिरणुकंपा मास-रसो वल्लहो त्ति जंपता । अक्कमिऊण गलए संडास-विडंविओट्टाणं ॥ 21  
धगधगघणेत-घोर गलिय गलयम्मि देंति ते लोहं । तेण थ विलिज्जमाणा धावंति दिसादिसी तत्तो ॥  
खर-जलण-गलिय-तउ-तंब-पूरिय तंब-ताविय-तडिहं । वेयरणिं णाम णइं मण्णंता सीयल-जलोह ॥
- 24 धावंति तत्थ धाविर-मग्गालगत-घोर-जम-पुरिसा । हण णिहण भिंद छिंदह मारे मारे त्ति भणमाणा ॥ 24  
अह वेयरणी पत्ता झस त्ति झपाउ देंति धावता । तम्मि विलीणा लीणा पुणो वि देहं णिवद्धति ॥  
तो तम्मि हीरमाणा डज्जंता कलुणयं विलवमाणा । कह कह वि समुत्तिण्णा परिसडिय-लुलंत-सव्वंगा ॥
- 27 अह जलण-ताव-तवियं पेच्छंति कलंव-वालुया-पुलिण । सिसिर ति मण्णमाणा धावता कह वि पेच्छंति ॥ 27  
तत्थ वि पउलिज्जता उव्वत्त-परत्तयं करेमाणा । डज्जंति सिमिसिमेंता रेणूए चम्म-खंड व्व ॥  
असि-चक्क-सत्ति-तोमर-पत्तल-दल-सिलिसिलेंत-सद्दाल । छायं ति मण्णमाणा असिपत्त-वणम्मि धावंति ॥
- 30 जाव थ धावति तहिं सहसा उद्धाइओ महावाओ । खर-सक्कर-वेय-पहार-पत्थरुग्घाय-वोमीसो ॥ 30  
अह खर-मारुय-पहय असि-पत्त-वण चलंत-साहालं । मुंचइ सत्थ-प्पयर भिंदंति अंगमंगाहं ॥  
छिण्ण-कर-चरण-जुयला दो-भाइजत-सिर-कवालिल्ला । कौत-विणिभिण्ण-पोट्टा दीह-ललंतंत-पवभारा ॥
- 33 गुरु-डाह-डज्जमाणा पेच्छंति तमाल-सामलं जलयं । किर णिववेइ एसो सीयल-जल-सीय-रोहेण ॥ 33

1 > P रुह for रे, P has some additional lines after अवरद्ध like this गेण्हसि अदिन्नयं चिय जइ वा रे मूढ निग्घिणो होउ । तइया न पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि पारद्ध ॥ 2 > J om the gāthā मस etc, P फालिउ 3 > P om ten lines from तइया मुद्ध etc to पीडेसि रे तुम जइया 9 > J जाइमयम्मत्तो, P सजण for सेसय 10 > P मारेसि 11 > J हरिहराई, J अयाणओ for मुद्धओ 13 > P अयाणओ 14 > P धम्मो, P तइया for जइया, P मम for म, P न याणए 15 > J ण आणए P न याणए 16 > P चडचडस्स, P मसामि for मासम्मि, J मांसाओ P सीमाउ 17 > P य हु for बहु, P खइरो व्व 18 > P जालउले, P तत्तो 19 > P आणह आणह जल, P जपति, J आणति तउअ तव कड° 20 > JP गलत for जलत (emended), P जीहाला, P सामिय सामिय नट्टाउ मे 21 > P तह for अह, P भणमाणा for जपता, P देंती for गलए, P विडिंवि° 22 > P गलय, J गलियमि, J ते सित लोह, P से लोह, P तेण वि विभिन्नमाणा, P दिसादिमि 23 > P निवह for तव, P कडिह for तडिह, P नेंति for णाम 24 > P °लगति न घोर 25 > J देंति तावता, J णिवद्धति P निवधति 26 > J ते for तो, J ललत for लुलत 28 > P निमिसिमता रेणूए ममखड वा 29 > P धावत 30 > P पावति for धावति, P सरसा, P उद्धावई, J प्यहार, P वामीनो 31 > P पयार छिंति 32 > P ललन च गुरुमारा 33 > P सीयजल.

- 1 जात्र अग्नि-त्रक-तोमर-पूरे पूय-वसा रुहिर-मुत्त पिच्छिहे । अग्निगाला-मुस्सुर-णिवहे अह वरिसए जलओ ॥ 1
- तह नेण ते परत्ता वेयाणिय-पञ्चए गुहाहुत्ता । भावंति धात्रमाणा दीणा सेहेहिं हम्मता ॥
- 2 पत्ता पि तय केहे गुरु वज्ज-मिलाभिघाय-इलियंगा । पविसंति गुहाए सुहं त्रितियं णरयं व धोर-त्तमं ॥ 3
- § ७३) अह पलय-कात्त जज्ज-मज्जिय-गुरु-राव-दूसहं सइं । सोऊण परं भीया पडिवह-हुत्तं पलयति ॥
- तय पि पत्तायमाणा शीम-गुहा-कडय-भित्ति-भाएहिं । मुसुमूरियंगमंगा पीसंते सालि-पिट्टं व ॥
- 4 रुद्धह पि तय मुक्का णाऊणे एत्त पुच्च-पेति ति । वेउभिय-सीह-सियाल-मुणय-सउणेहिं वेपंति ॥ 6
- नेहिं वि ते सज्जेता अंठ-भियंठं सरं च निरसंता । कइकह वि किंचि-सेसा वज्ज-कुडंगं अह पविट्ठा ॥
- अह ने त्रियण पग्गहा सण-भेत्तं ते वि तय चिंतंति । हा हा अहो अकजं मूडेहिं कयं तमंभेहिं ॥
- 5 तहओ चिय मद् कलियं णरए किर एरिमीओ त्रियणाओ । ण य सहहामि मूढो एण्हिं अणुहोमि पच्चक्खं ॥ 9
- हा हा भणिओ तहया मा मा मारेमु जीव-संघाए । ण य विरमामि अहण्णो विसयामिस-मोहिओ संते ॥
- मा मा जेयमु अलियं एयं साहूण उच्चइसंताणं । को व ण जंपह् अलियं भणामि एयं विमूढ-मणो ॥
- 12 साहंति मज्ज गुरुओ पर-द्वं णेय धेप्यए किंचि । एवमहं पडिभणिमो सहोयरो कथ मे द्वं ॥ 12
- साहंति साहुओ मे पर-लोय-विरुद्धं पर-कल्लं । हा हा तय कहंतो पर-लोओ केरिसो होइ ॥
- जइ णे भणंति गुरुओ परिग्गहो णेय कीरण गुरुओ । ता कीस भणामि अहं ण सरइ अहं विणा इमिणा ॥
- 15 जइ णे भणंति साधू मा हु करे एत्तियं महारंभं । ता कीस अहं भणिमो कह जियउ कुडंबयं मज्ज ॥ 15
- संपह तं कथ गयं रे जीव कुडंबयं पियं तुज्ज । जस्स कए अणुदियहं एरिस-दुक्खं कयं पावं ॥
- तहया भणंति गुरुओ मा एए णिहण संवर-कुरंगे । पडिभणिमो मूठप्पा फल-साग-सरिच्छया एए ॥
- 15 इय चिंतंति ताहिं चिय रण-भेत्तं के वि पत्त-सम्मत्ता । गुरु-दुक्ख-समोच्छइया अवरे एयं ण चाएंति ॥ 18
- अह ताण तकरणं चिय उद्धावइ चण-दवो धमधमेत्तो । पवणाइइ-कुडंगो दहिउं चिय तं समाढत्तो ॥
- अह तय दज्जामाणा दूमइ-जालोडि-संवलिय-गत्ता । सत्ता वि सउम्मत्ता भमंति णरयम्मि दुक्खत्ता ॥ अवि य ।
- 21 सर-कंठ-समागम-भीसणए दुसहाणल-जाल-समाउलए । रुहिरारुण-पूय-वसा-कलिए सययं परिहिंडइ सो णरए ॥ 21
- इय दुप्प-परंपर-दूसहए रण-भेत्तं ण पावइ सह सुहए । कय-दुक्कय-कम्म-विमोहियया भम रे सुह-वज्जिययं जियया ॥
- सच्च-थोवं काल दस-वाम-सहस्साइं पढमए णरए । सच्च-बहुं तेत्तीसं सागर-णामाण सत्तमए ॥
- 24 एयं च एरिसं भो दिट्ठं वर-णाण-दंसण-धरेहिं । तं पि णरणाह अण्णे अलियं एयं पयंपंति ॥ 24
- § ७८) अण्णे भणंति मूढा सरगो णरओ व्व केण भे दिट्ठो । अवरे भणंति णरओ वियद्व-परिकप्पिओ एसो ॥
- जे चिय जाणंति इमं णरयं ते चेय तय वचंति । अह्हे ण-याणिमो चिय ण वच्चिमो के वि जंपंति ॥ 27
- 27 अण्णाणं अण्णाणं ण-याणिमो को वि एस णरओ त्ति । अवरे भणंति अवरा जं होही तं सहीहामो ॥
- संसार-णगर-कयवर-सूयर-सरिसाण णत्थि उव्वेओ । किं कोइ डोंब-डिंभो पडहय-सहस्स उत्तसइ ॥
- अणुदियहम्मि सुणेंता अवरे गेण्हंति णो भयं धिट्ठा । भेरी-कुलीय पारावय व्व भेरीए सदेणं ॥ 30
- 30 णरय-गइ-णाम-कम्मं अवरे वंचंति णेय जाणंति । ता ओदिसंति मूढा अवरे जस्सोवरिं रोसो ॥
- अवरे चिंतंति इमं कल्लं विरमामि अज्ज विरमामि । ताव मरंति अउण्णा रहिया ववसाय-सारेणं ॥
- दे विरम विरम विरमसु पावारंभाओ दोग्गइ-पहाओ । इय विलवंताणं चिय साहूणं जंति णरयम्मि ॥ 33
- 33 ता णरणाह सयण्णो जो वा जाणाइ पुण्ण-पावाइं । जो जाणइ सुंदर-मंगुलाइं भावेइ सो एयं ॥
- णरए णेरइयाणं जं दुक्खं होइ पच्चमाणाणं । अरहा तं साहेज्ज व कत्तो अम्हारिसा मुक्खा ॥

1 > J कुत for तोमर, P पूर for पूय, P om मुत्त, P अग्निगाला, P नियरे for णिवहे 3 > P गुहाभिमुहं वायंतरयं च धोर- 4 > J भीता P भीया 5 > P \*यगवंगी, J पिस्संते, P सालिपिड 6 > P सुयणेहिं for सउणेहिं 7 > P तहं मि वे खज्जता अच्छिविअच्छक्खरं, P वज्जकुडंगेसु पइसंति ॥ वज्जकुडंगपविट्ठा खणमेत्त तय किंचि चिंतंति । 8 > P अहा for अहो, J धम्मेहिं for मंभेहिं 9 > P तत्तो for तहओ 10 > P सघाय, J विसयाविस, P सते 11 > P मूढ for एयं 12 > P om. ए किंचि, P सहोअर 13 > P om. पर, P भणामो for कहंतो 14 > P नो for ने, P परिग्गओ, J गरुओ, P तरइ for सरइ 15 > P णो for ने, P साहू साहुकारे, P जियइ 17 > P सायरससिच्छया एते 18 > P चिंतंति, P गुरुदत्तसमो- एतेच्छ, P चायति 19 > P उव्वावइ. 20 > P \*माणो, P संपलित्तगा, P निरयमि 21 > J हीसणए P भीसणाए, J पूयसमा P पूहवसा. 22 > P पाविय, P भमिरे, P वज्जिय जं 23 > P थोय, P सहस्साइ मं. 24 > J परिसो, P दिट्ठि, P नारनाइ, P एयं ति जंपंति 25 > J वियद्वपरियप्पिओ. 26 > P बुच्चंते. 27 > P होहि त्ति तं. 28 > P नयर, P repeats कयवर, P उव्वेवो, P के वि for कोइ, P पडिहयसइसउव्वियइ 29 > J दइहा for धिट्ठा, P कुलाय पारावइ व्व भीरीय सदेण 30 > J गइ, P ता for ताओ, J अइसंति P उइसउ, J ज्जस्सोवरी P जस्सावरि 31 > P चिंतंति इमो, P विरमामि सकयसंकेया, P ववसारेयसारेण 32 > P om. विरम 33 > J जे वा जाणति, P जो जीणइ, P सो एव 34 > P जु for ज, P मुक्का.



- 1 § ७९) कह-कह वि आउयने उच्चट्टो किञ्चि-मेत्त-कम्म-मलो । पडसह निरिक्ख-जोणि मणुओ वा जो ढम कुणह ॥ 1  
 तव-भग-सील-भंग काम-रड-राग-लोह-कूडत्त । कूड-तुल-कूड-माण कूड टंफं च जो कुणह ॥
- 3 पसु-महिस-दास-पेसा जे थ किलिस्सति दुक्ख-तण्हत्ता । पर-लोय-णिरावेक्खा लोय खाणुति दुस्सीला ॥ 3  
 एणु सच्चे मरिउ अकय-त्वा जति तिरिय-जोणिमि । तिरियाणुपुच्चि-रज्ज-कट्टिजंता वडल्ल च्व ॥  
 तत्थ तस-थावरत्ते संपुण्णापुण्ण-थूल-सुहुमत्ते । वियलेडिय-पंचडिय-जोणी-मेणु बहु-वियप्पे ॥
- 6 जल-जलणाणिल-भूमी-वणस्सइं चेष थावरे पच । विय-तिय-चउ-पंचडिय-भेणु य जगमे जाण ॥ 6  
 दुवय-चउप्पय-भेया अपयापय-संकुला चउ-वियप्पा । पसु-पक्खि-सिगीसिव-भमर-महुयराइं बहु-वियप्पा ॥  
 जल-थल-उभय-चरा वि य गयण-चराइं य हॉति बहु-भेया । णरणाह किञ्चि सोक्ख इमाण सच्चं पुणो दुक्ख ॥
- 9 खोड्डण-खणण-विदारण-जलण-तह-दमण-वध-मोडेहि । अवरोप्पर-सत्थेहि य थावर-जीवाण त दुक्खं ॥ 9  
 छिज्जति वणस्सइणो वरु-कुहाडेहिं णिहय-जणेण । लुच्चंति ओमहीओ जोच्चण-पत्ता दुहत्ता थ ॥  
 झुच्चंति कडयडते उयणु जीवा उ वीय-जोणिमि । मुसुमृग्गिज्जति तहा अवरे जत-प्पओरणेण ॥
- 12 णिहय-समत्थ-उद-वाहु-उद-पच्चिद-अमि-कुहाडेहिं । णरणाह तरुयरेत्ते बहुसो पल्लवियओ रणेण ॥ 12  
 खर-पवण-वेय-पच्चिद-नारुय-साला-णमत-भारेण । भग्गो वणम्मि बहुसो कडयड-सह करेमाणो ॥  
 पज्जलिय-जलण-जाला-कराल-उज्जत-पत्त-पट्ठभारो । तडतडतडस्य डड्ढो णरवड बहुसो वण-उथेण ॥
- 15 कथ्यइ वज्जामणिणा कथ्यइ उम्मल्लिओ जल-रपण । वण-करि-करेण कथ्यइ भग्गो णरणाह रुक्खत्ते ॥ 15
- § ८०) गतूणमचाणुतो लोलतो कट्टिण-वरणिवट्टम्मि । कथ्यइ टस त्ति खड्धो दुहडियत्तम्मि पक्खीहिं ॥  
 खर-णर-करह-पसूहि य रह-सयड तुग्ग-कट्टिण-पाणुहि । विट्ठि-विट्ठो नेहडियणुसु बहुसो णिसुट्ठो ह ॥
- 18 उरग-भुयगम-कुक्कुड-सिहि-सउण-सणुहिं असण-कज्जम्मि । विलवतो च्चिय खड्धो सहसाहुत्तो भय-विमण्णो ॥ 18  
 खर-दिणयर-कर-मंताव-मोसिणु तणुय-विरय-जवाले । मच्छत्तणम्मि बहुसो कायल-सउणेहिं खड्धो ह ॥  
 बहुसो गलेण विट्ठो जाल-परट्ठो तरग-आहट्ठो । जलयर-सणुहिं खट्ठो वट्ठो पावेण कम्मेण ॥
- 21 मयर-खर-णहर-दाविय-निकरग-कराल-उंत-करवत्ते । कथ्यइ विसमावत्ते पत्तो णिय-कम्म-सतत्तो ॥ 21  
 कथ्यइ अहि त्ति डुट्ठं मारे-मारेह पाव-पुग्गिसेहि । खर-पत्थर-पहरेहिं णिहओ अकयावराहो वि ॥  
 कथ्यइ सिहीहिं खड्धो कथ्यइ णउलेहिं संड-उड-कओ । ओमहि-गट्ठाहट्ठो वट्ठो मतेहिं उरयत्ते ॥
- 24 णिट्ठर-वव-चवेडा-फुड-णहर-विदारिओ मओ रणेण । महिमत्तणम्मि कथ्यइ गुरु-सूह-भार-दुक्खत्तो ॥ 24  
 हरि-खर-णहर-विदारिय-कुभत्थल-सगलंत-रुहिरोहो । पडिओ वणम्मि कथ्यइ पक्खि-वलुत्तो मउणणुहिं ॥  
 गुरु-नाहिर-पक्खुत्तो सरवर-मज्झम्मि दिणयर-परट्ठो । ताव ताहिं चिय सुक्को तावस-थेरो व्व जुण्ण-गओ ॥
- 27 कथ्यइ वारी-वट्ठो वट्ठो घण-लोह-सकल-सणुहिं । तिक्खुकुस-वेलु-पहार-त्तज्जण विसहिय बहुसो ॥ 27  
 सहभारारोहण-णिसुट्ठियस्स रणेण वडल्ल-रुक्खस्स । जीय-सणाहस्स वि कोल्लुणुहिं मासं महं खड्धय ॥  
 कथ्यइ विसमावडिओ मुसुमूरिय-मधि-वधणो दुहिओ । तण्हा-दुहा-फिल्लतो सुग्गिज्जण मओ अकय-पुण्णो ॥
- 30 कथ्यइ णंगल-जुत्तो सयड-धुरा-धरण-जूरण-पयत्तो । तोत्तय-पहर-परट्ठो पडिज्जण टिओ नहि चेष ॥ 30  
 उहणंक्कण-वधण-ताडणाहं वह-छेज्ज-गत्थणाह च । पसु-जम्मसुवगणुण णरवड बहुसो वि सहियाइं ॥  
 हरिणत्तणम्मि तक्खण वियायइं-मय-त्तगं पमोत्तण । सावय-सहम्म-पउरे वणम्मि त्रिवलाहय बहुसो ॥
- 33 कथ्यइ य जाय-मेत्ते मुहत्तणणुण जणणि-परिहीणो । उद-कोडडायद्विय-वाण वाहं समल्लीणो ॥ 33

1 > P कह व आउणंते, P पडसति, P जोणी, J ज for जो, P कुणण 2 > P कामरती, P कुट्टन 3 > J ले किलिम्मनि P जोड किलेसेद, P निगपेक्खा, P खायनि 4 > J तिरियाणुपुच्चि-रज्जा 5 > P थावरत्तो ते पुत्रापुत्र 6 > P वेय for चेष, J विद, P भेणण for मेण य 7 > P दुप्पय, J अपयापय, P सिगीसिवभमरामहुयरवहुविहवियप्पा । 8 > P गयणचरा चेष 9 > P खोड्डण, P विदारणजलणतहधमण 10 > P °स्मट्ठो कुहाडिवाणण निहय, P लुच्चति, P वि for य 11 > P कडकडते उट्ठ जीवा तु वीय 12 > J पच्चिद, P सिव for असि 13 > P पच्चिद, P साला निमतमावेण 14 > P डड्ढो 15 > J रथेण, P करकरेण 16 > P °चायंतो, P वसत्थि for टस त्ति, J विट्ठिय नम्मि 17 > P गहण 18 > P om भुयगम, P विवणात्तो खड्धो 19 > J विवर for विरय, P जट्ठो, P काइल- 21 > P दारिय for दारिय 23 > P ओमहि गवाट्ठो, P उररत्ते 24 > P विदारिओ, P मार for मार 25 > J कर for कर, P विदारिय, P पत्थिवजुत्तो 26 > P उरुयण° 27 > P कथ्यइ वीगवथो, P तिक्खुकुमावलपहार, P तिमहिउ पयमो 28 > P मय for मट् 29 > J अम्मिज्जण for सुग्गिज्जण 30 > P नगलहुजुत्तो, P चेष for चेष 31 > P नहा for नह 32 > P हरित्तणमि, J त्रिवायमयत्तणाय, P नयत्तय, P विवट्ठा हओ 33 > P om य, P कोयटा, P वावाह

- 1 णवर परिस-सुक्खयं मणुयत्तणयं पि णाम जीवाण । वीसमउ कथ हिययं वायस-सरिसं समुद-मज्झम्मि ॥ 1
- 2 एको मुहुत्त-मेत्तं सम्भ-त्थोवं तु भुंजए भाऊ । पहाइँ तिणिण पुरिसा जिथंति उक्कोस-भावेण ॥
- 3 तम्हा देवत्तणयं इमेहिँ कम्महिँ पावए मणुओ । तिरिओ व्व सम्मदिट्ठी सुर-णारइया ण पावेंति ॥ 3
- जल-जलण-तट्ठीवडणं रज्जु-विस-भक्खणं च काऊणं । कारिसि-वाल-त्तवाणि य विविहाइँ कुणंति मूढ-मणा ॥
- 4 म्पीठण्ह-सुपिपासाय सकाम-अकाम-णिज्जराए य । मरिऊण होंति देवा जइ सुद्धा होंति भावेण ॥
- 5 जे उण सणियाण-कदा माया-मिच्छत्त-सल्ल-पडिवण्णा । मरिऊण होंति तिरिया अट्टज्जाणम्मि वट्टंता ॥ 6
- तथ्य वि वंतर-देवा भूय-पिसाया य रक्खसा अवरे । जे मणुयाण वि गम्मा किंकर-णर-सरिसया होंति ॥
- सम्मत्त-वद्ध-मूला जे उण विरया च देस-विरया वा । पंच-महच्चय-धारी अणुव्वए जे य धारेंति ॥
- 7 कम्म-मल-विमुक्काणं सिद्धाणं जे कुणंति वंदणयं । पूयं अरहंताणं अरहंताणं च पणमंति ॥ 9
- पंचायार-रयाणं आयरियाणं च जे गया सरणं । सुत्तत्थोज्जायाणं उज्जायाणं च पणमंति ॥
- सिद्धि-पुरि-साइयाणं संजम-जोएहिँ साहु-करणणं । पयइँए साहूणं साहूणं जे गया सरणं ॥
- 12 ते पुरिस-पोडरीया देहं चइऊण कलमलावासं । दिव-लोय-विमाणेसुं मणहर-रूवेसु जायंति ॥ 12
- चल-चवल-कोडल-धरा पलंय-वण-माल-रेहिर-सरीरा । वर-रयणाहरण-धरा हवंति देवा त्रिमाणम्मि ॥
- ताण वि मा जाण सुहं सययं णरणाह कामरूवीणं । होइ महंतं दुक्खं देवाण वि देव-लोयम्मि ॥
- 15 जे होंति णाडइहा गोत्ता तह किंकरा य पडिहारा । भिच्चा भडा य भोजा अभिओगाणं इमं दुक्खं ॥ 15
- अइतिकर-कोडि-धारा-फुरत-जालावली-जलायंतं । तं एरिस-वज्जहरं वज्ज हरंते सुरा दइँ ॥
- पच्छायाव-परद्धा हियएण इमाइँ णवरि चिंतेंति । हा हा अहो अकज्जं विसयासा-मोहिएण कयं ॥
- 18 जइ तइया विरमंतो अत्रिराहिय-संजमो अहं होंतो । इंदो व्व होज्ज इहइं इंद-सरिच्छे व्व सुर-राया ॥ 18
- अव्यो संपइ एसो किंकर-पुरिसो इमाण हं जाओ । तव-सरिसं होइ फलं साहू सच्चं उवइसंति ॥
- सरिसाण य सम्मत्तं सामणं सेविंयं समं अट्टे । अज्जवसाय-गुणेण एसो इंदो अहं भिच्चो ॥
- 21 विसयासा-मोहिय-माणसेण लद्धे जिणिंद-वयणम्मि । ण कओ आयर-भावो सुक्को एयं विसय-सोक्खं ॥ 21
- बहु-काल-संचिओ मे जो वि कओ संजमो बहु-वियप्पो । सो वि अकारण-कुविएण णासिओ णवर मूढेण ॥
- लोए पूया-हेउं दाण-णिमित्तं च जो तवो चिण्णो । सो धम्म-सार-रहिओ मुस-सरिसो एरिसो जाओ ॥
- 24 तडि-जलण-वारि-मरणे बाल-तवे अज्जियं च जं धम्मं । तं कास-कुसुम-सरिसं अवहरियं मोह-वाएण ॥ 24
- स च्चिय संजम-किरिया तं सीलं भाव-मेत्त-परिहीणं । तं कीड-खइय-हिरिमिंथ-सच्छहं कह णु णीसारं ॥
- विउह-जण-णिंदिएसुं असार-तुच्छेसु असुइ-पउरेसु । खण-भंगुरेसु रज्जइ भोएसु विडंबण-समेसु ॥
- 27 जीवो उण मणुयत्ते तइया ण मुणेइ विसय-मूढ-मणो । जइ एयं जाणंतो तं को हियएण चिंतंतो ॥ 27
- इय ते किंकर-देवा देवे दट्टूण ते महिइीए । चिंताणल-पज्जलिया अंतो-जालाहिँ उज्जंति ॥
- § ८४) जे तथ्य महिइीया सुरवइ-सरिसा सुरा सुकय-पुण्णा । छम्मास-सेस-जीविय-समए ते दुक्खिया होंति ॥
- 30 कुसुमं ताण मिलायइ छाया परिमलइ आसणं चलइ । विमणा य वाहणा परियणो य भाणं विलंघेइ ॥ 30
- एरिस-णिमित्त-पिसुणिय-चवणं णाऊण अत्तणो देवो । भय-वुण्ण-दीण-वयणो हियएण इमाइँ चितेइ ॥
- हा हंस-गब्भ-मउए देवंग-समोत्थयम्मि सयणम्मि । उववज्जिऊण होहिइ उप्पत्ती गब्भ-वासम्मि ॥
- 33 वियसिय-सयवत्त-समे वयणे दट्टूण तियस-विलयाणं । हा होहिइ दट्टव्वं थुडुक्कियं पिसुण-वग्गस्स ॥ 33
- तामरस-सरस-कुवल्लय-माले वावी-जलम्मि णहाऊण । हा कह मजेयव्वं गाम-तलाए असुइयम्मि ॥

1 > J जीवयाण 2 > J मेत्तयं, P त्थोयं, P आउ. 3 > P सुरनेरइया न पावति 4 > J तवावि य 5 > J वासाअस-  
कामसकामाणि° P वासाअकामसकाम, P हियएणं for भावेण. 6 > P सल्लपरिमित्ता । 7 > P भूया य पिसाय रक्खसा. 8 >  
P विरियव्व, P धारति 9 > P विप्पमुक्का जे सिद्धाणं कु°. 10 > P उवज्जायाणं 11 > P पुरसाययाणं 12 > P पोडराया, P  
J रूपसु 13 > P धण for वण 14 > P सययय नरनाह कामरूवाण, P लोणंमि 15 > P अभिययाणं 16 > P अति-  
त्तिक्ख, P जल्यल्लेत 17 > P चिंतति, J विसयाविसमो°. 18 > J गिरिस्संको for विरमतो, P मह for अहं 20 > J सामणुं-  
21 > J माओ 23 > P पूयाहिउं, P तुस for मुस 24 > P तडिजालानलमरणे 25 > J हिरिमिच्छ P हिरिमिंथ, P णु निस्सारं  
27 > P जीवो पुण, P मोह for विसय 28 > P पज्जलिए, P उज्जल for अंतो 29 > P तो for जे, P महिइीया. 30 >  
P परियणा 31 > P चलण for चवण, J भयदीणपुण्णवयणो P भयनुत्तदीणविमणो 33 > P सिय for सय, P वियलाणा  
for विलयाण, P थुडुक्कियं. 34 > P मालो वावी-

- 1 मंदार-पारियायय-वियसिय-णव-कुसुम-गोच्छ-वैचहृष्ट । वसिउं दिव्वामोए हा कह होह असुह-गघो ॥ 1  
फालिय-मणि-णिम्मविए जलंत-वेरुलिय-मडिए भवणे । वसिऊणं वसियव्वं जर-कडय-कए उडय-वासे ॥
- 3 तेलोक्क-तुंगा-चिंता-दुमे व्व णमिऊण जिणवरे एत्थ । णूण मए णवियव्व मूढाणं अण्ण-पुरिसाणं ॥ 3  
वित्थय-णियंब-पुलिणे रमिउं हसो व्व तियस-विलयाण । हा मणुय-लोय-पत्तो होहं महिलो कुमहिलो व्व ॥  
वर-पोमराय-मरगय-ककेयण-रयण-रासि-विक्खित्तो । णूण किविणो घेच्छं वराडिय धरणिवट्ठाओ ॥
- 6 गधव्व-ताल-तंती-संवलय-मिलत-महुर-सडेण । वुज्झंतो होही सो संपइ खर-णिट्टर-सरेहिं ॥ 6  
सुर-सेलम्मि पयासं जिण-जम्मण-मगलम्मि वट्ठंते । त तत्थ णच्चियं मे त केण ण सलहिय बहुसो ॥  
हा दिणयर-कर-परिमास-वियसियं वुक्क-सरिस-मुह-सोह । सुरगिरि-सिर-मउड सम कइया उण जिणवर दच्छं ॥
- 9 दर-दलिय-कुवलउप्पल-विसट्ट-मयरद-विंदु-संदुमिय । धण-जुयलं हो सुर-कामिणीण कइया पुणो दच्छ ॥ 9  
तियसिंद-विलासिणि-पणय-कोव-पविद्ध-कमल-राहलं । पउम-महापउमाइसु दहेसु मह मज्जण कत्तो ॥  
तं णवर खुडइ हियए जं तं णदीसरे जिणिद-महे । तीय महं पेसविया दिट्ठी धवलुज्जल-विलोला ॥
- 12 सुंदरयर-सुर सय-संकुले वि रगम्मि णच्चमाणीए । सहि-वयण-णिवेसिय-लोयणाए तीए चिर दिट्ठो ॥ 12  
समवसरणम्मि पत्तो विविह-विणिम्मविय-भूसणावयवो । सुरलोय-णिमिय-लोयण-धवलुज्जल-पम्हल दिट्ठो ॥  
हा सुर-णरिंद-गंदण हा पडय रुह-भद-सालवण । हा वक्खार-महागिरि हिमवंत कहिं सि दट्ठवो ॥
- 15 हा सीए सीओए कंचण-मणि-घडिय-तीर-तर-गहणे । हा रम्मय धरणीहर फुरत-मणि-कचण-धराण ॥ 15  
हा उत्तर-देव-कुरु हा सुर-सरिए सरामि तुह तीरे । रयणायर-दीवेसुं तुज्झं मे कीलियं बहुसो ॥  
इय विलवंतो च्चिय सो थोवथोव गलंत-कंतिलो । पवणाहओ व्व दीवो क्षत्ति ण णाओ कहिं पि गओ ॥ अवि य ।
- 18 एवं पलावेहिं दुह जणंतो, पासट्टियाणं पि सुराण णिच्च । वज्जासणी-घाय-हओ व्व रुक्खो, पुण्णक्खए मच्चु-वस उवेह ॥ 18  
दस वास-सहस्साइ जहण्णमाउं सुराण मज्झम्मि । उकोसं सव्वट्ठे सागर-णामाहं तेत्तीस ॥  
§८५) तओ भो भो पुरदरदत्त महाराय, ज तए चिंतियं 'एयस्स मुणिणो सयल-रूव-जोव्वण-विण्णाण-लायण्ण-
- 21 संपण्ण-सफल-मणुय-जम्मस्स वि किं पुण वेरगं, जेण एयं एरिसं एयत-दुक्खं पव्वज्ज पवणो' त्ति । ता किं इमं पि एरिसं 21  
संसार-दुक्ख अणुहविऊण अण्ण पि वेरग-कारणं पुच्छिज्जइ त्ति ।  
णरणह सव्व-जीवा अणतसो सव्व-जाइ-जोणीसु । जाया भया य बहुसो बहु-कम्म-परपरा-मूढा ॥
- 24 एय दुह-सय-जलयर-तरग-रगत-भासुरावत्त । ससार-सागर भो णरवर जइ इच्छसे तरिउं ॥ 24  
भो भो भणामि सव्वे एयं ज साहिय मए तुज्झ । सइहमाणेहिं इमो उवएसो मज्झ सोयव्वो ॥ अवि य ।  
मा मा मारसु जीए मा परिहव सज्जणे करेसु दयं । मा होह कोवणा भो खलेसु मेत्तिं च मा कुणह ॥
- 27 अलिए विरमसु रमसु य सच्चे तव-संजमे कुणसु रायं । अदिण्णं मा गेण्हह मा रजसु पर-कलत्तम्मि ॥ 27  
मा कुणह जाइ-गव्वं परिहर दूरेण धण-मयं पावं । मा मज्जसु णाणेण बहु-माण कुणह जह-रूवे ॥  
मा हससु पर दुहियं कुणसु दयं णिच्चमेव दीणम्मि । पूएह गुरुं णिच्चं वंदह तह देवए इट्ठे ॥
- 30 संमाणेसु परियणं पणइयणं पेसवेसु मा विमुहं । अणुमण्णह मित्तयण सुपुरिस-मगो फुडो एसो ॥ 30  
मा होह णिरणुकंपा ण वंचया कुणह ताव संतोसं । माण-थय्दा मा होह णिक्खिवा होह दाण-परा ॥  
मा कस्स वि कुण णिंदं होज्जसु गुण-गेण्हणुज्जओ णिययं । मा अप्पयं पसंसह जइ वि जस इच्छसे धवलं ॥
- 33 बहु-मण्णह गुण-रयणे एकं पि कयं सयं विचित्तेसु । आलवह पढमयं चिय जइ इच्छह सज्जणे मेत्तिं ॥ 33  
पर-वसणं मा णिंदह णिय-वसणे होह वज्ज-घडिय व्व । रिद्धीसु होह पणया जइ इच्छह अत्तणो लच्छी ॥

1 > P चिचइए, P वसिओ 2 > J तडय for उडय 3 > P om तुग, P नमियव्व, P अन्नदेवाण ॥ 4 > J होहम for होह  
5 > P पउम for पोम, P ककेयण, P किमिणो पेत्थ वडाणिय 6 > P वोहिस्स for होही सो 7 > P साहिय for सलहिय  
8 > P दाहिणकरपरि° for हा दिणयरकरपरि°, P मुहहोह, P om सिर, P सम से कइयाओ जिणवरिंदत्थे । 9 > P दरि for दर  
P मिंदु° for संदु°, P om हो, P सुर वरकामि° 10 > J दूहेसु मह मज्जण 11 > P नरवर for णवर, P मह for महे 12 > P  
om सुरसय, P नच्चमाणीओ, P निमेसिय 13 > J °लोयणिम्मिय 14 > P नदण for णरिंद, J नदण पडय तरुक्कभूद-  
सालवणे 15 > J सीतोदे, P धरणियरा सोहियफुट्टकचण 16 > P तुज्झ मए कीलिय 17 > P थोवथोव, P चि for पि  
18 > P °दुह जुणंतो, J वज्जासणि, P रुस्तो पुणक्खए वच्चुवस 20 > P पुरदरयत्त 21 > P पण्णा for सपण्ण, J सफलजम्म-  
मणुयस्स वि, P वेरय for वेरग, P पत्त for एय, P प्पवन्नो त्ति । तो किं 22 > P अणुमविऊण अत्तमि वे° 24 > P तुरग,  
for तरग, P तो for भो 25 > J स for ज, J तुव्व for तुज्झ, P मज्ज for मज्झ 26 > P मारेसु जिए, P कोहणाहो खलेहि.  
27 > P तह for तव, P अगिन्न for अदिण्ण 28 > P माणेण बहुमाय मा कुणसु रूवे for the 2nd line 29 > P पय for  
परं, J दय णिच्च णिच्च दी°, P गुरु for गुरु 30 > J फुड for फुडो 31 > JP -थय्दा 32 > J कस्सइ कुण णिंदं होज्ज गुण, P  
गेण्हसु जुओ, P इइ सि for जइ वि 33 > P मण्णय for मण्णह, P पि चित्तेसु for चित्तिंतेसु 34 > P लच्छि ।

- 1 अहियह धम्म-सीलं गुणेषु मा मच्छरं कुणह तुब्भे । बहु-सिक्खिए य सेवह जइ जाणह सुंदरं लोए ॥ 1
- 2 मा कहुयं भणह जगे महुरं पडिभणह कहुय-भणिया वि । जइ गेण्हिऊण इच्छह लोए सुहयत्तण-पढायं ॥ 2
- 3 हासेण वि मा भणणउ णवरं जं मम्म-वेहयं वयणं । सचं भणामि एत्तो दोहगं णरिथ लोयम्मि ॥ 3
- 4 धम्मभिम कुणह वसगं राधो सत्थेसु णिउण भणिएसु । पुणरुत्तं च कलासुं ता गणणिज्जो सुयण-मज्जे ॥ 4
- 5 इय णरवइ इह लोए एयं चिय णूण होइ कीरतं । धम्मत्थ-काम-सोक्खाण साहयं पुरिस-कजाणं ॥ 5
- 6 ता कुणसु आयरं भो पढमं काऊण जं इमं भणियं । तत्तो सावय-धम्मं करेसु पच्छा समण-धम्मं ॥ 6
- 7 ता कलि-मल-सयल-कलंक-वज्जिओ विमल-गाण-कंतिल्लो । वचिहिसि सिद्धि-वसही सयल-किलेसाण वोच्छेयं ॥ 7
- 8 जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो पेय सव्व-दुक्खाइं । तिहुयण-सोक्खाण परं णवरं पुण अणुवमं सोक्खं ॥ अवि य । 8
- 9 मंसारे दूर-पारे जलहि-जल-समे भीसणावत्त-दुक्खे, अचंतं-वाहि-पीढा-जर-मरण-मयावद्ध-दुक्खाइ-चक्के । 9
- मज्जताणं नियाणं दुह-सय-पउरे मोह-मूढाण ताणं, मोत्तुं तं केवलं भो जिणवर-वयणं णरिथ हत्थावलंबो ॥' ति
- 10 (८६) एत्थंतरम्मि कहुतरं जाणिऊण आवद्ध-करयलजलिणा पुच्छिओ भगवं धम्मणंदणो वासव-महामंतिणा, भणियं 10
- 12 च णेण । 'भगवं, जो एस तए अम्ह एयंतं-दुक्ख-रूवो साहिओ चउ-नाइ-लक्खणो संसारो, एयस्स पढमं किं णिमित्तं, जेण एए 12
- जीवा एयं परिभमंति' ति । भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेण । 'भो भो महामंति, पुरंदरदत्त महाराय, णिसुणेसु, संसार-परि- 12
- भमणस्स जं कारणं भणियं तेलोष-बंधूहिं जिणवरेहिं ति ।
- 15 कोहो य माणो य भणिग्गहीया, माया य लोहा य पवइमाणा । चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाइं पुणवभवस्स ॥ 15
- 16 अण्णाणंधो जीवो पडिबज्जइ जेण विसम-दोग्गई-मग्गे । मूढो कजाकजे एयाणं पंचमो मोहो ॥ 16
- तत्थ कोहो णाम जं केणह अवरदे वा अणवरदे वा मिच्छा-वियप्पेहिं वा भावरयंतस्स परस्स उवरिं बंध-वाय-कस-च्छेय-
- 18 तज्जाणा-भारणाइ-भावो उववज्जइ तस्स कोहो ति णामं । जो उण अहं एरिसो एरिसो ति तारिसो ति य जाइ-कुल-वल-विजा- 18
- धगाइंहिं एसो उण ममाहमो किं एयस्स अहं विसहामि ति जो एरिसो अज्जवसाओ अहं ति णाम सो माणो ति भणणइ ।
- जो उण इमेणं पओगेणं इमेण वयण-विण्णाणेणं इमेणं वियप्पेणं एयं पर वंचेमि ति, तं च सक्कारणं णिक्कारणं वा, सव्वहा
- 21 वंचणा-परिणामो जो एसो सव्व-संसारे माया माय ति भणणइ । जो उण इमं सुंदरं इमं सुंदरयरं एयं गेण्हामि इमं ठावेमि 21
- एयं रक्खामि ति सव्वहा मुच्छा-परिणामो जो सो लोहो ति भणणइ । तत्थ जो सो कोवो सो चउप्पयारो सव्वण्णूहिं भग-
- वंतोहिं परुविओ । तं जहा । अणंताणुबंधी, अप्पच्चक्खाणवरणो, पच्चक्खाणावरणो, संजलणो चैय । तत्थ य
- 24 पव्वय-राइ-सरिसो पढमो वीओ उ पुढवि-भेय-समो । वालुय-रेहा तइओ होइ चउत्थो य जल-रेहा ॥ 24
- पव्वय-राइ-सरिच्छो कोवो जम्मे वि जस्स जो हवइ । सो तेण किण्ह-लेसो णरवर णरयं समल्लियइ ॥
- खर-पुढवी-भेय-समो संवच्छर-मेत्त-कोह-परिणामो । मरिऊण णील-लेसो पुरिसो तिरियत्तणे जाइ ॥
- 27 वालुय-रेहा-सरिसो मास-चउक्केण कोह-परिणामो । मरिऊण काउ-लेसो पुरिसो मणुयत्तणमुवेइ ॥ 27
- जल-रेहा-सारिच्छा पुरिसा कोहेण तेउ-लेस्साए । मरिऊण पक्ख-मेत्ते अह ते देवत्तणमुवेत्ति ॥
- माणो वि चउ-वियप्पो जिणेहिं समयम्मि णवर पण्णविओ । णामेहि पुव्व-भणिओ जं णाणत्तं तयं सुणह ॥
- 30 ण णमइ सेलत्थंभो ईसिं पुण णमइ अरिथओ थंभो । कह-कह वि दारु-घडिओ सवसो च्चिय होइ वेत्तमओ ॥ 30
- सेलत्थंभ-सरिच्छेण णवर मरिऊण वच्चए णरए । किंचि पणामेण पुणो अट्ठिय-थंभेण तिरिएसु ॥
- दारुय-थंभ-सरिच्छेण होइ माणेण मणुय-जम्मम्मि । देवत्तणम्मि वच्चइ वेत्तलओ णाम सम-माणो ॥
- 33 माया वि चउ-वियप्पा वंस-कुडंगी य मेंढग-विसाणा । धणुओरंप-सरिच्छा ईसिं वंकाउ गप्पडिया ॥ 33

1 > P अअज्झिहिय for अहियह, P ह for य before सेवह 2 > P जण for जणे, P पढाय. 3 > P व for वि, P नरवर  
जं. 5 > P नरवर for णरवइ, J चिय होइ णूण कीरतं, P साहसं for साहयं 6 > P तो for भो, P जइ for ज. 7 > P  
वसइ for वसही 8 > P वाहिणा पेय, P तहुयणसोक्खाउ पर 9 > P जलहिसममहाभी, P मयाणेकृत्तिक्खाइ. 10 > P ते for त.  
11 > P om. कहतर, J भयव 12 > P एसो for एस, J om. अम्ह, P om. एयत, P लक्खण, J एएण for एए 13 > J om.  
एयं, P पुरंदरयत्त, P परिभवणस्स 14 > P बंधू for बंधूहिं, P om. 'हिं जिणवरेहिं etc. to अणवरदे वा 15 > J अणिग्गहीया.  
17 > P वधवायतज्जणमा 18 > P कोवो for कोहो, P om. ति तारिसो ति 19 > J कीस for किं, P om. अह, J विसहामि P  
विसहामो, J एरिस अज्जवसाओ सो माणो 20 > P जो पुण, P वयणभिन्नासेण, P एयं परवंचमिच्छि 21 > P सा for जो एसो,  
JP ससारमाया, P इम न सुंदर इम च न सुंदर एयं, P ठावेमि इम न देमि एयं 22 > P लोभो, J om. भगवतेहिं 23 > J  
अप्पच्चक्खाणो, P om. तत्थ य 24 > P विइओ, J adds उ later, J पुढवीभेय, J जलरेहो 25 > राइ for राइ, P जस्स  
नो घडइ 26 > P तिरियत्तण, J जाइ P जायइ. 27 > P सरिसा सास, P परिणामा, P कोउलेसा, P मणुयत्तणे जति । 28 >  
J जलरेहासरिसो उण पुरेसा कोहेण तउ तेउ, P-सारिच्छा कीलंतपणइ कोवसम्भावो । मरिऊण तेउलेसा पुरिसा देवत्तणे जति । 29 >  
P नामेण for णामेहि, J णाण तं for णाणत्त 30 > P उण for पुण 31 > P उणो for पुणो 32 > P दारुयं, J  
सममाणे. 33 > P मेंढगवसाणा, P धणुउरंवसरिच्छा ईसिं च काउ खप्पडिया, J सरिच्छो ईसी

- 1 वंस-कुडगो भइवंक-त्रलिय-समाशौ अवस्स णरयम्मि । जाह निरिणुसु णवर मय-विंसा-ममाएँ लेयाण ॥ 1
- धणुओरप-सरिच्छो माया-वधेहिँ होइ मणुयत्त । होइ अवम्म देवो इग्गी-वंकाएँ मायाण ॥
- 3 लोहो वि चउ-वियप्पो किमि-राओ होइ णील्लि-राओ य । कहम-राय-सरिच्छो होइ चउत्थो हल्लिच्चि च्व ॥ 3
- पढमेण होइ णरयं वीणुण भणति णवर निरियत्त । तहणुण मणुय-जोणेँ होइ चउत्थेण देवत्त ॥
- कोवो उच्चैयणओ पिअ-अधव-णासणो णरवरिँट । कोवो मतावयरो मोगगइ-पह-रुभओ कोवो ॥
- 6 § ८७) अवि य कुविओ पुरिमो ण गणेह अत्थं णाणत्थ, ण धम्म णाधम्म, ण कम्म णाकम्मं, ण जसं णाजसं, ण 6
- कित्ती णाकित्ती, ण कज्ज णाकज्ज, ण भक्खं णाभक्ख, ण रम्म णारम्म, ण वच्च णावच्च, ण पेय णापेयं, ण चल्ले णाचल्ल, 6
- ण दोग्गइँ ण मोग्गइँ, ण सुट्ठ णासुट्ठ, ण पच्छ णापच्छ नि । अवि य ।
- 9 बुहयण-सहस्स-परिणियस्स पयडँणै पाव-मीलस्स । कोवस्स ण जनि वस भगवते माहुणो तेण ॥ जेण, 9
- मिच्छा-वियप्प-कुविओ कोव-महापाव-पमर-पडिवट्ठो । मरेह भायर भइणिय पि एग्गो जहा पुरिमो ॥'
- भणियं च णरवहणा 'भयव, ण-याणिमो को वि एस्स पुरिमो, केरिमो वा, कि वा इमेण कय' ति । भणिय च गुग्गा ।
- 12 "जो एस्स तुज्ज वामे दाहिण-पामम्मि सट्ठिओ मज्ज । भमरजण-गवलाभो गुजाफल रत्त-णयण-जुओ ॥ 12
- तिवलि-तरंग-णिडालो-भीमण-भिडडी-कयत-सारिच्छो । सुमयावलि-भगिद्धो रोम-फुग्गताहरोट्ट-जुओ ॥
- वड-कट्ठिण-णिट्टुरो वीओ कोवो व एस्स मपत्तो । एणुण कोव-दाहिणुण ज कय न णियामँहि ॥
- 15 § ८८) अथि बहु-कणय-वडिय फुट-मयण-फुग्ग-विमल-कनिट्ठ । इमिळाण कचि-देस पुहइँय व कोडल एक्क ॥ 15
- उत्तत्त-कणय-मइया फरिहा पायार-रुच्चि-गुण-मोहा । तम्मि पयामा णयरी कंची कचि च्व पुहइँए ॥
- तीए वि य महाणयरीए पुच्चदक्खिणा-भाए निगाउय-मेत्ते रगडा णाम मंगिवेमो । मो य केरिमो । विंझाड्ड-जहमओ दरिय- 18
- 18 मत्त-माहिम-मकुलो, हर-णिलओ जहमओ उहाम वमह-देकत-रेहिरु, मलय-महागिरि-जहमओ दाहर-माहि-मय-मंकुलु, 18
- णहणामोड जहमओ पयड-गहवड-मोहिलो ति । अवि य ।
- अण-अण-सालि-कल्लिओ जण-मय-वियरत्त-काणगो रम्मो । रगड ति मंगियेमो गोउल-मय-मिळिय-गोट्टयणो ॥
- 21 तम्मि य जम्म-दल्लिओ बहुल्लाय-न्यत-परिगओ चडो । कलहावड-कलयलो सुग्गमदेवो ति वग्ग डिओ ॥ 21
- तस्स य भइस्समो णाम जेट्टउत्तो । मो य वालत्तणे च्चै चडो चवलो अमहणो गडिवओ वट्ठो णिट्टुरो णिट्टुर-वयणो मच्च- 24
- डिंभाण च्चै दुट्टरिमो अगवराहिणो अणणे डिंमे य पग्गिताडयतो परिममड । तस्स तारिम्मम्प दट्टण मच्चमाव पयडे व डिंमेडिँ 24
- 24 कय णाम चंडयोमो ति गुण-णिफणं णामं । ता णग्गाह, मो उण एग्गो । इमस्स य गुग्गणेण मग्गि-गुण-कुट्ट-मील-साण- 24
- विहव-विण्णण-विज्जाणं वमण-कुलाण वालिया वमण-कण्णया पाणि गालिया । ते वि तम्मं च कुडुव-भाण णिक्खिणविज्जण मड- 27
- लोग-वाया-परपरा-मूहा इमह-डालिह-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय-णिउंय- 27
- 27 चडयोमो कय-णियय-वित्ती जाव जेच्चण ममारुट्ठो । सा वि णट्ठिणो इमस्स महिल्ला तारिमे अमण-याण-पावण-णियमणा- 27
- टिए अमंपडंते विविह-विल्लासे तहा वि जोच्चण-विमट्टमाण-लायणा गँहउ पयत्ता । अवि य ।
- भुजउ ज वा न वा परिह्जिउ ज व तं व मग्गिण वा । आऊग्गिय-लायणा तारुण मच्चहा रम्म ॥
- 30 ततो तम्मि तारिमे जोच्चणे वट्टमाणा सा णट्ठिणो केरिसा जाया । 30
- जत्तो जत्तो वियरड तत्तो तत्तो य कम्मिण-धवलाहिँ । अच्चिउड गाम-जुवाण-णयण-णील्लुप्प-डालीहिँ ॥
- § ८९) तओ इमो चडयोमो त च तारिम्मं पेच्छमाणो अग्गिय-कुट्ट-मीलाय वि तीय अहिय इंमा-मच्छं
- 33 समुच्चहिउमाहत्तो । भण्ड य, 33

1 > P अइवगवट्ठियओ वच्च अइवम्म, P नति for नाड, P संग for सिंग, P मायाण for लेयाण 2 > P वाउरव, J मायावडे  
 उ होट, P डेनि- 3 > J तट for गय, P हट्टिच्च 4 > J विनिणुण for वीणुण, P अवत्ति for भणति, P तट्ट माणुमनोणी 5 > J  
 कोहो, P उच्चैयणओ, J मसओ कोओ 6 > J ण अणत्थ P नाणत्थ, J om णाधम्म, P नराम for ण कम्म, J णाअकम्म P नोहाम, P  
 न वस, J णा अत्तं P गोयसं 7 > J णा अकित्ती, J णा अक्क, J णा अमक्ख, J णा अग्ग 8 > P मोयडे for मोगगइँ, P न पर्यं  
 नापय ति 9 > P बहु for वट्ट 10 > J मेच्छामिअप्प, J पावपटअमरुट्ठो 11 > P om केरिमो वा, J किमो for किं वा इमेण  
 12 > J P वामो (?), J वारुमि for पामम्मि, P गवयतो for गवयओ 13 > J सुमयावड- 14 > P रुओ for दाओ, P च्व  
 for व, P डिण्णण for गट्ठिण, P निममिअ 15 > J इमिळाण अवि देसं पुहइँय P इमिळाकति निवेसं पु 16 > J नय for  
 रचि 17 > J तीय य वत्तीय मओ, J अइवओ P पुववनिअणा- 18 > P उम्मत्त for मत्त, P णिगाउओ, P वसमदेअनरेहिरु,  
 P मत्ति for मत्ति 19 > P वग्गनामे 20 > P मियरत्तमाणगामो, P ओउ for गोउउ 21 > P बहुलीय, J कट्टोउवड  
 22 > P उओओ for मरुग्गो, P वेय चटो 23 > P 'णो वि अणो, P om य, P वग्गय तारिम्मयग्ग, P ममावपइय च विवेदि  
 24 > P निण्णत्त नां, P नाण for ता, P om य, J मीउनाणविअविज्जाविज्जा 25 > P पाणी गडिया, J तम्मंय P तम्मंयि  
 26 > P वाय for वाया, P दाहिणत्थेय, P विअयणाए विअय, P मापियं 27 > P मो for मा, P पाणे for पाण, J  
 निममादि अ अस् 28 > P रि विअ, P ओउवाणअयण मत्त पयउ 1, J om अवि य 29 > P सुउड, P परिनिउट  
 उ व उरुता 1, P उरु for उरु 30 > J उरुता 1, J 1 for मा 31 > P यो for the first उओ 32 > P अउरुत्थ, 33  
 J उरुत्थउद वि तय अहिय P उरुत्थो अरि तीय अहिय 33 > J om अणउ य.

- 1 जे धणिजो होंति णरा वेस्सा ते होंति णवरि रोराणं । दट्टूण सुंदरयरं ईसाए मरंति मंगुलया ॥  
 णवर, अहिओ इमाणं धहम-णर-णारीणं ईसा-मच्छरो होइ । अवि य ।
- 3 अत्थाणाभिणिवेयो ईसा तह मच्छरं गुण-समिद्धे । अत्ताणमि पसंसा कुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥  
 नओ एवं णरणाह, तीय उयरिं ईसं समुव्वहमाणस्स वच्चइ कालो ।  
 अह धवल-कास-कुसुमो णिम्मल-जल-जलय-रेहिर-तरंगो । सरएण विणिम्मविओ फलिय-मइओ व्व जिय-लोओ ॥
- 6 जोणहा-जलेण पच्चालियाहं रेहंति भुयण-भायाह । पलओव्वेछिर-भीसण-खीरोय-जलाविलाहं व ॥  
 दर-सुव्वमाण-कलमा दर-कुसुमिय-सत्तिवण्ण-मयरंदा । दर-वियसमाण-णीमा गामा सरयमि रमणिज्जा ॥  
 णिप्फण-सव्व-सासा आसा-संतुट्ट-ओग्गय-कुडुवा । देकंत-वसह-रुइरा सरयागम-मुदिया पुहई ॥
- 9 तओ एयं च एरिसं पुहइं अवलोइऊण परितुट्टा णड-णट्ट-मुट्टिय-चारण-णाण परिभमिउं समाढत्ता । तम्मि य गामे एक्कं 9  
 णट्ट-पेडयं गामाणुगामं विहरमाणं संपत्तं । तत्थ पहाण-मयहरो हरयत्तो णाम । तेण तस्स णडस्स पेच्छा दिण्णा,  
 णिमंतिथं च जेण सव्वं गामं । तत्थ छेत्त-वइल्ल-जुय-जंत-जोत्त-पग्गह-गो-महिस-पसु-वावडाण दिवसओ अणवसरो दट्टूण
- 12 तेण राहए पढम-जामे पस्संते कलयले संठिए गो-वग्गे संजमिए तण्णय-सत्थे पसुत्ते डिंभयणे कय-सयल-घर-वावारा गीय- 12  
 सुरय-सह-संदाणिया इव णिक्खंतुं पयत्ता सव्व-णामउडा । अवि य ।  
 गहिय-दर-रुइर-लीवा अवरे वचंति मंचिया-हत्था । परिहिय-पाउय-पाया अवरे डंगा य धेत्तूण ॥
- 15 § ९०) एसो वि चंडसोमो णिय-जाया-रक्खणं करेमाणो । कोऊहलेण णवरं एयं चिंतेउमाढत्तो ॥ 15  
 'धव्वो जह णडं पेच्छओ वच्चामि, तओ एसा मे जाया, कहं अह इमं रक्खामि । ता णडो ण दट्टव्वो । अह एयं पि जेज्ज,  
 ण जुज्ज तम्मि रंगे बहु-सुंदर-जुवाण-सय-संकुल-णयण-सहस्स-कवलियं काउं जे । सो वि मम भाया तहिं चैव तं णडं
- 18 दट्टुं गओ त्ति । ता जं होउ तं होउ । इमीए सिरिसोमाए भेणीए समप्पिऊण वच्चामि णडं दट्टुं । समप्पिऊण, कोटिं 18  
 धेत्तूण गओ एसो चंडसोमो सो । चिर-णिग्गए य तम्मि सिरिसोमाए भणियं 'हला णदिणि, रमणीओ को वि एसो  
 णधिउं समाढत्तो, ता किं ण खणं पेच्छामो' । णदिणीए भणियं 'हला सिरिसोमे, किं ण-याणसि णिययस्स भाउणो चरिय-
- 21 चेद्वियं जेण एवं भणसि । णाहं अत्तणो जीएण णिविण्णा । तुमं पुण जं जाणसि तं कुणसु' त्ति भणमाणी ठिया, सिरिसोमा 21  
 पुण गया तं णडं दट्टूणं ति । तस्स य चंडसोमस्स तम्मि रंगे चिरं पेच्छमाणस्स पट्टीए एक्कं जुवाण-मिहुणं मंतेउं समाढत्तं ।  
 भणियं च जुवाणेणं ।
- 24 'सुंदरि सुमिणे दीससि हियए परिवससि घोळसि दिसासु । तह वि हु मणोरहेहिं पच्चक्खं अज्ज दिट्ठासि ॥ 24  
 तुह सोहग्ग-गुणिधण-वद्विय-जलणावली महं कामो । तह कुणसु सुयणु जह सो पसमिज्ज संगम-जलेण ॥'  
 एयं मंतिज्जमाणं सुयं चंडसोमेण आसण-संठिएणं । दिण्णं च जेण कण्णं । एत्थंतरम्मि पडिभणियो तीए तरुणीए सो जुवाणो
- 27 'बालय जाणामि अहं दक्खो चाई पियंवओ तं सि । दढ-सोहिओ कयणू णवरं चंडो पई अम्ह' ॥ 27  
 § ९१) एयं च सोऊण चंड-सहायणणा जाय-संकेण चिंतियं चंडसोमेणं । 'णूणं एसा सा दुरायारा मम भारिया ।  
 ममं इहागयं जाणिऊण इमिणा केण वि विडेण सह मंतयंती ममं ण पेच्छइ । ता पुणो णिसुगेमि किमेत्थ इमाणं णिप्फणं
- 30 दुरायाराणं' ति । पडिभणियं च जुवाणेण ।  
 'चंडो सोम्मो व्व पई सुंदरि इंदो जमो व्व जइ होइ । अज्ज महं मिलियव्वं धेत्तव्वा पुरिस-वज्जा वा' ॥

1 > P वेसातो for वेस्सा ते, J inter. णवरि होंति, P नवर रोराण, P सुंदरयणं 2 > P इमाणमहम, J -णारीणं  
 इमाण ईसा 3 > J अत्थाण अभि° 4 > J एयं for एव, P वच्चए. 5 > J फलियमइय P फालिहमइउ.  
 6 > P पच्चालियाह, P पलओव्वेछिर, J व्व for व 7 > P कलमाणकलमादर कुसुमयसत्तिवण्णे मरदा, J णीवा  
 for णीमा. 8 > P निप्पन्न, P संतुट्टदाणयकुडुगा । देकंतवसहि, P गदिया for मुदिया 9 > P मुदिय for मुट्टिय, P मासे for  
 गामे. 10 > J णडवेडयं, P गामवियरमाण, P तम्मि य for तत्थ 11 > J च से जेण सव्वगामं, P ते य for तत्थ, J वइल्लजुयं P  
 छयल्लजुय, P om. जोत्त, P महिसि, P अवसरो 12 > P पसंते, P वावारो. 13 > J इयं for इव 14 > P पागा for  
 पाया, P उ for य 15 > P चिंतिउं. 16 > P णड for णड, J कह, P इम च रक्खामि, P om ता, J जेज्जा 17 > P  
 -जायाणसयसंकुले, J om. तहिं चैव 18 > P संहोउं for त होउ, P भइणीए for भेणीए, P दट्टूणं for दट्टु, J om. समप्पिऊण,  
 J कोणी P कोटि 19 > J om. सो, J om. य, P नदिणी, J को वि च (य?) एसो P को विउ एसो 20 > P णधिउमाढत्तो,  
 J भाउअस्स चरिमचेद्विअ 21 > P जीविएण, J om. पुण, P ट्टिओ for ठिया 22 > P उण for पुण, P पट्टी एक्कं ति  
 जुवाणमिहुणं मंते समाढत्त (J adds ए after पट्टि later and it has some letter, not easily identified, between  
 एक्कं and जु, J समाढत्तो. 25 > P जाला° for जलणा°, P महकामो, P कुण for कुणसु 26 > P पयच, मंति°, J आसण-  
 ट्टिएणं 27 > P बालय जणोमि, P मज्झ for अम्ह 28 > J om चडसहायणणा, P जाया से केण. 29 > P मममिहाय,  
 P इमिणा य नो केण 30 > P om च, P जुवाणेण 31 > P सोमो, JP जसो for जमो, P इह होइ for जइ होइ,  
 P adds नो before धेत्तव्वा, P om. वा

- 1 भणिय च तरुणीए । 'जह एव तुह णिच्छओ ता जाव मह पई इह कहि पि णड-पेच्छणयं पेच्छइ ता अहं णिय-गेहं गच्छामि, 1  
तथ तए मम मग्गालगेणं चैय आगतव्व' ति भणिऊण णिग्गया, घर गया सा तरुणी । चित्तिंयं च चंडसोमेणं 'अरे, स  
3 च्चिय एसा दुरायारा, जेण भणियं इमीए 'चंडो मह पइ' ति । अण्ण च 'इह चैय पेच्छणए सो कहि पि समागओ' ति । 3  
ण तीए एत्थ अहं दिट्ठो ति । ता पेच्छ दुरायारा दुस्सीला महिला, एएणं चैय खणेणं एमहत आलुपाल आढत्त । ता कि  
पुण एत्थ मए कायव्वं' ति । जाव य इम चित्तेइ चंडसोमो हियएण ताव इमं गीययं गीय गाम-णडीए ।  
6 जो जसु माणुसु वल्लहउं त जइ अण्णु रमेइ । जइ सो जाणइ जीवइ व सो तहु प्राण लएइ ॥ 6  
§ ९२) एय च णिसामिऊण आवद्ध-तिवलि-तरग-विरइय-भिउडी-णिडालवट्टेण रोस-फुरफुरायमाणाहरेण अमरिस-वस-  
विलसमाण-भुवया-लएण महाकोव-कुविएण चित्तिंयं । 'कहि मे दुरायारा सा य दूसीला वच्चइ अवस्सं से सीसं गेण्हामि'  
9 ति चित्तेतो समुट्ठिओ, कोटि घेत्तूण गतुं च पयत्तो । महा-कोव-धमधमायमाण-हियओ णियय-घराहुत्त गंतूण य बहल- 9  
तमोच्छइए सयले भूमि-भागे घर-फलिहस्स पट्टि-भाए आयारिय-कोटी-पहार-सज्जो अच्छिउ समाढत्तो । इओ य उक्खेइ  
पेच्छणए सो तस्स भाया भइणी य घर-फलिहय-दुवारेण पविसमाणा दिट्ठा णेण चंडसोमेण । दट्टण य अवियारिऊण पर-  
12 लोयं, अगणिऊण लोगाववायं, अयाणिऊण पुरिस-विसेस, अतुज्झिऊण णीइं, अवहत्थिऊण सुपुरिस-मग्ग, सव्वहा कोव-विस- 12  
वेय-अंधेण विय पहओ कौकीए सो भाया भइणी वि सिरिसोमा । ते य दुवे वि णिवडिया धरणिवट्टे । 'किर एसो सो पुरिसो,  
एसा वि सा मम भारिय' ति 'आ अणज्ज' ति भगमाणो जाव 'सीसं छिंदांमि' ति कोटी आभामिऊण पहाविओ ताव  
15 य झण ति फलिहए लग्गा कोटी । तीय य सदेण विउद्धा सा कोट्टय-क्रोणाओ णंदिणी इमस्स भारिया । भणिय ससभमाए 15  
तीए 'हा हा दुरायार, किमेय तए अज्जवसिय' ति घाइया ते णियय-वहिणि ति भाया वि' । त च सोऊण ससंभमेण  
णिरुविया जाव पेच्छइ पाडियं त भइणीय ति त पि भाउय ति । तओ सजाय-गरुय-पच्छायायेणं चित्तिंय णेण ।  
18 'हा हो मए अकज्ज कह णु कयं पाव-कोव-वसएण । मिच्छा-वियप्प-कप्पिय जाया अलियावराहेण ॥ 18  
हा बाले हा वच्छे हा विइ-माया-समप्पिए मज्झ । अह भाउणा वि अंते केरिसय सपय रइयं ॥'  
एयं च चित्तिजगं 'हा इतोभिह' ति भगमाणो मुच्छिओ, पडिओ धरणि-वट्टे । णंदिणी वि विसण्णा ।  
21 हा मह देयर वल्लह हा बाले मह वयसि कथ गया । हा दइय मुंच मा मा तुम पि दिण्ण मम पावं ॥ 21  
§ ९३) खण-मेत्तस्स य लद्ध-सण्णो विलविउ पयत्तो चंडसोमो ।  
हा बालय हा वच्छय कह सि मए णिग्घणेण पावेणं । भाउय वच्छल मुद्धो णिवाइओ मूढ-हियएणं ॥  
24 हा जो कवियल-बूढो बालो खेलाविओ सगेहेणं । कह णिइएण सो च्चिय छिण्णो सरयेण फुरमाणो ॥ 24  
हा भाउय मह वल्लह हा भइणी वच्छला पिउ-विणीया । हा माइ-भत्त बालय हा मुद्धय गुण-सयाइएण ॥  
चलियस्स तित्थयत्त मग्गालगो जया तुम पिउणो । पुत्त तुम एस पिया भणिऊण समप्पिओ मज्झ ॥  
27 जणणीए पुण भणिओ ओ अंताल्लहणो मम एसो । पुत्त तुमे दट्टव्वो जीयाओ वि वल्लहो वस्सं ॥ 27  
ता एवं मज्झ समप्पियस्स तुह एरिसं मए रइय । पेच्छ पियं पिय-वच्छय कोव-महारक्ख-नाहिएण ॥  
वीवाहं वच्छाए कारंते संपय किर अउण्णो । चित्तिंय-मणोरहाणं अवसाण केरिस जायं ॥  
30 किर भाउणो विवाहे णव-रगय-चीर-वद्ध-चिंधालो । परितुट्ठो णच्चिस्सं अफोडण-सइ-दुल्लिओ ॥ 30  
जाव मए च्चिय एय कुविएण व पेच्छ कय महकम्म । अण्णहयं चित्तिंयं मे घडियं अण्णाए घडणाए ॥

1 > P कह for कहिं, P ण for णड, P ताव for ता, J णिअ for णिय, P वच्चामि for गच्छामि 2 > J om घर गया,  
J अवरे for अरे 3 > P इह पेक्खणए चैय कहिं 4 > P अहमेत्थ for एत्थ अह, P तो for ति । ता, J महिलाए for महिला, J एमहत  
आलुपाल P महत एय आलुपाल, P समाढत्त for आढत्त 5 > J inter मए एत्थ, P गायनडीए 6 > P माणस for माणुस, P om  
सो, P वि for व, J सो looks like तो, P तहो पाण 7 > P एव च, P तिवली, P विलइय, JP वट्टेण, J फुरुफुरा, P om वस  
8 > J विलस for विलसमाण, P भुमया, P कोवेण कुविए चित्तिंयं च, P om सा, P दुस्सीला, P om से 9 > P om ति, P चित्ततो,  
J कौकी P कौट्टी, P om च, P हियओ आगओ निययघराहुत्तो 10 > P तमोत्थइए, J भूमिमाए, P फलिहयपट्टि, J कौकी for  
कोटी, P अच्चिउ for अच्छिउ, P उक्खिइए पेच्छणए 11 > P भइणीया घरफरिइय, J दट्टण अवि, P परिलोय 12 > J ऊण  
य पुरिस, J अवउज्झिऊण य णीइं, P णीइ, P कोवि विसवेयधण विय 13 > P om कौकीए, P पहणी for भइणी, P सिरिसोमा,  
P विनिविडिया, P एम for एसो, P repeats पुरिसो 14 > J om आ, J अणज्ज ति, J कौकी for कोटी, P आभामिऊण  
15 > J om य, P खण for झण, J कौकी for कोटी, P om य, P om सा 16 > P किमय तए अज्जवसिय, J ए for ते,  
J भइणीए ति, J om भाया वि 17 > P पाटिय त भइणिभायरं ति । 18 > P हा हा मए, J कय पेच्छ पाववसएण ।  
मिच्छावियप्पिय पिय जाया 19 > P पिय for पिइ, P पिय ते for वि अते, J रमिय for रइय 20 > P repeats हा  
21 > J मुच इमा मा, P दीण मए पाव 22 > P विलविउ पलविउ पयत्तो 23 > J हा बाला य, P वच्छ न नाओ निवाटिओ  
24 > P कटियह, P सिणेहेण, P फरु for फुर 25 > J पिउविणीए, J माए for माइ, P गुणममाइइ 26 > J मग्गामग्गो  
27 > P पुणो for पुण, J एसो for वस्स 29 > P पुच्चाह for वीवाह, J अवसारण 30 > J चिद्धालो, J णच्चांस, P उफोडण  
31 > J om कय, P पेच्छइ एथ कयतेण । हा अण्णह चित्तिअ घडाविअ अण्णाए ( the page has its ink rubbed very much )

- 1 जह वि पदायि समुदे गिम्-दंके वा विसामि पायाले । जलणे च समाहमो तथा वि सुद्धी महं णयि ॥  
 2 ता पायं महं जुत्तं एयं चियं पुत्त-कालं तु । एयं चियं चियाणलमि अप्पा विछोडुं जे ॥  
 3 इय जाव विलवणं चियं ता दूमह-कलुण-सह-विहाणो । जल-ओदार दाउं अवर-समुदं गओ चंदो ॥  
 4 सोडण रुण-मदं महिलत्तण-ओय-मउय-हिययाए । वाह-जलं-थेवा इव तारा चियलंति रयणीए ॥  
 5 ताव य कोनायंओ दुज्जय-पडिपत्त-पडिहय-पयाओ । पाडिय-चंडयर-करो उइओ सूरु णरवइ च्व ॥  
 6 § ९४) तओ मए इमाए पुण वेलाए णाइदूरसुग्गाए कमलायर-पिय-बंधवे चकाय-कामिणी-हियय-हरिसुप्पायए सूरु  
 7 समासिया सुन्नाए तओ भणियो जगेगं । 'मा एयं विलवसु, जह वि मया इमे' ति । तह वि पच्छायाव-परदो जलणं  
 8 पयिमाणि चि कय-मिन्तो इमो चंडसोमो वीण-विमणो मरण-कय-ववसाओ गुरु-पाव-पहर-परदो इव णिक्तो गामाओ,  
 9 गओ मयाग भूमिं, रहया य महंती महा-दारुणहिं चिया । तथ य तिल-घय-कप्पास-कुसुंभ-पवभार-वोच्छाहियो पज्जलियो  
 10 जलियो जलण-पालापली-पवभारो । एयंतरमि चंडसोमो आवइ-परियरो उद्धाइओ जलियं चियं पविसिउं । ताव य  
 11 गेण्ह गेण्ह रे रे मा मा वारेह लेह गियदंनं । इय णिसुय-सह-समुहं वलिय-जुवाणेहिं सो धरियो ॥  
 12 मतिरं च णेण 'महा भद्रा, किं मए पाव-कमेण जीवणं । अवि य ।  
 13 धम्म-व-काम-रहिया सुदयण परिणिदिया गुण-विहूणा । ते होंति मय-सरिच्छा जीवंत-मयल्लया पुरिसा ॥  
 14 मा ण कइं मह इमिणा पिय-बंधव-णिहण-कलुसिणं बुहयण-परिणिदिएणं अणप्पणा इव अप्पणा' । भणियं च हल-  
 15 गोडल-एक-संवडिणहिं पिय-पियामह-परंपरागएकेकासंबद्ध-खंड-खंड-संबडिय-मणु-वास-वस्मीय-मकंड-महरिसि-भारह-पुराण-  
 16 नीया-सिलोय-चित्त-पण्णा-नोत्तिय-वंडिणहिं 'अत्येत्थ पायच्छित्तं, तं च चरिजण पाव-परिहीणो अच्छसु' ति । भणियं च  
 17 चंडसोमेणं 'भगवंतो भद्रा, जह एयं ता देसु मह पायच्छित्तं, जेण इमं महापावं सुज्झइ' ति । ता एकेण भणियं । 'अका-  
 18 नेन फुणं पापं अकामेनेव शुद्धयति' । अण्णेण भणियं असंबद्ध-पलाविणा । 'जिघांसंतं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्' ।  
 19 अण्णेण भणियं । 'कोपेन यत्कृतं पापं कोप एवापराध्यति' । अण्णेण भणियं । 'ब्राह्मणानां निवेद्यात्मा ततः शुद्धो भवि-  
 20 प्यति' । अण्णेण भणियं । 'अज्ञानाद्यत्कृतं पापं तत्र दोषो न जायते' ।  
 21 § ९५) एयं पुत्तावर-संबंध-रहियवरोप्पर-विरुद्ध-वयणमणुगाहिरेहिं सच्चहा किं कयं तस्स पायच्छित्तं महा-बढर-  
 22 मट्टेहिं । सयलं धर-सव्वस्सं धण-धण्ण-वत्थ-पत्त-सयणासण-डंड-भंड-दुपय-चउप्पयाइयं बंभणाणं दाऊण, इमाइ च धेत्तुं, जय  
 23 जिय ति अहव अट्टिताइं भिक्खं भमंतो कय-सीस-तुंड-मुंडणो करंका-हत्यो गंगा-दुवार-हेमंत-ललिय-भद्रेस्सर-धीरभइ-  
 24 सोमेसर-पहास-पुक्वराइसु तित्थेसु पिंडयं पक्खालयंतो परिभमसु, जेण ते पावं सुज्झइ ति ।  
 25 तं पुण ण-यणंते चियं जेण महा-पाव-पसर-पडिबद्धो । मुच्चइ एस फुडं चियं अप्पा अप्पेण कालेण ॥  
 26 जह अप्पा पाव-मणो वाहिंजल-धोवणेण किं तस्स । जं कुंभारी सूया लोहारी किं घयं पियउ ॥  
 27 सुज्झउ णाम मलं चियं णरणाह जलेण जं सरिरमि । जं पुणं पावं कम्मं तं भण कइ सुज्झए तेण ॥  
 28 किंतु पवित्त सय-सेवियं इमं मण-विसुद्धि-करयं च । एत्तिय-मेत्तेण कओ तथ भरो धोय-वत्तीए ॥  
 29 जं तं तित्थमि जलं तं ता भण केरिसं सहावेण । किं पाव-फेडण-परो तस्स सहावो अह ण व ति ॥  
 30 जह पाव-फेडण-परो होज सहावेण तो दुवे पक्खा । किं अंग-संगमेणं अहवा परिचित्थिं हरइ ॥  
 31 जह अंग-संगमेणं ता एए मयर-मच्छ-चक्काइं । केवट्टिया-मच्छंघा पढमं सगं गया णंता ॥

1) > P विसाम for विसामि, P मह नत्थी 2) > P गोस, P वयणसुह 3) > J मह जत्त, P कालमि ।, P एतेसिं चैव वियालणंमि, J विछोडु P विछोडु 4) > P जाव विलवउ चियं ता, J जलओयार 5) > P थोव, P जत्थेवा, J इय for इव. 6) > P दुज्जण for दुज्जय 7) > J पुण for मए, P पहरिसु for हरिसु 8) > P समासासिओ पुच्छिओ । तओ, P भणिय for भणियो, P विलवेसु जीविया इमे, J मेत्ती for इमे ति, P om. तह वि पच्छायाव . पविसामि ति 9) > J इय णिकखतो. 10) > J om. गओ, P भूमि for भूमि, P वारेह for महंती, J वोच्छहियो 11) > P om. जलियो, P जलिय for जलण, P उद्धाइय, P चिइ पसिउ 12) > J गेण्ह गेण्ह रे, P वारीह for महंती, J वोच्छहियो 13) > P मद्दा भद्दा, P कमेण 14) > P जीयती मड्हया 15) > J इवप्पणो P हंती for मा मा, J णिसुणिय, P निसुयइ, J सम्मुह 16) > P मद्दा भद्दा, P कमेण 17) > J इवप्पणो P हंती for मा मा, J णिसुणिय, P निसुयइ, J सम्मुह 18) > P ताए for ता, P मे for मह, P repeats वित्तं, P विडवणा for वित्तपण्णा, J पडिणहिं, P om च after भणिय 19) > P ताए for ता, P मे for मह, P repeats महापायच्छित्तं जेण इमं, P तओ for ता 20) > P सबद्धेहिं अवरोप्पर, J वयणमणुगाहिरेहिं P वयणमेतुनाहिरेहिं, P वट्ट for वढर 21) > P सयलधर, P पत्थ for पत्त, J °प्ययाइयं P °प्ययादियं, J णिकखतो for इमाइ च धेत्तुं जय जिय ति अहव अट्टिताइं भिक्ख 22) > J मुण्ड for मुण्डणो, P हत्ये, P ललियाभद्रेसरवीरमहा- 23) > J om सोमेसर, P पमासपुक्खा, P पिंड for पिंडयं, P एयं for ते, P सुज्झय ति 24) > P नयणत चियं, P पडिबद्धो, J मुच्च 25) > P वाहिंमलधोमणेण, P जह for जं, P पियइ । 26) > P जलेण त सरिरं ति, P जेण for तेण. 27) > P om here the verse किंतु पवित्त etc. but gives it below, included in the foot-notes. 28) > J -रो for -परो, P पहावो for महावो 29) > J सहावो तओ दुवे 30) > P तो for ता, P चक्काया । J केवट्टिया, J P मच्छंघा



- 1 अह्व परिचितियं चिय कीस इमो दूर-दन्निखणो लोओ । आगच्छइ जेण ण चित्तिऊण सग्ग यमारुहइ ॥ 1  
अह पावणो त्ति ण इमो विसिट्ठ-बुद्धीएँ होज्ज परिगहिओ । तत्थ वि विसिट्ठ-बुद्धी-परिगहिय होज्ज कूव-जल ॥
- 3 अह भणसि होज्ज त पि हु तित्थे गमण णिरत्थय होज्ज । अह तं ण होज्ज तित्थं पुण होहिइ एत्थ को हेऊ ॥ 3  
जुत्ति-वियारण-जोग्ग तम्हा एयं ण होइ विवुहाण । मूढ-जण-वयण-वित्थर-परपराए गय सिद्धी ॥  
ज पुण मयस्स अंगट्टियाईं छुम्भति जण्हवी-सलिले । त तस्स होइ धम्म एत्थ तुम केण वेलविओ ॥
- 6 ता एत्थ णवर णरवर एस वराओ अयाणुओ सुद्धो । पाव-परिवेढिओ चिय भामिज्ज मद्-बुद्धीहि ॥” 6  
एय च सोऊण सच्च सच्चय त णियय-पुब्ब-वुत्तंत, पुणो वि  
विणय-रइअंजलिउडो भत्ति-भराऊरमाण-सन्भावो । संवेग-रुद्ध-बुद्धी वेरगं से समल्लीणो ॥
- 9 उद्धाहो भगवओ चलण-जुय-हुत्त, घेत्तूण भगवओ चलण-जुयल करयलेहिं, अवि य, 9  
संवेग-रुद्ध-बुद्धी वाह-जलोयलण-धोय-गुरु-चलणो । सुणिणो चलणालगो अह एय भणिउमाढत्तो ॥  
‘भयव जं ते कहिय मह दुच्चरिय इम अउणस्स । अक्खर-मेत्तेण वि त ण य विहडइ तुम्ह भणियाओ ॥
- 12 ता जह एय जाणसि तह पूण त्रियाणसे फुड त पि । जेण महं पावमिण परिसुज्जइ अकय-पुण्णस्स ॥ 12  
ता मह कुणसु पसाय गुरु-पाव-महा-समुद-पडियस्स । पणिवडय-वच्छल चिय सप्पुरिसा होति दीणम्मि ॥’  
एय च पायवडिओ विलवमाणो गुरुणा भणिओ ‘भद्दमुह, णिसुणोसु मज्झ वयण । एव किल भगवतेहिं सच्चवण्णहिं मच्च-  
15 तित्थयरेहिं पण्णत्रिय परुवियं ‘पुंदिं खलु भो कडाण कम्माण दुप्पडिक्कताण वेयइत्ता मोक्खो, णत्थि अवेयइत्ता, तवसा 15  
वा ओसइत्ता’ । तेण तुम कुणसु तवं, गेण्हसु दिक्ख, पडिवज्जसु सम्मत्त, णिंदसु दुच्चरिय, विरमसु पाणि-वहाओ, उज्जसु  
परिग्गह, मा भणसु अलिय, णियत्तसु पर-दब्बे, विरमसु कोवे, रज्जसु सज्जे, परिहरसु माय, मा चित्तेसु लोह, अवमण्णसु  
18 अहकार, होसु विणीओ त्ति । अवि य । 18  
एवं चिय कुणमाणो ण हु णवर इम ति ज कय पाव । भव-सय-सहस्स-रइय खगण सच्च पणासेसि ॥’  
एयं च सोऊण भणिय चडसोमेण ‘भयवं, जइ दिक्खा-जोग्गो ह, ता महं देसु दिक्ख’ ति । गुरुणा वि णाणाइसएण उवसंत-  
21 खविय-कम्मो जाणिकुण पवयण-भणिय-समायारेण दिक्खिओ चडसोमो त्ति ॥ ॐ ॥ 21
- § ९६) भणिय च पुणो वि गुरुणा धम्मणंढणेण ।  
‘माणो सतावयरो माणो अत्यस्स णासणो भणिओ । माणो परिहव-मूल पिय-वधव-णासणो माणो ॥  
24 माणत्थद्धो पुरिसो ण-याणइ अप्पणं णाणप्पण, ण पिय णापियं, ण वधु णावंधुं, ण सत्तुं णासत्तुं, ण मित्त णामित्त, ण 24  
सज्जण णासज्जण, ण सामिय णासामिय, ण भिच्च णामिच्चं, ण उवयारिण णाणुवयारिण, ण पियं वयं णापियं वयं, ण पणयं  
णापणय, ति । अवि य
- 27 लहुयत्तणस्स मूल सोग्गइ-पह णासण अणत्थयर । तेणं चिय साहूहि माणं दूरेण परिहरियं ॥ 27  
माण-महा-नाह-नाहिओ मरमाणो पेच्छए ण वारेइ । अवि मायर पिय भारिय पि एसो जहा पुरिसो ॥’  
भणिय च राहणा ‘भयव, बहु-पुरिस-मकुले ण-याणियो को वि एम पुरिसो’ त्ति । भणिय च धम्मणंढणेण ।
- 30 “जो एस मज्झ वामे दाहिण-पामम्मि सठिओ तुज्ज । एक्कुणामिय-भुमओ वित्थारिय-पिहुल-वच्छयलो ॥ 30  
गच्च-भर-मउलियच्छो परियकावद्ध-उच्चमडाडोवो । ताडतो वरणियल पुणो पुणो वाम-पाएण ॥  
उत्त-कणय-वण्णो आयविर-दीहरच्छिवत्त-जुओ । रीढा-पेगवियाए तुम पि दिट्ठीए णिज्जाइ ॥
- 33 इमिणा रूवेण इमो माणो व्व समागओ इह होज्ज । एएण माण-सूडेण ज कय त णिसामेइ ॥ 33

2 > P वामणो for पावणो, P बुद्धीय होज्ज, J होऊण for होऊण, J तत्थ विमिट्ठा बुद्धी, J होउ for होज्ज (sometime उ and ज look similar) 3 > P गगा for तित्थे, J णिरत्थओ, P गग for तित्थं 4 > P गय, P has here the verse किंतु पविन्न तियमिंदसेविय मणविमुद्धिकरय च । एत्थियमेत्तेण कओ तरस मरो वो अवतीण—compare the readings with the verse in J noted above, p 48, foot-note, 29 5 > J पुण प्यस्स 6 > P om णवर, P अयाणओ सुद्धो, P पन्निवडिओ, J पाव for मद् 7 > J मच्चय P मम्मय, P तियय for णियय, J om वि 8 > J रइयविणयअजलीउडो, J सच्चयलड 9 > P जुयलहुत्तो, P omits अवि य 10 > J सवेय, P om धोय, P चलणजुयल्लगो 11 > P भगव, P तेहि for ते, J मत्तेण for मेत्तेण 12 > P मि for पि 14 > P भद्द मह सुणेनु मह वयण, P किर for किल 15 > J दुप्परकताण, P वेत्ता 16 > J व for वा, J ज्जोनरत्ता 17 > P भणेनु, P विरज्जसु 18 > J अहकारे 20 > P भगव, P दिक्खाए जोगो अह ता मह, P om ति, P णाणाइसए उव” 21 > P खडय 22 > J तु for च before पुणो 23 > P मूरो, P वधुविगाम्गो 24 > P माणत्थद्धो, P अप्पय नाणप्पय, P न वधु नावधु, J ण सत्तु णामत्तू 25 > P नाउवयारिण, P पिय” for पिय in both places 27 > P पणान्ता अणत्थकरं 28 > P मारिय for नायर, J पिया for पिय 29 > P भगव 30 > P वामो for वामे, P एक्कुणामियभनि-जोवधायिय, P वत्थयलो 31 > J उध for गच्च, P उत्तडाडोवो, P -प्पाण 32 > P वेत्त for वत्त, P निज्जायद 33 > J इह for इतो, P समागओ, P होज्जा, P निसामेइ

१) १७) अथि णर-णारि-बहुलो उववण-वण-पउम-संड-रमणिज्जो । गाउय-मेत्त-गामो गामासण्ण-ट्टिय-तलावो ॥  
जो मूसम-पउम-णारि-णियय-सुय-दिण्ण-णाम-विंघालो । छक्कंड-भरह-सारो णाममवंती-जणवओ त्ति ॥  
२) य केरियो अवंति-जणवओ । जत्थ य पहिएहिं परिभममाणेहिं सयले वि देसे दिट्ठं एक्को व दोणिण व तलायहं जाइं ३  
७ घण-घडिय-कसण-पत्थर-णिबद्धं, दोणिण व तिण्णि व दिट्ठं रुक्खइं जाइं ण सरस-साउ-महल्ल-पिक्क-घण-फलहं, तिण्णि  
८ चयारि व दिट्ठं गामहं जाइं ण गणिज्जति थोव-त्रीहियइं, चत्तारि व पंच व दिट्ठं देवउलहं जाइं ण सुंदर-विलासिणी-  
९ गणाच-संगह-गीयइं, पंच व छ व दिट्ठउ विलासिणिओ जाओ ण धरिय-धवलायवत्त-माऊर-छत्त-चामराडंबराओ त्ति । ६  
अवि य ।

बहु-नयण-णियर-भरिओ वियरंतुदाम-सुहय-सखउलो । णिम्मल-मुत्ता-पउरो मालव-देसो समुहो व्व ॥

१८) तस्य प्रसम्य मज्झ-भाए

धवलहर-णिम्मल-भा फुरंत-मणि-विमल-किरण-तारइया । सरए व्व गयण-लच्छी उज्जेणी रेहिरा णयरी ॥

जा य गिम्ह-समए जल-जंत-जलहर-भरोरलि-णिसुय-सहरिस-उहंड-तडुविय-पायडिजंत-घर-सिंहडि-कुल-संकुला फुड-पोमराय-  
१२ इंदोयय-रेहिरि व्व पाउम-सिरि-जइसिया । पाउस-समए उण फलिह-मणि-विणिम्मविय-घर-सिहरबभ-धवला विमलिंदणील-१२  
फुरमाणी इंदीवर-संकुलं घ सरय-समय-सिरि-जइसिया । सरय-समए उण दूसह-रवि-किरण-णियर-संताविय-पजलंत-सूरकंत-  
अणिय-तिन्वायवा आसार-वारि-धारा-घोय-णिम्मल-सिय-कसिण-रयण-किरण-संवलय-सिरीस-कुसुम-गोच्छ-संकुल व्व गिम्ह-  
१५ समय-सिरिहि अणुहरइ त्ति । जहिं च णयरिहिं जुवइ-जुवाण-जुवलेहिं ण कीरंति सुह-मंडणइं । केण कजेण । सहाव-लायण-१५  
पसरंत-धंदिमा-कलुसत्तण-भएण । जहिं च कामिणियणेण ण पिज्जति विविहासवइं । केण कजेण । सहाव-सुरय-विलास-  
वित्थर-भंग-भएण । जहिं च विलासिणीहिं विवरीय-रमिरीहिं ण वज्जंति रणंत-महामणि-मेहलउ । केण कजेण । सहाव-  
१६ कलंठ-कुविय-सदामयाला-लुद्धेहि त्ति । अवि य ।

अहंतंग-गोउराइं भवणुजाणाइं सिहर-कलियाइं । एक्केकमाइं जीए णयरि-सरिच्छाइं भवणाइं ॥

१८) तीए य महाणयरीए उज्जेणीए पुव्वुत्तरे दिसाभाग-विभाए जोयण-मेत्ते पएसे कूववंदं णाम गामं अणेय-घण-

२१ घण-समिद्धि-नविय-पामर-जणं महाणयर-सरिसं । तत्थ एक्को पुव्व-राय-वंस-पसूओ कहं पि भागहेज-परिहीणो सयण-२१  
संपया-रहिओ खेत्तभडो णाम जुण्ण-उकुरो परिवसइ । एरिस चिय एसा मुणाल-दल-जल-तरल-चंचला सिरी पुरिसाणं ।  
अवि य ।

२४ होऊण होइ कस्स वि ण होइ होऊण कस्सइ णरस्स । पढं ण होइ होइवि पुणंकुस-कड्डिया लच्छी ॥ २४

तस्स य एक्को चिय पुत्तो वीरभडो णाम णियय-जीयाओ वि वल्लहयरो । सो तं पुत्तं घेत्तुण उज्जेणियस्स रणो ओलरिगउं  
पयत्तो । दिण्णं च राइणा ओलरिगमाणस्स तं चैव कूववंदं गामं । कालेण थ सो खेत्तभडो अणेय-रण-सय-संघट्ट-वहरि-वीर-  
२७ तरवारि-दारियावयवो जरा-जुण-सरीरो परिसक्किऊण असमत्थो तं चैय पुत्तं वीरभंडं रायउले समपिऊण घरे चैय चिट्ठिउं २७  
पयत्तो । रायउले वि तस्स पुत्तो चैय अच्छिउं पयत्तो । तस्स थ से पुत्तस्स सत्तिभडो णाम । सो उण सहावेण थदो माणी  
अहंकारी रोसणो विहवुम्मत्तो जोव्वण-नविवओ रूव-माणी विलास-मइओ पुरिसाभिमाणी । तस्स य एरिसस्स सब्बेण चैय  
३० उज्जेणएणं रायउत्त-जणेणं सत्तिभडो त्ति अवमणिऊण माणभडो त्ति से कयं णामं । तेण णरणाह, सो उण एसो माणभडो । ३०  
अह अण्णम्मि दियहे उवविट्ठे सयले महाराय-मंडले णिय-णिय-थाणेसु समागओ माणभडो । तओ राइणो अवंतिवद्धणस्स  
कय-ईसि-णमोक्कारो णिययासण-ट्टाण-पेसियच्छि-जुओ जाव पेच्छइ तम्मि ठाणे पुलिंद-रायउत्तं उवविट्ठं । तओ वलिओ तं  
३३ चैय दिसं । भणियं च णेण 'भो भो पुलिंद, मज्झ संतिर्यं इमं आसणट्टाणं, ता उट्टसु तुमं' । पुलिंदेण भणियं 'अहं अयाणंतो ३३

१) P गामोसण्ण, J तलावो. २) J जा for जो, J चिद्धालो ३) P अवंती, J परिभमवां, P सयले चिय दोस दिट्ठइ,  
P तलायइम जाइं. ४) P कसिणपत्थरसिलोहवद्धं, J दोणिण वि तिण्णि, P दो for दोणिण, J ट्टियइं for दिट्ठइ, J सरसाउ, J मह  
for घण, J फलइ ५) P चत्तारि, J गामाह, J om. जाइ, P om ण, P गणिज्जत, J चयारि, P पंच वि (for व), J व दिट्ठइ  
देवउलइ P वि देवउलइ न दिट्ठइं ६) J 'यणवद्धसंगीयइ P संगहगीयइ, P व छ विणिदिट्ठउ विलासिणीओ, P धवयायवत्त, J मापूर  
for माऊर ८) P सुपइ for सुहय, J वयारो for पउरो, P सालवदेसो १०) P निम्मलत्ता ११) P जो for जा य, P सहरिसह-  
रिसउडइ, J उड्डइ, P तडविय, J-पीडिज्जत, J पोमराइंदोवय P पोमरायसिद्धोहिं च पाउस १२) J व for व (emended), P जइ-  
सिया, P om मणि, J धवलविमल १३) P फुरमाणीदीवारासकुल, P सिरिं जइसिया, J सूर for सूरकत १४) J निव्वायव्व । P  
तिन्वायव आसारि, J सकुलं व. १५) J ति for त्ति, P om. सुह. १६) P कलुसण, P कामिणीयणेण, P om. ण १७) P रम-  
रीहिं, P मेहलाओ १८) P सहासायलुं, J लुद्धेहिं, J om त्ति १९) P गोयराइ, P णयर. २०) J तीय य, J om. उज्जे-  
णीय, P दिसाभाए २१) P सरिच्छ for सरिस, J पसूओ, P कहिं वि भागवेज्ज, P सयल for सयण २२) P पत्तइओ for  
खेत्तभडो, J om. परिवसइ, P एरिस, P एस for एसा, P तरललवचंचला, J om सिरी. २४) P होउ न होइ, P कस्सइ न होइ,  
J पुणंकुस, P कुट्टिआ for कड्डिया २५) J एक्को चैय, P पुरित्तो for पुत्तो, J om. वीरभडो णाम, P निय for णियय, P वेणुं  
उज्जेणयस्स. २६) J दिण्णो for दिण्णं, P om. य, P सो खत्तहडो, P स for सय २७) J दरिया, P तं चैव, J मत्तिभट्टं for  
वीरभड, P चैव २८) P राजले, J om. वि, P om चैय, J om तस्स थ से पुत्तस्स सत्तिभडो णाम. २९) P निरुदुमत्तो,  
J भवमाणी for रूवमाणी, J सुइओ P मईओ, P पुरिसाहिमाणी, P एरिसयस्स ३०) P om. first त्ति, P om. तेण ३१) J  
om. दियहे, J महाराइ, P नियनिययठाणेओ, P राइणा अवंतिवद्धणस्स थ कय. ३२) P om ट्टाण, P पेसियच्छीओ तं जाव, P  
रायउत्ति, P तओ वलिओ. ३३) P om. चैय, J om इम, P आसणत्थाण.

1 इहोवविट्टो, ता खमसु संपयं, ण उणो उचविसिस्सं' । तओ अण्णेण भणियं 'अहो, एवं परिभवो कीरइ वरायस्स' । चित्तिं 1  
च माणभडेण 'अहो, इमिणा मह पुल्लिं देण परिहओ कओ । ताव जीविय जाव इमाण परिभव सहिज्जइ त्ति । अवि य ।  
3 जाव य अमग्ग-माण जीविज्जइ ताव जीवियं सफल । परिहव-परिमलिय-पयावस्स भण कि व जीणेण ॥ अण्णे च । 3  
ताव य मंदर-गरुओ पुरिसो जा परिहवं ण पावेइ । परिभव-तुलाएँ तुलिओ तणु-तणुय-तणाओँ तणुययो ॥'  
एवं एरिसं चित्तिज्जण समुक्खया जम-जीहा-संणिहा छुरिया । ताव य अवियारिज्जण कजाकज अयाणिज्जण सुंदरासुंदर  
6 अर्चित्तिज्जण अत्तणो मरणाकरण 'सव्वहा जं होउ तं होउ' त्ति चित्तिज्जण पहओ वच्छत्थलाभोए पुल्लिंदो इमिणा रायउत्तो 6  
त्ति । अवि य ।

ण गणेइ पर ण गणेइ अप्पयं ण य होँतमहाहोँतं । माणमउम्मत्त-मणो पुरिसो मत्तो करिवरो व्व ॥

8 तं च विणिवाइज्जण णिक्खंतो लहुं चव अत्थाणि-मंडवाओ । ताव य 9

गेण्हइ गेण्हइ को वा केण व मारेह लेह रे धाह । उद्धाइ कलयल-रवो खुहियत्थाणे जलणिहि व्व ॥

§ ९९) एत्थंतरम्मि एसो माणभडो उद्धाइओ णियय-नामहुत्त । कयावराहो भुयंगो इव झत्ति संपत्तो णियय-वर

12 भणिओ य तेण पिया 'वप्पो वप्पो, मए इम एरिस घुत्तं कयं । एय च णिसामेउं सपय तुम पमाण किमेत्थ 'कायव्व' ति । 12  
भणियं च वीरभडेण 'पुत्त, ज कय तं कय णाम, किमेत्थ भणियव्वं । अवि य ।

कज्ज ज रहस-कयं पढमं ण णिवारियं पुणो तम्मि । ण य जुज्जइ भणिज्जण पच्छा लक्ख पि बोलीणं ॥

15 एत्थ पुण सपयं जुत्तं विदेस-गमणं तयणुप्पवेसो वा । तत्थ तयणुप्पवेसो ण घडइ । ता विदेस-गमण कायव्वं । अण्णहा 15

णत्थि जीवियं । ता सिग्घ करेह सज्ज जाण-वाहण' । सज्जियं च । आरोवियं च णेहिं सयल सार-भडोवक्खर । पत्थिया य

णम्मया-कूल बहु-वंस-कुडंग-रुक्ख-गुम्म-गुविलं । इमो पुण कइवय-पुरिस-परिकय-परिवारो वारिज्जतो वि पिउणा कुलउत्तयाए

18 पुरिसाहिमाण-गहिओ तहिं चव गामे पर-वलस्स थको । 18

अव्वो दुहा वि लाहो रणंगणे सूर-वीर-पुरिसाण । जइ सरइ अच्छराओ अह जीवइ तो सिरी लहइ ॥

एवं चितयंतस्स समागयं पुल्लिंदस्स संतियं बल । ताव य,

21 एसेस एस गेण्हइ मारे-मारेह रे दुरायार । जेण्ह सामिओ च्चिय णिहओ अकयावराहो वि ॥ 21

एयं च भणमाणा समुद्धाइया सव्वे समुत्थ-रिउ-भडा । इमो य आयड्ढिय-खग्ग-रयणो कह जुज्जिउं समाढत्तो ।

वेलं उप्पइओ च्चिय पायालयलम्मि पहसए वेलं । कइया वि धाइ तुरियं चक्काइट्टो व्व परिभवइ ॥

24 § १००) एवं च जुज्जमाणेणं थोवावसेसियं तं बलं इमिणा । तह दूसइ-पहरतो-गुरु-क्खय-णीसहो पाहिओ तेहिं 24

उच्छूढो य तस्स णियएहिं पुरिसेहिं मिलिओ णियय-पिउणो । ते वि पलायमाणा कह कह वि संपत्ता णम्मया-तीर-लगं

अणेय-वेळुया-गुम्म-गोच्छ-संकुलं वण-महिस-विसाण-भजमाण-वइ-वेढं उद्धाम-वियरत-पुल्लि-भीसण एक्कं पच्चतिय-गामं । त

27 चय दुग्ग समस्सइज्जण संठिया ते तत्थ । इमो य माणभडो गुरु-पहर-परदो कह कह वि रुढ-वणो संवुत्तो । तत्थ तारिसे 27

पच्चंते अच्छमाणाण बोलिओ कोइ कालो । ताव य

कड्ढिय-मुहल-सिलीमुह-दुप्पेच्छो कोइला-कलयलेण । चूय-गइदारूढो वसंत-राया समल्लीणो ॥

30 अल्लीणम्मि वसंते णव-कुसुमुब्भेय-रइयमंजलिया । सामंता इव पणया रुक्खा बहु-कुसुम-भारेण ॥ 30

रेहइ किंसुय-गहण कोइल-कुल-गेज्जमाण-सहाल । णव-रत्तंसुय-परिहिय-णव-वर-सरिस वणाभोय ॥

साहीण-पिययमाण हरिसुप्फुल्लाई माहव-सिरीए । पहिय-घरिणीण णवर कीरति मुहाई दीणाइ ॥

33 सुव्वइ गामे गामे कय-कलयल-डिंभ-पडहिया-सहो । विविह-रसत्थ-विरइओ चच्चरि-सहो समुट्टाइ ॥ 33

पिज्जइ पाण गिज्जइ य गीयय बद्ध-कलयलारावं । कीरइ मयणारभो पेसिज्जइ वल्लहे दूई ॥

1) P अत्रेहि for अण्णेण, P परिहवो कवरायस्स 2) P om च, P परिहवो, P ता जीवित जाव, J परिहव P परिभवो

3) P परिमलय-, J पयावयस्स, P भण कस्स जीएण 4) P मंदरगुरुओ, P परिहव-, P तणुयाउ for तणुयतणाओ 5) J एय च

एरिसं, P उक्खया for समुक्खया, J जमजीहसणिह, P अवयारिज्जण, P सुंदर चित्तिज्जण 6) P सव्वहा ज होउ त्ति, P रायपुत्तो

8) J अप्पय णो य होन्तमइहोँतं, P दात for होँत, J माणमउम्मत्त P माण मउम्मत्त- 9) J च णिवाइज्जण, P रायत्थणे for

अत्थाणि 10) J धावह P धाय, P खुहिओ अत्थाणे 11) P सो for एसो, P गामाहुत्तो, J च्चअणो for भुयंगो, P अत्ति for

झत्ति 12) P om य, P णेण for तेण, P वप्पो वप्पो, P om एरिस, P एव च 13) J भणिय for भणियव्व 14) P

ज कट वि रहसरइय पढम 15) P एत्थ पुण, P वि एम for विदेस, P तणुयपवेसो वा 16) P आहोहियमयलमार, J भटारवक्खर

17) J णम्मयाकूल, P कुडंग, P om परिकय, P कुणउत्तया पुरिसाभिमाण 18) J चय गामे 19) J लामो, P रणगणो

धीरवीर, J सिरी लहर 20) P चित्तियतस्स, P पुल्लिंदमत्तेय 21) P om रे 22) J च्चिय for च, P समरित्तु for

समुत्थरिउ, P वि for य, P पयत्तो for समाढत्तो 23) P एव for च्चिय, P पायालडलम्मि, J चक्काइट्ट व 24) J om. त, J

पयरतो गुरु, P पहरतो खुरप्पेण नीमहा पाटिओ तेहिं उव्वूढो तस्स 25) P om पुरिसेहिं, P मिलिय- for मिलिओ, P वीर

लग 26) J वेमया for वेळुया, P नियरत for वियरत, J पच्चतियागाम 27) P दुग्गं, P पे for य (after इमो), J पहर-

पारदो, P तारिसे 29) J सुहरपेच्छिओट्टा 30) P नवकुसुमुच्चैयरइयवचलिया 31) J कंमुअगण, P -गिज्जमाण, P नव-

रत्तंसुयपरिहिय, P वणाभोए 32) P नीहीण, J पिययमाणीहरिनु, J घरिणीए णवर 33) P om कय, P डिंभनणपट्टिया, P

निरइओ, J समुट्टाइ 34) P om य, P वल्लहे

1 § १०१) तन्नो एयमि पुरिते वसंत-समए तरुवर-साहा-णिवद्ध-दड-दीह-माला-वकलय-दोला-हिंदोलमाण-वेळहल-  
त्रिळासिणी-विलास-गिजमाण-मणहरे महु-मास-माहवी-मयरंदाभोय-मुहय-मउम्मत्त-महुय-रुहराराव-मणहर-रुणरुणेत-जुवल-  
२ जुवह-जणे सो माणभडो गाम-जुवाण-वंद-समगो अंदोलए अंदोलेउमाढतो । भणियं च जुवाण-जणेण तालं दाऊण 'भो भो ३  
गाम-त्रोद्रहा णिसुगेह एकं वयणं ।

'जो जस्त हियय-दइओ णीसंकं अज्ज तस्स किर गोत्तं । गाएयव्वमवस्सं एत्थ हु सवहो ण अण्णस्स ॥'

० पडिवण्णं च मउवेणं चैय गाम-जुवाण-जणेणं । भणियं च सहत्थ-ताल-हसिरेहिं 'रे रे सच्चं सच्चं सुंदरं सुंदरं च संलत्तं । जो ०  
जस्त पिओ तस्स हर अज्ज गोत्तं गाएयव्वं अंदोलयारूढएहिं ण अण्णस्स । अवि य ।

सोहग-मउम्मत्ता ज विय जा दूहवाओ महिलाओ । ताणं हमाण णवरं सोहगं पायडं होइ ॥'

१ एवं च भणिए णियय-पियाणं चैय पुरओ गाइउं पयत्ता हिंदोलयारूढा । तओ को वि गोरीयं गायइ, को वि सामलियं, १  
को वि तणुयंगी, को वि णीलुप्पलच्छी, को वि पउम-दलच्छि त्ति ।

§ १०२) एवं च परिवाडीए समारूढो माणभडो अंदोलए, अक्खित्तो य अंदोलए जुवाण-जणेण । तओ णियय-  
12 जायाए गोरीए मय-सिलंयच्छीए पुरओ गाइउं पयत्तो इमं च दुवह-खंडलयं ।

परहुय-महर-सह-कल-कूविय-सयल-वणंतरालए । कुसुमामोय-मुहय-मत्त-भमरउल-रणत-सणाहए ॥

वहु-मयरद-चंद-णीसंदिर-भरिय-दिसा-विभायए । जुवह-जुवाण-जुवल-हिंदोलि-गीय-रवाणुरायए ॥

16 एरिसयमि वसंतए जइ सा णीलुप्पलच्छिया पमए । आलिगिजइ मुदिय सामा विरहसुएहिं अंगेहिं ॥ 15

एयं सामाए गोत्तं गिजमाणं सुणिऊणं सा तस्स जाया सरिस-गाम-जुवई-तरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मउम्मत्त-विहलालाव-  
जंपिरीहिं काहिं वि हसिआ, काहिं वि णोछिया, काहिं वि पहया, काहिं वि णिज्जाइया, काहिं वि णिदिया, काहिं वि तजिया,  
18 काहिं वि अणुसोइय त्ति । भणिया य 'हला हला, अम्हे चित्तमो तुज्ज जोव्वण-रुय-लायण-वण्ण-विण्णण-गाण-विलास- 18  
लास-गुण-विणयक्खित्त-हियओ एस ते पई अण्णं महिलियं मणसा वि ण पेच्छइ । जाव तुमं गोरी मयच्छि च उज्जिउं  
अण्णं कं पि साम-सुंदरं कुवल-दलच्छि च गाइउं समाढत्तो, ता संपयं तुज्ज मरिउं जुजइ' त्ति भणमाणीहिं णोछिजमाणी ।

21 ते खेळाविउं पयत्ता । इमं च णिसामिऊणं चित्तिउं पयत्ता हियए णिहित्त-सल्ला विव तवस्सिणी 'अहो इमिणा मम पिययमेणं 21  
सहिययणस्स वि पुरओ ण च्छाया-रक्खणं कयं । अहो णिहक्खिण्णया, अहो णिल्लजया, अहो णिण्णेहया, अहो णिपिवा-  
सया, अहो णिभयया, अहो णिग्घणया, जेण पडिवक्ख-वण्ण-खलण-पडिभेयं कुणमाणेण महंतं दुक्खं पाविया । ता  
24 महं एवं वियाणिय-सोहगाए ण जुत्तं जीविउं । अवि य । 24

पडिवक्ख-गोत्त-कित्तण-वज्जासणि-पहर-घाय-दलियाए । दोहग-दूमियाए महिलाए किं व जीएणं ॥

इमं च चित्तिऊण तस्स महिला-वंदस्स मज्जाओ णिक्खमिउं इच्छइ, ण य से अंतरं पावइ । ताव य

27 बहु-जुवईयण-कुंकुम-वास-रउद्धय-धूलि-मइलंगो । वच्चइ छणमि पहाउं अवर-समुद-द्रहं सूरु ॥ 27

जह जह अल्लियइ रवी तुरियं तुंगमि अत्थ-सिहरमि । तह तह मग्गालगं धावइ तम-णियर-रिवु-सेणं ॥

सयल-णिरुद्ध-दिसिवहो पूरिय-कर-पसर-दूसह-पयावो । तिमिरेण णरिंदेण व खणेण सूरु वि कह खविओ ॥

30 अत्थमिय-सूर-मंडल-सुण्णे णहयल-रणंगणाभोए । वियरइ कज्जल-सामं रक्खस-वंदं व तम-णिवहं ॥ 30

§ १०३) एयमि पुरिते अवसरे दरिउम्मत्त-दिसा-करि-कसिण-महामुहवडे विय पलंविए अंधयारे णिगाया जुवह-  
सत्याओ सा इमस्स महिला । चित्तियं च णाए । 'काहिं उण इमं दोहग-कलंक-दूसियं अत्ताणं वावाइउं णिव्चुया होइ ।

33 अहवा जाणियं मए, इमं वण-संडं, एत्थ पविसिऊण वावाइस्सं । अहवा ण एत्थ, जेण सच्चं चैय अज्ज उज्जाण-वणंतरालं 33

1 > तरुवर, P डोला for दोला 2 > J मणहरो, J om. मुहय, J मयुम्मत्त, P मुहयमणुत्त for मउम्मत्त, J P रुहरावमणं,  
J रुणरुणेत 3 > जणो for जणे, P अंदोलिए, P भो भो भो. 4 > J गामवोदुहा. 5 > J हियइदइओ, P समहो 6 > J णाय-  
डिवण्ण for पडिवण्णं, P जुवाणवणेण, J सहत्थयाल, P हसिएहिं, J om. च 7 > P तस्स किर, P om अज्ज, P अंदोलयारूढेहिं.  
8 > P मओम्मत्ता 9 > P चैव, J पयत्ता P पयत्तो, P हिंदोलयारूढो क कोवि गोरिय, J कोई for कोवि, J गाययट, P सामलि  
10 > J सामलियं for तणुयंगी. 11 > J om च, P अक्खित्तओ, J अंदोलउ 12 > P जाए for जायाए, P सिलिक्खच्छीए  
13 > P वणंतरालोए, P भमरालि for भमरउल, J रणतसयसणाहए 14 > P मद for चद, P दिमाविहायए, P रवाणुराए  
15 > P जइया for जइ सा, J णिलुप्पलच्छिया P नीलुप्पलच्छिया, J पयत्तएण P पयत्तएण for पमए (emended), JP मुदिया,  
J विरहसुएहिं अणएहिं, P विहसुएहिं, 16 > P एय च सा, P om. सा, J सरिसा, J मयुम्मत्त, P पाणमत्तनिदालीर  
17 > J काहिं वि in all places, P काहिं मि in all places, P om. काहिं वि पहया, P मिज्जाइया, J om. काहिं वि णिदिया  
काहिं वि तजिया. 18 > P अणुसोच्चिय, J अन्हेहि चित्तमो, P तुह for तुज्ज, P लावण विज्जाणेण य विलासमागुणगणिययनिकयत्त-  
हियया अन्नं 19 > P तुमं गोरी, P उज्जिय अन्न किं पि समासुंदरिं. 20 > P पयत्तो for समाढत्तो P नोल्लिजमाणी खेळां.  
21 > P पइत्ता for पयत्ता, P मम पिण्ण सहियायणस्स पुरओ 22 > P निदक्खित्तया अहो निदक्खया 23 > J निरियणयया  
24 > J एय 26 > P निक्खविओ for णिक्खमिउ, P निय for ण य 27 > J वामरुधूलिमइलंगो (note the form of धु),  
P रइद्धय 28 > P निवु for रिवु 29 > J अयल for सयल, P मरिंदेण, P सूरु कहं. 30 > P सुण्ण for मण्णे, P रमगो पीए,  
P रक्खस 31 > J om. दरि, P दरियुमत्त, P महामुहवडे विउविए अधं, J om अघयारे, J ताओ before जुवह-. 32 > P  
इ only for इमस्स, P विचित्तियं, P कह पुण, J दूसिउ, P हत्ताण for अत्ताण 33 > P अवि य for जइया J om. अन्न,  
P om. उज्जाण

1 उववण पिव बहु-जण-संक्रु । पुत्य मह मगोरहाणं विग्व उष्यज्जु त्ति । ता वरे चैय वामहरयं पविमिउ जाव एम पुत्य 1  
बहु-जुवडंयण-परिवारे ण-याणइ ताव अत्ताणय वावाणुमि । चिंतयती आगया गेह । तथागया पुच्छिया मासुयाए 'पुत्ति,  
3 कथ्य पडे' । भणिय च तीए । 'एस आगओ चैय मह मगालगो त्ति' भणमाणो वामहरय पविट्ठा । तथ पविसिऊण गुत्- 3  
दूसह-पडिवक्ख-नोत्त-वज्ज-पहर-उलियाए य विरडओ उवगिहएण पामो, गिवट्ठो य कीलए, समाह्वा य आसणेसु, डाऊण  
य अत्तणो गलए पामयं भणिय इमीए ।

6 'भो भो सुगेह तुव्मे तुव्मे चिय लोग-पाठया पुत्य । मोत्तुण गियय-उडयं मगया त्रि ण पयिओ अण्णो ॥ 6  
तुव्मे चिय भणह फुड जड णो पुत्य मए जुवाणाण । धवलुवेड्डिर-पभल-गयण-सहस्सई खलियाड ॥  
मज्ज पुण पेच्छसु वल्लेण अह पुरिसं पि ज रडयं । पिय-सहि-मसूह-मज्ज-ट्टियाए गोत्त खलतेण ॥

9 ता तस्स गोत्त-खलणुल्लमंत-मंताव-जलण-जलियाए । कीरड इम अउण्णाएँ माहसं तस्स माहेजा ॥' 9

भणमाणोए चलण-तलाहय पक्खिन्नं आमण, पुरिसो पामओ, लंविउ पयत्ता, गिग्गया णयणया, गिरुंठे णीमान, वकीकया  
गीवा, आयडिय धमणि-जाल, मिटिलियाड अंगयाड, गिब्वोलियं मुह मि । पुत्यतरम्मि इमो माणभडो त जुवडे-वडे  
12 अपेच्छमाणो जायासको वर आगओ । पुच्छिया य णेण माया 'आगया पुत्य तुह बहु' त्ति । भणिय च तीए 'पुत्त, आगया 12  
सोवणयं पविट्ठा' । गओ इमो सोवणय जाव पेच्छड वीवुजोए त वीण पिव महुक्करालाविणी गिय-उच्छाण-मग-दुल्लिय  
वील-कीलयावलविणी । त च तागिमिं पेच्छऊण ममंभम पहाविओ इमो ततोहुत्त । गतूण य णेण छर त्ति छिण्णो पामओ  
15 डुरियाए । गिवडिया धरणिवट्ठे, मित्ता जलेणं, वीडया पोत्तएण, मंवाहिया हत्थेण । तओ इमि णीससिय, पविट्ठाड 15  
अच्छियाडं, चलिय अंगेण, वलियं वाहुलयाहिं, फुरिय हियएण । तओ जीविय त्ति णाऊण कहकह वि समामत्या ।

§ १०४ ) भणिय च णेण ।

18 'सुदरि किं किं केण व किं व वरुड कया तुमं कुविया । कह वा केण व कथ व किं व कय केण ते होज्ज ॥ 18  
जेण तए अत्ताणं त्रिलवयतीएँ सुयणु कोवेणं । आरोविय तुलग्गे मज्ज वि जीयं अउण्णस्म ॥'

एवं च भणिया पिययसेण इमि-मसुव्वेहमाण-मुणाल-कोमल-वाहुलडयाए इंसि-वियमत-रत्त-पम्हल-वचल-विलोल-लोय-  
21 णाए इट्ठण पिययम पुणो तक्खणं चैय आवट्ट-भिउडि-भगुराए विरज्जमाण-लोयणाए रोम-वस-फुरमाणधराए सलत्त तीए । 21  
'अव्वो अव्वेहि गिल्लज्ज वच्च तथेव जय्य मा वमड । कुवलय-उल-दीहर-लोल-लोयणा साम-मामलंगी ॥'

इम च सोऊणं भणियं माणभडेण ।

24 'सुदरि ण-याणिसो चिय का वि इमा म्माम-सुदगी जुवडे । कथ व डिट्ठा कइया कहिं व केण व ते कहिय ॥' 24  
इमं च णिम्मामिऊण रोम्माणल-यिमिमिंमंत-हिययाए भणिय तीए ।

'अह रे ण-याणामि चिय जीए अंदोलयावलरगेणं । वियमत-पम्हल-च्छेण अज्ज गोत्त समणुगीयं ॥'

27 एवं च भणिऊण महासुण्णारण-मुणी विय मोणमवलविऊण डिय त्ति । 'अहो मे कुविया म्मा, ता किमेत्य करणीय । 27  
अहवा सुकुविया वि जुवडे पायवडण णाडवत्तड त्ति पटामि स पाएसु' चिंतिऊण भणिय च णेण ।

'दे पसिय पमिय म्मामिणि कुणसु वय कीस मे तुम कुविया । पुय माणत्यडं सीमं पाएसु ते पडइ ॥'

30 त्ति भणमाणो गिवडिओ से चलण-जुवलए । तओ दुगुणयण पिव मोणमवलवियं । पुणो वि भणिया णेण । 30  
'दे सुयणु पमिय पमियसु णराहिव्राण पि ज ण पणिवडय । त पणमड मह सीम पेच्छसु ता तुज्ज चलणसु ॥'

तओ तिउणयण मोणमवलविय । पुणो वि भणिया णेण ।

33 'दरियादि-मंडलगाहिवाय-मय-जज्ज इम सीम । मोत्तूण तुज्ज सुंदरि भण कस्स व पणमए पाए ॥' 33

1) P मम for मह, P वामग्रय 2) J जुवडेअणपरिअणयाणड ताव य अत्ता, P परिवार य ण, J तथागया, P सासए  
J पुत्तय for पुत्ति 3) P चैय मगालगो त्ति 4) P उवगिहएण, J उवगिहएण, P वीए, P om य in both places  
P गले पास भणियमिमीए 6) J गिग्गया for मुणेह, P तुव्मे तुव्वि, J जेअपालया, J गिअअडयओ 7) P धवलुवेड्डिरपम्ह-  
नयण 8) J विअ P पिय (पि न ed) 9) P मउणुल्लमंताव, J तवियाए, P कह पि ता for साहसं, J माहेजो 10) J पविसिअ,  
P आमण, J गिग्गया णयणयया, P निरुट्ठो नीमामो । वकीकया 11) P जायडिय धमिनाल, J धमणिनाड मिटिलियाड, P अगाड,  
J गिब्वोलिअ मुह मि । P निवोटिमह ति ।, P जुवड, J वटे for वट्टे 12) P om य, P बहुय त्ति, J पुत्तय for पुत्त,  
13) J गओ य इमो, J महुक्कराविणी गिययुच्छा, P उरमग 14) P लीड for वीड, P नारिस, P पहाडओ, P तत्ताहुत्तो, J om,  
णेण, P ल्लड for छर, P पामओ 15) P वीया पोत्तेण, P हत्थेण । 16) P अरोटि, P वाहुलयाहिं 18) J केण व,  
कस्स व किम्ब अवरुड, J कथ ना कि, J एो ना 19) J त्रिअनीए, P त्रिअनीय मृयण कोवेण 20) J om च, P म्मु-  
वेहमाण, P धववड- 21) P आरम, J फुरतमाणधराण P फुरमाणमणहण, P om सुउत्त तीए 22) P तथ य for  
तथेव, J वीहकडो 24) J कथ पि डिट्ठा, J कथि व, P कथ व तेण 26) J याणड for याणमि, P मनणुगीय ।  
27) P डिय त्ति, P मम for मे 28) J जुवडे, J णाडियत्तड त्ति P नाडयत्तय त्ति 29) P माणथड, P त for ते  
30) J om त्ति, P जुवडए, J नेण for णेण 31) P om मयणु, P य for ज, P पणमड । ज न for पणिवय्य । न त,  
P तुज्जा 32) P त्रिगुणतर मोणमवविऊण पुणो 33) P मउण्णामिप्रायमयजुवर, P पणमए

१ § १०५) ता एवं भणिया ण किंचि जंपह । तओ समुद्धाहओ इमस्स माणो महंतो । 'अहो, एसा एरिसी जेण 1  
एवं पि पसाहज्जमाणी वि ण पणाम-पसायं कुणइ । सव्वहा एरिसाओ चैय इमाओ इत्थियाओ होंति त्ति । अवि य ।  
२ एण-रत्त-विरत्ताओ खण-रुसण-खण पसज्जाओ य । खण-गुण-गेण्हण-मणसा खण-दोसगहण-तल्लिच्छा ॥ 3  
सव्वहा चल-चवल-विज्जु-लह्याणं पिव दुव्विलसियं इमाणं । तं वच्चांमि णं वार्हिं । किमेसा ममं वच्चंतं पेच्छिऊण पसज्ज  
ण व' त्ति चिंतित्तुण पयट्ठो माणभट्ठो, णिकखंतो वास-घराओ । णीहरंतो य पुच्छिओ पिउणा 'किं पुत्त, ण दिण्णे से पडि-  
६ घयणे' । णिग्गओ वार्हिं गंतुं पयत्तो । तओ चिंतियं इमस्स महिलाए 'अहो, एवं वज्ज-कडिण-हियया अहं, जेण भत्तुणो तहा 6  
पाय-पडियस्स ण पसण्णा । ता ण सुंदरं कयं मए । अवि य ।

अकय-पसाय-विलक्खओ पुणरुत्त-पणाम-सव्वहा-खवियओ वि । अओ मज्झ पियल्लओ ण-याणिमो एस पत्थिओ कर्हिं पि ॥  
९ ता इमस्स चैय मग्गालगा वच्चाओ' त्ति चिंतित्तुण णीहरिया वास-घरयाओ । पुच्छिया य सासुयाए 'पुत्ति, कथ चलिया' । 9  
तीए भणियं । 'एसो ते पुत्तो कर्हिं पि रुट्ठो पत्थिओ' त्ति भणमाणी तुरिय-पय-णिकखेवं पहाइया । तओ ससंभमा सा वि  
थेरी मग्गालगा । चिंतियं च तेण इमस्स पिउणा वीरभट्ठेण । 'अरे सव्वं चैय कुडंबयं कथ इमं पत्थियं' त्ति चिंतयंतो  
12 मग्गालगो सो वि वीरभट्ठो । इमो य घण-तिमिरोत्थइए कुहिणी-मग्गे वच्चमाणो कह-कह वि लक्खिओ तीए । बहु-पायव-12  
साहा-सहसंधयारस्स पच्चंत-गाम-कूवस्स तडं पत्तो । तथ अवलोइयं च णेण पिट्ठओ जावोवलक्खिया णियय-जाय त्ति । तं  
च पेच्छिऊण चिंतियमणेण । 'दे पेच्छामि ताव ममोवरि केरिसो इमीए सिणेहो' त्ति चिंतयंतेण समुक्खित्ता एका गाम-कूव-  
15 तड-संठिया सिला । समुक्खिविऊण य दढ-भुय-जंत-पविट्ठा पक्खित्ता अयडे । पक्खिविऊण य लट्ठं चैय आसण-संठियं 15  
तमाल-पायवं समल्लीणो । ताव य आगया से जाया । सिला-सइ-संजणिय-संकाए अवलोइयं च इमीए तं कयं । जाव दिट्ठं  
वित्थिण-सिला-घाउच्छलंत-जल-तरल-वेविर-तरंगं । कूवं तं पिव कूवं सुव्वंतं पडिसुय-रवेण ॥  
18 तं च तारिसं दट्ठण पुलइयाइं तीए पासाइं । ण य दिट्ठो इमो तमाल-पायवंतरिओ । तओ चिंतियं । 'अवस्सं एत्थ कूवे मह 18  
दइएण पक्खित्तो अप्पा होहिइ । ता किमेत्थ करणीयं । अहवा

सो मह पसाय-विमुहो अगणिय-परिसेस-जुवइ-जण-संगो । एत्थ गओ गय-जीवो मज्झ अउण्णाए पेम्मंधो ॥

21 सयणे परिभूयाओ दोहग्ग-कलंक-दुक्ख-तवियाओ । भत्तार-देवयाओ णारीओ होंति लोयम्मि ॥ 21  
चिंतित्तुण तीए अप्पा पक्खित्तो तर्हिं चैय अयडे । दिट्ठा य णिवडमाणी तीए थेरीए । पत्ता ससंभमता । चिंतियं तीए 'अहो,  
णूण मह पुत्तओ एत्थ कूवे पडिओ, तेण एसा वहु णिवडिय त्ति ।

24 हा हा अहो अकजं देव्वेण इमं कयं णवर होज्जा । दावेउं णवर णिर्हिं मण्णे उप्पाडिया अच्छी ॥ 24

ता जइ एवं, मए वि ता किं जीवमाणीए 'दूसह-पुत्त-सुण्हा-विओय-जलण-जालावलि-तवियाए' त्ति भणित्तुण तीए थेरीए  
पक्खित्तो अप्पा । तं च दिट्ठं अणुमग्गालगोणं थेर-वीरभट्ठेण । चिंतियं च णेणं । 'अरे, णूणं मह पुत्तो सुण्हा महिला य  
27 णिवडिया । अहो आगओ कुलक्खओ । ता सव्वहा वहरि-गईद-दंत-सुसलेसु सुहं हिंदोलियं मए, उव्वड-भड-सहस्स-असि 27  
घाय-घणम्मि वि वियारियं, पुणो धणु-गुण-जंत-पसुक-सिलीमुह-संकुले रणे । एण्ह एत्थ दइ-दइवेण वसाणमिणं णिरुवियं ।  
ता मह ण जुज्जइ एरिसो मच्चू । तहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छामि' त्ति चिंतित्तुण तेण वि से पक्खित्तो अप्पा । एयं च  
30 सव्वं दिट्ठं वुत्तंतं इमिणा माणभट्ठेण । तहा वि माण-महारक्खस-पराहीणेणमणिवारियं, ण गणिओ पर लोओ, ण संभरिओ 30  
धम्मो, ण सुमरिओ उवयारो, अवहत्थिओ सिणेहो, अवमाणिओ से पेम्म-बंधो, ण कया गुरु-भत्ती, वीसरियं दक्खिणं,  
पस्हुट्ठा दया, परिचत्तो विणओ त्ति । ते मए जाणित्तुण संजाय-पच्छायाओ विलविउं पयत्तो ।

1 > P एर्वि° for एव, J अहो एरिसा जेण. 2 > P कुणइ त्ति सव्वहा, P चैय इमाओ अत्थियाओ, P om त्ति. 4 > P  
सव्वहा, J ता for त, J किमेस 5 > J त्ति चिंतित्तुण, P गम्भघरयाओ for वासघराओ, J om. य, P पुच्छिउणो किं 6 > P ए  
for अह, J ण for जेण, J तहा वि पा° 7 > J मे for मए 8 > P पणरुत्त, P सवहु for सव्वहा, P खविओ, J पिण्हओ, P उम  
कयं पि पत्थिओ. 9 > J वासहरयाओ, P सासए, J पुत्त for पुत्ति 10 > J वि से थेरी 11 > P विउणो, J कुडुवय, P om.  
कथ, P पत्थिय त्ति, J om. चिंतयंतो मग्गालगो eto. to णिययजाय त्ति । 13 > P पाया for साहा (ed), P अवयोश्च च  
णेणापिट्ठिओ, P निययजाइ त्ति । 14 > P दे पेच्छामि, J om इमीए, P चिंतिय तेण, J पणाम- 15 > P संमिया for मंठिया,  
J om य, P भुया for भुय, P पविट्ठा for पविट्ठा, P adds य before अयडे 16 > P संका for संकाए, J कूरं । जावय  
दिट्ठ 17 > P घायउच्छलंत, J त पि कूवसुव्वत्तयडासुव्व, P सुव्वत 18 > J तीय, P एत्थं 19 > J पविट्ठो for पक्खित्तो,  
P होहीई 20 > J गयजीओ, J पेम्मओ P पेम्मंधो 21 > P देवयाए 22 > P चिंतिय for चिंतित्तुण, P वेहिं चैय, P दिट्ठो,  
P तीय थेरीय, P ससमतो चिंतयती 23 > P सा for एसा 24 > P दव्वेण, P दावेऊर णवर निही मण्ण उप्पाडिऊण अच्छीणि  
• 25 > P एव, P om. वि, P जलणजातवियाएउ त्ति, P om. थेरीए 26 > P परिक्खित्तो 27 > P ताव for ता. 28 > P  
जंतु for जंत, J जतमुक्कपमोक्क, J दइएण, P वसणमिण, P निरुवियमह 29 > P ता हा for तहा वि 30 > P om. वुरंत,  
P माणमाणरक्खसा पराहीणेण न निवारियं, J परलोगो 31 > P उवयारहरो, J पेम्मावद्धो P पेमावधो 32 > J चत्तो णियं  
वे य मए जाणि°.

1 § १०६) 'हा ताय पुत्त-वच्छल जाणुण मणु तुम कह तविओ । मरण पि गज्ज कजे णवर णीमन्वय पत्तो ॥ 1  
 धी धी अहो अकज्ज आयर-सवद्धियस्स मायाण । बुद्धुत्तगम्मि तीण उवयागे ऋग्गो रडओ ॥  
 3 हा हा जीणु अप्पा विलंघिओ मज्ज गेह-कलियाण । तीणुं वि डडयाणुं मणु सुपुरिय-चरिय ममुच्चूहं ॥ 3  
 वज-सिल्लिका-वडिय णुण इम मज्ज हियवय विहिणा । जेणेरिय पि डडु फुट्ट मय मिकर णय ॥  
 ता पुण किमेत्य मह करणीय । कि इमम्मि अयडे अत्ताण पक्खिचामि । अहवा णहि णहि,  
 6 जलणम्मि सत्त-हुत्त जलम्मि वीस गिरिम्मि सय-हुत्त । पक्खित्ते अत्ताणे तहा वि सुद्धी मह णत्थि ॥ 6

§ १०७) 'ता एय एत्थ जुत्त काल । एणु मणुल्लणु कूयाओ कडिऊण सफारिऊण मय-करणिज्ज च काऊण वेरग-मग्गा-  
 वडिओ विसयाओ विसय, णयराओ णयर, कच्चडाओ कच्चड, मडवाओ मडव, गामाओ गाम, मडाओ मह, त्रिहाराओ  
 9 विहार परिभममाणो कहिं पि तारिम्म तुल्लगेण क पि गुरु पेच्छिहामो, जो इमस्स पावस्स दाहिड सुद्धि' नि चिंतिऊण तम्हाओ 9  
 चय णाणाओ तित्थ नित्थेण भममाणो मयल पुहडे-मडले परिभमिऊण मपत्तो महुराउरीण । एत्थ एक्कम्मि अणाह-मडवे  
 पविट्ठो । अवि य तत्थ ताव मिलिणुल्लणु कोड्डीणु वल्लस्स मडयणु दीण दुग्गय अवल्लय पगुल्लय मंदुल्लय मडहय वामणय  
 12 छिण्ण-गामय तोडिय-कण्णय छिण्णोड्ठय तडिय क्कप्पडिय देमिय नित्थ-यत्थिय लेहाराय वम्मिय गुग्गुल्लिय नोया । कि च 12  
 बहुणा । जो माउ-पिउ-रुद्धेओ सो सो सच्चो वि तत्थ मिच्छिणुल्लओ त्ति । ताह च तेत्थु मिलिणुल्लयह ममाणह एक्केम्महा  
 आलावा पयत्ता । 'ओ ओ कयरहिं तित्थे दे चेवा गयाह कयरा वाहिया पावं वा फिट्ठ' त्ति । एक्केण भणिय । 'अमुक्का  
 15 वाणारमी कोट्टिएहिं, तेण वाणारसीहिं गयह कोट्टो फिट्ठ' त्ति । अण्णेण भणिय । 'हुं हुं कहिओ बुत्तंतओ तेण जपि- 15  
 एल्लउ । कहिं कोट्ट कहिं वाणारसि । मूल्ल्याणु भडारउ कोट्ट जे देह उद्दालइजे लोयहु ।' अण्णेण भणिय । 'रे रे जइ  
 मूल्ल्याणु देइजे उद्दालइजे कोट्ट, तो पुणु काइ कज्ज अप्पाणु कोट्टियल्लउ अच्छइ ।' अण्णेण भणिय । 'जा ण कोट्टिएल्लउ  
 18 अच्छइ ता ण काइ कज्ज, महाकाल-भडारयहं छम्मासे सेवणु कुणइ जेण मूल्लहेजे फिट्ठ' । अण्णेण भणिय । 'काइ 18  
 इमेण, जत्थ चिर-परुद्ध पाउ फिट्ठ, तं मे उदिसह तित्थ' । अण्णेण भणिय । 'प्रयाग-वड-पडियह चिर-परुद्ध पाय वि हत्थ  
 वि फिट्ठति' । अण्णेण भणिय । 'पाव पुच्छिय पाय साहहि' । अण्णेण भणिय । 'खेहुं सेल्लह, जइ पर माइ-पिउ-वह-कयं पि  
 21 महापावाइ गगा-संगमे पहायह भडारव-भडारय-पडियह णामति ।' 21

§ १०८) त च सुय इमेण माणभडेण । तं सोऊण चिंतिय मणेण । 'अहो सुंदर इमिगा सलत्त । ता अह माइ-पिउ-  
 वह-महापाव-मत्ततो गगा-संगमे पहाइऊण भडारवम्मि अत्ताणय सजिमो जेण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' त्ति चित्तयतो  
 24 महुरा-णयरीओ एस एय कोसवी मपत्तो त्ति । ता 24

णवर ण-याणह च्चिय एस वराओ इमं पि मूढ-मणे । ज मूढ-वयण-वित्थर-परपराणु भमइ लोथं ॥  
 पडियस्स गिरियडाओ सो विहडइ णवर अट्ठि-संघाओ । ज पुण पाव कम्म समथं त जाइ जीवेण ॥  
 27 पडण-पडियस्स पत्थिव पाव परियल्लइ एत्थ को हेऊ । अह भणमि महावो च्चिय माहसु ता वेण सो टिट्ठो ॥ 27  
 पच्चक्खेण ण वेप्पह किं कज्ज जेण सो अमुत्तो त्ति । पच्चक्खेण विउत्ते ण य अणुमाण ण उवमाण ॥  
 अह भणमि आगमेणं त पुण मच्चणु-भाम्मिं होज्ज । नस्स पमाण वयग जइ मण्णसि तो इमं सुणसु ॥  
 30 पडण-पडियस्स धम्मो ण होइ तह मंगुल भवइ चित्तं । सुद्ध-मगो उण पुरिमो वरे वि कम्मक्खय कुणइ ॥ 30  
 तम्हा कुणइ विसुद्ध चित्त तव-णियम-मील-जोएहिं । अंतर-भावेण विणा सब्ब भुस-कुट्टिय एय ॥''

§ १०९) एवं च णिसामिऊण माणभडो विउडिऊण माण-बंध णिवडिओ से भगवओ धम्मणइणस्स चलण-जुवल्लणु ।  
 33 भणिय च णेण । 'भगव 33

1) J महा for कह 2) P धिद्धी, J तहया for आयर 3) P जीणु अप्पो, P तीय for तीण, P om मण,  
 P सपुरिस, P ममवूह 4) P सिल्ला, P ज एरिं, J डडु हुट्ट, P मियमकर निय । 5) ता उण, P मओ for मह,  
 P करणीय ति, J तो for कि 6) P सत्तहुत्त 7) J जत्त काउ P जुत्तकाल, P कूयाओ, P om च, P मग्गपडिओ 8) P  
 नरयाओ नरय 9) P कि पि गुरुव पे, P om पावस्स, P दाहीय for दाहिड, J सुद्धि त्ति (?) P मुट्ठि त्ति, P नओ चय द्वाणाओ  
 10) P पुहडमड, P तत्थ for ए य 11) J मिलियाल्ल, P मिलिणुल्लय कोडियल्लक्कणु दीणग्गय, P मडहय 12) P  
 ताम्पियनाडियकण्ण, J देमिय for देमिय, P लेहारीय, P गुग्गुल्लियाभोय 13) P माउपीउ, P om. सो सो, P च्चिय for ति,  
 P मिलियल्लओ, P तत्थ for तेत्थु, J मिलिणुल्लय सहममाणह, P एक्केम्मह 14) J देवा for दे चेवा, J वाहि for वाहिया, P व  
 for वा, J फिट्ठ 15) J वाणारसी गयण कोडु फिट्ठ त्ति, P om त्ति, P कहि उउत्तुनओ तणए नपिअल्ल 16) P त्थाण  
 मराउओ कोट्ट देह जो, J कोट्ट ने देह, J उद्दालि लोअहु, P लोयह । अण्णेण 17) P मूल्लदत्थाणु, J देइ उद्दालइजे, J ता for  
 तो, P पुण, P कज्ज अप्पाणु कोट्टिएल्लउ छइ । ताण काइ कज्जउ 18) J महाकाल भडारउ छम्मासे, P भडारहयह छम्मासे सेव न करइ,  
 P मूल्लो ने 19) P तत्थ for जत्थ, J चिरपरुद्ध पाउ, J तुत्थे for त मे, J तित्थ, P प्रयागवडे पडिय चिर 20) J अरे  
 पाव, P पावे पुच्छिउं पाव मोहसि, P उदुमेडिहु जइ परमायपियवहुकयाइ वि पावाइ, J माइ पिइ 21) P फिट्ठि before गगा,  
 P पडियह, J पासइ त्ति 22) P च निमुय, P त च सोऊण, P ता अल माइपियवहपावमहासत्ता 23) J अत्ताण, P अत्ताण  
 यमि मनिओ, P होउ, P चिंतियतो 24) J एय for एय 25) J इम विसूह- 26) J पडियम्मइ मि, P महिट्ट (हु)  
 for अट्ठि 27) P पित्थिव 28) J कजे, P विउत्तो 29) P भणि for भणमि, P होज्जा, P repeats वयग 30) P  
 पटावडियस्स, P नट for तह, P कह वि for भवइ, P वि पावक्खय करइ 31) P जोगेहिं, P मच्च तुममुट्टिय एय 32) J  
 एय च, P विउडिऊण, J माणवध P माणववे, P सेस भगवओ, P जुवणए. 33) J तेण for णेण

- 1 § १०५) ता एवं भणिया ण किंचि जंपह । तओ समुद्वाहओ इमस्स माणो महंतो । 'अहो, एसा एरिसी जेण 1  
एवं पि पसाइज्जमाणी वि ण पणाम-पसायं कुणह । सव्वहा एरिसाओ चेष इमाओ इत्थियाओ होंति त्ति । अवि य ।  
3 खण-रत्त-विरत्ताओ खण-रुसण-खण-पसज्जणाओ य । खण-गुण-गेणहण-मणसा खण-दोसगहण-तल्लिच्छा ॥ 8  
सव्वहा चल-चवल-विज्जु-लइयाणं पिव दुब्बिखलसिंथं इमाणं । तं वच्चांमि णं वाहिं । किमेसा ममं वच्चंतं पेच्छिऊण पसज्जह  
ण व' त्ति चित्तिऊण पयट्ठो माणभडो, णिक्खंतो वास-धराओ । णीहरंतो य पुच्छिओ पिउणा 'किं पुत्त, ण दिण्णं से पडि-  
6 वयणं' । णिग्गओ वाहिं गंतुं पयत्तो । तओ चित्तिंथं इमस्स महिलाए 'अहो, एवं वज्ज-कठिण-हियया अहं, जेण भत्तुणो तहा 6  
पाय-पडियस्स ण पसण्णा । ता ण सुंदरं कयं मए । अवि य ।

- अकय-पसाय-विलक्खओ पुणरुत्त-पणाम-सव्वहा-खवियओ वि । अओ मज्ज पियल्लओ ण-याणिमो एस पत्थिओ कहिं पि ॥  
9 ता इमस्स चेष मगालग्गा वच्चाओ' त्ति चित्तिऊण णीहरिया वास-धरयाओ । पुच्छिया य सासुयाए 'पुत्ति, कथ चलिया' । 9  
तीए भणियं । 'एसो ते पुत्तो कहिं पि रुट्ठो पत्थिओ' त्ति भगमाणी तुरिय-पय-णिकखेवं पहाइया । तओ ससंभमा सा वि  
थेरी मगालग्गा । चित्तिंथं च तेण इमस्स पिउणा वीरभडेण । 'अरे सव्वं चेष कुडं वयं कथ इमं पत्थियं' त्ति चित्तयंतो  
12 मगालग्गो सो वि वीरभडो । इमो य घण-तिमिरोत्थइए कुहिणी-मग्गे वच्चमाणो कह-कह वि लक्खिओ तीए । बहु-पायव-12  
साहा-सहस्संधयारस्स पच्चंत-गाम-कूवस्स तडं पत्तो । तथ अवलोइयं च णेण पिट्ठओ जावोवलक्खिया णियय-जाय त्ति । तं  
च पेच्छिऊण चित्तियमणेण । 'दे पेच्छामि ताव ममोवरि केरिसो इमीए सिणेहो' त्ति चित्तयंतेण समुक्खित्ता एक्का गाम-कूव-  
15 तड-संठिया सिला । समुक्खिविऊण य दढ-भुय-जंत-पविद्धा पक्खित्ता अयडे । पक्खिविऊण य लहुं चेष आसण-संठियं 15  
तमाल-पायवं समल्लीणो । ताव य आगया से जाया । सिला-सइ-संजणिय-संकाए अवलोइयं च इमीए तं कूयं । जाव दिट्ठं  
वित्थिण-सिला-घाउच्छलंत-जल-तरल-वेविर-तरंगं । कूवं तं पिव कूवं सुव्वंतं पडिसुय-रवेण ॥  
18 तं च तारिसं दट्ठण पुलइयाइं तीए पासाइं । ण य दिट्ठो इमो तमाल-पायवंतरिओ । तओ चित्तिंथं । 'अवस्सं एत्थ कूवे मह 18  
दइएण पक्खित्तो अप्पा होहिइ । ता किमेत्थ करणीयं । अहवा

- सो मह पसाय-विमुहो अगणिय-परिसेस-जुवइ-जण-संगो । एत्थ गओ गय-जीवो मज्ज अउण्णाए पेम्मंधो ॥  
21 सयणे परिभूयाओ दोहग्ग-कलंक-दुक्ख-तवियाओ । भत्तार-देवयाओ णारीओ होंति लोयम्मि ॥' 21  
चित्तिऊण तीए अप्पा पक्खित्तो तर्हिं चेष अयडे । दिट्ठा य णिवडमाणी तीए थेरीए । पत्ता ससंभमंता । चित्तिंथं तीए 'अहो,  
णूण मह पुत्तओ एत्थ कूवे पडिओ, तेण एसा बहु णिवडिय त्ति ।  
24 हा हा अहो अकज्जं देव्णेण इमं कयं णवर होज्जा । दावेउं णवर णिहिं मण्णे उप्पाडिया अच्छी ॥ 24  
ता जह एवं, मए वि ता किं जीवमाणीए 'दूसह-पुत्त-सुण्हा-विओय-जलण-जालावलि-तवियाए' त्ति भणिऊण तीए थेरीए  
पक्खित्तो अप्पा । तं च दिट्ठं अणुमगालग्गेण थेर-वीरभडेण । चित्तिंथं च णेणं । 'अरे, णूणं मह पुत्तो सुण्हा महिला य  
27 णिवडिया । अहो आगओ कुलक्खओ । ता सव्वहा वहरि-भाइंद-दंत-मुसलेसु सुहं हिंदोलियं मए, उब्भड-भड-सहस्स-आसि 27  
घाय-घणम्मि वि वियारियं, पुणो धणु-गुण-जंत-पमुक्क-सिलीमुह-संकुले रणे । एण्ह एत्थ दइ-दइवेण वसाणमिणं गिरुवियं ।  
ता मह ण जुज्जइ एरिसो मच्चू । तहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छामि' त्ति चित्तिऊण तेण वि से पक्खित्तो अप्पा । एयं च  
30 सव्वं दिट्ठं वुत्तंतं इमिणा माणभडेणं । तहा वि माण-महारक्खस-पराहीणेणमणिवारियं, ण गणिओ पर लोओ, ण संभरिओ 30  
धम्मो, ण सुमरिओ उवयारो, अवहत्थिओ सिणेहो, अवमाणिओ से पेम्म-बंधो, ण कया गुरु-भत्ती, वीसरियं दक्खिण्णं,  
पग्हुट्ठा दया, परिचत्तो विणओ त्ति । ते मए जाणिऊण संजाय-पच्छायाओ विलविउं पयत्तो ।

1 > P एवं for एवं, J अहो एरिसा जेण 2 > P कुणह त्ति सव्वहा, P चेष इमाओ अत्थियाओ, P om त्ति 4 > P  
सव्वहा, J ता for तं, J किमेस 5 > J त्ति चित्तिऊण, P गम्भयराओ for वासधराओ, J om. य, P पुच्छिउणो किं 6 > P ह  
for अह, J ण for जेण, J तहा वि पां 7 > J मे for मए 8 > P पणरुत्त, P सव्वहु for सव्वहा, P खविओ, J पिपहओ, P एस  
कय पि पत्थिओ. 9 > J वासहरयाओ, P सासुए, J पुत्त for पुत्ति 10 > J वि से थेरी 11 > P पिउणो, J कुडुवय, P om.  
कथ, P पत्थिय त्ति, J om चित्तयतो मगालग्गो etc. to णिययजाय त्ति । 13 > P पाया for साहा (ed), P अवलोइउ च  
णेणपिड्ढिओ, P निययजाइ त्ति । 14 > P दे पेच्छामि, J om. इमीए, P चित्तिय तेण, J एगाम- 15 > P संसिया for संठिया,  
J om य, P भुया for भुय, P पविद्धा for पविद्धा, P adds य before अयडे 16 > P संका for सकाप, J कूव । जावय  
दिट्ठ 17 > P घायउच्छलंत, J त पि कूवसुव्वत्तयडासुअ, P सुव्वत 18 > J तीय, P एत्थं 19 > J पविट्ठो for पक्खित्तो,  
P होहीई 20 > J गयजीओ, J पेम्मद्धो P पेम्मधो 21 > P देवयाए 22 > P चित्तिय for चित्तिऊण, P तेहिं चेष, P दिट्ठो,  
P तीय थेरीय, P ससंभतो चित्तयती 23 > P सा for एसा 24 > P दव्णेण, P दावेकर णवर निही मण्ण उप्पाडिऊण अच्छीणि  
• 25 > P एवं, P om. वि, P जलणजातवियाएउ त्ति, P om. थेरीए 26 > P परिक्खित्तो 27 > P ताव for ता 28 > P  
जतु for जत, J जतमुक्कपमोक्क, J दइएण, P वसणमिण, P निरुवियमह 29 > P ता हा for तहा वि 30 > P om. वुत्तत,  
P माणमाणरक्खसा पराहीणेण न निवारियं, J परलोगो 31 > P उवयारहरो, J पेम्मावद्धो P पेमावधो 32 > J चत्तो विणओ  
ते य मए जाणिं.



- 1 § १०६) 'हा ताय पुत्त-वच्छल जाणुण मए तुम कह तविओ । मरण पि मज्ज कजे णवरणीमसयं पत्तो ॥ 1  
धी धी अहो अकज्ज आयर-सवद्वियस्स मायाए । बुद्धुत्तणम्मि तीए उवयारो केरिसो रइओ ॥
- 3 हा हा जीए अण्णा विलंघिओ मज्ज गेह-कलियाए । तीएँ वि दइयाएँ मए सुपुरिस-चरिय ममुव्वूढ ॥ 3  
वज्ज-सिल्लिका-घडिय णूण इमं मज्ज हियवय विहिणा । जेणेरिस पि दट्ट फुट्टइ मय मिकर णेय ॥  
ता पुण किमेत्य मह करणीय । किं इमम्मि अयडे अत्ताण पक्खिवामि । अहवा णहि णहि,
- 8 जलणम्मि सत्त-हुत्तं जलम्मि वीस गिरिम्मि सय-हुत्त । पक्खित्ते अत्ताणे तहा वि सुद्धी मह णत्थि ॥ 6  
§ १०७) 'ता एयं एत्थ जुत्त काल । एए मएल्लए कूवाओ कट्टिऊण सक्कारिऊण मय-करणिज्ज च काऊण वेरग-मग्गा-  
वडिओ विसयाओ विसय, णयराओ णयर, कच्चडाओ कच्चड, मडवाओ मडव, गामाओ गाम, मडाओ मड, विहाराओ  
9 विहार परिभममाणो कहिं पि तारिस तुल्लगेणं ऋ पि गुरु पेच्छिहामो, जो इमस्स पावस्स दाहिड सुद्धिं' ति चिंतिऊण तम्हाओ 9  
चेय ठाणाओ तित्थं तित्थेण भममाणो सयल पुहइ-मडल परिभमिऊण सपत्तो महराउरीए । एत्थ एक्कम्मि अणाह-मडवे  
पविट्ठो । अवि य तत्थ ताव मिलिएल्लए कोड्डीए वलक्ख एडयए दीण दुग्गय अंधलय पसुलय मंडुलय मडहय वामणय  
12 टिण्ण-णासय तोडिय-कण्णय टिण्णोद्वय तडिय कप्पडिय देसिय तित्थ-यत्थिय लेहाराय धम्मिय गुग्गुलिय भोया । कि च 12  
बहुणा । जो माउ-पिउ-रुट्टेओ सो सो सब्बो वि तत्थ मिलिएल्लओ ति । ताहं च तेत्थु मिलिएल्लयह समाणह एक्केमहा  
आलावा पयत्ता । 'भो भो कयरहि तित्थे दे चेवा गयाहं कयर वाहिया पावं वा फिट्टइ' ति । एक्केण भणियं । 'अमुक्का  
15 वाणारसी कोटिएहिं, तेण वाणारसीहि गयह कोटो फिट्टइ' ति । अण्णेण भणियं । 'हु हु कहिओ वुत्तंतओ तेण जपि- 15  
एल्लउ । कहिं कोठ कहिं वाणारसि । मूलत्थाणु भडारउ कोठइ जे देइ उट्टालइजे लोयहु ।' अण्णेण भणिय । 'रे रे जइ  
मूलत्थाणु देइजे उट्टालइजे कोठइ, तो पुणु काइ कज्जु अण्णाणु कोटियल्लउ अच्छइ ।' अण्णेण भणिय । 'जा ण कोटिएल्लउ  
18 अच्छइ ता ण काइं कज्जु, महाकाल-भडारयह छम्मामे सेवण कुणइ जेण मूलहेजे फिट्टइ' । अण्णेण भणिय । 'काइ 18  
इमेण, जत्थ चिर-परुड पाउ फिट्टइ, त मे उदिसह तित्थं' । अण्णेण भणिय । 'प्रयाग-वड-पडियह चिर-परुड पाय वि हत्थ  
वि फिट्टित्ति' । अण्णेण भणिय । 'पाव पुच्छिय पाय साहहि' । अण्णेण भणिय । 'खेहु मेल्लहं, जइ पर माइ-पिड-वह-कयइं पि  
21 महापावाइ गंगा-सगमे ण्हायहं भइरव-भडारय-पडियह णासत्ति ।' 21  
§ १०८) त च सुयं इमेणं माणभडेण । तं सोऊण चिंतिय मणेण । 'अहो सुंदर इमिगा संलत्त । ता अह माइ-पिड-  
वह-महापाव-सतत्तो गंगा-सगमे ण्हाइऊण भइरवम्मि अत्ताणय सज्जिमो जेण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' ति चित्तयंतो  
24 महरा-णयरीओ एस एय कोसवी संपत्तो ति । ता 24  
णवर ण-याणइ च्चिय एस वराओ इम पि मूढ-मणो । ज मूढ-वयण-वित्थर-परपराए भमइ लोयं ॥  
पडियस्स गिरियडाओ सो विहडइ णवर अट्टि-सघाओ । ज पुण पाव कम्मं समयं तं जाइ जीवेण ॥  
27 पडण-पडियस्स पत्थिव पावं परियलइ एत्थ को हेऊ । अह भणसि सहावो च्चिय साहसु ता केण सो दिट्ठो ॥ 27  
पच्चक्खेण ण घेप्पइ किं कज्जं जेण सो अमुत्तो ति । पच्चक्खेण विउत्ते ण य अणुमाण ण उवमाण ॥  
अह भणमि आगमेण त पुण सव्वण्णु-भासिय होज्ज । तस्स पमाणं वयगं जइ मण्णसि तो इमं सुणसु ॥  
30 पडण-पडियस्स धम्मो ण होइ वह मंगुल भवइ चित्तं । सुद्ध-मणो उण पुरिसो घरे वि कम्मक्खयं कुणइ ॥ 30  
तम्हा कुणह विसुद्ध चित्त तव-णियम-सील-जोएहिं । अंतर-भावेण विणा सव्व भुस-कुट्टिय एय ॥''  
§ १०९) एव च णिसामिऊण माणभडो विउडिऊण माण-वंधं णिवडिओ से भगवओ धम्मणट्ठणस्स चलण-जुवत्तए ।  
33 भणियं च णेण । 'भगव 33
- 1) J महा for कह 2) P धिद्धी, J तहया for आयर 3) P जीए अण्णो, P तीय for तीए, P om मए,  
P सव्वुरिम, P ममवूढ 4) P सिलका, P ज एरिस, J दट्टु हुट्टइ, P सियसकर निय । 5) ता उण, P मओ for मह,  
P करणीय ति, J तो for किं 6) P सत्तहुत्त 7) J जत्त काउ P जुत्तकाल, P कूयाओ, P om च, P मग्गपट्टिओ 8) P  
नरयाओ नरय 9) P किं वि गुरुव पे°, P om पावस्स, P टाटीय for दाहिड, J सुद्धि ति (?) P सुद्धि ति, P तओ चेय ठाणाओ  
10) P पुहइमडल, P तत्थ for एत्थ 11) J मिलियाए, P मिलिएल्लय कोटियल्लक्खइए दीणदग्गय, P मडहय 12) P  
-नामियताडियकत्तए, J देविय for देमिय, P लेहारीय, P गुम्मुल्लियामोय 13) P माउपीउ, P om मो मो, P च्चिय for नि,  
P मिरियल्लओ, P तत्थ for तेत्थु, J मिलिएल्लय सहसमाणह, P एक्केमह 14) J देवा for दे चेवा, J वाहिं for वाहिया, P व  
for वा, J फिट्टइ 15) J वाणारसी गयाण कोडु फिट्टइ ति, P om ति, P कहि उवत्तुत्तओ तणप जपिअल्लए 16) P त्याण  
भराडओ कोडइ देइ जो, J कोडइ ले देइ, J उट्टालि लोअहु, P लोयह । अण्णेण 17) P मूलदत्थाणु, J देइ उट्टालइज्ज, J ता for  
तो, P पुण, P कज्ज अण्णाणु कोटिएल्लउ छइ । ताण काइ कज्जउ 18) J महाकालु भडारउ छम्माम, P भडारयह छम्मामे सेव न काइ,  
P मूलहोजे 19) P तत्थ for जत्थ, J चिरपरुड पाउ, J तुम्मे for त मे, J तित्थ, P प्रयागवडे पडियह चिर 20) J अरे  
पाव, P पावे पुच्छिउ पाप मोहमि, P खडुमेहिइ जइ परमायपियवहुकयाइ नि पात्राड, J माइ पिइ 21) P फिट्टिनि before गगां,  
P पडियह, J पासइ ति 22) P च नित्तय, P त च मोज्ज, P ता अल माइपियवइपावमहासत्तता 23) J अत्ताण, P अत्ताण-  
यमि अत्तमो, P होउ, P थित्थियतो 24) J एय for एय 25) J इम मिमूढ- 26) J पट्टिअमइ गिणि°, P महिट्ट (इ)  
for अट्टि 27) P निरिथव 28) J कजे, P विउत्तो 29) P भणि for भणमि, P होउना, P repeats वयग 30) P  
परुवडियस्स, P उट्ट for तह, P कइ वि for भवइ, P नि पावक्खय वरइ 31) P जोगेदि, P सव्व तुममुट्टिय एय 32) J  
एय च, P विउट्टिका, J नाणवध P नावडे, P सेन भगवओ, P जुवणए. 33) J तेण for णेण

- 1 दुक्ख-सय-णीर-पूरिय-तरंग-संसार-सागरे घोरे । भव्व-जण-जाणवत्तं चलण-जुयं तुज्ज अल्लीणो ॥ 1  
जं पुण एयं कहियं मह वुत्तं तए अणुणस्स । तं तह सयलं वुत्तं ण एत्थ अलियं तण-समं पि ॥
- 3 ता तं पसियसु मुणिवर वर-णाण-महातवेण दिप्पंतं । पाव-महापंक-जलोवहिम्मि धारेसु खिप्पंतं ॥ 3  
भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेण ।  
'सम्मत्तं णाण तवो संजम-सहियाइँ ताइँ चत्तारि । मोक्ख-पह-पवणणाणं चत्तारि इमाइँ अंगाइँ ॥
- 6 पडिवज्जह सम्मत्तेण जं जह गुरु-जणेण उवहट्टं । कज्जाकजे जाणह णाण-पह्वेणे विमलेणं ॥ 6  
जं पावं पुव्व-कयं तवेण तावेह तं गिरवसेसं । अणं णवं ण वंधह संजम-जमिओ मुणी कम्मं ॥  
ता सयल-पाव-कलिमल-किलेस-परिवज्जिओ जिओ सुद्धो । जत्थ ण दुक्खं ण सुहं ण वाहिणो जाह तं सिद्धिं ॥'
- 9 इमं च सोऊण भणियं माणभडेणं । 'भगवं, कुणसु मे पसायं इमेहिं सम्मत्त-णाण-तव-संजमेहिं जह जोगो' त्ति । गुरुणा वि 9  
णाणाइसएणं उवसंत-कसाओ जाणिऊण पव्वाविओ जिण-वयण-भणिय-विहीए माणभडो त्ति ॥ ९ ॥
- § ११० ) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण ।
- 12 'माया उच्चेययरी सज्जण-सत्थम्मि णिंदिया माया । माया पावुप्पत्ती वंक्र-विंवका भुयंगि व्व ॥ 12  
माया-परिणाम-परिणओ पुरिसो अंधो इव वहिरो विव पंगू इव पसुत्तो विय अयाणओ विय वालो विय उम्मत्तो विय  
भूय-गहिओ इव सव्वहा माइल्लो । किं च ।
- 15 सज्जण-सरल-समागम-वंचण-परिणाम-तगय-मणाए । मायाए तेण मुणियो णरणाह ण अप्पयं देति ॥ 15  
माया-रक्खसि-गहिओ जस-धण-मित्ताण णासणं कुणह । जीयं पि तुलगं मिव णरवर एसो जहा पुरिसो ॥'  
भणियं च णरवइणा 'भगवं, ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेण कयं' ति । भणियं च धम्मणंदणेण गुरुणा ।
- 18 "जो एस तुज्ज वामे पच्छा-भायम्मि संठिओ मज्झ । संकुइय-मडह-देहो मंदो कसण-च्छवी पावो ॥ 18  
जल-बुब्बुय-सम-णयणो दिट्ठो जो कायरो तए होइ । णिज्जाह य पेच्छंतं वगो व्व जो कुंचिय-ग्गीओ ॥  
कम-सज्जो मज्जारो माया इव एस दीसए जो उ । माया-मणेण एएण जं कयं तं णिसामेहि ॥
- 21 § १११ ) अत्थि बहु-नाम-कलिओ उज्जाण-वणंतराल-रमणिज्जो । आढत्त-महाभोज्जो भोज्ज-सउग्गीय-गोच्चयणो ॥ 21  
जो य रेहइ णिरंतर-संठिएहिं गामेहिं, गामइं मि रेहंति तुंग-संठिएहिं देव-कुलेहिं, देवउलइं मि रेहंति धवल-संठिएहिं  
तलाएहिं, तलायइं मि रेहंति पिहुल-दलेहिं पउमिणी-संडेहिं, पउमिणि-संडइं मि रेहंति वियसिय-दलेहिं अरविंदेहिं,
- 24 अरविंदइं पि रेहंति महु-पाण-मत्त-मुइय-महुयर-जुवाणएहिं ति । 24  
इय एक्केकम-सोहा-संघडिय-परंपराए रिंछोली । जम्मि ण समप्पइ च्चिय सो कासी णाम देसो त्ति ॥  
तम्मि य णयरी अइ-तुंग-गोउरा कणय-घडिय-वर-भवणा । सुर-भवण-णिरंतर-साल-सोहिया सग्ग-णयरि व्व ॥
- 27 जहिं च णयरिहिं जणो देयणओ अत्थ-संगह-परो य, कुणंति विलासिणीओ मंडणइं अमय-वियारइं च, ण सिक्खविज्जंति 27  
कुलयण-लज्जियव्वइं गुरुयण-भत्तिओ य, सिक्खविज्जंति जुवाणा कला-कलावइं चाणक-सत्थइं च । अवि य ।  
जा हरिस-पणय-सुरवइ-मउड-महा-रयण-रइय-चलगस्स । वम्मा-सुयस्स जम्मं-णयरी वाणारसी णाम ॥
- 30 § ११२ ) तीय य महाणयरीए वाणारसीए पच्छिम-दक्खिणे दिसा-विभाए सालिग्गामं णाम गामं । तहिं च एक्को 30  
वइस्स-जाइं परिवसइ गंगाइच्चो णाम । तम्मि य गामे अणेय-धण-धण-हिरण-सुवण-समिद्ध-जगे वि सो च्चैय एक्को जम्म-  
दरिदो । कुसुमाउह-सरिसमसरिस-रूव-पुरिसयणे वि सो च्चैय एक्को विरूओ । महु-महुर-वयण-ग्गाहिरे वि जणम्मि सो च्चैय  
33 एक्को दुव्वयण-विसो । सरय-समय-संपुण्ण-ससि-सिरी-सरिस-दंसण-सुहस्स वि जणस्स सो च्चैय एक्को उच्चेयणिज्ज-दंसणो । 33

1 > P भवजलहि for भवजण 2 > P अउणस्स, P वत्त for वुत्त 3 > P om महा, J जलोयहिअम्मि, P सुणत्त-  
5 > J संजमसमियाइं 6 > JP जहा, P गुरुयणेण, P कज्जाकज्ज - 8 > J सयलकलिकिलेस, J जीउ, J तत्थ for जत्थ, P सुक्ख  
for दुक्खं 9 > P भणिय for भगवं, J om मे, P णाणसतव, J जोगो, P इ for वि 10 > J णाणाइसएणं, J पवाविओ, P  
माणभडो त्ति । प्रवजितो माणभट । भणिय 11 > P om. च, P om गुरुणा. 12 > J उच्चेययरी; J पावुप्पत्ति 13 > J  
अधो इवा वहिरो विवा पंगू इवा, P वहिरो इव पसू विय पसुत्तो, P इव for विय thrice, P उम्मत्तो 14 > P भूयगहिओ,  
P माइल्लओ । किंचि. 16 > P जीय च तुलगमी नरवर 17 > J भयव, P इमे for इमेण 18 > JP वामो, P कसिणच्छवी-  
19 > P जिट्ठो for दिट्ठो, P पेच्छंतो, P कुंचियग्गीवो 20 > P मायामएण, P निसामेइ 21 > J भोज्जसयागीय, P गोच्च-  
इणो 22 > J गामइम्मि, P गामाइम्मि च्चिय रहिति, J om. रेहति, P देवउलेहि देवलइ च्चिय रेहति तलसिंठिएहं तलाएहिं तलाइं  
च्चिय रेहंति 23 > P संडइ वि, P अरवदेहिं 24 > P मइय for मुइय, J जुवाणेहिं 26 > J णयरीए P नयरीए for णयरी,  
J गोपुरा 27 > P जेह च्चिय for जहि च, P मंडणइ मयणवियारिय च सिक्खंति कुल 28 > P भत्तिउव्व सिक्ख, P जुवाणकला,  
P माणिक्क for चाणक, P om. अवि य 29 > P नरवइ for सुरवइ, J णामा 30 > P om. य, P दिसामाए 31 > P वइसजाइं,  
P om. य, P अणेय, J om. सुवण, P समिद्धे जिणे सो 32 > P कुसुमसरिस, J om. मसरिस, P पुरिसयणो, J च्चैय एक्को,  
P गहिरे, P व for वि, P om. जणम्मि, P सो च्चिय 33 > J सरयसमयःसण, P सो च्चैय

- 1 सरस-सरल-संलाविराणं पि सो चैय एको जरढ-कुरग-सिंग-भर-भंगुर-जपिरो । तण-मेत्तुवयारि-दिण्ण-जीवियाणं पि मज्जे 1  
सो चैय कयग्घो । सव्वहा सज्जण-सय-सकुले वि तम्मि गामे सो चैय एको दुज्जणो त्ति । तस्स य तारिसस्स असंबद्ध-
- 3 पलाविणो वकयस्स णिद्वयस्स णिद्विक्खिणस्स णिद्विक्खिणस्स णिरणुकंपस्स बहु-जण-पुणरुत्त-विप्पलद्ध-सज्जणस्स समाण-गाम- 3  
जुवाणएहिं बहुसो उवलक्खिय-माया-सीलस्स गंगाइच्चो त्ति अवमण्णिऊण मायाइच्चो कय गामं । तओ सव्वत्थ पइद्विय  
सहास च बहुसो जणो उल्लवइ मायाइच्चो मायाइच्चो त्ति । सो उण णरवर, इमो जो मए तुज्ज साहियो त्ति । अह तम्मि चैय
- 6 गामे एको वाणियओ पुव्व-परियलिय-विहवो थाणू गाम । तस्स तेण सह मायाइच्चेण कह वि सिणेहो संलग्गो । सो य 6  
सरलो मिउ-मइवो दयालू कयणू सुद्धो अवचओ कुलुगओ दीण-वच्छलो त्ति । तहा धिवरीय-सील-वयणाण पि अवरोप्पर  
देव-वसेण बहु-सज्जण-सय-पडिसेहिज्जमाणेणावि अत्तणो चित्त-परिसुद्धयाए कया मेत्ती । अवि य ।
- 9 सुयणो ण-याणइ च्चिय खलाण हिययाइँ होंति विसमाइ । अत्ताण-सुद्ध-हिययत्तणेण हिययं समप्येइ ॥ 9  
जो खल-तरुयर-सिहरम्मि सुवइ सव्वभाव-णिउभरो सुयणो । सो पडिमो च्चिय जुज्जइ अहव पडतो ण संदेहो ॥
- § ११३) एवं च ताणं सज्जण-दुज्जणाणं सव्वभाव-कवडेण णिरतरा पीई वड्डिउ पयत्ता । अण्णम्मि टियहे वीसत्था- 12  
लाव-जंपिराणं भणियं थाणुणा । 'वयस्स,
- धम्मत्थो कामो वि य पुरिसत्था तिण्णि णिमिया लोए । ताणं जस्स ण एकं पि तस्स जीयं अजीय-समं ॥  
अम्हाण ताव धम्मो णत्थि च्चिय दाण-सील-रहियाण । कामो वि अत्थ-रहियो अत्थो वि ण दीसए अरुहं ॥
- 16 ता मित्त फुड भणिमो तुलग-लग पि जीवियं काउं । तह वि करेमो अत्थं होहिइ अत्थाओ सेसं पि ॥' 15  
भणियं च मायाइच्चेण । 'जइ एव मित्त, ता पयट्ट, वाणारसिं वच्चामो । तत्थ जूयं खेल्लिमो, खत्त खणिमो, कण्णु तोडिमो,  
पंथं मूसिमो, गहिं छिण्णिमो, कूड रइमो, जणं वंचिमो, सव्वहा तहा तहा कुणिमो जहा जहा अत्थ-संपत्ती होहिइ' त्ति ।
- 18 एव च णिसामिऊण महा-नाइंद-दंत-जुवल-जमलाहएण विथ तरुयरेण पकंपियाइं कर-पल्लवाइ थाणुणा । भणिय च णेण । 18  
'तुज्ज ण जुज्जइ एयं हियएण मित्त ताव चित्तेउं । अच्छउ ता णीसंक मह पुरओ एरिस भणिउं ॥'  
एव च भणिएण चित्तियं मायाइच्चेण 'अरे अजोगो एसो, ण लक्खिओ मए इमस्स सव्वभावो, ता एव भणिस्सं' । हिसि-
- 21 ऊण भणियं च णेणं 'णहि णहि परिहासो मए कओ, मा एत्थ पत्तियायसु त्ति । अत्थोवायं ज पुण तुमं भणिहिसि तं 21  
करेहामो' त्ति । भणिय च थाणुणा ।
- 'परिहासेण वि एवं मा मित्त तुम कयाइ जयेज्जा । होइ महंतो दोसो रिसीहिं एयं पुरा भणिय ॥
- 24 अत्थस्स पुण उवाया दिसि-गमण होइ मित्त-करण च । णरवर-सेवा कुसलत्तणं च माणप्पमाणेसुं ॥ 24  
धाउव्वाओ मंतं च देवयाराहण च केसिं च । सायर-तरण तह रोहणम्मि खणण वणिज्जं च ॥  
णाणाविहं च कम्म विज्जा-सिप्पाइँ णेय-रूचाइ । अत्थस्स साहयाइं अण्णिदियाइ च एयाइं ॥
- 27 § ११४) ता वच्चिमो दक्खिणावह । तत्थ गया ज ज देस-काल-वेस-जुत्त तं त करिहामो' त्ति सम्म मंतिऊण अण्णम्मि 27  
दियहे कय-मगलोवयारा आउच्छिऊण सयण-णिद्ध-वग्ग गहिय-पच्छयणा णिग्गया दुचे वि । तत्थ अणेय-तिरि-सरिया-सय-  
सकुलाओ अडईओ उल्लघिऊण कह कह वि पत्ता पइट्ठाणं गाम णयर । तहिं च णयर अणेय-धण-धण-रयण-सकुले महा-
- 30 सग्ग-णयर-सरिसे णाणा-वाणिज्जाइ कयाइ, पेसणाइ च करेमाणेहिं कह कह वि एकेकमेहिं विडत्ताइ पच पच सुवण्ण-सह- 30  
स्साइं । भणिय च णेहिं परोप्पर । 'अहो, विडत्त अम्हेहिं जं इच्छामो अत्थ । एयं च चोराइ-उवइवेहिं ण य णेउं तीरइ  
सएस-हुत्त । ता तं इमेण अत्थेण सुवण्ण-सहस्स-मोलाइ रयणाइ पच पच गेण्हिमो । ताइ सट्ठेस गयाण सम-मोलाइं
- 33 अहिय-मोलाइ वा वच्चहिं' ति भणिऊण गहिय एकेक सुवण्ण-सहस्स-मोळं । एव च एयाइं एकेकस्स पच पंच रयणाइ । 33

1 > P सरलसरस, J सो चैय, P om एको, P om भर, P मेत्तुवयारी, P om मज्जे सो चैय etc to तन्व य तारिसस्स 3 > J वकय निहं, J णिद्विक्खिणस्स, P निरणुकंपस्स, P विप्पलद्ध 5 > P बहुजणो, J उल्लवइ व माया, P सोऊण for सोउण, P चैव 6 > P सपगो 7 > P कुलगओ, J सीलरयणाण, P अवरोप्पर देववसेण 8 > P अण्णो च्चिय पडिसुद्ध-याए 10 > P सुयइ 11 > P कवट for कवडेण, J पीती, P पड्डिओ for वड्डिउ, J विमत्थालाव P वीमत्थालावकवडनिरतरा पीइ जपि 13 > P पुरिसत्थो 14 > P तन्हा न for अम्हाण 15 > J जइ जिअ for जीविय, P जीविउ for जीविय, P अत्थो होही 16 > P om च, P खेलिमो, P ऋण 17 > P मुसिमो, P छिदिमो for छिण्णिमो, P om one तहा, J होहिति त्ति 18 > J तरुवरेण, P तरुयरेण एय वियाउ करयलपल्लवाट्ट 19 > P हियएण वि ताव मित्त चित्तेउ 20 > P भणिऊण, J लक्खिओ 21 > J om त्ति, J अत्थोवाय ज ण पुण तुम, P एत्थोवाय पुण ज तुम भणमि त 23 > P एय मा मित्त 24 > P उण 25 > P मत देव, J केमि चि for च केमिच 26 > P सपणाइ णेण, P साहणाइ J om अण्णिदियाइ च 27 > P गयाण जम कालदेसेनजुत्त त करीहामो त्ति मम 28 > P सयलनिद्वयगो गच्छिइय, J पच्छेया for पच्छयणा, P मिणि for गिरि 29 > P विदक्खिऊण, P नयण for पवर, J om पवर, P om अणेय, J om धण 30 > J वणिज्जाइ, P वरणिज्जाइ कम्म च करेमाणेहिं पेमो नइ 31 > P om अहो, P जहिच्छाए for ज उच्छामो, P एव च चोराउवइवेहिं, P तीर विमयाहुत्त 32 > J ततो for ना त, P om one पच, P मग्ग गयाइ, P नरिन for नन, J सममोलाइ च वच्चिहिं 33 > P वर्णाइति J आई for एया, P पचन for second पच

- 1 ताहं च दोहि मि जगेहिं दस वि रयणाहं एकम्मि चेष मल-धूली-धूसरे कप्पडे सुवद्धाहं । कथं च गेहिं वेस-परियत्तं । 1  
 कयाहं मुंडावियाहं सीसाहं । गहियाओ छत्तियाओ । लंघियं डंडयग्गे लावुयं । धाउ-रत्तयाहं कप्पडाहं । विलग्गाविया सिक्क  
 3 करंका । खवहा विरहओ दूर-तित्थयत्तिय-वेसो । ते य एवं परियत्तिय-वेसा अलक्खिया चोरेहिं भिक्खं भममाणा पयट्टा । 3  
 कहिंचि मोहेणं कहिंचि सत्तागारेसु कहिंचि उद्ध-रत्थासु भुंजमाणा पत्ता एकम्मि संगिवेसे । तत्थ भणियं थाणुणा 'भो भो  
 0 भित्त, ण पारेमो परिसंता भिक्खं भमिक्कणं, ता अज्ज मंडप्प कारावेडं आहारेमो' । भणियं च मायाहच्चेणं 'जइ एवं, ता  
 0 पविससु तुमं पट्टणं । अहं समुज्जुओ ण-याणिमो कय-विक्रयं, तुमं पुण जाणसि । तुरियं च तए आगतं वं ।' भणियं च 8  
 थाणुणा 'एवं होड, किं पुण रयण-पोत्तं कं कौरउ' ति । भणियं च मायाहच्चेण 'को जाणइ पर-पट्टणाण थिइं । ता  
 मा अवाओ को वि होहि ति तुह पविट्टस्स मह चेष समीवे चिट्ठउ रयण-कप्पडं' ति । तेण वि एवं भणमाणेण समप्पियं तं  
 9 रयण-कप्पडं । समप्पिज्जण पविट्टो पट्टणं । चित्तियं च मायाहच्चेणं । 'अहो, इमाहं दस रयणाहं । ता एत्थ महं पंच । जइ पुण 9  
 एयं कहिंचि वंचेज्ज, ता दस वि महं चेष हवेज्ज' ति चित्तियंतस्स बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे घेत्तुण पलायामि । अहवा ण महंती  
 वेला गयस्स, संपयं पावइ ति । ता जहा ण-याणइ तहा पलाइस्सामि' ति चित्तिकण गहियाओ णेण रच्छा-धूलि-धूसरो अवरो  
 12 तारिसो चेष कप्पडो । णिवद्धाहं ताहं रयणाहं । तस्मि य चिरंतगे रयण-कप्पडे णिवद्धाहं तप्पमाणाहं वट्टाहं दस 12  
 पाहाणाहं । तं च तारिसं कूड-कवडं संघडंतस्स सहसा आगओ सो थाणू । तस्स य हल्लफलेण पाव-मणेण ण णाओ कत्थ  
 परमत्थ-रयण-कप्पडो, कत्थ वा अल्लिय-रयण-कप्पडो ति । तओ णेण भणियं 'वयंस, कीस एवं समाउलो ममं दट्टणं' ति ।  
 15 भणियं मायाहच्चेणं । 'वयंस, एस एरिसो अत्थो णाम भओ चेष पच्चक्खो, जेण तुमं पेच्छिज्जण सहसा एरिसा बुद्धी जाया 15  
 'एस चोरो' ति । ता इमिणा भएणं अहं सुसंभतो' । भणियं च थाणुणा 'धीरो होहि' ति । तेण भणियं 'वयंस, गेणइ  
 एयं रयण-कप्पडं, अहं बीहिमो । ण कज्जं मम इमिणा भएण' ति भणमाणेण अल्लिय-रयण-कप्पडो ति काऊण सच्च-रयण-  
 18 कप्पडो वंचण-बुद्धीए एस तस्स समप्पिओ । तेण वि अवियप्पेण चेष चित्तेण गहियाओ । अवि य, 18  
 वंचेमि ति सयणहं वग्घी अल्लियइ मय-सिल्लिवस्स । अणुधाइ मय-सिल्लिवो मुद्धो थणयं विमगंतो ॥

§ ११५) तओ तं च समुज्जुय-हिययं पाव-हियएण वंचिज्जण भणियमणेण । 'वयंस, वच्चामि अहं किंचि अंबिलं

- 21 मरिगऊण आगच्छामि' ति भणिज्जण जं गओ तं गओ, ण णियत्तइ । इमेण य जोयणाहं बारस-मेत्ताहं दियहं राहं च गंतूण 21  
 णिरुवियं णेण रयण-कप्पडं जाव पेच्छइ ते जे पाहाणा तत्थ वद्धा किर वंचणत्थं तस्मि कप्पडे सो चेष इमो अल्लिय-रयण-  
 कप्पडो । तं च दट्टण इमो वंचिओ इव लुंचिओ इव पहओ इव तत्थो इव मत्तो इव सुत्तो इव मओ इव तहाविहं अणा-  
 24 यक्खणीयं महंतं मोहमुवगओ । खण-मेत्तं च अच्छिज्जण समासत्थो । चित्तियं च णेण । 'अहो, एरिसो अहं मंदभागो जेण 24  
 मए चित्तियं किर एयं वंचिमो जाव अहमेव वंचिओ' । अवि य,  
 जो जस्स कुणइ पावं हियएण वि कह वि मूढ-मणो । सो तेणं चिय हम्मइ पच्चुप्फिडिएण व सरेण ॥  
 27 चित्तियं च णेण पाव-हियएणं । 'दे पुणो वि तं वंचेमि समुज्जुय-हिययं । तहा करोमि जहा पुणो मग्गेण विलग्गाइ' ति 27  
 चित्तियंतो पयट्टो तस्स मग्गालगो । इयरो वि थाणू कुलउत्तओ तत्थेव य पडिवाल्यंतो खणं मुहुत्तं अद्धपहरं पहरं दियहं  
 पि जाव ण पत्तो ताव चित्तिडं पयत्तो ।  
 30 'अव्वो सो मह मित्तो कत्थ गओ णवर होज्ज जीय-समो । किं जियइ मओ किं वा किं वा देव्वेण अवहरिओ ॥' 30  
 तं च चित्तिकण अण्णेसिडं पयत्तो । कत्थ ।

रच्छा-चउक्क-तिय-चच्चरेसु देवउल्ल तह तलाएसुं । सुण्ण-घरेसु पवासु य आराम-विहार-गोट्टेसु ॥

- 33 जया एवं पि गवेसमाणेण ण संपत्तो तथा विलविडं पयत्तो । 33

1 > P ताह दोहि मि जगेहिं, P एकम्मि, J धूलि-, P वद्धाहं for सुवद्धाह, J om कथं, J om. वेसपरियत्त 2 > P om,  
 कयाहं, P मुंडावियं सिर, P छत्तीओ, P दंडयग्गे, J धाउरत्तया P धाउरत्ताहं, J कप्पडाह च 3 > P विरिहओ, P ते एव, P चोरिहिं,  
 J om. पयट्टा. 4 > J om. कहिं चि उद्ध/त्थासु, J पयत्ता for पत्ता 5 > P मडवे काराविडं 6 > P पविस तुमं, J om तुम J  
 अहमुज्जुओ P समुज्जुओ 7 > J पुण इम रयण-, P रयणपोत्तकप्पड कह, P जाणउ परपट्टणाण का वि ड्डीति । 8 > P को वि  
 तुह होइ तुह 9 > P adds य before पविट्टो, P जइ उण अहं कहिंचि 10 > J वंचेज्जा, P दस वि चेष मह हवेज्ज ति  
 चित्तियंतस्स 11 > P om गयस्स, J ता for तहा, P पलाइस्सं ति 12 > P चेष कप्पडो । वद्धाहं, J दसपहाणाइ P दसपाहाणाहं.  
 13 > P कवड घडंतस्स, J थाणु, P हल्लफलेण, J पावमाणेण, P om ण 14 > J परमत्थकप्पडो, J व for वा 15 > P च  
 before मायां, P om एम 16 > P ससंभतो, P होहिय ति, P गेणइ for वयंस 17 > J adds ति before अह, P  
 बीहिमो 18 > J om एस 19 > J अणुद्धाइ 20 > J मणिअं अण्णेण 21 > P त गओ जं गओ, J गंतूण for इमेण य,  
 P दियहराईए गंतूण 22 > J पेच्छेइ, P ते पाहणा तत्थ किर वद्धा, P कप्पडो. 23 > P om लुंचिओ इव, P दड्डो for तत्थो,  
 P मओउ इव, J अणाविकखणीय 24 > P महत्त, P चिय for च, P एरिस मंद 25 > P चित्तियं एय किर वंचेमि 26 > P  
 हियएण, P केण for कह, P मोहमूढ 27 > J पुणे for पुणो, J वंचेमि ति समुज्जाय, P समुज्जय, P adds वि after पुणो.  
 28 > P पड्डो, J थाणु P थाण, J om. य, P पडिवाल्यता, P अद्धपहरं 29 > P णो for ण 30 > J सो कीद मह, P जीयद  
 मओ वा 32 > J inter. तिय and चउक्क, P चउक्केसु for तलाएसु 33 > J om. पि.

- 1 'हा मित्त मित्त-चच्छल छल-वज्जिय जिय-जियाहि वास-सयं । कथ्य गओ कथ्य गओ पडिवयणं देसु तुरिय ॥ 1  
 अओ केणइ दिट्ठो सरल-सहाओ गुणाण आवासो । मज्झ वयंसो सो सो साहसु वा केण वा दिट्ठो ॥'
- 3 एवं च विलवमाणस्स सा राई दियहो य अइकतो । राईए पुण कहिं पि देवउले पडिऊण पसुत्तो । राईए पच्छिम-जामे केण 3  
 वि गुज्जर-पहियएण इम धवल-दुवहय गीयं । अवि य ।  
 जो णवि विहुरे विभज्जणउ धवलउ कइह भारु । सो गोट्टंगण मडणउ सेसउ व्व जं सारु ॥
- 6 इमं च गिज्जमाण सोऊण सभरिया इमा गाहुल्लिया थाणुणा । 6  
 पिय-विरहे अप्पय-दसगे य अत्थक्खए विवत्तीसु । जे ण विसण्णा ते च्चिय पुरिसा इयरा पुणो महिला ॥  
 ता एत्थ विसाओ ण कायओ । सव्वहा जइ कहिंवि सो जीवइ तो अवस्स गेहं आगमिस्सइ । अह ण जीवइ, तो तस्स य  
 9 माणुसाण समुप्पेस्सं रयणाणि त्ति च्चित्तऊण पयट्ठो अत्तणो णयराभिमुहो, वच्चमाणो कमेण सपत्तो णम्मया-त्तीरं । ताव सो 9  
 वि मायाइच्चो विलकखो दीण-विमणो भट्ट-देह-लच्छीओ संपत्तो पिट्ठओ दिट्ठो अणेण । दट्ठूण य पसारिओभय-चाहुणा गहिओ  
 कंठे रोइउं पयत्तो ।
- 12 हा मित्त सरल सज्जण गुण-भूसण मज्झ जीय वर-दइय । कथ्य गओ मं मोत्तु साहसु ते किं व अणुभूयं ॥ 12  
 § ११६) इमो वि कवड-कय-रोवणो किं पि किं पि अलियक्खरालाव रोइऊण गाढयं च अवगूहिऊण उवविट्ठो  
 पुरओ, पुच्छिओ थाणुणा । 'भणसु ता मित्त, कथ्य तुम गओ, कथ्य वा संठिओ, कि वा कयं, कहं व मज्झ विउत्तो, जेण  
 15 मए तहा अण्णेसिज्जमाणो वि ण उवल्लहो' त्ति । भणियं च णड-पडिसीसय-जडा-कडप्प-तरग-भंगुर-चल-सहावेण इमिणा 15  
 मायाइच्चेणं । 'वर-वयस, णिसुणेसु ज मए तुह विओए दुक्ख पाविंयं । तइया गओ तुह सयासाओ अह घर वरेण भम-  
 माणो पविट्ठो एक्कम्मि महते पासाए । तत्थ मए ण लइं किंचि । तओ अच्छिउ क पि वेलं णिरगंतु पयत्तो जाव पिट्ठओ  
 18 पहाइएहिं रोस-जलण-जालावली-मुज्झतेहि धूमधयार-कसिणेहिं भीसणायारेहि जम-दूवेहिं व सुड्डया-पहार-कील-चवेडा- 18  
 घाय-डडपहारेहिं हम्ममाणो 'किं किमेय' ति 'किं वा मए कय' ति अणमाणो, 'हा मित्त, हा मित्त, कथ्य तुम गओ, मह  
 इमा अवत्थ' त्ति विलवमाणो तओ 'चोरो' त्ति भणमाणेहिं णीओ एक्कस्य तम्मि घरे घर-साभिणो सगासं । तत्थ तेण भणिय  
 21 'सुदरो एस गहिओ, सो चेय इमो चोरो, जेण अम्हाण कोडल अचहरिय । ता सव्वहा इमम्मि उववरए णिरुभिऊण 21  
 धारेइ जाव रायउले णिवेएमि । तओ अहं पि च्चित्तुं पयत्तो । 'अहो,  
 पेच्छइ विहि-परिणाम अण्णह परिचिंतिय मए कजं । अण्णह विहिणा रइयं भुयंग-गइ-वंक-हियएण ॥
- 24 तओ वयंस, 24  
 ण वि तह डज्झइ हियय चोर-कलकेण जीय-संदेहे । जह तुज्झ विरह-जालोलि-दीविंयं जलइ णिदूम ॥'  
 तओ 'अहो अकयावराहो अकयावराहो' त्ति विलवमाणो णिच्छूओ एक्कम्मि घर-कोट्टए, ण य केणइ अण्णेण उवलक्खिओ  
 27 तत्थ वयंस, तुह सरिरे मंगुलं चिंतेमि जइ अण्णहा भणिमो, एत्तियं परिचिंतेमो । 27  
 जइ होइ णाम मरणं ता कीस जमो इमं विलवेइ । पिय-मित्त-तिप्पउत्तस्स मज्झ मरण पि रमणिज्जं ॥  
 § ११७) एव च चिंतयतस्स गओ सो दियहो । संपत्ता राई । सा वि तुह ममागम-चिंता-सुमिण-परपरा-सुह-सुत्थि-  
 30 यस्स झत्ति वोलीणा । सपत्तो अवरो दियहो । तत्थ मज्झणह-समए संपत्ता मम भत्त घेत्तूण एक्का वेस-विलया । तीय य 30  
 मम पेच्छिऊण सुंदर-रूव अणुराओ टया य जाया । सा य मए पुच्छिया 'सुदरि, एक्कं पुच्छिमो, जइ साहसि फुड' । तीए  
 भणिय 'दे सामसुदर, पुच्छ धीसत्थं, साहिमो' । मए भणिय 'कीम अह अणवराही गहिओ' त्ति । तीए संलत्त 'सुहय,  
 33 इमाए णवमीए अम्ह च ओरुद्धा देवयाराहण काहिइ । तीए तुमं वली कीरिहिमि, चोर-कारेण य गहिओ मिसं टाऊण' । 33

1 > P om मित्त, J om. छल, P om जिय, P पडिवयण for the 2nd कथ्य गओ 2 > P केण वि, P सहाओ, J inter  
 सो सो and साहसु 3 > J राइ, P उण for पुण, P राईयं, P inter केण & जामे 4 > J पडिण्ण, P दुव्वहय 5 > P सज्जणओ  
 (for मज्झ) धवलओ कइह भारो, P मडणओ सेसओ, P तट्ठिय for व्व ज (?) 7 > P इयरे for इयरा 8 > P पि for च्चि,  
 J आगच्छिरिन्इ, J तो तओ तस्स य माणुस्साण, P om य 9 > P अम्मणो for अत्तणो 10 > P पट्ठीओ for पिट्ठओ,  
 P पसारिणोभयचाहुणा 11 > P राउ 12 > P मज्झ हिययइयया, J अणुइय 13 > P -रोणो, J रोत्तण गाढ अव 14 >  
 P जा for ता, J कथ्य व, P कइ व 15 > P तहा वि, P उदो for उवल्लहो, P भट्ठियिण for भणिय, P पडिसीमया 16 > P  
 om णिसुणेसु, P तुह 17 > P किं पि काल निगंतु, J जा for जाव 18 > P पहाविपहिं, P मुज्जत धूमं, J जमदूणहि, P व  
 स्वट्टया, P कीउव्वेत्तपायट्टं गारेहिं हम्ममाणो 20 > J मनाम 21 > P णम तर णिओ, P जेणसाण, P उव्वण निग्गिऊण धारेहि  
 23 > P विप्पिणामो 25 > P सदेहो, P अउ for जइ 26 > J विलवमाणो for अहो, P om 2nd अकयावराहो, P पर for  
 घर, P अणेण उ उव 27 > P चिंतेमो । अउ अत्तण भणिमो, P पर for परि 28 > P एज्ज, P पि उन्नियज 29 > P मो for  
 म, P तुत्तिपयम्म 30 > P चोमिणो, P मत्तुत्तम 31 > P om सुदर, P om सुदरि, P पुच्छिमो, P adds मए before  
 सु 32 > P adds च before कीम, P om उद, J आवराही 33 > P उव्वहा for ओरुद्धा, P काहिहिं for काहिइ, P चो-

- 1 तमो सविसेस-जाय-जीविय-भएणं मए पुच्छिया 'सुंदरि, ता को उण मम जीवणोवाओ' ति । तीए भणियं । 'णत्थि तुह 1  
जीवणोवाओ । सामिणो दोज्जं ण करेमो । तहा वि तुमहं मज्जेण मह महंतो सिणेहो । ता मह वयणं णिसुणेसु । अत्थि 2  
3 एको उवाओ, जह तं करेसि' । मए भणियं 'साह, केरिसो' । तीए संलत्तं 'हिज्जो णवमीए सव्वो इमो परियणो सह 3  
सामिणा णहाइउं वच्चीहि ति । तओ तम्मि समए एकद्वय-मेत्ते रक्खवाले जह कवाडे विहडेउं पलायसि, तओ चुको, ण अण्णह'  
ति भणंती णिग्गया सा । मए चिंतियं । 'णीहरंतो जह ण दिट्ठो, तो चुको । अह दिट्ठो, तो धुवं मरणं' ति चिंतियण तम्मि  
6 दियहे णिक्खंतो । तओ ण केणह दिट्ठो । तओ मित्त, तम्हा पलायमाणो तुमं अण्णेसिउं पयत्तो । ताव एकेण देसिएण 6  
साहियं जहा एरिसो एरिसो य देसिओ एको गओ इमिणा मरणेणं । एयं सोऊण तुह मग्गालगो समागओ जाव तुमं एत्थ  
दिट्ठो णम्मया-कूले । ता मित्त, एयं मए अणुहूयं दुक्खं, संपयं सुहं संवुत्तं ति । अवि य ।
- 9 मित्तेहिं जाव ण सुयं सुहं व दुक्खं व जीव-लोयम्मि । सुयणाण हियय-लगं अच्छइ ता तिक्ख-सल्लं व ॥' 9  
एयं च णिसामिऊण वाह-जल-पप्पुयच्छेण भणियं थाणुणा । 'अहो

अज्जं चिय जाओ हं अज्जं रयणाहं णवर पत्ताइं । जं सव्व-सोक्ख-मूलं जीवंतो अज्ज संपत्तो ॥'

- 12 § ११८) एवं च भणियण कयं मुह-धोवणं । कयाहार-किरिया य उत्तिण्णा जल-तरल-तरंग-रंगंत-मत्त-मायंग-मज्ज- 12  
माण-मयरेहाहोय-दाण-जल-पीसंद-विंदु-परिप्पयंत-चित्तल-जलं महाणइं णम्मयं ति । थोवंतरं च जाव वच्चंति ताव अणेय-  
वेल्लि-लया-गुविल-गुम्म-दूसंचाराए महाडवीए पणट्ठो मग्गो भव-सय-सहस्स-गुविल-संचारे संसार-कंतारे अभवियाणं पिव  
15 णिम्मलो जिणमग्गो । तओ ते पणट्ठ-मग्गा मूढ-दिसिवहा भय-वेविर-गत्ता उम्मत्तगा विय अणिरुविय-गम्मागम्मा तं 15  
महाडविं पविसिउं समाढत्ता । जा पुण कहसिय । अवि य ।

बहु-विह-कुसुमिय-तरुवर-कुसुमासव-लुद्ध-भमिर-भमरउला । भमिर-भमिरोलि-गुंजा-महुर-सरुग्गीय-मिलिय-हरिणउला ॥

- 18 हरिणउल-णिच्चल-ट्टिय-दंसण-धावंत-दरिय-वण-वग्घा । वण-वग्घ-दंसणुप्पित्थ-हत्थि-णासंत-वण-महिसा ॥ 18  
वण-महिस-वेय-भजंत-सिंग-सण्हावडंत-तरु-णिवहा । तरु-णिवह-तुंग-सहुच्छलंत-पडिसुत्त-बुद्ध-वण-सीहा ॥  
वण-सीह-मुक्क-दीहर-परिकुविओरल्लि-हित्थ-हत्थिउला । हत्थिउल-संभमुमुक्क-मीम-सुंकार-कुविय-वण-सरहा ॥
- 21 वण-सरह-संभम-भमंत-सेस-सय-सउण-सेण-वीहच्छा । सउण-सय-सावयाराव-भीम-सुव्वंत-नारुय-पडिसइ ॥ 21  
अवि य । कहिंचि करयरंत-वायसा कुलुकुलेंत-सउणया रणरणंत-रणया चिलिचिलेंत-वाणरा रणुरणंत-महुयरा घुरुघुरंत-  
वग्घया समसमेंत-पवणया धमधमेंत-जलणया कडकडेंत-साहिया चिरिचिरेंत-चीरिया दिट्ठा रण्णुहेसया । अवि य ।

- 24 बहु-वुत्तंत-पयत्तिय-भव-सय-संवाह-मीम-दुत्तारं । संसाराडइ-सरिसं भमंति अडइं अभविय व्व ॥ 24

§ ११९) तओ एवं च परिभमंताण तम्मि समए को कालो वट्ठिउं पयत्तो । अवि य ।

वित्थिण्ण-भुवण-कोट्टय-मज्ज-नायं तविय-पव्वयंगारं । उय धम्मह पवणेणं रवि-बिंबं लोह-पिंडं व ॥

- 27 सयल-जण-कम्म-सक्खी भुवणभंत-पयत्त-वावारो । गिम्हम्मि रवी जीए कुविय-कयंतो व्व तावेइ ॥ 27

एयारिसे य गिम्ह-समए वट्ठमाणे का उण वेला वट्ठिउं पयत्ता ।

अवरोवहि-वेला-वारि-णियर-तणु-सिसिर-सीयरासत्ता । णहयल-गिरिवर-सिहरं रवि-रह-तुरया वलंगंति ॥

- 30 सिसिर-णरिदम्मि गए दूसह-घण-सिसिर-बंधण-विमुक्को । तावेइ अवर-णिकरे संपइ सूरु णरवइ व्व ॥ 30

1 > J सुदरी, P ता का मम जीवणोवाओ, P तुम for तुह 2 > J om ण, P वि मम तुज्ज मज्जेण महंतो, P मह 3 >  
P होज्जा णवमी सव्वो 4 > J सामिणो, J वच्चीहि ति P वच्चिहि ति, P तम्मि समए एकद्वयमेत्ते, P जह कवाडे विहडाविउ 5 > P भणिय  
for भणती, J जह णिक्खंतो ता चुको, P om. ति 6 > P ता for ताव 7 > J सोऊ for एय सोऊण, P तुमं न दिट्ठो एत्थ  
नम्मया 8 > P एव for एय 10 > J -पप्पुयच्छेण, P adds च before थाणुणा 12 > P पय for एव, P कयमुहवावण-  
कयाहारा तुरिया, J जलयरतरंग 13 > P मयरहाधाय, J चित्तलजल महाणणम्मयं, P मल for जल, P om. च, P तावय, J ताव  
अणय 14 > J गुहिल, P दुस्सचारा महाडईय, J पणट्ठमग्गा, P om. सय, J गुहिल, P ससारे 15 > P तेण for ते, P मूढदिसि  
विवहाया भय, P उम्मत्तगो विय निरुविय, P om त 16 > P महाडइ, P पुण केसिया 17 > P कुसुमयतरुवर, J om भमिर, P  
भमिरोल, P सरग्गीय 18 > P धोवत, P दसणुप्पिच्छ, J मत्त (on the margin) for हत्थि 19 > P भेयमज्जतसंग, J णिवट्ठ  
for णिवह, P भरु for तुंग, P वणसीह 20 > J सभमुमुक्क P सभममुक्क, J सहरा for सरहा 21 > J सेस for सेससय, J  
वीरुच्छा for वीहच्छा 22 > P करयरत, J adds कहिंचि before कुलुकुलेंत, P रणरणंतममरया, J घुरुघुरंत 23 > P कटयडत,  
P रण्णुहेसिया, J om अवि य 24 > P बुहु for बहु 26 > P विच्छिन्नमवण, J पिण्डव्व 27 > J सयलजल P सयजण, P जीवे  
for जीए 28 > P om. य, P गिम्हसम्प का उण 29 > P अवरोअहि 30 > P तावेइ य धरणिधरो संपइ, P नरिदो for णरवइ

- 1 बालो दंसण-सुहवो परिवद्वतो तवेइ कह सूरौ । सबो चिय णण वणे जोव्वण-समयम्मि दुप्पेच्छो ॥ 1
- तओ एयम्मि एरिसे समए वट्टमाणे ते दुवे वि जणा दूसह-रवि-किरणपरद्धा अहो-गिम्ह-तत्त-वालुया-उज्झमाणा दूसह-तण्हा- 3
- भर-सूसमाण-तालुय-तला दीहद्धाण-खेय-परितत्ता छुहा-भर-क्खाम-णिणणोयरा मूढ-दिसिवहा पणट्ट-पंथा पुल्लिद-भय-चेविरा 3
- सिंघ-वग्घ-संभंता मयतण्हाजल-तरंग-वेल्लविज्जमाणा जं किचि णिण्णयं दट्टूण जलं ति धावमाणा सव्वहा अणेय-दुक्ख-सय- 3
- संकुले पविट्ठा तम्मि कंतारे इमं पि ण-याणंति कत्थ वच्चिमो, कत्थ वा भागया, कहिं वा वट्टामो त्ति । एयम्मि अवसरे 3
- 6 बहु-दुक्ख-कायर-हियएण भणियं थाणुणा । मित्त-गरुय-दुक्ख-भर-पेल्लिज्जमाण-हियवओ भणित पयत्तो । 'ओसरइ य मे 6
- छुहा-तणु-उदरस्स दढ-वट्टो वि णियंसणा-वधो । ता इमं रयण-कप्पडं गेण्ह, मम कहिंचि णिवडिहइ त्ति । ता तुमं चेय 6
- गेण्हसु, जेण णिव्वुय-हियओ गमिस्सं' त्ति । चिंतियं च मायाइच्चेण । 'अहो, ज मए करियव्वं तं अप्पणा चेय इमिणा कय, 6
- 9 समप्पियाइ मज्झ रयणाइं । ता दे सुदर कयं । संपयं इमस्स उवायं चिंतिमो' त्ति णिरुवियाइं पासाइं जाव टिट्ठो अणेय- 9
- वरिस-सय-सहस्स-परूढ-साहा-पसाह-वित्थिण्णो महंतो वड-पायवो । वलिया य तं चेय दिसं । जलं ति काऊण संपत्ता कह- 9
- कह वि तत्थ, जाव पेच्छंति । अवि य, 9
- 12 तण-णिवहोच्छइय-मुहं ईसिं लक्खिज्जमाण-परिवेढं । विसम-तडुट्टिय-रुक्खं गहिर पेक्खंति जर-कूवं ॥ 12
- बंधुं पिव चिर-णट्टं रज्जं पिव पावियं गुण-समिद्धं । अमय-रसं पिव लद्धं दट्टुं मण्णंति जर-कूवं ॥ 12
- पलोइयं च णेहिं सव्वत्तो जाव ण कहिंचि पेच्छंति रज्जुं अण्ण वा भंडय जेण जल समाहरति कूवाओ । तओ चिंतियं 12
- इमिणा दुट्ट-वुट्ठिणा मायाइच्चेणं । 'अहो सुदरो एस अवसरो । जइ एयम्मि अवसरे एयं ण णिवाएमि, ता को उण 15
- एरिसो होहिइ अवसरो त्ति । ता संपय चेय इम विवाडेमि एत्थ कूवे, जेण महं चेय होंति दस वि इमाइ रयणाइं' । 15
- चिंतयंतेण भणियो थाणू इमिणा मायाइच्चेणं । 'मित्त, इमं पलोएसु । एत्थ जुण्ण-कूवे के-दूरे जल ति, जेण तस्स पमाणं 15
- 18 वेल्ली-लया-रज्जु कारेमि' त्ति । सो वि तवस्सी उज्जुओ, एव भणियो समवलोहउ पयत्तो जुण्ण-कूवोवर । इमिणा वि माया- 18
- इच्चेणं पाव-हियएण माया-मूढ-मणेणं अणवेक्खिऊण लज्जं, अवमाणिऊण पीइ, लोविऊण दक्खिण्णं, अवहत्थिऊण पेम्मं, 18
- अयाणिऊण कयणुत्तणं, अजोइऊण परलोय, अवलोइऊण सज्जण-भगं, सव्वहा मायाए रायत्त-हियएणं णिइय णोल्लिओ 18
- 21 इमिणा सो वराओ । णिवडिओ सो धस त्ति कूवे । पत्तो जल जाव बहु-रुक्ख-दल-कट्ट-पूरियं किचि-सेस-जवालं दुग्गं व 21
- थोय-सल्लिलं पेच्छइ कूवोदर थाणू । णिवडिओ य तम्मि जंवाले, ण पीडा सरीरस्स जाया । 21
- § १२०) तओ समासत्थेणं चिंतियं णेण थाणुणा । अव्वो,
- 24 पढम चिय दारिइ पर-विसओ रण्ण-मज्झ-परिभमण । पिय-मित्त-विप्पओगो पुण एय चिरइयं विहिणा ॥ 24
- एय पुण मम हियए पडिहायइ जहा केण वि णिइय णोल्लिओ ह एत्थ णिवडिओ । ता केण उण एत्थ अहं णोल्लिओ होज्ज । 24
- अहवा किं एत्थ वियप्पिएण । मायाइच्चो चेय एत्थ संगिहिओ, ण य कोइ अण्णो सभावीयइ । ता किं मायाइच्चेण इम 24
- 27 कय होज्जा महासाहसं । अहवा णहि णहि, दुट्टु मे चिंतिय पाव-हियएण । 27
- अवि चलइ मेरु-चूला होज्ज समुह व वारि-परिहीणं । उग्गमइ रवी अवि चास्सीएँ ण य मित्तो एरिसं कुणइ ॥ 27
- ता धिरत्थु मज्झ पाव-हिययस्स, जो तस्स वि सज्जणस्स एयं एरिसं असभावणीय चिंतेमि । ता केण वि रक्खसेण वा भूएण 27
- 30 वा पिसाएण वा देव्णेण वा एत्थ पक्खित्तो होज्जा । एव चिंतियण ठिओ । पयइं चेय इमा सज्जणण । अवि य । 30
- मा जाणण जाणइ सज्जणो त्ति ज खलयणो कुणइ तस्स । णाऊण पुणो मुज्झइ को वा किर एरिसं कुणइ ॥ 30
- अवरद्धं ति वियाणइ जाणइ काउं पडिप्पिय सुयणो । एकं णवरि ण-याणइ दक्खिण्णं कह वि लघेउ ॥ 30
- 33 तओ एयं जाणमाणो वि सो मूढो त चिय सोइउ समाढत्तो । 33

1 > P दसणसुहवो, P परियट्टतो 3 > P सूसमाणा, J तालुअथला P तालुयतले, J खाम for कखाम, P णिकखोयरा 4 > P सिंघ for सिंघ, P om सय 5 > J inter तम्मि and पविट्ठा, P न याणति कत्थ वागया कहिं वा वच्चामो त्ति 6 > P गुरुय, P उत्तुरइय for ओसरइ य 7 > J उअरस्म, P दढवधो, P णिण्हसु for नेण्ह, P कह त्रि णिवटीहइ, P चेव 8 > J गिच्छुअहिअओ, P om त्ति, P जे for ज 9 > P om दे, P चिंतेमि for चिंतिमो 10 > J om सय, P om य, P तिस for दिस, P om one रुइ 12 > P होत्थइय, P ईसि for ईसिं, J तदुट्टिय P तटच्छिय, P पेच्छति 13 > P दिट्ट for णट्ट, P ल्ह 14 > P पलोविय, J सव्व तो P सव्वतो, J ण किचि पेच्छति ताव रज्जु वा अण्ण P न पेच्छति कहिंचि रज्जु अत्र 15 > J दुट्टदुट्ठिणा, P प्प for एम, J एयमि for एय 16 > P om first चेय 17 > P चिंतियेण भणिय, J थाणु, J om इमिणा मायाइच्चेण etc to थोयमन्नि पेच्छइ कूवोदर थाणू, P मित्त 18 > P उज्जओ 20 > P कयणुत्तण 21 > P मा वराओ 22 > P om य 23 > P om पेण 24 > P परिवमओ, P परितवण, J विप्पओओ P विप्पओओ, P एव 25 > P हिययस्स पडिहाइ जहा केणावि, J णोटीओ, P om ए एत्थ to अट्ट णोल्लिओ 26 > J किनेत्थ, J एय (?) for चेय, P ण कोइ उण्णो सभावीयइ 27 > P होज्ज, P om one परि 28 > J om मित्तो 29 > P मम for मज्झ, P वाण for वा 30 > P विविअत्तो for पक्खित्तो, P टिट्ठो, P चेय 31 > J ना जानयान 32 > P पडिप्पिय सुयणो, J णवर 33 > P न चेव य नोअ

- 1 हा कह मित्तो होहिइ वसणावडिओ अरण्ण-मज्झम्मि । पिय-मित्त-विप्पहूणो मओ व्व गिय-जूह-पब्बट्टो ॥
- § १२१) एवं च सो सज्जणो जाव चित्तिउं पयत्तो, ताव णरणाह, इमो वि मायाइच्चो किं काउमाढत्तो । चित्तिं च 3  
३ णेण 'अहो, जं करियच्चं तं कथं । संपयं णीसंको दस वि इमाइं रयणाइं अत्तणो गेण्हिमो, फलं च भुंजिमो' । चित्तयंतस्स 3  
'हण हण हण' त्ति 'गेण्हह गेण्हह' त्ति समुद्दाहओ महंतो कलयलो । पुरओ भय-वेविर-हियएण य से गिरुवियं जाव दिट्ठो  
अणेय-मिल्ल-परिवारो सवररोणो णाम पल्लिवई । तं च दट्ठण पलाइउं पयत्तो । पलायमाणो य धणु-जंत-पमुक्क-सरेहिं  
४ समाहओ णिवडिओ गहिओ । गिरुवियं च दिट्ठं रयण-पोत्तयं, समप्पियं च णेहिं चोर-सेणावइणो । गिरुवियं च णेण जाव 6  
६ पेच्छइ दस रयणाइं महग्घ-मोलाइं । भणियं च णेण 'अरे, महंतं कोसल्लियं अम्हाण इमेणं आणियं, ता मा मारेसु,  
बंधिऊण पक्खिवह एकम्मि कुडंणे । कथं च णेहिं चोर-पुरिसेहिं जहाइट्ठं ।
- § १२२) सो य चोर-सेणावई गियय-पल्लीए ससंमुइं वचंत्तो संपत्तो तमुहेसं । तत्थ भणियं च णेणं 'अरे अरे, तण्हा 9  
९ बाहिउं पयत्ता । ता किं इमम्मि पएसे कहिंचि जलं अत्थि । भणियं च एक्रेण चोरेण । 'देव, एत्थ पएसे अत्थि जुण्णं कूवं,  
ण-याणीयइ तत्थ केरिसं जलं' ति । भणियं च सेणावइणा । 'पयट्ठ, तत्थेव वच्चामो' त्ति भणंता संपत्ता तम्मि पएसे । उव-  
12 विट्ठो य वड-पायवस्स हेट्ठओ सेणावई । भणियं च णेण 'रे, कइह पाणियं, पियामो' । आएसाणंतरं च वित्थिण्ण-सायवत्तेहिं 12  
१२ पलास-दलेहि य सीविओ महंतो पुडओ । दीह-दढ-वल्ली-लयाओ य संधिऊण कया दीहा रजू । पत्थर-सगग्भो ओयारिओ  
पुडओ तम्मि कूवे जाव दिट्ठो याणुणा । भणियं च थाणुणा । 'अहो, केण इमं ओयारियं । अहं एत्थ पक्खित्तो देव्वेणं । ता  
15 ममं पि उत्तारेह' । साहियं च सेणावइणो । 'एत्थ कूवे को वि देसिओ णिवडिओ । सो जंपइ 'ममं समाकइह' ।' सेणाव-15  
इणा भणियं 'अलं अलं ता जलेणं, तं चेय कइह वरायं' । उत्तारिओ य सो तेहिं । दिट्ठो य सेणावइणा । भणिओ य  
'भग हो कत्थ तुमं, कहं वा इहागओ, कहं वा इह णिवडिओ' त्ति । भणियं च णेण । 'देव, पुव्व-देसाओ अम्हे दुवे जणा  
18 दक्खिणावहं गया । तत्थ दोहिं वि पंच पंच रयणाइं विट्ठत्ताइं । अम्हे आगच्छमाणा इमं अडइं संपत्ता, पंथ-पब्बट्टा 18  
१८ तण्हा-छुहा-परिगय-सरीरा इमं देसंतरमागया । तण्हाइएहि य दिट्ठो इमो जुण्ण-कूवो । एत्थ मए गिरिक्खियं के-दूरे जलं  
ति । ताव केण वि पेएण वा पिसाएण वा रक्खसेण वा गिइं णोल्लिओ णिवडिओ जुण्ण-कूवे । संपयं तुम्हेहिं उत्तारिओ'  
21 त्ति । इमं च सोऊण भणियं सेणावइणा । 'तेण दुइएण तुमं पक्खित्तो होहिसि' । भणियं च थाणुणा 'संतं पावं । कहं सो 21  
२१ जीयाओ वि वल्लहस्स मज्झ एरिसं काहिइ' । भणियं च सेणावइणा 'संपयं कत्थ सो वट्ठइ' त्ति । थाणुणा भणियं 'ण-  
याणामो' । तओ हसियं सव्वेहिं चोर-पुरिसेहिं । 'अहो समुज्जुओ मुद्धो वराओ बंभणो, ण-याणइ तस्स दुट्ठस्स दुट्ठ-भावं  
24 वा अप्पणो चित्त-मुद्धत्तणं वियाणंतो । भणियं च सेणावइणा 'सो चेय इमस्स सुमित्तो होहिइ जस्स इमाइं रयणाइं 24  
२४ अम्हेहिं अक्खित्ताइं' । तेहिं भणियं 'सव्वं संभावियइ' त्ति । भणिओ य 'बंभण, केरिसो सो तुह मित्तो' । भणियं च  
थाणुणा । 'देव,  
27 कसिणो पिंगल-णयणो मडहो वच्छ-स्थलम्मि णीरोगो । णिम्मंसुओ य वयणे एरिसओ मज्झ वर-मित्तो ॥' 27  
२७ तओ सव्वे वि हइ त्ति हसिउं पयत्ता चोर-पुरिसा । भणियं च सेणावइणा । 'अहो सुंदरो भट्टो दंसण-सुहओ सव्व-लक्खण-  
संपुण्णो मित्तो तए लद्धो । एरिसो तुब्भेहिं पि मित्तो कायव्वो । सव्वहा बंभण, तेणं विय तुमं पक्खित्तो । ता जाणसि  
30 दिट्ठाइं अप्पणाइं रयणाइं' । तेण भणियं 'देव, जाणामि' । दंसियाइं से सेणावइणा पच्चभिण्णाणियाइं । तेण भणियं 'इमाणि 30  
३० मज्झ संतियाणि । पंच इमाइं तस्स संतियाइं । कत्थ तुम्हेहिं पावियाइं । ण हु मित्तस्स मे णिवाओ कओ होहिइ' । तेहिं  
भणियं । 'तस्स इमाइं अम्हेहिं अक्खित्ताइं । सो य बंधेऊण कुडंणे पक्खित्तो । ता गेण्हसु इमाइं अप्पणाइं पंच । जाइं  
33 पुण तस्स दुरायारस्स संतियाइं ताइं ण समप्पिमो' त्ति भणमाणेण पंच समप्पियाइं । भणिओ य 'वच्च इमाए वत्तिणीए ॥ 33  
३३

1 > P होही, J गिअजूह P नियजूय 2 > P om जाव, P ता for ताव, P om वि 4 > J भणति for हणत्ति, P गेण्ह  
गेण्ह, P समुद्दाहओ 5 > P परियरो सवरो नाम, J om. य, J धणुज्जत्त 6 > P निवडिउ, J om च 7 > P अम्ह इमेण 8 > P  
बंधेऊण पक्खिवह 9 > P पल्लिए, P om च, P अरे रे 10 > P ता किमिभ पि पएसे किपि चि वि जल, P मएणियं for भणिय,  
P om. अत्थि, J जुण्णकूवं P जुव कूव न याणिमो य तत्थ 12 > P कइह for कइइ 13 > J om महतो, P om य, P  
पत्थरस्स, J उआयारिओ 14 > P फुडओ फुओ तंमि, P दिट्ठा धु थाणुणा । अहो केण, J केण मओसारियं, P दव्वेण 15 > P  
om पि, P इमं for ममं 16 > P om one अल, P ताव for ता, P चेव, P भणिहो 17 > P वा गइहागओ, P गओ for  
णिवडिओ, J जाणा for जणा 18 > P मि for वि, P सपत्तो, J पथमट्टा 19 > P तण्हाएहिं, P om य, P inter गिरिक्खिय  
and के-दूरे जल 20 > P om. ति, J तुव्वे for तुम्हेहिं 21 > J च after भणियं (first), J एत्थ for तुम, J होहिति  
22 > P जीयवल्लहस्स, J om एरिस 23 > P अहो अहो उब्भुओ वराहो मुद्धो वसगो, P om दुट्ठस्स, J om. दुट्ठभाव 24 >  
P सेणावइणो, P होही, P वयणाइ for रयणाइं 25 > P संभाविय त्ति, J om त्ति, P om य, J केविसो, P तुह सुमित्तो 27 >  
J पिडुल for पिंगल, J गिल्लिमो for णीरोगो, P सो for वर 28 > P जओ for तओ, J वि हइ त्थि हत्ति P विय हट्ठत्ति  
P भट्टा, J दंसइमुहयय भदल्लवग (letters not clearly readable) 29 > J तुम्हेहिं for तुब्भेहिं, P लेण for तेण  
30 > J णेण इमाइं मज्झ संताइ । पच, P om भणियं 31 > J संताइ for संतियाइं, P कत्थ तुमे पावियाणि, J मित्तम्मस्स से  
णिवाओ, J होहिउइ (?) 32 > J om अम्हेहिं, J वि for य, P inter. पक्खित्तो and कुडंणे, P गेन्हरु 33 > P om.  
ताइ ण, J om. पच, P om वच्च, P वत्तणीए



- 1 एकं पुण भणिमो । 1  
 जारिसयो सो मित्तो अण्णो वि हु तारिसो जड हवेज्ज । उग्ग-विस्स व भुयगं दूर दूरेण परिहरसु ॥’
- 3 त्ति भणिज्जण विसज्जिओ । 3  
 § १२३) सो वि थाणू कुडंगे कुडंगेण तं अण्णिसमाणो परिभमह । ताव दिट्ठो गेण एक्कम्मि कुडंगे । केरिसो ।  
 वड-वल्ली-सदाणिय-वाहु-जुओ जमिय-चलण-जुवल्लिओ । पोट्टलओ व्व णिवद्धो अहोमुहो तम्मि पक्खित्तो ॥
- 6 तं च वट्ठण हा-हा-रव-नाट्ठिभणं ‘मित्त, का इमा तुह अवत्थ’ त्ति भगमाणेण सिट्ठिलियाह वधणाह, संवाहियं अंग, वट्ठाहं च 6  
 वण-मुहोहं कंथा-कप्पडेहिं, साहियं च णिय-वुत्तंतं । ‘पच्च मए रयणाह पावियाहं । तत्थ मित्त, अट्ठाइजाह तुज्झ अट्ठाइजाहं  
 मज्झ । तह वि पज्जत्तं, ण काह अट्ठिहं कायव्व’ त्ति भगमाणेण ताव णीओ जाव अट्ठं-पेरत-संठिय गाम । तत्थ ताव  
 9 पडियरिओ जाव रुडव्वणो । तम्मि य काले चित्थियं गेण मायाहच्चेण । ‘अहो, 9  
 हिम-सीय-वंद-विमलो पए पए खंडिओ तथा सुयणो । कोमल-मुणाल-सरिसो सिणेह-तत्तू ण उक्खुडइ ॥  
 ता एरिमस्स वि सज्जणस्स मए एरिसं ववसियं । धिरत्थु मम जीवियस्स । अवि य ।
- 12 पिय-मित्त-वचना-जाय-दोस-परियलिय-धम्म-सारस्स । किं मज्झ जीविएणं माया-णियडी-विमूढस्स ॥ 12  
 ता संपयं किमेत्थ करणीयं । अहवा दे जलणं पविसामि’ त्ति चित्तयतेण मेलिया सव्वे गाम-महयरा । कोउय-रस-नाट्ठिभणो  
 य मिलिओ सयलो गाम-जणो । तत्थ मूलियं वुत्तंतं सव्वं जहा-वत्तं साहिय सयल-गाम-जणस्स, जहा णिग्गया घराओ, जहा  
 15 विट्ठाहं रयणाहं, जहा पढमं वंचिओ थाणू, जहा य कूरे पक्खित्तो, जहा चोरेहिं गहिओ, जहा पण्णविओ थाणुणा । 15  
 § १२४) तओ एव साहिज्जण भणियं मायाहच्चेण । ‘अहो गाम-महत्तरा, महापाव मए कथ मित्त-दोज्ज णाम । ता  
 अहं जलिय हुयासणं पविसामि । देह, मज्झ पसियह, कट्ठाह जलणं च’ त्ति । तओ भणिय एक्केण गाम-महत्तरेण ।
- 18 ‘एहु एहउ दुम्मणस्सहु । सव्वु एउ आयरिउ, तुज्झ ण उ वंकु चलितउं । प्रारद्धउं एवु प्रइ सुगति । प्रोतु वर भ्राति संप्रतु ॥’ 18  
 तओ अण्णेण भणियं ।  
 ‘ज जि विरइहु धण-लवासाए । सुह-लंपडेण तुवभंइ । दुत्थट्ठ-मण-मोह-लुद्धउं । तु संप्रति व्रोळितउं । एतु एतु प्रारद्धु भल्लउं ॥’
- 21 तओ अण्णेण भणिय चिर-जरा-जुण्ण-देहेण । 21  
 ‘एत्थ सुज्झति किर सुवणं पि । वइसाणर-मुह-गतउं । कउ प्रावु मित्तस्स वंचण । कावालिय-व्रत-धरणे । एउ एउ  
 सुज्झेज्ज णहि ॥’
- 24 तओ सयल-द्रग-सामिणा भणियइ जेट्ठ-महामयहरेण । 24  
 ‘धवल-वाहण-ववल-देहस्स सिरे अमिति जा विमल-जल । धवलजल सा भडारी । यति गंग प्रावेसि तुहु । मित्र-टोज्झु तो  
 गाम सुज्झति ॥’
- 27 एवं भणिए सव्वेहिं चेष भणिय । ‘अहो, सुदर सुदर संलत्त । ता मुच जलण-पवेस-णिच्छय । वच्चसु गरं । तत्थ पहायतो 27  
 अणसणेणं मरिहिसि, तथा सुज्झिहिसि तुह पाव’ ति । विसज्जिओ गाम-महयरेहिं । सिणेह-रुयमाणेण य थाणुणा  
 अणुणिज्जमाणो वि पत्थिओ सो । अणुदियह-पयाणेण य इहागओ, उवविट्ठो’ त्ति । एव च साहियं णिसामिज्जण  
 30 णिवडिओ चलण-जुयलए भगवओ धम्मणटणस्स । भणियं च गेणं मायाहच्चेण । 30  
 ‘माया-मोहिय-हियएण णाह सव्व मए इमं रइअं । मोत्तूण तुम अण्णो को वा एय वियाणेज्ज ॥ ता सव्वहा  
 माया-मय-रिउ-सूयण-सूरण-गुरु-तिक्ख-कोव-कुत्तस्स । सव्व-जिय-भाव-जाणय सरणामिण ते पवणो सि ॥
- 33 ता दे कुणसु पसायं इमस्स पावस्स टेसु पच्छित्तं । अण्णह ण धारिमो च्चिय अप्पाणं पाव-कम्मं वा ॥’ 33

1 > P नगानो 4 > P om कुडंगे, P जाव for ताव 5 > J वलि, P वाट, J मंजमिय for जमिय 7 > J जिअत्र for गिय,  
 P तुह for तुज्झ 8 > P मग्ग for मज्झ, P तुह for तह, J काई, P अट्ठिद्वितीया for अट्ठिहं, J आणियो for णीओ, P अट  
 for अट्ठं 9 > P पडियरिओ, J कालेण for काले 11 > P वि मए जग्गन्म परिस विच्छये, J om मए 12 > J पाव for दोस  
 13 > J पविसानो, P चित्थियतेण 14 > P मव्वहा for मव्व, J जहावित्त, P जहा पविट्ठताए 15 > P चोरेहिं for चोरेहिं  
 16 > P नयहरा for महत्तरा 17 > P कयाह for कट्ठाह 18 > J दुम्मणस्साहु (?), P एउ एहउ तौउ मणुस्साह मव्वु एउ  
 आयरिउ तुज्झा न उ वंकु वल्लियउ, J सव्व जे पुजाअरिहु (letters rubbed) तुज्झाणउ वरु चलितउ, J पारद्धउ, P प्रारद्धओ एउ  
 J प्रउ त्ताए प्रोतु वरप्रा (जा ?) ति संप्रतु, P प्रातु वर, P संप्रतु । 20 > J थु ले for ज जि, P विरइओ for विरइहु, J धणय  
 नावन्त्तप्पडेए, P om तुवभंइ, P हु तुट्ठनागनो णियु मणुस्सेय र्द्धउ, P व्रोडियउ एउ एउ पारद्धु 21 > P वुज्ज 22 > P मुज्झह,  
 J सुवण व वम्मं, P वव्व, P न-मुहायउ । रेयु प्राउ, J पाउ for प्राउ, J ज्ञानाथियव्रतधरणे एतु पाउ दुज्जे पण्णाशिय, P व्रयग्गणे,  
 P सुज्झेज्ज णहि 24 > P भणिय for भणित्त, P om जेट्ठमहामयहरेण(नेत्तो ?) 25 > P देवम्म for देहम्म, P अमती  
 धवलज्जव्वं, J विनलज्जव्ववुज्जं ना, P वदे गाा, P तु हु मियुट्ठोत्त नो नाम मुज्झट । एव च भणिए 27 > P om one नुदं,  
 J एरेन वि, P निच्छय, P तो पचो for पयायनो 28 > P तदा सुज्झिहिसि तुह, J om ति 29 > P अणुमणियज्जमाणो, P प्पसो  
 for सो, P व before त्ति, J एय व 30 > P वत्तज्जट्ठ 31 > J inter दम and मए, J om ना मव्वं 32 > P  
 नूपा for नूपा, P पनतो 33 > P व्वन्नु तु ।

- 1 § १२५) इमं च णिसामिऊण गुरुणा धम्मणंदणेण भणियं ।  
 'जे पियथम-गुरु-विरह-जलण-पज्जलिय-ताव-तवियंग्गा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिंदाणं ॥  
 8 जे दूसह-गुरु-दारिद-विहुया दलिय-सेस-धण-विहवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिंदाणं ॥  
 दोगच्च-पंक-संका-कलंक-मल-कलुस-दूमियप्पाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिंदाणं ॥  
 सव्व-जण-णिंदियाणं वंधु-जणोहसण-दुक्ख-तवियाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिंदाणं ॥  
 6 जे जम्म-जरा-मरणोह-दुक्ख-सय-भीसणे जए जीवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिंदाणं ॥  
 जे डहणंकण-ताडण-वाहण-गुरु-दुक्ख-सायरोगाढा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिंदाणं ॥  
 संसारम्मि असारे दुह-सय-संवाह-वाहिया जे य । मोत्तुं ताणं ताणं कत्तो वयणं जिणिंदाणं ॥  
 9 तभो एवं सव्व-जण-जीव-संघायस्स सव्व-दुक्ख-दुक्खियस्स तेलोक्केकल-पायवाणं पिव जिणाणं आणं पमोत्तूण ण अण्णं सरणं 9  
 तेलोक्के वि अत्थि त्ति । इमं च वयणं आराहिऊण पुणो

जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहियो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं अहरा मोक्खं पि पाविहिसि ॥'  
 12 एवं च भणियं णिसामिऊण भणियं कयंजलिउडेणं मायाइच्चेणं । 'भगवं जइ एवं, ता देसु मे जिणिंद-वयणं, जइ अरिहो मि' । 12  
 भगवया वि धम्मणंदणेण पलोइऊण णाणाइसएणं उवसंत-कसाओ त्ति पव्वाविओ जहा विहाणेणं गंगाइच्चो त्ति ॥ ॐ ॥

- § १२६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण ।  
 15 'लोहो करेइ भेयं लोहो पिय-मित्त-णासणो भणियो । लोहो कज्ज-विणासो लोहो सव्वं विणासेइ ॥ 15  
 अवि य लोह-महा-नाह-गहियो पुरिसो अंधो विय ण पेच्छइ समं व विसमं वा, बहिरो विय ण सुणेइ हियं अणहियं वा,  
 उम्मत्तो विय असंबद्धं पलवइ, बालो इव अण्णं पुच्छिओ अण्णं साहेइ, सल्लहो विय जलंतं पि जलणं पविसइ, झसो विय  
 18 जलणिहिम्मि वियरइ त्ति । 18

इय असमंजस-घडणा-सज्जण-परिहार-पयड-दोसस्स । लोहस्स तेण सुणिणो थेवं पि ण देत्ति अवयासं ॥  
 लोह-परायत्त-मणो दव्वं णासेइ धायए मित्तं । णिवडइ य दुक्ख-गहणे पत्थिव एसो जहा पुरिसो ॥'  
 21 भणियं च राहणा पुरंदरदत्तेण । 'भगवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेणं कयं' 21  
 त्ति । भणियं च भगवया ।

- "जो तुज्ज पट्टि-भाए वामे जो वासवस्स उवविट्ठो । मंस-विवज्जिय-देहो उच्चो सुक्को व ताल-दुमो ॥  
 24 अट्टि-मय-पंजरो इव उवरिं तणु-भेत्त-चम्म-पट्टिबद्धो । दीसंत-पंसुलीओ तणु-दीहर-चवल-नीवालो ॥ 24  
 खल्लइय-चम्म-वयणो मरु-कूव-सरिच्छ-गहिर-णयण-जुओ । अच्छइ वेयालो इव कम-सज्जो मंस-खंडस्स ॥  
 लोहो व्व सरुवेणं णरवर पत्तो इमो इहं होजा । एएण लोह-मूढेण जं कयं तं णिसामेइ ॥

27 § १२७) अत्थि इमम्मि चेष लोए जंबूदीवे भारहे वासे वेयइ-दाहिण-मज्झिम-खंडे उत्तरावहं णाम पहं । तत्थ तक्ख- 27  
 सिला णाम णयरी ।

- जा पढम-पया-पत्थिव-पुत्त-पयावुच्छलंत-जस-भारं । धवलहर-सिहर-संपिंडियं व एयं समुव्वइइ ॥  
 30 जहिं च णयरिहिं एक्कु वि ण दीसइ मइल्ल कुवेसो व । एक्कु वि दीसइ सुंदर-वत्थ-णियत्थो व । वेणिण ण अत्थि, जो कायरो 30  
 तण्हाभिभूओ व । दोणिण वि अत्थि, सूरउ देयणओ व । तिणिण णेव लवमंति, खलो मुक्खु ईसालुओ वि । तिणिण  
 चोवलमंति, सज्जणु वियट्ठो वीसत्थो व त्ति । जहिं च णयरिहिं फरिहा-बंधो सज्जण-दुज्जणहं अणुहरइ, गंभीरत्तणेण  
 33 अणवयारत्तणेण व । सज्जण-दुज्जण-समो वि पायारु अञ्जुणउ वंक्क-वलिय-नासणो व । जहिं च वसिसु दीव-समुइ-जइसओ, 33  
 असंखेजो पवइमाण-वित्थरो व त्ति । अवि य ।

कह सा ण वण्णणिज्जा वित्थिण्णा कणय-घडिय-पायारा । पढम-जिण-समवसरणेण सोहिया धम्म-चकंका ॥

1 > P inter भणियं and गुरुणा धम्मणंदणेण 3 > P repeats गुरु 5 > J वधुजणसयणदुक्ख 6 > P मरणेण नाह दुक्ख-  
 J P भीसणो, P om. जए 7 > Pदहणंकण, J वयण for आण 8 > J बोहिया 9 > P तिलोक्केकपाय. 10 > P वि य नत्थि त्ति ।,  
 P om. वयण 11 > P सासय 12 > P adds इच्चेण after जइ, P त्ति for मि 13 > P adds जहाविओ after पव्वाविओ.  
 16 > P लोभगहियो य पुरिसो 17 > P उम्मत्तओ, P साहइ सल्लो, P पिव for पि, P ऊसो for झसो 19 > P थोवं, P उवयाणं  
 for अवयासं 20 > P om य, P दुक्खगहण 22 > P om ति 23 > P वामो, P विसज्जियदेहो वच्चो सुक्को व्व तालदुमो 24 > P  
 धवल for चवल 25 > P चम्ममणो, P मास for मस 26 > P एतेण 27 > P जंबूदीवे, P मज्झिमे खंडे उत्तरा नाम 29 > P  
 जो for जा, P सर्पिण्डियव्वे तेरिय ससुं 30 > P एक्कु न दीसइ एक्कु दीसइ मयल्लकुवेसो सुंदर, J एको वि दीसइ सुंदर, P व्व for व  
 31 > J तण्हाभिभूओ P तण्हाविभूओ, P सूरु देउणउ वि, P नोवलमंति, P मुक्खो ईसालुओ व त्ति 32 > P चोवलमंति सज्जणो  
 वियट्ठो वीसत्थो, J वि for च, P फरिह-; J वद्धो 33 > P अणोवयारं, P om व, P पायारो अञ्जुणओ, P त्ति for च, P  
 जयसओ 34 > P परिवट्ठमाण, J वित्थारो 35 > P सो for सा, P समवसरणेव

1 तीण् य णयरीण् पच्छिम-दक्खिणे दिसा-भाण् उच्चत्यलं णाम गाम, सग्ग-णयर पिव सुर-भवणेहिं, पायालं पिव विविह-रयणेहिं, 1  
 गोट्टगणं पिव गो-संपयाण्, धणय-पुरी विय धग-संपयाण् ति । तम्मि गामे सुह-जाइओ धणडेवो णाम सत्यवाहउत्तो । तत्थ 1  
 3 तस्स सरिस-सत्यवाहउत्तेहिं सह कीलंतस्स वच्चण् कालो । सो पुण लोह-परो अत्य-गहण-तल्लिच्छो मायावी वंचओ अलिय- 3  
 वयणो पर-उच्चावहारी । तओ तस्स एरिसस्स तेहिं सरिस-सत्यवाह-जुवाणण्हिं धणडेवो ति अवहरिउ लोहडेवो ति से 3  
 पइट्ठिय णाम । तओ कय-लोहडेवामिहाणो डियडेसु वंचनेसु महाजुवा जोगो म्बुत्तो । तओ उट्टाडओ इमस्स लोभो वाहिउं 3  
 6 पयत्तो, तम्हा भणिओ य णेण जणओ । 'ताय, अह तुरगमे घेत्तूण दक्खिणावह वच्चामि । तत्थ बहुयं अत्य विडवेमो, जेण 6  
 सुहं उवमुजामो' ति । भणिय च से जणण्ण । 'पुत्त, केत्तिण्ण ते अत्येण । अत्यि तुह मह पि पुत्त-पयोत्ताणं पि विउलो 6  
 अत्य-सारो । ता देसु किवणाणं, विभयसु वणीमयाणं, दक्खेसु वभगे, कारायेसु देवउले, खाणेषु तलाय-वंधे, वधावेसु 6  
 8 वावीओ, पालेसु सत्तायारे, पयत्तेसु आरोग-सालाओ, उट्टरेसु दीण-विहले ति । ता पुत्त, अल देमतर-गण्णि' । भणिय 8  
 च लोहडेवण । 'ताय, ज एत्थ चिट्ठइ तं साहीण चिय, अण्णं अपुव्व अत्य आहरामि वाहु-वलेण' ति । तओ तेण चित्तिंयं 8  
 सत्यवाहेण । 'सुदरो चेय एस उच्छाहो । कायव्वमिण, जुत्तमिणं, सरिसमिण, वम्मो चेय अम्हाण, ज अउव्वं अत्यागमणं 8  
 12 कीरइ ति । ता ण कायव्वो सण्ण इच्छा-भगो, ता दे वच्चउ' ति चित्तिउ तेण भणिओ । 'पुत्त, जइ ण-ट्ठायमि, तओ वच्च' । 12

§ १२८) एव भणिओ पयत्तो । सज्जीकया तुरगमा, सज्जियाइ जाण-वाहणाइ, गहियाइ पच्छयणाइ, चित्तविया 15  
 आडियत्तिया, संठविओ कम्मयर-जणो, आउच्छिओ गुरुयणो, वट्टिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चलियाओ वलत्थाउ । 15  
 15 तओ भणिओ सो पिउणा । 'पुत्त, दूर देसंतरं, विसमा पया, णिट्टुरो लोओ, बहुण्ण दुज्जणा, विरला सज्जणा, हुप्परियल्लं भंडं, 15  
 दुद्धर जोच्चण, दुल्लिओ तुम, विसमा कज्ज-नाइ, अणत्थ-रुइ कयतो, अणवरइ-कुट्टा चोर ति । ता सव्वहा कहिंचि 15  
 पडिण्णं, कहिंचि मुखेण, कहिंचि दक्खिणेण, कहिंचि णिट्टुरेण, कहिंचि दयलुणा, कहिंचि णिक्खिणेण, कहिंचि सुरेण, कहिंचि 15  
 18 कायरंण, कहिंचि चाडणा, कहिंचि किमणेण, कहिंचि माणिणा, कहिंचि दीणेण, कहिंचि वियट्टेण, कहिंचि जडेण, सव्वहा 18  
 णिट्टुर-डड-सिराहय-भुयग-कुडिलग-वंक-हियण्ण । भवियव्व सज्जण-दुज्जणाण चरिण्ण पुत्त सम ॥'

एव च भणिण्ण णियत्तो सो जणओ । इमो वि लोहडेवो सपत्तो दक्खिणावह केण वि कालतरेण । समावामिओ सोप्पारण्ण 21  
 21 णयरे भइग्गट्टी णाम जुण्ण-सेट्टी तस्स गेहम्मि । तओ केण वि कालतरेण महग्ग-मोह्ठा डिण्णा ते तुरगमा । विडत्त महंतं 21  
 अत्य-सत्तय । त च घेत्तूण मडेस-हुत्त गतुमणो सो सत्यवाह-पुत्तो ति । तत्थ थ गोप्पारण्ण पुरवगे इमो समायारो देसिय- 21  
 वाणिय-मेलीण्ण । 'जो कोइ देसतरागओ वत्थव्वो वा जम्मि दिसा-डेसे वा गओ ज वा भंड गहिय ज वा आणिय ज वा 21  
 24 विडत्त तत्थ त देसिय-वणिण्णहिं गत्तूणं सव्व साहेयव्व, गध-तवोल-मल्ल च घेत्तव्व, तओ गतव्व' ति । एमो पाणपर-पुराण- 24  
 24 पुरिसत्थिओ ति । पुणो जइया गतुमणो तइया सो तंणय भइसेट्टिणा सह तत्थ देमिय-मेलीण्ण गओ ति । देमिय-वाणिय- 24  
 मेलिण्ण गत्तूण उवविट्टो । डिण्ण च गध-मल्ल तंवोलाइय ।

§ १२९) तओ पयत्तो परोप्पर समुल्लावो देसिय-वणियाण । भणिय च णेहि । 'भो भो वणिया, कत्थ दीपे देसे वा 27  
 27 को गओ, केण वा किं भड आणिय, किं वा विडत्त, किं वा पच्चाणिय' ति । तओ पुक्केण भणिय । 'अह गओ कोसलं तुरगमे 27  
 घेत्तूणं । कोसल-रुण्णा मह डिण्णाइ महत्ताइ भाइल-तुरगेहिं मम गय-पोययाइ । तओ तुम्ह पभाण्ण ममागओ लद्ध-लाहो' 27  
 30 ति । अण्णेण भणिय । 'अह गओ उत्तरावह पूय-फलाइय भड घेत्तूण । तत्थ लद्ध-लाओ तुरगमे घेत्तूण आगओ' ति । 30  
 30 अण्णेण भणिय । 'अहं सुत्ताहले घेत्तूण पुव्व-डेस गओ, तओ चमरे आणिओ' ति । अण्णेण भणिय । 'अह वारवडे गओ, 30  
 तत्थ सखय समाणिय' ति । अण्णेण भणिय । 'अह वट्टरउल गओ, तत्थ चेलिय घेत्तूण, गय-दनाइ मोत्तियाइं च घेत्तु 30

1 > J तीय च, P om य, J णयरीय 2 > P om धणयपुगी विय धणसंपयाण, P तम्मि य गामे सुहनाइओ 3 > P वच्चट, J नो उण, P अत्यगहण 4 > P ति मे अव', P लोमडे' 5 > J 'द्वारिहाणो, J जोगो, P उदाट्य 6 > P om य, P तुरो घेत्तूण, P भूय for बहुण, P विडवेमा 7 > P उवमुजामि, P केत्तिण्ण ते, P पयोत्ताण विउणे 8 > P किमणाण, P विभववुवणियमयाणा, P वनणाग कारा', J कगवेउ 9 > P आरोगमालामागओ 10 > J om च, P लोमदेवण, P न पय न साही चिट्ठइ चिय, J आगहामि, P om ति 11 > J एनो, J om जुत्तमिण, P म्हाण अज अउव्वअत्या' 12 > P न इ for तादे, J चित्तयवेण, P पुत्ति for पुत्त 13 > P चिनविना 14 > P कमायनगो 15 > J भणिअ से, P डिउणो, P दूरे, P निट्टुरो 16 > P आणुरूवी कयतो 17 > P दक्खिणेण कटि चिय वियणेण कहिंचि, P निक्खोवे 18 > P किविणेण, P om कहिंचि नाणिणा, P विडवे 19 > P उट्टमिणापुव्वगकुडिलवक, P दुत्तार्वाण्ण, P मम्म । पय 20 > P मे नणउ । P लोमडेवो, P मेनानामिये 21 > P डिता for डिण्णा वे 22 > P घेत्तूण देमहुत्त, J उत्तो, P om ति 23 > P कोइ देसिओ दम', P om वा, J जम्मि दिसा देसा वागओ P जमि वा जमि दिसादेसे वा ज गओ 24 > P inter साहंनव्व & मव्व, P वपोउ, P वेत्तूण तओ, J तनो for तओ, J प्पसा for एमो 25 > P पुग्गिय इत्ति, P त्ता य भमेट्टिणा, P देमिनेण, J देमियडेउण गत्तू 26 > P उवविट्टो ति, J om च 27 > P om भणिय, P भो भो देमियवणिया 28 > P inter म्ठ & किं, P तुरगे घेत्तू 29 > P om म्ठ, J om म्ठवा, J म्ठवुरादेहिं, P म्ठ ववोत्तवा, P पुग्ग 30 > P पूव्वना, P म्ठ, J वेत्तू, P म्ठवाओ 30 > P ने 31 > P । ना सुत्तवे, J तत्थ for तओ, J आणिय चि, P वात्त 32 > P inter वट्टरउल & अट, P वव before म्ठवा, P म्ठवा नोत्ति', P वेत्तू for वेत्तू

- 1 समागओ' त्ति । अण्णेण भणियं । 'अहं सुवण्णदीवं गओ पलास-कुसुमाहं घेत्तूणं, तत्थ सुवण्णं घेत्तूण समागओ' त्ति । 1  
अण्णेण भणियं । 'अहं चीण-महाचीणेसु गओ महिस-गवले घेत्तूण, तत्थ गंगावडिओ गेत्त-पट्टाहयं घेत्तूण लद्ध-लामो गियत्तो'  
3 त्ति । अण्णेण भणियं । 'अहं गओ महिला-रज्जं पुरिसे घेत्तूण, तत्थ सुवण्ण-समतुलं दाऊण आगओ' त्ति । अण्णेण भणियं । 3  
'अहं गओ रयणदीवं णिंब-पत्ताहं घेत्तूण, तत्थ रयणाहं लद्धाहं, ताहं घेत्तूण समागओ' त्ति । एवं च णिसामिऊण सव्वेहिं  
चेय भणियं । 'अहो, सुंदरो संववहारो, णिंब-पत्तेहिं रयणाहं लव्वंति, किमण्णेण वणिजेण कीरइ' त्ति । तेण भणियं ।  
6 'सुंदरो जस्स जीयं ण वल्लहं' ति । तेहिं भणियं 'किं कज्जं' । भणियं च णेण । 'एवं तुव्वेहिं भणियं 'किं कज्जं' ति । जेण 6  
दुत्तारो जलही, दूरे रयणदीवं, चंडो मारुओ, चवला वीइओ, चंचला तरंगा, परिहत्था मच्छा, महंता मयरा, महग्गहा  
गाहा, दीहा तंतुणो, गिल्लणो तिर्मिगिल्ली, रोहा रक्खसा, उद्धाविरा वेयाला, दुल्लक्खा महिहरा, कुसला चोरा, भीमं  
9 महासमुद्धं, दुल्लहो मग्गो, सव्वहा दुग्गमं रयणदीवं ति, तेण भणिमो सुंदरं वणिज्जं जस्स जीवियं ण वल्लहं' ति । तओ 9  
सव्वेहि वि भणियं । 'अहो दुग्गमं रयणदीवं । तथा दुक्खेण विणा सुहं णत्थि' त्ति भणमाणा समुट्ठिया वणिया ।

§ १३०) इमं च तस्स हियए पइट्ठियं लोहदेवस्स । आगओ गेहं, कयं भोयणाइ-आवस्सयं । तओ जहा-सुहं  
12 उवविट्ठाणं भणियं लोभदेवेण । 'वयंस भइसेट्ठि, महंतो एस लामो जं णिंब-पत्तेहिं रयणाहं पाविज्जंति । ता किं ण तत्थ 12  
रयणदीवे गंतुमुज्जमो कीरइ' त्ति । भइेण भणियं । 'वयंस,

जेत्तिय-मेत्तो कीरइ मणोरहो णवर अत्थ-कामेसु । तत्तिय-मेत्तो पसरइ ओहट्टइ संघरिजंतो ॥

15 ता विहत्तं तए महंतं अत्थ-संचयं, घेत्तूण सएसं वच्च । किं च, 15

मुंजसु देसु जहिच्छं सुयणे माणेसु बंधवे कुणसु । उद्धरसु दीण-विहलं दव्वेण इमं वरं कज्जं ॥

ता पहुत्तं तुह इमिणा अत्थेणं' ति । इमं च सोऊण भणियं इमिणा लोहदेवेणं । 'अवि य,

18 जइ होइ णिरारंभो वयंस लच्छीएँ मुच्चइ हरी वि । फुरिओ च्चिय आरंभो लच्छीय य पेसिया दिट्ठी ॥ 18

आलिंणियं पि मुंचइ लच्छी पुरिसं ति साहस-विहूणं । गोत्त-क्खलण-विलक्खा पिय व्व दइया ण संदेहो ॥

21 जो विसमम्मि वि कजे कज्जारंभं ण मुंचए धीरो । अहिसारिय व्व लच्छी णिवडइ वच्छत्थले तस्स ॥ 21

जो णय-विक्रम-बद्धं लच्छिं काऊण कज्जमारुहइ । तं चिय पुणो पडिच्छइ पउत्थवइय व्व सा लच्छी ॥

24 इय आरंभ-विहूणं पुरिसं णाऊण पुरिस-लच्छीए । उज्जिज्जइ णीसकं दूहव-पुरिसो व्व महिलाहिं ॥ 24

तओ वयंस, भणिमो 'पुरिसेण सव्वहा कज्ज-करणेक-वावड-हियएण होइयव्वं, जेण सिरी ण मुंचइ । ता सव्वहा पयट्ट, रयण-

दीवं वच्चामो' त्ति । भइसेट्ठिणा भणियं 'वयंस,

27 'जइ पायाले वसिमो महासमुद्धं च लंघिमो जइ वि । मेरुम्मि आरुहामो तह वि कयंतो पुलोएइ ॥ 27

ता सव्वहा गच्छ तुमं । सिज्जउ जत्ता । अहं पुण ण वच्चामि' त्ति । तेण भणियं 'कीस तुमं ण वच्चसि' । भइसेट्ठिणा  
भणियं । 'सत्त-हुत्तं जाणवत्तेण समुद्धे पविट्ठो । सत्त-हुत्तं पि मह जाणवत्तं दलियं । ता णाहं भागी अत्थस्स । तेण भणिमो

30 ण वच्चिमो समुद्धं' ति । लोहदेवेण भणियं । 30

'जइ घडियं विहडिज्जइ घडियं घडियं पुणो वि विहडेइ । ता घडण-विहडणाहिं होहिइ विहडप्फडो देव्वो ॥

तेण वयंस, पुणो वि करियव्वो आयरो, गंतव्वं ते दीवे' ति । तेण भणियं । 'जइ एवं ता एकं भणिमो, तुमं एत्थ जाणवत्ते

33 अंडवइ, अहं पुण मंदभागो त्ति काऊण ण भवामि' त्ति । इमेण य 'एवं' ति पडिवण्णं । 33

2 > P तत्थ संगवडिओ गेत्तपट्टाइ 3 > P inter गओ and अह, P पुरिसं, P सुवन्नसमतल, J समतुल दाऊणागओ.

4 > P om. गओ, P adds गओ after घेत्तूण, J एय for एव 5 > J किमण्णेहिं कीरइ 6 > J om जेण 7 > P दुत्तरो,

J रयणदीव, P चवलाओ वीइएओ, P परियच्छमच्छा 8 > P गिल्लिणो, P उद्धाविरा 9 > P दुग्गमरयणं 10 > P तथा दुक्खेहिं

विणा, J om. वणिया 11 > P लोभदेवस्स, J आगया गेह 12 > J लोहदेवेण, P पावीयति, J किण्ण P किन्न 13 > J रयणदीव,

P गंतुमुज्जमं, J om त्ति 14 > J जत्तिय, P सचरिज्जतो 15 > P गच्छ for वच्च 16 > P नवर for वर 17 > P ता

पुहत्त P लोहदेवेण, P om अवि य 18 > P आरभो रभो लच्छीअ य 19 > P 'य विसुच्चइ, P विहीण । गोत्तक्खलण,

J विलक्खो 20 > P दाउं for णाउ, J चालिआ णववहु P बालिया व नववहु, P पिय व वज्जाक्खित्त 21 > J विसम मि, P

निववडइ 22 > J लच्छी, P पयच्छइ, P सो for सा 24 > P -विहीण, J -लच्छीअ 25 > J -कारणेक, P सिरीण न 27 >

P आहरुहामो, P पलोएइ 28 > P पुण न वच्चामो 29 > P inter पविट्ठो & समुद्ध (for समुद्धे पविट्ठो), P सत्तउत्त पि दलियं

जाणवत्त मह । 30 > P om. ण वच्चिमो, P समुद्धि । लोभदेवेण 31 > P होहीति हडप्फडो दिव्वो । 32 > P करेयव्वो

आयारो, J adds तं after गंतव्व.

1 § १३१) तत्रो रयणदीव-कय-माणसेहिं सज्जियाइं जाणवत्ताइ । किं च करिउ समाढत्त । घेप्पनि भडाइ, उवयरिज्जति 1  
 णिज्जामया, गणिज्जए दियहं, ठावियं लगं, णिरुविज्जंति णिमित्ताइं, कीरति अवसुइंओ, सुमरिज्जति इट्ट-देवए, 3  
 3 भुंजाविज्जति वंभणे, पूइज्जति विसिद्धयणे, अच्चिज्जति देवए, सज्जिज्जति सेयवडे, उट्ठिभज्जति कूवा-खभए, सगहिज्जति 3  
 सयणे, वट्ठिज्जति कट्ट-सचए, भरिज्जति जल-भायणे त्ति । एवं कुणमाणाण समागओ सो दियहो । तम्मि य दियहे 3  
 कय-मज्जणा सुमण-विलेवण-वत्यालकारिया दुवे वि जणा सपरियणा जाणवत्त समारूढा । चालिय च जाणवत्त । तत्रो 6  
 6 पहयाइ त्तराइं, पवाडियाइ संखाइ, पगीयाइं मंगलाइं, पढति वभण-कुलाइ आसीमा, सुमुहो गुरुयणो, दीण-विमणो 6  
 दइयायणो, हरिस-विसण्णो मित्तयणो, मणोरह-सुमुहो सज्जण-जणो त्ति । तत्रो एव च भगल-थुइ-सय-जय-जया-सह-गह्व-भ- 6  
 पूरत-दिसिवह पयट्टं जाणवत्त । तत्रो पूरिओ सेयवडो, उक्खिप्पत्ताइं लवणाइ, चालियाइ आवेल्लयाइ, णिरुवियं कण्णहारेण, 6  
 9 लग्गा जाणवत्त वत्तणीए, पवाइओ हियइच्छिओ पवणो । तत्रो जल-तरल-तरग-रंगत-कल्लोल-माला-हेला-हिंदोलय- 9  
 परपरारूढ गतुं पयत्त जाणवत्त । कहं । कहिंचि मच्छ-पुच्छच्छडाहउच्छलत-जल-वीई-हिंदोलिय, कहिंचि कुम्म-पट्टि-सट्टि- 9  
 उच्छलतय, कहिंचि वर-करि-मयर-थोर-करायडिय, कहिचि तणु-ततु-गुणावज्जतयं, कहिंचि महा-विमहर-पास-संढाणिज्जतय 9  
 12 गंतु पयत्त । केण वि कालतरेण तम्मि रयण-दीवे लग्गा । उत्तिण्णा वणिया । गहिय दसणीय । विट्ठो राया । कओ 12  
 पसाओ । वट्टिय सुक । परियलियं भंड । टिण्णा हत्य-सण्णा । विक्किणीय त । गहियं पडिभड । टिण्णं दाण । पडिणियत्ता 12  
 णियय-कूल-हुत्त । पूरिओ सेयवडो । लग्गा हियइच्छिओ पवणो । आगया जाव समुह-मज्ज-देमं । तत्रो चिंत्तियं णेण 12  
 15 लोह-मूढ-माणसेण लोहदेवेण । 'अहो, पत्तो जहिच्छिओ लाहो, भरिय णाणा-विह-रयणाण जाणवत्तं, ता तड पत्तस्स एस् 15  
 मज्ज भागी होहिइ त्ति । ता ण सुदर इम' ति चिंतयंतस्स राईए बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे, एय एत्य पत्त-कालं मए कायव्वं' 15  
 ति संढाविय हियएण । समुट्ठिओ लोहदेवो । भणिय च णेण 'वयंस, पावक्खालय पविसामो, जेण विगणेमो आयव्वय 15  
 18 केत्तिय' ति । तं च सोज्जण समुट्ठिओ भइसेट्ठी, उवविट्ठो णिज्जहए । तत्थ इमिणा पावेणं लोह-मूढ-माणसेण अवलंविज्जण 18  
 णिक्करुणत्तणं, अवमण्णज्जण दक्खिण्ण, पडिवज्जिज्जण कययत्तण, अणायरिज्जण कयणुत्तणं, अवियारिज्जण कज्जाकज्ज, 18  
 परिचइज्जण धम्माधम्म णिइय णोल्लिओ णेण भइसेट्ठी । तावय वोलीणं जाणवत्त । 18

21 § १३२) खणेण य ति-जोयण-मेत्त वोलीण । तत्रो धाहाविय णेण । 21  
 अवि धाह धाह धावह धावह एमो इह मम मित्तो । पडिओ समुह-मज्जे दुत्तारे मयर-पउरम्मि ॥  
 हा हा एसो एसो गिलिओ च्चिय मीसणेण मयरेण । हा कत्थ जामि रे रे कहि गओ चेय सो मयरो ॥  
 24 एव अलियमलिय पलवमाणस्स उद्धाइओ णिज्जामय-ओओ परियणो य । तेहिं भणिय 'कत्थ कत्थ सो य णिवडिओ' । 24  
 तेण भणियं । 'इहं णिवडिओ, मयरेण य सो गिलिओ । ता मए वि किं जीयमाणेणं । अह पि एत्य णिवडामि' त्ति 24  
 भणमाणो उद्धाइओ समुदाभिमुहं महाधुत्तो । गहिओ य महल्लएहि परियणेण य । तेहिं भणिय । 'एक एस् विणट्ठो, 24  
 27 पुणो तुम पि विणस्सिहिसि, इम त ज पज्जलिए तण-भारय पक्खित्तं । ता सव्वहा ण कायव्वमेय । अवि य । 27  
 मा रूसह पुरिसाण इमो णओ एम दुण्णओ व्व कओ । अवि जस्स कम्म-णिवहे पढमं चिय देव्व-णिम्मविए ॥'  
 एव च भणमाणेहिं सडाविओ इमो । गतु पयत्त त जाणवत्त । सो उण भइसेट्ठी इमिणा पाव-हियएण णिइयं णोल्लिओ 27  
 30 णिवडिओ अहोमुहो जलरासिम्मि । तत्रो इत्ति णिम्मग्गो, खणेण य उम्मग्गो । तत्रो जल-तरल-तरग-वीइ-कल्लोल-माला- 30  
 हिंदोलयारूढो हीरिउ पयत्तो । तत्रो कहिंचि जल-तरग-पव्वाल्लिओ, कहिंचि वीई-हेलुल्लालिओ, कहिंचि तुग-तरगोयर- 30  
 वरिगरो महा-मयरेण आसाइओ । तत्रो वियड-डाढा-कराल महा-मयर-वयण-कुहत्तरालं पविमत्तो च्चिय अइयण पत्तो । 30

1) P च कीरिउ 2) P दियइ, J om ठाविय लग्गा, P णिलिगए for णिमित्ताइ 3) P सीयवडे उच्चिभज्ज वि कूवायभए  
 4) P जलसचए, J एव च कुणं, P कुणमाणेण, P om सो, P दियउहो, P om य 5) J चलिय 6) P पवाडियाइ, P समुहो,  
 P om दीणविमणो दइयायणो 7) P मियत्तयणो दीणविमणो महिलायणो मणोरहसमुहो, P जयजय-, J गव्वं P गट्टव्व 8) P  
 om जाणवत्त, P मियवडो, P आवहयाइ, J कण्टभारेण 9) P पवाओ, P रगता, P हिंदोलिय 10) J पुच्छ, P 'हयुच्छ'त  
 जलहिंदोल, P 'मट्टिउ' 11) P om करि, P 'करायडिय, P 'गुणावत्त' ज्जतय, J वाम for पाम 12) J 'दीवे 13)  
 P सुकु, P विक्कीय न गहिय । गहिय त मट । 14) P पुरिओ, J चिंतिय च्च 15) P 'येहमूढ' for 'लोहदेवेण, P पत्तो हियइ-  
 ट्टिओ लओ भरिय, P om पाणाविह 16) J भविनति for होहिइ J om मए 17) P मट्टापिय, J पतिनिमो, J वि-  
 गणिओ, P विगणेमो 'आयव्व केत्तिय' अज्जिय ति 18) J om समुट्ठिओ, J एत्य for नत्थ 19) P निक्कलान्ण, P कययत्त,  
 J कयणुत्त P 'वयणुत्त' 20) P धम्म for धम्माधम्म 21) P तिजोयनिजोयण, J वात्तानिओ य णेण, P अवि य after  
 वेण 22) J om one धम्म, P धाह पावह पावट, J नए for नम 23) P आ for हा (वत्थ), P जामि for  
 जामि, J एह for एहि 24) P उद्धा य for उद्धाओ, P om परियणो य, P om य 25) P om य नो, P जीवमाणेण  
 26) P उद्धाओ 'समुदाभिमुहो, P पि न for एस् 27) P पुणो वि तुम, J वि विण्णिमिट्टि P पि मे विण्णिमिट्टि, I om च,  
 P 'वियड' रक्खित्त 28) P अवि 'मयरेण' 29) J om च, P समुट्ठिओ इम च गतु, P मोट्ठा 30) P णिवडिओ  
 चने 'वत्त' P नत्ति for नत्ति, J 'णिग्गो, J उट्ठो, P inter दरा and नत्थ, J वीई 31) P 'वयण' वयण, P 'वि-  
 व' 32) I om नए

- 1 दुज्जण-ज्जण-हत्थ-गओ वियं णिक्खेवो कडयडाविओ णेणं । तओ अकाम-णिज्जराए जलणिहिम्मि महा-मयर-वयण-कुहर-दाढा- 1  
सुसुमूरणेण वेह्यं बहुयं वेयणिज्जं । तेण मओ संतो कत्थ गंतूण उववणो ।
- 3 § १३३ ) अरिथ रयणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-सहस्से तत्थ वंतराणं भवणाइं, तेसु अप्पिड्ढिओ रक्खसो 3  
समुप्पणो । पडत्तं च णेणं विभंग-णाणं । 'अहो, केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा इमा एरिसा देव-रिद्धी मए पाविय'  
त्ति । जाव दिट्ठं णेण अत्ताणं मयरेण गिलियं । दिट्ठं च जाणवत्तं । जाणियं च णेण । 'अरे, इमेणं अहं पक्खित्तो एत्थ  
6 लोह-मूढ-माणसेणं' ति । तओ चिंतिज्जण पयत्तो । 'अहो पेच्छ पेच्छ, इमस्स दुरायारस्स साहसं । ण गणिओ णिद्धो 6  
त्ति । ण मणिओ उवयारि ति । ण जाणिओ सज्जणो ति । ण चिंतियं सुकयं ति । ण इच्छिओ पिय-मित्तो ति । ण-ट्ठविओ  
अणुवगय-वच्छलो ति । सव्वहा
- 9 जो घडइ दुज्जणो सज्जणेण कह-कह वि जइ तुलग्गेण । सो तक्खणं विरज्जइ तावेण हलिदि-रागो व्व ॥' 9  
इमं च चिंतयंतस्स उद्धाइओ तस्स कोवाणलो । चिंतियं च णेण । 'अरे इमिणा चिंतियं जहा एयं विणिवाइज्जण एक्को चेय  
एयं अत्थं गेणहामि । ता कहं गेणहइ दुरायारो । तहा करेमि जहा ण इमस्स, अण्णस्स हवइ' ति चिंतिज्जण समागओ  
12 समुहं । तत्थ किं काउमाढत्तो । अवि य । 12

सहस चिय खर-फरुसो उद्धावइ मारुओ धमधमेतो । उच्छलिओ य जलणिही णच्चइ व तरंग-हत्थेहिं ॥

- तओ किं जायं । समोत्थरिया मेहा । उल्लसंति कल्लोला । धमधमेति पवणा । उच्छलंति मच्छा । उस्सुग्गवंति कच्छभा । मज्जंति  
15 मयरा । अंदोलइ जाणवत्तं । भग्गं कूवा-खंभयं । णिवडंति पत्थरा । उत्थरंति उप्पाया । दीसए विज्जु । णिवडंति उक्काओ । 15  
गज्जए भीमं । फुट्टइ अंवरं । जलइ जलही । सव्वहा पलय-काल-भीसणं समुद्धाइयं महाणत्थं । तओ विसण्णो सत्थवाहो,  
विमणो परियणो, अस्सरणो जणो, मूढो णिज्जामय-सत्थो ति । तओ को वि णारायणस्स थयं पढइ । को वि चंडियाए पसुं  
18 भणइ । को वि हरस्स जत्तं उवाइएइ । को वि बंभणाणं भोयणं, को वि माइणं, को वि रविणो, को वि विणायगस्स, 18  
को वि खंदस्स, को वि जक्खस्स, को वि रेमंतस्स, को वि बुद्धस्स, अण्णाणं च बहुविहं बहुविहे उवाइय-सहस्से भणइ ।  
सत्थवाहो उण अदण्णो अइ-पड-पाउरणो धूय-कडच्छुय-हत्थो विण्णवेउं पयत्तो 'भो भो, देवो वा दाणवो वा जक्खो वा  
21 रक्खसो वा, किमस्सेहिं कयं पावं, किं वा तुमं कुविओ । सव्वहा दिट्ठो कोवो, संपयं पसायं पेच्छिमो' ति । तओ पहाइओ 21  
पलय-पवण-संखुद्ध-मयरहर-भीसणो महासहो । किलिकिलेति वेयाला । णच्चंति जोइणीओ । पयत्ता विहीसिया-संघाया ।  
ताणं चाणंतरं

- 24 मुह-कुहर-विणिग्गउग्गिग्गण-जाला-करालाचलंतंत-पब्भार-पच्चंत-गंधुकुडं दीह-दंतावली-डक्क-रोवंत-डिंभं सिवाराव-भीमं भउव्वे- 24  
वियासेस-लोयं महाडाइणी-णच्चणावद्ध-हासं ।

विरइय-णर-सीस-मालावयं तंडयं णच्चमाणस्स वेयाणिलुद्धूय-संघट्ट-खट्टक्खडाराव-पूरंत-मुज्जंत-वेयाल-जालावली-रुद्ध-संचार-  
मग्गं णहं दीसए । 27

- 27 पहसिय-सिय-भीम-दीहट्ट-हासुच्छलंतद्ध-बद्धंधयारम्मि णासेंतमच्चत्थ-दीहंकरं कंक-माला-महामास-लुद्धाए गिद्धावलीए  
समं सेवियं ।

- 30 खर-णहर-महा-पहाराहयहारियासेस-खजंत-जंतू-रवाराव-भीमं महा-हास-संसइ-गहव्व-पूरंत-वीभच्छ-पेच्छं महा-रक्खसं । ति । 30  
§ १३४ ) तेण य मुह-कुहर-विणिग्गयग्गि-जालावली-संवलिजंतक्खरं पलय-जलहर-समेणं सदेणं भणियं । 'रे रे  
दुरायार पाव कूर-कम्म णिइय णिकरुण, भइसेट्ठिं वरायं अणवराहं वाघाइज्जण एवं वीसत्थं पत्थिओ' ति भणमाणेण  
33 समुक्खित्तं दाहिण-दीह-मुया-डंडेणं तं जाणवत्तं । समुद्धाइओ गयण-हुत्तं । तओ तं उप्पइयं जाणवत्तं केरिसं दीसिउं पयत्तं । 33

1 > P जलहत्थ- 2 > P विइय, J बहुवेयणिज्जं. 3 > J °प्पहाए, P पढमो, P भवणे 4 > J विहग णाणं, P om. उण,  
P om. वा after तवेण. 5 > P brings एत्थ after इमेणं 6 > J य पत्तो for पयत्तो 7 > P अवयारो for उवयारि, P  
पियमित्तो 8 > P अणवगय- 9 > P घडइ सज्जणो दुज्जणंमि, P जह for जइ, J विरइज्जइ, J हलिदिराओ, P हलिह- 10 > P  
उद्धाइओ, J कोआणलो 11 > P जहा इमस्स, J इमस्स ण अण्णस्स 13 > P उच्छलिओ 14 > P वि after तओ, P समोत्थया,  
P उम्मग्गति, J कच्छवा 15 > P भग्गइ कूया- 16 > P पुट्टइ य अवर । दलइ नलनिही, P महाअणत्थं 17 > J णारायणट्टस्मय  
P नारायणसत्थय 18 > J हणइ for भणइ, P उवाइइ, J om को वि before विणायगस्स, P विणायगस्स 19 > P रेवतस्स,  
P भणइ 20 > J om अदण्णो, P अइ for अइ, P विवविउ, J om जक्खो वा 21 > P पेच्छामो, J om ति. 22 > P  
पयत्तो 24 > P चलंतपब्भार- 25 > P महाणइणी- 26 > P °वर्यंसतडय, P वेयानिलुद्धसघट्टखट्टयटारा- 27 > P दीमते ।  
28 > P हासुच्छलंतद्धंधयारविणासेंत 30 > P कर for खर, P repeats नहर, P खजंतजियंतजंपूर, P हहा हाससमइगदम.  
31 > P सचलिज्जतिखरपलय 33 > P मुयादंडेणं, J उप्पइउं P समुप्पइय, P अवि य after पयत्त ।

- 1 पायालयलाभौं समुद्रिय व गयणंगणे समुप्यइय । असुर-विमाण-सरिच्छ व दीसए जाण-वरवत्त ॥ 1  
ताव उप्पइयं जाव जोयण-सय दुरुत्तर । तओ रोस-वस-सिमिसिमिमेंत-हियएण अच्छोडिय कह दीसिं पयत्तं । अवि य ।
- 3 गिवडत-रयण-गिवहं मुत्ताहल-धवल-सोहिओऊलं । धुव्वंत-धया-धवलं कीला-सेलस्स खंड व ॥ 3  
तं च तारिसं गिदय-असुर-कर-गोल्लिय गिवडिय । आवडियं वित्थिण्णे महा-समुहुच्छंणे तं जाणवत्त । अवि य ।  
तह त वेयावडिय समुद्-मज्झमि जाण-वरवत्त । गिवडत चिय दिट्ठं पुणो ण णाय कर्हिं पि गय ॥
- 6 पेच्छ मणि-णिम्मल-गुणंतमि समुद्मिमि कथ वि विलीणं । अहव गुण-भूसियाण वि सबधो णत्थि जलहिमि ॥ 6  
तओ पलीण भंडं, मया णिज्जासया, विणट्ठो परियणो, चुणिय जाणवत्तं । एत्थतरे एस कह-कह वि णासग-पत्त-जीविओ  
जल-तरग-वीईए किर भडवई समुद्देण विवज्जइ त्ति । तेण कह-कह वि तरल-जल-पेळण-घोल-णिव्वोलिज्जतो वि एकमि
- 8 मुसुसूरिय-जाणवत्त-फलहयमि विलगो । गहिय च णेण तं फलहयं । कह । 9  
कोमल-दइयालिंगण-फस-सुहासाय-जाय-सोक्खाहिं । बाहाहिं तेण फलयं अवगूढं दइय-देहं व ॥  
त च अवगूहिज्जण समासत्थो । चित्थिय च णेण । 'अहो,

- 12 ज ज करंति पाव पुरिसा पुरिसाण मोह-मूढ-मणा । त तं सहस्स-गुणिय ताण देवो पणासेइ ॥ 12  
अण्णाहा कथ समुद्दे विणिवाइओ भइसेट्ठी, कथ व समुद्दाइओ रक्खस-रूवी कयंतो । ता संपय ण-याणाभि किं पावियव्वं'  
त्ति चित्तयतो जल-तरल-तरगावली-हेला-हिंदोलय-मालारूढो फलहए हीरिं पयत्तो । ता कर्हिंचि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-छोडिओ,  
15 कर्हिंचि पक्क-णक्क-संकिओ, कर्हिंचि तणुय-तंतु-संजसिज्जतओ, कर्हिंचि धवल-संखउलावली-विलुलिज्जतओ, कर्हिंचि घण-विहुम- 15  
दुम-वण-विमुज्झंतओ, कर्हिंचि विसहर-विस-हुयास-संताविज्जतओ, कर्हिंचि महाकमड-तिस्व-णक्खावली-संलिहिज्जतओ ।
- § १३५) एवं च महाभीमे जलणिहिमि असरणो अवलो अमाणो उज्जिय-जीवियव्वो जहा भविस्स-टिण्ण-हियओ  
18 सत्तहिं राइदिएहिं तारदीवं णाम दीव तथ लगो । आसत्थो सीयलेण समुद्-वेला-पवणेणं । समुद्रिओ जाव टिसं पलोएइ 18  
ताव य गहिओ कसिण-च्छवीहिं रत्त-पिंगल-खोयणेहिं वद्धुद्ध-जूडएहिं जम-दूय-सणिहेहिं पुरिसेहिं । इमेण भणियं 'किं मम  
गेणह' । तेहिं भणिय । 'धीरो होहि, अम्हाण एस णिओओ । जं को वि पुरिसो गेहं णेऊण मज्जिय-जिमिओ कीरइ' त्ति ।
- 21 एवं भणमाणेहिं णीओ णियय-घर, अठ्ठभगिओ मज्जिओ जिमिओ जहिच्छ । उवविट्ठो आसणे समासत्थो । तओ चित्थिय च णेण । 21  
'अहो अकारण-वच्छलो लोओ एत्थ दीवे । कि वा अहं सभगो'त्ति चित्तयतो चिय सहसा उद्वाविएहिं बढो । पच्छा बहु-  
पुरिसेहिं बधिऊण य मासलेसु पएसेसु छिंदिउ समादत्तो । मास च चडचडस्स वडुए । छिणं मासं, पडिच्छियं रुहिर । वियणा-
- 24 उरो य एसो चलचल्ल-पेळणय कुणमाणो विलित्तो केण वि ओसह-दव्व-जोएण, उवसता वेयणा, रूढ अंग त्ति । एत्थंतरमि पुच्छियं 24  
घासवेण महामतिणा भगव धम्मणंदणो । 'भगव, अह तेण महामासेण रुहरेण य किं कुणंति ते पुरिस'त्ति । भणियं च  
भगवया धम्मणंदणेण । 'अत्थि समुदोयर-चारी अरिगयओ णाम महाविडो ऊरुगो ऊरुग-संठाणो वेलाउलेसु पाविज्जइ त्ति ।
- 27 तस्स परिक्खा मधुसिथय गधरोहय च मत्थए कीरइ । तओ त पगलइ । त च गेण्हऊण ते पुरिसा महारुहरेण महामसेण 27  
वियेण य चारंति । तओ एको सो महाविडो सुव्व सहस्संसेण पाविऊण हेम कुणइ त्ति । तेण भो महामति, तेहिं पुरिसेहिं  
सो गहिओ । तओ पुणो वि भक्ख-भोज्ज-खज्ज-सएहिं संवडिय तस्स मास जाव छम्मासे । पुणो पुणो उक्कत्थिय मस रुहिर च  
30 गालियं । वेयणत्तो पुणो वि विलित्तो ओसह-दव्वेहिं । पुणो वि सत्थो जाओ त्ति । एव च छम्मासे छम्मासे उक्कत्थिय-मास- 30  
खडो वियलिय-रुहिरो अट्टि-सेसो महादुक्ख-समुद्-मज्झ-गओ वारस संवच्छराइ वसिओ ।

- § १३६) अह अण्णमि दियहे उक्कत्थिय-देहेण चित्थिय अणेण लोहदेवेण । 'असरणो एम अहं णत्थि मे मोक्खो । ता  
33 सुदर होइ, जइ मह मरणेण वि इमस्स दुक्खस्स होज्ज वीसामो' त्ति । चित्तयतेण पुलइय णेण गयणयल जाव दिट्ठो 33

2) P उप्पइय, J सिमिसिमिमिमेंत P °सिमित, J कट अ दीसिउ 3) P-सोरिट ऊल । धूयत्त, J गणटव्व, P च for व,  
4) J गिदअ नुरकर, P करु for कर 5) J inter न & तह, P कर्हिं चि 7) P कड for भट 8) P वीचीण, P भटव्व  
वीण न त्तुदेण, P पेच्छगुवान्निच्चोडिं 10) J नुहापाव, P जाण for जाय, J दलय for फलय, P अवरुद्ध, P inter देह  
and रय 11) J अवजहिका, P ममामत्थेण 12) P करति, P देवो पणासेइ 13) J om व, P संपय न याणिमो पा किं  
14) P तरगावन्निज्जतओ कर्हिंचि घणविहुम etc (portion from below) पताविज्जतओ कहिवली हेलाट्टिदोल्यामालारूढ  
फलहयो, JP च्छटाच्छोडिओ 15) P कर्हि पक्कणक्क, P नत्त 16) P-संलिहिज्जतओ 17) P जीवियव्वओ भविम्म 18) P  
रावदिएहिं, P वेणए णेण 19) P om य, J कमा, J वट्टुद्ध (?) P वद्ध for वद्धुद्ध (emended), P मत्थिमेहिं 20) P  
कोर for को वि, P मत्थि मे for मत्थिय 21) P उक्कत्थिय जिमिउ, P उवविट्ठो आसणो, J om च 22) J मत्थो, P वाहु  
for बहु 23) P दवेज्जा मात्थेण, P नमादत्ता, P om. च, J चटुए P वट्टुए, P मम पटिच्छय 24) P om य, P च्छुचुवेहया  
इण्णाणो 25) P वासवणा, J om भावं before अह, P-अमेण, P om ते 26) P °जित्तो जग्गोत्तमणो 27) P  
तथ for तम्म, P अरोइ, P (om नओ 28) P चारति, J नोत्त for नो, P नुव्व for नुव्व, P कुणत्ति । 29) P om नओ,  
P ओइएहिं, P त्त, J om one पुणे, J नाम 30) J om. पुणो, P-अत्रेण, P om त्ति, J om च, J नाम नवो  
31) P वत्तिउ । 32) P अणे वत्ति, J वेण for वेणो, P एय for एय, J मो for ने 33) P repeats सुदर, P चित्तियवेण

- 1 रुहिर-मास-गंधायद्विभो उवरि भममाणो भारंड-महापक्खी । तं च दट्टण आउलमाउले परियणे णिक्खंतो बाहिं आयास-तले 1  
दिट्ठो य तक्खणुक्कत्तिय-वहंत-रुहिर-णिवहो भारंड-महापक्खिणा, झड त्ति णिवडिऊण गहिओ । हा-हा-रव-सद्-गग्भिणस्स 1  
3 परियणस्स समुद्धाओ पुरओ च्चिय गयणंगण-हुत्तं । तओ णिसियासि-सामलेणं गयण-मग्गेणं पहाओ पुच्चुत्तर-दिसा- 3  
विभायं । तत्थ किं काउमारद्धो । अवि य ।  
पियइ खणं रुहिरौहं लुंपइ मासं पुणो खणं पक्खी । भंजइ अट्टिय-णिवहं खणं खणं घट्टए मम्मं ॥  
6 एवं च विलुप्पमाणो जाव गओ समुहुच्छंगे ताव दिट्ठो अण्णेण भारंड-पक्खिणा । तं च दट्टण समुद्धाओ तस्स हुत्तं । 6  
सो य पलाइउं पयत्तो । पलायमाणो य पत्तो पच्छा पहाइएणं महापक्खिणा । तओ संपलगं जुद्धं । णिट्टुर-चंचु-पहर-वर-  
णहर-मुह-वियारणेहिं य जुज्झमाणानं चुक्को चंचु-पुडाओ । तओ णिवडिउं पयत्तो ।  
9 णिट्टुर-चंचु-पहारावडंत-संजाय-जीय-संदेहो । आसासिओ पडंतो गयणवहे सीय-पवणेण ॥ 9  
णिवडिओ य धस त्ति समुह-जले । तओ तम्मि अहिणवुक्कत्तिय-मेत्ते देहे णिहय-चंचु-पहर-परद्धे य तं समुह-सलिलं कह  
डहिउं पयत्तं । अवि य ।  
12 जह जह लग्गाइ सलिलं तह तह णिदूमयं डहइ अंगं । दुज्जण-दुच्चयण-विसं सज्जण-हियए च्च संपत्तं ॥ 12  
तओ इमो तम्मि सलिले अणोरपारे डज्जंतो जलेणं, खजंतो जलयरेहिं, जल-तरंग-वीई-हत्थेहिं व णोलिज्ज-माणो समुद्देणावि  
मित्त-वह-महापाव-कलुसिय-हियओ इव णिच्छुभंतो पत्तो कं पि कूलं । तत्थ य खण-मेत्तं सीयल-समुह-पवण-पहओ ईसि  
15 समुससिओ । णिरुवियं च णेणं कह-कह वि जाव पेच्छइ कं पि वेला-वणं । तं च केरिसं । 15  
एला-लवंग-पायव-कुसुम-भरोणमिय-रुद्ध-संचारं । कप्पूर-पूर-पसरंत-बहल-मयरंद-गंधं ॥  
चंदण-लयाहरेसुं किणर-विलयाओ तत्थ गायंति । साहीण-पिययमाओं वि अणिमित्तुकुण्ड-णडियाओ ॥  
18 कयली-वणेसु जत्थ य समुह-मिउ-पवण-हल्लिर-दलेसु । वीसंभ-णिमीलच्छा कणय-मया णिच्च-संणिहिया ॥ 18  
§ १३७) तस्स य काणणस्स विणिग्गाएणं बहु-पिक्क-फल-भर-विविह-सुरमि-कुसुम-मासल-मयरंद-वाहिणा पवणेण समा-  
सासिओ समुद्धिओ समुह-तडाओ परिभमिउमाडत्तो तम्मि थ काणणे । तओ करयल-दलिय-चंदण-किसलय-रसेण विलित्त-  
21 मणेणं अंगं । कयाहारो य संबुत्तो पिक्क-सुरहि-सुलह-साउ-फलेहिं । दिट्ठो य णेण परिभममाणेणं काणणस्स मज्झ-देसे महंतो 21  
वड-पारोहो । तत्थ गओ जाव पेच्छइ मरगय-मणि-क्रोट्टिमयलं णाणाविह-कुसुम-णियर-रेहिरं सरय-समए विय बहुल-पओसे  
णहंगणं । तं च पेच्छिऊण चित्तियं अणेणं । 'अहो, एवं किर सुव्वइ सत्थेसु जहा देवा सग्गे णिवसंति, ता ण ते सुंदरासुंदर-  
24 विसेस-जाणया । अण्णहा इमं पएसं तेलोक्क-सुंदर परिच्चइउं ण सग्गे णिवसंति' । चित्तयंतो उवविट्ठो तम्मि वड-पायव-तले 24  
त्ति । तत्थ णिसण्णेण य देव-णाम-कित्तणालद्ध-सण्णा-विण्णाणेणं चित्तियमणेणं लोहदेवेणं । 'अहो, अत्थि को वि धम्मो जेण  
देवा देव-लोएसु परिवसंति दिव्व-संभोगे त्ति । अत्थि य किं पि पावं जेण णरए णेरइया अम्ह दुक्खाओ वि अहितं दुक्ख-  
27 सुव्वहंति । ता किं पुण मए जीवमाणेण पुण्णं वा पावं वा कयं जेण इमं दुक्खं पत्तो' त्ति चित्तयंतस्स हियए लग्गो सहस त्ति 27  
तिक्ख-सर-सल्लं पिव भद्वसेट्ठी । तओ चित्तियं पयत्तो । 'अहो,  
अम्हारिसाणं किं जीविएण पिय-मित्त-णिहण-तुट्टाण । जेण कयग्घेण मए भद्वो णिहणं समुवणीओ ॥  
30 ता धिरत्थु मम जीविएणं । ता संपयं किं पि तारिसं करेमि, जेण पिय-मित्त-वह-कलुसियं अत्ताणयं तित्थत्थाणम्मि वावाएमि, 30  
जेण सव्वं सुज्झइ'त्ति चित्तयंतो णिवण्णो । तओ सुरहि-कुसुम-मयरंद-बहल-परिमलुग्गार-वाहिणा समासासिज्जंतो सिसिर-  
जलहि-जल-तरंग-रंगावली-विक्खिप्पमाण-जल-लव-जडेणं दक्खिणाणिलेणं तहिं चेष पसुत्तो वड-पायव-तलम्मि । खण-मेत्तस्स  
33 य विबुद्धो ईसि विभासिज्जंत-वर-महुर-सुहुमेणं सरेणं । दिण्णं च णेण सविसेसं कण्णं । 33

1 > P उवरि कमनाणो भारंडं, J आयासअले । P -तले य । 2 > P तक्खणुक्कत्तिय, P भारुड, J inter महा and भारुड,  
J झस P झड 3 > P गयणागण, P om. पहाओ, P दिसाभाय 5 > P खण घोट्टए रुहिर ॥ 6 > J विलुप्पमाणो, P  
समुहुच्छंओ ताव दिट्ठो समुहुच्छंगे ताव दिट्ठो अनेन भारुडं, P सपुट्टाइ तस्स 7 > P सलग्ग, P -पहार- 8 > P कुहर for मुह,  
P निवडिय 9 > P प्पहारां, J धुयधरिय for संजाय, P गयणयले सीय, J सीयल- 10 > P om तओ, P अहिणवुक्कत्तिय, P  
निहय, P परद्धेय, P सलिल अह दहिउ 12 > P दहइ, P -हियय व । 13 > P अणोरपारो, P पुणो लिज्जं for व णोलिज्जं, P  
समुद्देणाविवित्तवह 14 > J कलुसिओ इव, P निव्वमच्छतो, P ईसी 17 > P सीहीण, J अणुस्सुत्तुकुण्ड- P अणमित्तुकुण्ण. 18 >  
P कणेसु for वणेसु, J कणयमाया 19 > P वडुरपिक्कफलहर, P -सुरहि, P मासमयरददाहिणपवणेण. 20 > P समुद्धिओ, P  
करयलयदलिय, P विलित्तमाणेण 21 > J कयामारो, P -फलेहिं, J णेण for व णेण, P परिचममं. 22 > J वट्यारोहो, P  
क्रोट्टिमयले, P -नियरेहिर, P विआ for विय 23 > J णेण for अणेणं, P किर after जहा, P निवसति, P inter. ते and ण  
24 > P विस for विसेस, J परिच्चइऊण 25 > J णिसुण्णेण, P चित्तियमणेण, P धमो for धम्मो. 26 > P -मभोगो, P  
नारइया । अहं दुक्खाओ 27 > P सपतो for पत्तो, P सहस्स for सहस 28 > P चित्तिय for चित्तियं. 30 > P om. पि,  
P om. अत्ताणयं, P अत्थत्थाणम्मि 31 > P om त्ति, P ताओ for तओ, P -कुसुमयरंद- 32 > P om. जलहि, P तरंगारंगां,  
P तरेणं for जडेणं 33 > P om. य, P विभासिज्जंतवरमहुर, P adds ताणयति before दिव्वं च, J om. णेण



- 1 § १३८) नायण्णिङ्गण य चित्तिं जेण । 'अरे, कयरीए उण भासाए एय उल्लवियइ केणावि कि पि । हुं, अरे सक्क्य 1  
ताव ण होइ । जेण तं वणेय-पय-समास-गिवाजोवसग्ग-विभक्ति-लिंग-परियण्णा-कुवियप्प-सय-दुग्गम दुज्जण-हिययं पिव 1  
3 निसम । इमं पुण ण परिसं । ता किं पायय होज्ज । हुं, तं पि णो, जेण त सयल-कला-कलाव-माला-जल-कल्लोल-सकुल्लं 3  
लोय-वुत्त-महोयहि-महापुरिस-महणुग्गयामय-णीसद-विंदु-सदोह संघडिय-एकेक्कम-वण्ण-पय-णाणारुव-विरयणा-सह सज्जण-  
वयणं पिव सुह-संगय । एयं पुण ण सुट्ठु । ता कि पुण अवहंसं होहिइ । हू, त पि णो, जेण सक्क्य-पायजोभय-सुद्धा-  
6 सुद्ध-पय-सम-विसम-तरग-रगत-वग्गिर णव-पाउस-जलय-पवाह-पूर-पञ्चालिय-गिरि-णइ-सरिस सम-विसम पणय-कुविय-पिय- 6  
पणइणी-समुल्लाव-सरिस मगोहर । एय पुण ण सुट्ठु । कि पुण होहिइ त्ति चित्तयतेण पुणो समायणिय । अरे, अथि  
चउत्था भासा पेसाया, ता सा इमा होहिंत्ति । एत्थ वड-पायवोयरे पिसायाण उल्लावो होइइ' त्ति ।
- 9 § १३९) 'ता पुण को इमाणं समुल्लावो वट्ठइ' त्ति चित्तयतो ट्ठिजो । भणियसण्णेण पिसापुण णियय-भासाए । 9  
'भो एत तए लपिय्यते यथा तुव्मेहिं एतं पच्चय-नती-तीर-रम्म-वन-काननुय्यान-पुर-नकर-पत्तन-सत-संकुल्लं पुयवी-मडल  
भममानकेहिं कतरो पतेसो रमनिय्यो निरिक्खित्तो त्ति । एत्थ कि लपिय्य । तं वमिनवुत्तिमन्न-नव-चूत-मंजरी-कुसु-  
12 मोतर-लीन-पवन-संचालित-मदमददोलमानमुप(त-पातपंतरल-साखा-सघट्ट-वित्तासित-लच्चरन-रतरनायमान-तनुतर-पक्ख- 12  
सतति-विघट्टनुद्धूत-विचरमान-रजो-सुन्न-भिन्न-हितपक्क-विगलमान-विमालित-मानिनी-सयगाह-गहित-विय्याधर-रमनो विय्या-  
धरोपवनाभोगो रमनिय्यो' त्ति । अण्णेण भणिय । 'नहि नहि कामचार-विचरमान-सुर-कामिनी-निगिय्यमान-इइत-गोत्त-  
15 किच्चनुल्लसंत-रोमच-सेत-सलिल-पञ्जरत-पातालतरक-रनुप्यल-चित्त-पिथुल-कनक-सिलंतलो तितस-गारिवरो पव्वत-राजो 15  
रमनिय्यतरो' त्ति । अण्णेण भणियं । 'कथमेत लपिन सुलापित भोति । विविध-कप्पतरु-लता-निवट्ट-दोलक-समारुद्ध-  
सुर-सिद्ध-विय्याधर-कंत-कामिनी-जनंदोलमान-गीत-रवाकन्न-सुख-निम्भर-पलुत्त-कनक-मिक-युगलको नदनवनाभोगो रमनि-  
18 य्यतरो' त्ति । अवरेण भणिय । 'यति न जानत्ति रमनिय्यारमनिय्यानं विसेसं, ता सुनेसु । उडाम-संचरत-तितयन-वसभ- 18  
डंक्कता-रुपुपित्थ-दुज्जत-नोरी-पंचानन-रोस-वस-वित्तिन्न-विक्रम-निपात-पातित-दुग-बुहिन-सित-सिसिर-सिला-सिखरो हिमवतो  
रमनीयतमो' त्ति । अण्णेण भणियं । 'नहि नहि वेला-तरंग-रंगंत-सलिल-वेवुद्धूत-सिसिर-मारुत-विकिरिय्यमानेला-रुवक-  
21 ककोलक-कुसुम-वहल-मकरंदामुत्तित-मथुकर-कलकलारावुगिय्यपमानेकेक्कम-पातप-कुसुम-भरो इमो य्येव वेला-वनाभोगो 21  
रमनिय्यतमो' त्ति । अवरेण भणियं । 'अरे, कि इमकेहिं सव्वेहिं य्येव रामनीयकेहिं । यं परम-रमनीयक तं न उल्लपय  
तुव्मे । सग्गावतार-समनतर-पतिच्छित्त-नव-तिभाग-नयन-जटा-जटापोतर-निवास-ससि-कला-निद्वूतामत-निवह-मधुर-धवल-  
24 तरंग-रंगावली-वाहिनिं पि भगवतिं भगीरथिं उज्झिज्जत जम्मि पापक-सत-दुट्ठप्पमो पि, कि बहुना मित्त-वध-कतानिं पि 24  
पातकानि सिञ्जान-मेत्तकेनं येव सत-सक्करानि पनस्सति । ता स च्चेय रमनीया सुरनति' त्ति । तसो सव्वेहिं भणियं । 'यदि  
एव ता पयट्ठय तहिं च्चेय वच्चामो' त्ति भगमाणा उप्पइया धोय-खग्ग-णिम्मलं गयणयल पि साय त्ति । इमस्स वि णरणाह,  
27 हियवए जहा टिब्बाण पि पूयणीया सव्व-पावहारी भगवई सुरसरिया तम्मि च्चेय वच्चामो जेण मित्त-वह-कलुसिय अत्ताणय 27

1) P om य, P तेग for जेण, J कयलीए, P अणु for उण, P उल्लवीय त्ति केा वि, P हु 2) P तन वं, P त्तात्तनिवाजो-  
वन्नविभक्ति 3) J om ण, P पाय for पाययं, P सकुला 4) P महावही, P सुइणुग्गया, P सडोह सघं, J सघडिए एक्के,  
P वनपायनाणारुव, P सुह for सह 5) P वग for वया, J किं अवहस, P अवम्भत होहिइ । हुं, P adds त before सक्क्य  
6) J om विसन, J जलयर (but perhaps struck off), P जलयर for जलय, P पयकुविय पिव पणं 7) P नहा for  
सुट्ठु, P सन्नायत्रिय 8) P वडपायवे, P om होइइ त्ति । ता पुण को इणा समुल्लावो 10) J एय for एत, P लपिय्यते, J om  
एत, J गती, P नदी for नी, P om तीर, P रन, J वण P वन, P काननुप्यान, J नकरपत्तदत्त, P पुत्तन for पत्तन, J नण्हल  
11) J के कि for केहिं, J निरिक्खित्तो P तिरिक्खित्तो, P लपिय्यते for लपिय्य, P om त, P om नव, P भूतपजरी 12) J  
नीण, J adds पवनसंचालित on the margin which is omitted in P J 'दोलानामुपाचयातरसवट्ट P 'दोलानानवपातप,  
J तर for तरल, J om साखा, P सव्वचित्तासितच्छव 13) J सतती, P विवट्टु, J पुग्ग, J णिण, P भिनाइतपकाविं,  
P विव्याधरो 14) P रमनिज्जो, P अत्तेण, J भणिय, P कानकानचारविचारान, P तिब्बानउदितोत्त 15) P रोन्ना,  
J सेव for सेत, P पञ्जरत, J पायालतरक P पातालनूक, P चिन for चित्त, P सिलानले 16) J रमनिय्यात्तो P रमनिय्यतरो, P  
अण्णेण, J भणिय, P om लपित्त, J त्ति for ति (in भोति), P विविध, J adds तर before लता 17) P विज्जाधर, J  
'कशानां, J णिम्भर, P युत्तके नदनो वनां, J रमनिय्योत्तरो P रमनिय्यतरो 18) J भणिय, P रमनिज्जाननिञ्जाना ताडु वेडु  
विसेस उडाम- 19) J डंक्कता P डंक्कता, J पंचानन, J वास for रोस, J वित्तिण P वित्तिन, P यतित, J om सिल, J हेनंती  
रमनीयतमो P हिमवतो नाननीयतमो 20) P अत्तेण, J भणिय, J लेवुद्धुन, P विरुन, J मार for मारुत, P विकिरिय्यमानेला  
लवग 21) P बहुलनकरदनतिततनुषुकाकलकलारावुगिय्यमाने', J मथुकरतलकलारावुगिय्यमानेकेक्कमपातपकुसुम- 22) J रन-  
निय्योत्तरो P रमनिज्जानो, P इन कडि, J om सव्वेहिं, P प्वेव for य्येव 23) P पवीट्ठिज्जतभनव, J जटा for जटा, J कटा-  
घात for कटारोत्त, J निद्वूतानननिवह, P मधुर 24) J तराण, J वाहिनिं पि भगवति भगीरथिं P वाहिनिं पि भगवती भगीरथी  
उज्झिज्जत जम्मि, P रद्धपनो for दुट्ठप्पमो, P कातानि for कतानि 25) J निञ्जाननेत्तकेनं P निञ्जाननेत्तकेन पेवान्त, J पनस्सति,  
P सव्वे य रमनयादुरत्तत्तो चि, J सव्वेहिं वि भणिय, J लइ for यदि 26) P सानिन्धल, J ररनाइ 27) J पूयणीयावहारी,  
P पूयणीया । सव्वनावहारी भगवती, J adds ता before तन्नि, P ताहिं for तन्नि

1 सोहेमो त्ति चिंतयंतो समुट्ठिओ सुरणई-संसुहो । तओ कमेण आगच्छमाणो इह संपत्तो, उवविट्ठो य इमम्मि जण-संकुले 1  
समवसरणे त्ति । इमं च सयलं वुत्तंतं भगवया साहियं णिसामिऊण लज्जा-हरिस-विसाय-विमुहिज्जंतो समुट्ठिओ णिवडिओ  
४ य भगवओ धम्मणंदणेण च लण-जुवलए । भणियं च णेण ।

‘जं एयं ते कहियं भगवं सव्वं पि तं तह च्चेय । अलियं ण एत्थ वर-जस तिल-तुस-मेत्तं पि ते अत्थि ॥

ता भगवं दे जंपसु एत्थ मए किं च णाह कायव्वं । किं ता सुरसरिय च्चिय अहवा अण्णं पि पच्छित्तं ॥’

6 § १४०) भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेण ।

‘जलणो डहइ सरीरं जलं पि तं च्चेय णवर सोहेइ । अंगट्ठियाई भंजइ गिरी वि णवरं णिवडियाणं ॥

देवाणुपिया जं पुण घण-कसिणं विरहयं पुरा कम्मं । तं पर-तवेण तप्यइ णियमा सम्मत्त-जुत्तेणं ॥

9 ता उज्झिऊण लोहं होसु विणीओ गुरुण सय-कालं । कुणसु य वेयावच्चं सज्जाए होसु अहिउत्तो ॥ 9

खंतीएँ देसु चित्तं काउस्सगं च कुणसु ता उगं । विगई परिहर धीरो वित्ती-संखेवणं कुणसु ॥

पालेऊण वयाइं पंच-महासइ-पढम-गरुयाइं । गुरुयण-दिट्ठेण तओ अणसणएणं मुयसु देहं ॥

12 जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सिव-सुह-सोकलं अइरा मोक्खं पि पाविहिसि’ ॥” 12

इमं च णिसामिऊण पहरिस-वियसमाण-वयणेणं भणियं लोहदेवेणं ।

‘भगवं जइ ता जोग्गो इमस्स तव-संजमस्स ता देसु । मित्त-वहं मम पावं परिसुज्झइ जेण करणेणं ॥’

15 भगवया वि धम्मणंदणेण

पायवडियस्स सुहरं बाह-जलोलिया-मइल-गंडस्स । उवसंत-तिव्व-लोहे सामण्यं तेण से दिण्णं ॥

एवं च णाणाइसएणं णाऊण उवसंत-कसाओ पव्वाविओ लोह-देवो त्ति ॥ ❀ ॥

18 § १४१) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण ।’

‘मोहो कज्ज-विणासो मोहो मित्तं पणासए खिप्पं । मोहो सुगई रंभइ मोहो सव्वं विणासेइ ॥

अवि य मोह-मूढ-मणो पुरिसो अकज्जं पि कुणइ कज्जं पि ण कुणइ, अगम्मं पि वच्चइ गम्मं पि ण वच्चइ, अभक्खं पि

21 असइ भक्खं पि णासइ, अपेयं पि पियइ पेयं पि ण पियइ, सव्वहा हियं पि णायरइ अहियं पि आयरइ त्ति । अवि य । 21

गम्मागम्म-हियाहिय-भक्खाभक्खाण जस्स ण विवेगो । बालस्स व तस्स वसं मोहस्स ण साहुणो जंति ॥ जेण,

भइणिं पि कुणइ भज्जं जणयं मारेइ पेच्छइ ईसाए । मोह-विमोहिय-चित्तो णरवर एसो जहा पुरिसो ॥’

24 भणियं च णरवइणा । ‘अयवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो’ त्ति । भणियं च गुरुणा धम्म- 24

णंदणेणं ।

“जो एस तुज्झ दूरे दाहिण-देसम्मि वासवस्स भवे । ण सुणइ भणियं वयणं सुयं पि सम्मं ण-याणाइ ॥

27 पुरओवट्ठिय-कज्जं ण पेच्छइ किं पि मउलियच्छीओ । जूय-जिओ जूययो व्व ओ अह किं पि चिंतेइ ॥ 27

लेप्पमइउ व्व घडिओ बाहिर-दीसंत-सुंदरावयवो । कज्जाकज्ज-वियारण-विमुहो थाणु व्व एस ठिओ ॥

जो सो सुव्वइ मोहो तं च सरुवेण पेक्ख णरणाह । एएण मोह-मूढेण जं कयं तं णिसामेह ॥

30 § १४२) अत्थि भुयणे पयासो कोसल-णरणाह-पुत्त-नोत्तंको । कोसल-जणो जणाणं कोसल-जण-णिवह-पूरतो ॥ 30

जहिं च ससूयाओ सालीओ कुहुंविणीओ य, सवाणियइं गामाइं तंबोलइं च, सासाउलइं पउत्थवइया-मुहइं छेत्तइं च, असण-

संकुलइं वणइं भोज्जइं च, दियवराहिट्ठियओ सालीओ वाविओ य, सहलइं तरु-सिहरइं सीमंतरइं च, धम्म-महासाहणुजुवा

33 जुवाणा महामुणिंदा य त्ति । अवि य । 33

सालिवण-उच्छु-कलिए तम्मि य देसम्मि महियलभइए । अत्थि पुरी पोरणा पवरा पर-चक्क-दुल्लंवा ॥

तहिं च तुंगाइं धवलहरइं ण गुरुयण-पणामइं च, दीहरइं पेम्मावंधइं ण कोवारभइं, वंक्क-विंवकइं कामिणी-केस-

1 > P सुरनइ, J जओ for समुहो, P इह, J om जण 2 > J 'सरण त्ति, P सयल', P विसया for विसाय, P om.  
णिवडिओ 3 > P जुवलये 4 > J या for ते (after पि) 5 > P om च 7 > P दहइ, P कोहोइ for सोहेइ, P नवर  
विनडियाण 8 > P adds जीवेण बहु before वग, P जत्तेण ॥ 9 > J गुरुभणस्स सयकाल, J अभियुत्तो 10 > P सतीय, J  
काउसग, P विगइं, P धीरो विरो वित्ती- 11 > P पउमगुरुयाइ, J अणसण 12 > J तओ तत्थ जत्थ for the first line जत्थ  
ण जरा etc, J पावेसि 13 > P भणिय च लोभदेवेण 16 > J जलोलि- P जलोयालि, P उवसत तिव्वलोहो त्ति मा', P सो for से  
17 > P repeats पव्वाविओ, P त्ति ॥ छ ॥ प्रव्रजितो लोभदेव. चतुर्थो धर्मनदनाचार्येण । भणियं etc. 18 > P om वि 19 >  
P सुगई 20 > J om कज्जं पि ण कुणइ 21 > P असइ, P नासेइ, P interchanges the places of पेय and अपेय, J णा  
पियइ, J पि णायरइ त्ति ।, P om त्ति 22 > P विवेओ । 23 > P पि मुजइच्छउ जणय, J पेच्छइ सार 24 > P om. धम्मणं-  
दणेण 26 > J om. three verses जो एम तुज्झ etc to थाणुव्व एस ठिओ ॥ 27 > P पूरओ वेट्ठिय, [ पेच्छइ or मउरिय-  
च्छीओ ] P अह किं किं 29 > P सु for सो, J णिसामेहि 31 > J ससूअउ P सपुआओ, P व for य. 32 > P 'रादिट्ठियओ,  
P सालाओ, J व for य, P अब्वा for य, P 'साहणजुवाणहा' 33 > P om. जुवाणा, J मुणिंदा च त्ति, P मुनिंदा च त्ति  
35 > P तुगाइं, J om. च, P om. ण कोवार ३ J वकइं for वक्कविंवकइं, J कामिणी-, J केमद (ह १) मरइं-

- 1 टमरङ्गं ण चरियङ्गं, थिरो पीढ-पमाओ ण माण-त्रंघो, दीहरड कामिणी-लोयणड ण खल-मंगडं नि । 1
- अत्रि कामिणियण-मुहयड-त्रिमा-त्रुमिय-तुग-धवलहरा । पढम-पुरी पोरणा पयडा अह कोसला णाम ॥
- 3 तस्मि य पुरवगीए कोमलो णाम राया, जो चंडो, चंड-मामणो, त्रिणय-पणिमइय मामतो, सामत-पगय-चलणो, चलण- 3
- चलंताचालिय-महिबीडो, महिबीड-णित्रजियासेम-महिहरो वज्जहरो च । अत्रि य जस्म
- समम-पलाण-त्रण-मज्ज-रोहरे तुरिय-भीय-विमणाहिं । गिउ-पणडणोहिं लीवे मूयलिजंति णामेण ॥
- 6 सो थ राया कोमलो सामण्णेण उडुंडो चि पारदारियाण वितेसओ चंडो । अह तस्म पुत्तो विजा-विण्णाण-गुणातिहि- 6
- दाण-विक्कम-गोड-रूव-जोचवण-विलास-खास-णिडभरो नोमलो णाम अणिवारिओ त्रियरड णियय-ण-गरीए । त्रियरमाणो थ
- सपत्तो पक्कस्स महाणयर-सेट्ठिणो धवलहर-समीव । तत्थ य गच्छमाणेण डिट्टु जाल-नावक्क-वित्रगत्तरेण जलहर-त्रिवर-त्रिणिगय 9
- 9 पिव ससि-विंथ वयण-कमल कीय वि चालियाए । तओ पेसिया णेण कुवलय-उल-दीहरा डिट्टी रायउत्तेण । तीए वि 9
- धवलार्यत्रि-रेहिर-कज्जल-कसणुजला त्रियममाणी । पेसत्रिया णिय-दिट्टी माला इव कमण-कमलाण ॥
- पुत्यतरम्मि महमा परदारालोव-जणिय-कोवेण । पंच मरा पचसणेण तम्म हिययम्मि पक्खित्ता ॥
- 12 तओ णिहय-मर-णियर-पहर-त्रियणा-त्रिसुहेण परिमलिय वच्छयल दाहिण-हृत्थेण । वामेण थ अणभिलक्क उट्टीकया तज्जणी- 12
- अंगुलि त्ति राय-त्तणएण । तीए थ दाहिण-हृत्थेण ठंमिया खग्ग-अत्तणी । तओ रायउत्तो गतु पयत्तो । चिंतिय च णेण ।
- ‘अहो, रुवाणुरूवं इमीए वणिय-दुहियाए त्रियडुत्तणं’ । चिंतयतो संपत्तो णियय-धवलहरं । तत्थ थ तीए वियडु-रूव-गुण- 15
- 15 त्रिण्णाण-विलासावहरिय-माणसो तीए मगमोवाय चिंतिउ समाहत्तो । 15
- ताव थ कुसुम-णिगयय-राय-रत्तवरो रवी रुहरो । णव-वर-सरिसो गेहू सेवतो वारणिं णवर ॥
- वारुणि-मरा-पसत्तो पट्टहृत्थिय-रुहर-कमल-वर-चसओ । अत्यडुहि-पीढयाओ रवी समुहम्मि कह पडिओ ॥ ताव थ,
- 18 सुपुरिस-पयाव-त्रियले कुपुरिम-जण-टिण्ण-पयड-पमरम्मि । कलि-जुय-ममे पओमे खल च पसरनि तम-णिवहा ॥ 18
- § १४३ ) तओ जामिणी-महामहिला-नावलजण-भमर-कमिण-दीह-वित्थिण्ण त्रिहुर धम्मेल्ल-विरल्लणावडंत-पयड-तारा- 18
- सिय-मल्लिया-कुसुमोवयार-सिरि-मोहिए गयणंणो वहले तमंधयाणे चिंतिय रायउत्तेण ।
- 21 राहं वहल च तमं तिसमा पथा थ जात्र चिंतमि । ताव वर चिंतिज्जउ दुक्खेण त्रिणा सुह णत्थि ॥ 21
- त्ति चिंतयतो समुट्ठिओ । कय णेण सुणियत्थ णियसग । णिवदा णेण कुवलय-उल-सामला तुरिया । गहिय च दाहिण-हृत्थेण
- वडरि-वीर-सुट्टी-माण-णिसुमण म्मरा-रयण । पृगिय पउट्टे वसुगदय । सव्वहा कओ आहिमारण-जोगो पेसग्गहो । संपत्तो
- 24 धवलहर । टिण्ण विज्जुक्खित्त करणं । वल्लगो मत्त-वारणए । समासुओ पासाए । डिट्टा थ णेण सयल-परियण-रहिया णिममल- 24
- पज्जलंत-लट्टि-पडंनुजोढयासेम-गवभहरयावगहुत्ता किं किं पि दीण-विमणा चिंतयती मा कुल-वालिय त्ति । न च दट्टण सणियं
- रायउत्तेण णिक्खित्त वसुगदय वसुमडंए, तस्सुवरि खग्ग-रयण । तओ णिहुय-पय-संचार उवगतूण पसारिओभय-दीह-धुया-
- 27 डंढेण उहयाड से लोयणाड गयउत्तेण । तओ फरिस-वस-समूयसिय-रोमच-कंचुथ समुव्वहतीए चिंतियं तीए कुलवालि- 27
- याए जहा मम पुलहय अंग, पढम-उल-कोमल-उदिणाड च करयलाड, सहियणो ण सण्हिओ, तेण जाणिमो नो चेय इमो-
- मह हियय-चोगे त्ति चिंतिज्जण सलत्तं तीए ।
- 30 ‘गुह फसुव-रम-वस-रोमचुच्चइय-सेय-राएहिं । अंगेहिं चिय मिट्टं मण-मोहेण मुच पुत्ताहे ॥’ 30
- इय भाणिए थ हयमाणेण सिद्धिल्लिय णयण-कुवलय राय-त्तणएण । अचमुट्ठिया थ सा मसभम कुलवालिय त्ति । उवविट्टो राय-

1) J मिडपनाओ, J माणवद्धो, P मगय ति 2) JP अत्रि य कामिणि, J चड for तुग, P पुरणा 3) P transposes राया before कोसलो, J वणित्र for त्रिणय, J om पणिमइय 4) J चलत्रा, P om महिबीड, P -विगिञ्चियासेम, P वज्जहरो, P om जरस 5) P मज्जे, P लावे [लीवे हि] 6) P मामलेण उग्गदटो नि, J पए for पाए, P वित्राणगुणाहियादाण 7) J भव for रूव, P वारिओ व वियरड त्रिय नियय- 8) P -सेट्ठिणा, J नत्थ अडच्छमाणेण 9) J तीय त्रि 12) P adds व after विसुहेण, J उट्टाकया 13) P गयउत्तेण for गयनणण, J तीय थ, P om थ, J दाहिण, J हृत्थे for हृत्थेण, P om. गतु पयत्तो 14) P om इमीए, P त्रियडुत्तण, P तीय थ त्रियडुगुण 15) P विलासाउवहरिय, P तीय for तीए 16) P ताव थ मलियकुसुमगयाचवरा रवी, J णिययय, P रुह, J सेवतो, P वारणी नवर 17) P मगमित्तो, P रुहरिकमलकवमओ अत्यरि 18) P कुपुरिस, J जल for जण, P पयर for पयड, P क्खिजयममे पउमो 19) P विच्छिन्न for वित्थिण्ण 20) J सिहि for सिरि 21) J चिंतमो 22) P समुव्विओ, J कयण्णेण णियत्थ, P णेण सुणियत्थ, J मामलफउच्छुरिया, J om च 23) P माग for माण, J अहिमारियाण, P वेमग्गहणे 24) P किरण for करण 25) P पजलंत, P 'पगहुत्ता, P om पि, J दीणविमण, J om मा 26) P तिहय for णिहुय, P om दीह, J om मुया 27) P उट्टेण, P हरिस for फरिस, J नूनरिअ for समूयसिय, P कंचुथ, P समुव्वहती विय चिं, J om चिंतिय तीण 28) J कोमलउदिणाड P कमलउदिणाड, J सहियणोडण्हिओ, J om मो 29) P सउत्तीए for मउत्त 30) P om वम, P सेयराहेहिं Here, after एत्ताहे, P repeats इय भाणिए पहममणेण सिद्धिल्लिय नयणकुवलय रायनणण्यण । अचमुट्ठिया थ सा मसभम कुलवाहेहि ओहि तिडु मणमोहेण मुच पुत्ताहे । 31) P हयमाणेण

- 1 तणओ । भणियं च णेण । 'सामिणि, मह जीएण साविया, तं साह फुडं किं विचिंतेसि' । तीए भणियं । 'सुहय, एयं 1  
विचिंतेसि । रायउत्त,  
3 सीलं सलाहणिज्जं तं पुण सीलाओ होज्ज दुगुणं व । सीलेण होइ धम्मो तस्स फलं तं चिय पुणो वि ॥  
सीलेण विणा किं जीविएण तुमए विणा वि जीएण । इय चिंतंतीए तुमं वर-जस डोलायए हिययं ॥'  
इमं च सोज्जण भणियं रायउत्तेण । 'सुंदरि, जइ एवं तुमं सीलवई सील-भंग-विमणा य, ता अच्छ तुमं जहासुहं, वचामि'  
6 त्ति भणमाणो घेतुं खगं समुट्ठिओ, गहिओ य ससंभमं उवरिम-पट्टसुयडंते कुलवालियाए । भणियं च तीए ।  
'हरिज्जण मज्झ हिययं वच्चसि रे चोर तं मुहा कत्तो । कंठे मुणाल-कट्ठिणं वाहु-लया-पासयं देमि ॥'  
§ १४४) एवं भणियो उवविट्ठो भासणे रायउत्तो । भणियं च कुलवालियाए । 'रायउत्त, जं एत्थ परमत्थं तं ता  
9 णिसामेसु, पुणो जहा-जुत्तं करिहिसि । अत्थि इमीए चेय कोसला-पुरीए णंदो णाम महासेट्ठी । रयणरेहा णाम तस्स भज्जा । 9  
तीए उयरे अहं समुप्पण्णा । णामं च मे कयं सुवण्णदेवी । वल्लाहा य जणणि-जणयाणं । तओ तेहिं दिण्णा विण्हुयत्त-पुत्तस्स  
हरिदत्तस्स । सो य मं परिणेतं दिसादेस-वणिज्जेणं जाणवत्तमारुहिउं लंकाउरिं गओ । तस्स अज्ज दुवालसमो वरिसो  
12 सातिरेगो, गयस्स ण य से पउत्ती वि सुणीयइ त्ति । इमं च कुवियप्प-सय-भंगुरं विसय-मच्छ-कच्छुक्कडं इंदिय-महामयर-12  
समाउलं काम-महावत्त-दुत्तारं जोव्वण-महासागरं तरंतीए अवहरियं विण्णाणं, गलिओ गुरुयण-विणओ, परिसुसियं विवेग-  
रयणं, पम्हुट्टं गुरु-वयणं, वीसरिओ धम्मोवएसो, अवहत्थियं कुलाभिमाणं, उक्खुडिया लज्जा, अवगयं दक्खिण्णं, पणट्टं  
15 सीलं, सव्वहा अणेय-णरिंद-सुर-सुंदरी-पिहु-पीण-णियं-ब-विंबयड-णिवास-सुह-दुल्लिओ भगवं कुसुमाउहो वाहिउं पयत्तो । 15  
तेण य बाहिज्जमाणीए समुप्पण्णं हियए वियप्पंतरं । अहो,

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलम्मि णवर संसारे । कत्तो अणं सोक्खं अच्चो पिय-संगमाहितो ॥

- 18 ममं च मंद-भाइणीए सो णत्थि । ता णिरत्थयं मय-समं जीवियं जोव्वणं च धारेमो । चिंतिऊण मरण-कय-ववसाया । 18

- § १४५) तओ सुदिट्टं जीव-लोयं करेमि त्ति चिंतयंती आरूढा जाल-गवक्खए । तत्थ य संपत्तीए तुमं मए दिट्ठो । तओ  
रायउत्त, तुमं च दट्टण ण संका, ण भयं, ण लज्जा, ण माणो, ण गव्वो, णाहंकारो, ण सुहं, ण दुक्खं, ण राई, ण दियहो । सव्वहा  
21 मूढा इव, सुत्ता इव, मत्ता इव, परायत्ता इव, मया विव, ण-याणिमो, ण सुणिमो, ण जंपिमो, ण फंदिमो, ण वेइमो, ण चेइमो, इम पि 21  
ण-याणामि 'का मम अवत्थ' त्ति । एयावत्थाए य तए परासुसियं वच्छत्थलं, अत्तणो उद्धीकया एक्का अंगुली । तओ मए पडिवण्णं  
जहा रायउत्तेण कया तहा मह सण्णा कया । हियय-परिमासेण ताव कहियं जह पडिहायसि मे हिययस्स । अंगुलीय य साहियं  
24 देसु एक्कं संगमं ति । तओ मए वि रहस्स-भेय-मीरूणीए तुज्झं दंसिया खगवत्तिणी जहा किर खग-सहाओ पावेसि, तओ 24  
सागयं ण अण्णह त्ति । तओ रायउत्त, तप्पभुइं तुह संगमासा-विणडिया विणियत्त-मरण-णिच्छया सील-भंग-विमणा सज्जस-वस-  
वेवमाणा किं पि सुमिणंतर-वुत्तंतं पिव मण्णमाणी ठिया जाव तुमं आगओ त्ति । तओ एत्थ ताव जुत्तं जइ मह कुलहरे दुस्सील  
27 त्ति परिहवो ण होइ । अण्णं च तहाविह-संविहाणएण जइ तुमं णाहो अवहत्थिय-लोयाववाओ संगच्छसि तओ तुह पच्छा, 27  
अण्णहा वरं मम मरणं ति भणमाणी समालिंगिया वण-गय-करेण व वणलया । एत्थंतरम्मि पयत्तियं तं किं पि जं बुहयण-  
सय-परिणिदियं तरूणीयण-मण-मोहणं मोहणं ति । तओ तहा-सबभाव-णेह-णिबभरण य परोप्पराणुराओ विय समुगओ  
30 पुव्व-संझाराओ, गुरुयणोवएसो विय वियलंति तारया, अवरोप्पर-हिययाइं व घडंति चक्कवाय-जुवलयाइं, लज्जा विव थोयाव- 30  
सेसा रयणी, सूर-पुरिस-कय-संगमा इव रयणी-विलया कंचुइएण विय बुकारियं जाम-संखेण । एत्थंतरम्मि रायउत्तो अवहण्णो  
मंदिराओ रज्जु-पओएण, जहागयं च पडिगओ त्ति । एवं च अणुदिणं तस्स तहा परिवसंतस्स संपत्तो अट्टमो मासो । तहिं च कहिं

- 1) P सामलि for सामिणि, J किं विइतेसि 2) J विइतेमि 3) P दुगुण वा 4) J चित्तेनीय, P दोलाय 6) P  
गडिउ, P ससभम उवरिपट्टसुय 7) P मह for मुहा, J वाहुलय, P देसि for देमि 8) J adds च after एव, J भणियोवविट्ठो  
9) J करिहसि P करीहिसि, P चेव 10) P ओवार (उवरे?) for उयरे, P om अह, J सुवण्णदेवा, P adds नाम च  
before जणणि, P जणिणि 11) J हरिअत्तस्स, P om य, P जाणवत्त समाहउ लकाउरी, P दुवारसमो 12) J om.  
त्ति, P कच्छमुक्कड 13) J गुरुण for गुरुयण 14) P परहट्ट, P कुलाहिमाण. 15) J om गुर, J सुदरि, P वियड  
for 'यड 16) P बाहिज्जमारीए, P होज्ज for अहो 18) P म for मम च, P निरत्थयमम, P च for च, P धारेमि. 19)  
P adds य before आरूढा, P om य, P तूम विदिट्ठो 20) P दट्टण before रायउत्त, P om. च दट्टण, P सव्वाहा.  
21) P सुत्ताइव, P om मया विव, J याणिमो ण सुणिमो ण सुणिमो, J फसिमो for फदिमो, P वेतिमो for वेइमो 22) P om.  
य, P 'सिय वच्छलय वच्छयल अत्तणो, J बुद्धीकया, P ततो for तओ 23) P 'उत्तेण कय ता महासण्णा, P जहा, P adds य  
before मे 24) J अ for वि, P भय for मेय, P कुञ्ज for तुज्झ, J खगवत्तणी 25) J णण्णह त्ति, J तप्पभुइं, P  
संगमासाय 26) P कं पि, J पट्टिया, J om जाव तुम etc to संगच्छसि तओ तुह पच्छा 29) P सट्टस्स for मय, J  
तरुणियण, P 'पुरागो 30) J सझामओ गुरुअणोवएसो, P हिययइ, J वि for व, P थोयावमेनी 31) P सु for एर, J य  
for इव, J repeats रयणी, P विलयाए, J य for विय, J जावसखेण 32) P मंदगओ, P om. च after एव, P om. च  
(before कहिं)

1 पि तहाविह-कम्म-धम्म-भवियव्वयाए तीए उयरे गब्भो जाओ । अणुदियहोवहुत्त-लक्खण-दसणेण गब्भेण य पयडीभूया, 1  
जाणिया सहियणेण, पयडा कुलहरम्मि, वियाणिया वधुयणेण । एवं च कण्ण-पारपरेण विण्णायं णदसेट्ठिणा । तेणावि सजाय-  
3 कोवेण को एव मए परिहावइ त्ति णिवेइय कोसलस्स महारण्णे । 'देव, मह दुहिया पउत्थवइया । सा य रक्खिज्जती वि 3  
केणावि अणुदियहं उवभुज्जिइ त्ति । तं च देवो दिव्वाए दिट्ठीए अण्णिणसउ' त्ति । राइणा भणियं 'वच्च, अण्णिणसावेमि' ।  
आणत्तो मंती । उवलद्ध च मतिणा । दिट्ठो तोसलो रायउत्तो । णिवेइय तेण जहा 'देव, तोसलो रायउत्तो मए उवलद्धो'  
6 त्ति । तओ गुरु-कोव-फुरफुरायमाणाहरेणं आइट्ठो राइणा मती । 'वच्च, सिग्घं तोसलं मारेसु' त्ति । मंती वि 'जहाणवेसि' त्ति 6  
भणिऊण रायउत्तं वेत्तुं उवगओ मसाण-भूमिं । तत्थ य कज्जाकज्ज-वियारणा-पुव्वयं भणिओ मतिणा । 'कुमार, तुह कुविओ  
राया, वज्जो आणत्तो, ता तुम मह सामी, कह विणिवाएमि । कज्जं च तए । ता वच्च, जत्थ पउत्ती वि ण सुणीयइ । ण तए  
9 साहियव्व जहा 'अह तोसलो' त्ति भणिऊण विसज्जिओ । सो वि य कयावराहो जीविय-भय-भीरुओ पलाइओ, पत्तो 9  
पलयमाणो य पाडलिउत्तं णाम महाणयर, जत्थच्छए सय राया जयवम्मो । तत्थ इयर-पुरिसो विय ओलग्गिउ पयत्तो ।

§१४६) इओ य कोसलापुरीए तम्मि सा सुवण्णदेवा उवलद्ध-दुस्सीलत्तण-विंधा परिविसिज्जमाणी वंधु-वग्गेण णिदिज्जमाणी  
12 जणेणं रायउत्त-विरहुविग्गा य गब्भ-भर-विणडिया चित्तिउ पयत्ता 'कत्थ उण सो रायउत्तो' त्ति । तओ कह कह वि णाय 12  
जहा मम दोसेण मंतिणा णिवाइओ त्ति । तं च णाऊण कह वि छलेण णिग्गाया बाहिं घरस्स, तओ णयरस्स । राईए पच्छिम-  
जामे पाडलिउत्त अणुगामिओ सत्थो उवलद्धो । तत्थ गतु पयत्ता । सणिय सणिय च गब्भ-भर-णीसहमी गतु अचाएती  
15 पिट्ठओ उज्झिया सत्थस्स अणेय-त्ताल-हिंताल-तमाल-सज्जुण-कुडय-कयंबव जंबू-सय-संकुले वणतराले । तओ कमेण य वच्चंती 15  
मूढ-दिसा-विभाया पणट्ट-पथा तण्हाभिभूया छुहा-खाम-वयणा गब्भ-भर-मथरा पह-सम-किलता सिग्घ-सइ-विहुया वग्घ-वाय-  
वेविरा पुलिंद-सइ-भीरुया गिम्ह-त्तत्त-वालुया-पउलिया उवरि-दूसह-रवियर-संताविया, किं च बहुणा, दुक्ख-सय-समुह-  
18 णिवडिया इत्थि-सहाव-कायर-हिययत्तणेण वेवमाणी, थाणु पि चोर मण्णमाणी, इक्ख पि गय-वर विकप्पयती, हरिण 18  
पि वग्घ, ससय पि सीह, सिहिण पि दीवियं, सब्बहा तणिए वि चलिए मारिय त्ति, पत्ते वि चलते गिलिय त्ति, भय-  
वेविर-थणहरा विलविउ पयत्ता ।

21 'हा ताय तुज्झ दइया आसि अहं बाल-भाव-समयम्मि । एण्हि कीस अधण्णाए त सि जाओ विगय-णेहो ॥ 21  
हा माए जीयाओ वि वल्लहिया आसि इ तुह दइया । एण्हि मं परितायसु विणडिज्जतिं अरण्णम्मि ॥  
हा दइय कत्थ सि तुम जस्स मए कारणे परिच्चत्त । सील कुल कुलहर लज्जा य जसं सहियणो य ॥

24 हा माए हा भाया हा दइया हा सहीओ हा देवा । हा गिरिणइ हा विंधा हा तरुवर हा मया एस ॥' 24  
त्ति भणमाणी मुच्छिया, धस त्ति णिवडिया धरणियले ।

एत्थंतरम्मि सूरु मय त्ति णाऊण गरुय-दुक्खत्तो । परिवियलियसुवाओ अवर-समुह-इह पत्तो ॥  
27 थेरीइ व दिण-लच्छीय मग्ग-लग्गो रवी रइय-पाओ । रत्तवर-णव-चहु व संझ अणुवट्टइ वरो व्व ॥ 27  
तीय य मग्गालग्गा कसणसुय-पाउया पिय-सहि व्व । तिमिरजणंजियच्छी राई रमणि व्व संपत्ता ॥

§१४७) तओ एव च विंध-गिरि-सिहर-कुहरतराल-तरुण-तमाल-मालाणिमे पसरिए तिमिर-महा-गइद-वदे एयम्मि एरिसे  
30 रयणि-समए णाणाविह-तरुवर-कुसुम-रेणु-मयरद-बिंदु-सासल-सुह-सीयलेण समासत्था सुरहि-वण-पवणेण सा कुलवालिया । 30  
समासत्था य ण-याणए कत्थ वच्चामि कत्थ ण वच्चामि, किं करोमि किं वा ण करोमि, किं सुदर किं वा मंगुलं, किं कय सुकय

1 > J तीय for तीए, P बहुय for 'वहुत्त, P om य (after गब्भेण), J पयडीहूआ 2 > J अवियाणिया for वियाणिया,  
P कन्नपरपरेण 3 > J om एव, P परिहव त्ति निवे कोइय, J पउत्थवई 4 > P उवभुजइ, J दिव्वा (ए added on the  
margin) दिट्ठीए, P अण्णिणसामि 6 > J फुरफुरा, P रायणा, J om मती वि 7 > J भणिय for भणिऊण, J वियारिणा, P पुव्व  
त भणिओ, J भणित्तो 8 > J तुअं for तुम, J कहिं for कह, P न सुणियइ त्ति, J adds य before तए 9 > J भाणिऊण,  
J om य, J जीवियमिओ, J पलाइउ, P पलाइओ पयत्तो । 10 > P om य, P पाडलिपुत्त, P जयधम्मो, J -पुरिस इव कस्स  
उलग्गिउ 11 > P इवओ, P om य, P inter तम्मि and कोसलापुरीए, J om सा, J सुअण्णदेवा ओलद्धदुसीलत्तणविट्ठा  
12 > P विणिवडिया 13 > P णिवात्तिउ त्ति, P पुरस्स for घरस्स 14 > P पाडलिपुत्त, P सत्थो लद्धो, P तत्थ 15 > J  
सज्जुणय P सज्जुण, J कयवज्जू, P जवुय 17 > J वालुअपउत्तिआ, P om च 18 > P कायरा, P adds चेव before  
वेवमाणी, J थाणु for चोर, P चियप्पयती for विकप्पयती 19 > P पिव for पि, P सस for ससय, P पिव दीवय, P तणे  
वि चिणिए, P चल्लेवे 20 > P यणाहरावलविउ 21 > J अहण्णाए 22 > P om वि, P निवटिज्जती अरन्नमि 24 >  
J ताया for भाया, P गिरणइ, J हो विंध, J तरुवरा P तरुवर 26 > P नय for मय, P गुरुय 27 > J थेरीअ वि,  
P लच्छीमग्ग, J चाओ, P रत्तवर, P om व 28 > P राईइ मणि 29 > J इरि for गिरि, J मालाणिले 30 > P इयर  
for तरुवर, J om रेणु, P मासल, P om य 31 > P णयाए, P om कत्थ ण वच्चामि, P करोमि, P om किं वा ण करोमि

१ होतिह नि । एतन्तरमि गवभम्म गवभो मामो अह्वंनो, अद्द य राइदिगाइं । णवम-राई-पढम-जामे तम्मि य समए वट्टमाणे ।  
 विरमेयं चिंवेण, विरगाइयं णाहि मंडलेण, सूत्ताइयं पोटेण, थंभियं ऊरु-जुयलेण, चलियं अंगेहिं, उच्चलियं हियणं,  
 २ मडलियं धम्म-गोहिं, मन्वदा धामणण पणव-विधां वट्टिं पयत्ताइं । ततो तम्मि महामीमे वणंतरे राइए असरणा अचवला ३  
 भीया विरपणा पणित्त-जीविगामा जहा-भविपच्च-दिण-माणसा किमेयं नि पढम-पसूया कह वि कम्म-धम्म-संजोण  
 ४ इ ति लीजुवल्लयं पसूया । पच्छा जाव पच्छह ता एका दारिया, दुइओ दारओ ति । तं च पेच्छिऊण हरिस-  
 ५ विमाय-विगडिसेव हियवया पणविं पयत्ता ।

‘पुत्र तुमं गवभ गयो तेण विवण्णा ण एत्थ वण-वासे । अण्णह अवला-वालय अवला अवला कुडं होइ ॥

उत्त तुमं मह णाहो थं सरणे तं गहं तुमं अंभू । दहण्ण विगुक्काए माया-पिइ-विप्पउत्ताए ॥

७ होइ कुमातेणं पिया णाहो तह जोव्वगमि भतारो । थेरत्तगमि पुत्तो णत्थि अणाहा कुडं महिला ॥

ताव पिउमि मिगेहो जा दहओ णेय होइ महिलाण । संपिडियं पियाओ वि जाण पुत्तमि संचरइ ॥’

एव च जाव पणवद् गाव करयरेति धायया, भूयल्लिज्जानि धूया, चिलिचिलेति मडणया, बुक्कंरति वाणरा, विरवंति रोहा  
 १२ रिया, विरवंति तारया, पणत्तए निमिरं, धीयए अरुगारुगा पुव्व-दिस्सा । णियत्तंति गिसियरा, पसरंति पंथिया । एयम्मि १२  
 पारंमे नमए चिंनियगणाए । ‘किं वा मए करियव्वं संपयं । अहया ण मए ताव मरियव्वं, पडियरियव्वो एस्स पुत्तो, अण्णहा  
 चाल-यज्जा संपज्जइ । कयाइ इमाओ चेय इमस्स दुक्कस्स अंतो हवइ ति । ता कहिंचि गामे वा गोटे वा गंतूण आसणो

१५ पडियरियव्वं चाल-जुवल्लयं ति चिंनेणाणीए तोसलि गामा रायउत्त-णामका मुहा सा परिहिया क्खे वालयस्स । वालियाय १५  
 वि णियय-णामका । तं च काऊण णियय-उवरिम-घण-वत्थदंतए णियव्वो दारओ, दुइय-दिसाए य दारिया । कयं च  
 टभयवास पोहल्लयं । तं च काऊण चिंनियगिमीए । ‘द इममि आसण-गिरि-णिज्जरे अत्ताणयं रहिर-जर-पूय-वसा-विलित्तं

१८ पक्कालिऊण पयामि । चिंतयंती तम्मि चेय पणसे तं वासदंत-णियदं चाल-जुवल्लयं णिक्खिचिऊण उवगया णिज्जरणं । १८

§ १४८) एतन्तरमि वग्घी णव-पसूया वणमि भममाणो छाउच्चाया पत्ता मासत्थं डिंम-रूवाणं राई-भमण-विउला  
 पसूय-रुहिरोगंध-वध-चित्ता । चासोभयंत-यदं गहियं तं चाल-जुवल्लयं तीए । सा य घेत्तूण तं ललमाणोभय-पोहल्लं  
 २१ जहाणयं पडिगया । वचतीय य तीए वणंतराले उज्जयणि-पाडलिउत्ताणं अंतराले महामग्गो, तं च लंघयंतीए कहं पि सिडिल्ल-  
 गंठि-वंधण-वट्टो उक्खुट्ठिओ सो दारिया-पोहलो । णिवडिया मग्गमि सा दारिया । ण य तीए वग्घियाए सुय-सिणेह-  
 णिडभर-हिययाए जाणिया गलिय ति । अहगया सा । तेण य मग्गेण समागओ राहणो जयवम्मस्स संतिओ दूओ । तेण  
 २४ सा दिट्ठा मग्गवडिया, गहिया य सा दारिया । घेत्तूण य णियय-भारियाए समपिपया । तीए वि जाय-सुय-सिणेह-भर-णिग्भरं २४  
 परिवालित्तं पयत्ता । कमेण य पत्ता सा पाडलिउत्तं । कयं च णामं से वणदत्त ति । संवड्डिउं पयत्ता । इओ य सा वग्घी  
 थोवंतरं संपत्ता णियय-गुहा, पारडि-णिग्गएणं दिट्ठा राहणो जयवम्मस्स संतिएण रायउत्त-सवरसीहेण । तेणावि दंसणाणंतरं  
 २७ वग्घो ति काऊण गुरु-सेल्ल-पहर-विहुरा णिहया, धरणिवट्टे दिट्ठं च तं पोहल्लयं । सिडिल्लियं रायउत्तेण, दिट्ठो य तत्थ । २७

कोमल-मुणाल-देहो रत्तुप्पल-सरिस-हत्थ-कम-जुयलो । इंदीवर-वर-णयणो अह वालो तेण सो दिट्ठो ॥

तं च दट्टण हरिस-णिग्भर-माणसेण गहियो । घेत्तूण य उवगओ घरं । भणियं च तेण । ‘पिए, एसो मए पाविओ तुह पुत्तो’  
 ३० ति समपिपओ, तीए गहियो । कयं च वद्धावणयं ‘पच्छण-गवभा देवी पसूय’ ति । दुवालसमे दियहे णामं पि से विरइयं ३०  
 गुण-णिक्कणं वग्घदत्तो ति । सो वि तेण चालएण समयं सवरसीहो पाडलिउत्तं पत्तो । तत्थ य सरिस-रायउत्तेहिं समं कील-  
 तस्स मोह-पउरस्स से कयं णामं तेहिं मोहदत्तो ति । एवं च मोहदत्त-कयाभिहाणो संवड्डिउं पयत्तो ।

१ > J राई दिगाइं, P राइदिणा । नवमणइ दिणे नवमराईपढमे. २ > P विइणाय नामीमडलेणं, J वलिय for चलिय,  
 J उच्चलिय ३ > P पसवण for पसव, J व (च ?) before वट्टिउ, P असरणे अचला. ४ > J कहिं पि for कह वि, P om.  
 कम्म ५ > P ति लीजुवल्लयपसूया, J om पच्छा, P adds पेच्छति before जाव, P om पेच्छइ ता ६ > P विनडिज्जतीहिय-  
 विया पलविउ पयत्ती ७ > P गवभगवो, P विविज्जाण, J अवला for वालय P अचला for अवला अवला ८ > P गय for गई, P  
 पिय for पिइ, J विप्पमुक्काए ९ > P थेरत्तणमि पु and repeats महनाहो त सरण eto to जोव्वगमि भतारो १० > J ता  
 पिउभिन्तसिणेहो जो, J विज्जाए P वि जाउ ११ > P पलवई, P करयतति, P धूयया, P बुक्कंरंति १२ > P वियरति for  
 वियलति, P दीरुए for दीसए, P adds णियव्वो after पुव्वदिस्सा !, P om णियत्त ति गिसियरा eto to मरियव्व, पडियरियव्वो  
 १४ > P चालवज्जा संपज्जति, P चेय for चेय, P गोहे for गोटे, P आसणो परिवालियव्व १५ > P तोसलिणो रायउत्तस्स  
 नामका, J वालियावि १६ > P om. णियय after काऊण, P उवरि for उवरिम, J om वण, P तेण for तए, P वद्धो for  
 णिवद्धो, J om य, P om च १७ > P उभवास, J चितिय इमीए, P जर for जर. १८ > P चेव, J वासद वाल, P वालय  
 जुवल्लयमि णि, P ओउवगया. १९ > P छाउद्धाया, P राईभममाण विलोया पसूय २० > P रुहिरोगंध, P वध for वद्ध २१ >  
 P पडिहया !, P तीए वणंतवणतराले उज्जयणीपाडलिपुत्ताण, P repeats महा, J च संघयतीए, P चि for णि २२ > J णिवडिओ,  
 P तीय वग्घीसुय २३ > J -हियाए, P om य, P जयधम्मस्स २४ > P om य in both the places, J तीय for तीए,  
 P om -भरणिग्भर परिवालिउ etc. to पारडिणिग्गएण २६ > P णिडिहा for दिट्ठा, P सवलसीलेण । २७ > P दिट्ठिय for  
 दिट्ठ च, J सिडिल्लयं २८ > P बाहो for मुणालदेहो, J सयलचलण for सरिसहत्थ, P कय for कम २९ > P हसिह for  
 हरिस, P स for एतो ३० > P समयपिपओ, P om. च ३१ > P सवरसीलो पाडलिपुत्त, P om. य, P रायउत्तिहिं ३२ >  
 J om. तेहिं, J adds एव च मोहदत्तो ति ॥ before एव च

- 1 § १४९) इमा य से माया तम्मि वणे आगया णिज्जराओ जाव ण पेच्छह तं वालय-जुवलय । अपेच्छमाणी 1  
 य मुच्छिया णिवडिया धरणिवट्टे । पुणो समासत्था य विलविउ पयत्ता ।  
 2 'हा पुत्त क्त्य सि तुम हा वाले हा महं अरुण्णाए । क्त्य गओ क्त्य गया साहह दे ता समुल्लावं ॥ 3  
 एत्थं चिय त पत्तो कह सि मए दुक्ख-सोय-तवियाए । एत्थं चिय मं सुंचसि अच्चो तं कह सि णिकरुणो ॥  
 पेच्छह मह देव्वेण दसेऊण महाणिहिं पच्छा । उप्पाडियाहं सहसा टोणिण वि अच्छीणि दुहियाए ॥  
 6 पेच्छह दइय-विमुक्का वण पि पत्ता तर्हि पि दुक्खत्ता । पुत्तेणं पि विउत्ता आढत्ता कह कयत्तेण ॥ 6  
 एवं च विलवमाणीए दिट्ठं त वग्घीय पयं । अह वग्घीय गहिय ति त जाणिऊण, 'जा ताणं गडं सा मम पि' तं चेय वग्घी-  
 पय अणुसरती ताव कर्हि पि समागया जाव दिट्ठ एक्कम्मि पणसे कं पि गोट्ट । तत्थ समस्मइया एकीए घर आहीरीए । तीए  
 9 वि धूय त्ति पडिवज्जिऊण पडियरिया । तत्तो वि कह पि गामाणुगाम वच्चती पत्ता तं चेव पाडलिउत्त णगर । तत्थ 9  
 कम्म-धम्म-संजोएणं तहाविह-भवियव्वयाए तम्मि चेय दूयहरे संपत्ता, जत्थच्छए सा तीए दुहिया । तीए साहु-धूय त्ति  
 काऊण समप्पिया । त च मज्जयती कीलावयती य तर्हि चेय अच्छिउं पयत्ता ता जाव जोच्चण संपत्ता । जोच्चणे य  
 12 वट्टमाणी सा केरिसा जाया । अवि य । 12

ज जं पुलएइ जणं हेलाएँ चलत-णयण-जुवलेणं । त त वम्मह-सर-वर-पहार-विहुर कुणइ सव्वं ॥

§ १५०) इमम्मि एरिसे जोच्चणे वट्टमाणीए वणदत्ताए को उण कालो वट्टिउ पयत्तो ।

- 16 तरुर-साहा-वाहा-णव-पल्लव-हत्थ-कुसुम-गह-सोहो । पवणुव्वेद्धिर-हल्लिर-णच्चिर-मोहो णव-वसंतो ॥ 16  
 तओ तम्मि सुरवर-णर-किंणर-महुयर-रमणी-मणहरे वसत-समयम्मि मयण-तेरमीए वट्टमाणे महामहे संकप्प-वेहिस्स काम-  
 देवस्स बाहिरुज्जाण-देवउल-जत्त पेच्छिउ माइ-समग्गा सहियण-परियरिया तर्हि उज्जाणे परिभममाणी मयणूसवागएण दिट्ठा  
 18 मोहदत्तेण । जाओ से अणुराओ । तीय वि वणदत्ताए दिट्ठो सो कर्हि पि पुलइओ । 18

जंभा-वस-वल्लिउव्वेद्धमाण-णव-कणइ-तणुय-वाहाए । तह तीएँ पुलइओ सो लेप्पय-वडिओ व्व जह जाओ ॥

खणंतर च सुण्ण-णयण-जुयलो अच्छिऊण चिंतितं पयत्तो । सव्वहा

- 21 धण्णो को वि जुयाणो जयम्मि सो चेव लद्ध-माहप्पो । धवल्लुव्वेद्धिर-णयणं जोवणय पाविहिइ मीए ॥ 21  
 चिंतिय सव्वभाव परियाणणा-णिमित्त च पडिया एक्का गाहुल्लिया मोहदत्तेण । 'वयस, पेच्छ पेच्छ,  
 कह-कह वि ँसण पाविऊण भमरो इमो महुयरीए । रुटतो चिय मरिहिइ संगम-सोक्ख अपावेंतो ॥'  
 24 इम च सोऊण चिंतिय वणदत्ताए । 'अहो, गिययाणुराओ सिट्ठो इमिणा इमाए गाहाए । ता अह पि इमस्स गियय-भाव 24  
 पयडेमि' त्ति चिंतयतीए भणिय ।

'अत्ता भमर-जुवाण कह वि तुलग्गेण पाविउ एमा । होंत-विओगाणल-त्ताविय व्व भमरी रुणुरोइ ॥'

- 27 तीय य सुवण्णदेवाए अणुहूय-णिययाणुराय-दुक्खाए जाणिओ से अणुराओ । भणियं च तीए । 'पुत्ति, अइच्चिर वट्टइ इहाग- 27  
 याए, मा ते पिया जूरिहिइ, ता पयट्ट घर वच्चामो । अह तुह गरुयं कोउहल्ल, ता णिवत्ते मयण-महूसवे णिज्जणे उज्जाणे  
 आगच्छिय पुणो वीसत्थ पुलोएहिसि उज्जाण-लल्लिं भगवंत अणंग च' त्ति भणमाणी णिगया उज्जाणाओ । चिंतिय च  
 30 मोहदत्तेण । 'अहो, इमीय वि ममोवरि अत्थि णेहो । दिण्ण च इमीए धाईए मह संकेय जहा णिवत्ते मयण-महूसवे 30  
 णिज्जणे उज्जाणे वीसत्थ अणगो पेच्छियव्वो त्ति । सव्वहा तद्वियह मए आगतच्च इमम्मि उज्जाणम्मि'त्ति चिंतयतो सो  
 वि णिगयो । सा य वणदत्ता कह-कह वि परायत्ता धरं संपत्ता देहेण ण उण हियएण । तत्थ वि गुरु-विरह-जलण-जालावल्ली-  
 33 करालिज्जमाण-देहा केरिसा जाया । अवि य । 33

~~~~~

1 > J वाल for वालय 2 > J om मुच्छिया, P पुच्छिया, J om य 3 > P साहसु दे, J दे ता अ सल्लाव 4 > P  
 संपत्तो for त पत्तो, J inter सोय and दुक्ख 5 > P पेच्छ मह, P महानिही, P मि for वि 6 > P वणमि पत्ता, P पत्तेण for  
 पुत्तेण 7 > P वग्घीगहिय, P यति for त, P चे for चेय 8 > J ऋहिय पि, P किं पि for क रि, P एकीय घर 9 > P om  
 वि, P कर्हि पि, J om त चेव, P पाटलिपुत्त, J णगर, P adds य after तत्थ 10 > P तहावियव्वयाए, J भवियव्वताए  
 य तम्मि, P adds गया before चेय, J दूअवरे, P om संपत्ता, J तीय for तीए in both the places, P om साहु 11 >  
 P कीलावती, P ताव for ता, P पत्तो for सपत्ता 13 > P वल्लतनयणजुयलेण, P सरपहरत्रियणविहुर 14 > P adds य  
 before एरिसे, P धणदत्ताए 15 > P तरुर, P -नवसोहा । 16 > P om वर, P -विहिस्स कामएवस्स 17 > P जुत्त for  
 जत्त, P सहियणपरिवारिया, P मयणूसवाएण 18 > P सो for से, P कर्हिचि पुलइउ, J adds अवि य after पुलइओ 19 > P  
 कणयवणुय, P -जडियव्व जहा 21 > P जुवाणो, J -णयणो, J पाविहिइ इमीए, P पाहिही इमीए 22 > P \*ऊण य सहावपरियाणा  
 निमित्त, P om one पेच्छ 23 > J इमी (अ) for इमो, P रुटतो, P मरिहइ, P अभावतो 24 > P om इमाए, P om  
 पि, P नियमाव 25 > J om त्ति, P चिंतिय भणिय 26 > P विओयानल, J भावियव्व for तावि, P रुणुरोइ 27 > P वि  
 for य, P -निययाणुरादुक्खाए, P adds राया after से, J पुत्त for पुत्ति, J \*च्चिर च इहागया माए पिया 28 > P om मा ते,  
 P जूरिही ता, तुम for तुह, P कोऊहय निव्वत्ते ता मयण, J मयणे- 29 > J विमाथाए पलो, P लच्छी, P अणगवत्ति, J  
 उज्जाणओ 30 > J धाईए, P om मह, J जह 31 > J om त्ति, J om सो 32 > J वि वरायत्त 33 > P \*जमाणमदेहा

- 1 ता धाह हसह सूसह गिजह ता पुलय-परिगया होह । ता खयह सुयह वेहं हुं हुं महुवरं भणह ॥ 1
- ता खलह बलह जूरह गायह ता पढह किं पि गाहहं । उम्मत्तिय व्व वाला मयण-पिसाण्ण सा गहिया ॥
- 3 § १५१) पुरिसाधम, य तीण गडकंतो सो मयण-महाकंतार-सरिसो मयण-महूसवो । गख्य-समुकंठ-हलहला 3
- पयत्ता तम्मि उज्जाणे गंतुं, ओइण्णा रच्छामुहम्मि । धोयंतरं च उवगया राय-मग्गंतराले य वट्टमाणी दिट्ठा णेण तोसल्लिणा
- रायउत्तेण । देसंतर-परियत्तिय-रत्त-जोच्चण-लायण-वण्णो ण पच्चभियाणिओ सुवण्ण-देवाए । मा त्रि तेण दूर-देसंतरासंभाव-
- 0 गिज-संपत्ती ण-यागिया । केवलं तीण वणदत्ताए उवीर वड्डाणुराय-नाय-दिट्ठिलो महा-मयण-मोह-गहियो इव ण कज्जं 6
- मुणह णाकज्जं, ण गम्मं णागम्मं । सव्वहा नीय संगमासा-विणडिओ चित्तिउं पयत्तो । 'अहो,
- सो चिय जीवह पुरिसो सो चिय सुहओ जयम्मि सयलम्मि । धवल्लुओल्लिर-लोयण-जुवलाएँ इमीएँ जो दिट्ठो ॥
- 9 ता कहं पुण केण वा उवाएण एसा अम्महारिमेहिं पावियव्व त्ति । अहवा भणियं च कामसये कण्णा-संवरणे । रुव-जोच्चण- 9
- विलास-लास-णाण-विण्णाण-सोहग्ग-कला कलायाइ-सएहिं धणियं साम-भेय-उवप्पयाणएहि य कण्णाओ पलोहिज्जंति । अह ण
- तहा वसीभवंति, तओ परक्केणावि परिणीयव्वाओ, छलेण वलामोडीए णाणा-वेलवणेहि य वीवाहेयव्वाओ । पच्छा कुल-
- 12 महल्लणाए तस्सेय नमप्पिज्जंति वंधुवग्गेण । ता सव्वहा 12
- जह वि फुल्लिग-जलण-जालावलि-भासुर-वज्ज-हत्थयं । सरणं जाइ जह वि अहवा विफुरंत-तिसूल-धारयं ॥
- पायालयरम्मि जह पइसइ ससि-रवि-तेय-विरहियं । तह वि रमेमि अज्ज पीणुण्णययं धण-भार-सिहरयं ॥
- 15 अज्ज इमं मह सीसयँ इमीएँ वाहु-उवहाण-लल्लियाए । दीसइ अहवा गिहय-खग्गपहाराहयं धरणियाए ॥ 15
- ता सुंदरं चिय इमं, जं एसा कहिं पि चाहिर पहरिकं पत्थिया । ता इमीए चेय मगालग्गो अलक्खिज्जमाण-हियय-नाय-वव-
- साओ वचामि' त्ति चित्तयंतो मगालग्गो गंतुं पयत्तो । मा ति वणदत्ता करिणि व्व सल्लिय-नामणा कमेण संपत्ता उज्जाणं ।
- 18 पविट्ठा य चंदण-गुला-लयाहरतरेसु वियरिउं पयत्ताओ । एत्थंतरम्मि अणुराय-दिण्ण-हियवएणं अणवेक्खिज्जण लोयाववायं, 18
- गलत्थिऊण लज्जं, अवहत्थिऊण जीवियं, अगणिऊण भयं, चित्तियं णेण 'एस अवसरो' त्ति । चित्तयंतो पहाइओ गिक्कट्टियासि-
- भासुरो । भणियं च णेणं मोह-सूढ-माणसेण । अवि य ।
- 21 'अहवा रमसु मए चिय अहवा सरणं च मग्गसु जियंती । धारा-जलण-कराला जा णिवडइ पेय खग्ग-लया ॥' 21
- तं च तारिसं वुत्तंतं पेच्छिऊण हा-हा-रव-सइ-णिवभरो सहियणो, धाहावियं च सुवण्णदेवाए ।
- 'अवि धाह धाह पावह एसा केणावि मा एँमह धूया । मारिज्जइ विरसंती वाहेण मइ व्व रण्णम्मि ॥'
- 24 एत्थंतरम्मि सहसा कट्टिय-करवाल-भासुर-च्छाओ । वग्गो व्व वग्गदत्तो णीहरिओ कयलि-धरयाओ ॥ 24
- भणियं च णेण ।
- 'किं भायसि वण-मइ-लीव-वुण्ण-तरलच्छि लच्छि धरमाणे । रिउ-नायवर-कुंभत्थल-णिहलणे मज्ज भुय-दंडे ॥'
- 27 आयारिओ य णेण सो तोसलो रायउत्तो । 'रे रे पुरिसाधम, 27
- वुण्ण-मय-लीव-लोयण-कायर-हियाण तं सि महिलान । पहरसि अलज्ज लज्जा कत्थ तुमं पवसिया होज्जा ॥
- ता एहि मज्ज समुहं'ति भणमाणस्स कोवायंबिर-रत्त-लोयणो मयवइ-किसोरओ विय तत्तो-हुत्तं वलिओ तोसलो रायउत्तो ।
- 30 भणियं च णेण । 30
- 'सयल-जय-जंतु-जम्मण-मरण-विहाणम्मि वावड-मणेण । पम्हुसिओ चिय णवरं जमेण अज्जं तुमं भरिओ ॥'
- त्ति भणमाणेण पेसिओ मोहदत्तस्स खग्ग-पहारो । तेण य बहु-विह-करण-कला-कोसलेण वंचिओ से पहरो । वंचिऊण य पेसिओ
- 33 पडिपहारो । णिवडिओ खंधराभोए खग्ग-पहारो, ताव य णीहरियं सहिरं । तं च केरिसं दीसिउं पयत्तं । अवि य । 33

1) P गायइ for झाइ, P जिज्जइ for सिज्जइ, J हू हू 2) P वइलइ लइ for वलइ, P तो for ता, P मण for मयण  
 3) J 'वत्याअ य, P सो मयणमहाकतारसरिसो, P हलहला य पत्ता तम्मि 4) P adds य before णेण 5) J पच्चियाणिओ,  
 P सुवन्नदेवयाए 6) P संपत्तीए ण, J -गहिट्ठिलो, P inter मयण and महा, J कयं for कज्ज 7) J ण कज्ज for णाकज्ज,  
 P संगमासायविणडिओ 8) P जीवो for जीवइ, P चइ for चिय, P इमीए सो जा दिट्ठो 9) P पावियइ त्ति, J om च, P  
 संठणे for सवरणे 10) J om लास, P om कला, P कलावाणिंसएहि सएहिं धणेहि य सामं, P उयप्पयाणेहि, J कत्ताओ  
 उपपलोभिज्जति, P अह तहा नत्थि अवसीहेति तओ 11) J परिकेणावि परिणियव्वाओ, P परिणीयव्वा, P नाणाविलवणेहि य  
 विवाहेयव्वा । 12) P तस्सेयमप्पिं 13) P जयण for जलण, P -वज्जहय, J अज्ज for जह वि, J विफुलत P विफुरत.  
 14) P पयसति, P विरमेमि 15) J वाहुवहाणल्लिअएण, P निहयं, P 'हय व, J धरणिया ॥ 16) J कह पि, P इमाए,  
 P अलक्खिज्जमाणेहि अइगय- 17) J गंतूण for गतु, P उज्जाणवण । 18) J पविट्ठाओ य, P om य, J adds वदण after  
 चंदण, P हियएण अविवेक्खिऊण 19) P उज्ज for लज्ज, P om अगणिऊण भय, P तेण for णेण, P निक्कट्टियासि 21) P  
 -जणकराला 22) P सुवण्णदेवयाइ 23) P धावह for धाह धाह, P वरिसंती 24) P नीहलिओ कयलिहरयाओ 26) J  
 मय for मइ, J पुण्ण P चुण्ण, P रिउ- 27) J पुरिसाधम 28) J पुण्ण for वुण्ण, J हिअयाण, P लज्जो, P पवसिओ  
 29) P मज्ज for मज्ज, J कोवायंबिरत्त, P -रत्तं न लोयणो मइव कित्तो 31) J जण for जय, J तु समरिओ 32) P  
 कोसलेण जं वचिओ से पवाणो । 33) P खग्गपहारो तवयनीहनीहरियं.



- 1 खग-पहार-गिरतर-संपत्तो रत्न-सोणिओप्पको । हियय-नाओ चिव दीसइ पियाणुराओ समुच्छलिओ ॥ 1
- § १५२ ) तओ तं च विणिवाइऊण वग्घदत्तो वलिओ वणदत्ता-हुत्तं ।
- 3 तीय वि पियो त्ति काउ अह जीविय-दायओ त्ति पडिवण्णो । मिट्ठ च ओसह चिय कुंभड-वयं व णारीण ॥ 3
- समासत्थो सहिसत्थो, तुट्ठा सुवण्णदेवा, समासासिया वणदत्ता, भणिय च णेण । 'सुंदरि, अज्ज वि तुह चैवए ऊरु-जुवलय, थरहरायइ हियवय । ता ण अज्ज वि समस्ससहि, एहि इमम्मि पवण-पहल्लिर-कयली-दल-विज्जमाण-सिसिर-मारुए बाल-
- 6 कयली-हरए पविसिउ वीसत्था होहि'त्ति भणमाणेण करयल-नाहिया, पवेसिया तम्मि आलिंशिया मोह-मूढ-माणसेण । जाव 6
- य रमिउमाढत्तो ताव य उद्धाइओ दीह-महुरो सट्ठो । अवि य ।
- मारैऊणं पियर पुरओ जणणीए तं सि रे मूढ । इच्छसि सहोयरीं भइणियं पि रमिऊण एत्ताहे ॥
- 9 इम च गिसामिऊण पुलइया चउरो वि दिसावहा । चित्थिय च णेण । 'अरे, ण कोइ एत्थ णिट्ठि-नोयर पत्तो, ता केण उण 9
- इम भणिय कि पि असंबद्धं वयण । अहवा होंति च्चिय महाणिहिम्मि चेप्पमागे उप्पाए त्ति । पुणो वि रमिउ समाढत्तो । पुणो वि भणिओ ।
- 12 'मा मा कुणसु अकज्ज जणणी-पुरओ पिइं पि मारेउ । रमसु सहोयर-भइणिं मूढ महामोह-दयरेण ॥' 12
- इमं च सोऊण चित्थिय च णेण । 'अहो, असंबद्ध-पलावी को वि, कह कथ मम पिया, कह वा माया, कि वा कय मए, ता दे अण्णो कोइ भण्णइ णाहं' त्ति भणमाणेण त च्चिय पुणो वि समाढत्त । पुणो वि भणिय ।
- 16 'गिल्लज्ज तए एक्कं कयं अकज्ज ति मारिओ जणओ । एण्ह दुइयमकज्ज सहोयरीं इच्छसे घेतु ॥' 16
- तं च सोऊण सासंको कोव-कोऊहलावद्ध-चित्तो य समुट्ठिओ खग घेतूण मरिगउ पयत्तो सदाणुसारेण । जाव णाइदूरे दिट्ठो रत्तासोय-पायवयले पडिमा-सठिओ भगव पच्चक्खो इव धम्मो तव-तेएण पज्जलंतो व्व को वि मुणिवरो । दट्ठण य चित्थियं
- 18 णेण । 'अरे, इमिणा मुणिणा इम पलत्त होहिइ त्ति । ण य अण्णो कोइ एत्थ एरिसे उज्जाणे । एरिसो एस भगवं 18
- वीयरगो विय उवलक्खीयइ, ण य अलिय मतेहिइ । दिव्व-णाणिणो सच्च-वयणा य मुणिवरा किर होंति' त्ति चित्थयतो उवगओ मुणिणो सयास । अभिवट्ठिऊण य चलण-जुवलय उवविट्ठो णाइदूरे मोहदत्तो त्ति । एत्थतरे समागया सुवण्णदेवा,
- 21 वणदत्ता, सहियणो य । णमिऊण य चलणे भगवओ उवविट्ठो पायमूले । भणिय च मोहदत्तेण । 'भगव, तए भणिय जहा 21
- मारैऊण पियर माऊए पुरओ भइणिं च मा रमेसु । ता से कहि सो पिया, कहि वा माया, कथ वा भइणि' त्ति ।
- § १५३ ) भणिय च भगवया मुणिणा । 'भो रायउत्त, णिसुगेसु । अत्थि कोसला णाम पुरी । तत्थ य णदणो णाम
- 24 महासेट्ठी । तस्स सुवण्णदेवा णाम दुहिया पउत्थवइया दिट्ठा रायउत्तेण तोसलिणा, उवहुत्ता य । णाय रण्णा जहा य तीय 24
- गम्भो जाओ । सच्च जाणिय मतिणा । जहा णिव्वासिओ तोसलो पाडलिउत्त पत्तो । जहा य गुरुहारा सुवण्णदेवा वग पविट्ठा, तत्थ बालय-जुवलय पसूया । जहा अवहरिओ दारओ दारिया य वग्घीए । पडिया पथे दारिया, गहिया दूएण, वणदत्ता य से
- 27 णाम कय । सो वि दारओ गहिओ सवरसीहेण पुत्तो त्ति सवड्ढिओ, वग्घदत्तो त्ति से णाम कय । एवं च सच्च ताव साहिय 27
- जाव सुवण्णदेवा मिलिया धूयाए ताव जा मारिओ तोमलो त्ति । रायउत्त, इमा तुह सा माया सुवण्णदेवा । एसा उण भइणी सहोयरा वणदत्ता । इमो सो उण तुम्हाण जणओ । अत्थि य तुह तोसलि-णाम-मुद्धका एसा मुदा । इमाए सुवण्णदेवाए
- 30 मुद्धका वरि चिट्ठइ त्ति । ता सच्चहा मारिओ ते जणओ । संपय भइणी अभिलससि त्ति । सच्चहा धिरत्थु मोहस्स' । इमं च 30
- सोऊण भणिय सुवण्णदेवाए । 'भगव, एय ज तए साहियं' त्ति । वणदत्ता वि ट्ठिया अहोमुहा लज्जिया । मोहदत्तो वि णिविण्ण-काम-भोगो असुइ-सम माणुस त्ति मण्णतो चेरग्ग-मग्ग-लग्गो अह एय भणिउमाढत्तो ।

- 1 > J पहाराणतर, P सोणियप्पको, J पको, P विय for चिव 2 > P वरवदत्तो चलिओ 3 > J पियो त्ति 4 > P तुह चैव पर, J उर 5 > J समस्ससिएहि P समामसहिएहि, J वहल्लिर, J -दिज्जमाण- 6 > JP होहिइ त्ति, J पवेसिनालिंशिया, P पवेसिया for पवेसिया 7 > P om य after ताव 8 > P मारैऊण वि पियर, P सहोयर 9 > P adds से before चउरो, P दिसिवाहा, P om एत्थ 10 > P असंबद्धवयण, P रमिउमाढत्तो, J समाढत्ता । 11 > J om वि 12 > P पिय पि, P भइणी 13 > P अणेण for च णेण, P repeats कज्ज जणणीपुरओ etc to असंबद्धपलावी को वि 14 > P देव for दे, P को वि for कोइ, J om भण्णइ, P वि आढत्त 15 > P निल्लज्जकयमकज्ज एक्क ज मारिओ तए जणओ, P सहोयर 16 > P ससको 17 > P रत्तासोयस्स पायव, J पाययले P पायवचेले 18 > P तेण for णेण, P कोवि एत्थ, P om एरिसे, J om एस 19 > P रागो अउव्वो लक्खीयइ, J विय उवलक्खीअदि, P अलीय, P repeats सच्च, J om किर 20 > P सगास, P अभिवदिवदिऊण चलणजुवय, JP एत्थतर 21 > J om भगवओ, P उवविट्ठो 22 > P पुरऊ for पुरओ, J भइणी मा, P om मे, P मे for सो, P om कहि वा, P adds का वा before भइणि 23 > P मुणिणो, P repeats भो, J om य, P नट्ठो for णदणो 24 > J सुवण्णदेवा, J om दुहिया, J वइयावइ दिट्ठा, J णाया for णाय, P om य before तीय 25 > P साहिय मुणिणा for जाणिय मतिणा (J is correctng मुणिणा into मतिणा), P पाडलिपुत्त, P om य 26 > P बालजुवय, J om य, P दूतेग, J inter णाम and से 27 > P सवरसीलेण, P सवड्ढिउ, P om त्ति, J om से 28 > P जाव for जा, J om त्ति, P एम सो for इमा, P om सा 29 > J inter उण and मो, P तोसओ, P मुदा for मुदा, J एमाए P इमीए, P सुवण्णदेवा मुद वर चिट्ठइ 30 > J परि for वरि, P adds ता समुदा before ता सच्चहा, P om ते, J अदिलसि त्ति । 31 > J सोऊण, P सुवण्णदेवाए, P एव मम ज, J om वि after मोहदत्तो 32 > P अमुत्ति इम

- 1 'धिक्षुष्टं क्षण्णाणं क्षण्णाणं चैव दुच्चरं लोए । क्षण्णाणं चैय भयं क्षण्णाणं दुक्ख-भय-सूळं ॥  
ता भगवं मह साहसु किं करियव्वं मए अउणणेण । जेण इमं सयलं चिय सुज्जइ जं विरहयं पावं ॥'
- 3 § १५४) भणियं च भगवया सुणिणा ।  
'अहउण घरावासं पुत्त-कलत्ताइं मित्त-अंधुयणं । वेरग-मग-लग्गो पव्वज्जं कुणसु आउत्तो ॥  
जो चंदणेण वाहं अणुलिपइ वासिणा य तच्छेइ । संथुणइ जो य णिइइ तत्थ तुमं होसु समभावो ॥
- 6 कुणसु दयं जीवाणं होसु य मा णिइओ सहायेण । मा होसु सडो मुत्ति चित्तसु य ताव अणुत्तियहं ॥  
कुणसु तवं जेण तुमं कम्मं तावैसि भव-सय णिव्वहं । होसु य संजम-जमिओ जेण ण अज्जेसि तं पावं ॥  
मा अलियं भण सव्वं परिहर सच्चं पि जीव-वह-जणयं । वहसु सुइं पाव-विचज्जणेण आकिंचणो होहि ॥
- 9 पसु-अंदय-महिला-विरहियं ति वसही णित्तेवसेसु । परिहरसु कहं तह देस-वेस-महिलाण संवद्धं ॥  
मा य णिसीयसु समयं महिलाहिं आसणेसु सयणेसु । मा तुंग-पओहर-गुरु-णियं-व-विंवि ति णिज्जासु ॥  
मा मित्हुणं रममाणं णिज्जायसु कुहु-अवहियं जइ वि । इय हसियं इय रमियं तीय समं मा य चित्तसु ॥
- 12 मा भुंजसु अइणित्तं मा पज्जतिं च कुणसु आहारे । मा य करेसु विहूसं कामाहंकार-जणणि च ॥  
इय दस-विहं तु धम्मं णव चैव य वंभ-गुत्ति-चंचहयं । जइ ताव करेसि तुमं तं ठाणं तेण पाविहिसि ॥  
जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिणो णेय माणत्तं दुक्खं । सासय-सिव-सुइ-सोक्खं अहरा मोक्खं पि पाविहिसि ॥'
- 16 तओ भणियं च मोहदत्तेण । भगवं जइ अहं जोगो, ता देसु मह पव्वज्जं । भणियं च भगवया 'जोगो तुमं पव्वजाए, 16  
किंतु अहं ण पव्वायेमि'त्ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कज्जं' ति । भणियं च णेण भगवया 'अहं चारण-समणो, ण महं गच्छ-  
परिग्गहो । तेण भणियं 'भगवं केरिसो चारण-समणो होइ' । भणियं च भगवया । 'मइमुह, जे विज्जाहरा संजाय-वेरगा
- 18 समण-धम्मं पडिवज्जंति, ते गयणंण-चारिणो पुव्व-सिद्ध-विज्जा चैव होंति । अहं च पट्ठिओ सेत्तुजे महागिरिवरे सिद्धाणं 18  
वंदणा-णमित्तं । तत्थ गयणयलेण वच्चमाणस्स कहं पि अहो-उवओगो जाओ । टिट्ठो य मए एस पुरिसो तए घाइज्जतो ।  
णिरूवियं च मए अवहिणा जहा को चि एस इमस्स होइ ति जाव इह भवे चैव जणओ । तओ मए चितियं 'अहो कट्ठं,
- 21 जेण एसो चि पुरिसो 21  
जणयमिणं मारेउं पुरओ चिय एस साह-भइणीणं । मोहमओ मत्त-मणो षण्हिं भइणिं पि गेच्छिहिइ ॥  
इमं च चित्तयंतस्स णिवाहओ तए एसो । चित्तियं च मए एक्कमकज्जं कयं णेण जाव दुइयं पि ण कुणइ ताव संबोहेमि णं ।
- 24 भव्वो य एस थोवावसेस-किंचि-कम्मो । जं पुण इमं से चेट्ठियं तं किं कुणउ वराओ । अवि य । 24  
णित्थिण्ण-भव-समुहा चरिम-सरीरा य होंति तित्थयरा । कम्मेण तेण अवसा णिह-धम्मे होंति मूढ-मणा ॥  
चित्तिऊण अवइण्णो संबोहिओ य तुमं मए' ति । भणियं च मोहदत्तेण 'भगवं, कहं पुण पव्वजा मए पावियव्व'त्ति ।
- 27 भगवया भणियं । 'वच्च, कोसंवीए दक्खिणे पासे राइणो पुरंदरदत्तस्स उज्जाणे सुद्ध-पक्ख-चेत्त-सत्तमीए समवसरियं 27  
धम्मणंदणं णाम आयरियं पेच्छिहिसि । तत्थ सो सयं चैय णाऊण य तुम्हं वुत्तंतं पव्वावइस्सइ'त्ति भणमाणो समुण्णइओ  
कुवल्लय-दल-सामलं गयणयलं विज्जाहर-मुणिवरो ति । तओ भो भो पुरंदरदत्त महाराय, एसो तं चैव वयणं सुणिणो
- 30 गेण्हिऊण चइऊण घरावासं मं अणिसमाणो इहागओ ति । इमं च सयलं वुत्तंतं णिसामिऊण भणियं मोहदत्तेण 'भगवं, 30  
एवमेयं, ण एत्थ तण-मेत्तं पि अलियं, ता देसु मे पव्वज्जं' ति । भगवया वि णाऊण उवसंत-मोहो ति पव्वाविओ  
वग्घदत्तो ति ॥ ❀ ॥

1) J किं कट्ठं for धिक्षुष्ट, J चैय, P लए for लोए, P चैव कयं for चैय मय 2) P सु for साहसु 4) P ते उगं  
for आउत्तो 5) P बाहु अणुलिपइ, J व for य 8) P भव for भण, P जणण l, P सुइ 9) J पसुमण्डव, P -विरहित ति  
राइए सन्निवेसेसु l, P संबध ॥ 10) P णिच्छीतसु for णिसीयसु, J पओहरा- 11) P कुडववहिय, P तीय 12) P आहारे,  
P विभूसं, P जणसं च 13) P गुत्तिवचइय, J तुम ता तट्ठण 14) P repeats न जरा, P अइ for अहरा 15) P ततो  
for तओ, P भवगवं, P जोणा for जोगो, P om मह, P जोगो 16) P om भगव 17) P मइमुणह, P वेरग 18)  
J सिद्धवेज्जा, P पत्थिओ, P सेतुभे for सेत्तुजे. 19) J गयणयले, P adds मज्झ before वच्चमाणस्स, J om. अहो, J om  
तए. 20) P om. वि, P inter इमस्स and एस, J om. तओ 21) J एरिसो for एसो, J om वि. 22) J वेत्थि-  
हिइ P वेच्छिहेति 23) P सो for एसो, P तेण for णेण 24) J वगओ l. 25) P वित्थिण्ण-, P चरसरीय 26)  
J om. च, P पज्जावियव्वजा for पव्वजा, P om मए 27) J om. भगवया भणियं, J दक्खिणेण, P पुरदत्तस्स, P om. चेत्त  
28) P तुच्छ for तत्थ, J om. य, P वुत्तन निसामिऊण तस्स राइणो पव्वावइस्स ति. 29) J चैय 30) J adds एस  
before म, J मोहयत्तेण 31) J एय इम for एवमेय, P तिणमेत्त, P ताव for ता

- 1 § १५५) भणिय च पुणो वि गुरुणा धम्मगंदणेण । तओ भो भो वासवमहामंति, ज तए पुच्छियं जहा इमस्स चउ- 1  
गह-लक्खणस्स ससारस्स किं पढम णिव्वेय-कारणं ति । तत्थ इमे महामत्ता पत्त कोह-माण-माया-लोह-मोहा परायत्त जीव 1  
3 काऊण टोगाड-पहमुवणेति । तत्थ इमाणं उट्टय-णिरोहो कायच्चो उट्टिणाण वा विहली-करण ति । त जहा । 3  
जह अकोसह् वालो तहा वि लाभो त्ति णवर णायच्चो । गुरु-मोह-मूढ-मणसो जं ण य ताडेइ मे कह वि ॥  
अह ताडेइ वि वालो मुणिणा लाभो त्ति णवर मंतच्च । जं एस गिरासंमो ण य मे मारेइ केण पि ॥  
6 अह मारेइ वि वालो तहा वि लाहो त्ति णवर णायच्चो । जं एस णिव्विचेवो महच्चए णेय णासेइ ॥ 6  
इय पुव्वावर-लाभो चित्तेयच्चो जणेण णिउणेण । रोहप्फलो य कोहो चित्तेयच्चो जिणाणाए ॥  
माण पि मा करेज्जसु एवं भावेसु ताव संसारे । आमि इमो अट्टयरो अह पि दुहिलो चिर आसि ॥  
9 आसि इमो वि विअट्टो आसि अह चेय अयणओ लोए । आसि इमो वि सुरूवो पुहइय वि मंगुलो अहयं ॥ 9  
सुकुलम्मि एस जाओ आसि अहं चेय पक्कण-कुलम्मि । आसि इमो वलवंतो अहयं चिय दुच्चलो आसि ॥  
आसि इमो वि तवस्सी होहिइ वा दीहरम्मि संसारे । एसो वहु लहंतो अहय चिय वंचिलो आसि ॥  
12 होऊण ललिय-कुंडल-वणमाला-रयण-रेहिरो देवो । सो चेय होइ णवर कीडो असुइम्मि संसारे ॥ 12  
होऊण चिर कीडो भव-परिवाडीए कम्म-जोएण । सो चिय पुणो वि इंडो वज्जहरो होइ सगम्मि ॥  
सो णत्थि जए जीवो णवि पत्तो जो दुहाइं ससारे । जो असुइं णवि पत्तो णिय-विरइय-कम्म-जोएण ॥  
15 इय एरिस असार अथिर गुण-सगमं इमं णाड । ता कयरं मणंतो गुण ति माणं समुच्चहसि ॥ 15  
माया वि कीस कीरइ बुहयण-परिणिट्ठिय त्ति काऊण । कह वच्चिज्जउ जीवो अप्प-समो पाव-मूढेहिं ॥  
जह वंचिलो त्ति अहयं दुक्खं तुह देइ दारुण हियए । तह चित्तेसु इमस्स वि एम चिय वंचणा पाव ॥  
18 जह वि ण वचेसि तुमं माया-मीलो त्ति तह वि लोयम्मि । सप्पो च्च णिव्वियप्यं णिच्च चिय होइ वीहणओ ॥ 18  
तम्हा मा कुण माय माय सयलस्स दुक्ख-वग्गस्स । इय चित्तिऊण दोसे अज्जव-भाव विभावेसु ॥  
लोभो वि उट्टिअयच्चो एवं हिययम्मि णवर चित्तेउ । णाणाविहं तु अत्थं आमि महत्तं मह चेय ॥  
21 वेरुलिय-पट्टमरायं कक्केयण-मरगयाइं रयणाइं । आसि मह चिय सुहर चत्ताइं मए अवसएणं ॥ 21  
जह ता करेसि धम्मं साहीणाणिं पुणो वि रयणाड । अहवा रज्जसि पावे एयं पि कड्डिल्लय णत्थि ॥  
जह णव महाणिहीओ रज्जं सयल च भुंजए चकी । ता कीस तुम दुहिलो पावय पावेण चित्तेण ॥  
24 कुणसु य तुम पि धम्म तुज्ज वि एयारिसा सिरी होइ । ता पर-विहव-विलक्खो ण लहिसि णिइ पि राइए ॥ 24  
आलप्पालारभं मा कुण विहवो त्ति होहिइ महं ति । पुच्च-कयस्स ण णासो ण य संपत्ती अविहियस्स ॥  
अह परिचित्तेसि तुमं भत्तं पोत्त व कह णु होजा हि । तत्थ वि पुच्च-कय चिय अणुयत्तइ सयल-लोयस्स ॥  
27 महिलायणे वि सुच्चइ पयड आहाणयं णरवरिंद । जेण कय कडियलयं तेण कय मज्ज वत्थ पि ॥ 27  
जेण कथा धवल चियं हंसा तह वरहिणो य चित्तलया । सो मह भत्त दाहिइ ण अण्णयारी तणं चरइ ॥  
इय चित्तिऊण पाव मा मा असमजस कुणसु लोह । पडिइण सत्तोसेणं तह चेय जिणिंठ-वयणेण ॥  
30 मोहस्स वि पडिवक्ख चित्तेयच्च इम सुविहिएहिं । असुइं-कलमल-भरिए रमेज्ज को माणुसी-देहे ॥ 30  
ज असुइं-दुग्गंधं वीभच्छं बहुयणेण परिहरिय । जो रमइ तेण मूढो अच्चो विरमेज्ज सो केण ॥  
जं ज गुज्ज देहे मगुल-रूवं ठविज्जए लोए । त चेय जस्स रम्मं अहो विसं महरयं तस्स ॥  
33 ज असइ ससइ वेयइ मडलइ णयणाइं णीसहा होइ । तं चिय कुणइ मरती मूढा ण तहा वि रमणिज्जा ॥ 33

2) P om णिव्वेय, P लोम- 3) P उवइञ्जाण विहली 4) P लाहो च्चि, J उ for य, P ताडेय म कह 5) P मुणिणो लोभो, P मतच्चो । ज निएस 8) P समारो, P repeats अट्टयरो, P om. आमि 9) P अयाणओ 10) P सुकुल पि, P चैव, P चिय 11) P होही वा, P बहु तो अहिय 12) P चैय 13) P परिवाडीय 14) P जो यमुह, J णय for णवि, P पत्तो न य वियरइ 15) P संगम च नाऊण ।, P गुणामिमाण 16) P om कीम, P वच्चिज्जउ 17) P अह for जह, J दुहवेइ for तुह देइ, P चित्तेइ, P पावा । 18) P वचेमि, P च्चि for च्च 19) J मरगम्म ।, J विलग्गामु for विभावेसु 20) P लोहो 21) J पोमराए, J मरगण य रयणाइ 22) J साहीणाण P साहीणावि, P एव पि 23) P तुह for तुम 24) P कुज्ज for तुज्ज, P ना for ता 26) P च्च सच्चलोगम्म ॥ 28) P तह वरहिलो य चित्तयण । 29) P अनजस, P विमलेण for तह चेय 30) P इम मुहुदीहि ।, J कल्लिमउ 31) P वीमत्त 32) P मगलस्य च विरमणिज्जा ।, P om ठविज्जए लोए etc to मूढाण तहा वि 33) J ज for जं

- 1 जण-रुज्जणयं पि तद्वा दुहयण-परिणिदिंयं चिलीणं पि । जं सोढीरा पुरिमा रमंति तं पाव-सत्तीण् ॥  
जह् तीरह् काउं जे पडिहत्थो विंदुण्हिं जलणाहो । ता काम-राय-तित्तो इह लोण् होज्ज जीवो वि ॥
- 3 कट्ठिधण-त्तण-णिवहेहिं पूरिओ होज्ज णाम जलणो वि । ता कामेहि वि जीवो ह्वेज्ज तित्तो ण संदेहो ॥  
उत्तुंग-पीण-पीवर-थण-भारोणमिय-त्तणुय-मज्झाहिं । सग्गे वि मण् रमियं देवीहिं ण चेय संतोसो ॥  
माणस-जोणीसु मण् अह् उत्तिम-मज्झिमासु णेयासु । रमियं तद्वा वि मज्झं रोरस्स व णत्थि संतोसो ॥
- 6 इय असुई-संबंधं मुंचसु मोहं ति पाव रे जीव । चित्तसु जिणवराणं आणं सोक्खाण संताणं ॥  
इह कोह-माण-भाया-लोहं मोहं च दुह-सयावासं । परिहरियव्वं बहु-सिक्खिण्ण एयं जिणाणाए ॥ त्ति ।  
§ १५६ ) एत्थंतरम्मि सूरो सोऊणं धम्म-देसणं गुरुणो । पच्छायाव-परद्वो अह जाओ मउलिय-पयावो ॥
- 8 इमाए पुण चेलण् वट्टमाणीए अत्थगिरि-सिहर-संगमूसुएसु दिणयर-रह-वर-त्तुरंगमेसु अभिवंदिऊण भगवओ चलण-जुवल्यं 9  
राया पुरंदरदत्तो वासवो य महामंती पविट्ठा कोसवीए पुरवरीए । सेस-जणो वि जहागओ पडिगओ । साहुणो वि भयवन्ते  
संपलग्गा णियएसु कम्म-धम्म-किरिया-कलावेसु । तओ
- 12 अत्थिहरि-णिहिय-हत्थो अहोमुहो णयण-हुत्त-पाह्लो । मत्थुत्थल्लं दाउं वालो इव ववासिओ सूरो ॥  
संज्ञा-वहूणं णज्जह् गयणाहिंतो समुह-मज्झम्मि । णिय-कर-रज्जु-णिवद्वो सूरो कुडओ व्व ओयरिओ ॥  
अह मउलिय-पयावो तम-पडलंतरिय-किरण-दिट्ठिल्लो । संकुहय-करोइय-थेरओ व्व जाओ रवी एसो ॥
- 16 जायस्स धुवो मच्च रिद्धी अवि आवई धुवं होइ । इय साहेतो व्व रवी णिवडइ अत्थगिरि-सिहराओ ॥  
पाडिय-चंडयर-करो कमसो अह तविय-सयल-भुवणयलो । सहसा अत्थाओ च्चिय इय सूरो खल-णरिंदो व्व ॥  
अह दिणयर-णरणाहे अत्थमिण् णालिणि-मुह-विलयाहिं । पल्हत्थ-पंकय-मुहं अन्नो रोउं पिव पयत्तं ॥
- 18 दट्टण य णालिणीओ रुयमाणीओ व्व मुह-भमरेहिं । अणुरुव्वह् वालेहि व सुहरं रुहरे जणणि-सत्थे ॥  
उयं मित्तस्स विओए हंस-रवुस्सुक्क-राव-कलुणाणं । विहडइ च्चफाय-जुयं अन्नो हिययं व णालिणीणं ॥  
सूर-णरिंदत्थवणे कुसुंभ-रत्तवराणुमग्गेण । कुल-वालिय व्व संज्ञा अणुमरइ समुह-मज्झम्मि ॥
- 21 अवि य खल-भोइयस्स व वहु-पणइयण-पत्थिज्जमाणस्स ईसि अंधयारिज्जंति सुहाइं तम-णिवहेण दिसा-वहूणं, मित्त- 21  
विओयाणल-डज्जमाण-हिययाइं व आउलाइं विलवंति सउण-सत्थाइं, ईसालुय-णरिंद-सुंदरीओ इव पडिहय-दूरप्पसराओ  
दिट्ठीओ त्ति । अवि य ।
- 24 अत्थं गयम्मि सूरे तिहुयण-घर-सामिण् व्व कालगाए । रोवंति दिसि-वहूओ जण-णिवहुहाम-सहेण ॥ 24  
§ १५७ ) ताव य को वुत्तंते पयत्तो भुवणयले । अवि य पडिणियत्तइं गोहणइं, णिग्गायाइं चोर-वंद्रइं, आवासियइं  
पहिय-सत्थइं, उक्कंठियइं पंसुलि-कुलइं, संज्ञोवासणा-वावडइं मुणिवर-वंद्रइं, विरह-विहुरइं चक्कवायइं, समूससियइं
- 27 णारी-पुरिस-हियवयइं, गायत्ती-जव-वावडइं वंभण-घरइं । मूएल्लिहोति कायल, पसरंति घूय, चिलिचिल्लेति पिंगलओ, 27  
संकुयंति सउणा, वियरंति सावया, किलिकिल्लेति वेयाला, पणच्चंति डाइणीओ, परिकमंति भूया, रडंति भसुयओ  
त्ति । अवि य ।
- 30 वच्छंतरेसु सउणे णिद्दा-भर-मंथरे णिमेऊणं । कच्छंतरम्मि बाले सोवइ जणणि व्व वण-राई ॥ 30  
एरिसए समयम्मि के उण उल्लावा कत्थ सोऊण पयत्ता । डज्झिर-तिल-घय-समिहा-तडत्तडा-सइइं मंत-जाय-मंडवेसु,  
गंभीर-वेय-पढण-रवइं वंभण-सालिसु, मणहर-अक्खित्तिया-नेयइं रुह-भवणेसु, गल्लफोडण-रवइं धम्मिय-मडेसु, घंटा-डम-  
रुय-सइइं कावालिय-घरेसु, तोडहिया-पुकरियइं चच्चर-सिवेसु, भगवगीया-गुणण-वणीओ आवसहासु, सन्नभूय-गुण-रइयइं 33
- 1 > P बहुयण- 2 > P काओ for काउ, J पडहच्छो, P तो for ता, P तत्तो 3 > P णाम जणाम जलणो, J मि for  
वि, P जीवा, P तित्ता 4 > P adds घणपीवर before थणभारो. 5 > P अहमुत्तिम, J तहवी, P वि for व, P संदेहो for  
सतोसो 6 > J असुहम सवोज्ज मुच मोहो त्ति, P संबधो 7 > P लोभ, J जिणाणाए ति 9 > P adds य before पुण, J om.  
वट्टमाणीए, P दिणवर, P अभिनदिऊण भगवतो चलणजुवल्य 10 > P कोसवीपुरं, J om. वि, P om पडिगओ, P भगवतो सपल  
याणियएसु 12 > P अत्थगिरि, P om मुहो, J मच्छुत्थल्लं P मच्छुत्थल्ल, P पवसिओ 13 > P संज्ञावहू णज्जह्, P नियकरकेया  
बद्धो सूरो कडओ, J ओसरिओ P ओयरिहो 14 > J -पयावो, J त्योय for किरण, P repeats करोइय, P थेरय व्व 15 > P  
इव for अवि, P उदयत्थ for अत्थगिरि 17 > P नलणि, P मुह अहो रोत्तु पिव 18 > J रुहरो जणणिसत्थो 19 > P  
हंसरवसुक्क, P चुक्काय 20 > P नरिंदत्थमणे, P रत्तवराणमग्गेण, P अणुसरइ समुज्जम्मि ॥ 21 > J -होइयस्स, P वहु (बहु?),  
P पणइयण, J दिसावहू 22 > J om. आउलाइ, P ईयालुनरिंद, J दूरप्पसराओ, P दूरप्पसरा दिट्ठीओ 25 > P पडिनियत्ताइ  
गोहणाइ, P वद्राइ आवसियाइ पहयणमत्थाइ । उक्कंठियाइ 26 > P कुलाइ, P वावले for वावडइ and repeats अवि य  
पडिनियत्ताइ etc. to संज्ञोवासणावावडाइ 27 > P चोर for णारी, P गायति जाव वावडइ, P संघाइ for घरइ, J सुयती for  
मूएल्लि, P घूया 28 > P सउणविरयरति सावय, P परिभमति, J मुसुओ for भसुयओ 30 > P सउणा, J भय for भर, P  
सोयइ जह् जणणि 31 > P एरिसे य, P दज्झिर, P सइइ 32 > P वमाण सालोसु, J अक्खित्तिआअइ, P गेयाइ, P गल्लफोडण.  
33 > P कालालिय, P चुक्करियइ, J -सिसिवेसु, J गुणणव्वणउ आव, P गुणरइअ

- 1 शुद्ध-शोक्तं जिणहरेसु, प्यंत-करुणा-णिवद्वय्यइ वयणइ बुद्ध-विहारेसु, चालिय-महल्ल-घटा-खड्डहडओ कोट्टजा-वग्गेषु, 1  
मिहि-कुक्कुड-चडय-रवडं छम्मुहालपुसु, मणहर-कामिणी-गीय-सुरय-रवडं तुग-देव-वग्गेषुं ति । अत्रि य ।
- 3 कत्थइ गीयस्स रवो कत्थइ सुरयाण सुच्चए सहो । कत्थइ किं पि पडिजइ इय हल्लवोलो पओसम्मि ॥ 3  
कामिणीहरेसु पुण के उल्लावा सुव्विडं पयत्ता । हला हला पल्लविए, सज्जीकरेसु वायहरयं, पफोडेसु चित्त-भित्तीओ,  
पक्खिवसु महराए कप्पूर, विरएसु कुसुम-माला-वरयइ, रएसु कोट्टिमे पत्तलयाओ, विरएसु कुसुम-सत्थगे, मंथुक्केसु
- 6 धूव-घडियाओ, मंजोएसु महुर-पलावे जत-सरणए, विरएसु णागवल्ली-पत्त-पडलए, ठवेसु कप्पूर-फटा-ममुग्गए, णिक्खिव 6  
कक्कोलय-गोलए, ठवेसु जाल-नावक्खए अत्थुर-सेज, टेसु मिंवाडए, णिक्खिव वलक्खलए, पक्खिव चक्कलए, पजालेसु पइवे,  
पवेसेसु महं, कोतलं काउ सुइरं णिमज्जसु मज्ज-भायणे, पडिमग्गसु महरा-भडए, हत्थ-पत्ते कुणसु चमए, णिक्खिव
- 9 सयण-पासम्मि त्रिविह-खज्ज-भोज्ज-पेज्ज-पडलए त्ति । अत्रि य । 9  
एक्केक्यम्मि णवर वर-कामिणि-पिहुल-वास-घरयम्मि । कम्मं तो ण समप्पइ पिय-मंगम-नारवग्गविए ।
- § १५८ ) एयम्मि एरिसे समए को वावारो पयत्तो णायर-कामिणी-सत्थस्स । अत्रि य ।
- 12 सहि संपइ मज्ज घर पावइ दडओ त्ति मंडण कुणसु । अहवा अलं ति मह मंडणेण अंगस्स भारेण ॥ 12  
दे तूर मह पियसहि निलए भालं रएसु दडएण । इय विहलक्खर-भणिगी महियाहि हसिज्जए अण्णा ॥  
आसण्ण-दइय-संगम-सुहिळि-हल्लफला हल्लहल्लेति । अण्णा रमण कंटे वडइ हारं णियंवरम्मि ॥
- 15 होंत-जियणाह-संगम-मयण-रमासाय-सुण्ण-हिययाए । अटाए चिय रडओ निलओ अण्णाए घुसिणेण ॥ 16  
अण्णा ण जंपइ चिय आणेसु पियं ति दूह-लजाए । पिय-वयण-नाम्भिणेहिं णयण-पटाणेहिं पयडेइ ॥  
सचारियाए अण्णा अप्पाहंती पियस्स सडेस । अगणिय-मग्ग-विहाया सहसा गेह चिय पविट्ठा ॥
- 18 एहिइ पओ त्ति अण्णा इमिणा मग्गेण अंधयारम्मि । तं चेय णियच्छंती अच्छइ जोइ व्व आणत्था ॥ 18  
अजेकं चिय द्वियहं अत्ता वच्चांमि जइ तुसं भणमि । अणुदियइ पि भणती अण्णा दइय समल्लियइ ॥  
पढम चिय पिय-वसही गंतव्वं अल्लमेव चिंतंती । गुरु-सज्जम-तोस-विसाय-णिट्ठरा होइ अण्णा त्रि ॥
- 21 तम-पडहत्था रच्छा कीय वि जो होइ संभमो हियए । सो होंत-दइय-संगम-सुहेळि-पडिपेळिओ गलइ ॥ 21  
अणुराओ चेय फरो तस्स गुणा चेय णिम्मल खग्ग । इय भणिडं एक्क चिय पिय-वग्गहिं पयिया अण्णा ॥  
वणंति पोढ-महिला किर सो बहु-सिक्खरो जुवाणो त्ति । णिव्वडइ तं पि अज्जं इय भणिरी वच्चए अण्णा ॥
- 24 वणिज्जइ महिलाहिं जा रयणाली कुमार-कंडम्मि । तं पेच्छइ मह कंटे एव भणंती गया अण्णा ॥ 24  
कसिण-पड-पाउयंगी दीवुज्जोयम्मि कुहिणि-मज्जम्मि । बोलेइ भत्ति अण्णा कयावराहा भुयगि व्व ॥  
अण्णा भय-भरियगी अच्छिच्छोएहिं जाइ पुलयती । णोलुप्पल-णियरेहिं व अच्चंती पंथ-देवीओ ॥
- 27 अण्णा सहियण-भणिया पिय-वसहिं वच्च ताव मडेउ । चलिय चिय णिय-सोहग्ग-नाच्चिगी का वि दइयस्स ॥ 27  
वच्चंतीय य कीय वि दिट्ठो सो चेय वल्लहो पंये । अह पडिमग्गं चलिया पिय त्ति गव्वं समुच्चहिगी ॥  
दट्टूण काइ दइय पियाए समयं सुण्णिभर-पसुत्त । वच्चइ पडिपइ-हुत्त वोयंसुय-कज्जला वरडे ॥
- 30 अण्णा वासय-सज्जा अच्छइ जिय-गाम-टिण्ण-सकेया । अण्णाए सो वि हरिओ भूयाण थ वाहओ वंमो ॥ 30  
इय एरिसे पओसे जुयइयण-सचरत-पउरम्मि । मयण-महासर-पहर-णीसहा होंति जुवडेओ ॥

~~~~~

- 1 ) P शोक्तय, P -निवदयइवयइ वद-, P महल्ला-, P घटहटओ 2 ) P मिहिक्कुचडय, P -नेयमुग्गइयइ 4 ) J को for  
के, P repeats के उल्लावा, P om one हला, J सज्जीकरेसु 5 ) J पक्खिव महराए P पक्खिव महराए कप्पूर, P माजवराइ,  
P repeats विरएसु कुसुममालावराइ । रएसु कोट्टिमे पत्तलयाओ, P विरएसु कुसुमसत्थगे 6 ) P धूम for धूव, J ठएसु,  
P फटा 7 ) P कक्कोलय, J ठएसु, P मिंवाडए, J चक्कलए for वलक्खलए, P om पक्खिव चक्कलए 8 ) P महुरकॉतलकाओ  
सर, P om मज्ज, JP have a danda after काउ, J अत्थपत्थेसु 9 ) P मयण, P inter पेज्ज and भोज्ज 10 ) J  
adds वि before ण, P 'वग्गविओ 11 ) P पइत्तो for पयत्तो 12 ) P सइ for सहि 13 ) J सहिअहि P महियाइ  
14 ) P सगमसुहलि, J इल्लफला 16 ) P सइयडाणिहिं for णयणपटाणेहिं 17 ) P अप्पाहती, P -विमागा 18 ) P  
एही for एहिइ 19 ) P अणुदियइनि, J समुल्लियइ 20 ) J पढम चिय वमइं चेय गतव्वं, P चिंतंती, P मच्चम 21 ) J  
सहनो, J सुहुळि 22 ) J वरो for फरो, P भणिय, J पियवमइ 23 ) P अण्ण त्ति for वणंति, P सिक्खिओ 24 ) P  
महिटाइ, J रयणीली P रयणावली, J का वि for अण्णा 25 ) P पाउरणी, J adds ना before दीवु°, J has a marginal  
note on कुहिणि thus देशी कुहणी कपूर्रो रथ्या च ।, P -मज्जमि 26 ) J अण्णा, J अच्छिच्छोहेहिइ, P नयणेहि व अच्चंती,  
J पत्थ 27 ) J नहि for वनहि, P चिय for चलिय, J कियमोहग्गव्विणी 29 ) P दट्टूण कोइ, P पडिपइ, P धोइसुय,  
P धरं for वरं 30 ) P जिनगाम, J हूआण वाओ 31 ) P जुवइयणमचरमि मयणमहारइमर, J पहरेहि नीमहा

- 1 § १५९) ताव य अहंकृतो पदमो जातो चउ-जामिणीए । अवि य ।  
 मयण-महाहव-वेला-पदार-समयं य पज्जरतो व्व । उद्धाह संप-सहो वर-कामिणि-कणिय-वामिस्सो ॥  
 3 पृत्यतरम्मि विविह-णरिंद-वंद्र-मंडली-खणाहं पाओसियं अत्थाण-समयं दाऊण समुट्टिओ राया पुरंदरदत्तो । विसज्जियासेस-  
 णरिंद-लोओ पविट्टो अब्भंतरं । तत्थ पडियगिऊण अंतेउरिया-जणं, संमाणेऊण संमाणणिज्जे, पेच्छिऊण पेच्छणिज्जे, सब्बहा  
 कय-कायव्व-वाचारो उवगओ धास-भचणं । तत्थ य उवगयस्स समुट्टिओ चित्ते वियप्पो । 'अहो, एरिसा वि एसा संपया  
 6 खण-भंगुरा । एवं सुयं मए अज्ज भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-कओ संसारो,  
 विरसीकया भोगा, णिंदिओ इत्थि-पसंगो । ता पेच्छामि ताव पृत्य मयण-महूसवे एरिसे य पओसे किं करंति ते साहुणो,  
 किं जहा-चाई तहा-कारी आओ अण्णह' त्ति चित्तयत्तेण राहणा पुरंदरदत्तेण गहिअं अद्ध-सवणणं वत्थ-जुवलयं । जस्स य ।  
 9 अद्धं ससंक-धवलं अद्धं सिहि-कंठ-गायल-सच्छायं । पक्ख-जुवलं व घडियं कत्तिय-मासं व रमणिज्जं ॥  
 परिहरियं च राहणा धवलमद्धं कसिणायार-परिक्खत्तं । उवरिल्लयं पि कयं कसिण-पच्छायणं । गहिया य छुरिया । सा य  
 केरिसा । अवि य ।

- 12 रयण-सुवण्ण-कंठ-सिरि-भोहिय-तणुतर-मुट्टि-भोज्जिया । वहरि-णरिंद-त्रच्छ-परिचुंवण-पसर-पयत्त-भाणिया ॥  
 रेहिर-वर-धरग-सोहा णव-कुचलय-सामलंगिया । रिउ-जण-पणहणि व्व सा वज्जइ कडियलए छुरिल्लिया ॥  
 सा य उत्थलियए माणिक-पट्टियए दढ-णिवद्ध कयल्लिया । तओ सुयंध-सिणेहो एरिसो य सब्बायर-परियट्टिओ सीसेण  
 15 धरियल्लओ । तह वि वंक-विंको पयह-कसिणो सदावो य त्ति कोवेण व उद्धो विणिवद्धो केस-दमर-पव्वारो । तओ णाणा-15  
 विह-कुसुम-मयरंद-विंदु-णीसंदिर-कप्पूर-रेणु-राय-सुयंध-गंध-लुद्ध-सुद्धागयालि-रण-रणंत-मुहल परिहिय मुंडे माल्लिया ।  
 तओ अहविमल-मुहयंद-चंदिमा-पूर-पसर-परिप्फलणहं कट्टियहं उभय-गंडवासेसु वहल-कत्थूरियामयवट्टं । रजियहं च तीय  
 18 सेसहं परियर-वल्लगहं पसरंत-णिम्मल-मऊहहं रयणहं । तओ कप्पूर-पूर-पउरहं कंकोलय-लवंग-मीसह पंच सोयंधियहं 18  
 तंवोलह भरियहं गंडवासहं । असेस-सुरासुर-गंधव्व-जक्ख-सिद्ध-तंत-वत्तियए विरहओ भालवट्टे तिलओ । वहले वि  
 तमंधयारे रह-रेणुवदंसावण्ण अंजण-जोएण अंजियहं अच्छिवत्तहं । पूरियं च पउट्टे पउर-वेरि-वीर-मंडलगाभिघाय-णिवडंत-  
 21 णिट्टुरत्तण-गुणं वसुणंदयं । गहियं च दाहिण-हत्थेण खग-रयणं ति । तं च केरिसं । अवि य । 21  
 वहरि-गाइंद-पिहुल-कुंभत्थल-दारणए समत्थयं । णरवर-सय-सहस्स-सुह-कमल-मुणाल-वणे दुहावहं ॥  
 जयसिरि-धवल-णेत्त-लीला-वस-ल्लिउव्वेळ-मगयं । दाहिण-हत्थएण गहियं पुण राय-सुएण खगयं ॥

- 24 तं च घेत्तूण णिहुय-पय-संचारं वंचिऊण जामहल्ले, विसामिऊण अंगरक्खे, भामिऊण वामणए, वेलविऊण विऊसए, छंदिऊण 24  
 वडहे, सब्बहा णिगओ राया वास-धराओ, समोहण्णो दहर-सोमाण-पंतीए त्ति ।

§ १६०) इमम्मि य एरिसे समए केरिसावत्थो पुण वियद्ध-कामिणियणो भगवं साहुयणो य । अवि य ।

- 27 एको रणंत-रसणो पिययम-विवरीय-सुरय-भर-सिगो । वेरग-मग-लगो अण्णो कामं पि दूसेह ॥ 27  
 एको महुर-पलाविर-मम्मण-भणिपुहिं हरइ कामियणं । अण्णो फुड-वियडक्खर-रइयं धम्मं परिकहेह ॥  
 एको पिययम-सुह-कमल-वसय-दिणं महं पियइ तुट्टो । अण्णो तं चिय णिंदइ अणेय-दोसुव्वभंडं पाणं ॥  
 30 एको णह-सुह-पहरासिय-दंतुलिहण-वावडो रमइ । अण्णो धम्मज्जाणे कामस्स दुहाई चित्तेह ॥ 30  
 एको संदट्टाहर-वियणा-सिक्कार-मउलियच्छीओ । धम्मज्जाणोवगओ अवरो अणिमिसिय-णयणो य ॥  
 एको पिययम-संगम-सुहेळि-सुह-णिबभरो सुहं गाइ । अण्णो दुह-सय-पउरं भीमं णरयं विचिंतेह ॥  
 33 एको दइयं सुवइ बाहोभय-पास-गहिय-वच्छयलं । अण्णो कलमल-णिलयं असुइ देहं विचिंतेह ॥ 33

2) J वेणी for वेला, P वज्जरतो 3) P नरेंद्र, J पुरंदरयत्तो 4) P लोतो for लोओ, P अब्भंतरो, J अतेउरिजणं,  
 P संमाणणिज्जो 5) P repeats 'वारो उवगओ, P तत्थ ववगयस्स, P om वि 7) J om. पत्थ, P transposes ते before  
 किं, P करति 8) P जहावाती, J अण्णहि त्ति, P चित्तियत्तेण, J पुरंदरयत्तेण, J अद्धसुवण्ण P अद्धसवन्न जत्थ, P om. य 9) J  
 ससंख-, J पक्खजुवलेण घडिओ कत्तियमासो व्व रमणिज्जो । 10) P परिहिय च, P धवल मद्धं कगाइ विपक्खत्त, P om. पि,  
 P गहिय जच्चच्छुरिया 12) J कण्ण for कठ, P सोहिया, P om. तर, J गेण्डिआ ।, P नरिंदचद्रपरि 13) J रिउअण-, J  
 छुरिल्लिया 14) J सार for सा य, P सा च उच्छुल्लियाए माणिकपट्टियाए, J कडियल्लिअ ।, J परिवट्टिओ 15) J उवद्धो for  
 व उद्धो, P उद्धो बद्धो केस तस्स तमर पव्वारो 16) P मयरिंद, J वंद for विंदु, P णीसिंदकप्पूर, P सुगध, P सुद्धासवालि,  
 P परिहिया 17) P पसरि, P कट्टिअइ, J रजियं च, P च तिय 18) P om रयणइ, J कंकोलय, J repeats लय, P om.  
 मीसह, J पचासो, P पंच सुअंधियइ 19) P तवोलभरियइ गडवासय, J रक्खा for जक्ख, P सिद्धतत, J कालवट्टो P भालवट्टे  
 20) P रेणुपयंसावण, P अजियाइ अत्थवत्तइ, P वहरि for वेरि, P धाया- 21) P णिट्टुरत्तणुण, P om. हत्थेण, J om. ति,  
 22) P गयंद, J दुहावय 23) P ललियुव्वेळ, P दाहिणत्थएण 24) J हामिऊण for भामिऊण 25) P वासहराओ  
 इमोइज्जो, P सोमणपत्तीए वि । 26) J om. य, P उण for पुण, P कामिणीयणो भयव साहुणो 27) J पिययण-, J 'करसिगो  
 P भरसित्तो, P om. मग 28) P पलावीमम्मण, J हणिपुहिं for भणिपुहिं 30) P सिद्धुत्ति, J 'धम्मत्थाणे 31) P  
 संदट्टाहरविणोयसिक्कार, P अण्णिमत्तणो जाओ 32) J सुहळि, J P गायइ, P संसारपह for मीमं णरयं, J विश्वेह. 33) P  
 वास for पास, P कलमल, J असुहदेह विश्वेह

- 1 इय जं जं कामियणो कुणह पओसम्मि णवर मोहंधो । तं तं सुणिवर-लोओ णिंदइ जिण-वयण-दिट्ठिल्लो ॥ 1
- तओ एयम्मि एरिसे समए णिकखंतो राया णियय-भवणाओ । ओइण्णो राय-मगं, गंतुं पयत्तो । वच्चंतेण य राइणा दिट्ठं
- 3 एक्कं तरुण-जुवइ-जुयलयं । दट्ठण य चित्तिंयं 'अहो, किं किं पि सहास-इसिर इमं तरुणि-जुवलयं, वच्चंता दे णिसामेमि 3
- इमाणं वीसत्थं मंतियं' ति । तओ एक्काए भणियं 'पियसहि, कीस तुमं दीससि ससेउक्कंप-हास-वस-वेविर-पओहरा' ।
- तीए भणियं 'अहं पियसहीए अउव्वं वुत्तं वुत्तं' । तीए भणियं 'सहि केरिसं' ति ।
- 6 § १६१) तीए भणियं । "आगओ सो पियसहि, एसो वल्लहो । तेण य समं सही-सत्थो सव्वो पाणं पाऊण 6
- समाढत्तो । तओ एवं पयत्ते णिजंतणे पेम्माबंधे अवरोप्पर पयत्ताए केलीए कहं कहं पि महु-मत्तेण कयं णेण वल्लहेण
- गोत्तक्खलणं पियसहीए । त च सोऊण केरिसा जाया पियसही । अवि य ।
- 9 तिवलि-तरा-णिडाला धग्गिर-विलसत-कसिण-भुमय-लया । चलिया रणत-रसणा फुरुफुरेंताहरा सुयणू ॥ 9
- तओ इत्ति विद्धानो सही-सत्थो । आउलीहूओ से वल्लहो अणुणेउं पयत्तो । किं च भणियं णेण ।
- 'मा कुप्पसु ससि-वयणे साह महं केण किं पि भणिया सि । अवियारिय-दोस-गुणाए तुज्झ किं जुज्जए कोवो ॥'
- 12 तं च सोऊण अमरिस-वस-विलसमाण-भुमया-लयाए भणिय पियसहीए । 12
- 'अवियाणिय-दोस-गुणा अलज्ज होज्जा तुमे भणंतम्मि । जइ तुह वयण-विलक्खो ण होज्ज एसो सही-सत्थो ॥'
- तओ अहं वि तत्थ भणिउं पयत्ताओ । 'पियसहि, ण किंचि णिसुयं इमस्स अहंहेहिं एत्थ दुव्वयणं' । तीए भणिय । 'हं,
- 15 मा पलवह, णायं तुम्हे वि इमस्स पक्खम्मि' । भणिऊण ठइय-वयण-कमला रोविउ पयत्ता । तओ दइएण से पलत्तं । 15
- 'सुंदरि कयावराहो सच्चं सच्चं ति एस पडिवण्णो । एस परसू इमो वि य कंठो जं सिक्खियं कुणसु ॥'
- त्ति भणमाणो णिवडिओ चलणेसु । तह वि सविसेसं रोविउ पयत्ता । तओ अहंहेहिं कण्णे कहिओ पिययसो किं पि, तओ
- 18 पविट्ठो पल्लकस्स हेट्ठए णिहुओ य अच्छिउ पयत्तो । पुणो भणियं अहंहेहिं । 18
- 'अहं ण पसण्णा सि तुमं इमस्स दइयस्स पायवडियस्स । अकय-पसाय-विलक्खो अह एसो णिग्गओ चेव ॥
- ता अच्छ तुम, अहं वि घराहरेसु च्चामो' ति भणमाणीओ णिग्गयाओ वास-भवणाओ, णिरुविउं पयत्ताओ पच्छणाओ ।
- 21 'किं किं करेइ' ति पेच्छामो जाव पेच्छामो णीसइ वासहर जाणिऊण उग्घाडियं वयणं, जाव ण स दइओ, ण सहीओ, तओ 21
- पच्छायाव-परद्धा चित्तिउं पयत्ता ।
- 'हा हा मए अहव्वाए पेच्छ दूसिक्खियाए जं रहयं । ण पसण्णा भग्गासा तह पइणो पाय-पडियस्स ॥
- 24 ता कहिं मे सहियाओ भणियाओ जहा 'तं आणेसु, ण य तेण विणा अज्ज जीवियं धारेमि' ति । ता किं करियव्वं । 24
- अहवा किमेत्थ चित्तिव्वं' ति दढगलं कयं दार विरइओ य उवरिल्लएण पासो, णिवद्धो कीलए, वल्लग्गा आसणे, दिण्णो
- कंठे पासो । भणियं च णाए । अवि य ।
- 27 'जय ससुरासुर-कामिणि-जण-मण-वासम्मि सुट्ठु दुल्लिथि । जय पंचबाण तिहुयण-रण-मल्ल णमोत्थु ते धीर । 27
- एस विवज्जामि अहं पिययम-गुरु-गोत्त-वज्ज-णिहलिया । तह वि य देजसु मज्झं पुणो वि सो च्चेय दइओ' ति ॥
- भणंतीय पूरिओ पासओ, विमुक्कं अत्ताणयं । एत्थंतरम्मि
- 30 अह एसो दिण्णो च्चिय तुट्ठेण सुयणु तुज्झ मयणेणं । एवं समुल्लवतेण तेण बाहाहिं उक्खित्ता ॥ 30
- तओ 'अहो, पसण्णो धण्णाए भगवं कुसुमाउहो' ति भणंतीओ अहंहे वि पइसियाओ । विलक्खा य जाया पियसही ।
- अवणीओ पासओ । समारोविया सयणे । समासत्था य पुणो पियसही ।
- 33 तं तेहिं समाढत्तं णियब-हेल्लुच्छलंत-रसणिहं । जं पियसहि पाव तुमं वाससयं अक्खया मज्झ ॥ 33
- तओ 'सुहं वससु' ति भणंतीओ पविट्ठाओ अत्तणो घराहरेसु ।"

1 > P कामिजणो, J मोहद्धो, P ल्लेतो निंदेइ 2 > P ओयन्नो, P om य 3 > J जुअइजुवलय, J चित्तय, P पि सहासिर, P लय किं वच्चइ ता, J om दे 4 > J मतेय त्ति, P दीससि उक्कंपहासवसाखोयवेविर 5 > J तीय for तीए, J अउव, J वत्त for वुत्त 6 > J आगओ पियसहि सो अ वल्लहो, P पियमहीए सो, P om सव्वो, J om पाण 7 > J णिज्जत्तणे, P पयत्ता केली कइ, P महुमत्तेण, J कयणेण P कयन्तेण 9 > P तरडनिडाला, P रण व रसणा, JP फुरुफुरें, J सुअणू P सतणू 10 > P अणुणिउ 11 > P कुप्पसि, J मह किंपि केण किंपि, P कथ तुहं for तुज्झ किं 13 > P अवियारिय, P अज्जालज्ज, J तुम for तुमे 14 > P एत्थ पुव्ववयण, P हु 15 > P तु अहंहे for तुम्हे, P ठिइय for ठइय, P रोइउ, P दइए से 17 > P भणिओ for कहिओ 18 > P om पविट्ठो, P om य 19 > J च्चेय 20 > J अच्छसु, P अहंहे घराहरेसु, P निरुवियं, P पेच्छन्नाओ 21 > J om one किं, J om स, J adds य before सहीओ 23 > P दुस्सिक्खियाए, P पायवडियस्स 24 > J कइ, J soores भणियाओ 25 > J आमणा 27 > P जइ for जय, P वासंसि, J दूर for सुट्ठु, P दुल्लिया, J -मोह णमोत्थु ए धीर 28 > P एव for एस, P मज्ज पुणो य सो च्चेय 30 > P दिण्णा 31 > P om अहो, J ए for धण्णाए, P भणतीय, J om विलक्खा य जाया 32 > P उवणीओ, P समारोया सयणे, J पुणो सहि 34 > P घराहरेसु

1 § १६२) चित्तिर्यं च राहणा । 'अहो, णिन्भरो अणुराओ, णिउणो सही-सथो, वियट्ठो जुवाणो' ति । 'सन्वहा रम- 1  
णीयं पेम्मं' ति चित्तयंतो गंतुं पयत्तो । तम्मि य रायमग्गे वहल-त्तमंघयारे दिट्ठं राहणा एक्कं णयर-चच्चरं । तत्थ य किं किं पि 1  
उद्धागारं चच्चर-खंभ-सरिसं लक्खियं । तं च दट्ठण चित्तिर्यं णरवहणा । 'अहो, किमेत्थ णयर-चच्चरे इमं लक्खिज्जइ । 3  
ता किं पुरिसो वाउ थंभो ति । दे पुग्गि-लक्खणाइ थंभ-लक्खणाइं चेय णिरुवेमि' । ताव चित्तयंतस्स समागओ तत्थ  
णयर-वसहो । सो य तत्थ गंतूण अवघसिउं पयत्तो, सिंगग्गेण य उल्लिहिउं । तं च दट्ठण राहणा चित्तिर्यं । 'अहो, ण होइ 6  
एस पुरिसो, जेणेस वसहो एत्थ परिघसइ थंभं ति । ता किं थंभो होही, सो वि ण मए दिट्ठो दिवसओ । ता किं पुण 6  
इमं' ति चित्तयंतो जाव थोवंतरं वच्चइ ताव पेच्छइ ।

तव-णियम-सोसियंणं कसिणं मल-धूलि-धूसरावयवं । दव-दट्ठ-थाणु-सरिसं चच्चर-पट्टिम-ट्ठियं साहुं ॥  
2 तं च दट्ठण चित्तिर्यं राहणा । 'अहो धम्मणंदणस्स भगवओ एस संतिओ लक्खीयइ । तत्थ मए एरिसा रिसिणो दिट्ठ-पुच्चा । 9  
अहवा अण्णो को वि दुट्ठ-पुरिसो इमेणं रूवेणं होहिइ, ता दे परिकयं करेमि' ति चित्तिर्यं अयाल-जलय-विज्जुजलं  
असिवरं आयड्ढंतो पहाइओ 'हण हण' ति भणंतो संपत्तो वेणुं साहुणो मूलं । ण य भगवं ईसिं पि चलिओ । तओ 12  
जाणियं णरवहणा जइ एस दुट्ठो हंतो ता मए 'हण हण' ति भणिए पलायंतो खुहिओ वा हंतो । एस उण मंदर-सरिसो 12  
णिच्चलत्तणेणं, सायरो घ्व अक्खोभत्तणेणं, पुहई-मंडलं रंतीए, दिवायरो तव-त्तेणं, चंदो सोमत्तणेणं ति । ता एस  
धम्मणंदणस्स संतिओ होहिइ । ण सुंदरं च मए कयं इमस्स उवरिं महातवस्सिणो खगं कट्ठियं ति । ता खमावेमि 15  
एयं । एवं चित्तिर्यं भणियं । 15

'जइ वि तुमं सुसियंगो देव तुमं चेव तह वि वलिययोरो । जइ वि तुमं मइलंगो णाणेण समुज्जलो तह वि ॥  
जइ वि तुमं असहाओ गुण-गण-संसेविओ तह वि तं सि । जइ वि हु ण दंसणिज्जो दंसण-सुहओ तुमं चेय ॥  
18 जइ वि तुमं अवहत्थो क्षाण-महा-पहरणो तह वि णाह । जइ वि ण पहरसि सुणिवर मारोसि तहावि संसारं ॥ 18  
जइ वि वहएस-वेसो देव तुमं चेय सन्व-जण-णाहो । जइ वि हु दीणायारो देव तुमं चेय सप्पुरिसो ॥  
ता देव खमसु मज्झं अविणयमिणमो अयाण-भाणस्स । मा होउ मज्झ पावं तुह खग्गाकरिसणे जं ति ॥'  
21 भणंतो ति-पयाहिणं काऊण णिवडिओ चलण-जुवलए राया । गंतूण समादत्तो पुणो णयरि-रच्छाए । जाव थोवंतरं वच्चइ ता 21  
पेच्छइ कं पि इत्थियं । केरिसिया सा । अवि थ ।

कसिण-पड-पाउयंगी मूयल्लिय-णेउरा ललिय-देहा । रसणा-रसंत-भीरू सणियं सणियं पयं देंती ॥  
24 § १६३) तओ तं च दट्ठण चित्तिर्यं रायउत्तेण । 'दे पुच्छामि णं कत्थ चलिया एस' ति चित्तयंतो ठिओ पुरओ । 24  
भणियं च णेणं ।

'सुंदरि घोरा राई हत्थे गहियं पि दीसए णेय । साहसु मज्झ फुडं चिय सुयणु तुमं कत्थ चलिया सि ॥'  
27 भणियं च तीए । 27

'चलिया मि तत्थ सुंदर जत्थ जणो हियय-वल्लहो वसइ । भणसु य जं भणियव्वं अहवा मगं ममं देसु ॥'  
भणियं च रायउत्तेण । 30

'सुंदरि घोरा चोरा सूरा य भंमंति रक्खसा रोदा । एयं मह खुडइ मणे कह ताण तुमं ण वीहेसि ॥'  
तीए भणियं । 30

'णयणेसु दंसण-सुहं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । दइयाणुराय-भरिए सुहय भयं कत्थ अल्लियउ ॥'  
33 चित्तिर्यं च राहणा । 'अहो, गुरुओ से अणुराओ, सन्वहा सलाहणीयं एयं पेम्मं । ता मा केणइ दुट्ठ-पुरिसेणं परिभवीयउ 33

1 > P सहिसत्थो, P वियट्ठो 2 > P पेम्मं, J वहले, P om. य 3 > P क्खम, P adds व before लक्खिय 4 > P  
किं वा for ता किं, P रे for दे, P om थमलक्खणाइ, P च for चेय 5 > J तत्थागतूण, J उल्लिहिउं 6 > P वसओ, P  
repeats after एत्थ a portion from above beginning with गतूण व घसिउ पयत्तो सिंगग्गेण उल्लिहिउ etc. upto  
जेणेस वसओ एत्थ, P होहिई for होही, P हियइओ for दिवसओ 7 > P जाव for ताव 9 > P भगवतो, P लक्खियइ ति.  
10 > P ताहे for ता दे, P जल for जलय 11 > P आइड्ढतो, J हण ति. 12 > P मारेह for ता मए, P खुभिओ 13 >  
P om. व्व, P पुहई व मडल खवीओ 14 > J धम्मणंदणसत्तिओ, P adds य before सुदर, P उवरिमस्सिणो खग्गा 15 > P  
om. एय 16 > P ससियगो, P om. चेव, P तह वि धमवलियरो 17 > P ससेवि तह, P सि for हु 18 > P ससारे  
19 > J वईएसवेसो P वइएसवासो, P सन्वजगनाहो, P सि for हु 20 > P अयाणणस्स, P सग्गुक्करिसणेण ति 21 > P  
तिपयाहिणी काऊण, P जुवलए, J adds य after जाव 22 > P किं पि इत्थिय, P केरिसा य सा 23 > P पाउरगी  
मूयल्लिय, P रसंति for रसंत 24 > J adds च after चित्तिर्यं, J दे पेच्छामि, J ट्ठिओ 25 > J adds अवि य after णेणं.  
26 > P सुयण तुमं 28 > P चलियाम, P adds भणिय जं before भणियव्वं 30 > P भंमंति, P मणो कह. 32 > P फरिसं  
for हरिस, P सुकय for सुहय 33 > J अहो गुरुओ, P om. एयं, P केणइदुट्ठपुरिसिणं परिइविअओ



1 एसा । दे घर से पावेमि' त्ति चिंतयंतेण भणिया । 'वच्च वच्च, सुंदरि, जत्थ तुमं पत्थिया त पएसं पावेमि । अह तुज्झ 1  
रक्खो, मा वीहेसु' त्ति भणिए गंतुं पयत्ता, अणुमग्ग राया वि । जाव थोवंतर वच्चाति ताव दिट्ठो इमीए ससंभमो एज्जमाणो 3  
3 सो च्चेय णिय-दइओ । भणियं च णेण ।

'दइए ण सुदर ते रइयमिणं जं इमीए वेलाए । चलिया सि मज्झ वसइं अणेय-चिग्वाएँ राइए ॥

ए-एहि, सागयं ते । ता कुसल तुह सरीरस्स ।' तीए भणियं 'कुसलं इमस्स महाणुभावस्स महापुरिगस्स पभावेणं' । दिट्ठो 6  
6 य णेण राया । भणिय च णेण । 'अहो, को वि महासत्तो पच्छण-वेसो परिभमइ' त्ति चिंतयंतेण भणियं अणेण जुवाणेण । 6

'ए-एहि सागयं ते सुपुरिस जीयं पि तुज्झ आयत्त । जेण तए मह दइया अणहा हो पाविया एत्थ ॥'

भणियं च राइणा ।

9 'तं सुहओ तं रूवी त चिय बहु-सिक्खिओ जुवाणाण । एइ गुण-पास-वद्धा जस्स तुहं एस धवलच्छी ॥' 9  
त्ति भणमाणो राया गंतुं पयत्तो । राइए वहले तमधयारे णयर-मज्झमि वहुए वियट्ठ-जुवाण-जुचलय-जपिय-हसिओग्गीय-  
विलासिए णिसामंतो संपत्तो पायार । तं च केरिसं । अवि य ।

12 तुंग गयण-विलगं देवेहि वि जं ण लघियं सहसा । पायालमुचगएण फरिहा-वद्धेण परियरियं ॥ 12  
तं च पेच्छिऊण राइणा दिणं विज्जुक्खित्त करण । उप्पइओ णहगणं । केरिमो य सो दीसिउं पयत्तो । अवि य ।

विज्जुक्खित्ताइओ दीसइ गयणंगणे समुप्पइओ । अहिणव-साहिय-विज्जो इय सोहइ खग्ग-विज्जहरो ॥

15 ण हु णवर लघिओ सो पायारो तुंग-लग्ग-णह-मग्गो । पडिओ समपाओ च्चिय फरिहा-बंधं पि बोलेउं ॥ 15  
अणुत्तुणो च्चेय गंतु पयट्ठो ।

§ १६४) कि बहुणा संपत्तो तमुज्जाणं, जत्थ समावासिओ भगव धमणंदणो । पविट्ठो य अणेय-तरुयर-पायव-

18 वल्ली-लया-सविसेस-वहलंधयारे उज्जाण-मज्झमि । उवगओ य सिंदूर-कोट्टिम-समीवमि । दिट्ठा य णेण साहुणो भगवंते । 18  
कम्मि पुण चावारे वट्टमाणे त्ति ।


केइ पढंति सउण्णा अचरे पाढंति धम्म-सत्याइ । अचरे गुणेति अचरे पुच्छति य संसए केइ ॥

21 वक्खाणति कयत्था अचरे वि सुणंति के वि गीयत्था । अचरे रणंति कव्वं अचरे ज्ञाणमि वट्टति ॥ 21  
सुस्सूसति य गुरुणो वेयावच्च करंति अण्णे वि । अण्णे सामायारिं सिक्खंति य सुत्थिया वहुसो ॥  
दसण-रयणं अण्णे पालंति य के वि कह वि चारित्तं । जिणवर-नाणहर-रइयं अण्णे णाणं पसंसंति ॥ अवि य ।

24 सुत्तथ-ससयाइ य अचरे पुच्छंति के वि तित्थेय । णय-जुत्ते वादे जे करंति अब्भास-वायमि ॥ 24  
धम्माधम्म-पयत्थे के वि णिरुवेंति हेउ-वादेहिं । जीवाण वंध-मोक्खापय च भावेंति अण्णे वि ॥  
तेलोक्क-वदणिजे सुक्कज्जाणमि के वि वट्टति । अण्णे दोगाइ-णासं धम्मज्जाण समल्लीणा ॥

27 मय-माण-कोह-लोहे अचरे णिंदंति दिट्ठ-माहण्ये । दुइ-सय-पउरावत्त अचरे णिंदति भव-जलहिं ॥ 27  
इय देस-भत्त-महिला-राय-कहाणत्थ-वज्जिय दूर । सज्जाय-ज्ञाण-णिरए अह पेच्छइ साहुणो राया ॥

तं च दट्टण चिंतिय राइणा । 'अहो, महप्पभावे भगवंते जहा-भणियाणुट्ठाण-रए । ता पेच्छामि ण कत्थ सो भगव धम्म-  
30 णदणो, 'कि वा करेइ' त्ति चिंतयंतेण णिरुविय जाव पेच्छइ एयते णिविट्ठ । ताण तदियस-णिकखताण पंचणह वि जणाण 30  
धम्मकह साहेमाणो चिट्ठइ । चिंतिय य राइणा । 'दे णिसुणेमि ताव किं पुण इमाण साहिज्जइ' त्ति चिंतयंतो एकस्स  
तरुण-तमाल-पायवस्स मूले उवविट्ठो सोउ पयत्तो त्ति ।



1 > P चिंतियतेण, P वच्चावच्च 2 > P भतु for गतु 3 > P सो च्चेय नियय 4 > P सुदरं तो इयमिण 5 > J om एएहि  
सागय ते, J तीय 6 > P तेण for णेण, P के वि, P चिंतियतेण, P भणियमणेण, P om जुवाणेण 7 > J सुपुरिस 9 > P इय  
for एइ, J जइ for जस्स 10 > J om त्ति, P राइं वहले, J णायरमज्झमि, P वियट्ठ, P जुवलजपियहरिय, P om सिओग्गीय-  
विलासिए etc to वद्धेण परियरिय 13 > P व च दट्टण गइणा, P किरण for करण 14 > P कियत्ताइट्ठा, P गयणगण, P  
साहियविज्जो 15 > P नवर, J तुगमग्गणहलग्गो, J वधमि 16 > P अणुत्तरो च्चेय, J पयत्तो । 17 > J तम्पायव, P  
पायवही 18 > P बहुलधयारे, P om य, P समीव, P om भगवते 20 > J पठति, P मुणति for गुणंति, JP om. य, P  
संसय, J केइ 21 > P om कयत्था अचरे वि सुणंति, P केइ गीयत्था, J रयति 22 > P सामायारी 23 > J सालंति  
(some portion written on the margin) P पालति, J om अवि य 24 > J ससयाइ, P तत्थेय, P सदत्थोम्यजुत्तो  
for णयजुत्ते, J वादे ये P वादे य, P अब्भासं । 25 > P केइ, P हेउवाएहिं, P मोक्खोगइ च, J पावेंति for भावेंति 26 >  
P वदणिजा 27 > P माहण्ये 28 > P वज्जिया 30 > P om त्ति, JP चिंति° for चित°, P अतो for एयते, P  
तदियहदिकिखाण पचणइ 31 > P om चिट्ठइ, P दे सणिय मुणेमि 32 > P मूले उवस्स मूले उव°

- 1 § १६५) भणियं च भगवया धम्मणंदणेण । 'देवाणुपिया,  
पयडं जिणवर-मगं पयडं णाणं च दंसणं पयडं । पयडं सासय-सोक्खं तथा वि बहवे ण पावेंति ॥ 1
- 3 पुहवी-जल-जलणाणिल-वणस्सई-णेय-तिरिय-भेएसु । एएसु के वि जीवा भमंति ण य जंति मणुयत्तं ॥ 3  
मणुयत्तणे वि लद्धे अंतर-क्षीवेषु णेय-रूवेसु । अच्चंति भमंत चिय आरिय-खेत्तं ण पावेंति ॥  
आरिय-खेत्तम्मि पुणो णिंदिय-अहमासु होंति जाईसु । जाइ-विसुद्धा वि पुणो कुलेसु तुच्छेसु जायंति ॥
- 6 सुकुले वि के वि जाया अंधा वहिरा य होंति पंगू य । वाहि-सय-दुक्ख-तविया ण उणो पावेंति आरोगं ॥ 6  
आरोगगमि वि पत्ते वाल चिय के वि जंति काल-वसं । के वि कुमारा जीवा इय दुलहं आयं होइ ॥  
वास-सयं पि जियंता ण य बुद्धिं देंति कह वि धम्ममि । अवरे अवसा जीवा बुद्धि-विहूणा मरंति पुणो ॥
- 9 अह होइ कह वि बुद्धी कम्मोवसमेण कस्स वि जणस्स । जिण-वयणामय-भरियं धम्मायरियं ण पावेंति ॥ 9  
अह सो वि कह वि लद्धो साइइ धम्मं जिणेहिं पणत्तं । णाणावरणुदणं कम्मेण ण ओगहं कुणइ ॥  
अह कह वि गेणइ चिय दंसण-मोहेण णवरि कम्मेण । कु-समय-मोहिय-चित्तो ण चेय सइं तहिं कुणइ ॥
- 12 अह कुणइ कह वि सइं जाणंतो चेय अच्छए जीवो । ण कुणइ संजम-जोयं वीरिय-लद्धीएं जुत्तो वि ॥ 12  
इय हो देवाणुपिया दुलहा सव्वे वि एत्थ लोयमि । तेलोक्क-पायड-जसो जिणधम्मो दुल्लहो तेण ॥

भणियं च भगवया सुधम्मसामिणा ।

- 15 माणुस्स-खेत्त-जाई-कुल-रूवारोगमाउगं बुद्धी । समणोगह-सद्धा संजमो य लोयमि दुलहाइं ॥ 15  
एक्के ण-यणंत चिय जिणवर-मगं ण चेय पावेंति । अवरे लद्धे वि पुणो संदेहं णवर चित्तेति ॥  
अण्णाण होइ संका ण-याणिमो किं हवेज मह धम्मो । अवरे भणंति मूढा सव्वो धम्मो समो चेय ॥
- 18 अवरे बुद्धि-विहूणा रत्ता सत्ता कुतित्थ-तित्थेसुं । के वि पसंसंति पुणो चरग-परिच्चाय-दिक्खाओ ॥ 18  
अवरे जाणंति चिय धम्माहम्माण जं फलं लोए । तह वि य करेंति पावं पुव्वजिय-कम्म-दोसेण ॥  
अवरे सामणमि वि वट्टंता राग-दोस-वस-मूढा । पेसुण्ण-णियडि-कोवेहिं भीम-रूवेहिं घेयंति ॥
- 21 अण्णे भव-सय-दुलहं पावेऊणं जिणंद-वर-मगं । विसयासा-मूढ-मणा संजम-जोए ण लगंति ॥ 21  
ण य होंति ताण भोया ण य धम्मो अलिय-विरहयासाणं । लोयाण दोण्ह सुक्का ण य समो णेव य कुलमि ॥  
अवरे णाणत्थद्धा सव्वं किर जाणियं ति अम्हेहिं । पेच्छंत चिय डद्धा जह पंगुलया वण-दवेणं ॥
- 24 अवरे तव-गारविया किर किरिया मोक्ख-साहणा भणिया । इज्झंति ते वि मूढा धावंता अंधया चेव ॥ 24  
इय बहुए जाणंता तह वि महामोह-पसर-भर-मूढा । ण करेंति जिणवराणं भाणं सोक्खाण संताणं ॥'

एत्थंतरमि चित्तिं णरवइणा तमाल-पायवंतरिएण । 'अहो, भगवया साहियं दुल्लहत्तणं जिणवर-मगस्स । ता सव्वं 27  
सच्चमेयं । किं पुण इमं पि दुल्लहं रज-महिला-घर-परियण-सुहं । एयं अणुपालिय पच्छा धम्मं पेच्छामो' त्ति चित्तयंतस्स 27  
भगवया लक्खिओ से भावो । तओ भणियं च से पुणो भगवया धम्मणंदणेणं ।

जं एयं घर-सोक्खं महिला-मइयं च जं सुहं लोए । तमणिच्चं तुच्छं चिय सासय-सोक्खं पुणो णंतं ॥ जहा ।

- 30 § १६६) अत्थि पाडलिपुत्तं णाम णयरं । तत्थ वाणियओ धणो णाम । सो य धणवइ-सम-धणो वि होऊण 30  
रयणदीवं जाणवत्तेण चलिओ । तस्स य वच्चमाणस्स समुद्ध-मज्झे महा-पवण-रूविणा देव्वेण वीई-हिंदोलयारूढं कह कह  
वि टस त्ति दलियं जाणवत्तं । सो य वाणियओ एक्कमि दलिय-फलहए वलगो, तरंग-रंगंत-सरीरो कुडंगदीवं णाम दीवं  
33 तत्थ सो पत्तो । तत्थ य तण्हा-सुहा-किलंतो किंचि भक्खं मगइ जाव दिट्ठो सो दीवो । केरिसो । अवि य । 33

1 > P देवाणुपिया 2 > J बहुए for बहवे 3 > P जलणानिल, P मेदेसु, P कि वि जीवा 4 > P अच्छति भमंतं चिय.  
5 > P निंदिययत्तमा य होंति 6 > J पंगू या, P वाहिय, P उणो for ण उणो, P om आरोग 8 > P अवरे अवरे for अवसा,  
J होवि P होंति for होइ, P कस्सइ जणस्स 10 > P कह कह for अह सो वि 11 > P कह for अह, P मेहिए for गेणइ,  
P सई. 13 > J अह for इय, J दुलहं सव्वमि एत्थ 15 > P 'रोगमाउय, J लोयमि 16 > J णयणति, P चियं, P चेव,  
J पावेंति, P चित्तेति. 18 > P कुतित्थेसु, P चरय for चरग 19 > P धमाधंमाण, P पुव्वक्कियकम 20 > J रायदोस 21 >  
J दुल्लहं, J मूढमणो 22 > J भोयाण for लोयाण, J य मग्गे खत्तिअकुलमि 23 > P नाणं सव्वं एय किर, P पेच्छति य चिय दट्ठ  
(J दट्ठा?) जह 24 > P किरि for किर, P मूढो 27 > J om. पि, P दुल्लहरज्ज, P अणुपालिय, J पेच्छामो 28 > P भावा ।  
ततो भणिय पुणो पि भगवया 30 > P पाडलिपुत्तं, P वणियो 31 > P रयणदीवं, P om. महा, P देव्वेण, P कहं कह पि दस  
त्ति स दलिय 32 > P फलिहए विलगो, P कुडंगदीवं, J णाम दीवं 33 > P तत्थ य सपत्तो, P om तत्थ य, J P danda  
after मगइ

- 1 अप्फल-कडुय-कुडगो कंटय-खर-फरुस-रुक्ख-सय-पउरो । हरि-पुलि-रिच्छ-दीविय-सिव-सउण-सएहिं परियरिओ ॥ 1
- मल-यंक-पूह-पउरो भीम-सिवाराव-सुव्वमाण-रवो । दोस-सय-दुक्ख-पउरो कुडगदीवो त्ति णामेणं ॥
- 3 तम्मि य तारिसे महाभीमे उव्वियणिजे भमिउ सो समाढत्ते । तेण य तत्थ भमतेण सहमा दिट्ठो अण्णो पुरिसो । पुच्छिओ 3
- य सो तेण 'भो भो, तुम कत्थेत्य दीवे' । तेण भणिय 'मह सुवण्णदीवे पत्थियस्स जाणवत्त फुडियं, फलयाल्लगो य एत्थ
- सपत्तो' । तेण भणिय 'पयट्ठ, समं चेय परिभमामो' । तेहि य परिभममाणेहिं अण्णो तड्ढो दिट्ठो पुरिसो । तओ तेहिं
- 6 पुच्छिओ 'भो भो, तुम कत्थेत्यागओ दीवे' । तेण भणिय 'मह लकाउरिं वच्चमाणस्स जाणवत्त दलिय, फलहयाल्लगो एत्थ 6
- संपत्तो' त्ति । तेहिं भणिय 'सुदर, ठे सम-दुक्ख-सहायाणं मेत्ती अम्हाणं । ता एत्थ कहिंत्ति तुने पायवे भिण्ण-वहण-चिंधं
- उत्थेमो' । 'तह' त्ति पडिबज्जिऊण उट्ठिभय वक्खंलं तरुवर-सिहरम्मि । तओ तण्हा-रुहा-किलंता अम्पण अण्णेसिऊण पयत्ता ।
- 9 ण य किञ्चि पेच्छति तारिस रुक्ख जत्थ किर फल उप्पज्जइ त्ति । तओ एवं परिभमणुव्वाएहि दुक्ख-सय-विहलंहेहिं कह-कह पि 9
- पावियाइ घरायाराइ तिण्णि कुडगाइ । तत्थ एक्केक्कम्मि कुडगो एक्केक्का काउवरी । त च पेच्छिऊण ऊससिय हियएण, भणिऊण
- य समाढत्ता । 'अहो, पाविय जं पावियव्व, णिव्वुया सपय अम्हे, सपत्ता जहिच्छियं सोक्ख' त्ति भणमाणेहिं विरिक्काइ तेहिं
- 12 अवरोप्पर कुडंगाइ । पलोइयाणि ये तेहि काउवरीहि फलाइ । ण य एक्क पि दिट्ठ । तओ दीण-विमण-दुम्मणा फुट्ट-मुहा 12
- कायल-लीव-सरिसा अच्छिउ पयत्ता । तओ केण वि कालतरेण मणोरह-सएहिं णव-कक्ख-सणाहाओ जायाओ ताओ
- काउवरीओ । तओ आसाइयं किञ्चि-मेत्त-फल । तहा तत्थ णिव्वहासा तम्मणा तल्लेसा जीविय-वल्हहाओ ताओ काउवरीओ
- 15 सउण-कायलोवहवाणं रक्खंता अच्छिउ पयत्ता । अच्छंताण य ज त तेहिं कय भिण्ण-वहण-चिंधं त पेच्छिऊण कायव्व- 15
- करुणा-परिगएण केणावि वणिएण दोणं घेत्तूण पेसिया णिज्जामय-पुरिसा । ते य आगतूण त दीव अणिस्सति । दिट्ठा य
- तेहिं ते तिण्णि पुरिसा कुडंग-काउवरी-वद्ध-जीवियासा । भणिया य तेहि णिज्जामय-पुरिसेहिं । 'भो भो, अम्हे जाणवत्त-
- 18 वहणा पेसिया, ता पयट्ठह, तड णेमो, मा एत्थ दुक्ख-सय-पउरे कुडंग-दीवे विवज्जिहिह' त्ति । तओ भणिय तत्थ एक्केण 18
- पुरिसेण । 'किमेत्थ दीवे दुक्ख, एयं घर, एसा काउवरी फलिया, पुणो पच्चीहिइ । एय असण पाण पि कालेण बुट्ठे ठेवे
- भविहिइ त्ति । किं च एत्थ दुक्खं, किं वा तत्थ तीरे अवर सुह त्ति । ता णाह वच्चामि । जलहि-मज्जे वट्टमाणस्स एय पि ण
- 21 हवीहइ' त्ति भणिऊण तत्थेय ट्ठिओ । तओ तेहिं णिज्जामय-पुरिसेहिं विइओ भणिओ । सो वि वोत्तु पयत्तो । 'सव्वमिणं 21
- दीव दुह-सय-पउर, ण एत्थ तारिस मणुण सुह । किंतु इमाइ उडयाइ, इमा य वराइणी काउवरी फलिया मए परिचत्ता
- सउण-कायल-प्पमुहेहिं उवइवीहिइ त्ति । ता इमाए पिक्काए फलं उवभुज्जिऊण पुणो को वि णिज्जामओ एहिइ, तेण समय
- 24 वच्चीहामि, ण संपडइ सपय गमणं' त्ति भणिऊण सो वि तम्मणो तत्थेव ट्ठिओ त्ति । तओ तेहिं तड्ढो पुरिसो भणिओ 24
- 'पयट्ठ, वच्चामो' । तेण भणियं । 'सागय तुम्हाण, सुदर कय ज तुम्हे आगया । तुच्छमिण एत्थ सोक्ख अणिच्च च ।
- वहु-पच्चवाओ य एस धीवो । ता पयट्ठह, वच्चामो' त्ति भणमाणो पयट्ठो तेहिं णिज्जामएहिं समय । आरुओ य दोणीए ।
- 27 गया तड । तत्थ पुत्त-मित्त-कलत्ताणं धण-धण्ण-सपयाए य मिलिया सुह अणुहवति । ता कि । भो, 27
- देवाणुपिया एसो दिट्ठो तुम्ह ताव मे ट्ठिणो । जह एय तह अण्ण उवणयमिणमो णिसामेहि ॥
- § १६७) जो एस महाजलही ससार ताव तं वियाणाहि । जम्म-जरा-मरणावत्त-सकुल त पि दुत्तार ॥
- 30 जो उण कुडग-दीवो माणुस-जम्मो त्ति सो मुणेयव्वो । सारीर-माणसेहिं य दुक्खोहिं समाउलो सो वि ॥ 30
- जे तत्थ तिण्णि पुरिसा ते जीवा होति तिप्पयारा वि । जोणी-लक्खाउ चुया मणुस्स-जम्मम्मि ते पत्ता ॥
- तत्थ वि उडय-सरिच्छा तिण्णि कुडगा घरोहिं ते सरिसा । काउवरीओ जाओ महिलाओ ताण ता होति ॥
- 33 जाइ तत्थ फलाइं ताइं ताण तु पुत्त-भंडाइं । अलिय-कयासा-पासा तं चिय रक्खंति ते मूढा ॥ 33

1) P कुड for कडुय, P फरुमयपउरो, P हरिफुळिंरिछ 3) J भमिऊण, P om सहमा 4) P om य, P अह for मह, P फलहया, P om य 5) J परिभमामो, P om य, J om तओ 6) J om भो भो, P कत्थेत्य दीवे, P मम for मह, P फलहयाविल्लगो 7) P सुदर, P सुक्ख for दुक्ख, P पच्छा for एत्थ, J चिद्ध (?) उम्मेओ 8) P उट्ठिउ 9) P रुक्ख, P उप्पज्जइ, J om तओ, P परिभमं, P कहि for कहकह पि 10) P घरागाराइ, P एक्केक्क पि कुडमे एक्केक्को, P ससिय for ऊससिय 11) P adds न after अहो, J जहच्छिय P कहिच्छिय, J विरिक्कायाइ 12) J om य, P विमणा पुट्ट 13) J काय for कायल, P सरीसा, P तेण for केण, J कक्कसणाहाओ 14) P काउवरीओ, P आसाइय, P om मेत्त, J फला, J om तहा 15) J कहिअ for कय, J चिद्ध 16) P दोणी, J अणिस्सति 17) P om तेहि, J om ते, P कुडगा य काउ, P om वद्ध, J अम्हेहिं for अम्हे 18) J कुडग, P विवज्जिहि त्ति 19) P पुणो वच्चीहि त्ति, J बुट्ठो देवो 20) P भविहिंति त्ति, P किं चि, P अवरिं सुह त्ति, P न भविहि त्ति 21) P तत्थेव, P वीथो for विइओ, J मव्व णिम. 22) P पउरं न, P इमाइ वरा 23) P उवइविहि त्ति, J om त्ति, P इमीए पक्काए, P निज्जामए ओहिइ 24) P वच्चीहामी, J विमणो for तम्मणो 25) P तुम्हे, J तुच्छ णिम एत्थ 26) P om ता, P पयट्ठ, J om य 27) P om य before मिलिया, P om ता किं भो 28) P देवाणुपिया एस, J तुम्हाण P अम्ह for तुम्ह (emended) 30) P माणुसेहिं 31) P वि भमिऊण जोणिलक्खाउ माणुसजम्मि ते पयत्ता ॥ 32) P य for वि, J पुरिसा for सरिसा, J जा वि य for जाओ, P om ताण 33) P कया माया त चिय

- 1 दारिद्र-वाहि-दुह-सय-सउणाणं रक्खण उ तं मूढो । ताणं चिय सो दासो ण-यणइ जं अत्तणो कज्जं ॥ 1  
जे णिज्जामय-पुरिसा धम्मायरिया भवन्ति लोगम्मि । जा दोणी सा दिक्खा जं तीरं होइ तं मोक्खं ॥
- 3 संसार-दुक्ख-तविण्ण जीवे तारंति ते महासत्ता । जंगम-तित्थ-सरिच्छा चिंतामणि-कप्परुक्ख-समा ॥ 3  
तुच्छा एण भोया माणुस-जम्मम्मि णिंदिया बहुसो । ता पावसु सिद्धि-सुहं इय ते मुणिणो परुवन्ति ॥  
तत्थेक्को भणइ इमं एयं चिय एत्थ माणुसे दीवे । जं सोक्खं तं सोक्खं मोक्ख-सुहेणावि किं तेण ॥
- 6 पुत्त-पिह-दार-बंधू-माया-पासेहिं मोहिओ पुरिसो । तं चिय मण्णइ सोक्खं घर-वास-परेण धम्मेण ॥ 6  
साहंताण वि धम्मं तीर-सुहं जह थ ताण पुरिसाण । ण थ तं मोत्तुं वच्चइ केण वि मोहेण मूढप्पा ॥  
सो जर-मरण-महाभय-पउरे संसार-णयर-मज्झम्मि । गट्ठा-सूर-सरिसो रमइ च्चिज्ज जो अभव्व-जिओ ॥
- 9 विहओ वि काल-भविओ पडिवज्जइ मुणिवरोहिं जं कहियं । तीर ति गंतुमिच्छइ किंतु इमं तत्थ सो भणइ ॥ 9  
भगवं घरम्मि महिला सा वि विणीया थ धम्मसीला थ । मुंचामि कस्स एयं वराइणिं णाह-परिहीणं ॥  
पुत्तो वि तीय-जोग्गो तस्स विवाहं करेमि जा तुरियं । दुहिया दिण्ण च्चिय मे अण्णो पुण वालओ चेय ॥
- 12 ता जाव होइ जोग्गो ता भगवं पव्वयामि णियमेण । अण्णो वि ताव जाओ ते वि पलासा थ ते दिग्घा ॥ 12  
णाऊणं जिण-वयणं जं वा तं वा वलंबणं काउं । अच्छंति घरावासे भविया कालेण जे पुरिसा ॥  
तइओ उण जो पुरिसो सोऊणं धम्म-देसणं सहसा । संसार-दुक्ख-भीरु च्चित्तेऊणं समाढत्तो ॥
- 15 वाहि-भव-पाव-कलिमल-कंटय-फरुसम्मि मणुय-लोगम्मि । अच्छेज्ज को खणं पि विमोक्ख-सुहं जाणमाणो वि ॥ 15  
घर-वास-पास-बद्धा अलिय-कयासावलंबण-मणा थ । गेण्हंति णेय दिक्खं अहो णरा साहस-विहूणा ॥  
ता पुण्णेहिं महं चिय संपत्ता एत्थ साहुणो एण । दिक्खा-दोणि-वलग्गा तीर-सुहं पाविमो अम्हे ॥
- 18 कणयं पि होइ सुलहं रयणाणि वि णवर होंति सुलहाइं । संसारम्मि वि सयले धम्मायरिया ण लब्भंति ॥ 18  
ता होउ मह इमेणं जम्म-जरा-मरण-दुक्ख-णिलएणं । पावेमि सिद्धि-वसइं तक्खण-भव्वो इमं भणइ ॥  
ता मा च्चित्तेसु इमं एयं चिय एत्थ सुंदरं सोक्खं । उंबरि-कुडंग-सरिसं तीर-सुहाओ विमोक्खाओ ॥ त्ति ।
- 21 § १६८) एत्थंतरम्मि भणियं चंडसोमप्पसुहेहिं पंचहिं वि जणेहिं । 21  
'जह आणवेसि भगवं पडिवज्जामो तहेय तं सव्वं । जं पुण तं दुच्चरियं हियए सल्लं व पडिहाइ ॥'  
भणियं च भगवया धम्मणंदणेणं ।
- 24 'एयं पि मा गणेज्जसु जं किर अम्हेहिं पाव-कम्मं ति । सो होइ पाव-कम्मो पच्छायावं ण जो कुणइ ॥ 24  
सो णत्थि कोइ जीवो चउ-गइ-संसार-चारयावासे । माइ-पिह-भाइ-भइणीओ णंतसो जेण णो वहिया ॥  
ता मारिऊण एक्को णिंदण-गुरु-गरहणाहिं सव्वाहिं । लहुयं करेइ पावं अवरो तं चेय गरुएइ ॥
- 27 तुब्भे उण सप्पुरिसा कह वि पमाएण जे करेउं जे । पावं पुणो णियत्ता जेण विरत्ता घरासाओ ॥ 27  
इमं च एत्थ तुब्भेहिं पायच्छित्तं करणीयं' ति साहियं किं पि सणियं धम्मणंदणेणं । तं च राइणा ण सुयं ति । एत्थंतरम्मि  
इंदिय-चोरेहिं इमो पडिवज्जइ इय मुसिज्जए लोए । जायम्मि अड्ड-रत्ते बुक्करियं जाम-संखेण ॥
- 30 ताव थ च्चित्तियं राइणा । 'दुट्ठु मे च्चित्तियं जहा इमम्मि मयण-महूसवे किं करंति साहुणो । ता को अण्णो इमाणं चावारो 30  
त्ति । अवि थ ।  
जं कणयं कणयं चिय ण होइ कालेण तं पुणो लोहं । इय णाण-विसुद्ध-मणा जे साहू ते पुणो साहू ॥ सव्वहा
- 33 जं जं भणंति गुरुणो अज्ज पभायम्मि तं चिय करेमि । को वा होज्ज सयण्णो इमस्स आणं ण जो कुणइ ॥' त्ति । 33

1) J सो for त, J दोसो for दासो, P नयण for णयणइ 2) P हवति, J लोअम्मि, P जा for ज, P होंति त.  
3) P तारति, P मे for ते, P कप्प for तित्थ, P inter. रक्ख & कप्प 5) P तत्थेक्को 6) P तित्तपियदारवधू, P मायाइ  
for पासेहिं, P मग्गइ for मण्णइ 7) P तीरसुज जह 8) P गत्ता for गट्ठा, P रइमइ for रमइ, J अहव्व 9) J थ for  
वि, P om. ति 10) P मुंचामि for मुंचामि, P वराइणी 11) P उण for पुण 12) P ता होइ जो व जोग्गो, J थ त  
दिघा 15) J मणुअलोअम्मि, J जो for को 16) J कसायावलंबणमणा या । 17) P साहुणा, P विलग्गो 18)  
J रयणाइ णवर 19) P वसहिं 20) P मुक्ख for सोक्ख, P कुडुंग 21) J वि for वि 22) P तहेव, P om. त  
after पुण, P दुच्चरियाइ, P सल्लं 25) P को वि जीवो, J माइपियि P मायपिय, P अणंतसो for णतसो 26) J एक्क  
for एक्को, P गरुएइ 27) P तुब्भे for तुब्भे, P नियत्ता for विरत्ता 28) P भणियं for सणियं, J सुतं ति, P om.  
एत्थंतरम्मि 29) P लोओ 32) P om सव्वहा 33) P पहायमि, P सउण्णो

1 अवि य चित्तयंतो राया गंतुं पयत्तो । चित्तियं च णरवद्दणा । 'अहो, ण-याणीयद् गुरुणा अहं जाणिओ ण व त्ति इहागओ । 1  
अहवा किं किंचि अत्थि तेलोक्के जं ण-याणद् भगवं धम्मणंदणो । ता किं पयडं चिय वंदामि । अहवा णहि णहि, इमं एयं  
3 समुब्भड-भीसणं मुणियण-चरिय-विरुद्धं वेस-गहणं भगवओ दंसयामि लज्जणीयं ति । ता माणसं चिय करोमि पणामं । 3

जय संसार-महोवहि-दुक्ख-सयावत्त-भंगुर-तरगे । मोक्ख-सुह-तीर-गामिय णमोत्थु णिज्जामय-सरिच्छ ॥'

त्ति चित्तयंतो णिग्गओ उज्जाणाओ, संपत्तो पायार, टिण्ण विज्जुविरत्तं करणं, लघियं, संपत्तो रायमग्ग, पत्तो धवलहर,  
6 आरूढो पासाए, पविट्ठो वासहर, णिसण्णो पल्लंके, पसुत्तो य । 6

§ १६९) साहुणो भगवंते कय-सज्जाय-चावारे कयावस्सय-करणे य खणंतर णिद्द सेविज्जण विबुद्धे वेरत्तियं काल  
काउमाढत्ता । एत्थ य अवसरे किंचि-सेसाए राईए, अरुणप्पभा-रजिए सयले गयणंगणाभोए, महु-पिगलेसु मुत्ताहलेसु व  
9 तारया-णियरेसु, पढियं इमं पाहाउय-दुवह-खंडय वंदिणा । अवि य । 9

अवर-समुद्द-तीर-पुलिणोयरए परिमद्द-नामणियं । विरहुव्वेय-दुक्ख-परिपंदुरियं ससि-चक्कवाइयं ॥

पुव्वोयहि-तीरयाओ संगम-रहसुद्धीण-देहओ । इच्छद्द अहिलसिज्जण दइयं पिव तं रवि-चक्कवायओ ॥

12 जोण्हा-जल-पडिहत्थए गयण-सरे णिम्मले पहायम्मि । मउलद्द अरुणाइद्दउ तारा-चंदुज्जयाण सत्यमों ति ॥ 12

णाणा-गयण-मणो-हरिय तउ अंगोहिं विलसत । मेळ्ळि भडारा णिद्द तुहु अण्णु विइज्जिय कंत ॥

इमं च वंदिणा पढियं णिसामिज्जण जंभा-वस-वलिउव्वेळमाण-बाहु-फलिहो णिहा-घुम्मिरायं-व-गयण-जुवलो समुट्ठिओ राया  
15 सयणाओ । कयं च कायावस्सय-करणीयं । उवगओ अत्थाण-मंडव जाव जोक्कारिओ वासवेण । भणियं च राहणा 'भो भो 15  
वासव, कीस ण वच्चिमो भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूल' । भणिय च वासवेण 'जहा पहू आणवेह' ति । पयत्ता गंतु,  
समारूढा य वारुया-करिणिं, णिग्गया य णयरीओ । सपत्ता तमुज्जाण । वंदिओ भगव धम्मणदणो साहुयणो य ।

18 पुच्छिया य भगवया पडत्ती, साहिया य णेहिं । भणियं च भगवया । 'भो भो महाराय पुरदरदत्त, किं तुह वल्लगं 18  
किंचि हिययम्मि' । तओ राहणा चित्तियं । 'णिस्संसय जाणिओ भगवया इहागओ' ति चित्तयंत्तेण भणियं च णेण ।  
'भगवं, जारिस तए समाइद्द वारिसं सव्वं पडिवण्ण । कित्तु इमे कुडंग-काउंबरी-फलाणि मोत्तुं ण चाएमि । ता इह-

21 ट्टियस्स चेय देसु भगवं, किंचि संसार-सागर-तरडय' ति । भगवया भणियं । 'जइ एवं, ता गेण्ह इमाइं पंचाणुव्वय- 21  
रयणाइं, तिण्णि गुणव्वयाइं, चत्तारि सिक्खावयाइ, सम्मत्त-मूल च इमं दुवालस-विह सावय-धम्मं अणुपालेसु' ति ।  
तेणावि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण पडिवण्णं सम्मत्तं, गहियाइ अणुव्वयाइं, सव्वहा गहियाणुव्वओ अणण-देवो जाओ


24 राया पुरदरदत्तो । वासवो वि तुट्ठो भणिउमाढत्तो । 'भगव, किं पि तुम्हाणं वुत्तं अम्हे ण-याणिमो' । भगवया भणियं । 24  
'इमो चेय कहइस्सइ ति । अम्हाण सुत्तथ-पोरिसीओ अहक्कमंति । गंतव्वं च अज्ज अम्हेहिं' । इमं च सोऊण मण्णु-भर-

कंठ-गग्गर-गिरेहिं भणियमणेहिं । अवि य ।

27 'अम्हारिसाण कत्तो हियइच्छिय-दइय-संगम-सुहेळी । एयं पि ताव बहुयं ज दिट्ठं तुम्ह चलण-जुयं ॥ 27  
ता पुणो वि भगवं, पसाओ करियव्वो दसणेण' ति भणमाणा णिवडिया चलण-जुवलए भगवओ । अभिणंदिऊण य त्तिउणं  
पयाहिण काऊण पविट्ठा कोसंबीए पुरवरीए । भगवं पि सुत्तथ-पोरिसिं करिय तप्पभिइं च सिव-सुह-सुभिक्ख-खेत्तेसु

30 विहरिउं पयत्तो । भगव गच्छ-परिवारो । ते वि थोवेणं चिय कालेणं अधीय-सुत्तथा जाया गीअत्था पंच वि जणा । ताण च 30  
एग-दियह-वेला-समवसरण-पव्वइयाणं ति काऊण महतो धम्माणुराय-सिणेहो जाओ ति ।

§ १७०) अह अण्णया कयाइ ताणं सुहं सुहेण अच्छमाणाणं जाओ संलावो । 'हो हो, दुल्लहो जिणवर-मग्गो, ता  
33 कहं पुण अण्ण-भवेसु पावेयव्वो ति । ता सव्वहा किमेत्थ करणीय' ति चित्तिऊण भणिओ पाय-पडणुट्ठिएहिं चंडसोम- 33  
जेट्ठजो । अवि य ।



1 > P om चित्तयतो राया गतु पयत्तो । eto to ता माणसं चिय करोमि पणाम । 4 > P जइ संसारमहोयहिदुग्गसयावत्त,  
P मोक्खस्स तीर 5 > P किरण for करण 6 > P वासहरमि निवण्णो 7 > J adds वि before भगवते, P सोविज्जण  
विबुद्धो वेरिगिय काल काउमाढत्तो 8 > P om य, P अरुणपहार, J अ for व 9 > P दुअइखडलयवदिणो 10 > P विरुद्ध-  
वेयदुक्खरिपट्ठुरियसेसि 11 > P सगमरदं, JP सुद्धीण, P पुच्छद्द अहिलिज्जण दइय, P चक्कवाइओ 12 > J पडिच्छए  
P पडहच्छए, P अरुणाइद्दओ, P चदुब्बुयाण 13 > P राहणा सयण मणो for णाणा etc, P अ for अणेहिं, J णिद्द (?), P अन्नइ  
वियज्जिय 14 > P ज तावस, P जुयलो 15 > P om जाव, P जोक्कारिओ 16 > P जइ, JP पयत्तो 17 > P समारूढो  
P किरिणि, P साहुणो 18 > P om य before णेहिं, P महा for महाराय 19 > P निस्संसिद्ध जाणिओ, JP चित्तियत्तेण  
20 > P कुडयकाउंबरी, J adds ति after चाएमि 21 > P ट्टिय चेय 22 > P दुवालसविध 23 > P जहाणवेसु, P अण्णे  
देवो 24 > P तुम्हाण पुव्ववुत्त 25 > P कहिस्सइ, P पोरिसीओ 26 > P om कठ 27 > P om दइय, P एयमि ताव  
28 > After अभिगदिऊण य P repeats 'इ तुम्ह चलणजुय eto to अभिणदिऊण य 29 > J rightly restores पविट्ठा P  
पविट्ठो, P om पि, P पोरिसी, J तप्पभूइ, P च सुविसुहसुहेक्कखेत्तेसु 30 > P परियालो I, J अधीद- 31 > P एक्क for एग, P  
पव्वइयाण काऊण 32 > J कयाइ, P adds ति after मग्गो 33 > P om ति, P adds य before भणिओ, P पायवडणुं,  
J चटसोम्म 34 > P जेट्ठजो

- 1 'जइ थोव-कम्मयाए अणण-भवे होज्ज अइसओ तुज्ज । ता जत्थ ठिया तत्थ तए संमत्तं अम्ह दायच्चं ॥  
पुव्व-ठिईए एयं अम्ह सिणेहोवयार-पक्खेहिं । सुविहिय तं पडिवज्जसु इच्छा-कारेण साहूणं ॥'
- 3 गिवडिया भणमाणा पाएसु । भणिथं च चंडसोमेणं ।  
'जइ होज्ज अइसओ मे तुम्हे वि य होज्ज मणुय-लोगम्मि । पंविदियव्व-सण्णी ता पडिवण्णं ण अण्णत्थ ॥'  
तओ तेहिमि चउहिमि जणेहिं भणिओ माणभडो 'इमं चय' । तत्थ तेणावि 'तह' त्ति पडिवण्णं । तो तेहिं चउहिं मि
- 6 भणिओ मायाइच्चो । तेणावि 'इत्थं' ति पडिभणियं । तओ लोहदेवो, पुणो मोहदत्तो त्ति । एवं अवरोप्पर-कय-समय-संकेय-  
सम्मत्त-लंभवभुयय-मगिरा अच्छिउं पयत्ता । एवं च पव्वज्ज-किरिया-णाण-क्षाण-आवढाणं च ताणं वच्चइ कालो । किंतु  
सो चंडसोमो देस-सभावेणं चय कहिंचि कारणंतरे कोवण-सहावो, मायाइच्चो वि मणयं माया-णियडि-कुडिल-हियवओ ।
- 9 सेसा उण पडिभग-कसाय-पसरा पव्वज्जमणुपालेंति । कालेण य सो लोभदेवो णिययाउयं पालिऊण कय-संलेहणा-कम्मो णाण-  
दंसण-चारित्त-त्तचाराहणाए चउक्खंधाए वि पाण-परिचायं काऊण तप्पाओग्ग-परिणाम-परिणय-पुव्व-वद्ध-देवत्तण-णाम-नोत्तो  
मरिऊण सोहम्मो कप्पे उवगओ ।
- 12 § १७१) जं च केरिसं । अवि य ।  
णिम्मल-रयण-विणिग्गि-मय-तुंग-विमाणोह-रुद्ध-गयणवहं । रम्म-मणि-कूड-रइयं सिरि-णिलयं णंदणवणं व ॥  
कहिंचि सुर-कामिणी-गीय-मणहरं, कहिंचि रयण-रासि-पज्जलिउज्जलं, कहिंचि वीणा-रव-सुव्वमाणुकंतुल्लयं, कहिंचि तार-
- 16 मुत्ता-फलुज्जलं, कहिंचि मणि-कोट्टिमुच्छलंत-माणिक्कयं, कहिंचि फालिह-मणि-विरइय-अक्खाडयं, कहिंचि पोमराय-  
मणि-वियसिय-तामरसं, कहिंचि वियरंत-सुर-सुंदरी-णेउर-रवारारविं, कहिंचि सुइउम्मत्त-सुर-कुमारप्पोडण-सुव्वमाण-पडिरवं,  
कहिंचि ताडिय-मुरय-रव-रविजंतयं, कहिंचि तियस-विलया-णच्चण-खिप्पमाण-सुर-कुसुम-रयं, कहिंचि संचरंत-वज्जदेव-
- 18 विज्जुज्जोइयं, कहिंचि सुर-जुवाण-मुक्क-सीह-णाय-गट्ठिभणं, कहिंचि सुर-पेक्खणालोवमाण-वद्ध-कलयलं, कहिंचि चलमाण-  
वज्जहर-जयजया-सइ-सुव्वमाण-पडिरवं, कहिंचि सुर-पायव-कुसुमामोय-णिम्महंत-गंधयं, कहिंचि दिव्व-थुइ-थुव्वमाण-जिणवरं,  
कहिंचि पवण-पसर-वियरंत-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेणु-उद्धुव्वमाण-दिसिवहं ति । अवि य ।
- 21 जं जं णराण सोक्खं सोक्खट्ठाणं व सुव्वइ जणम्मि । तं तं भणंति सग्गं जं सग्गं तत्थ किं भणिमो ॥  
एयम्मि एरिसे इयर-जण-वयण-नोयरइए सुइ-सुहए सग्ग-णगर-पुरवरे अत्थि पउमं णाम वर-विमाणं ।
- § १७२) तं च केरिसं । अवि य ।
- 24 वर-पोमराय-णिम्मल-रयण-मऊहोसरंत-तम-णियरं । वर-मोत्ताहल-माला-धवल-पलंबंत-ओऊलं ॥  
पवणुट्टुय-धुय-धयवड-किंकिणि-माला-रणंत-सद्दालं । वर-वेजयंति-पंती-रेहिर-वर-तुंग-सिहरालं ॥  
मणि-पोमराय-घडियं वियसिय-पोमं व पोम-सच्छायं । पउम-वण-संड-कलियं पउम-सणाहं वर-विमाणं ॥
- 27 तम्मि य पउमसणामे विमाण-मज्झम्मि फलिह-णिम्मवियं । ललमाण-मोत्तिओऊल-जाल-मालाहिं परियरियं ॥  
वर-वहर-घडिय-पायं मरगय-मणि-णिव्वडंत-पावीठं । कक्केयणुप्पल-दलं सयण-वरं कोट्टिमयलम्मि ॥  
तस्स य उवरिं रेहइ तणु-लहु-मउयं सुवित्थयं रम्मं । गयणयलं पिव सुहुमं सुइ-सुहयं किं पि देवंगं ॥
- 30 तस्स य उवरिं अण्णं धवलं पिहुलं पलंब-पेरंतं । तं किं पि देव-दुसं खीर-समुदस्स पुलिणं व ॥  
अह ताण दोण्ह विवरे आणिज्जइ कास-कुसुम-मउययरे । देवाणुपुट्ठि-रजू-कट्टिजंतो बइल्लो व्व ॥  
अह कम्मय-तेओभय-सरीर-सेसो खणं अणाहारो । संपत्तो एक्केणं समएणं लोहदेव-जिओ ॥
- 33 तत्थ य संपत्तो च्चिय गेण्हइ वर-कुसुम-रेणु-सरिसाइं । वेउव्व-पोमगालाइं अगुरु-लहु-सुरहि-मउयाइं ॥  
जइ तेल्ल-मज्झ-पत्तो पूयलओ गेण्हए उ तं तेल्लं । पुण मीसो पुण सुंचइ एवं जीवो वियाणाहि ॥

1) P कंमताए, JP जत्थट्टिया 2) J -ठिईए P -ठितीए 3) P adds य before भणमाणा 4) J तुम्हे,  
J मणुजलोअमि 5) P तेहिं चउहिं जिणेहिं, P ता for तो, J चउहिं वि 6) J इच्छति P इच्छिय, P om समय 7)  
P °न्सुयए, J यच्छिउ, P adds च after ताण 8) P सहावेणं 9) P पसाय for कसाय, J -प्पसरा, P पव्वज्ज-  
मन्भुवगथा पालेंति, J लोहदेवो. 10) J चरित्तआराहणाए चउक्खंधाए, J तप्पाओग्ग, P वट्ट for वद्ध 13) P कुट्ट for कूट, J च  
for व 14) J कामिणि, P पज्जलियउज्जल, J सुव्वमाणकंतुल्लयं P सुव्वमाणकंतुल्ल 15) P मुत्ताहल, P कोट्टिमुज्ज  
लंत, P विरइयक्खाडय 16) P णेउरारव, J कुमारप्पोडण 17) P तालियसुरय, P विप्पमाणसुरकुमारयं, J कुसुमारयं, J  
-विज्जदेव विज्जुज्जोइ 18) P सुरपेक्खणावंधमाणकलयलं 19) P om थुइ 20) P रेणुरयधुव्व, J om. ति 21) P  
मि for व 22) J गोयराइ । तो सुइसुहए णियरा पुरवरे, J om. वर. 24) J मउहो 25) P पवणवसुदुयधयं,  
P रसत for रणत, J सुरय for तुंग 26) P पोमवण, J पउमसणामं P पोमसणाहं 27) P पोमसणामे, J इत्थि for फलिह,  
P मोत्तिउज्जलजाला 28) J कक्केअणुप्पल P कक्केयणुप्पलदलसयण 29) P सुवित्थरं (in J र is scored and अ  
written after that), P मिव for पिव, P सुइ सुहुमं 31) J 'पुव्विअं P 'पुरज्ज 32) P मगिइ for सरीर 33) P  
मऊयाइं 34) P पूइओ, J एय, P विजाणाहिं ॥ अखह

- 1 अह खणमेत्तेणं चिय आहारण-करण कुणह पज्जति । अणुमगं चिय तस्स य गेण्हइ य सरीर-पज्जति । 1  
 ठावेइ इंदियाइ फरिस-प्पमुहाइ कम्म-सत्तीए । ता अणुपाणं वाउ मणं च मो कुणह कम्मणं ॥
- 3 भासा-भासण-जोगो गेण्हइ सो पोगगले ससत्तीए । इय सो सव्वाहिं चिय पज्जतीहिं इवइ पुण्णो ॥ 3  
 पत्थंतरम्मि सव्व मुहुत्त-मेत्तेण अत्तणो रुवं । अंगोवग-सउण्णं गेण्हइ कम्माणभावेणं ॥  
 अह त उवरिम-वत्थ उत्यल्लेऊण तथ सयणयले । जंभा-वस-चलिउत्वेल्लमाण-चाहाण उक्खेवो ॥
- 6 अःयव-दीहरच्छो वच्छथल-पिहुल-पीण-भुय-सिहरो । तणु-मज्झ-रेहिरगो विहुम-सम-रुहर-ओट्ट-जुओ ॥ 6  
 उणय-गासा-वमो ससि-विंवायार-रुहर-मुह-कमलो । वर-कप्परुक्ख-किमलय-सुट्टुत्वेल्लत-पाणियलो ॥  
 कोमल-मुणाल-वाहू चामीयर-घडिय-सरिम-वर-जवो । ईसि-समुण्णय-कोमल-चलणग्ग-फुरव-कतिल्लो ॥
- 9 पिहु-वच्छथल-लविर-हार-लया-रयण-राय-चंचइओ । गडत्थल-तड-ल्लमाण-कुडलो कडय-सोहिल्लो ॥ 9  
 कप्पतरु-कुसुम-भंजरि-सताण-पारियाय-मीसाए । आजाणु-लंवरिपाए वणमालाए विरायतो ॥  
 गिहा-खए विवुद्धो जह किर राई कुमारओ को वि । तह सयणाओ उट्टइ देवो संपुण्ण-सयल्लो ॥
- 12 इय जाव सो विवुद्धो ईसिं पुलण्ड लोयण-जुएण । ता पेच्छइ सयलं चिय भत्ति-णय परियणं पासे ॥ 12  
 अवि य । केरिसं च त परियणं विट्ट लोहदेवेण ।  
 गायंति के वि महुर अण्णे वाएति तति-वज्जाइ । णत्तंति के वि मुहया अण्णे वि पढति देव-गणा ॥
- 16 पालेसु जियं ज ते अजिय अज्जिणसु परम-सत्तीए । विरइय-सिरजलिउडा धुणन्ति एण्हिं वयणेहिं ॥ 16  
 जय जय णदा जय जय भदा अम्हाण सामिया जयाहि । अण्णे किंकर-देवा एव जपति तुट्ट-मणा ॥  
 भिंगार-तालियटे अण्णे गेण्हति चामरे विमले । धवल च आयवत्त अवरे वर-दप्पण-विहत्या ॥
- 18 वीणा-मुहंग-हत्या वत्थालंकार-रेहिर-करा य । अच्छति अच्छर-गणा तस्साएस पडिच्छता ॥ सव्वहा, 18  
 अह पेच्छइ त सव्व अदिट्टउव्वं अउव्व-रमिय च । उव्वेल्ल-वेल्ल-मय-वस-विलासिणो-रेहिर-पयार ॥  
 § १७३ ) तं च तारिस अदिट्टउव्व पेच्छिऊण चित्तिय लोहदेवेण । 'अहो, महल्ला रिद्धी, ता किं पुण मह इमा किं
- 21 वा अण्णस्स कस्सइ' ति चित्तयंतस्स भणियं देव-पडिहारेण । अवि य । 21  
 जोयण-सहस्स-तुग रयण-महा-पोमराय-णिम्मवियं । पडिहय-तिमिर-प्पसर देवस्स इम वर-विमाण ॥  
 वर-इदणील-मरगय-कक्केयण-पोमराय-वजेहिं । अण्णोण्ण-वण्ण-भिण्णो रयणुक्केतो तुहं चेय ॥
- 24 पीणुत्तुंग-पओहर-णियव-नारुओ रणत-रसणिल्लो । मयण-मय-जुम्मिरच्छो इमो वि देवस्स देवियणो ॥ 24  
 लय-ताल-सुद्ध-नेय सल्लिय-करणंगहार-णिम्मायं । वर-मुरय-नाहिर-सइ देवस्स इमं पि पेक्खणयं ॥  
 असि-चक्क-कोत्त-पहरण-वर-तोमर-वावडग्ग-हत्थेहिं । देवेहिं तुज्झ सेणा अच्छइ वाहिं असखेजा ॥
- 27 पल्हत्थेइ य पुहइ मुट्टि-पहारेण जुण्णए मेरं । आणं सिरेण गेण्हइ इमो वि सेणावइ तुज्झ ॥ 27  
 सुर-सेल-तुंग-देहो गडत्थल-पज्जरत-मय-सलिल्लो । संसण-पलाण-दणुओ इमो वि सुर-कुजरो तुज्झ ॥  
 मंदार-सुरहि-केसर-कप्पतरु-पारियाय-सय-कलिय । फल-कुसुम-पल्लविल्ल उज्जाणमिम पि देवस्स ॥
- 30 हियइच्छिय-कज्ज-पसाहयाइं गिच्चं अमुक्क-ठाणाइं । तुज्झं चिय वयण-पडिच्छिराइं इय किंकर-सयाइं ॥ 30  
 देव तुमं इद-समो वल-वीरिय-रुव-आउय-गुणेहिं । पउम-विमाणुप्पणो तुज्झं पउमप्पहो णामं ॥  
 इय रिद्धि-परियण-चले पडिहारेण णिवेइए णाउं । अह चित्तिउ पयत्तो हियए पउमप्पहो देवो ॥
- 33 किं होज्ज मए दिण्णं कम्मि सुपत्तम्मि केत्तियं विभवं । किं वा सीलं धरिय को व तवो मे अणुच्चिण्णो ॥ 33  
 इय चित्ततस्स य से वित्थरियं अत्ति ओहि-वर-णाणं । पेच्छइ जंतुहीवे भरहे मज्झिल्ल-खडम्मि ॥  
 पेच्छइ जत्थुप्पणो तुरए धेत्तूण जत्थ सो पत्तो । चलिओ रयणहीवं जह पत्तो जाणवत्तेण ॥
- 36 जह भरिय रयणाण जह य णियत्तो समुह-मज्जम्मि । जह भदो पक्खित्तो लोह-विमूढप्पणा तेण ॥ 36

~~~~~

1) P adds, after कुणइ, ण भासामासणजोगो गेण्हइ तह पोगगले समत्तीए ॥, P चिय, P पज्जत्त ॥ णावेइ 2) P फरिसयपमुहाइ तस्स भत्तीए, P om ता, P आणुपाणु, J वायु, P मणु, P कुणइ इकमेण 3) P जोगो गेण्हइ तह पोगगले, P पज्जतीहिं 4) J रुय, P सउण 5) P वच्छलेऊण, P वलिपुव्वेळमाणवाहालिपुक्खेवो 6) P पीयण, P -अट्टजुओ 7) J विवोणयणरुहर, P सुट्टुत्वेल्लतपाणिल्लो 8) P समुल्लयकोमलणणग्ग 9) P लयाल्लत्तराय, J वर for तड 10) J सताणय- 11) P विउद्धो, P सव्ववो 12) P ईसिं for ईसिं, P भत्तियण 14) P वायति 16) P om one जय, P सामिय जयाहि 17) P तालियटो, P त for च 18) P मुयग, P तन्मुवण्णं, P om सव्वहा 19) P अदिट्टपुव्व, P रमियव्व । 20) P अइट्टउव्व, P लोसदेवेण 23) P मिट्टो for मिण्णो 24) P पीणतुंग, P णणतस्सणिल्लो 25) P गेह for गेयं 29) J कप्पतरु, P पारियायसवलिय । 31) J विहव for रुव 32) J परिहारेण 33) J व मवे for विभव, P धरिउ 34) P चित्ततस्स, J वित्थारिय, P ज्जाति, P खट्ठिमि 35) P जो for मो 36) P भरिओ

- 1 जह फुट्टं घोहित्यं तारहीवमि जह दुहं पत्तो । संपत्तो कोसंविं जह दिट्ठो धम्मणंदणो भगवं ॥  
जह पव्वज्जसुवगभो संविग्गो जह करेउमाढत्तो । पंच-णमोक्कार-मणं काल-गयं चेष अत्ताणं ॥
- 3 गायं तु जहा कम्मं बहुयसुहं सोसियं तु दिक्खाए । पंच-णमोक्कार-फलं जं देवत्तं मए पत्तं ॥  
§ १७४) इमं च पेच्छिऊण सहसा वलिय-चलंत-कंत-कामिणी-गुरु-णियंब-विंब-मंथर-विलास-कणय-कमलाली-खलंत-  
मणि-गेउर-रणरणांरावं रसणा-रसंत-किंकिणी-जाल-माला-रणंत-जयजयासह-पहरिस-संवलिउच्छलंत-सपडिसह-पसरंत-पूरिय-  
6 खुवभमाण-सुरयणं समुट्ठिओ सयणाओ, अभिगओ सत्तट्ट-पयाहं जंबुदीवाभिमुहो, विरइओ य सिरि कमल-मउल-सरिसो 6  
अंजली । णिमियं च वामं जाणुयं । मणि-कोट्टिम-तलमि भत्ति-भर-विणामिउत्तिमंणेण भणियं च णेण ।  
सुर-बंधव-सिद्ध-विजाहर-किंणर-गीय-वयणयं । दणुवइ-चर-णरिंद-तियसिंद-पहुत्तण-लंभ-गरुययं ।
- 9 भीसण-जणण-मरण-संसार-महोयहि-जाणवत्तयं । जयइ जिणिंदयाण चर-सासणयं सिव-सोक्ख-मूलयं ॥  
तित्थ-पवत्तण-गरुयए णिम्मल-पसरंत-णह-मऊहयए । सयल-सुरासुर-णामियए णणामि जिणाण थ चलणए ॥  
एरिसिया सुर-रिद्धिया दिण्णा रयण-समिद्धिया । जेण महं सुह-कम्मयं तं णणामि सुधम्मयं ॥ ति ।
- 12 समुट्ठिओ य णणामं काऊणं, भणियं च णेण 'ओ भो मए, किं करियव्वं संपयं' ति । पडिहारेण विण्णत्तं 'देव, कीला-वावीए 12  
मज्जिऊण देवहरए पोत्थय-वायणं' ति । तेण भणियं । 'पयइ, कीला-वाविं वच्चाओ' ति भणमाणो चलिओ सरहसं ।  
पडिहारो ओसारिजमाण-सुर-लोओ संपत्तो मज्जण-वाविं ।
- 15 § १७५) सा पुण केरिसा । अवि य ।  
पेरंत-रयण-कोट्टिम-णाणा-मणि-किरण-बद्ध-सुरचावा । तीर-तरुगय-मंजरि-कुसुम-रउद्धूय-दिसिचका ॥  
मणि-सोमाण-विणिग्गिमय-कंचण-पडिहार-धरिय-सरिसोहा । कलघोय-तुंग-तोरण-धवलुद्धुत-धयवडाइल्ला ॥
- 18 पवण-वस-चलिय-किंकिणि-माला-जाला-रणंत-सुइ-सुहया । बहु-णिज्जुहय-णिगम-दार-विरायंत-परिवेढा ॥  
कंचण-कमल-विहूसिय-सिय-रयण-मुणाल-धवल-सच्छाया । फलिह-मउज्जल-कुमुया णिक्ख-विणिग्गविय-सुरहि-कलहारा ॥  
णीलमणि-सुरभि-कुवलय-विसट्ट-मयरंद-विंदु-चित्तलिया । वर-पोमराय-सयवत्त-पत्त-विक्खित्त-सोहिल्ला ॥
- 21 वर-इंदणील-णिम्मल-णालिणी-घण-संड-मंडिउद्देसा । विच्छित्ति-रइय-पत्तल-हरिया बहु-पत्त-भंगिल्ला ॥  
सुर-लोय-पवण-चालिय-सुरदुम-कुसुमोवयार-सोहिल्ला । अच्छच्छ-धवल-णिम्मल-जल-भर-रंगंत-तामरसा ॥  
इय कमल-मुही रम्मा वियसिय-कंदोइ-दीहरच्छि-जुया । मणि-कंचण-घडियंगी दिट्ठा वावी सुर-वहु व्व ॥
- 24 तं च पेच्छिऊण दिण्णा झंपा वावी-जलमि । तस्साणुमग्गओ ओइण्णो सुर-कामिणी-सत्थो । किं च काउमाढत्तो । अवि य । 24  
तुंग-थणवट्ट-पेल्लण-हल्लिर-जल-वीइ-हरिय-णिय-सिचओ । कलुसेइ णिम्मल-जलं लज्जतो अंग-राएण ॥  
वित्थय-णियंब-मंथण-धवलुगय-विप्फुरंत-फेणोहं । अह मह इमं ति सिचयं विलुलिज्जइ जुवइ-सत्थेण ॥
- 27 अवरोप्पर-ओल्लण-सोल्लणाहिं णिवडंत-णीसहंगाहिं । पोढ-तियसंगणाहिं दइओ णिहोसमवऊढो ॥  
पउमप्पहो वि खेल्लइ ससंक-णिवडंत-पउम-लहु-पहरो । अच्छोडिय-णिहय-कमल-संग-जल-पहर-धाराहिं ॥  
अंगमि तस्स ताव थ पहरंति मुणाल-णाल-पहरेहिं । मुद्ध-तियसंगणाओ वलिऊण ण जाव पुलएइ ॥
- 30 जा जा मुणाल-पहया होइ ससिक्कार-मउलियच्छीया । तं तं पउम-समाणा पोढा ण गणेइ खेलमि ॥  
जल-जंत-णीर-भरियं लोयण-जुयलं पियस्स काऊण । सुंबइ दइयस्स सुहं लज्जा-पोढत्तणुप्फालं ॥  
इय मज्जिऊण तो सो तियस-वहु-वर-करेणु-परियरिओ । उत्तरिओ लीलाए दिसा-गहंदो व्व सवियारं ॥
- 33 पमजियं च रायहंस-पम्ह-मउएण देव-दूसेण से अंगं । समप्पियं च तस्स धोयवत्ति-जुवलयं । तं पुण केरिसं । 33

1) J दुक्ख for दुह, J om संपत्तो, P कोसवी, J भयव 2) P सवेग, P करेउ आहत्तो, P चेष व अत्ताण  
3) P बहुमसुय उज्जोसियं, J क्कारहलं 4) P om. कत, P रणरणांरसणरसत 5) P सदा, J om. पहरिम, J ल्त-  
पडिसहयसरपूरिय 6) P रयणाओ for सयणाओ, P adds य before सत्तट्ट, J विरइय सिरि, P कमलउल, J सरिस अंजलि-  
7) P निम्मियं, J वामजाणु, J कोट्टिमयलंमि, J विणेमिउं P वियणमिउं 8) P विजाधर 9) P om. भीसण,  
P जमण, P adds विणास before ससार 10) P गरुए, P मयूहए, P नमियपए, P om य 11) J परिसा  
12) P om. य, P om भणियं च णेण 13) J देवहरय (य?) P देवहरयं, J वायण च त्ति, J कीलावावी, J om त्ति, P पडि-  
हारो सारिं 15) P जा for सा 16) P रयइय, J दिसिचका 17) P सोपाण, P किल्लहोय, P धवलुद्धुत 18) P जालमाया  
for मालाजाला 19) P विगासिय, J om. धवल, P फलिहविह्वल्लज्जकुमुयानिकविं, P om सुरहि, P कलहारा 20) P मुरदि,  
P adds मरणयस before सयवत्त, P om पत्त. 21) P विच्छित्त, P पत्तलपत्तलयावत्तपत्त 22) J अच्छयधवल, J नउहर  
23) P हरिसा for रम्मा 24) P तस्साणुमग्गो 25) P घणवट्टपल्लण, P वीइतियमचिचटओ 26) P विप्फुरंतफेणोहं,  
P विलुलिज्जति 27) P निहयसमवऊढो 28) P खेलइ, P अच्छोडियनिह्वल्लकम्म 30) P होइइ, J पउमसणाओ  
P पओसणाओ, P पोढं 32) P वरिओ, P गयदो 33) P पओणेण for मउएण, om. देव




- 1 किं होज तूल-मउय घडियं वा कास-कुसुम-पम्हेहिं । किं वा मुणाल ततू-णिम्मवियं देव-सत्तीए ॥ 1
- तं च तारिसं णियसिऊण कय-उत्तरासंगो पडिहार-दाविय-मग्गो पयत्तो गतुं, देवहरय पत्तो य । उग्घाडिय च से दार 3
- 3 णिओइएण देव-घरयस्स । ताव य णिजियसेस-मऊहा परिपेल्लिय-दूर-पाव-तम-पसरा । दिणयर-सहस्स-मह्य च झत्ति कंती समुच्छलिया ॥
- § १७६ ) ताव य णव-वियसिय-पारियाय-कुसुम-मजरी-रेहिरो सुर-मंदार-कुसुम-गोच्छ-चावडो कणय-कमल-विसट्टमाणं- 6
- 6 दीवर-भरिओ सब्बहा दसद्ध-वण्ण-कुसुम-पडहत्थ-कणय-पडल-णिहाओ उवट्टविओ परियणेण । एत्थंतरम्मि पविट्टो 'णमो 6
- जिणाणं' ति भणमाणो देवहरए पउमप्पहो देवो । पेच्छइ य जिणहर । तं च केरिसं । अवि य, अण्णोण्ण-वण्ण-घडिए णिय-वण्ण-पमाण माण-णिम्माए । उप्पत्ति णास-रहिए जिणवर-धिंने पलोएइ ॥
- 9 फलिह-मणि-णिम्मलयरा के वि जिणा पूसराय-मणि घडिया । के वि महानीलमया कक्केयण-णिम्मिया के वि ॥ 9
- मुत्ताहल-तारयरा अवरे वर-पोमराय-सच्छाया । अवरे सामल-देहा मरगय-दल-णिम्मिया के वि ॥
- ते य भगवते पेच्छिऊण जिणवरे हरिस वस वियसमाण-णयण-जुवलओ चलणेसु 'णमो सब्ब-जिणाण' ति भणमाणो णिव- 12
- 12 डिओ । ताव य दिव्व-सुरहि जल-भरिए समप्पिए कणय-कलसे अहिमिंचिऊण, विलित्ते दिव्व-देवगराएण, उप्पाडियं च 12
- गोसीस-चंदण-गंध-गडिभण पवर-धूयं । आरोवियाणि य ज-जहावण्ण सोहा-विण्णास-लायणाइ जल-थलय-कुसुमाइ । तओ विरइय-विविह-पूय केरिसं त तियस-देवहरय दीसिउ पयत्त । अवि य ।
- 15 वियसिय-कणय-कमल-सिरि-णिजिय-माणस-लच्छि-गेहय । णव-कंदोठ-कुसुम-कल्हार-विराविय-रुत-सोहयं ॥ 15
- णव-मंदार-गोच्छ-संताणय-कुसुम-पहण्ण-रायय । मदिरयं जिणाण त सोहइ तथ समत्त-पूययं ॥
- तं च तारिसं पेच्छिऊण पहरिस-वस-समूससंत-रोमंच-कचुइओ थोऊण समाढत्तो भगवते जिणवरिडे । अवि य, 18
- 18 जय ससुरासुर-किणर-मुणिवर-गधव्व-णमिय-चलण-जुया । जय सयल-विमल-नेवल-जिण-संच णमोत्थु ण तुज्झ ॥ 18
- जइ देवो णेरइओ मणुओ वा कह वि होज तिरिओ ह । सयल-जय-सोक्ख-मूल सम्मत्त मज्झ देजासु ॥
- § १७७ ) एव च थोऊण णिवडिओ पाएसु । दिट्ठ च पोत्थय-रयण पीढम्मि । त च केरिसं । अवि य, 21
- 21 वर-पोमराय-गतं फलिह-विणिम्मविय-पत्तयं रुइर । धुय-इंदणील-लिहिय पोत्थय रयण पलोएइ ॥ 21
- तं च दट्टेण भत्ति-भर-णिच्च-भर-हियएण गहिय पोत्थय सिढिलिय च, उग्घाडिय वाचिउ पयत्तो । अवि य । णमो सब्ब 24
- 24 सिद्धाणं । अविरहिय-णाण-दसण-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-मूलो जिण-मग्गो पायडो जयइ ॥ 24
- संसार-गहिर-साथर-दुत्तारुत्तर तरण-कजेण । तित्थ-करणेक्क-सीला सब्बे वि जयति तित्थयरा ॥
- पज्जलिय-क्षाण-हुयवह-कम्मिधण-दाह-वियलिय-भवोहा । अपुणागम ठाण-गया सिद्धा वि जयति भगवता ॥
- 27 णाणा-लद्धि-समिद्धे सुय-णाण-महोयहिस्स पारगए । आसण्ण-भव्व-सत्ते सब्बे गणहारिणो वडे ॥ 27
- णाण-तव-विरिय-दंसण-चारित्तायार-पच-वावारे । पज्जलियागम-दीवे आयरिए चेव पणमामि ॥
- सुय-सुत्त-गुणण-धारण-अज्झयण-ज्झायणेक्क-तल्लिच्छे । उवयार-करण-सीले वडामि अह उवज्झाए ॥
- 30 पच-सहव्वय-जुत्ते ति-गुत्ति-गुत्ते विलुत्त-मिच्छत्ते । चडामि अप्पमत्ते ते साहू संजमं पत्ते ॥ 30
- इय धम्मारह-सिद्धे गणहर-आयरिए तह उवज्झाए । साहुयण णमिऊण जिणवर-धम्मं पवक्खामि ॥
- दु-विहो जिणघर-धम्मो गिहत्थ-धम्मो य समण-धम्मो य । वारस-विहो गिहीण समणाण दस-विहो होइ ॥
- 33 पचाणुव्वय-जुत्तो ति-गुणव्वय-भूसिओ सचउ-सिक्खो । एसो दुवालस-विहो गिहि-धम्मो मूल-सम्मत्तो ॥ 33

1 > P कि होज दूलमईयं, J मउअ किं वा विहु कासं, P पडिय वा (emonded घडिय वा), J ततु P त्तन 2 > P निसेयसिऊण, P देवघरय, P उक्खाडिय, J om से 3 > P देवहरय 4 > P पडिपेल्लिय, P कति 5 > P वियसिया- P मदर 6 > J पडलय-, P उवद्धविउ, P repeats नमो 7 > P पेच्छइ यरा के वि जिणा पोमरायमणिघडिया । के वि महानील महाकक्केयणरयणनिम्माया । for पेच्छइ य जिणहर । etc to कक्केयणणिम्मिया के वि । J कक्केयणि- 10 > P अवरोवर, P मरगय-चलनिमया 11 > P पूतिऊण for पेच्छिऊण 12 > P खीरोय for दिव्वसुरहि, P om समप्पिए 13 > P जहावणा, P लावणाइ, P यल for थलय 14 > P विरइय, P om त, P पयत्ता 15 > P वयण for कणय, P राहय for गेहय 16 > P राहय, P adds च before सोहइ 17 > J कचुओ, 18 > P गण for वर 19 > P जय देवो 20 > P om च after णव, P पोत्थय रयण पीढमि 21 > P विणिम्मिय, J दुअ for धुय, P लिय for लिहिय 22 > P om णिच्चर, J om पोत्थय, P वाइउ 24 > P अविरहियए नाण, P पायडो जियइ 25 > P गहियसायर, P तरुणकजेण, P वि जियति 26 > P पज्ज-लियज्झाणहुयवहा, P दाणतावियमवोहा, P अपुणागयट्टाण, P भगवतो 27 > P मुयणायणमुहोयं, P सब्ब for मच्च, P om सत्ते 29 > P सुत्त for सुय, P गणण, J अज्झायणं, P धारणसज्झावणेक्क 30 > P om मिच्छत्ते, P अप्पवमत्ते, P पत्ता 31 > P सिद्धो, P आयरिय, P साहूण 33 > P य चउ for सचउ, P गिहयम्मो

- 1 खंती य महवज्जव-मुत्ती-तव-संजमे य बोद्धव्वे । सच्चं सोयं आर्किचणं च बंभं च जह-धम्मो ॥ 1  
इय एयं चिय अइवित्थरेण अह तम्मि पोत्थए ल्हियं । वाएऊणं मुंचइ भत्तीए पुणो रयण-पीढे ॥
- 3 णमिऊण य जिणवरे णीहरिओ देवहरयाओ । पुणो जहासुहं भोए भुंजिउं पयत्तो पउमप्पभो देवो त्ति । एवं थोएस्सु चेय 3  
दियहेसुं वच्चमाणेसु माणभडो वि जहा-समयं पालेऊण भाराहिऊण जिण-णमोह्कार तेगेय कमेण तम्मि चेय विमाणे अणेय-  
जोयण-लक्ख-वित्थरे देवो उववण्णो । तस्स वि सा चेवावत्था, णवरं पुण णामं पउमवरो त्ति । तओ केण वि कालंतरेण
- 6 जहा-संजम-विहीए आउय-कम्म-णिज्जरणे उप्पण्णो तम्मि चेय विमाणे मायाइच्चो वि, णवरं पुण से णामं पउमसारो त्ति । 6  
तओ ताणं पि दियहाणं परिवालिय-संजमो सो वि मरिऊण चंडसोमो वि उप्पण्णो तम्मि चेय विमाण-वरे, णवरं से  
पुण णामं पउमचंदो त्ति । तओ केसुइ दियहेसु कय-सामाइय-कम्मो मरिऊण मोहदत्तो तम्मि चेय विमाणवरे उववण्णो,  
9 णवरं से णामं पउमकेसरो त्ति । तओ एवं च ते पंच वि जणा पउम-विमाणुप्पण्णा सम-विभव-परिवार-वल-पोरुस-प्पभावा- 9  
उया अवरोप्परं च महा-सिणेह-परा जाणंति जहा कय-संकेय त्ति । एवं वच्चइ कोइ कालो । एत्थंतरम्मि  
सुर-सेणावइ-तालिय-घंटा-रावुच्छलंत-पडिसहं । पडिसइ-पोगलुग्घाय-घट्टणाचलिय-सुर-घंटं ॥
- 12 घंटा-रव-गुंजाविय-वज्जिर-सुर-सेस-विसर-आउज्जं । आउज्ज-सइ-संभम-सहसा-सुर-जुवइ-मुक्क-हुंकारं ॥ 12  
हुंकार-सवण-विन्धिय-दइया-मुह-णिमिय-तियस-तरलच्छं । तरलच्छ-दंसणुप्पित्थ-भगग-गंधव्व-गीय-रवं ॥  
गीय-रव-भंग-णासिय-ताल-लउम्मग-णच्चिरच्छरसं । अच्छरसायण-संखुहिय-कलयलाराव-रविय-दिसियकं ॥
- 15 इय ताणं सहस चिय आसण-कंपो सुराण भवणेसु । उच्छलिय-बहल-बोलो जाओ किं-किंचि पडिसदो ॥ 15  
पुच्छियं च णेहिं सुरवरेहिं 'भो भो किमेयं' ति । तओ तेहिं विण्णत्तं पडिहारेहिं । 'देव,  
जंबुदीवे भरहे दाहिण-मज्झिज्जयम्मि खंडम्मि । तम्मि य धम्म-जिणिंदो विहरइ उप्पण्ण-णाणवरो ॥
- 18 ता तस्स समवसरणे गंतव्वं तिअस-वंद-सहिण्ण । सुरणाहेण समं चिय भत्ति-भरोणमिय-सीसेण ॥ 18  
तं च सोऊण कयं सव्वेहिं चेय सुर-वरेहिं 'णमो भगवओ सुधम्म-धम्मस्स जिणस्स' ति । तं च काऊण पयट्टा सुरिंद-पमुहा  
सुरवरा । कह य । अवि य,
- 21 सहसुद्धाइय-रहवर-बहु जाण-विमाण-रुद्ध-नायणवहं । परितुट्ट-तियस-कलयल-हरिस-वसुम्मुक-बोल्लिकं ॥ 21  
तियसिंद-पोढ-विलया-विलास-गिज्जंत मंगलुग्गीयं । अवसेसच्छरसा-णण-सरहस-णच्चंत-सोहिल्लं ॥  
रयण-विणिम्मिय-णेउर-चलमाण-चलंत-किंकिणी-सइं । वर-संख-पडह-भेरी-झल्लिरि-झकार-पडिसइं ॥
- 24 णारय-तुंबुरु-वीणा-वेणु-रवाराव-महुर-सदालं । उक्कुट्टि-सीह-गाय कलयल-सहुच्छलंत-दिसियकं ॥ 24  
इय परिस-हलहलयं जिणिंदयंदस्स समवसरणम्मि । वच्चंति हिट्ट-तुट्टा अंगेसु सुरा अमार्यता ॥  
संपत्ता य चंपा-पुरवरीए ।
- 27 § १७८ ) भणिओ य तियसिंदो पउमसारेणं तियसेण । 'देव, जइ तुब्भे अणुमण्णह, ता अहं चेय एक्को सामिणो धम्म- 27  
जिणस्स समवसरणं विरएमि' त्ति । भणियं च वासवेणं 'देवाणुप्पिया, एयं होउ' त्ति । भणियमेत्ते किं जायं ति । अवि य ।  
सहस चिय धरणियले उद्धावइ मारुओ धमधमस्स । खर-सक्कर-तण-सय-रेणु-णासणो जोयणं जाव ॥
- ३० पवणुद्धय-रय-संताव-णासणो सुरमि-गंध-रिद्धिल्लो । अहिट्ट-मेह-मुक्को णिवडइ जल-सीयल-तुसारो ॥ 30  
मयरंद-बिंदु-णीसंद-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलबोलो । वेंट-ट्टिय-सुर-पायव-कुसुमुक्केरो पडइ तत्तो ॥  
तो तस्स परियरेणं णाणा-मणि-रयण-किरण-संवलियं । बद्ध-सुर-चाव-सोहं पायार-वरं विणिम्मवियं ॥
- 33 तस्स य बाहिं सहसा वीयं वर-तियस-कणय-णिम्मवियं । रयणुज्जोविय-सिहरं रइयं तियसेण पायारं ॥ 33

1 > P बोधव्वे, P आर्किचण for आर्किचण 2 > P om. अइ, P मुच्चइ 3 > P om य, J पउमप्पहो, P एयं 4 >  
P दियह for दियहेसु, P तेणय 5 > P सा चेय ववत्था, P पुणा for पुण, J पउमीरु त्ति P पउमवरो त्ति, P केणावि 6 >  
P संजमविही आ°, P inter. पउमवरो (for पउमसारो) and से णाम, J पउमभारो added on the margin, J P ति. 7 >  
P काण for ताणं, P चेव 8 > P उण, J पउमचंडो, P उप्पण्णो 9 > P om से 10 > P सिण्हइ for सिणेह, P तहा for  
जहा, P के वि for कोइ 11 > J सेणावई, P घट्टारयणुच्छ°, P पोगलुग्घाय, J adds सेस before चलिय 12 > P गुंजाविया-  
13 > P adds रव before सवण, J समण for सवण, P निहिय for णिमिय, P \*णुप्पित्थगंधव्व, P repeats गीयरव 14 >  
P भंगाणसिरतालज्जूमगणच्चिर°, J \*रच्छरयं, P सुह य for संखुहिय, P दिययकं 15 > P उच्छलियहलापोला, P किंतिपडिसइ-  
17 > J णाणवरो 18 > J गतव्वन्तिअस, P विअमरवद, P समयं चिय 19 > P चेव, P मुहमधंमजिणस्स, P पमुहा 20 >  
P कयहा for कह य 21 > P om हरिसवसुम्मुकबोल्लिक etc. to उक्कुट्टिसीहणायं 24 > P repeats कलयल 25 > P  
जिणिंदइदस्स, P हट्टतुट्टा 26 > P om. य 27 > P om. य, P om. तियसेण, P चेव 29 > P मानुओ, P गरविकम-  
P जोयणे 30 > P रव for रय, P णामणासुरहि, J P अहिट्ट 31 > P चद्र for वेंट, P वेंटु for वेंट 32 > P परि-  
यणेण, P om. किरण, P चावसाई पायारतय 33 > P य बोद्धे, P दुइयं for वीय, P adds क्त before कणय, P पायारं.

- 1 थोवंतरेण तस्स य कलघोय-मय फुरंत-कंतिल्लं । उतुंग-सिहर-राहं सहसा तइय पि पायार ॥ 1  
अह तुंग-कणय-तोरण सिहरोवरि-चलिर-धयवडाइल्लं । मणि-घडिय-सालभजिय-मिरि-सोहं चामरिद-सुह ॥
- 3 वर मणि वराल-वारण-हरि-सरह-ससेहिं संवराइण्ण । महमहमहेत-धूय वण-माला रुइर-लंवि-पलं व ॥ 3  
वर-वेजयति सोह मुत्ताहल-रुइर-दीहरोऊल । तक्खण-मेत्तेणं चिय विणिम्मिय दार मंवायं ॥  
वर कणय-पउम-राढा वियसिय-कदोट्ट-कुसुम-चेचइया । अच्छच्छ-वारि-भरिया रइया दारेसु वावीओ ॥
- 6 पवणुवेळिर-पल्लव-वियसिय-कुसुम-सुरहि-नांघाइ । वर-चूय-चपयासोय-सार-गरुयाइं य वणाइ ॥ 6  
एयस्स मज्झयारे रइयं देवेण मणिमय तुगं । कचण-सेल व यिर वरासणं भुवण णाहस्स ॥  
तत्तो पसरिय किरण दित्तं भामडलं मुणिवइस्स । वर-हुंदुही य दीसइ वर-सुर-कर-ताडिया सहसा ॥
- 9 कोमल-किसलय-हार पवणुवेळंत-गोच्छ-चेचइय । वारस-गुण-तुगयर अमोग-वर-पायव रम्म ॥ 9  
तत्तो वि फलिह-मइयं तिहुयण-सामित्तणेक्क वर-चिंध । चटावलि व्व रइय छत्त-तिय धम्मणाहस्स ॥  
पासेहिं चामराओ सकीसाणेहिं दो वि धरियाओ । उक्कुट्टि-सीह-णाओ णिवडति य टिच्च-कुसुमाइ ॥
- 12 एत्थतरम्मि भगव पुव्वहारेण पविसए धम्मो । तियस-पउमावलीए ठावतो पाय-पउमाइ ॥ 12  
अह पविसिऊण भगव चेइय-रुक्ख पयाहिण काउ । णिसियइ पुव्वाभिसुहो थुव्वतो तियस-णाहेहिं ॥  
तत्तो णिमियस्स य से जाया पडिरुवया तिय-दिसासु । जिणवर-सरिसा ते चिय तस्सेव पभावओ जाया ॥
- 15 तो तस्स दाहिणेण णमिउ तं चेय ठाइ गणहारी । तस्साणुमग-लग्गा केवलिणो सेस-साहू य ॥ 15  
तत्तो विमाण-देवी समणी-सहियाउ ठति अण्णाओ । बहु-जणवय-सय-कलिय तहा वि रुद ति पडिहाइ ॥  
कथइ विमाण-देवा कथइ भवणाण सामिणो होति । कथइ जोइसिय चिय वंतर देवा य अण्णत्थ ॥
- 18 कथइ य वतरीओ कथइ देवीओं जोइसाण तु । कथइ णायर-लोओ कथइ राया सुरवरिंदो ॥ 18  
अवरोप्पर-वेर-विवज्जियाइं सयलाइं सावय-नाणाइ । पायारतर-परिसट्टियाइं चिट्ठति णिहुयाइं ॥  
एवं जोयण-मेत्ते धम्म-जिणिंदस्स समवसरणम्मि । अजंतणे अविकहे वेर-विसुक्के भय-विहीणे ॥
- 21 अह भाणिउ पयत्तो जोयण-णीहारिणीए वाणीए । गंभीर-महुर-वोसो णमोत्थु तित्यस्स वयणामिणं ॥ 21  
इय भणियम्मि समं चिय सव्वे वि सुरिंद-दणुवइप्पसुहा । कर-कमल-मउलि-सोहा पणया देवा जिणिंदस्स ॥  
अह सुर-गर-तिरिएसु य सण्णी-पाचिंदिएसु सव्वेसु । परिणमइ सभासाए एक्कं चिय सव्व-सत्तेसु ॥
- 24 जह बुज्झइ देव-गुरु सयल-महासत्थ-वित्थरुफाल । णउलाइं वि तह चिय वियप्प रहियं जिणाण ति ॥ 24  
§ १७९ ) इमाए उण एरिसाए वाणीए सयल-सुरासुर-गर-तिरियामय-पाण-सरिसाए किं भणिउ पयत्तो भगवं  
धम्म-जिणिंदो ।
- 27 लोयम्मि अत्थि जीवो अत्थि अजीवो वि आसवो अत्थि । अत्थि य संवर-भावो वधो वि य अत्थि जीवस्स ॥ 27  
अत्थि य णिज्जरणं पि य मोक्खो वि य अत्थि णवर जीवाणं । धम्मो वि अत्थि पयडो अत्थि अहम्मो वि लोयम्मि ॥  
सद्व्व-खेत्त-कालाभावेहि य अत्थि अप्पणो सव्वं । पर-दव्व-खेत्त-कालाभावेहि य णत्थि सव्व पि ॥
- 30 जइ वि ण वेप्पइ जीवो अप्पच्चक्खो सरोर-मज्झम्मि । तह वि अणुमाण-नाम्मो इमेहिं लिंगेहिं णायव्वो ॥ 30  
उग्गह-ईहापूहा-मग्गण तह धारणा य मेहा य । बुद्धी मइं वियक्का विण्णणं भावणा सण्णा ॥  
अक्खेवण-उक्खेवण-आउंच-पसारणा य गमण च । आहार-भसण-दसण-पहण-वियारा वहु-वियप्पा ॥
- 33 एय करेमि संपइ एयं काहामि एस-कालम्मि । एयं कयं ति-काले तिण्णि वि जो मुणइ सो जीवो ॥ 33  
सो य ण सिओ ण कण्हो ण य रत्तो णेय णील-क्कावोओ । देहम्मि पोग्गल-मए पावइ वण्णक्कमं णवर ॥  
ण य दीहो ण य तसो ण य चउरसो ण वट्ट-हुडो वा । कम्मेणं देहत्थो संठाण पावए जीवो ॥



- 1 > P कतिल्ले 2 > P चलियधय, P चावरिं 3 > P ससिदि, P रइय for रुइर 5 > P कणयपोमराहा, P repeats  
रइया, J वाईओ 6 > P पवणुवेळिर, P घूय for चूय 7 > P देवेण मय 8 > P साइसा for सहसा 9 > P राह for हार, J  
जिण for गुण 11 > P उक्कुट्टिसीहनीहो, P adds वहति before य 12 > P ठावते 13 > P अह विसिं, P चेतियरुक्ख,  
P वुत्ततो for थुव्वतो 14 > P तत्तो, J विय for चिय, P तरसेय पहावओ 15 > P नमिय 16 > J रुद व्व पडिं 17 >  
J विमाणा, P भवणाण वासिणो होइ 18 > P देवीइ 19 > J संठियाइ P संठियाइ 20 > P जोव्वणमेत्ते, P य विकहे for  
अविकहे 23 > P परिणवइ सहासने एक्क चिय सव्वसत्थेसु 25 > P om वाणीए, P पयात्तो 27 > P लोअमि य अत्थि, P ॥  
अत्थि जीवस्स । अत्थि निज्जरण पि यामोक्खो 28 > P सुहमोय for अहम्मो वि 29 > P कालाभावे चिय अत्थि 30 >  
P जीवो इय पच्चक्खो 31 > P विअप्पा for वियक्का 32 > J आउट, P हसण for भसण, J सइण for दसण, P वितारा  
34 > P किण्हो, P नीय for णील

- 1 ण य सीयलो ण उण्हो ण य फरुसो णेय कोमलप्परिसो । गुरु-लहु-सिणिद्ध-भावं वच्चइ देहम्मि कम्मेषं ॥ 1
- ण य अंवल्लो ण महुरो ण य तित्तो कडु-कसाय-लवणो व्व । दुरही-सुगंध-भावं वच्चइ देहस्स मज्झ-गओ ॥ 2
- 3 ण य सो घडवड-रुओ अच्चइ देहस्स मज्झयारम्मि । ण य होइ सव्व-त्तावी अंगुट्ट-समो वि य ण होइ ॥ 3
- णिय-कम्म-गहिय-पोग्गल-देह-पमाणो परोप्पराणुगओ । णह-दंत-केस-वज्जो सेस-सरीरम्मि अवि भावो ॥ 4
- जह किर तिलेसु तेहं अहवा कुसुमम्मि होइ सोरब्भं । अण्णोण्णाणुगयं चिय एवं चिय देह-जीवाणं ॥ 5
- 6 जह देहम्मि सिणिद्धे लग्गइ रेणू अलक्खिओ चेय । रायदोस-सिणिद्धे जीवे कम्मं तह चेय ॥ 6
- जह वच्चंते जीवे वच्चइ देहं पि जत्थ सो जाइ । तह मुत्तं पिव कम्मं वच्चइ जीवस्स णिस्साए ॥ 7
- जह मोरो उड्डीणो वच्चइ घेत्तुं कलाव-पट्भारं । तह वच्चइ जीवो वि हु कम्म-कलावेण परियरिओ ॥ 8
- 9 जह कोइ इयर-पुरिसो रंघेऊणं सयं च तं भुंजे । तह जीवो वि सयं चिय काउं कम्मं सयं भुंजे ॥ 9
- जह वित्थिण्णम्मि सरे गुंजा-वायाहओ भमेज्ज हडो । तह संसार-समुद्दे कम्माइद्धो भमइ जीवो ॥ 10
- जह वच्चइ को वि णरो णीहरिउं जर-घराउ णवयम्मि । तह जीवो चइऊणं जर-देहं जाइ देहम्मि ॥ 11
- 12 जह रयणं मयण-सुगूहियं पि अंतो-फुरंत-कंतिहं । इय कम्म-रासि-गूढो जीवो वि हु जाणए किंचि ॥ 12
- जह दीवो वर-भवणं तुंगं पिहु-दीहरं पि दीवेइ । मल्लय-संपुड-छूढो तत्तिय-मेत्तं पयासेइ ॥ 13
- तह जीवो लक्ख-समूसियं पि देहं जणेइ सज्जीवं । पुण कुंथु-देह-छूढो तत्तिय-मेत्तेण संतुट्ठो ॥ 14
- 15 जह गयणयले पवणो वच्चंते णेय दीसइ जणेण । तह जीवो वि भमंतो णयणेहि ण घेप्पइ भवम्मि ॥ 15
- जह किर घरम्मि दारेण पविसमाणो णिहंभई वाऊ । इय जीव-घरे हंभसु इंदिय-दाराहं पावस्स ॥ 16
- जह डज्झइ तण-कट्टं जाला-मालाउलेण जलणेणं । तह जीवस्स वि डज्झइ कम्म-रयं ज्ञाण-जोएण ॥ 17
- 18 वीर्यंकुराण व जहा कारण-कज्जाइं णेय णज्जंति । इय जीव-कम्मयाण वि सह-भावो णंत-कालम्मि ॥ 18
- जह धाऊ-पत्थरम्मि सम-उप्पण्णम्मि जलण-जोएहिं । डहिऊण पत्थर-मलं कीरइ अह णिम्मलं कणयं ॥ 19
- तह जीव-कम्मयाणं अणाइ-कालम्मि ज्ञाण-जोएण । णिज्जरिय-कम्म-किट्ठो जीवो अह कीरए विमलो ॥ 20
- 21 अह विमलो चंदमणी झरइ जलं चंद-किरण-जोएण । तह जीवो कम्म-मलं मुंचइ लद्धूण सम्मत्तं ॥ 21
- जह सूरमणी जलणं मुंचइ सूरेण ताविओ संतो । तह जीवो वि हु णाणं पावइ तव-सोसियप्पाणो ॥ 22
- जह पंक-लेव-रहिओ जलोवरिं ठाइ लाउओ सहसा । तह सयल-कम्म-मुक्को लोग्गो ठाइ जीवो वि ॥ 23
- 24 इय जीव-बंध-सोक्खो आसव-णिज्जरण-संवरे सव्वे । केवलणाणीहिं पुरा भणिए सव्वेहि वि जिणेहिं ॥ 24
- एवं च देवाणुप्पिया ।
- लोक्यम्मि के वि सत्ता विसउम्मत्ता वहम्मि आसत्ता । मरिऊण जंति णरयं दुक्ख-सयावत्त-पउरम्मि ॥ 25
- 27 णाणावरणुदएणं कम्मेषं मोहणीय-पउरेणं । अट्ट-वसट्ठा अण्णे मरिऊणं थावरा होंति ॥ 27
- मय-लोह-मोह-माया-कसाय-वसओ जिओ अयाणंतो । मरिऊण होइ तिरिओ णरय-सरिच्छासु वियणासु ॥ 28
- को इत्थ होइ देवो विमाण-वासी य वंतरो अण्णो । अण्णो भवण-णिवासी जोइसिओ चेव तह होइ ॥ 29
- 30 माणं णिहंभिऊणं तवं च चरिऊण जिणवराणाए । कोइ तहिं चिय जीवो तियासिंदो होइ सग्गम्मि ॥ 30
- अण्णे गणहर-देवा आयरिया चेव होंति अण्णे वि । सम्मत्त-णाण-चरणे जीवा अण्णे वि पावंति ॥ 31
- सयल-जय-जीव-वित्थर-भत्ति-भरोणमिय-संथुयप्पाणो । भव्व-कुमुयाण ससिणो होंति जिणिंदा वि के वि जिया ॥ 32
- 33 अण्णे मोहावत्तं दुह-सय-जल-वीइ-अंगुर-तरंगं । तरिऊण भव-समुदं जीवा सिद्धिं पि पावंति ॥ 33
- तम्हा करेइ तुव्वे तव-संजम-णाण-दंसणेसु मणं । कम्म-कलंक-विमुक्का सिद्धि-पुरं जेण पावेइ ॥ 34

2 > J सुअध 3 > P विड for वड, P य न वि for वि य ण 4 > P परोप्पणुगओ, P केसविज्जो से सरीरम्मि, J भाओ  
5 > P कुसुमेसु देइ सोरम, P एय चिय जीव देवाण 6 > P सिणिद्धो, P अलक्खेओ, P सणिद्धे 7 > P जायइ, J पिविकम्म-  
8 > P कलावभार पि, P य for हु, J वि हु विद्धिकम्मकलावपरिं 9 > J रवेऊण P रवेसऊण 10 > P हटो, P भइ for भमइ  
11 > J कोइ णरो, J नवयति, P नवत्तंमि ज किं चि जह दीवो चऊरुण जह देह 12 > P रयणमयणसुगूहियमि, P गसिमूढो, P नि न  
याणएइ, P om. किंचि ॥ जह दीवो etc. to पि देहं जणेइ 15 > J जीवो for दीवो 16 > P दारे पविम्ममाणो, P वाओ-  
17 > P ज्ञाणजोणेण 18 > P वीर्यंकुराव जाव हा कारण 19 > J धाऊ P धाओ, J पत्थरर्मा, J उप्पण्ण पि. 20 > P अणावि  
काले वि ज्ञाणजोणेहिं, P जीवो अह कीरइ अह निम्मलं कणयं, P repeats तह जीवकम्मयाणं etc. to अह कीरए विमलो 21 >  
J जह for अह, J सरइ for झरइ, P किरणसणेय 22 > P णाण पवइ तह सोमि 23 > P पंकिट्ठेय, P ज्ञाणेणियइलाउओ,  
P कम्म for कम्म 24 > P adds य after इय, J मि for वि. 26 > J विम्युन्नत्ता, P सग्गि for वहम्मि 28 >  
P कम्म for कम्म 29 > P चेव नव होवा 30 > P माण निमुंमिऊण, J कोवि तदि. 31 > P inter.  
P repeats मोह, P होंति for होइ 32 > P सथुयप्पाणो, P व for वि (first) 33 > J पाविंति 34 > P तुव्वे for व्वे, J भिद्धिपुरिं, P  
पाविहिति for पावेइ

- 1 तस्यो पणया सन्वे वि वासवप्पमुहा देव-दाणव-नाणा भणितं च पयत्ता । 'अहो, भगवया कहिया जीवादो पयत्था । 1  
साहियो जीवो, परुवियाइं जीव-धम्महाइ । पणविय वंध-णिज्जरा-मोक्ख-भावं' ति ।
- 3 § १८० ) एत्थंतरम्मि कहतर जाणित्तण विरह्यंजलिउडेण पुच्छिओ भगवया गणहर-देवेण धम्म-जिणवरो । 3  
'भगवं, इमीए स-सुरासुर-णर-तिरिय-सय-सहस्स-संहुलाए परिसाए को पढमं कम्मक्खय काऊण सिद्धि-वसहिं पाविहइ'  
त्ति । भगवया भणियं । 'देवाणुपिया,
- 6 एसो जो तुह पासेण मूसओ एइ धूसरच्छाओ । संभरिय-पुव्व-जम्मो संविग्गो णिठभर-पयारो ॥ 6  
मह दसण-परितुट्ठो आणंद-भरत-वाह-णयणिल्लो । तद्धविय-कण्ण-जुयलो रोमसुच्चइय-सव्वंगो ॥  
अम्हाण सव्वाण वि पढमं चिय एस पाव-रय-मुक्को । पाविहइ सिद्धि-वसहिं अक्खय-सोक्खं अणावाह ॥'
- 9 एव च भगवया भणिय-मेत्ते सयल-णरिंद-वद्र-तियसिंद-दणुवइ-पमुहस्स तियस-वलिय-वलत-कोउय-रहस-वस-वियसमाणाइ 9  
णिवडियाइ रण्णुदुरस्स उवरि दिट्ठि-माला-सहस्ताइं । सो य आगतूण भत्ति-भर-णिठभरो भगवओ पायवीढ-ससिओ  
महियल-णिमिउत्तमंगो कि किं पि णिय-भासाए भाणित्त पयत्तो । भणिय च तियस-णाहेण । 'भगवं, महत्तं मह कोउहलं
- 12 जं एस सव्वाहम-तुच्छ-जाईओ क्रोमल-वालुया-थली-विल-णिवास-दुल्लिओ रण्णुदुरो सव्वाण चेय अम्हाण पढम सिद्धि-पुरिं 12  
पाविहइ ति । कह वा इमिणा थोव-कम्मणे होइऊण एसा खुइ-जाई पाविय' ति ।

- § १८१ ) भगवया भणिय । 'अत्थि विंझो णाम महीहरो । तस्स कुहरे विज्जवासो णाम संगिवेसो विसमतो य । तत्थ पच्च-  
16 तिओ महिंदो णाम राया । तस्स तारा णाम महादेवी । तीए पुत्तो ताराचंदो अट्ट-वरिस-मेत्ते । एयस्मि अवसरे छिहुण्णेसिणा 16  
वद्ध-वेराणुसएण कोसलेण रण्णा ओक्खंटां डाऊण भेहिय त सणिवेसं । तहिं णिग्गदो महिंदो, जुज्झित्तं पयत्तो, जुज्झतो य  
विणिवाइओ । तसो हयं सेणं अणागय ति पलाइउं पयत्त, सव्वो य जणो जीव-सेसो पलाणो । तत्थ तारा वि महादेवी तं पुत्तं
- 18 ताराचंदं अंगुलीए लाइऊण जणेण समयं पलायमाणी य भरुयच्छ णाम णयर तत्थ संपत्ता । तसो तत्थ वि ण-याणाए कस्स 18  
सरणं पवजामो । ण कयाइ वि कस्सइ अणिमित्तु थुडुकिय मुहं दिट्ठं खलयणास्स । तसो तण्हा-च्छुहा-परिस्समुव्वेय-वेवमाण-  
हियया कत्थ वच्चामि, कत्थ ण वच्चामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्थ पविसामि, किं पुच्छामि, किं वा आलवामि,  
21 कह वा वट्ठियव्व' ति चिंतयती तरला सुण्णा रण्ण-रुरग-सिल्लिणी विय अहिणव-प्पसूया णियय-जूह-भट्टा तुण्ण-कायर-हिय- 21  
विया एकम्मि णयर-वच्चर-सिव-मडवे पविसिउ पयत्ता । खणेण य गोयरग-णिग्गय साहुणीण जुवलय दिट्ठ । तं च दट्ठूण  
चिंतियं तीए । 'अहो, एयाओ साहुणीओ महाणुभागाओ धम्म-णिरयाओ वच्चतीओ य पुरा मस पेइयम्मि पूयणिज्जाओ ।
- 24 तत्थ ता इमाओ जइ पर मह सरणं काऊण अम्हारिसाण गइ' ति चिंतयती पुत्तं अंगुलीए घेत्तूण समुट्ठिया, वंदियाओ णाए 24  
साहुणीओ । आसीसिया य तहिं, साणुणय च पुच्छिया 'कत्तो सि आगया' । तीए भणिये 'भयवइओ विंझपुराओ' ।  
ताहिं भणियं 'कस्स पाहुणीओ' । तसो तीय भणिय 'इमं पि ण-याणामि' ति । तसो तीय रूव लायण्ण-लक्खणादिसयं
- 27 पेच्छंतीहिं त च तारिस कळुणं भासिय सोऊण अणुकंपा जाया साहुणीणं । ताहिं भणिय 'जइ तुह इह णयरे कोइ णत्थि, 27  
ता एहि पवत्तिणीए पाहुणी होहि' । तीए वि 'अणुग्गहो'त्ति भणतीए पडिक्खण । गतु च पयत्ता । मग्गालग्गा दिट्ठा य पवत्ति-  
णीए, चिंतिय च णाए 'अहो, इमाए वि आगितीए एरिसा आवइ' ति । तसो असरिस-रूव-जोव्वण-लायण्ण-लक्खण-विला-
- 30 सेहिं लक्खियं पवत्तिणीए जहा का वि राय-दारिय ति । इमो य से अइसुंदरो पासे पुत्तओ ति । तीए वि उवगंतूण वदिया 30  
पवत्तिणी । आसीसिया, तीय पुच्छिया य 'कत्तो आगया' । साहिय च णियय-वुत्तं पवत्तिणीए । तसो सेजायर-धरे  
समपिपया । तेहिं वि णियय-धूय व्व विगय-समा सा कया । सो वि रायउत्तो अवभंगिउच्चत्तिय-मज्जिय-जिमिय-विलित्त-
- 33 परिहिओ कसो, सुह-णिसण्णो य । भणिया पवत्तिणीए 'वच्छे, किं संपयं तए कायव्व' ति । तीए भणियं 'भयवइ, जो मह 33

1 > P adds या before सन्वे, P देवादानव, P om च, J जीवातिओ P जीवादयो 2 > P मोक्खो भाव 3 > P विरइ  
अजलिणा 4 > P पाविहित्ति 5 > J देवाणुपिया 6 > P एय for एइ, J om धूसरच्छाओ 7 > P भणतवाहु- 8 >  
P पढमचिय, P पाविहित्ति, J सिद्धिवसइ, P सोक्खो अणावाहि 9 > J वद for वद्र, J प्पमुहस्स, P ति for तियस, P वियसमणाइ  
10 > P रत्तदुरस्स, P दिट्ठी, P पायपीढ 11 > P महियलनिउत्तं, P om one किं, P नियय, P कोउहल 12 > P जाइओ, P  
थलिनिवास, P रण्णुदुरो, P inter अम्हाण & चेय, P सिद्धिफल पुरिं 13 > J पाविहि ति, P थोय for थोव, P होइऊणा P खुइ,  
जाई 14 > P महिहरो, J कुलहरे for कुहरे, J adds महा before सणिवेसो 15 > J तीय, P छिहुमेसेणा 16 >  
J ओखद, P से for त, P सनिव्वेसं, P निग्गओ, P om य 17 > J पयत्तो, P जीयसेसो 18 > P जाणेण for जणेण 19 >  
P अणुमित्तथुडुकिय, P सुव्वेवमाण, J वेवमाणहिअविजा 20 > P om कत्थ ण वच्चामि किं करेमि, P om ण before करेमि,  
P आलसामि 21 > J om तरला, P तरलारत्तकुरगिसिल्लिणी विय, P पससा 23 > P चिंतयतीए, P वच्चतीय, P पूणिज्जाओ  
24 > P om ता, P अम्हारिसा गइ ति चिंतयतीए पोत्त 25 > P तीए ताहिं भणिय धम्मलाओ ति for णाए साहुणीओ । आसीसिया  
य ताहिं, साणुणय च, J तीय for तीय, P भयवइओ 26 > J ताहिं for तीय, P इममि न याणमि । तसो, P रूवलायण्णलक्खणाइसय  
पेच्छयतीहिं 27 > P भणिय, P जाया जुणीण, P om इह 28 > P होइ, J तीय, J भणतीय, P रग्गा विट्ठायो पवित्तिणी  
29 > P om वि, P अगीतीए, P अवत्थ for आवइ, P विलासाए 30 > P पवित्तिणीए, P रायादारिय, P अगोसे for इमो य  
से, P दाओ for पुत्तओ, J तीय for तीय, P om वि 31 > P पवित्तिणी य धमलाहिया । तीय, J णियय, J पवित्त (ती?) णीए  
P पवित्तिणीए, P सेजायर 32 > P om वि, P सायर दिट्ठा for विगयममा सा कया, P अवभगिय- 33 > P सुयनिसन्ना, P  
repeats वत्तिणीए before वच्छे, J तीय for तीय

1 ग्राहो सो रणमि विणिवाहो । विणद्धं विंझपुरं । णट्टो परियणो । चंडो कोसल-णरिंदो । बालो पुत्तो अपरियणो य । ता 1  
णत्थि रजासा । अह उण एत्थ पत्त-कालं तं करेमि, जेण पुणो वि ण एरिसीओ आवइओ पावेमि त्ति । सव्वहा तुमं जं 2  
8 धादिगसि तं चेय करेमि' त्ति । तओ पवत्तिणीण् भणियं । 'वच्छे, जह एत्थं ते णिच्छओ, तओ एस ताराचंदो आयरियाणं 3  
समपिपवो, तुमं पुण अम्हाणं मज्जे पण्ययाहि त्ति । एवं कए सव्वं संसार-वास-दुक्खं छिण्णं होहिद्' त्ति । तीए वि 'तह' त्ति 4  
पडिवण्णं । समपिपवो ताराचंदो भगवओ अणंत-जिणवर-तित्थे अणुवत्तमाणे सुणंदस्स आयरियस्स । तेण वि जहा-विहिणा 5  
6 पण्णाविओ ।

§ १८२) तओ किंचि कालंतरं अइत्तं जोच्चण-वस-विलसमाण-रायउत्त-सहावो खग-धणु-जंत-चक्र-गंधव-णट्ट-वाइय-

विलासो उम्मगं काउमाढत्तो । तओ पण्णाविओ आयरिणं, भणिओ गणावच्छेएण, सासिओ उवज्जाएण, संणविओ साहु-  
0 चणेण । एवं च चोइज्जमाणो य ईसि-परिणाम-भंगं काउमाढत्तो । एत्थ य अवसरे आयरिया वाहिर-भूमिं गया । सो य 9  
मग्गओ गओ । तत्थ य अच्छमाणेण वणत्थलीण् रण्णंदुरा कीलंता दिट्ठा । तओ चित्थियं णेणं । 'अहो, धण्णा इमे, पेच्छ 10  
खेलंति जहिच्छाए, फरुसं णेय सुणंति, णेय पणमंति, वियरंति हियय-रुइयं । अव्वो रण्णंदुरा धण्णा । अम्हाणं पुण परायत्त 11  
12 जीवियाणं मय-समं जीवियं, जेण एको भणइ एत्थं करेहि, अण्णो पुण भणइ इमं करेहि, इमं भक्खं इमं चाभक्खं, इमं 12  
पियसु इमं मा छिवसु, एत्थ पायच्छित्तं, एत्थं आलोएसु, विणयं करेसु, वंदणं कुणसु, पडिक्कमसु त्ति । ता सव्वहा एत्थं पि 13  
खणं णत्थि ऊसासो त्ति । तेण रण्णंदुरा धण्णा अम्हाहितो' ति चित्तयंतो वसइ उवगओ । तं च तारिसं गियाण-सहं ण तेण 14  
15 गुरूणं आलोइयं, ण णिंदियं, ण पायच्छित्तं चिण्णं । एवं च दिवहेसु वचंतेसु अकाल-मच्चूप मरिऊण णमोक्कारेणं जोइसियाणं 15  
मज्जे किंचि-ऊण-पलियाउओ देवत्ताण् उववण्णो । तओ तत्थ एसो भोए भुंजिऊण एत्थ चंपाए पुव्वुत्तरे दिसा-भाए मोरुत्थलीए 16  
थलीए रण्णंदुर-कुले एकाए रण्णंदुर-सुंदरीए कुच्छिसि उववण्णो । तत्थ य जाओ णियय-समएणं, कमेण य जोव्वणमणुप्पत्तो । 17  
18 तत्तो अणेय-रण्णंदुर-सुंदरी-वद्द-परियरिय-मंदिरो रममाणो अच्छिउं पयत्तो । तओ कर्हिचि वाहिरं उवगयस्स समवसरण- 18  
विरयण-कुसुम-वुट्ठी-गंधो भागओ । तेण य अणुसारेण अणुसरंतो तहाविह-कम्म-चोइज्जमाणो य एत्थ समवसरणे संपत्तो, 19  
सोउं च समाढत्तो मह वयणं । सुणंतस्स य जीवाइए पत्थे पेच्छंतस्स य साहु-लोयं तहाविह-भवियव्वयाए ईहापूह-मग्गणं 20  
21 करेमाणस्स 'एरिसं वयणं पुणो वि णिसुय-पुव्वं' त्ति, 'एत्थं पुण वेसं अणुहूय-पुव्वं' त्ति चित्तयंतस्स तस्स तहाविह-णाणावरणीय- 21  
कम्म-खओवसमेणं जाई-सरणं उववण्णं । 'अहं संजओ आसि, पुणो जोइसिओ देवो, पुणो एस रण्णंदुरो जाओ' त्ति । एत्थं 22  
सुमरिऊण 'अहो, एरिसो णाम एस संसारो त्ति, जेण देवो वि होऊण तिरिय-जाईए अहं उववण्णो त्ति । ता आसणं भगवओ 23  
24 पाय-मूले गंतूण भगवंतं वंदामि । पुच्छामि य किं मए उंदुरत्तणं पत्तं, किं वा पाविहामि' त्ति चित्तयंतो एस मम सयासं 24  
आगयो त्ति । बहुमाण-णिब्भर-हियओ य ममं हियएण थुणिऊण समाढत्तो । 'अवि य,

भगवं जे तुह आणं तिहुयण-गाहस्स कह वि खंडंति । ते मूढा अम्हे विय दूरं कुगईसु वियरंति ॥

27 ता भगवं, किं पुण मए कयं, जेणाणुभावेण एस एरिसो जाओ मि' । एस पुच्छइ । 'ता भो भो महासत्त, तम्मि काले 27  
तए चित्तियं जहा रण्णंदुरा धण्ण' त्ति । तओ तेण गियाण-सह-दोसाणुभावेण देवत्तणे वि आउय-गोत्ताइ रण्णंदुरत्तणे 28  
णिबद्धाई ।

30 § १८३) एत्थंतरे पुच्छिओ भगवया गणहारिणा । 'भगवं, किं सम्मदिट्ठी जीवो तिरियाउयं वंधइ ण व' त्ति । भणियं 30  
च भगवया 'सम्मदिट्ठी जीवो तिरियाउयं वेदेइ, ण उण वंधइ । भण्णइ य ।

1 > P विञ्जपुर 2 > P पत्तयालन्त, P om ण after वि, J आवइओ, P adds न before पावेमि 3 > P आइससि-  
P om. चेय, J पवत्तिणीय, P तो for ते 4 > J समप्पीयहु P समुप्पिओ, P होइति, J तीय for तीय 5 > P पडिसत्तं, P अणंतइ-,  
P अणुव्वट्टमाणे, P तेणावि 7 > J तओ कंचि, P विलासमाण, J धणुचक्र, P वातिय 8 > P गणावच्छेआएण सासिया, P om,  
उवज्जाएण संणविओ etc. to अवसरे आयरिया 10 > P मओ for गओ, P वरात्थलीए रत्तदुरा 11 > P न for णेय, J सुणंति.  
P विरयति हियरुइयं, P रण्णंदुरा, P अम्हाण पुणो 12 > P om पुण, J तम करेइ for इमं करेहि 13 > P एव for इमं  
before मा, P एव for एय, J पि ण खण्णत्थि 14 > P रत्तदुरा, P om. त्ति, P वसहिं, P -सह न चेय गुरूणोइय न. 15 > J  
जोतिसियाणं 16 > J पलित्तवुओ P पलियाओउ, J om. एसो, P एत्थ चंपाए, P दिसाविभाए मोरच्छलीए रण्णंदुरकुले 17 > J  
एका रण्णंदुरदरीए कुच्छीए, P रण्णंदुर, P जोव्वण संपत्तो 18 > J तओ for तत्तो, P अणेय र सुंदरसुंदरी, P परिंदिय,  
P सवसरणवियरणा 19 > J बुट्ठी, P om. य 20 > J जीवातीए पत्थे, P तहाविहभविहभवियं, J भवितव्वताए य  
ईहा, P ईहापूहयमग्गण 21 > J करमाणस्स, P om त्ति, J om. तस्स 22 > J कम्मखयोव, J सजोतो, P संज्जओ, J जोति-  
सिओ, P om एस, J om त्ति 23 > P जेण दोवो वि 24 > J पानीहामि, P सगास 25 > P बहुनाण, P om य before  
ममं 26 > P खडेंति, P विव दूर कुगवीसु 27 > P सए for एस, P om one भो, J महासत्ता P महासत्तो 28 >  
P रण्णंदुरा, P adds निंदिया before गियाण, P रण्णंदुरत्तणेण 30 > P एत्थंतरेण, P सम्मदिट्ठी, P adds व before वंधइ,  
31 > P सम्मदिट्ठी, J वेतेति for वेदेइ, P वंधति, P वा for य

१ सम्मत्तम्मि उ लद्धे ठइयाइं णरय-तिरिय-दाराह । जइ य ण सम्मत्त-जडो अहव ण वद्धाउओ पुर्वि ॥ 1  
 ता इमिणा देवत्तणम्मि वट्टमाणेण सम्मत्तं वमिऊण आउयं तिरियत्ते वद्ध' ति । भणियं च तियसवइणा 'भगवं, कहं पुण  
 ३ संपयं एस सिद्धिं पाविहि' त्ति । भणियं च भगवया । 'इओ एस गंतूणं अत्तणो वणत्थलीए वच्चंतो चिंतिहिइ हियए । 3  
 'अहो दुरंतो संसारो, चलाइं चित्ताइ, चंचला इदिय-तुरगमा, विसमा कम्म-गइं, ण सुंदर णियाण-सछं, अहमा उदुर-  
 जोणी, दुल्लह जिणवर-मग्ग, ता वर एत्थ णमोक्कार-सणाहो मरिऊण जत्थ विरइ पावेमि तत्थ जाओ' त्ति चिंतयतो तम्मि चैय  
 6 अत्तणो विल-भवणेक्क-देसे भत्तं पचाइक्खिय एय चिय मह वयणं ससारस्स दुग्गत्तण च चिंतयतो णमोक्कार-परो य 6  
 अच्छिहइ त्ति । तत्थ वि से चिट्ठंतस्स रण्णुदुर-सुदरीओ सामाय-तंदुल-कोइवाइए य पुरओ णिमंति । तओ चित्तेहिइ ।  
 'ओ भो जीव दुरत-पंत-लक्खण, एत्तियं काल आहारयंतेण को विसेसो तए सपावियो । संपय पुण भत्त-परिच्चाएण तं  
 9 पावसु जं संसार-तरंडय' ति चिंतयंतो तत्तो-हुत्तं ईसिं पि ण पुलएइ । एयारिस तं दट्टूण ताओ रण्णुदुर-सुंदरीओ चिंतिहिंति । 9  
 'अहो, केण वि कारणंतरेण अम्हाण एस साम-सुंदरगो कोवियो होहिइ । ता टे पसाएमो' त्ति चिंतयंतीओ अल्लीणाओ ।  
 तओ का वि उत्तिमग कहुयइ, अण्णा मंसु-इसे दीहरे संठवेइ, अण्णा रिक्खाओ अवणेइ, अण्णा अंगं परिमुसइ । एवं च  
 12 कीरमाणो चिंतिहिइ । अवि य, 12

णरओयार तुब्भे तुब्भे सग्गगलाओ पुरिसस्स । संसार-दुक्ख-मूलं अवेह पुत्तीउ धुत्तीओ ॥

त्ति मण्णमाणो ण ताहिं खोहिज्जिहि त्ति । तओ तत्थ तइए दियहे खुहा-सोसिय-सरीरो मरिऊण मिहिलाए णयरीए मिहिल्लस्स  
 15 रण्णो महादेवीए चित्तणामाए कुच्छीए गवभत्ताए उववज्जिहिइ । गवभत्थेण य तेण देवीए मित्त-भावो सव्व-सत्ताणं उव्वरिं 15  
 भविस्सइ । तेण से जायस्स मित्तकुमारो त्ति णामं कीरिहिइ । एवं च परिवट्टमाणो कोत्तुहली वालो कुक्कुड-मक्कए  
 पसु-संवर-कुरग-वोरुइवेहिं वधण-ववएहिं कीलिहि त्ति । एव च कीलंतस्स अट्ट वरिसाइ पुण्णाइ । समागओ वासारत्तो ।  
 18 अवि य, 18

गज्जति घणा णच्चंति वरहिणो विज्जुला वलवलेइ । रक्खग्गे य बलाया पहिया य धरेसु वच्चति ॥

जुप्पंति णंगलाइं भज्जंति पत्राओ वियसए कुडओ । वासारत्तो पत्तो गामेसु घराइं छज्जति ॥

२१ एरिसे य वासारत्त-समए णिग्गओ सो रायउत्तो मित्तकुमारो णयर-चाहिरुहेसं । कीलंतो तेहिं सउण-सावय-गणेहिं वधण-21  
 वद्धेहिं अच्छिहिइ । तेण य पएसेण ओहिणाणी साहू वच्चिहिइ । वोलेंतो चैय सो पेच्छिऊण उवओगं दाहिइ चित्तेहिइ य  
 'अहो, केरिसा उण रायउत्तस्स पयई, ता कि पुण एत्थ कारणं' ति । उवउत्तो ओहिणाणेण पेच्छिहिइ से ताराचद-साहु-रूवं,  
 २४ पुणो जोइस-देवो, पुणो रण्णुदुरओ, तओ एत्थ समुप्पण्णो' त्ति । जाणियं च साहुणा जहा एसो पडिबुज्जइ त्ति चिंतयतो 24  
 भाणिहिइ । 'अवि य,

भो साहू देवो वि य रण्णुदुरओ सि किं ण सुमरासि । णिय-जोणि-वास-त्तुट्ठो जेण कयत्थेसि तं जीवे ॥'

२७ तं च सोऊण चिंतिहिइ कुमारो 'अहो, किं पुण इमेण मुणिणा अह भणियो, साहू देवो रण्णुदुरओ' त्ति । ता सुय-पुवं पिव 27  
 संतियं णेण । एवं च ईहापूहा-मग्गण-ववेसण करेमाणस्स तहाविह-कम्मोवसमेण जाई-सरण से उववज्जिहिइ । णाहिइ य  
 जहा अहं सो ताराचदो साहू जाओ, पुण देवो, तत्तो वि तिरएसु रण्णुदुरो जाओ त्ति, तम्हा मओ णमोक्कारेण इहागओ  
 ३० त्ति । तं च जाणेऊण चिंतिहिइ । 'अहो, विरत्थु संसार-वासस्स । कुच्छिओ एस जीवो जं महा-दुक्ख-परपरेण कह-कह वि 30  
 पाविऊण दुल्लह जिणवर-मग्गं पमाओ कीरइ त्ति । ता सव्वहा सपय तहा करेमि जहा ण एरिसाइ पावेमि । इमस्स चैव  
 मुणिणो सगासे पव्वइउ इमाइ तवो-विहाणाइ, इमाइं अमिग्गह-विसेसाइ, इमा चरिया करेमि' त्ति चिंतयंतस्स अउव्व-  
 ३३ करणं खवग-सेही अणंत-केवल-वर-णाण-दसण समुप्पज्जिहिइ । 33

२ > P च रियसवइणा ३ > J इ for त्ति, P चिंतिहि, J om हियए ४ > P तुरगा ५ > P दुल्लह, P विरइय ६ > P  
 चैय for चिय, P ससारदुग्गं, P om य ७ > P से चिट्ठं च सारणदुरदुदुरीओ, J कोइवाइए P कोइवायिए, P चित्तेइ ८ > J वत  
 for पत, P निल्लक्खण for लक्खण, J आहारतेण ९ > P तरंडयतो हुतत्तो त ईसिं, P एतारिस च त, P रण्णुदुर १० > J केणावि,  
 P कालतरेण, कुवियो होही ! ११ > J उत्तमग, P कहुयइ, P कोसे, J अन्ना लिक्खाओ अवणेइ अ अन्ना १३ > P inter तुब्भे &  
 नरओयार, P मुत्तीउ for पुत्तीउ १४ > P om त्ति, P खोहिज्जिहि त्ति, P om तओ, P महिलाए नयरीए महिरस्स १५ > P कुच्छीए  
 गव्वे उववत्तो, P om य, P सव्व for सव्व १६ > P जाओ for भविस्सइ, J adds त्ति after भविस्सइ, P से जोयस्म,  
 P कीरइइ, P माणकोइहली, J पालो for वालो १७ > P कुरगमोरुदुरेहिं वयणवद्धेण कीलि, J ति for त्ति, P om च १९ >  
 P विज्जुला चलचनेइ २१ > P om य, P गणेणहि २२ > P om अच्छिहिइ, P य तेएसेण य ओहि, P वच्चियइ, J वोलेचैय, P  
 om चैय, J उवगओग, P दीहीइ, J चित्तेहिइ P om चित्तेहि य २३ > J inter पयई & रायउत्तस्स, P पुण तेत्थ, P पेच्छइ  
 से २४ > P रण्णुदुरओ २६ > P रण्णुदुरणो, J किण्ण P कि दिन्न २७ > P चिंतिहीइ, P रण्णुदुरतो, P ति for पिव  
 २८ > P से उप्पन्न । जाणियं च णेण जहा अह से तारा, P पुणो, P तिरिएसो रण्णुदुरो, J उ for मओ ३० > J परपरे ३१ >  
 P सपयत्तहा, P inter एरिसाइ & ण, J चैय ३२ > J नयाने, J om तवोविहाणाइ इमाइ ३३ > P समुप्पज्जिहि त्ति

1 एत्थंतरम्मि जं तं आउय-कम्मं ति तेण संगहियं । केवल-णाणुप्पत्ती तस्स खओ दो वि जायाइं ॥ 1  
 एवं च तक्खणं चेय तत्तिय-मेत्त-कालाओ अंतगड-केवली होहिइ त्ति । तेण भणिमो जहा एस अम्हाणं सव्वाण वि पढमं  
 3 सिद्धिं वच्चिहिइ । अम्हाणं पुण दस-चास-लक्खाउयाणं को वच्चइ त्ति । 3

§ १८४ ) इमं च रण्णुदुरक्खाणयं णिसामिऊण सव्वाणं चेय तियसिंदप्पमुहाणं सुरासुराणं मणुयाण य महंतं कोउयं  
 समुप्पणं । भत्ति-बहु-माण-सिणेह-कोउय-णिभर-हियएणं सुरिंदेणं आरोविओ णियय-करयले सो रण्णुदुरो । भणियं च  
 6 वासवेणं । 'अहो,  
 6

तं चिय जए कयत्थो देवाण वि तं सि वंदणिज्जो सि । अम्हाण पढम-सिद्धो जिणेण जो तं समाइट्ठो ॥

भो भो पेच्छह देवा एस पभावो जिणिंद-मग्गस्स । तिरिया वि जं सउण्णा सिज्झंति अणंतर-भवेण ॥

9 तेणं चिय वेंति जिणा अहयं सव्वेसु चेय सत्तेसु । जं एरिसा वि जीवा एरिस-जोणी समल्लीणा ॥' 9

एवं जहा वासवेण तथा य सव्व-सुरिंदेहिं दणुय-णाहेहि य णरवइ-सएहिं हत्थाहत्थिं घेप्पमाणो राय-कुमारओ विय पसंसिज्ज-  
 माणो उववूहिज्जंतो थिरीकरिज्जंतो वणिज्जंतो परियंदिओ पूइऊण पसंसिओ । अहो धण्णो, अहो पुण्णवंतो, अहो कयत्थो, अहो  
 12 सलक्खणो, अहो अम्हाण वि एस संपूर-भणोरहो त्ति जो अणंतर-जम्मे सिद्धिं पाविहइ । ण अण्णहा जिणवर-वयणं ति । 12

एयम्मि अवसरे विरइयंजलिउडेण पुच्छियं पउमप्पह-देवेणं । भणियं च णेण 'भगवं, अम्हे भव्वा किं अब्भव' त्ति ।

भगवया भणियं 'भव्वा' । पुणो देवेण भणियं 'सुलह-बोहिया हुलह-बोहिय' त्ति । भणियं च भगवया 'किंचि

15 णिमित्तं अंगीकरिय सुलह-बोहिया ण अण्णह' त्ति । पउमप्पहेण भणियं 'भगवं, कइ-भव-सिद्धिया अम्हे पंच वि जणा' । 15

भगवया भणियं 'इओ चउत्थे भवे सिद्धिं पाविहइ पंच वि तुम्हे' त्ति । भणियं पउमप्पभेणं 'भगवं, इत्तो चुक्का

कत्थ उप्पज्जिहामो' त्ति । भगवया भणियं 'इओ तुमं चइऊणं वणियउत्तो, पउमवरो उण रायउत्तो, पउमसारो उण

18 रायधूया, पउमचंडो उण विंझे सीहो, पउमकेसरो उण पउमवर-पुत्तो' त्ति । इमं च भणमाणो समुट्ठिओ भगवं 18

धम्म-तित्थयरो, उवसंवरियं समवसरणं, पवज्जिया दुंदुही, उट्ठिओ कलयलो, पयट्ठो वासवो । विहरिउं च पयट्ठो भगवं

कुमुद-संड-बोहओ विय पुण्णिमायंदो । अम्हे वि मिलिया, अवरोप्परं संलावं च काउमाढत्ता । एकमेकं जंपिमो 'भो,

21 णिसुयं तुब्भेहिं जं भगवया आइट्ठं । तओ एत्थ जाणह किं करणीयं सम्मत्त-लंभत्थं' त्ति । तओ मंतिऊण सव्वेहिं 'अहो, 21

को वि वाणियउत्तो, अण्णो रायउत्तो, अवरो वणे सीहो, अण्णो राय-दुहिय त्ति । ता सव्वहा विसंतुलं आवडियं इमं कज्जं ।

ता ण-याणामो कइं पुण बोहि-लाओ अम्हाणं पुण समागमो य होज' त्ति । 'ता सव्वहा इमं एत्थ करणीयं' ति चिंतयंतेहिं

24 भणियं । 'अहो पउमकेसर, तुमं भगवया आइट्ठो, 'पच्छा चविहिसि', ता तए दिव्वाए सत्तीए अम्हाणं जत्थ तत्थ गयाणं 24

सम्मत्तं दायव्वं, ण उण सग्ग-सुंदरी-वंद्र-तुंग-थण-थल-पेळ्ळणा-सुहल्लि-पम्हुट्ठ-सयल-पुव्व-जंपिण्ण होयव्वं' । तेण भणियं ।

'देमि अहं सम्मत्तं, किंतु तुब्भे महं दैतस्स वि मिच्छत्तोवहयमणा ण पत्तियायहिह । ता को मए उवाओ कायव्वो' त्ति ।

27 तेहिं भणियं । 'सुंदरं संलत्तं, ता एयं पुण एत्थ करणीयं । अत्तणोत्तणो रूवाइं जं भविस्साइं रयण-मयाइं काऊण एकम्मि 27

ठाणे णिक्खिप्पंति । तम्मि य काले ताइं दंसिज्जंति । ताइं दट्ठूण कयाइं पुव्व-जम्म-सरणं साहिण्णाणेण धम्म-पडिवत्ती वा

अवेज्ज' त्ति भणमाणेहिं णिम्मवियाइं अत्तणो रूव-सरिसाइं रयण-पडिरूवयाइं । ताइं च णिक्खिप्पत्ताइं णेऊण वणे जत्थ सीहो

30 उववज्जिहि त्ति । तस्स य उवरीं महंती सिला दिण्ण त्ति । तं च काऊण उवगया णियय-विमाणं । तत्थ भोए भुंजता 30

जहा-सुहं अच्छिउं पयत्ता । तओ कुमार कुवलयचंद, जो सो ताण मज्झे पउमप्पहो देवो सो एकपए चेय केरिसो

जाओ । अवि य,

~~~~~

1 > P, after तस्स, repeats अउव्वकरणं खमगसेदी etc to केवलणाणुप्पत्ती तस्स 2 > P om. च, J मेत्तकला(त)ओ  
 J om. त्ति, P एसो for एस 3 > P सहस्साउ for लक्खाउ, J वच्चिइ P वच्चउ 5 > J करयलंजलि (णे?) 8 > P सहावो  
 for पभावो, P भवेसु 9 > P तेयण for तेणं, P अहिय 10 > P वावेण for वासवेण, J om य, P नरवर, P हत्थाहत्थेहिं, P  
 रायकुमारो 11 > P उववूहिज्जतो, P om वणिज्जतो (of J?), J विपरिअदिओ, P पसंसिज्ज 12 > P सव्वहा for अहो before  
 अम्हाण, P संपुत्र for संपूर, J जिणवयण 13 > P adds य before अवसरे, P विरइय पजलि 14 > P अम्हा for भव्वा  
 after भणियं, J om पुणो देवेण भणियं, J हुलहवोधिअ त्ति 15 > P अगीकरी सु, P पउमप्पभेण, J कतिभव 16 > J इतो  
 for इओ, J पाविहिइ, J तुम्हेहिं । P तुब्भे त्ति, J इदो चुक्का P इत्तु चुया 17 > J उप्पज्जिहामो, P सपज्जिहामो.  
 J इतो for इओ, P om. पउमवरो उण रायउत्तो, P पढमसारो 18 > P om उण before विंझे सीहो (in P), J पउमवरस्स  
 पुत्तो, P भणमाणो उवट्ठिओ 19 > P विरिहरिउं, P om च, J पयत्तो । कुमुद. 20 > J adds भगव after पुण्णिमायदो.  
 21 > J लम्हत्थ ति 22 > P अन्ने रायउत्तो, P दुहियो त्ति, J विसयुळं 23 > P ता एयं ण-, P om. पुण, P om. ति 24 >  
 P पउमकेसर, P चविहिसि 25 > P adds दाऊण before सुंदरी, J त्यलारूपेळ्ळणा 26 > J महदिसनस्स मिच्छत्तो, P त for  
 ता 27 > P om. पुण before एत्थ, P अत्तणो रूवाइ, P om. जं, J भविस्सइ 28 > P थाणे निक्खिप्पंति, J णिक्खिप्पंति.  
 29 > P वि for ताइं च, P inter जत्थ and वणे 30 > J विमाणे, P मुज्जिता 31 > P पउमप्पमो.



- 1 वियलंत-देह-सोहो परियण-परिवज्जिओ सुदीण-मणो । पवणाहओ च्च दीवो अत्ति ण णाओ कर्हिं पि गओ ॥ 1
- तत्तो य च्चविज्जण मणुयाणुपुव्वी-रज्जु-समायद्धिओ कथ उववण्णो ।
- 3 § १८५ ) इहेव जंबुद्वीवे भारहे वासे दाहिण-मज्झिम-खडे च्चा णाम णयरी । सा य केरिसा । अवि य, 3
- धवल-हर-तुंग-तोरण-कोडि-पढाया-फुरत-सोहिल्ला । जण-णिवहुद्दाम-रवा णयरी च्चप त्ति णामेण ॥
- तीए णयरीए तुलिय-धणवद्द-धण-विहवो धणदत्तो णाम महासेट्ठी । तस्स य घरे घर-लच्छि च्च लच्छी णामेण महिला ।
- 6 तीए य उयरे पुत्तत्ताए उववण्णो सो पउमप्पभो देवो । णवण्ह य मासाण बहु-पडिपुण्णाण अद्दट्टमाण य राइदियाणं 6
- सुकुमाल-पाणिपाओ रनुप्पल-दल-भारओ विय दारओ जाओ । तं च्च दट्टण कय वद्धावणय महासेट्ठिणा जारिसं
- पुत्त-लभस्सुदए त्ति । कय च्च से णाम गुरुहिं अणेय-उवयाइएहि सागरेण दत्तो त्ति सागरदत्तो । तओ पचधाई-परिखुडो
- 9 कमेण य जोध्वण संपत्तो । तो जोध्वण-पत्तस्स य ता रुव-धण-विहव-जाइ-समायार-सीलाण वणिय-कुलाण दारिया सिरी 9
- च्च रुवेण सिरी णामा उवभोग-सहा एगा टिण्णा गुरुरणेण । तओ अणेय-णिद्ध-वधु-भिच्च-परिवारो अच्छिउं पयत्तो । को य
- से कालो उववण्णो । अवि य,
- 12 रेहति इंस-मडलि-मुत्ताहल-मालिया-विहूसाओ । आवण्ण-पयहराओ परियण-वइयाउ व णईओ ॥ 12
- रेहति वणे कासा जलम्मि कुमुयाई णहयले मेहा । सत्तच्छयाई रण्णे गामेसु य फुल्ल-णीयाइ ॥
- एरिसे य सरय-काले मत्त-पमत्ते णच्चिरे जणवए पुण्णमासीए महते जसवे वट्टमाणे सो सागरदत्तो सेट्ठिउत्तो णियय वंधु-णिद्ध-
- 15 परियारो णिग्गओ णयरि-कोमुइ दट्टण । एक्कम्मि य णयरि-चच्चरे णडेण णच्चिउ पयत्त । तत्थ इमं पडियं कस्स वि कइणो 15
- सुहासिय । अवि य ।
- यो धीमान् कुलज क्षमी विनयवान् धीर कृतञ्ज कृती, रूपैश्वर्ययुतो दयालुरशठो दाता शुचिः सन्नप ।
- 18 सद्भोगी दृढसौहृदो मधुरवाक् सत्यव्रतो नीतिमान्, बन्धूना निलयो नृजन्म सफल तस्येह चामुत्र च ॥ 18
- त च्च वोल्लेण तेण सागरदत्तेण णिसुय । तओ सुहासिय-रसेण भणिय तेण । 'ओ भो भरह-पुत्ता, लिहह सायरदत्त इमिणा
- सुहासिएण लक्ख दायव्व' ति । तओ सव्वेहि वि णयरी-रग-जण-णायरएहिं भणिय । 'अहो रसिओ सायरदत्तो, अहो वियट्ठो,
- 21 अहो दाया, अहो चाई, अहो पत्थावी, अहो महासत्तो' ति । एवं पसंसिए जणेणं, तओ एक्केण भणिय खल-णायरएण 'सच्च 21
- चाई वियट्ठो य जइ णियय-दुक्खज्जिय अत्थं टिण्ण, जइ पुण पुव्व-पुरिसज्जिय ता कि एत्थ परदव्व देतस्स । भणिय च्च ।
- 'जो देह धण दुह-सय-समज्जिय अत्तणो भुय-वलेण । सो किर पसंसणिज्जो इयरो चोरो विय वराओ ॥'
- 24 एयं च्च णिसामिज्जण हसमाणेहिं भणिय सव्वेहि णिद्ध-वधवेहिं । 'सच्च सच्च सलत्तं' ति भणमाणेहिं पुल्लइयं तस्स वयणं । 24
- § १८६ ) सायरदत्तो पुण तं च्च सोऊण च्चिंतिउ समादत्तो । 'अहो, पेच्छ कह अहं हसिओ इमेहिं । किं उत्त इमाण मम
- हसिउं जे । अहवा णहि णहि, सुदर संलत्तं जहा 'जो बाहु-वल-समज्जिय अत्थं देह सो सत्ताहिओ, जो पुण परकीय
- 27 देह सो किं भण्णउ' ति । ता सव्वहा मम च्च अत्ताणय णत्थि धण, ता उवहासो चेय अहं' ति च्चिंतयतस्स हियए सल्लं पिव 27
- लगं तस्स । अवि य,
- थेवं पि खुडइ हियए अवमाण सुपुरिसाण विमलाण । वायालाहय-रेणु पि पेच्छ अर्च्छि दुहावेइ ॥
- 30 तह वि तेण महत्थत्तणेण ण पयडिय । आगओ घर, विरइया सेज्जा, उवगओ तम्मि उवविट्ठो, लक्खिओ य सिरीए 30
- इंगियायार-कुसलाए जहा किंचि उच्चिग्गो विय लक्खीयइ एसो । लद्ध-पणय-पसराए य भणिओ तीए 'अज्ज तुम दुम्मणो
- विय लक्खीयसि' । तेण य आगार-संवरणं करेतेण भणिय 'ण-इंचि, केवल सरय-पोणिणमा-महूसव पेच्छमाणस्स परिस्समो

1) P-सोभो, P परियज्जिओ 2) P om य, J च्चरुण, P रज्जसमां 3) J जंबुद्वीवे, P नगरी, P केरिसी 4)

P तोरणकोडिपढागा, P इमरया 5) P om महा, P om य 6) P तीय उयरे, J उवरे, P नवण्ह मासाण, P पुण्णाइ

अद्दट्टमाण राइदियाइ सुकुं 7) J om दल, P adds च्च after कय, P महसेट्ठिणा 8) J पुत्तलभमुअए P पुत्तलंसुदए,

J om कय च्च से etc to सागरदत्तो । P उववाइएहि सागरदत्तो त्ति, P पचधावी- 9) J तओ for तो, J अइ for जाइ P जाई, J

राणिय for वणिय, P दारिय 10) J उवभोगसुहाइ य टिण्णा, P om अणेय, P निवद्ध for णिद्ध, P कोलो for को य से कालो

12) P विभूसाओ, P परिणय for परियण 13) P फुल्लिया निवा ॥, P om य सरयकाले etc to णिग्गओ णयरि 15) P

नयरचच्चरे 17) P कुलज्ज for कुलज, P om कृतञ्ज, P रूपैश्वर्यं, P सन्नप सद्भोगी 18) P तस्येह वा चमुत्र 19) P

वोल्लेण, P om तेण P सायरदत्तेण, P adds च्च after भणिय, J भरहउत्ता, J सायरदत्त 20) P सव्वेहि नयरी, J सागरदत्तो

21) J दाता, P repeats अहो before महासत्तो, P जिणाण for जणेण, P तओ भणिय एक्केण नायरएण 22) P om य,

J भणिव्व । जो 23) P इव for विय 24) P एव च्च निमामिऊण्ह, P ति for second मच्चं 25) P सागरदत्तो

ऊण, J om च्च (later struck off), P दूसिओ for हसिओ, P अम्हाण for इमाण 26) P परकिय 27) P किं न भवउ,

J adds अ before धण, P हियसल्ल 29) P वाओलाहय, J दुवावेइ 31) J किपि for किंचि, J लक्खीयति P लक्खियति'

J तीय, P दुमाणा विय 32) P आगारसवरण, P न किंचि, P adds आसि before महूसव

- 1 जाओ, णिवज्जामि' त्ति भणमाणो णिवण्णो । तत्थ य अलिय-पसुत्तो किं किं पि चिंतयंतो चिट्ठह ताव सिरी पसुत्ता । 1  
सुपसुत्तं च तं णाऊण सणियं समुट्ठिओ । गहियं च एकं साडयं, फालियं च । एकं णियंसियं, दुइयं कंठे णिवद्धं । 1  
3 गहियं च खडिया-खंडलयं । वासहर-दारे आलिहिया इमा गाहुल्लिया । अवि य, 8  
संवच्छर-भेत्तेणं जह् ण समज्जामि सत्त कोठीओ । ता जल्लिद्धण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥  
त्ति लिहिऊण णिग्गओ वास-घराओ । उवगओ णयर-णिद्धमणं । णिग्गओ तेण, गंतुं पयत्तो दक्खिणं दिसिवहं । तं च  
6 केरिसं । अवि य, 6  
बहु-रयणायर-कल्लिओ सुरूव-वियरंत-दिव्व-जुवह-जणो । विबुहयण-समाइण्णो सग्गो इव दक्खिणो सहइ ॥  
तं च तारिसं दक्खिणावहं अवगाहंतो संपत्तो दक्खिण-समुद्ध-तीर-संसियं जयसिरि-णांमं महाणयरिं । जा य कहसिया । कंचण-  
9 षडिय-पायार-कंची-कलाव-रेहिरा, बहु-रयणालंकारिया, सुत्ताहार-सोहिया, संख-वल्लय-सणाहा, दिव्व-मउय-सण्ह-णियसण- 9  
मलय-रस-विलेवण-णाणा-विहुल्लाव-वेयड्ढि-मणोहरा, चारु-दियवर-रेहिर-कप्पूर-पूर-पसरंत-परिमल-सुयंध-धूव-मघमघेंतुगार-  
ककोलय-जाइफल-खंडग-सुयंध-समाणिय-तंबोल व्व णज्जह वासय-सज्जा विय पणइणि महासमुद्ध-णायग-गहिय त्ति । अवि य,  
12 विरहय-रयणाहरणा विलेवणा-रइय-सुरहि-तंबोला । उयहि-दइयं पडिच्छह वासय-सज्जा पणइणि व्व ॥ 12  
§ १८७) तीय य महाणयरिए वाहिरुद्देसे एकम्मि जुण्णुजाणे रत्तासोयस्स हेट्ठा दूर-पह-सम-किलंतो णिसण्णो सो  
वाणियउत्तो । किं च चिंतितं पयत्तो । अवि य,  
15 किं मयर-मच्छ-कच्छव-हल्लिर-वीई-तरंग-भंगिल्ले । उयहिम्मि जाणवत्तं छोट्ठणं ताव वच्चामि ॥ 15  
किं वा णिहय-असि-पहर-दारियासेस-कुंभवीढाए । आरुहिउं कुंजर-मंडलीए गेहे बला लच्छि ॥  
किं वा पयंड-भुय-सिहर-वच्छ-णिच्छल्लणा-रुहिर-पंकं । अज्जं चिय अज्जाए देमि बलिं मंस-खंडेहिं ॥  
18 किं वा राई-दियहं अवहत्थिय-सयल-सेस-वावारो । जा पायालं पत्तो खणामि ता रोहणं चेय ॥ 18  
किं वा गिरिवर-कुहरे खत्तं खणिऊण मेलिउं जोए । अवहत्थिय-सेस-भओ धाउव्वायं च ता धम्मिमो ॥  
इय हियउच्छाह-रसो अवस्स-कायव्व-दिण्ण-संकप्पो । जावच्छह वणिय-सुओ किं कायव्वं ति संमूहो ॥  
21 एवं च अच्छमाणेण दिट्ठो एकस्स माल्ल-पायवस्स पसरिओ पायओ । तं च दट्ठण सुमरिओ अहिणव-सिक्खिओ खण्ण- 21  
वाओ । अहो, एवं भणियं खण्णवाए ।  
मोत्तूण खीर-रुक्खे जह् अण्ण-दुमस्स पायओ होइ । जाणेज्जसु तत्थरथो अत्थि महंतो व्व थोओ व्व ॥  
24 ता अवस्सं अत्थेत्थ किंचि । ण इमं अकारणं । जेण भणियं धुवं विल्ल-पलासयो । केत्तियं पुण होज्ज अत्थो । 24  
तणुयम्मि होइ थोवं थूलम्मि य पादवे बहुं अत्थं । रयणीए जल-समाणे बहुयं थोवं तु उम्हाले ॥  
ता थूलो एस पादवो, बहुओ अत्थो । ता किं कणयं किं वा रययं किं वा रयणे त्ति । हूं,  
27 विद्धम्मि एइ रत्तं जह् पाए तो भवेज्ज रयणाइं । अह छीरं तो रययं अह पीयं तो भवे कणयं ॥ 27  
के-दूरे पुण होज्जा अत्थो ।  
जेत्तिय-भेत्तो उवरिं तेत्तिय-भेत्तेण हेट्ठओ होइ । ण-याणियइ तं दव्वं पावीयदि एस ण व त्ति ॥  
30 जह् उवरिं सो तणुओ हेट्ठे उण होइ पिहुल-परिवेडो । ता जाणसु तं पत्तं तणुए उण तं ण होज्जा हि ॥ 30  
ता ण दूरे, दे खणामि, देवं णमामो त्ति । 'णमो इंदस्स, णमो धरणिंदस्स, णमो धणयस्स, णमो धणपालस्स' त्ति । तं,  
पढमाणेण खयं पएसं । दिट्ठो य णिही । दे गेण्हामि जाव वाया । अवि य,

1) J adds (on the margin) य before सिरी, P पसुत्ता पसुत्ता पसुत्त च त च नाऊण 2) P समुवट्ठिओ, P साडिय P om दुइय 3) P च खडिया खडिया खडिय, P दारे य लिहिया. 4) P जालिधण° 5) P नियय for वास, P नयरनिद्धवण, P adds च after पयत्तो 7) J सुरूव, P सयाइत्तो 8) J तीर, P ससयं, J महह for महा, P नाम जाव कहसिय । 9) P पार for पायार, J रेहिर, J लंकारिय, J सोहिय, J सणाह, J पउज for मउय, P नियंसण 10) J मणोहर, J रेहिर, P सुयवधूव, P om मघ. 11) P ककोलय, J adds सग before सुयध, J सनाणिय P समाणिय, J तंबोल च P तंबोल च, J वासवसज्जा P वासयसज्ज पिअपणइणि, J णायगह त्ति P नायगहियत्ति 12) J रहिअ for रहय 13) P जनुज्जाणे, P हेट्ठे 14) P किंचि चिंतित 15) P कच्छह, P वीची, J भगिल्ल P भगिल्लो, P उवहिमि, P छोट्ठण 16) P आरुहिय, P वलावली ॥ 17) P पयडी for पयड, P निच्छणा, P अज्जए देमि, P मास for मस 18) J intor सेस and सयल, P जो for जा 19) J खेत्त for खत्त 20) P अवस्स, P कायव्व त्ति संमूहो 21) P om. च, P सालुर, P repeats पायवस्स पसरिओ, P पादओ, P अहिणाव, P खण्णवओ 22) P पत्तो for अहो, J खण्णवाते । अवि य P खनुवाए मोत्तूण 23) J पातओ, P पाइओ, P थोव्व. 24) P तावस्स, J पिछरलासयो P विल्लपलासाया, J P अत्थि 25) P योय, J पादये P पायने, J रयणीय जलणमाणे, J थोअ 26) P पायवो, J किं वा for ता किं, P हु 27) J पाते P पावे, P अलह for अइ, P पीत 28) P दूरे उण होज्ज, J अत्थि for अत्थो 29) J जत्तियभेत्तो P जेत्तियभेत्ते, J तत्तियं, J ण याणीअति पावीयदि, P दव्वं पावियमिणाइ तं दव्वं न वा व त्ति 30) J हेट्ठो, P जह for उण, P om. त, P ओयणं for उण, J तण्ण 31) P om दे खणामि, J om देव णमामो त्ति, J णदस्स for इदस्स, P धणयपालस्स for धणयस्स णमो धणपालस्स, J पत्त for त. 32) P पढमाए खयं, J om. य

- 1 जड वि तए उवलडा रक्खिपजइ चक्खट्टिगा एया । गेणहसु य भड-मोहं योयं चिय अंजली-मेत्त ॥ 1
- § १८८ ) एव च मोऊण गहिया एका अजली रूवयाण । णिही वि झत्ति पायाले अदसणं गओ । णिवट्टं च णेण कठ- 3
- ३ कप्पडे त पुट्टलय । तओ चिंतिय वणियउत्तेण । 'अहो, पेत्त चवलत्तण देवस्स । अवि य, 3
- दाऊण ण डिण्ण चिय पुणो वि दाऊण कीस अक्खिपत्त । महिला-हियय-गई विय देव-गई मच्चहा चवला ॥'
- तहा वि कयमणेण भड-मोह । इमेण चैय नमज्जिउ समत्यो ह मत्त-कोडीओ । अवि य, 6
- 6 एणं चैय अहं णट्ट-उरिह कुल अह करेज । विवरीय-सील चरिओ जड देवो होज मज्जत्यो ॥ 6
- चित्तयो पविट्टो तम्मि महाणयरी-विवणि-मगरिमि । तत्य य बोलेणेण दिट्टो एक्कम्मि आमणम्मि वाणियओ परिणय-वओ 9
- मिऊ महवो उज्जय-सीलो । तओ वट्टण चिंतिय । 'एस माहु-वणिओ परिणयो य दीसइ । इमस्य विस्सयसणीयस्य नम- 9
- ९ छियामि' ति । उवगओ तस्य समीव । भणिय च णेण 'ताय, पायवडण' । तेण वि 'पुत्त, दीहाऊ होहि' ति । तेण डिण्ण 9
- आसण णिमण्णो य । तम्मि णयरे तम्मि दियहम्मि महूसवो । तओ बहुओ जगो एड, ण य मो परिणय-वओ जरा-जुण्ण- 9
- जजर-गतो ताणं दाउं पि पारेइ । त च जण-सवट्ट वट्टण भणिय इमिणा 'ताय, तुमं अदिभतराओ णीणेहि ज भंड अह 12
- 12 दाहामि जणस्य' । भणमाणो दाउ पयत्तो । तओ एय गिप्प देइ ति त चैय आवण सच्यो जगो मपत्तो, खणेण य 12
- पेसिओ णेण अमूढ-लक्खेण । जाव योव-वेला ताव विझीयाड भडाइ, महतो लाभो जाओ । वणिण्ण चिनिय । 'अहो, 12
- पुण्णवंतो एस दारओ, सुदर होइ जड अन्ह घर वचइ' ति चित्तयतेण भणिय । 'भो भो दीहाऊ, तुमं कओ आगओ' । 15
- 15 तेण भणिय 'ताय, चपापुरीओ' । तेण भणिय 'रुससेत्थ पाहुणओ' । तेण भणिय 'मज्जणाणं' । येरेण भणिय 'अहो, अम्हे 15
- कीस सज्जणा ण होमो' । तेण भणिय 'तुम चैय मज्जणो, को अण्णो' ति । तओ नेण वणिण्ण तालिय आमण, पयट्टो घर, 15
- उवगओ संपत्तो तत्य य । तत्य णियय-पुत्तस्य व कय णेण सयल कायव्व ति । पुणो अद्वभणिय-महिय-उच्चत्तिय-मज्जिय- 18
- 18 जिमिय-विलित्त-परिहियस्स सुह-णिसण्णस्य उचट्टाविया अहिणवुट्ठिभज्जमाण-पयोहर-भरा णिम्मल-सुह-मियक-पसरमाण- 18
- कवोल-कति-चदिमा विसट्टमाण-कुचलय-इल-णयणा सच्चहा कुसुमवाण-पिय-पणहणि च तस्स पुरओ वणिण्ण णियय-दुहिय 18
- ति । भणिओ य णेण येरेण 'पुत्त, मह जामाओ तुम होहि' ति । भणियं च णेण 'ताय, अन्ह वय कुल गुणा सत्त वा 21
- 21 ण जाव जाणह ताव णियय-दुहिय समप्पेह तुव्वे' । भणिय च येरेण 'कि तए ण सुय कहि चि पडिज्जत । अवि य, 21
- रूवेण णज्जइ कुल कुलेण सील तहा य सीलेण । णज्जनि गुणा तेहि मि णज्जइ मत्तं पि पुरिसाण ॥ 21
- ता तुह विणय-रूवेहिं चैय सिट्टो अह सील-सत्तादि-गुण-वित्तारो । सच्चहा एसा तुज्जं मए समप्पिय' ति । तेण भणिय । 24
- 24 'ताय, अत्थि भणियव्व । अह पिउदराओ णीहरिओ केण वि कारणेण । ता जइ त मह गिप्फण्ण, तओ ज तुम भणिहिसि 24
- त सच्च काहामि । अह त चिय णत्थि ता जलण मह सरण नि । एव सच्चमाये साहिणु मा पडिचव कारेह' । तेण भणिय 'एव 24
- ववरियए कि तुह मए कायव्व' । तेण भणिय 'एय मह कायव्वं । पर-तीर-गासुय इमिणा भड-मोहणेण भड गहियव्वं, 27
- 27 जाणवत्ताइ च भडेयव्वाइं, पर-तीर मए गतव्व' ति । तेण भणियं 'एव होउ' ति । तओ तद्वियह चैय वेत्तुमारदाइ पर-तीर- 27
- जोगाइ भडाइ । कमेण य सगहिय भंड । सज्जिय जाणवत्त, गणिय दियह, ठावियं लग्ग, पयट्टिया णिज्जामया, गहिया 27
- आडियत्तिया, सगहिय पाणीय, वसीकय धण्णं । सच्चहा, 27
- 30 तिहि-करणम्मि पसत्ये पसत्य णमत्त-लग्ग-जोयम्मि । सिय-चंदण-वास-धरो आरूढो जाणवत्तम्मि ॥ 30
- § १८९ ) तत्य य से आरूढतस्स पहयाइ पडइयाइ, पवाइयाइ सखाइ, पटिय वभणेहिं, जय-जय-कारिय पणइयणेण । 30
- तओ दक्खिऊण दक्खणिजे, पडइऊण समुह-देव, अभिवाइऊण वणियं, जोक्कारिऊण गुरुयग कय-मगल-णमोक्कारो पयट्टो । 33
- 33 तओ चालियाइ अवल्लयाइ, पूरिओ सेयवडो, पयट्ट पवहण, लडो अणुकूलो पवणो, दोइओ णइ-सुहम्मि पडिओ समुदे । 33

- 1) J 'जइ रक्खवट्टिणो, P थोव, P अजलमेत्त 2) P एका अगुली रयणाण, P adds य before झत्ति, P om from कठकप्पडे त पुट्टलय etc to समीव । भणिय च णेण । (in line 9) 9) J दीहाऊओ, P adds भणिय तेण, after होहि ति 10) P निमण्णो य । त निमण्णो य । तमि य नयरे तमि य दियहे महूसवो, P जुग्गुत्त- 11) P तेणे for ताण, P om पि, P जणसइ वट्ट, J अद्वभतराओ णीणेहि (?) 12) P आयण for आवण, J om य 13) P पेसिओउणेण, P नाव चिकीयाड, P लोमो for लाभो 14) P सुदर, J om ति, P केउ for कओ 15) P om ताय चपापुरीओ । तेण भणिय, J om अहो, 16) P आवण for आमण 17) P om तत्य य, J adds य before णियय, P निवयपुत्तम्म वट्टणेण कय सयल, J om ति, P om महिय 18) J om सुहणिसण्णस्य, P उचट्टविया, P पयोहरभारा 19) P कुसुमाउहवाण, J दुहिया 20) J om ति, P भणिओउणेण, P जामाओ (उ) ओ तुम होहि, J होइत्ति, J तेण for णेण, P अन्ह, P गणा for गुणा 21) P पडिज्जत 22) J सीलग for सीलेण, P तेहि मि णिज्जइ 23) J दिट्टो P सिद्धा for सिट्टो, P वित्तारो 24) P ती.ओ for णीहरिओ, P केयावि, P om ता, P निपत्त, J भणीहसि 25) P कारेहि I, P एव वत्थिए 26) P गामिय इमिणी 27) P च ताडेयव्वाइ 28) J om भडाइ, J गहिय for गणिय, P om गहिया 29) P आडियत्तिया 30) P जोग for लग्ग 31) P om य, P पडहाइ, J -कारिय, P पणइयणेण 32) P वणिए 33) P आवल्लयाइ, P अणुकूलओ, P पटिसमुदे

- 1 ताव य गंतुं पयत्तं पवहणं अणोय-मच्छ-कच्छह-मगर-करि-संघट्ट-भिज्जमाण-वीहं-तरंग-रंगत-विहुम-किसलए समुह-मज्झमि । 1  
थोणुं चैय कालेण संपत्तं जवण-दीवे तं जाणवत्तं, लगगं कूले, उत्तारियाइं भंडाइं, दिण्णं सुंरुं । विणिवट्टियं जहिच्छिण्ण 3  
3 लाहेण गहियं पट्टिभंडं । तं च केरिसं । अवि य,  
मरगय-मणि-मोत्तिय-कणय-रुप्प-संघाय-गडिभणं वहुयं । गण्णेण गणिजंतं अहियाओ सत्त-कोडीओ ॥  
तओ तुट्टो सायरदत्तो । 'अहो, जह देवस्स रोयइ, तओ पूरिय-पइण्णो विय अहं जाओ' त्ति चलिओ य तीर-हुत्तं । तत्थ य 6  
6 चालियाइं जाणवत्ताइं, संपत्ताइं समुह-मज्झ-देसमि । तत्थ य पंजर-पुरिसेण उत्तर-दिसाए दिट्ठं एकं सुप्प-पमाणं 6  
फज्जल-कसिणं मेह-पडलं । तं च दट्टण भणियमणेण । 'पुं मेह-पंडं सव्वहा ण सुंदरं । अवि य ।  
फज्जल-तमाल-सामं लहुयं काऊणं परिहवावडियं । वडुंतं देह भयं पत्तिय-कण्हाहि-पोयं व ॥  
8 ता लंपेह लंघणे, मउलह सेयवडं, ठण्ह भंडं, थिरीकरेह जाणवत्तं । अण्णहा विणट्टा तुब्भे' त्ति । ताव तं केरिसं जायं ति । 9  
अवि य,  
अंधारिय-दिसियकं विज्जल-विलसमाण-घण-सदं । मुसल-सम-चारि-धार कुविय-कयंतं व काल-घणं ॥  
12 तं च तहा वरिसमाणं दट्टण आउलीहूया वणिया । खणेण य किं जायं जाणवत्तस्स । अवि य, 12  
गुरु-भंड-भार-गहयं उवरिं वरिसंत-मेह-जल-भरियं । वुण्ण-विसण्ण-परियणं झत्ति णिवुहुं समुहमि ॥  
तत्थ य सो एक्को वाणिय-पुत्तो कह-कह वि तुंग-तरंगावडणुवोळं करेमाणो विरिक्क-तेल्ल-कुरीए लग्गो । तत्थ य वलग्गो 15  
15 हीरमाणो मच्छेहिं, हम्मंतो मयरेहिं, उल्लिहिज्जमाणो कुम्म-णक्खेहिं, विल्लिज्जमाणो संखउलेहिं, अण्णिज्जमाणो कुंभीरएहिं, 15  
फालिज्जमाणो सिंसुमारैहिं, भिज्जंतो जल-करि-दंत-मुसलेहिं, कह-कह वि जीविय-मेत्तो पंचहिं अहोरत्तेहिं चंददीवं णाम दीवं 15  
तत्थ लग्गो । तत्थ कहं कहं पि उत्तिण्णो । पुणो सुच्छा-विणिमीलंत-लोयणो णिसण्णो एक्कस्स तीर-पायवस्स अथे समासत्थो ।  
18 तओ उट्टाइया इमस्स छुहा । जा य केरिसा । अवि य । 18  
विण्णण-रुव-पोरुस-कुल-धण-गच्चुत्तणे वि जे पुरिसा । ते वि करेइ खगेणं खलयण-सम-सोयणिज्जयरे ॥  
§ १९० ) तओ तारिसाए छुहाए परिगओ समुट्टिओ तीर-तरुयर-तलाओ, परिभमिउं समाढत्तो तम्मि चंददीवे ।  
21 केरिसे । अवि य, 21  
वउलेला-वण-सुहए गिम्मल-कप्पूर-पूर-पसरमि । अवहसिय-णंदणा किंणरा वि गायंति संतुट्टा ॥  
वच्छच्छाओच्छहए छप्पय-भर-भमिर-सउण-पउरमि । कय-कोउया वि रविणो भूमिं किरणा ण पावंति ॥  
24 तम्मि य तारिसे चंददीवे णारंग-फणस-माउलुंग-पमुहाइं भक्खाइं फलाइं । तओ तं च साहरिऊण कय-पाणाहुई वियसंत- 24  
कोउओ तम्मि चैय वियरिउं पयत्तो । भममाणेण य दिट्ठं एकमि पएसे बहु-चंदण-वण्ण-एला-लवंग-लयाहरयं । तं च दट्टण 24  
आवद्ध-कोउओ संपत्तो तमुदेसं, जाव सहसा णिसुओ सहो कस्स वि । तं च सोऊण चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, सहो विय 24  
27 सुणीयइ । कस्स उण होहिइ त्ति । जहा फुडक्खरालावो तहा कस्स वि माणुसस्स ण तिरियस्स । ता किं पुरिसस्स किं वा 27  
महिलाए । तं पि जाणियं, ललिय-महुरक्खरालावत्तणेण णायं जहा महिलाए ण उण पुरिसस्स । ता किं कुमारीए आउ 27  
पोढाए । तं पि णायं, सलज्जा-महुर-पिओ सण्ह-सुकुमारत्तणेण अहो कुमारीए ण उण पोढाए । ता कत्थेत्थ अरणमि 27  
30 माणुस-संभवो, त्रिसेसओ बाला-अबलाए त्ति । अहवा अहं चिय कत्थेत्थ संपत्तो । सव्वहा, 30  
जं ण कहासु वि सुव्वइ सुविणे वि ण दीसए ण हिययमि । पर-त्तत्ति-त्तगएणं तं चिय देव्वेण संघडियं ॥'  
चित्तयंतेण णिरुवियं जाव दिट्टा कयलि-थंभ-णिरुव-अंतरेण रत्तासोयस्स हेट्ठे अप्पडिरुव-दंसणी सुरूवा का वि कण्णया 33  
33 वणदेवया चिय कंठ-दिण्ण-लया-पासा । पुणो वि भणियमणाए । अवि य । 33

- 1 > J मयर, J वगत्त for रगत 2 > J -दीवे P दीव, P adds कलियाइ before दिण्णं, P om विणिवट्टिय etc to अवि य.  
4 > P विधाय for मरगयमणिमोत्तियकणयरुप्पसंघाय 5 > P om. तुट्टो, P पूरिपइण्णो वि अह, P om. य before तीर 6 > P  
om मज्झ, P पजयपुरिसेण, P सुप्पमाणं 7 > P खडं for पडल, P भणियसेण 8 > P साणं for साम, J वट्टत, P किण्हाहि, J  
वोअम्भ for पोय व 9 > P मउलेह सयवडे, P तह for ताव, P om. ति 11 > P विज्जुल, P सल for धणसद, P om.  
मुसल 12 > P repeats वणिया, P om य after खणेण 13 > J पुण्ण for वुण्ण 14 > P om य after तत्थ, P वणि-  
यउत्तो, P तुगतडणव्वोल, P कुरीए 15 > P हरमाणो मच्छेहिं, J विल्लिज्जमाणो 16 > J सिंसुमारैहिं, P जलकरेहिं कह, P पंचेहिं,  
P चंददीव, J णामदीव 17 > P adds य after तत्थ, P पुण्णो, P अहो for अथे 18 > J उट्टाइया 19 > P सोयणिज्जपपरे  
20 > P तमि चंददीवो केरिसो 22 > J वउलेला P चउलेला, P कप्पूरइपूर, J किंणरावि P किंणरावे 23 > P वत्थच्छा, P पावंति  
24 > P चंददीवे नारिग, P भक्खियाइ, P त च आहारिऊण, P वियसतमियचैय 25 > P मणमाणेण यट्टिदिट्ठ एक्कमि एक्कमि, J वडुं,  
J वंदण for वण्ण 26 > P adds य after जाव, P समुहो for सहो विय 27 > J सुणीयदि P सणियइ, P होइइ, J adds य  
after जहा, P om ण तिरियस्स, J om वा 28 > P त मि for तं पि, P om. णायं before जहा, P om. उण, P ताओ for  
ता 29 > J सेलज्जा, P सल्लियमहुरम्मिओसण्हकुमार, J पिउसण्ह, P तओ ण for ण उण 31 > J जण्ण P जत्त 32 > J  
थंभणिरुविवत्तरेण । रत्तासोअहेट्टो, P -विउरुव, P रुव दंसणीयरुवं किंपि काणवणदेवय 33 > P लया एसा, P om. अवि य.

‘भो भो वणदेवीओ तुम्हे वि य सुणह एत्थ रणग्गिम् । अणग्गिम् पि मह जम्मतरग्गिम् मा एरिसं होज्ज ॥’  
 ते भणंतीए पक्खित्तो अप्पा । पूरिओ पाखओ, णिरुद्ध णीमास । अग्गविय पोट्ट, णिग्गय वयणेण फेण, णीहरियाइ अच्छियाइ,  
 संकुइय धमणि-जालं, सिट्ठिलियाइ अंगाइं । एत्थंतरग्गिम् तेण वणियउत्तेण सहसा पहाविज्जण तोडिय लया-पाम । णिवडिया  
 धरणियले । दिण्णो पड-वाऊ । अहिणव चट्ठण-किसलय-रसेण विलित्त वच्छयल । सवाहिओ कठो । सट्ठाण गयाइ  
 अच्छियाइं । ऊससिय हियण्ण । पुलइय णयणेहिं । लद्ध-सण्णाए दिट्ठो णए य वणियउत्तो । त च दट्ठण लज्जा-मज्झम-  
 वसावणय-सुहयदा उत्तरिज्जथ संजमिउमाढत्ता । भणिया य णेण ।

‘किं त वम्मह-पिय-पणइणी सि कि होज्ज का वि वण-लच्छी । दे माइ सुयणु कि वा साहसमिणमो समाढत्त ॥’  
 तीए भणिय दीहुण्हमूससिज्जण ।

१ ‘णाह हो होमि रई ण य वणलच्छी ण यावि सुर-विलया । केण वि वुत्ततेणं एत्थ वणे माणुसी पत्ता ॥’  
 तेण भणिय ‘सुयणु, साहसु त मह वुत्तत जइ अकहणीय ण होइ’ । तीए भणिय ‘अत्थि कोइ जणो जस्स कहणीय, जस्स य  
 ण कहणीय’ । तेण भणियं ‘केरिसस्स कहणीय’ । तीए भणिय ।

१२ ‘गुरुदिण्ण-हियय-वियण कि कायच्च ति मूढ-हियण्णिहिं । दुक्खं तस्स कहिज्जइ जो कइइ हियय-सल्ल व ॥’  
 सायरदत्तेण भणिय ।

‘जइ अहिणव-गज्जकुर-सिण्हा-लव-लग्ग-चंचलयरेण । जीण्ण किचि सिज्जइ सुदरि ता साह णीसंक्क ॥’  
 १५ तीए भणियं ‘बोलीओ सच्चो अवसरो तस्स, तह वि णिसामेसु ।

§ १९१ ) अत्थि दाहिण-मयरहर-वेलालग्गा सिरित्तुणा णाम णयरी । तीय य वेसमण-समो महाधणो णाम सेट्ठी ।  
 तस्स य अइं दुहिया अचंत-दइया घरे अणिवारियप्पसरा परिवभमामि । तओ अण्णग्गिम् दियहे अत्तणो भवण-कोट्टिम-  
 १८ तल्लमि आरूढा णिसण्णा पल्लकियाए णिदावसमुवगया । विउद्धा अणेय-सउण-सावय-सय-घोर-कलयल-रवेण । तओ  
 पवुद्धा णिदा-खण्ण तत्थ हियण्ण चिंतेमि । ‘कि मण्णे सुमिणओ होज्ज एसो’ त्ति चित्तयतीए उम्मिहियाइं लोयणाइं । ताव  
 य अणेय-पायव-साहा-णिरूद्ध-रवि-किरण इमं महारण्ण, तं च दट्ठण थरथरंत-हियविया विलविउं पयत्ता ।

२१ ‘हा हा कत्थ णिरासा ताय तए उज्झिया अरण्णग्गिम् । हा कत्थे जामि सपइ को वा मह होइइ सरण ॥’ ति ।  
 एत्थंतरग्गिम् ‘अह तुह सरण’ ति भणमाणो सहसा दिव्व रूवी को वि ससुट्ठिओ पुरिसो लयाहराओ । तं च पेच्छिज्जण  
 दुगुणयर-लज्जा-सज्जसावणय-वयणा रोइउं पयत्ता । सो य पुरिसो मं उवसप्पिज्जण भणिउमाढत्तो । अवि य,

२४ ‘मा सुयणु किंचि रोवसु ण किंचि तुह मंगुलं करीहामि । तुह पेम्म-रसूसव-लपडेण मे तं सि अक्खित्ता ॥’  
 तीए भणियं ‘को सि तुमं, किं वा कारणं अह तए अवरिहय’ ति । तेण भणिय । ‘अत्थि वेयद्धो णाम णव्वयवरो । तस्स  
 सिहर-णिवासिणो विज्जाहरा अम्हे गयण-गोयरा महावल-परक्कमा तियस-विलयाणं पि कामणिज्जा । ता मए पुइइ-मडलं  
 २७ भममाणेण उवरि-तलए तुम दिट्ठा, मम हियए पविट्ठा । विज्जाहरीण पि तुम रूविणि त्ति काऊण अवहरिया । अहवा २७  
 किं रूवेण । सव्वहा,

सुंदरमसुंदरं वा ण होइ पेम्मस्स कारणं एय । पंगुलोओ वि रमिज्जइ वज्जिज्जइ कुसुमचावो वि ॥  
 ३० सो च्चिय सुहओ सो चेय सुंदरो पिययमो वि सो चेय । जो संधी-विग्गह-कारिणीएँ दिट्ठीए पडिहाइ ॥  
 ता सुंदरि, किं वहुणा जंपिण्ण । अभिरमइ मे दिट्ठी तुमग्गिम् । तेण पसुत्त हरिज्जण संकंतो गुरूणं ण गओ विज्जाहर-सेहिं ।  
 एत्थ उयहि-दीवंतरे णिप्पहरिके समागओ त्ति । एव च टिए रमसु मए समय’ ति । तओ मए चिंतियं । ‘अच्चो, इमे ते  
 ३३ विज्जाहरा जे ते मह सहीओ परिहासेण भणंतीओ, मा तुमं विज्जाहरेण हीरिहिसि । अह च कण्णा, ण य कस्सइ दिण्णा ।  
 पुणो वि केणइ लक्खवइएण किराडएण परिणोयन्वा । ता एस विज्जाहरो सुरूओ असेस-जुयइ-जण-मणहरो सिणेहवंतो य

१) P om one भो, P तुम्हे निसुणेह, P om अण्णग्गिम् वि मह, J होज्जा २) J om त्ति, P पोट्टम्,  
 J वयणेण हेण P वयणे फेण, P अत्थीयाइ ३) P ववणि, P पडाविज्जण ४) P धरणितले, P पडिवाओ, P ररेणय for  
 रसेण, J सट्ठाण ५) P लोयणाइ for अच्छियाइ, P पुलोइय अच्छीहिं, J adds अ ॥ before दिट्ठो, P om णए य ६)  
 P adds अवि य after णेण ७) P किं त वम्मह, J कहवि for का वि, P साहसु किं ८) J तीअ, P दी कुण्ण ऊतसिण्ण  
 ९) P om हो, P adds केण विलया before केण वि १०) P सुयण, J तीय, P om. कहणीय जस्स य ११) J तीअ for  
 तीए १२) J दिण्णविअणहियय किं कायच्च १४) P गज्जकुर १५) J तीय १६) P नगरी, P om णाम, P adds  
 वेसमणो नाम after सेट्ठी १७) J om य, P परिभमामि १८) J -यल्लमि, P निदावस उवगया, P adds य before  
 अणेय, P साव for सावय, P कललरवेण, J तओ इस त्ति गय हियवएण तत्थ १९) J किमण्णे, J होज्जा एमत्ति २०) J  
 om य, P थरथरंत २२) P अह for अह २३) J दुगुणयर, P वइणा, J रोविउ, J om म, P भणिउ समा २४) J  
 णइवि, P लपडेण त सि पक्खित्ता २६) J महावला २७) J (perhaps) तुम दिट्ठा तुम च मम, P रूवणि, J om  
 अवहरिया २९) P om सुंदरम्, J पंगुलोओ ३०) P चेय, J य for वि ३१) P अहिरमइ दिट्ठी ३२) P निप्पहरिके, P च  
 ट्टीए, J adds मए (later) after चित्तिय, P इमो ते ३३) P हीरइसि, P नइ for णय ३४) J केणइ वा लक्खवइएण, P सुरूओ

१ मं परिणेह, ता किं ण लद्धं' ति चिंतयंतीए भणियं मए । 'अहं तए एत्थ अरण्णे पाविया, जं तुह रोयइ तं करेसु' ति । तओ 1  
हरिस-णिठभरो भणितं पवत्तो 'सुयणु, अणुगिगहीओ म्हि' ति । एत्थंतरम्मि अण्णो कट्ठिय-मंडलग-भासुरो खग्ग-विज्जाहरो 1  
३ 'अरे रे अणज्ज, कत्थ वच्चसि' ति भगमाणो पहरितं पयत्तो । तओ सो वि अम्मह दइओ अणुविग्गो कट्ठिऊण मंडलगं 3  
समुट्ठिओ । भणियं च णेण 'अरे दुट्ठ दुब्बुद्धि कुविज्जाहर, दुग्गहियं करेमि तुह इमं कण्णयं' ति भणमाणो पहरितं 3  
पयत्तो । तओ पहरंताण य णिहय-असि-घाय-खणखणा-रवेण बहिरिज्जंति दिसि-वहाई । एत्थंतरम्मि सम-घाएहिं खंडाखंडिं 6  
० गया दो वि विज्जाहर-जुवाणा । खणेण य लुय-सीसा दुवे वि णिवडिया धरणिवट्ठे । ते य सुए दट्ठूणं गुरु-दुक्ख-क्खिच्च- 6  
हियविया विलविउं पयत्ता । अवि य ।

हा दइय सुहय सामिय गुण-णिहि जिय-णाह णाह णाह ति । कत्थ गओ कत्थ गओ मोत्तुं मं एक्कियं रण्णे ॥

१ आणेऊण घराओ रण्णे भोत्तूण एक्कियं एण्हि । मा दइय वच्चसु तुमं अहव घरं चेव भे णेसु ॥ 9

§ १९२ ) एवं विलवमाणीए य मे जो मुओ सो कहं पडिसंलावं देइ ति । तओ दीण-विमणा संभम-वस-विवसां 9  
जीविय-पिया इमाओ दीवाओ गंतुं ववसिया परिवभमामि । सव्वत्तो य भीमो जलणिही ण तीए लंघेउं जे । तओ मए 9  
१२ चिंतियं । 'अहो, मरियच्चं मे समावडियं एत्थ अरण्णम्मि । ता तहा मरामि जहा ण पुणो एरिसी होमि' ति चिंतिऊण 12  
विरइओ मे इमम्मि लयाहरम्मि लया-पासो । अत्ताणयं च णिदिउं, सोइऊण सव्व-बुहयण-परिणिदिउं महिलिया-भावं, 12  
संभरिऊण कुलहरं, पणसिऊण तांयं अम्मयं च एत्थ मए अत्ताणं ओवद्धं ति । एत्थंतरम्मि ण-याणामि किं वत्तं, केवलं 12  
१५ तुमं वीयंतो पडेण दिट्ठो ति । तुमं पुण कत्थेत्थ दुग्गमे दीवे' ति । साहियं च णिय-वुत्तंतं सागरदत्तेण पइण्णारुहणं 15  
जाणवत्त-विहडणं च ति । तओ तीए भणियं 'एवं इमम्मि विसंठुले कजे किं संपयं करणीयं' ति । सायरदत्तेण भणियं । 15

'जइ होइ कलिज्जंतो मेरु करिसं पलं च णइणाहो । तह वि पइण्णा-भंगं सुंदरि ण करंति सप्पुरिमा ॥'

१८ तीए भणियं 'केरिसो तुह पइण्णा-भंगो' । सागरदत्तेण भणियं । 18

'संवच्छर-मेत्तेण जइ ण समज्जेमि सत्त कोडीओ । ता जलिइंधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥

ममं च एवं समुह-मज्जे भममाणस्स संपुण्णा एक्कारस मासा । अवइण्णो एस दुवालसमो मासो । इमिणा एक्केण मासेण 21  
२१ कहं पुण सत्त कोडीओ समज्जेमि । अह समज्जियाओ णाम कइ घर पावेमि । तेणाहं सुंदरि, भट्ट-पइण्णो जाओ । ण य जुत्तं 21  
भट्ट-पइण्णस्स मज्ज जीवियं ति । ता जलणं पविसामि' ति । तीए भणियं 'जइ एवं, ता अहं पि पविसामि, अण्णेसियउ 21  
जलगं' ति । भणियं च तेण 'सुंदरि, कहं तुह इमं असाण्णं लायणं भगवं हुयासणो विणासिहिइ' । तीए भणियं । 'हं, 21

२४ सुंदरमसुंदरे वा गुण-दोस-वियारणम्मि जच्चंथा । डहणेक्क-दिण्ण-हियओ देव्वो मयणो य जलणो य ॥ 24

ता मए वि किमेत्थ रण्णम्मि कायव्वं' । तओ 'एवं' ति भणिऊण मरिगउं समाढत्ता हुयासणं । दिट्ठो य एक्कम्मि पएसे 24  
बहु-वंस-कुडंगासंग-संसग्ग-संघासुग्गयग्गि-पसरिओ बहुलो धूमुप्पीलो । पत्ता य तं पएसं । गहियाइं कट्ठाइं, रइया महा- 24  
२७ चिंती, लाइओ जलणो, पज्जलिओ य । केरिसा य सा चिई दीसिउं पयत्ता । अवि य, 27

णिद्धूम-जलण-जलिया उवरीं फुरमाण-मुम्मुर-कराला । णज्जइ रयणप्फसला ताविय-त्तवणिज्ज-णिस्समविया ।

तं च तारिसं चियं दट्ठूण भणियं सागरदत्तेण । 'भो भो लोयपाला, णिसुणेह ।

३० संवच्छर-मेत्तेण जइ ण समज्जेमि सत्त कोडीओ । ता जलिइंधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥ 30

एसा मए पइण्णा गहिया णु घराओ णीहरत्तेण । सा मज्ज ण संपुण्णा तेण हुयासं समुत्थीणो ॥'

तीए वि भणियं ।

३३ 'दइएण परिच्छत्ता माया-पिइ-विरहिया अरण्णम्मि । दोहग्ग-भग्ग-माणा तेणाहं एत्थ पविसामि ॥' 33

त्ति भणमाणेहिं दोहि वि दिण्णाओ झंपाओ तम्मि चियाणले ।

1 > J मं for म, J चिंतयतीय, J om. तए 2 > P मि for म्हि, J om अण्णो, P कट्ठिय 3 > P रे for अरे, J ततो मो  
P कट्ठिऊण 4 > J कुविज्जाहर, J इअ for इम, J भणमाणा 5 > J पयत्ता, P -व्वायखणखणारवेण, J खणउखणिटि P खंडाखंडि 6 >  
P विज्जाहरा । खणेण, P खित्तहियविय 8 > P जियनाम णाह राह ति, P om one कत्थ गओ 9 > P श्निह, J चेअ  
10 > P om य मे, J पडिसंलाव, J विवसजीविया इमाओ 11 > J महाजलही for जलगिही 12 > J om पुणो 13 >  
P से for मे, P लयाहरमि पासो, P om. च, P णिदिऊण सोऊण 14 > P अव for अम्मय, P मए अत्ता उव्वंवेद ति 15 >  
J । भणिय च निययवुत्तत सायरत्तेण 16 > J तीय, P om किं, J om ति, J सायरत्तेण 17 > P मेरु, J करंति 18 >  
J तीय, P पइन्ना भन्नो, J सायरत्तेण. 19 > P जालिंधण 20 > J इमं for मम, J एत्थ for एव, J adds य before यासा,  
P om. एस 21 > P कइ घरं, P नइ for णय 22 > P om मज्ज, P पविस्सामि, J तीय, J अण्णितीअत्तु P  
अन्नेतीयउ 23 > P जलणो ति, J तुम for तुह, P भगव जुयसेणो, J विगेसेहिति, J तीय, P हु 24 > P 'मयुं' रं, P त्रयधो ।  
दहणेक्क 25 > J समाढत्तो, J य एअम्मि 26 > P कुडामसग्ग, P 'नुग्गयग्गी, P महाचीई 27 > J चिंती P चीई 28 > P मुम्मुर.  
29 > J सायरदत्तेण, J लोअवाला 30 > P ता जालिंधणजाउलम्मि वच्ये पविस्सामि 31 > P मपत्ता तेण हुयासणं नमदीणे 32 >  
P om. वि 33 > P दइएणं परिच्छत्ता मायापिय, J दोहग्गनापमग्गा, P adds तेण before तेणाहं 34 > P टोहिंमि दिण्णाओ

- 1 § १९३) तन्नो केरिसा य सा चिडं जाया । अवि य, 1  
दीहर-मुणाल-णालो वियसिय-रुद्रोट-मड चंचडओ । जाओ य तन्त्रण चिय वर-पक्रय-मत्यरो एगो ॥ 3
- 3 तं च दृष्टण चितिय सायरदत्तेण । 'अहो,  
किं होज अण्ण-जम्मं कि वा सुमिण इम मए दिट्ट । कि इट्याल-रुद्रय ज जलणो पकए जाओ ॥' एत्यतरम्मि,  
मणि-पोमराय-धडिय कणय-महारम-णिवह-णिम्मविय । मुत्ताहल-ओऊल टिट्ट गयणे वर-विमाण ॥ तत्य य, 6
- 6 वर-कणय-मउड-राहो गडत्यल-घोलमाण-रयणोहो । लत्र-वणमाल-सुहओ महिडिओ नो वि देव-वरो ॥  
तेण य संलत्तं दर-हसिय-वियसमाणार-फुरत्त-उत-किरण-धप्रलिय-दिग्निवह 'भो भो सागरदत्त, कि तए इम इयर-जण-  
णिलेविय वुहयण-परिणिंदिय अप्प वह समादत्त नि । अवि य, 9
- 9 दोहग-भग्ग-भग्गा पडणो अवमाण-णिवडिया दुक्को । लहुय-हियया वराडे णपर इम महिलिया कुणह ॥  
तुज्ज पुण ण जुत्तं एरिस ति । अह भणसि 'मत्त कोडीओ पडण' ति,  
ता त पि किं ण तुज्जसि सग्गे वसिऊण वर-विमाणम्मि । अम्हेहिं मम सुहिओ चउहिं पि जणेहि सोहम्मे ॥ 12
- 12 तत्य तए कक्केयण-इदणोल-मणि पोमराय-रासीओ । पम्मोकासुफाओ कोन्हाहारो इमेहिं पि ॥  
ता गेणह तुम णाण सम्मत्त चेय जिणवर-मयम्मि । पच य महच्चयाह इमाओ ता सत्त कोडीओ ॥  
अह इच्छसि किंचि धण गेणहसु तिगुणाओ सत्त कोडीओ । आरह विमाण-मज्जे घर पि पावमि ता तुरिय ॥'
- 15 इमं सोऊण त च देव-रिद्धि णिणुऊण इहापूह-मग्गण-गवेसण कुणमाणस्स जाडे-सरण समुप्पण्ण । णायं च जहा । अहं सो 15  
पडमप्पहो, एत्य चविऊण उप्पण्णो । एगो उण पडमन्नेमरो भणिओ य मए धासि जहा 'तए अह जिणवर-मग्गे सबोहे-  
यव्वो' । त संभरमाणेण इमिणा अह मरणाओ विणियट्ठिओ ति । 'अहो दढ पडण्णो, अहो कओवयारी, अहो सिणेह-परो,  
अहो पेम्म-महओ, अहो मित्त-वच्छलत्तण । अवि य । 18
- 18 जीवत्तणम्मि मणुओ सारो मणुए वि होइ जइ पेम्म । पेम्मम्मि वि उवयारो उवयारे अवसरो सारो ॥'  
त्ति चित्तयेतेण पणमिओ जेण । तेणावि भणिय 'सुट्टु सुमरिओ ते णियय-पुव्व-भवो' । भणिय च सायरदत्तेण 'अहो रक्खिओ  
21 अहं तए संसार-पडणाओ । अवि य, 21  
जइ जलणम्मि मरतो अट्टज्जाणेण दोग्गाइं णीओ । अच्छउ ता जिणधम्मो मणुयत्तणए वि संदेहो ॥  
ता सुंदर तए कय । आइससु कि मए कायव्वं' ति । तेण भणिय 'अज्ज वि तुह चारित्तावरणीय कम्म अत्थि, त भुंजिऊण  
24 संजमो तए कायव्वो' ति । ता कुमार कुवलयचंद, जो सो सागरदत्तो सो ह । तन्नो समारोविओ तेण विमाणम्मि । 24  
गहिया य सा मए वाला । आरोविया विमाणम्मि एक्कवीसं च कोडीओ । तन्नो तम्मि य विमाणवरे समारूढा संपत्ता  
खणेणं चेय जयतुग नयरिं । तत्य जण्णसेट्ठिणो घरे अवइण्णा । परिणीयाओ दोण्णि वि दारियाओ मए । तन्नो  
27 विमाणारूढा गया चंपा-पुरवरि । बहु-जण-संवाह-कलयलाराव-पूरत्त-कोऊहल अवइण्णा घरम्मि । पूइआ अग्गवत्तेण । वदिओ 27  
गुरुयणो ।
- § १९४) तन्नो देवेण भणिय । 'भो भो, तुज्जं दस-वास-सहस्सं सव्वाऊ, तन्नो तिण्णि वोलीणाह, पच य भोए  
30 भुंजसु, हुवे वास-सहस्साइ सामणं पालेयव्व' ति भणिऊण जहागय पडिगओ इमो सो देवो । मए वि उवट्ठावियाओ 30  
एक्कवीस कोडीओ गुरुण । तन्नो गिद्ध-वधूहिं सहिओ तिहि य सुदरीहिं भोए भुजिऊण, पणइयण पूरिऊण, णिविण्ण-  
काम-भोओ जाणिय-परमत्थो संभरिय-पुव्वजम्मो सुमरिय-देव-वयणो विसुज्जंत-चारित्त-कडओ वेरग्ग-मग्गालग्गो पूइऊण  
33 अरहंते, वंदिऊण साहुणो, संडविऊण वधु-चग्ग, माणिऊण परियण, संमाणिऊण पणइयण, अभिवाइऊण गुरुयण, दक्खिऊण 33  
विप्पयण, पूरिऊण भिच्चयण, सव्वहा कय-कायव्व-वावारो धणदत्त-णामाण थेराण अंतिए अणगारिय पव्वजमुवगओ । तत्य य  
किंचि पढं तरिय-सयल-सत्थत्थो थोएण चेय कालेणं गहिय-सुत्तत्थो जाओ । तन्नो तव-वीरिय-भावणाओ भाविऊण एक्कल-

1) P om अवि य 2) J संदचेंत्रइओ P विडविचइओ 3) J सायरदत्तेण 4) P अन्नजमो  
5) P inter पोम and मणि, J मुत्ताहलऊणणदिट्ट, P मुत्ताफलओ व्व लयणे टिव्व वर 6) P हारो for राहो  
7) J मायरदत्त 8) P निसविय बहुयण, J अप्पव्वह 9) P मग्गलग्गा, P अवमाणणाहि निव्वडिया ।  
10) P तुज्ज पुत्त ण 11) J किण्ण P किन्न, P मि for पि 12) J पम्मोक्क for मुक्काओ, J मि for पि 14) J तिउणाओ  
15) P adds च after इम, P कुणस्स for कुणमाणस्स 16) P चइऊण 17) J adds वि before विणियट्ठिओ  
18) P पेम्मइओ 19) P जीवत्तणम्मि, P सामे for सारो, P सारो हि ॥ 20) P om ति, J मए for ते, J सायरदत्तेण  
22) P दोग्गाइं, J आ and P ती for ता 23) P ए for तए, P अइससु 24) P om तए, J सागरयत्तो, J adds य  
before तेण 25) P om य 26) P inter चेय & खणेण, P तुगनयरिं, P जुज्जमेट्ठिणो, J अवइण्णो 29) P तुम्म  
for तुज्ज, J सहस्साइ सव्वाऊ, P om य 30) P साहि for सामण, P om पालेयव्व etc to तिहि य सुदरीहिं 31)  
P पूरियण 32) P कडओ, P मग्गलग्गो 33) P सठाविऊण, P वधुयण for परियण, J सम्माणिऊण य पणइयण  
दुक्खिऊण विप्पयण अभि, P दिक्खिऊण 34) J विप्पण, J पूइऊण, J धणउत्त, J om य 35) P सव्वत्थो

- 1 विहार-पडिमं पडिवण्णो । तत्थ य भावयंतस्स एगत्तणं, चित्तयंतस्स असरणत्तं, अणुसरंतस्स संसार-दुत्तारत्तणं, सुमरंतस्स 1  
कम्म-चट्ठलत्तणं, भावयंतस्स जिण-वयण-दुल्लहत्तणं सव्वहा गुरुय-कम्म-खओवसमेणं झत्ति ओहि-णाणं समुप्पण्णं, अहो जाव 1  
3 रयणप्पभाए सव्व-पत्थडाइ उड्डं जाव सोहम्म-विमाण-चूलियाओ तिरियं माणुस-गग-सिहरं ति । तवो तम्मि एयप्पमाणे 2  
समुप्पण्णे दिट्ठं मए अत्ताणयं जहा । आसि लोहदेवाभिहाणो, पुणो सग्गम्मि पउमप्पभो देवो, तत्तो वि एस सायर- 3  
दत्तो त्ति । इमं च दट्ठण चित्तियं मए । 'अहो, जे उण तत्थ चत्तारि अण्णे ते कहिं संपयं' ति चित्तियंतो उवउत्तो जाव 4  
6 दिट्ठं । जे सो चंडसोमो सो मरिजण पउमचंदो समुप्पण्णो । तत्तो वि सग्गाओ चविज्जण जाओ विंझाडईए सीहो ति । 6  
माणभडो मरिजण पउमवरो जाओ । तत्तो वि चइज्जण अओज्झ-पुरवरीए राइणो दढवम्मस्स पुत्तो कुमार-कुवलयचंदो ति ।  
मायाइच्चो वि मरिजण पउमसारो । तत्तो वि चविज्जण दक्खिणावहे विजया-णामाए पुरवरीए राइणो महासेणस्स दुहिया 7  
8 कुवलयमाला जाय त्ति । इमं च णाऊण चित्तियं मए । 'अहो, तम्मि कालम्मि अहं इच्छाकारेण भणियो जहा । 'जत्थ 9  
गया तत्थ गया सम्मत्तं अम्ह दायव्वं' ति ।' ता सा मए पइण्णा संभरिया । ताव थ आगओ एस पउमकेसरो देवो ।  
भणियं च इमिणा । अवि य,  
12 जय जय सुणिवर पवराचरित्त सम्मत्त-लद्ध-ओहिवरा । वंदइ विणएण इमो धम्मायरिओ तुहं चेय ॥ 12  
सोऊण य तं वयणं, दट्ठण थ इमं देवं, भणियं च मए 'भो भो, किं कीरउ' त्ति । इमिणा भणियं 'भगवं, पुव्वं अम्हेहिं  
पडिवण्णं जहा 'जत्थ गया तत्थ गया सम्मत्तं अम्ह दायव्वं' ति । ता ओ वराया इमेसु मिच्छादिट्ठी-कुलेसु जाया, दुल्लहे 13  
15 जिणवर-मग्गे पडिवोहेयव्वा । ता पयट्ठ, वच्चाओ तम्मि अउज्झा-णयरीए । तत्थ कुमार-कुवलयचंदं पडिवोहेमो' । मए 15  
भणियं 'ण एस सुंदरो उवाओ तए उवइट्ठो । अवि थ,  
जे मयगल-गंडत्थल-मय-जल-लव-वारि-पूर-दुल्लिओ । सो कह भमर-जुवाणो भण सवसो पियइ पिच्चुमंदं ॥  
18 तत्थ य सो महाराया बहु-जण-कलयले दट्ठुं पि ण तीरइ । अच्छउ ता धम्मं साहिऊण । अह कहियं पि णाम, ता कत्थ 18  
पडिवज्जिहि त्ति । अवि थ,  
जाव ण दुहाई पत्ता पिय-बंधव-विरहिया य णो जाव । जीवा धम्मक्खाणं ण ताव गेण्हंति भावेण ॥  
21 ता तुमं तत्थ गंतुं तं कुमारं अक्खिवसु । अहं पि तत्थ वच्चाओ जत्थ सो चंडसोम-सीहो । तत्थ थ पहरिके अरण्णम्मि 21  
संपत्त-दुक्खो दिट्ठ-बंधु-विओगो राय-त्तणओ सुहं सम्मत्तं गेण्हिहिइ त्ति । इमं च भणिऊण अहं इहागओ । इमो थ अउज्झाए  
संपत्तो । तत्थ तक्खणं विणिग्गओ तुमं तुरयारूढो वाहियालीए दिट्ठो । अणुप्पविसिऊण तुरंगमे उप्पइओ थ तुमं वेत्तूणं ।  
24 तए थ तुरओ पहओ । इमिणा मायाए मओ विय दंसिओ, ण उण मओ । तुह केवलं आसा-भंगो कओ त्ति । तवो कुमार 24  
तुमं इमिणा तुरंगमेणं अक्खित्तो इमं च संमत्त-लंभं कज्जं हियए काऊण मए तुमं हराविओ । इमाइं ताइं पुरंतणाइं  
अत्तणो रूवाइं पेच्छसु' त्ति । दिट्ठं च कुवलयचंदेण अत्तणो रूवं ।  
27 § १९५) कुवलयमालाए सव्वाणं च पुव्व-जम्म-णिस्सिमं भूमीए गिहित्तं साहिण्णाणं तं च दंसिऊण भणियं 27  
सुणिवरेण । 'कुमार, एवं संठिए इमम्मि कज्जम्मि जाणसु विसमो संसारो, बहु-दुक्खाओ णरए वेयणाओ, दुल्लहो जिणवर-  
मग्गो, दुप्परियल्लो संजम-भारो, बंधणायारो घर-वासो, णियलाइं दाराइं, महाभयं अण्णाणं, दुक्खिया जीवा, सुंदरो  
30 धम्मोवएसो, ण सुलहा धम्मायरिया, तुल्लग-लद्धं मणुयत्तणं । इम च जाणिऊण ता कुमार, गेण्हसु सम्मत्तं, पडिवज्जसु 30  
साहु-दक्खिण्णं, उच्चारैसु अणुव्वए, अणुमण्णसु गुणव्वए, सिक्खसु सिक्खावए, परिहर पावट्ठाणे' त्ति । इमं च एत्तियं  
पुव्व-जम्म-उत्तंतं अस्सावहरणं च अत्तणो णिसामिऊण संभरिय-पुव्व-जम्म-उत्तंतो भत्ति-भर-णिन्भर-पणउत्तिमंगो पयलंत-  
33 पहरिस-बाह-पसरो पायवडणुट्ठिओ भणिउं पयत्तो । 'अहो, अणुग्गहिओ अहं भगवया, अहो दढ-पइण्णत्तणं भगवओ, 33

1) P om. विहार, J तत्थ वयतस्स एगत्तण, P चित्तस्स for चित्तयतस्स, J असरणत्तण सरतस्स 2) J चट्ठलत्तण (?) P  
चउरत्तण, J वासयतस्स for भावयंतस्स, J सव्वहा तारूवकम्मवपं 3) P ओड्डु for उड्डं, J माणुसग्ग सिहर, P एयप्पमाणो  
5) J चित्तैतो उवयुत्तो 6) J दिट्ठो for दिट्ठ, J पउमचडो, J inter जाओ & चविज्जण 7) J adds वि after  
माणभडो, P पउमसारो for पउमवरो, J चविज्जण, P दढधम्मस्स 8) P om वि, P om पउमसारो । तत्तो वि चविज्जण  
9) J इच्छाकारेण 10) P adds स after तत्थ, J om. ताव थ 12) P पवर for पवरा. 13) J इम  
च त देव, P om च before मए, P om one भो 14) P ता वेरा वराया, P दुल्लह 15) P पयट्ठ, P अउज्झानयरीण ।  
कुमार 16) J उवविट्ठो 17) J गय for गल, P वर for लव, P पिउयंद 18) J तत्थ मो गया, J दट्ठण  
वि ण, J आ for ता, P धम्मसाहकहिय 19) P पडिवज्जिहित्ति त्ति 20) J inter दुहाइ & ण (न in J)  
21) J om तं, J om थ 22) J दिट्ठवंधवविओओ थ राय, P om त्ति, P om. अह 23) J adds थ after तत्थ,  
P पविसिऊण, P om थ 24) J इव for विय, J तुह 25) P om कज्ज, P om. काऊण, P पुरत्तणा 26) P पेच्छत्ति,  
P अत्तणा 27) P सयव्वाणं विय पुव्वजमनिमित्त 28) P एव पि सट्ठिए, J om कम्मि, J om बहु, J णयवेयणाओ 29) P  
दुपरियल्लो, J यारा धरणिवाओ 30) P तुल्लगलग्ग माणुसत्तण 31) P दक्खिणा, P पावट्ठाणे 32) P om. जम्म, P भत्ति  
भरत्तिभरत्तिभर, J पणयुत्तमग्गो 33) P om पहरिस, P पायवडणु, P गिहीओ for अणुग्गहिओ, J om. अह, P om. गयतो



- 1 अहो कारुणियत्तण, अहो कओवयारित्तण, अहो णिक्कारण-वच्छलत्तण, अहो साणुगगहत्तणं भगवओ । भगवं, सव्व-जग- 1  
जीव-वच्छल, महंतो एस मे अणुगगहो कओ, जेण अवहाराविज्जण सम्मत्तं मह दिण्ण ति । ता ढेसु मे महा-संसार-सायर-  
3 तरडयं जिणधम्म-दिक्खणाणुगगह' ति । सुणिणा भणिय । 'कुमार, मा ताव तूरसु । अज्ज वि तुह अत्थि सुह-वेयणिज्ज भोय- 3  
फलं कम्म । तो त णिज्जरिय अणगारिय दिक्ख णेण्हहिह ति । संपय पुण सावय-धम्म परिवालेसु' ति । इम च भणिओ  
कुमार-कुवलयचदो समुट्ठिओ । भणिय च णेण । 'भगव णिसुणेसु,  
6 उप्पह-पलोट्ट-सलिला पडिज्जल अवि वहेज्ज सुर-सरिया । तह वि ण णमिमो अण्ण जिणे य साहू य मोत्तूण ॥ अण्ण च । 6  
हत्तूण वि इच्छतो अगहिय-सत्थो पलायमाणो वि । दीण विय भासंतो अवस्स सो मे ण हंतव्वो ॥'  
भगवया भणिय 'एव होउ' ति । एत्थि च ये जह पर तुह णिव्वहइ' ति । उव्विट्ठो य कुमारो । भणिय च सुणिणा ।  
9 'भो भो मइइ, संबुद्धो तुम । णिसुय तए पुव्व-जम्म-वुत्त । ता अम्हे वि तुम्ह त वयण संभरमाणा इहागया । ता 9  
पडिवज्जसु सम्मत्त, णेण्हसु देस-विरह, उज्जसु णिससत्तग, परिहर पाणिवह, मुचसु कूरत्तग, अवहरेसु कोव ति ।  
इमिणा च ये दुरप्पणा कोवेण इम अवत्थतर उवणीओ सि । ता तह करेसु इमो कोवो जहा अण्णम्मि वि भवत्तरम्मि ण  
12 पव्वह' ति । इम च सोऊण ललमाण-दीह-गंगूलो पसत्त-ऋण-जुयलो रोमच-वस-समूससंत-खधरा-क्खर-पव्वमारो समुट्ठिओ 12  
धरणियलाओ, णिवडिओ भगवओ सुणिणो चलण-जुयलयम्मि, उव्विट्ठो य पुरओ । अदूरे कय-करयलजली पच्चक्खाण  
सरिगउ पयत्तो । भगवया वि णाणाइसएण णाऊण भणिय । 'कुमार, एसो मयवई इम भणइ जहा । महा-उवयारो कओ  
15 भगवया, ता किं करेमि । अम्हाण अउण्ण णिमियाण णत्थि अणवज्जो फासुओ आहारो । मसाहारिणो अम्हे । ण य कोइ 15  
उवयारो अम्ह जीविय-सधारणेण । ता ण जुत्त मम जीविउ जे । तेण भगवं मम पच्चाहिक्खाहि अणसण ति ।' 'इम च भो  
देवाणुप्पिया, कायव्वमिण जुत्तमिण सरिसमिण जोगमिण ति सव्वहा सवुद्ध-जिणधम्मस्स तुज्ज ण जुज्जइ जीविउ जे'  
18 भणमाणेण सुणिणा दिण्ण अणसण । तेणावि पडिवण्ण विणओणमत-भासुर-वयणेण । गत्तूण य फासुए विवित्ते तस-थावर- 18  
जतु-विरहिए थडिल्ले उव्विट्ठो । तत्थ य माणस सिद्धाण आलोयण दाऊण पच-णमोक्कार-परायणो भावंतो संसार, चिंततो  
कम्म-वसयत्तणं, पडिवज्जतो जीव-दुस्सीलत्तण अच्छिउ पयत्तो ।  
21 § १९६ ) भणिय च कुमारेण 'भगव, सा उण कुवलयमाला कहं पुण सवोहेयव्वा' । भगवया भणिय । 'सा वि 21  
तत्थ पुरवरीए चारण-समण-कहाणएण सभरिय-पुव्व-जम्म-वुत्तता पाटव लवेहि ति । तत्थ य तुम गत्तूण त पाटय भिंदिऊण  
तुम च ये परिणेहिंसि । तुज्ज सा महादेवी भवीहइ । तीए गव्मे एस पउमक्खरो देवो पुत्तो पढमो उव्वज्जिहिइ । ता वच्च  
24 तुमं दक्खिणावह, संबोहेसु कुवलयमालं' ति भणमाणो समुट्ठिओ भगव जगमो कप्प-पायवो महामुणी । देवो वि 'अह तए 24  
धम्मे पडिवोहेयव्वो' ति भणिऊण समुप्पइओ गहगणे । तओ कुमारेण चिंतिय । एय भगवया सदिट्ठ जहा दक्खिणावहं  
गत्तूण कुवलयमाला संबोहिऊण तए परिणेयव्व ति । ता दक्खिणावहं च ये वच्चांमि । कायव्वमिणं ति चिंतयतो चलिओ  
27 दक्खिणा-दिसाहुत्त । दिट्ठो य सो सीहो । तं च दट्ठूण सभरिय इमिणा कुमारेण कुवलयचदेण पुव्व-जम्म-पडिय इम सुत्तरं 27  
भगवओ वयण-कमल-णिमाय । अवि य, जो म परियाणइ सो गिलाण पडियरइ । जो गिलाणं पडियरइ सो ममं परियाणइ  
ति । सव्वहा,  
30 साहम्मिओ ति काउ णिद्धो अह पुव्व-संगओ वधू । एक्कायरियमुवगओ पडियरणीओ मए एसो ॥ 30  
अण्णहा सउण-सावय-कायलेहिं उव्वहवीयतो रोहं ज्ञाण अट्ठं वा पडिवज्जिहिइ । तेण य णरयं तिरियत्त वा पाविहि ति ।  
तेण रक्खामि इमं जाव एसो देवीभूओ ति । पच्छा दक्खिणावहं वच्चीहामि ति चिंतयतो कण्ण-जावं दाउमाढत्तो, धम्म-  
33 कह च । अवि य । 33

जम्मे जम्मे मयवइ मओ सि बहुसो अलद्ध-सम्मत्तो । तह ताव मरसु एण्हिं जह तुह मरण ण पुण होइ ॥

- 1 > J om अहो कारुणियत्तण, P साहू for अहो after वच्छलत्तण, P जय for जग 2 > P inter मे & एस, J अवहरिऊण P अवहराविऊण, P मे ससायरत्तरडय जिणधम्म दुक्खणिग्गह ति । 3 > P झूरसु for तूरसु, P भोयफल 4 > P ता तामे निज्जरिय 6 > J पडिऊण P पडिकूर अवि हवेज्ज सुर 7 > P अन्नहिय 9 > J तुज्ज for तुम्ह, J वयण भरमाणा 10 > P नीसंसत्तण, P अवहारेसु, P इति मिणा 11 > P अवत्थतरमुव, J तहा for तह, J om वि 12 > P पव्वहइ, J om, पसत्तकण्णजुयलो 13 > J जुवलयमि, P om अदूरे, P कयकरयजली 14 > P मयई इम 15 > P फासुअ अहागे 16 > P om अम्ह, J युत्त for जुत्त, P पच्चक्खाहि 17 > J जुत्त णिम सरिस णिम जोग, P सवुद्धा, J जिणधम्म तुज्ज, P om तुज्ज 18 > P दिन्न । निराया मणविपटिवन्न विणउणमत 19 > P थडिल्ले, P तत्थ for य, P माणसिद्धाण, P चिंतयतो 20 > P पट्टिवज्जतो, P ठिओ for अच्छिउ पयत्तो 22 > J कुहाणएण, P पाययलवेहिं तत्थ, P मत्तूण for गत्तूण, P पायय 23 > J भवीहति । तीय, J om पढमो, J उव्वज्जिदिति P उव्वज्जिहिइ 24 > P भगव जमपायवो 25 > P समप्पइओ नह । P चिंतिय । एव च भगवया 26 > P चेव, P om ति 27 > P सीहो । दट्ठूण न सभरिय कुवलय, J om कुवलयचदेण 28 > J मम परियाणति, J पडियरति in both places, J परियाणति ति P परियाणति ति 30 > J मज्ज for वधू, J परिअरणीओ 31 > P सावय कायकायलेहिं, J चिहि ति । J तिरिय तिरिअत्त वा पावीहिति, P तिरिय ति वा 32 > P वच्चहामि चित, P दाउ ममा, J om धम्मकह च 34 > P चरसु for मरसु, P ज for जह, P inter पुण and ण (न in P) ।

1 एवं च धम्मकहं णिसामंतो तद्वय-दियहे छुहा-किलंत-देहो गमोकार-परायणो मरिजण सागरोवमट्टिईओ देवो जाओ । तत्थ 1  
भोए भुंजंतो अच्छिउं पयत्तो । तओ तं च मयवह-कलेवर उज्झजण कुमार-कुवलयचंदो गंतुं पयत्तो दक्खिणं दिसाभायं ।  
3 कहं । अवि य,

तुंगाई गयउल-सामलाई दावगिग-जलिय-सोहाई । अहिणव-जलय-समाई लंघेंतो विंझ-सिहराई ॥

तओ ताणं च विंझ-सिहराणं कुहरंतरालेसु केरिसाओ पुण मेच्छ-पलीओ दिट्ठाओ कुमारेणं । अवि य ।

6 अहिणव-णिरुद्ध-बंदी-हाहा-रव-रुण-करुण-सहाला । सह-वियंभिय-कलयल-समाउलुभंत-जुयइ-जणा ॥

जुयई-जण-मण-संखोह-मुक्क-किंकि-ति-णिसुय-पडिसहा । पडिसइ-मूढ-तण्णय-रंभिर-णेहोगलंत-गोवग्गा ॥

गोवग्गा-रंभिरुद्दाम-तण्णउडिंबव-धाविर-जणोहा । इय एरिसाओ दिट्ठा पलीओ ता कुमारेण ॥

9 दिट्ठाई च कलधोय-धोय-सिहर-सरिसाई वण-करि-महादंत-संचयई, अंजण-सेल-समई च महिस-नावलुकुरुडई । तण-मह- 9

क्खल-समई च दिट्ठाई चारु-चमरी-पुच्छ-पवभारई । जहिं मऊर-पिंछच्छाइपुल्लय मंडव विरइय-थोर-मुत्ताहलोऊल व त्ति ।

जहिं च थूरिपुल्लय महिसा, मारिपुल्लय बइल्ला, वियत्तिपुल्लियाओ गाईओ, पउलिपुल्लिय छेल्लय, पक्केल्लिय सारंग, बुत्थेल्लय

12 सूयर, णिपिच्छिपुल्लय सुय-सारिया-तित्तिर-लावय-सिहि-संचय व त्ति । अवि य । सव्वहा 12

पहरण-विभिण्ण-जिय-देह-णिगउद्दाम-रुहिर-पंकेण । जण-चलण-चमडियं तंविरइज्जइ कोट्टिम-तलं व ॥

जहिं च महामुणि-जइसय धम्म-मेत्त-वावार-रसिय वसंति जुवाणय, अण्णे णारायण-जइसय सुर-कज्जेक्क-वियावड, अण्णे

15 तिणयण-जइसय सर-मोक्खगिग-णिडडु-तिउर-महाणयर व, अण्णे पुण मयवह-जइसय दरिउम्मत्त-महा-वण-गाईद-वियारिय- 15

कुंभयड, अण्णे पुण पुल्लि-समाण मत्त-महा-महिस-णिहलणेक्करसिय । जहिं च पत्त-साड-समई हत्थ-पाय-छेज्जई, अंदोलय-

हेला-सरिसई उव्वंधणई, सीहासण-सुहई सुलारोवणई, अंगवालिया-करई करि-चलण-चमडणई, झंपुल्लिया-खेल्लणई गिरि-

18 तडावडणई, अहिय-मासावगत्तण-समई कण्ण-णासाहरोट्ट-वियत्तणई, मज्जण-कीला-तुलणाई जल-विच्छुहणई, सीयावहरणई 18

जलण-पवेसणई मण्णंति । अवि य ।

जं जं कीरइ ताणं दुक्ख-णिमित्तं ति मारण-छलेणं । तं तं मण्णंति सुहं केण वि पावेण कम्मेण ॥

21 जहिं च पावकम्महं चिलायहं दुट्ठु-घोट्टु-जइसउं बंभणु मारियव्वउ, भत्त-सूइ-सरिसओ गामाह-वहो, ऊसव-सरिसओ परदार- 21

परिग्गहो, पुरोडासु-जइसओ सुरा-पाणु, ओंकारो जइसओ चोर-विण्णाणु । गायत्ति-जइसिय बहिणि-गालि । जहिं च सवहई

माई से भहिणं से पई मारेमि तओ लोहिउं पियमि त्ति । इमेहिं एरिसेहिं चिलाएहिं दिव्वो त्ति काज्जण ससंभमं णमिज्जंतो

24 पयत्तो । केरिसाई पुण ताणं वीसत्थ-मंतियई णिसामेइ । अवि य । 24

हण हण हण त्ति मारे-चूरे-फालेह दे लहुं पयसु । रंभसु बंधसु मुयसु य पियसु जहिच्छं छणो अज्ज ॥

§ १९७ ) ताओ तारिसाओ विंझ-कुहर-पलीओ वोलिज्जण कुमारो संपत्तो विंझ-रण्णे, तम्मि य वच्चमाणस्स को

27 कालो पडिवण्णो । अवि य । 27

फरुसो सहाव-कठिणो संताविय-सयल-जीव-संघाओ । गिम्ह-च्छलेण णज्जइ समागओ एस जम-पुरिसो ॥

30 जत्थ य पिय-पणइणीओ इव अवगूहिज्जंति गंध-जल-जलदियओ, सहसागओ पिय-मित्तो व्व कंठ-वल्लगो कीरइ मुत्ता- 30

हारो, पिय-पुत्तो व्व अंगेसु लाइज्जइ चंदण-पंको, गुरुयणोवएसई व कण्णेषु कीरंति णव-सिरीसई, माया-वित्तई जइ उवरि- 30

ज्जंति कोट्टिमयलई त्ति । अवि य किंच होऊण पयत्तं । वियसंति पाडलाओ । जालइज्जंति मल्लियाओ । परिहरिज्जंति रल्लयई ।

सेविज्जंति जलासयई । परिहरिज्जंति जलणई । बद्ध-फलई चूयई । वियलिय-कुसुमई कणियार-वणई । परिसडिय-पत्तई

33 अंकोल-रुक्खई त्ति । अवि य । 33

1) P देहे for दियहे, J सायरोवमठितीओ 2) J दिसाभोअ 3) P कहा for कह 4) P गवल for जलय, P लघतो

5) P om. पुण 6) P om रुण 7) J जुअई भण, J om गिसुय (emended) P निहुद, J रहिरनेहो अणंतगोवग्गा.

8) J तणुद्धाविर P तन्नउम्बेम्बधाविर. 9) P om. धोय, P सवयम for सचयइ, J कुरुडय P कुरुडई. 10) P च इ दिट्टइ,

P पुछ, J । कहिं च मऊर, P इपल्लव, J मडवा, J मुत्ताहलाऊळे 11) P थूरपुल्लय, J महिसय, J पल्लिअओ, J पल्लय, P

पक्केल्लय, P गुच्छेल्लय सूयरे वोणि निपेच्छपुल्लय 12) P सिहिसवव त्ति. 13) J विभिण्णे, J णिगयुद्दाम, P तविरज्जइ, J कोट्टिमयल व्व.

14) P वावारसिय, P जुवाणा, J णारायणु 15) P निडडु, J अण्णि वणि मयवइ. 16) J कुमयड अवि य अण्णि पणि पुल्लि

P रसिया ।, J जाह च for जहिं च, P समय 17) P सरिसई उव्वंधणइ, P अंगवालिया, J अरई करचलण, P चमडणई संवुडिया,

J खेलणइ, P गिरिउडा. 18) J मासावगमइ, P कीलातुलइ, P हणयं 19) J पवेसइ, P पवेसणयं पत्तत्ति. 20) P

P ता for ताणं, P मारणत्थेण । 21) J जाह च पावकम्म चिला, P चि for च, P चिलाहं दुट्ठा, J repeats जइ, P वमण

मारियव्वउ, J भत्तसूअ, P गोमाइवहो । ऊसवो जइसओ । परदारपरिग्गहो पुरोडासु जइमओ परदार परियहो । पुरोडासु जइमओ

सुरापाणकारो जइमओ । सुरापाणा । उंकारो 22) P विन्नागो, J जाह for जहिं, P सवई माहि मे वडिणि से पइ. 23) J जे

for से before पइ 24) P ताणं कीस. थयंतियाई 25) P om. one हण, J न्यमु P कंममुं, P जहिच्छच्छणा. 26) P

om. तम्मि य 27) J om. अवि य 29) J च for य, P पणइणि उव्व, J अवकडिज्जंति, P जल ीओ, J कंठलगो 30) P

P वित्तर जइ उवरियज्जंति कोट्टिमतलं ति 31) P किं चि होऊण, P वाडिज्जंति, J मल्लियओ, P रडियइ । मोविज्जंति 32) P

फलयई पूवई, P रुक्खयं

1 मोत्तूण चूय-सिहर पइसइ णव-तिणिस-गुम्म-वण-गहणं । हू हू ति वाहरंती णिदाह-डड्ढा व वणराई ॥ 1  
केसु पुण पएसेसु किं किं कुणइ गिम्ह-मज्झण्हो । अवि य फुरफुरेइ णीलकंठ-कंठेसु, अंठोलइ मइंद-ललमाण-जीहंदोलणेसु,  
3 णीससइ थोर-करिवर-करेसु, पज्जलइ दवाणलेसु, धूमायइ दिसा-मुहेसु, धाहावइ चीरी-रुएसु, णच्चइ मयतण्हा-जल-तरग-  
रगेसु, सठाइ विंझ-सिहरेसु, मूयलिज्जइ महाणइंसु ति । अवि य ।

उग्गाइ हसइ गायइ णच्चइ णीससइ जलइ धूमाइ । उम्मत्तओ व्व गिम्हो ण णजए किं व पडिच्चणो ॥

6 केसु पुण पएसेसु गिम्ह-मज्झण्हं वोलावेंति जंतुणो । अवि य महावण-णिउंजेसु वण-करि-जूहइं, गिरिवर-गुहासु 6  
मयवइणो, उच्चत्थलीसु सारग-जूहइं, वच्च-च्छायासु पसु-वद्रइ, सरिइइ-कुलेसु गाम-चडय-कुलइं, सरवरेसु वण-महिस-  
जूहइं, पेरेत-खंजणेसु कोलउलइं, जालीयलेसु मोरइ वंदइ, पवा-मंडवेसु पहिय-सत्थइं ति । अवि य ।

9 सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण गिम्हेण । सताविओ जहिच्छं एक्कं चिय रासइ मोत्तुं ॥ 9  
तम्मि य काले पुरवर-सुंदरीओ कइसियओ जायल्लियओ । कप्पर-रेणु-रय-गुडियओ सिंसिर-पल्लवत्थुरणओ पाडला-दाम-  
सणाह-कठओ मल्लिया-कुसुम-सोहओ पओहर-णिमिय-मुत्ता-हारओ कोमल-तणु-खोम-णिवसणओ धाराहर-संठियओ तालियंठ-  
12 पवण-लुलियालयओ विइण्ण-चंदण-णेडालियओ दीहर-णीसास-खेइयओ साहीण-दइयओ वि णजइ पिययम-विरहायल्लय-  
संताव-तवियओ त्ति । अवि य ।

किंसुय-लयाओ पेच्छइ परिवियलिय-रत्त-कुसुम-जोगगाओ । गिम्ह-पिय-संगमेण वद्ध-फलाओ व्व दइयाओ ॥

15 दइणू तमाल-वणं देत भमराण कुसुम-मयरइं । उयइ विणओणयंगी भमरे पत्थेइ तिणिस-लया ॥ 15

कंद-फलाइं पुरओ पासम्मि पिया महुं च पुडएसु । पल्लव-सयण सिंसिर गिम्हे विंझम्मि वाहाणं ॥

कइ कइ वि णेंति दियइ मज्झण्हे गाम-तरुण-जुवइंओ । अवरण्ह-मज्जण-सुइं गामयलायम्मि भरिरीओ ॥

18 चिंतिज्जइ जो वि पियत्तणेण हिययम्मि णाम पविसेज्ज । हय-गिम्ह-तविय-देहो सो चिय तावेइ सुरयम्मि ॥ 18

मज्झण्ह-गिम्ह-ताविय-पवणुद्दुय-वालुयाए णिवहेण । हिरिमथए वि जीवे पेच्छइ पउलेइ कइ सूरुओ ॥

इय मंडल-वाउली-धूलि-समुच्छलिय-जय-पढायाहि । धवल्लुत्तुगाहिं जए गिम्हो राया पइद्विविओ ॥

21 जहिं च बहु-विडयणोवसेव्वओ वेसओ जइसियओ होति गाम-तरुवर-च्छायओ । किमण-दाणइं जइसइं तण्हाच्छेय-सहइं 21

ण होति गिरि-णइ-पवाइइ । पिययम-विरह-संताव-खेइयओ पउत्थवइया-सरिसियओ होति णइंओ । महापहु-सरीरइ

जइसइ असुण्ण-पासइ होति कुयडयडइं । गयवइयओ जइसियओ कलुण-चीरि-विरावेहिं ह्यति महाडइंओ । जुण्ण-

24 धरिणियओ जइसियओ बहुप्पसूयओ होति सत्तलियओ । जिणवरोवइइ-किरियओ जइसियओ बहुप्फलओ होति सहयार 24

ल्यओ त्ति । अवि य ।


कुसुमाइं कोट्टिमयलं चंदण-पक्को जलं जलहीया । अवरण्ह-मज्जणं महिलियाण गिम्हम्मि वावारा ॥

27 § १९८ ) एयारिसम्मि य गिम्ह-समए तम्मि विंझगिरि-रणम्मि वट्टमाणस्स रायउत्तस्स का उण वेला वट्टिउं पयत्ता । 27  
अवि य ।

मयतण्हा-वेळविए तण्हा-वस-कायरे घुरुदुरते । वियरति सावय-गणे कत्थ वि णीर विमगंते ॥

30 ओसरयइ दहणो विअ इंदाएँ दिसाएँ णोल्लिओ व्व रवी । ईसाएँ वारुणीएँ वि वट्टइ दोण्ह पि मज्झम्मि ॥ 30

एयारिसे य गिम्ह-मज्झण्ह-समए तम्मि महारण्णम्मि तण्हा-सुहा-किलंत-सरीरो गतुं पयत्तो । जत्थ य चिरिचिरेंति चीरिओ,



1) P पइस नव-; P हु हु ति वाहारन्ती निदाहदड्ढा व वणराई, J णिआइ वणसवई 2) P om one किं, P किं पुणइ, P मज्झणो, P नीलयठ, P मडल for मइद, P जीहदोलएसु 3) P कइवेइ (for धाहावेइ) भीरीरुवेसु, P महतण्हाजलतरगेसु 4) J om संठाइ विंझसिहरेसु, J मूलिज्जइ महाटइसु 5) P किं चि for किं 6) J केसु उण, P गिम्हण्ह, P पाणिणो for जंतुणो, P om अवि य, P जूहाइ 7) P उच्चच्छली सारगजूहइ, P सिरिइइकुलेसु गामवियडकुलाइ सरोवरेसु रणमहिस, J सरवरोवरेसु 8) P कोसलउलइ, P मोरचद्रय ति ( perhaps J too has ति) । 9) P जगामि, P को for जो 10) P काले खरसुदरीओ कयसिओ, P कणय for कप्पर, P गुडियाउ, J पल्लवत्थुरणओ P पल्लवत्थुरणओ 11) P मल्लिय, P नमिय for णिमिय 12) P पवणतुलिया, P वियव्व for विइण्ण, P निडालियाओ, P खेइययओ, P दइयओ वणिज्जइ विययम विरहाइल्लाय 14) P केसुय for किंसुय, P बहुप्फलाओ 15) P अइ for उयइ 16) P कदप्फलाइ, P जल for महु 17) P णेंत, J भरईओ 18) P विय for चिय 19) J हिरिमथएव्व जीवे, P सूरु 20) P जमवडा, P धवल्लुत्तुगाइ, J पयद्विविओ 21) P णोवसेव्वओ, P तरुवरच्छाइओ । किविण, P जइमयय तण्हाछेय 22) P गितिनइ, P खेइयपउत्थ, P after नईंओ repeats किविणइ जइसयय तण्हाछेय सहइ न होति गिरिणइ पओओ, P om महापहुसरीरइ etc to गयवइयओ 23) P कलुणवीररावेहिं 24) J धरिणीओ, P होति सत्तलियओ 25) P लयाउ त्ति 26) P वावारो 27) P om य, P वट्टमाणराय, P ऊण for उण 29) P वसरकायरे फुरफुरेते, P वयगते 30) J दहणो सिय इदाय दिसाय, P ईसा वारुणीए, J ईना (P added ater) वारुणीअ 31) P मज्झणत्तमए, P चिरिचिरेंत चीरियओ झरज्जारेंति ज्झरलीओ । धमधमेंति

- 1 मरमरंति सरडिवो, धमधमंति पवणया, हलहलंति तरयरा, धगधगंति जलणया, करयरंति सडणया, रणरणंति 1  
रणया, नरनरंति पत्तया, तडतडंति पंमया, धुरुधुरंति चग्घया, भगभगेति भासुया, सगसगेति मोरय चि । अवि य ।  
3 इय मीयण-विह-महावणमि भग-वज्जिओ तह वितोमो । वियरइ राय-सुओ चिय हिययं अणणस्स फुटेजा ॥  
तओ रायउत्तन्न अहियं तण्हा बाहिउं पयत्ता । ण य कहिंचि जलासयं दीमइ । तओ चितियं रायउत्तेण ।  
'अन्नीसु णेय दीसइ सूयइ हिययं जणेइ मोहं च । आसंघइ मरणं चिय तण्हा तण्हा च्च पुरिसाणं ॥  
6 वा सच्चहा अच्चठ गतच्चं । इममि महारण्णमि जलं चिय विमग्गामि ।' इमं च चित्तो उवगयो मयतण्हा-वेवविज्जमाण- 6  
तरल-लोयण-कडकर-पिक्खेओ कं पि पण्मंतरं । तय य दिट्ठाइं पक्कमि पण्से इमिणा वण-करिवर-जूह-पयाइं । दट्टण य  
ताइं चितियं णेण । 'अहो, इमं हरिय-जूहं कय वि सरवरे पाणियं पाऊण अरण्णे पविट्ठं ति । कहं पुण जाणीयइ ।  
8 ओयरिय-कर-सलिल-सीयरोलाइं भूमि-भागाइं । अह होज मय-जलोहियइं । तं च णो । जेण इहेव जाइं मय-जलोहियइं 8  
ताइं मभिर-ममरउल-पक्खावली-पवण-पच्चायमाणां लन्तिज्जति । अहइ-कइमुपंक-चरणग-लग-णिक्वेव-कलंकियाइं  
दीसंति इमाइं । चंचल-करि-कलह-नेली-रंडियाइं धवल-मुणाल-सामलाइं दीसंति । इमां च ललिय-मुद्ध-करेणु-कर-  
12 संवलिय-सुणालेदीवर-सरम-तामरस-गव्व-कमलिणो-कवल-उदण-सुडियइं मयरंद-गंध-लद्ध-सुदागयालि-हलवोल-रुण्णेतइं 12  
उज्झियइं च दीसंति णोलुप्पल-दलद्धइं । ता अणिय जीवियासा, होहिइ जलं ति । कयरीए उण दिसाए इमं वण-करि-जूहं  
समागयं ।' गिरुवियं जाव दिट्ठं । 'अरे इमाए दिमाए इमं वण-करि-जूहं, जेणेय पउर-सलिल-कडम-मुणाल-विच्छओ दीसइ' चि  
16 चितयंतो पयत्तो गंतुं । अंतरेण दिट्ठं णोलुवेलुमाण-कोमल-सिणिद्ध-किसलयं वणाभोगं । तं च दट्टण लद्ध-जीवियासो सुट्टुयं 16  
गंतुं पयत्तो । कमेण य हंस-सारस-कुरर-कायल-वय-यलाहय-कारंड-चक्खायाणं गिसुओ कोलाहल-रवो । तओ 'अहो,  
महतो सरवरो' चि चितयंतो गंतुं पयत्तो रायउत्तो । कमेण य दिट्ठं कमल-कुवलय-कलहार-सयवत्त-सहस्सवत्तुप्पल-  
18 मुणाल-कमलिणो-पत्त-संड-संछाहय-जलं वियरमाण-महामच्छ-पुच्छच्छटा-मिज्जमाण-तुंग-तरंग संकुलं णाणा-वण्ण-पक्खि-संघ- 18  
संडिय-तीरं माणस-सरवर-सरिसं महासरवरं ति । अवि य ।

वियसंत-कुवलयच्छं भमरावलि-भभिर-कसण-भुमइहं । सुद्ध-दिय-चारु-हासं वयणं व सरं वण-सिरीए ॥

- 21 तं च दट्टण ऊससियं पिव हियवण्णं, जीवियं पिव जीविण्णं, पच्चागयं पिव बुद्धीए, सच्चहा संपत्त-अणोरहो इव, संपत्त-सुविज्जो 21  
विव विजाहरो, सिद्ध-किरिया-चाओ विव णरिंदो सहरिसो कुमारो उवगओ तं पएसं । तण्हा-सुक्क-कंडोट्टो ओयरिउं पयत्तो ।  
तीरत्येण य चितियमणेण । 'अहो, एवं आउ-सत्येसु मए पडियं जहा किर दूसइ-तण्हा-खुहा-परिस्सम-संभमायासेसु ण  
24 तक्खणं पाणं वा भोयणं वा कायच्चं ति । किं कारणं । एए सत्त वि धायवो वाउ-पित्त-सिंभादीया य दोसा तेहिं तण्हाइयाहिं 24  
वेयणाहिं ताविय-सरीरस्स जंतुणो णियय-ट्टाणाइं परिच्चइय अण्णोण्णाणुवलिया विसम-ट्टाणेसु वटंति । इमेसु य परिसेसु  
विसमत्येसु दोसेसु खुभिण्णु घाऊसु जइ पाणिणो आहारंति मज्जति वा, तओ ते दोसा धायवो य तेसु तेसु चेय  
27 पर-ट्टाणेसु थंभिया होति । तय संणिवाओ णाम महादोसो तक्खणं जायइ चि । तेण य सीस-वेयणाइया महावाहि-संघाया 27  
उप्पज्जति । अण्णे तक्खणं चेय विवज्जति । तण्हा ण मे जुज्जइ जाणमाणस्स तक्खणं मज्जिउं ।' उवविट्ठो पक्कस्स तीर-  
तमाल-तरयरस्स हेट्टओ, खणंतरं च सीयल-सरवर-कमल-मयरंद-पिंजरेण आसासिओ सिसिर-पवणेणं । तओ समुट्ठिओ  
30 अवइण्णो य सरवरे अवगाहिउं पयत्तो । कह । अवि य । 30

णिय-थोर-कराहय-जल-वीह-समुच्छलंत-सहेण । पूरंतो दिसि-चकं मज्जइ मत्तो व्व वण-हथी ॥

- 1) J जलणओ, P करयरति 2) P तडतडेति, P भगभगेति, P रुसुया, J मोरयं P मोरिय 3) J विचरइ  
4) P repeats दीमइ. 5) P भूसइ for सूसइ 6) J आगतच्च for गतच्चं, P विमग्गामि, P चितयतो  
7) P om. तरल, P ट्टियाइ for दिट्ठाइ, P वर for वण, P om य 8) P चितियमणेण, J जाणीयति, P जाणियइ  
9) P ओयच्छिय, J सी श्लोरलाइ भूमिमायाइं, P जलोहियाइ in both places. 10) P repeats ताइ, J लक्खज्जइ, J कच्चमु  
P कइमुपन्नचरणगलग 11) P कलकेली, J मुद्धकरेणु 12) P सचालियमुणालेदीवर, J खुडियमयरद, P खुडियाइ, J  
गधलुद्धागयालि, P मुदागयालि, J रुणरणेतइं P रुणतरुणेतइ 13) P om उज्झियइ च, P दलद्धताइ, P हाहिइ, P कशरीए  
14) J om. गिरुवियं, J om. इम वणकरिजूहं, J पउम for पउर 15) J om गंतुं, P णीलुवेलुमाण, J वणाभोगं, P सुट्टुतर  
16) J कुरलकायवपवलाहय P कुरवयकायववलाहय, P कोलाहलवो 17) P om. रायउत्तो, P सयवउसहस्सरत्तुप्पल  
18) J अह for संड, P सकुल माणावन्नपरक्खसघ 19) J सरसरिस 20) J भमरालीभभिर कसिणमुमविहं 21) P  
दट्टुण, P om. पिव, P हियण, P पव for पिव, J पच्छागय, P विव for इव 22) J किरिआवातो, P नरिंदसरिसो, P  
उवगतं, J ओयरिउ तुहत्येण य चितिय णेण 23) P om. य, P सभमयासेसु, J adds य before ण 24) J पते P एए स  
26) J धातुसु जति P धाउस जइ, P नज्जति for मज्जति, P om. वा, J ततो, J दोसा वायवो, P om. one तेसु 27)  
P परिट्टाणेसु, J थंभिता, J सन्निवातो, P महादोसा, J वेतणादिआ 28) J अण्हा for तण्हा, P inter मे & जुज्जइ, P जाणस्स,  
J मज्जिऊण, P उवविट्ठो, 29) P adds पायवत्त before हेट्टओ, J हेट्टओ, P त for च, P सीयरकमलयरिंद 30) J  
om. य before सरवरे. 31) J अक्क P चक

- 1 § १९९ ) तं च तद्वा मञ्जिऊण कुमारेण पीय कमल-रय-रजणा-कसाय मरवर-पाणिर्यं, आम्हाइयाइ च कोमल-मुणाल-  
पाल-सयलाइं । ततो गय-तण्हा-भरो उत्तिण्णो मरवराओ । ततो तेसु य नीर-नरर-लया-गुम्म-गुविल्लेसु पणसेसु किंदि  
३ वण-पुण्फं फलं वा मरिगडं पयत्तो । भममाणेण य दिट्ठं एक्कम्मि नीर-तरुण-तरु-लयाइतरम्मि महत्त दिच्च-जक्क-पट्टिम ।  
तं च दट्टूण णिरुविड पयत्तो कुमारो जाव सहसा दिट्ठा तेत्थोक्क-बंधुणो भगवओ अरहओ मउदम्मि पडिमा मुत्ता-  
सेल-विणिम्मविया । तं च दट्टूण हरिन्-वस-वियममाण-लोयणेण भणिय च णेण । अवि य ।
- 6 'सव्व-जय-जीव-वधव तियासिंढ-णीरिंढ-अच्चियचलण । मिद्धि-पुग्गि-पंथ-डेसिय भगवं ज्ञयेत्य रण्णम्मि ॥'  
भणमाणेण वंदिओ भगव । वदिऊण चिंतियं अणेण । 'अहो, अच्चरियं ज इम्मस्स दिच्चस्स जक्क-रुवस्स मत्थए भगवओ  
पडिम त्ति । अहवा किमेत्य अच्चरियं कायव्वमिण दिच्चाण पि जं भगवता अरहता म्पिरेण धारिज्जति । इम पि अरहति  
१ भगवता ज दिच्चेहिं पि सीसेहिं धारिज्जति ।' चिंतयतो पुणो वि अवरुण्णो कुमारो मरवरम्मि । तन्थ मञ्जिऊण गहियाइ  
कमल-कुवलय कल्हाराइं सरस-तामरस पट्ठाराइ । ताइ च घेत्तूण गहिय णालिणी-डल भरिऊण मरो-जलस्य, प्हाणिओ  
भगव विणवारिंदो, आरोवियाइ च कुसुमाइं । ततो धुणिउमाडत्तो । अवि य ।
- 12 'जय सोम्म सोम्म-दसण दसण-परिसुद्ध सुद्ध जिय-सेस । सेस-विसेमिय-तिथय तित्थ-ममोत्थरिय-जिय-लोय ॥  
जिय-लोय लोय-लोयण जिय-णयण-विसट्टमाण-कटोट्ट । कटोट्ट-गड्ढ-गोरय गोरयण-पिंजरोरु-जुय ॥  
गाह तुमं चिय सरण त चिय बंधू पिया य माया य । जेण तए सायय-पुरवरस्स मग्गो पडट्टविओ ॥'  
16 ति भणमाणो णिवडिओ भगवओ चलण-जुवलएसु त्ति ।  
§ २०० ) एत्थतरम्मि उट्ठाइओ महतो कलयलो मरवरोयरम्मि । अवि य ।  
उट्ठुट्ठाइय-त्रीई-इद्धिर-जल-णिवह-तुग-भंगिहं । वट्ट णहयल-हुत्त खुहियं सहस चिय सर त ॥
- 18 तं च तारिसं सरवर वलिय-वलत्त-लोयणो राय-तणओ पलोइऊण चलिओ तत्तो हुत्तो । चिंतिय च णेण । अहो अच्चरियं, ण-  
याणीयइ किं सरवरस्स खोहो जाओ त्ति । इमं च चिंतयतस्स सरवर जल-तरग-फलयाओ णिग्गय वयण-कमलमेक्क ।  
तं च केरिस । अवि य ।
- 21 वियसंत-णयणवत्त णासाउड-तुंग-कणिया-कलिय । दिय-किरण-केप्पराळं मुह-कमल उग्गय सहसा ॥  
तस्माणंतर चैय ।  
उत्तुग-थोर-चक्क-गुरु-पीवर-वट्ट-पक्कलं सहसा । आमा-करिवर-कुभत्यल व थणयाण पम्भार ॥
- 24 तं च दट्टूण चिंतिय कुमारेण । 'अहो किं णु इम इवेज्ज । अवि य ।  
कमलायरस्स लच्छी होज्ज व किं किं व जक्खिणी एसा । किं वा णायकुमारी णज्ज लच्छि व्व रण्णस्स ॥'  
इय चिंतितस्स य से कुमारस्स णिग्गयं सयलं सरीरयं । तीय य मग्गालग्गा दिच्च-सरस-सरोरुहाणणा कुसुम-सणाह-पडलय-विहत्था
- 27 कणय-भिंजार-चावड-दाहिण-हत्था य खुज्जा समुग्गया सरवराओ । ताओ दट्टूण चिंतियं कुमारेण । 'अहो, णिस्संसयं दिच्चाओ 27  
इमाओ, ण उण जाणीयइ केण कारणेण इहागयाओ' त्ति चिंतयतस्स वलियाओ कुमार-संमुह । तं च दट्टूण चिंतिय णेण ।  
अहो वलियाओ इमाओ । ता कयाइ मम दट्टूण इत्थि-भाव-सुलहेण सज्जसेण अण्णत्तो पाविहिंति । ता इमाए चैव दिच्च-  
30 जक्ख-पडिमाए पिट्ठओ णिलुक्क-देहो इमाण वावार उइक्खामि त्ति णिलुक्को पडिमाए पट्टि-भाए, पलोइउ च पयत्तो जाव 30  
समागयाओ दिच्च-पडिमाए समीवं । दिट्ठो य भगव दूरओ चिय सरस-सरोरुह-माला-परियरेओ । तं च दट्टूण भणियं तीए  
'हला हला खुज्जिए, अज्ज केणावि भगव उरहणाहो पूइओ कमल-मालाहिं' । तीए भणियं 'सामिणि, आमं' त्ति । 'ण-

1) J रजणे, J पाणिआइ, J य for च 2) P तन्हामारो, J तरुअर, P लयाउगुम 3) P भणमाणे य, P तरुणल्याइरंमि  
4) P om कुमारो, J adds सयल before तेत्थोक्क 5) P विणिम्मिया, P विसमाण 6) J भव for सव्व, J चलणा  
P चलण, P पथ, P मयव पणमामि तुह चलणे ॥ 7) P om भणमाणेण वदिओ भगव, J चिंतिय णेण, P चिंतियमणेण, P कु for  
ज, P भगवतो 8) J अरहतो, P om इम पि अरहति etc to धारिज्जति 9) J om पुणो वि, P om कुमारो 10) P कल्हारायाइ  
च मरसरमतामरस, P कमलिणी for णलिणी, P सरस जरुस्स 11) J तओ for च 12) P जय सोम सोमनदन परिसुद्धविमुद्ध-  
मुद्धजयसेस । विसेसविसेसय 13) P जयलोयडलोयणजयणयण, J कटोट्ट, J जुय ॥ 14) P ज for त, P माया या ।  
15) J पडिओ for णिवडिओ, P om भगवओ, P जुयलेसु 16) P उट्ठाइओ, J मरवरमि 17) J उ लुओ(?) दाइय P  
उट्ठुट्ठाइय, P खुहिय सव्व चिय 18) J adds ति । अ before वलिय, P om वलिय, J अच्चरीअ ण याणीयति P अच्चरिय न याणइ  
19) P कमल ण्कं 20) P om अवि य 21) P पत्त for वत्त 22) J वट्टचक्कल 23) J प कण्ण for किं णु  
(emended), P किं न महवेज्जा, J om अवि य 24) J किअ for किं 25) P चिंतयतस्स, P मग्गालग्गा, J मर for  
मरस, J पड(ह)य विहत्था 26) J ते य for ताओ, P निस्समिय, J दिच्चाइओमाओ 27) J जाणीयति केण, P चिंतियमणेण,  
28) P न for नमं, P भावन्लहेण, P अण्णहो for अण्णत्तो, J इमे for इमाए, P उच्चजक्ख पडिमाव पिट्ठिओ 29) J om. जक्ख,  
J repeats पडिमाए, P उडिक्खामि, P पलोएउ 30) J adds ता तो before दिच्च, J स for मर, P परिआरिओ 31) J adds  
P भगव तियसनाहो, J तीय

- 1 याणीयह केण उण पूहओ भगवं' ति । तीए भणियं 'सयल-तेलोक-वंदिय-वंदणिज-चलण-कमलाणं पि भगवंताणं एवं भणीयह 1  
 केण वि पूहओ ति । किसेव्य घणाभोए ण प्रियरंनि जक्खा, ण परिसकंति रक्खसा, ण चिट्ठंति भूया, ण परिभमंति पिसाया, 2  
 3 ण गारंति किंणरा, ण वसेंति किंपुरिता, ण पावंति महोरगा, ण उवयंनि विजाहरा, जेण भगवओ वि पूया पुच्छियह' ति 3  
 भणमाणी उवगया पहिमाए सगासं । भणियं च तीए 'हला सुज्जिए, जहा एसा पय-पदहं तहा जाणामि ण केणह देव्वेण 4  
 खच्चिओ भगवं, किंनु माणुसेण । सुजाए भणियं 'मामिणि, परिसकंति एव्य वणे वहवे सवरा पुलिंदा य' । तीए भणियं 5  
 6 'मा एवं भण । पेच्छ पेच्छ, इमं पि सहिण-वालुया-पुलिणोयर-णिहित्त-चलण-पडिद्विंवं सुणिरुविय-प्पमाणं पमाण-घडियं- 6  
 गुट्टयं अंगुट्टाणुर-रुहिरंगुलीयं अंगुली-वत्त-पमाण-पडिद्विंवं । तहा जाणिमो कस्स वि महापुरिसस्स इमं चलण-पडिद्विंवं ।  
 अवि च ।
- 9 वर-पठम-संस-सोथिय-चंपंक्ख-उत्त-तोरणुफिणं । जह दीसह पडिद्विंवं तह णूण इमो महापुरिसो ॥ 9  
 § २०१ ) इमं च भणमाणी संपत्ता भगवओ सयासं, णमोफारिमो भगवं तीए । 'अणुजाणह' ति भणमाणीए 10  
 सविणयमवणीओ कमल-पव्वभारो भगवओ सिराओ । ण्हाविओ भगवं णियएणं कणय-भिंमार-गंधोयएणं । पुणो वि रइया 11  
 12 पूया कोमल-विउल-दल-कणय-कमल-मयरद-णीसंद-विंदु-संदोह-पसरंत-लुद्ध-सुद्धागयालि-माला-वल्ल-हलवोल-पूरमाण-दिसि- 12  
 यणेहिं दिव्वेहिं जल-थलय-कुसुमेहिं । तं च काऊण णिवभर-भत्ति-भरोणय-वयण-कमला थुणित्तमादत्ता । अवि य ।  
 'जय ससुरासुर-किंणर-गर-णारी-संघ-संधुया भगवं । जय पठम-धम्म-देसिय सिय-झाणुप्पण-गाणवरा ॥
- 15 जय पठम-पुरिस पुरिसिंद-विंद-णागिंद-वंदियचलणा । जय मंदरगिरि-गरुआयर-गुरु-त्व-चरण-दिण-विण्णाणा ॥ 15  
 णाह तुमं चिय सरणं तं णाहो गंधवो वि तं चेव । दंसण-णाण-समग्गो सिव-सग्गो देसिओ जेण ॥'  
 एवं च योऊण णिवडिया चलणेसु । समुट्टिया य गाइउं समादत्ता इमं दुवई-खंडलयं । अवि य ।
- 18 सुरपति-मुकुट-कोटि-तट-विघटित-कोमल-पल्लवारुणं सललित-युवति-नमित्त-सुरपादप-निपतित्त-कुसुम-रञ्जितम् । 18  
 अभिनव-विकसमान-जलजामल-दल-लावण्य-मण्डितं प्रथम-जिन-चरण-युगलमिदं नमत गुरुतर-भव-भय-हरम् ॥  
 इमं च लय-ताल-सर-वत्तणी-मुच्छणा-भणहर गिजमाणं णिसामिऊण गेय-अक्खित्त-माणसस्स पम्हुट्टं अत्ताणयं कुमारस्स ।
- 21 तओ रहसेण भणियं । 'अहो गीयं, अहो गीयं, भण भण, किं दिज्जउ' ति भणमाणी पयडीभूओ । तओ तं च तारिसं 21  
 असंभावणीयं मणुय-जम्म-रूय-सोहा-संपयं दट्टूण ससंभमं अक्खुट्टिओ कुमारो जक्ख-कण्णगाए । कुमारेण वि साहम्मिय-  
 वच्छलत्तणं भावयंतेण पठमं चिय वंदिया । तीय वि ससज्जस-लज्जा-भओक्कप-वेवमाण-थणहराए सविणयं भणियं 'सागयं 22  
 24 साहम्मियस्स, एहि, इमं पल्लवत्थुरणं पवित्तीकरेसु अत्तणो सररीर-फंसेणं' ति । कुमारो वि सायरं णिसण्णो पल्लवत्थुरणे । 24  
 तओ तीए य तम्मि कालंतरम्मि को उण वियप्प-विसेसो हियए वट्टए । अवि य ।  
 किं मयणो च्चिय रूवी किं वा होज्जा णु कप्पवासि-सुरो । विजाहरो न्व एसो गंधवो चक्कवट्टी वा ॥
- 27 इमं च चित्तयंतीए भणिओ कुमारो । देव, ण-याणामि अहं, मा कुप्पसु मह इय भणंतीए 'को सि तुमं, कथ व पत्थिओ 27  
 सि, कम्हाओ आगओ तं सि' । तओ ईसि-वियसिय-दसणप्पभा-विभिज्जमाणाहरं संलत्तं कुमारेण । अवि य ।  
 'सुंदरि अहं मणुस्सो कज्जत्थी दक्खिणावहं चलिओ । आओ म्हि अओज्जाओ एस फुडो मज्झ परमत्थो ॥
- 30 एयम्मि महारणे कथ तुमं कथ वा इमो जक्खो । केणं व कारणेणं इमस्स सीसम्मि जिण-पडिमा ॥ 30  
 एयं महं महंतं हिययम्मि कुज्जहलं चुल्लुवुलेह । ता सुयणु साह सव्वं एत्तियमेत्तं महं कुणसु ॥'  
 इमं च कुमारेण भणियं णिसामिऊण ईसि विहासिऊण भणियं इमीए ।
- 33 जइ सुंदर अत्थि कुज्जहलं पि ता सुणसु सुंदरं भणियं । रण्णम्मि जिणस्स जहा जक्खस्स य होइ उप्पत्ती ॥ 33

1 > P केणह for केण उण, J तीय, P om पि 2 > P om. केण वि, P परिभमति 3 > P महोरया, P पुच्छियह.  
 4 > J 'माणीओ उवगयाओ, P om. पहिमाए, P पद्धती 5 > J om. वणे, P वद्धहवे for वहवे, J तीय, P भणह 6 > JP  
 मि for पि (emended), P सहिणवालुया पुणिलोयर, P सुनिरुवियप्पमाणघडियगुट्टाणुररइय रगुलीय अगुलिय अगुलीवद्धमाण  
 7 > J पिणिद्ध for बद्ध 9 > P पउमचक्कसत्थिय, J तोरणाक्खिअले (?) 10 > P सगास, J 'माणीय सविणय अवणीयओ 11 > P  
 सिहराओ ण्हाणिओ 12 > P कोमलदलवियलदल, P कोमल for कमल, J संदोहं 13 > J om दिव्वेहि 14 > P धम्मदेसय,  
 P नियज्जाणु 15 > J पुरिसिंदचलणा इदवदियचलणा, P गुरुयारिगुरुयत्व, J गरुआयरअतवचरणदिण्णाण 16 > P om. वि,  
 P तुम for तं, P विसुद्धो for समग्गो 17 > P om. च, P ओ for य, P गाइओ पयत्ता इम, J adds च after इमं, P  
 अक्खित्तियं for दुवईखंडलय 18 > J मुकुट, P सुरपति for सललित, J जुवति, J पादपरेणुरजोपरजित 19 > P जलजामल-  
 रेणुरजोपरजित प्रथम, J लावण्य for लावण्य, P adds कमल after चरण, P om गुरुतर, JP हर 20 > P वत्तणामण-  
 हरणिज्ज, P गेयक्खित्त 21 > P रहासेण, J om first गीयं, P दीवळ ति, J पायडीभूओ 22 > J adds तीए before  
 जक्ख, P कज्जागाए 23 > J महउक्कप P तओक्कप, P सावय for सागय 24 > J पल्लववत्थुरणं, P पल्लवत्थुरणं, P पल्लवत्थुरणो  
 25 > J तीअ य P तीय तम्मि, P उय for उण 26 > P कि वीहोज्जा 27 > J चित्तयंतीय, P मज्झ for मह, J इम for इय  
 J व for सि (after को) 28 > P सि कत्तो हुयाओ सि, P भाविज्जमाणाहर 29 > J आउम्मि 30 > P केणे for  
 केणं. 31 > J कुत्तहल, P परिप्फुरइ for चुल्लुवुलेह 32 > P भणियमिमीए 33 > J कुत्तहल मि ता सुयणु सुंदर

1 § २०२) अथि इमम्मि चेष पुहड-मंडले कणयमय-तुंग-नोरणा-क्रिया पिहुल-गोडर-पायार-मिहर-नेहिरा मायंती 1  
णाम णयरि ति । जहिं च तुंगड कुलउत्तय-कुलडं देवडलड व, प्रिमलडं सुपुग्गि-चरियडं धरुणहणड व, मिणह-णिग्गरओ 3  
3 वीहिओ सज्जण-पीडओ व, गभीर-सहायओ परिहओ धरिणिओ व, ग्यण-नेहिरओ पायार गोडर-भित्तिओ विलामिणिओ व 3  
ति । अवि य ।

वियरत-कामिणीयण गोडर-कल-राय-वहिय-त्रियंता । तेषाण पि रमणिजा मायंती णाम णयरि ति ॥

6 ता कुमार, तीय य महाणयरीण अणेष-णरउड-गय सहस्सु-उत्त-इलडलारावाण अथि जणणयत्तो णाम मोत्तिय-वंभणो । 6  
सो य केरिसो । अवि य ।

कसिणो दुव्वल-देहो खर-फरुओ रत्त-पडर-सरीरो । त्रिसंत-धमणि-जालो जम्म-उरिहो तहिं वमड ॥

9 तस्स य वभणी धम्म-धरिणी । सा उण केरिसा । अवि य । 9

पोट्टिमि थणा जीए पोट्टिमि ऊर-अचमाम । एण णियाम चिय वीय पुण फुडियं णयण ॥

तीय य साविती-णामाए वंभणोए तेण जणण-सामिणा जायाड तेरस डिंभरुआड । ताण च मज्जे पच्छिमस्स जणणमोमो 12  
12 ति णामं । तस्स जाय-मेत्तस्स चेर समागया अहमा प्रीमिया । तव्य य काल-जुत्तो सप-उरो । तेण य वारय-वामाडं 12

अणावुट्टी कया । तीय य अणावुट्टीण ण जायंति ओसहीओ, ण फलेति पायवा, ण णिप्फजण सस्स, ण परोहति तणाड ।

केवलं पुण वासारत्ते वि धमधमायण पवणो, णिवडति पसु-उट्टीओ, कपण मेडणो, गज्जति धरणिधरा, सुव्वति णिग्घाया, 16  
16 णिवडंति उक्काओ, पलिप्पंति डिमाओ, वारह-विवायर-कफओ णिउडड मुम्मुरगार-सरिमो गिम्हो ति । एवं च उप्पाप्सु 16

पसरमाणेसु किं जाय । अवि य ।

उव्वसिय-गाम-ठाणं ठाणं मुह करयरंत-विसर-मुह । विसर-मुह-वड-मंडलि-मडलि-हुकार-भय-जणय ॥

18 पुरिसं च तं पुहड-मंडल जाय । अह णयरीओ उण केरिमा जाया । 18

खर-पवणुदुय-ताडिय-धवल-धया-उड-वस-वाहाहि । उट्टीकयाहिं घोसह अद्ध भल्ल व दीहाहिं ॥

तओ एवं अणुप्पज्जमाणासु ओसहीसु खीयमाणासु पुव्व-गहियासु अपूरमाणेसु उयरेसु किं जाय । अवि य । ण कीरति 21  
21 देवच्चणहं, वियलंति अतिहि-सकारह, विसवयति वभण-पूयाओ, विहडति गुरुयण-संमाणहं, परिवडंति पणइयण-दाणहं, 21

वियलति लज्जियव्वयह, पमाहजंति पोरुसियह, अवमणिज्जंति दक्खिणहं ति । अवि य ।

वोलीण-लोय-मग्गा अणणिय-लज्जा पणट्ट-गुरु-वयणा । तरुणि व्व राय-रत्ता जाया कालेण मायदी ॥

24 उज्झिय-अवसेस-कहा अणुदियह भत्त-मेत्त-वावारा । जीए णरा महिला वि य पमोय-रहिया सुदीणा य ॥ 24

किं होज मसाणमिण किं वा पेयाण होज आवासो । किं जम-पुरि ति लोए किं जं तं सुव्वए णरय ॥

एव च हा-हा-रवीभूए सयल-जणवए पोट्ट-विवर-पूरणा-कायरे खय गप्सु महंत-महापुरिस-कुलउत्तय-वणिय-सेट्टी-कुलेसु सो 27  
27 वंभणो जण्णसामीओ भूरु-भुवस्स-मेत्त-वज्जो जाओ जायणा-मेत्त-वावारो भिक्खा-वित्ती, त च अलहमाणो खयं गओ सकु- 27

हुंओ । केवल जो सो वभणो सोमो सव्व-कणिट्टो पुत्तो सो कहं कहं पि आउ-सेसत्तणेण अकय-वभणकारो अवद्ध-सुज-मेहलो 30  
30 छुहा-भरुच्छण-सयल-वधु-वग्गो कहिंचि विवणि-मग्ग-णिवडिय-धण्ण-कणेहिं कहिंचि वलि-भोयण-दिण्ण-पिंडी-पयाणेहिं 30

कहिंचि बालो ति अणुकपाविपुणं कहिंचि वंभण-डिंभो ति ण ताडिओ कहिंचि उच्चिट्ट-मल्लय-संलिहणेणं कहं कह पि तं 30  
30 तारिसं महा-दुक्खाल-कंतार अइक्कतो । ताव य गह-गईए णिवडिय जलं, जायाओ ओसहीओ, पमुइओ जणो, पयत्ताइं

1 > P तोरणाणक्रिया पिउहुल 2 > P उततइ कुलय, JP च for व in both places, P निरतरुओ 3 > P पीईओ इव,

P परिहाओ धरिणीओ, P भित्तीओ विलासिणीओ, P om व 4 > P om अवि य 5 > P कलवरा- 6 > P जयणयत्तो

7 > P om अवि य 8 > P फरुसतो 10 > J विदिअ for वीयं, P पुडिय for फुडिय 11 > P om य, P साविती-, J (उ)

ओरस for तेरस 12 > P adds य before जाय, J चेअ, P अहववीसिया 13 > P निप्पज्जए, J ण य रोहति 14 >

J धमधमायाए P धमधमायह, P वेसु for पसु 15 > P पलिप्पति रसाओ, J adds य after कफओ, J णितउण for णिवडह,

17 > P उप्पुसियगामह्णणं ह्णण, P करयरत, P विसर (for विसर) in both places, J मण्डलहुकार 18 > P नयरं उण 19 >

P पवणुदुयतोडिय, J धयखण्ड, P धुयारखड, P उट्टीकयाहिं, J उट्टीकयाविघोसह, J अच्चमहण व P अद्ध भल्ल व दीहाह 20 >

J उवप्सु P उयरेहि 21 > P तिहिं for अतिहि, J वभणपूओ, P गुरुयसम्माणह 22 > J फरुसिअ P पोरुसह 23 > P

अवणियलज्जा, P रायवत्ती, P मायदा 24 > P नीसेस for अवसेस, P वावारो, J जीअ, J या ॥ 25 > J मसाणमिम, P पुरिस

for पुरि 26 > P om. च, P सयले, P विवरपूरणा कायरेसु खयगप्सु, J सेट्टिउलेसु 27 > P जन्नदत्तो भूरु, J भूरुमुअस्स,

P om मेत्तवज्जो जाओ । जायणा, P भिक्खवित्ती, P सुकुट्टवो 28 > J वभणोमो, J वभणो सक्कारो 29 > P om कहिंचि

विवणि etc. to कणेहिं 30 > P ववणो ति न ताडिन ताडिओ, J उच्चिट्टामल्लसहेहणेण, P कह कहिं पि, J om त

31 > P दुक्खाल, P गहवईए, P पयआइ for पयत्ताइ

- १ ऊरवाहं, परिहरियाहं लज्जणाहं, उप्फुसियाहं च विणयाहंदाहं । इमग्निं य एरिसे काले सो वंभणो सोम-बहुओ थोवूण- 1  
सोलस-वरिसो जाओ । अवि य ।
- ३ सोहेह वच-घरग उज्जह उच्चिट्ट-महय-णिहाए । लोणुण उवहसिज्जह किर एसो वंभणो आसि ॥ 3  
§ २०३ ) तओ एवं उवहसिजंतस्स जणेणं णिदिज्जमाणस्स णिसिज्जमाणस्स जोव्वण-वास-वट्टमाणस्स एरिसो चित्ते  
वियप्पो जाओ । अवि य । अहो,
- ६ धम्मो अत्यो कामो जसो य लोयग्निं होंति पुरिसत्या । चत्तारि तिण्णि द्रोणिं व एक्को वा कस्सइ जणस्स ॥ 6  
ता ताण ताव धम्मो दूरेणं चेष मज्झ बोलीणो । अगणिय-कज्जाकज्जो गम्मागम्मप्फलो जेण ॥  
अत्यो वि दूरओ चिय णत्थि महं सुणय-सउण-सरिसस्स । दुप्पूरोयर-भरणेक-कायरो जेण तद्वियहं ॥
- ९ कामो वि दूरओ चिय परिहरइ य मह ण एत्थ संदेहो । सयल-जण-णिदिओ मंगुलो य दिट्ठो य भीसणओ ॥ 9  
अह चित्तेमि जसो मे तत्थ वि जय-पेह्लिण्ण अयसेण । णिय-जोणी-करयंटय-ठाणं पिच णिमिमओ अहयं ॥  
ता हो धिरत्थु मज्झं इमिणा जीणुण दुक्ख-पठरेण । जण-णिवह-णिदणा-लहुइएण एवं असारेण ॥
- १२ ता किं परिचय्यामि जीवियं, अहवा ण जुत्तं इमं, ण य कारुण तीरइ दुकरं खु एयं । ता इमं पुण पत्त-कालं । अवि य । 12  
धण-माण-विप्पमुक्का मुणिय-परद्धा जणग्निं जे पुरिसा । ताण सरणं विएसो वणं व लोए ण संदेहो ॥  
ता सव्वहा विएसो मम सरणं ति चित्तयंतो णिग्गओ तक्खणं चेष मायंदी-पुरवरीए । चलिओ य दक्खिण-पच्छिमं
- १६ दिसाभोयं । तओ कसेण य अणवरय-पयाणएहिं कुच्छि-मेत्त-संबलो अकिंचणो भिक्खा-विची महा-मुणिवरो विय वच्चमाणो 16  
संपत्तो विंझ-सिहर-पेरंत-पइट्ठियं महाविंझाडइं । जा उण कइसिया । उद्दाम-रत्त-पीय-लोहिय-मुह-महापलास-संकुला, वाणर-  
बुक्कार-राव-वियंभमाण-भीसणा, देवेहिं अलंघिय-पायवा, बहु-मय-सय-खज्जमाण-मयवइ-आउल-सुंग-सालालंक्रिया, सप्यायार-
- १८ सिहर-दुलंघा य लंकाउरि-जइसिया । जीए अणेयइ भीसणइं सावय-कुलइं जाह गामइं वि ण णज्जति । तग्निं य महाइइय 18  
मज्झग्निं सो वंभणो जणसोमो एगाइं गंतुं पयत्तो । तग्निं य वच्चमाणस्स को उण कालो वट्ठिं पयत्तो । अवि य ।  
धम-धम-धमेत्त-पवणो सल-हल-हीरंत-सुक्क-पत्तालो । धग-धग-धमेत्त-जलणो सिलि-सिलि-णव-पल्लवुब्भेओ ॥
- २१ बहुसो मय-तण्हा-पाणिणुण वेयारियं महिस-जूहं । उप्पल-मुणाल-रहिए सरग्निं णवि पाणियं पियइ ॥ 21  
जत्थ पहियाण सत्यो पासत्थो दुसह-गिम्ह-मज्झण्हे । अवरण्हे वि ण मुंचइ तोय-पवा-मंडवं सिसिरं ॥  
सयल-जण-कामणिज्जं कलस-थणाभोय-दिण्ण-सोहगं । दट्ठूण पवं पहिया दइयं पिव णिव्वुया होंति ॥
- २४ तओ तग्निं तारिसे सयल-जय-जंतु-संताव-कारए गिम्ह-मज्झण्हे-समए सो वंभसोमो तग्निं भीमे वणंतराले वट्टमाणो 24  
लुहा-खाम-वयणोयरो पणट्ट-मग्गो दिसा-विमूढो सिंघ-वग्घ-भय-वेविरो तण्हाए वाहिं पयत्तो । तओ चित्तियं तेण । 'अहो  
महंती मह तण्हा, ता कत्थ उण पाणियं पावेयव्वं' ति चित्तयंतो मग्गिउं पयत्तो जाव दिट्ठो एक्कग्निं पएसे बहुल-पत्तल-
- २७ सिणिद्धो महंतो वणाभोओ । चलिओ य तदिसं जाव णिसुओ इंस-सारस-चक्कायाणं महंतो कोलाहलो । तं च सोऊण ऊस- 27  
सियं पिव हियणुं जीवियं पिच जीविणुं अहिय-जाय-हरिसो तओ संपत्तो तं पएसं, दिट्ठं च तेण सरवरं । तं च केरिसं ।  
अवि य ।
- ३० वियसंत-कुवलउप्पल-परिमल-संमिलिय-भमिर-भमरउलं । भमरउल-बहुल-हलबोल-चाउलिजंत-सयवत्तं ॥ 30  
सयवत्त-पत्त-णिविक्खत्त-पुंजइजंत-कंत-मयरंदं । मयरंद-चंद-णीसंद-मिलिय-महु-बिंदु-बोगिंळ ॥  
§ २०४ ) तओ कुमार, सो वंभ-सोमो ता एरिसं दट्ठूण महासरवरं पत्तं जं पावियव्वं ति ओइण्णो मज्जिओ
- ३३ जहिच्छं, पीयं पाणियं, आसाइयाहं मुणाल-खंडाहं । उत्तिण्णो सरं । उववणग्निं लुहा-भर-किलंतो य मग्गिउं पयत्तो 33

१) P उप्फुसियाहं च चेषणाहं ।, P om. य, J वंभसोम, P om थोवूण ३) P वचहरए ४) P जणेणं निव-  
डिज्जमाणस्स जोव्वण, J जोव्वणवसट्टमाणस्स ५) P om. अहो ६) P मोक्खो for जसो, P य for व  
७) P 'फलो ८) P नहि for णत्थि ९) J परिहरइ ति णत्थि संदेहो, P मर for मह, P वि for य.  
१०) P विजस for वि जय, P करकट्टयथाणु ११) J हे for हो, J जीवेण १२) J om य, P पुत्तकाल,  
१३) J धणिय for मुणिय १४) J णिव्वुओ १५) P दिसाभाग, P अणवरयपयाणेहिं, J कुच्छी- १६) J adds अवि य  
before उद्दाम. १७) J पुक्कार for बुक्कार, P वियज्जमाणभासणा, J पयावा for पायवा, P आउल-सुंगमाला, P सप्यायार १८)  
J लंकाउरिसज्जसिय जीय य अणेय भीसणइं, P सावणय जाह, P महाइइमज्झग्निं. १९) J सो वंभसोमो, P एक्काकी २०) P om  
one धम, P सिलेंतनव २१) P नय for णवि २२) P पासंतो for पासत्थो, J धोअ for तोय २४) J कारये, J वट्टमाणे  
P वट्टमाणा २६) P महा तण्हा, P om ति, P पत्तसिणिद्धो २७) J त दिसं, P हस, P om ऊससिय to जीविविण्ण.  
२८) J om अहियजायहरिसो, P om तओ, P पत्तो for संपत्तो २९) P adds, after अवि य, वियसंतकुवलउप्पल-  
परिमलसंदिट्टं च तेण सरवरं । तं च केरिसं । अवि य and then again वियसंत etc ३०) J कुवलउप्पल, P सयपत्तं  
३१) J बहु for महु, P बोगिंळ ३२) P -सोमो तारिसं, P मज्जिउ. ३३) P पीयपाणियं, J आसाइइह, J तववट्टग्निं for  
सर । उववणग्निं, P उववण



1 फलाह । परिभ्रमंतेण कत्यह अंवे कत्यह अंवाडए कत्यह पारगे कत्यह फणसे कत्यह पिंडीरए त्ति पाविए । तेहिं य कय- 1  
दुप्पूरोयर-भरणो विहरिउ पयत्तो तम्मि तड-काणणम्मि । तत्थ य रायउत्त, परिभ्रममाणेण दिट्ठ पङ्कम्मि पप्पमे चट्टण-  
3 वट्टण-लया-एला-लववा-लयाहरय । त च दट्ठण उप्पण्ण-कोउओ तहिं चेय पविट्ठो जाव तत्थ दिट्ठा तेण मुत्ता-सेल- 3  
विणिम्मिया भगवओ सुरासुरिंद-कय-रायाभित्तेयस्स पढम-जिणवरस्स पडिमा । त च दट्ठण तस्स तहा-भविद्यव्वयाए  
भगवओ य सोम्म-दमण-प्पभावेण णिय-कम्माणं सओवसमेण तम्मि चेय जिण-वित्रे बहुमौणो जाओ । चिंतिय च णेण  
6 'अहो, दिट्ठं मए मायदीए एरिस इम किंपि देवय ति । ता जुत्त इमस्स भगवओ पणामं काउं जे, ता करेमि । धम्मो किर 6  
हवइ' । चिंतियण भणियमिमिणा । अवि य ।

'भगव जं तुह णामं चरियं व गुणा कुल व सील वा । एयं ण-याणिमो चिय कह णु थुइं तुज्झ काहामो ॥

9 ता तुह दसण-तुट्ठो णामामि एमेय भत्ति-भर-जुत्तो । त किं पि होउ मज्झं ज तुह चलणच्चगे होइ ॥' 9  
चिंतयतो णिवडिओ भगवओ पाएसु । पाय-पडणुट्टिएण चिंतिय णेण । 'अहो, रम्मो वणाभोओ, मणहरो सरवरो, रेहिर  
लयाहरयं, फलिया पायवा, सोमो य एस देवो त्ति । ता मए वि दूसह-दारिहावमागणा-कलंक-दूसियप्पणा त्रिएसं गत्तूण  
12 पुणो वि पर-पेसण कायव्व । का अण्णा गइं अम्हारिणाण अकय-पुव्व-त्तवाण ति । अवि य । 12

दूरगओ वि ण सुच्चइ एत्तिय पुरिसो सपुव्व-कम्माण । जइ रोहणाम्मि वच्चइ दारिह भग्ग-रहियस्स ॥

ता सव्वहा णत्थिय पुव्व-विहियस्स णासो त्ति । ता वरं इह चेय विमल-गंभीर-धीर-जले सज्जण-हियए च्च मज्जमाणो इमाइं  
15 च जल-थलय-दिव्व-कुवलय-कलहार-कुसुमाइ वेत्तूणं इमं कि पि देवयं अचयंतो कय-कुसुम-फलाहारो, सारंग-विहंग-कय- 15  
संगो, अणिवारिय-वण-प्पयारो, अकारण-कुवियाइ खलयण-मुह-दसणाइं परिहरतो, सुहं-सुहेण वण-त्तावसो विव किं ण  
चिट्ठामि' त्ति चिंतयंतस्स इमं चेय हियए पइट्ठियं । तत्तो अच्छिउ पयत्तो । कय-ण्हाण-कम्म-वावारो भगवओ उसभसामिस्स  
18 कय-कुसुमच्चणो इमं च णं पढमाणो त्ति । अवि य । 18

भगव ण-याणिमो चिय तुम्ह गुणा जेण संथय करिमो । त किं पि होउ मज्झं ज तुह-चलणच्चणे होइ ॥

भगमाणो कय-कुसुम-फलाहारो अच्छिउं पयत्तो । एवं च अच्छमाणस्स वच्चए कालो । कालंतरेण य बहु-पुप्फ-फल-कयाहार-  
21 किरियस्स पोट्ट-सूल-रूवी उवट्ठिओ सव्व-जग-जंतु-साहारणो मच्चू । अवि य । 21

जइ पइसइ पायालं अडइ व गिरिं तहं समुद वा । तह वि ण सुक्कइ लोओ दरिय-महामच्चु-त्रेसरिणो ॥

तओ कुमार, सो वराओ तत्थ ताए पोट्ट-सूल-वियणाए धणियं वाहिउं पयत्तो । तओ तेण णायं णत्थिय मे जीवियास त्ति  
24 मण्णमाणो णिवण्णो भगवओ पुरओ । तत्थ तओ गुरु-वियणायल्लो णीसहो भगवओ उसभ-सामिस्स मुह-पंकय णियच्छतो 24  
भणिउं पयत्तो । अवि य ।

भगवं ण-याणिमो चिय तुज्झ गुणे पाव-पसर-मूढप्पा । जं होइ तुज्झ पणयाण होउ मज्झं पि तं चेय ॥

27 त्ति भगमाणो भगवओ पायवडिओ चेय णियय-जीविण परिचत्तो । 27

§ २०५ ) तओ कुमार, तत्तो य सो मरिऊण कत्य गओ । अवि य । अत्थिय रयणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-

सहस्से वंतराणं भवणो, तत्थ य अट्ठ णिगाया होंत्ति । तं जहा । जक्खत्ता रक्खसा भूया पिसाया किणरा किंपुरिसा महोरगा  
30 गंधव्व त्ति । तत्थ पढमिल्लए णिगाए जक्खाणं मज्झे महिड्ढिओ जक्ख-राया समुप्पण्णो । तस्स य रयणसेहरो णामं । तत्थ 30  
समुप्पण्णेण णियच्छियं तेण । 'अहो, महंतो रिद्धि-समुदओ मए पाविओ । ता केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा एम  
मए पाविओ' त्ति चिंतयतस्स अत्ति ओहि-वर-णाणं पसरियं । तेण य णाणेण णिरुवियं जाव पेच्छइ तम्मि वणाभोए  
33 सरवरस्स तीरम्मि लयाहरए भगवओ उसभ-सामिस्स पुरओ णिय-देइ उज्झिय-जीविय त्ति । तं च दट्ठण चिंतिय । 33

1 > J om. अवे कत्यह, P अंवाडए, J कत्यवि पारगे, P पावाए 2 > P om तड-, J चट्टवट्टण 3 > P om वट्टण, P om  
लया, P om च, P कोओ for कोउओ, P तमि for तहिं, P transposes तत्थ after तेण, P दिट्ठो 4 > J पडिम ति 5 >  
P सोमदमणत्तणेण, J खयोवं, P adds च असुहकम्माण before तम्मि, P चिंतिय तेण 6 > J एम for इम, J काउ । दे (for ले),  
P किर भवइ 7 > J भणिय इमिणा 10 > P om णिवडिओ, J पायवट्टण, P वणो मोओ 11 > P पावा for  
पायवा, P दारिहवमां, P दूसियप्पण 12 > P om वि after पुणो, P repeats कायव्व, J कायणा 13 > J सुच्चइ पत्तिग,  
P कमोह । P माग for भग्ग 14 > J ताव पर for ता वर, J इह चेय, P विमल, P इमाण च 15 > P repeats विहग, P विह-,  
कायसंगो अणवारिय 16 > J om. वण-, J विअ किं 17 > J तओ for तत्तो, P ओमहसायिस्स 18 > J looks like  
इमण्व, P om. इम च ण पढमाणो त्ति 19 > J तुज्झ for तुम्ह, P ते for त, P होउ ॥ 20 > P कालंतरेण, J फलाहार-  
किरियस्स, P कयाहारो 21 > J जय for जग 22 > P गिरितरु 24 > P om. णिवण्णो, P भवओ for भगवओ, P तत्थ  
for तओ, P वियणाट्ठो 26 > J गुणा 27 > P नियजीविण परिचत्तो 29 > J मए for सहस्से, P अट्ठ निकया,  
P किन्नपुरिस्ता 30 > P निक्काण, J adds य after तत्थ 31 > P adds यbefore णियच्छिय, J समुट्ठयो, J om ना  
32 > P उज्झति, J adds णेण before जाव 33 > P उन्नहय-, P पुरओ उज्झियदेइ निययजीविय

1 'अहो इमस्स भगवओ पभावेण मए एयं पावियं' ति । 'णमो भगवओ उसभ-सामि-जिणवरस्स महइ-महप्पभावस्स' ति भणमाणो वेणुं संपत्तो इमं पएसं । दिट्ठो य भगवं उसभणाहो, दट्ठण य भत्ति-भरोणमित्तिमंग-मउड-रयण-किरण-संवयंत- 8 तार-मुत्ताहारो थोउं पयत्तो । अवि य ।

जय सयल-सुरासुर-सिद्ध-कामिणी-विणय-पणय-चलण-जुय । जय भुयइंद-विलासिणि-सिर-मणि-किरणग-सुंविद्यच्चलणा ॥ 3  
जय चंदिद-णमंसिय जय रंद-भवोह-तारण-समत्थ । जय भुवण-सोक्ख-कारण जय कम्म-कलंक-परिहीणा ॥

0 भगवं तं चिय णाहो तं सरणं धंधवो तुमं चेय । भव-संसार-समुद्दे जिण-तित्थं देसियं जेणं ॥ 6

ति भणमाणो णिवडिओ भगवओ चलणेसु । पणाम-पच्चुट्टिण भणियं च णेण । 'भगवं, 7  
णामं पि ण-याणंतो णवरं तुह भत्ति-मित्त-संतुट्ठो । तेणं चिय णाह अहं एसो जक्खाहिवो जाओ ॥

9 जे उण जाणंति तुहं णामं गुण-कित्तणं च चरियं च । तुह वयण-वित्थरत्थे सत्थे य अणेय-माहप्पे ॥ 9

ते णर-सुर-वर-भोए भोत्तूणं सयल-कम्म-परिहीणा । सासय-सिव-सुह-मूलं सिद्धिमविरघेण पावेंति ॥' 9

भणमाणो णिवडिओ पुजो चलणेसु । भणिओ य तेणं णियय-परियणो । 'अहो देवाणुपिया, पेच्छह भगवओ णमोक्कार-फलं । 12 अवि य । 12

सयल-पुरिसत्थ-हीणो रंको जण-णिंदिओ वि होऊण । एयस्स चलण-लग्गो अहयं एयारिसो जाओ ॥' 12

अहो भगवं महप्पभावो, ता जुत्तं णिच्चं भगवंतं सीसेण धारिउं । जेण एकं ताव सुरिंदाणं पि पुजो, विइयं अलज्जणिज्जो, 15

तहयं महाउवयारी, चउत्थं भत्ति-भर-सरिसं, पंचमं सिद्धि-सुह-कारणं ति काऊण सव्वहा विउञ्चिया अत्तणो महंता मुत्ता- 15

सेल-मई पडिमा । सा य एस। इमीय य उवारिं णिवेसिओ एस मउलीए भगवं जिणयंदो ति । तप्पभिइं चेय सयल, 15

जक्ख-लोएण रयणसेहरो ति अवहत्थिय जिणसेहरो से णामं पइट्ठियं । तओ कुमार, तं च काऊण महंती पूयं णिव्वत्तिऊण 18

वंदिऊण थोऊण णमंसिऊण य भणियं णेण 'कणयप्पभे कणयप्पभे' ति । मए वि ससंभमं करयल-कयंजलिउडाए भणियं 18

'आइससु' ति । तओ तेण अहं आइट्ठा जहा 'तए अणुदिणं इहागंतूण भगवं दिव्व-कुसुमेहिं अच्चणीओ ति । मए पुण 18

अट्टमी-चउइसीए सव्व-परियण-परियरिएण इहागंतव्वं भगवओ पूया-णिमित्तं ति भणिऊण उवगओ अत्तणो पुरवरम्मि । 21

तओ कुमार जं तए पुच्चिथं 'को एसो जक्खो, किं वा इमस्स मउडे पडिमा, का वा तुमं' ति । तं एस सो जक्खराया- 21

इमा य सा पडिमा, तस्स य अहं किंकरी दियहे दियहे मए एत्थ आगंतव्वं ति । एवं भणिए भणियं कुमारेण । 'अहो महंतं 21

अच्छरियं, महप्पभावो भगवं, भत्ति-णिळभरो जक्ख-राया, विणीया तुमं, रम्मो पएसो । सव्वहा पज्जत्तं मह लोयणाणं 24

कण्णाण य फलं इमं एरिसं जुत्तं दट्ठण सोऊण य'त्ति भणिए भणियं कणयप्पभाए 'कुमार, जाणामि ण तुह केणावि किंचि 24

कज्जं, तहा वि भणसु किंचि हियय-रुइयं जं तुह देमि' ति । कुमारेण भणियं 'ण किंचि मह पत्थणिज्जं अत्थि' ति । तीए 24

भणियं 'तहा वि अवज्ज-दंसणा किर देवहर'त्ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, इओ वि उडुं फलं अण्णेसीयइ ति । अवि य । 27

एस भगवं जिणंदो जिण-भत्तो एस जक्ख-राया य । दिट्ठा सि तं च सुंदरि तहावि विहलं ति वाहरसि ॥' ति । 27

'वंदामि'त्ति भणमाणो समुट्ठिओ कुमार-कुवल्लयचंदो । तओ तीए भणियं । 'कुमार, दूरे तए गंतव्वं, बहु-पच्चवाओ य एस 27

बहु-रण-दुग्गमो मग्गो । ता गेण्ह इमं सयल-सुरासुर-वंतर-णर-किंणर-करिवर-वग्घ-हरि-सरह-रु-प्पमुहेहिं पि अलंघणीओ 30

ओसही-वल्लय-विसेसो'त्ति भणमाणीए करयलाओ समप्पिओ कुमारस्स । तओ 'महंती साहम्मिय-वच्छल'त्ति भणमाणेण 30

गहिओ कुमारेणं ति । तं च घेत्तूण अब्भुट्ठिओ कुमार-कुवल्लयचंदो, पयत्तो दक्खिणं दिसाभोयं, वच्चइ य तुंग-विंझइरि- 30

सिहराइं लंघयंतो । वच्चमाणो दिट्ठो य णेय-तरुयर-साहा-बाहा-पवण-पहोलमाण-साहुली-विइज्जंतं पिव महाणइं णम्मयं ति । 30

~~~~~

1 > JP एवं, P उसहसामि, J महति. 2 > P भगवओ उसहनाहो, J उत्तमंग P उत्तिमंगउड. 3 > J 30

मुत्ताहारेण भणिअं । अवि य । 4 > J जुआ, P विलसिणि. 5 > P वंदिद for चंदिद, J परिहीणं. 7 > P om. 30

भगवओ. 9 > J णामगुणे, P गुण कि तुह वयण. 10 > P inter. वर and सुर, P परिहीणो, P चिरेण for विग्घेण. 11 > 30

P repeats पुणो, J णिअओ for णियय. 14 > P जुत्तमिमं भगवंतं, J पि पूअणिज्जो । वितिअं. 15 > P भरिभरसरिसं 30

J om. सव्वहा, J विउञ्चिअ. 16 > P adds मओ एस before मउलीए, J तप्पभूई चेअ. 17 > P om. से, P महंतं पूयं 30

निव्वत्तेउण. 18 > P भणियमणेण, J ससंभम, P करयलंजलि. 19 > J om. अहं, P अह for अहं, J आइट्ठो, P adds न before 30

मए. 20 > P परिवारिएण. 21 > J को for का. 22 > P एयस्स for तस्स, P inter. किंकरी & अहं, J adds य after 30

first दियहे, P om. ति. 23 > J अच्छरीअं, P भत्तिभरनिभरो. 24 > J कण्णेण, P फलमिमं, P तुह वि केण वि. 25 > 30

P रुइं for रुइयं, J णइंचि मह, J तीय. 26 > J देवा होंति ति P देवाहरति, P विय for वि, J अण्णिसीअति ति. 30

28 > J तीय for तीए. 29 > J बहुरणो, J om. मग्गो, P सयलसुर, J om. किंणर, P om. करिवर, J om. वग्घ, J हरिस- 30

भररुप्प°. 30 > J भणमाणीय, P वच्छल ति. 31 > P om. सोयं, P विंझसिहराइं. 32 > J वच्चमाणेण य दिट्ठा P वच्चमाणेण 30

दिट्ठो, P णेण for णेय, P वियज्जंतं.

1 § २०६) जा व कइसिया । णव-जोव्वणुम्मत्त-कामिणि-जइसिय कुकुम-रस-पिंजर-चकल-चक्काय-पओहर-सेला- 1  
 लुबिभज्जाण-रोम-राई-मणहरं च, कहिं चि णव-वहु-जइसिया तड-तरुय-घण-साहा-लयावगुंठण-णीसइ-गइ-पयारा व, 1  
 3 कहिं चि वेसा-विलय-जइसिया हंरि-णहर-णिदउल्लिहिय-मत्त-मायंग-कामुय-दंत-जुयलं किय व, कहिं चि वासय-सज्ज-जइसिया 3  
 मघमघंत-सुरहि-कुसुम-गंधड्ड-फुरमाण-विंदु-माहर व, कहिं चि पउत्थवइ-जइसिय पल्लहिय-कमल-वयण-आवंडुर-पओहरय  
 त्ति । अवि य ।

6 उच्छंगम्मि णिवणं जुवइ तड-पायवग-वयणेहिं । णवि णज्जइ किं धूया किं दइया होज्ज विंझस्स ॥ 6  
 जीए य महामल्ल-सरिसइं कर-कत्तरी-घाएहिं जुज्जंति मत्त-मायंग-जूहइं, कहिं चि दुप्पुत्त-सरिसइं महा-कुलुम्मूलण-ववसियइं,  
 कहिं चि गाम-डिंभरुय-सरिसइं जल-कीला-वावडइं, कहिं चि तड-परिणय-पायवडियइं णज्जंति कुचिय-दइया-पसायणोणयइं  
 9 ति । अवि य । 9

णवि णज्जइ किं दइया सहोयरा होज्ज किं व एयाण । किं जणणि चिय रेवा होज्ज व धाई गय-कुलाण ॥  
 कहिं चि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-घाउच्छलंत-पाणिया, कहिं चि तणुय-तंतु-हीरमाण-मत्त-हत्थिय-संकुला, कहिं चि महा-मयर-कराघाय-  
 12 कुविय-मत्त-चण-महिस-कलुसिया, कहिं चि पक्कल-ग्गाह-गहिय-गंडयाउला, कहिं चि कुम्म-पट्टि-उल्लसंत-विदुम-किसलयालं- 12  
 किया, कहिं चि चेला-वसागय-पोमराय-रयण-रंजिय-जला, कहिं चि परिपयंत-चक्काय-जुवलकुंठ-णिज्जिया, कहिं चि सर-सर-  
 सरंत-कंत-सारसाउला, कहिं चि तुंग-तरंग-रंगंत-सिप्पि-संपुडा, कहिं चि चंड-पवण-पहय-कल्लोल-माल-हेला-हीरमाण-पक्खि-  
 15 गणा, कहिं चि मत्त-मायंग-संडली-मज्जमाण-गंडयल-गालिय-मय-जल-संदोह-विंदु-वंद-णीसंद-परिपयंत-वंदय-पसाहिय त्ति । 15  
 अवि य ।

धवल-बलाया-माला-वलया-हंसउल-पंति-कय-हारा । चलिया पइहर-हुत्तं णज्जइ रेवा णव-वहु च्व ॥  
 18 अण्णं च । गायइ व गय-मय-गंध-लुद्ध-मत्त-महुयर-महुल्लावेहिं, जंपइ व णाणा-विहंग-कलयलारावेहिं, हसइ व हंस- 18  
 मंडली-धवल-दसण-पंतीहिं-णच्चइ व पवण-वेउच्छलिय-तुंग-तरंग-हत्थेहिं, पडइ व जलयर-हीरंत-पत्थर-संघट्ट-खलहला-  
 खलियक्खर-गिराहिं, मणइ व तड-विडवि-पिक्क-फलवडण-दुहुदुहारावेहिं, रुयइ व णिज्जर-झरंत-झरहरा-सदेहिं । अवि य ।

21 उग्गाइ हसइ णच्चइ रुयइ व कलुणक्खरं पुणो पडइ । उम्मत्तिय व्व रेवा इमीए को होहिई वेज्जो ॥ 21  
 जाइ समुद्वाभिमुहं रेवा पुण वलइ वेविर-सरीरा । पयइ चिय महिलाणं थिरत्तणं णत्थि कजेसु ॥  
 मोत्तूण विंझ-दइयं तुंगं जलहिम्मि पत्थिया रेवा । अहवा तीए ण दोसो महिला णीएसु रज्जंति ॥

24 रयणायरम्मि लीणा विंझं मोत्तूण णम्मया पेच्छ । अहवा लुद्धाओ चिय महिलाओ होंति पयईए ॥ 24  
 किं ण सुहओ य दाणे रेवे जेणुञ्जिओ तए विंझो । हुं पइणा एकेण ण होइ महिलाण संतोसो ॥  
 अण्णाण वि एस गई तेण समुद्धम्मि पत्थिया रेवा । होंति चिय कामिय-कामियाओ काओ वि महिलाओ ॥

27 उच्चूढा विंझेण महप्पमाणं च पाविया तेण । मोत्तूण तह वि चलिया अहो कयग्घा महिलियाओ ॥ 27  
 जलही खारो कुग्गाह-सेवियो बहुमओ य रेवाए । इय साहेइ समुद्धो वियारणा णत्थि महिलासु ॥  
 इय जुवइ-चरिय-कुडिलं गंभीरं महिलियाण हिययं च । महिला-सहाव-चडुलं अह रेवं पेच्छए कुमरो ॥

30 तं च तारिसं महाणइं णम्मयं समोइण्णो रायउत्तो कह तरिउं पयत्तो । अवि य, 30  
 णिट्ठुर-कर-पहराहय-जल-वीह-समुच्छलंत-जल-णिवहं । अह मज्जइ सिरिदत्तो महागइंदो व्व उदामं ॥

एवं च मज्जमाणो कुमार-कुवलयचंदो समुत्तिण्णो तं महाणइं णम्मयं ति, गंतुं च पयत्तो तम्मि तीर-तरुवर-वल्ली-लया-  
 33 गुविल-गुम्म-दुस्संचारे महाडई-मज्जयारे । 33

1) J कइसिअ, P om. णवजोव्वणुम्मत्त etc. to मणहरं च कहिं चि, J जइसिअ. 2) P नववहुसिया तड, J तरुण  
 for तड, P om. घण, P गुंठ्यानीसइ, J गयणधार व. 3) P वियलिय for विलय, J जइसिअ, J दुल्लिहिय for  
 उल्लिहिय, P जुयलं कियं कहिं चि, J जइसिय. 4) P गंध for गंधड्ड, J फुरमाण for फुरमाण, P पउत्थवइजइसियपल्लहियवयणकमल,  
 J आवण्डु P आवंदुरपओहर व्व त्ति. 6) P उत्संगंमि, P तह for तड, P नयणेहिं for वयणेहिं, P नजिय for णज्जइ.  
 7) P वा for य, P कुलुम्मूलण. 8) P डिंभरुय, J पायवडियइं णज्जइ, P पायवडइं । नज्जंति. 10) P दयया, P धाती  
 for धाई. 11) P मच्छपुच्छडा, J वायुच्छलंतपाणिअ, P तणुतंतु. 12) J om. वण, J पज्जल for पक्कल, P गंडलाउला.  
 13) J om. लं किया, J वेलोवसा, P परिपयंत, J जुअलकुंठ, P सरसरत्तकंत. 14) J om. कंत, P वेण्ड for चंड, J माला  
 for माल, J om. हेला. 15) P विंदुविदणसिंद. 17) P हंसउलं, J रज्जइ P नज्जइ, P नर for णव. 18) P  
 महुयरहावेहिं. 19) J inter. धवल & मंडली, J om. व, P चेवलायिय, J P य for व, P जलयलहीरंत. 20) P तडवेडसिपिक,  
 J दुहुदुहारावेहिं P कुहुडारावेहिं, P निज्जरुज्जरंतझरासदेहिं, J सरेहिं for सदेहिं. 21) P णु for व, P व for व्व, P को हाहिई  
 वेज्जा. 22) P पुण विलइ. 23) J तीय for तीए, P रज्जंति. 24) P अहवा लुद्धाउ. 25) J य दाणो रेवे जोणुञ्जिओ,  
 J हं. 26) J पई for गई. 27) J पि for च. 30) J महाणम्मयं, P तह for कह. 31) J सिरिअत्तो. 32) P तरुवर.  
 33) P गुविल, J दुस्संचारे.

- 1 § २०७) एवं च वक्षमाणेण कुमारेण दिट्ठो एकस्मि पणसे विंझगिरि-पायवासण्णे वहल-सिणिह-तरुर-णियर- 1  
संकुले एक्को उड्ढो । दट्ठण तं चेय दिसं वलिओ त्ति अचलिय-वलंत-लोयणो राय-तणओ कयाइ कोइ एत्थ रिसी आसमे 1  
3 होइ त्ति चिंतयंतो संपत्तो तं उदयंगणं । जाव दिट्ठं तरुण-तमाल-पायव-पंती-परंपरा-परियरियं अंगणं । अण्णं च । कुसुमिय- 3  
वउल-रुक्खयं, भासण्ण-पिक-करमइयं, पलंबंत-पिंडिरयं, ललमाण-माउलुंगं, समंतओ कुसुमिय-वहु-जाइ-कुसुम-मयरंद-  
लुद्ध-भमर-रिंछोलि-रुणरुणा-सइ-संगीय-मणहरं पेच्छंतो पविट्ठो उडए । दिट्ठं च णेण पुत्तजीवय-घडिय-रुद्धक्ख-माला-वलयं ।  
6 दिट्ठाइं च णाणा-सुक्क-फल-संचयाइं । दिट्ठं च तियट्ठिया-ठावियं कमंडलं । दिट्ठं च उवट्ठवासणं । तं च दट्ठण चिंतियं । 6  
'अहो को वि एत्थ महामुणी परिवसइ' त्ति चिंतयंतेण दिट्ठा पंसुल-पणसे पय-पंती । तं च दट्ठण 'अहो, जहा इमाइं लहुय-  
मउय-कोमलंगुली-ललिय-दलाइं व दीसंति चलण-पडिबिवाइं, तेण महिलाए होयव्वं, ण उणं पुरिसेण । ता कह तवोवणं  
9 कहं वा महिल' त्ति चिंतयंतो तस्येव उवविट्ठो । 'दे, पेच्छामि णं को एत्थ परिवसइ' त्ति । थोव-वेलाए दिट्ठा तेण तावसी । 9  
सा केरिसा । अवि य ।

उव्वड-जडा-कडप्पा खर-फरुसा-दीह-केस-णहरिह्ला । चकल-पीण-पओहर माइण व आगया एका ॥

- 12 तीय य मगालग्गा समागया तरुण-जुयइ-चंचल-णयण-सम-सोहा-लोयण-जुयला मुद्ध-मया, ताणं चाणुमगओ जुयइ- 12  
हिययं व चंचला वाणर-लीवा, ताणं च पुरओ समागओ मण-पवण-वेओ झत्ति एक्को महाणील-सच्छामो महंतो राय-कीरो  
त्ति, तस्साणुमगं अण्णे य सुय-सारिया-णिवहा । ते य दट्ठण चिंतियं राय-तणएण । 'अहो, उवसम-प्पभावो इमीए  
15 तावसीए जेण पेच्छ एए वण-तण-जल-मेत्त-संतुट्ठ-जीवणा अरण्ण-सावय-सउणया वि ण मुंचंति से पासं सव्वहा । किं वा 15  
तवस्सिणो असज्झं' त्ति चिंतयंतो दिट्ठो तीए राय-उत्तो । दट्ठण य केरिसा जाया । अवि य ।

भय-सज्झ-स-सेउकंप-कोउहलेहिं विणडिया तो सा । इच्छइ पलाइज्जं को उण एसो विचिंतेती ॥

- 18 तं च पलायंती दट्ठण पहाइओ सरसइ-वरो महाकीरो । भणिया य णेण 'सामिणि एणिए, किं तुमं पलाइउं पयत्ता' । तीए 18  
भणियं 'इमो उण को इमस्मि मज्झ उडयस्मि वण-सावओ । तेण भणियं 'मा वीहसु, एस एत्थ को वि अरण्ण-मज्झस्मि  
पंथ-परिवट्ठो पंथिओ इमं पएसं समागओ । ता माणुसो एसो, अहं इमिणा सह भलीहामो त्ति । ता दे पावेसु, तुमं  
21 सागयं च इमस्स कुणसु । महाणुभावो विय लक्खीयइ' । एवं भणिया तेण कीरेण समागया सलज्ज-वेवमाण-पओहरा । 21  
आगंतूण य तीए भणियं 'सागयं पहियस्स, कत्तो आगओ सि, कहिं वा पत्थिओ सि, किं वा कज्जं' त्ति । तेण भणियं  
'आगओ इं महाणयरीओ अउज्जाओ, कज्जत्थी दक्खिणावहं चलिओ' त्ति । तओ भणियं कीरेण 'सागयं महाणुभावस्स,  
24 उवविससु एत्थ पल्लवत्थुरणे' । तओ उवविट्ठो राय-तणओ । एणियाए विणिक्खत्ताइं विविह-तरु-वर-पिक-साउ-सुरहि-फल- 24  
णियराइं । सुरहि-कुसुम-पत्त-पुडए य संठाविए एगंतस्मि उवविट्ठो य । तओ चिंतियं कुमारेण 'ण-याणीयइ का वि एसा,  
कहं वा केण वा कारणेण, केण वा वेरगेण, कथं वा आगय त्ति, ता किं पुच्छामि' । 'दे पुच्छामि' त्ति चिंतिज्जण भणियं ।  
27 अवि य । 27

'जइ तुम्ह णोवरोहो अकहेयव्वं च कह वि णो होइ । ता साह सुंदरि महं जं ते पुच्छामि ता सुयणु ॥

कथं तुमं एत्थ वणे कम्हाओ केण वा वि कज्जेण । एयंत-हुक्करमिणं वण-वासं जं पवण्णा सि ॥'

- 30 एवं च भणिया समाणी अहोमुहा ठिया । तओ कुमारो वि तीए पडिवयणं उवेक्खंतो थोव-वेलं विलक्खे विय आसि । 30  
तं च दट्ठण भणियं तेण राय-कीरेण । 'ओ भो महापुरिस, एस मणयं लज्जइ । ता कया उण तए एसा पत्थणा ण  
णिरत्थया कायव्वं त्ति अहं साहेस्सं' त्ति ।

1 > P पायासण्णे, P repeats नियर. 3 > J तरुतमाल, P परियं for परिपरियं, J om. अंगणं, P om. अण्णं च. 4 > P  
पिंडिरयं, P adds कुजाइ after जाइ. 5 > P रुणरुणासइ, J सणाइं for मणहरं, J पुत्तजीवय P पुत्तजीव, J फाडिय for घडिय,  
P रुद्धक्खमालयं. 6 > J अ for च before णाणा, J om. दिट्ठं च...कमंडलं, P ट्ठावियं, J उवट्ठयासणं P उवट्ठयासणं. 7 > J  
दिट्ठो पंसुल, J लहुमउअ. 9 > P महिलय त्ति, J om. णं, P थोइ for थोव. 10 > P om. सा, P om. अवि य. 11 > J  
णहरुक्खा, J पउहरा. 12 > P जुवई, J च मगगओ. 13 > J हिययं पिव चला, P adds पुरओ उप्पिडंता after लीवा, J  
om. च, P सच्छामो. 15 > P पेच्छा for पेच्छ, J संतुट्ठा, P जीविणो, J पासं । सव्वहा किं, P च for वा. 16 > P adds  
महंतो after तवस्सिणो, P om. ति, J तीय. 17 > P -कोउहलेहिं, J विणरिया, P om. तो, P इत्थए, J विइंतेती P विचिंतेइ.  
18 > P सरसवइरो, P महाकीरा, J om. य, P सामिणी, J तीय. 19 > P om. वणसावओ, P om. एत्थ, P अरंत्तमि पंथं परिवट्ठो  
पंथिओ इमं परिसं. 20 > J एस for एसो. 21 > J पि for च, J लक्खीयति, P om. तेण, J सलज्जं. 22 > J तीय, P  
कत्तो सि आगओ सि, JP कहं वा, P om. सि, J त्ति for किं वा कज्जं ति. 23 > J आगयोहं, P अज्जत्थी for कज्जत्थी. 24 >  
P पल्लवुत्थुरणं ति, J om. तओ, J एणियाय, J तरुरपक्क. 25 > J पुडए संठाविए P पुडए य ठाविए, J एगंतस्मि, J -याणीयति.  
26 > P om. केण वा before वेरगेण, P inter. वा & कथं, P om. ता किं पुच्छामि. 28 > J अकहेयं वा वि कह, J आ for ता.  
29 > P om. तुमं एत्थ, J कम्हाउ व केण, P एतं for एयंत. 30 > P अहोमुही, J ट्ठिया, J तीय, P थोववेलं. 31 > P एसा for  
एस, J om. ता, P om. उण, P तए for तए. 32 > J कायव्वं ति.

- 1 § २०८ ) अथि एयमि चैय पुहइ-मंडले णम्मया णाम महाणइ । अत्रि य । 1  
मत्त-करि-कामि-णिट्टर-धोर-कराघाय-चडुण-सयण्हा । दंत-जुवलंकिओट्टी पोढा इव कामिणी रेवा ॥
- 3 तीए दक्खिण-कूले देयाडई णाम महाडई । जा य कहसिया । 3  
वहु-तरुवर-सय-कलिया बहु-सावय-सेविया सुभीसणया । बहु-गिरिवर-सय-सोहा अडई देयाडई णाम ॥  
तीए महाडईए मज्झ-भाए अथि महंतो वड-पायवो । सो य केरिसो । अत्रि य ।
- 6 पत्तल-वहल-विसालो साल-पलंवंत-चडय-घरयालो । बहु-सउण-सयावासो आवासो सव्व-सत्ताणं ॥ 6  
तम्मि य महावडे बहुए कीर-कुले परिवसंति । तथ एक्को मणि-मंतो णाम महासुय-वंद-राया राय-कीरो अथि । तस्स  
एक्काए रायकीरीए उयरे गवभो जाओ । सो य अत्तणो काल-कमेण पसूओ अंडओ जाओ । केण वि कालंतरेण फुडिओ  
9 तओ जाओ मंस-पेसी-सरिसो किंचि विभाविज्जमाण-चुंचु-खुर-गहावयवो अणुदियहं च पक्खावली-पयावुम्हा-परिपोसिज्जमाण- 9  
सरीरो किंचि-समुट्ठिभज्जमाण-मरगय-सामलंकुर-पक्खावली-कयावयवो पाउस-समओ इव मणोहर-च्छओ । एरिसम्मि समए  
दर-जाय-पक्खाविक्खेव-डोहलो णिग्गएसु कहिं पि पोट्ट-पूरण-तग्गएसु पिह-माइ-बंधव-जणेसु समुत्तिण्णो कुलयावासाओ ।  
12 थोवंतरेण य अपरिफुड-पक्ख-विक्खेवो गंतुं अचाएंतो गिम्ह-महाताव-तत्रिय-सरीरो तण्हा-सुक्क-कंटो एक्कस्स तरुण-तमाल- 12  
पायवस्स छायाए णिसण्णो अच्छिउं पयत्तो । तथा य अच्छमाणस्स आगओ तम्मि पपुसे एक्को वाह-जुवाणओ । तेण य  
तस्सेय तरुयरस्स अहे वीसममाणेण कहं पि दिट्ठो सो कीरो । तं च दट्ठण पसारिओ णेण कसिणाहि-भोग-भीसणो हूथो ।  
15 गहिओ य सो पलायमाणो । घेत्तूण य चिंतियं तेण । ‘अहो, एस पाविओ राय-कीरो त्ति । ता सव्वहा ण एस वावाप्यव्वो 15  
त्ति य मए दंसणीओ पल्लीवइणो होहिइ’ त्ति घेत्तूण असोय-तरुवर-पत्ताइं णिवट्ठो पुडण, धणुयर-कोडि-णिवट्ठो ललमाणो  
य संपाविओ धरं, समप्पिओ य पल्लीवइणो, तेणावि राय-कीरो त्ति घेत्तूणं पंजरए रुट्ठो । तथ य वड्ढिउं पयत्तो । ता अहो  
18 महापुरिस, जो सो कीरो सो अहं । तओ अहं च तेण संबड्ढिओ त्ति । 18

- § २०९ ) एत्थंतरम्मि भरुयच्छं णाम णयरं । तथ भिगू णाम राया । तं च दट्ठण उवगओ सो पल्लीवइं । तेण य  
तस्स अहं उवट्ठाविओ । ममं च दट्ठण राहणा महंतो तोसो उच्चूढो, भणियं च ‘रे रे, को प्रत्य’ । पडिहारीए भणियं  
21 ‘आइससु’ त्ति । ‘वच्च सिग्धं, वच्छं मयणमंजरिं गेण्हिऊण पावसु’ त्ति । आएसणंतरं गया, पविट्ठा य मयणमंजरीए समं । 21  
भणियं च राहणा । ‘वच्छे मयणमंजुए, एस तए रायकीरो तथा करियव्वो जहा सव्व-कला-पत्तट्ठो हवइ’ त्ति भणंतेण  
संमप्पिओ पंजरो । तओ सा य रायसुया ममं सहिं पिव मित्तं पिव वंथुं पिव भायरं पिव सुयं पिव मणणमाणी पाटिउं  
24 पयत्ता । थोएणं चैय कालेणं जाणियाइं अक्खराइं, गहियं णट्ट-लक्खणं, जाणियं विसाहिलं, गहियाइं गय-नावय-मय-कुक्कुड- 24  
आस-पुरिस-महिला-लक्खणाइं । जुडिअयाइं सव्व-सत्थाइं । सव्वहा,

- सव्व-कलागम-कुसलो जिण-वयण-सुणिच्छिओ महावुट्ठी । तीए पसाएण अहं अह जाओ पंडिओ सहसा ॥  
27 तओ एवं च अच्छमाणस्स को कालो समागओ । अत्रि य । 27

- उण्हो उव्वेवणओ दीहर-खर-फरुम-पवण-णीसासो । संताविय-भुवणयलो गिम्हो कालो च्च चैयालो ॥  
तम्मि य तारिसे गिम्ह-काले एक्कस्स मुणियो आयावणं करंतस्स णीसंगयं भावयंतस्स एगत्तणं चित्तयंतस्स असरणत्तणं  
30 ज्ञायंतस्स सुत्तं अणुगुणंतस्स संसारं णिंदमाणस्स जिण-वयण-दुल्लहत्तणं भावयंतस्स सुक्कज्झाणंतरियाए वट्टमाणस्स अउव्व- 30  
करणं खवग-सेट्ठीए अणंतं केवल-वरणाण-दंसणं समुप्पणं । सो य रिसी तस्स राहणो पिया अभिसिंचिऊण पच्चइओ,  
एक्कल-विहार-पडिमं पडिवण्णो । भरुयच्छं समागओ विहरमाणो, तथ य केवल-णाणं समुप्पणं । तओ देवाणं उप्पय-  
33 णिवयं दट्ठण जणेण साहियं राहणो पिउणो जहा ‘महाराय, रिसिणो इहेव भरुयच्छे समागयस्स केवलणाणं समुप्पणं’ त्ति । 33

2 > P काम for कामि, J कामिणिदारधोर, J वत्तण for चडुण, J जुवलंकिउट्टी, P रेहा for रेवा. 3 > J तीय, P नई for महा  
डई, J जा च P जा व. 4 > P तरुयर, P सेवया, J सुभीसणिया, P य for सय. 5 > J तीय मद्राडईमज्झ. 6 > J घरयालो ।  
P बहुमयणिसयनिवासो. 7 > J कीरकुले P कीलकुले. 8 > P कालकमेण. 9 > P om. तओ, P चंचुखुरणुहा, P पयाउम्ह.  
10 > J किंचि अविभज्जमाण, J सामलंकुर P सामलंकुर, P तओ for कयावयवो, P समयं पिव मणहरच्छओ. 11 > P पक्खो तओ  
विक्खेव, J दोहला, P पिअ for पिह, P कुलयावावसाओ । थोअंतरेण. 12 > J अपरिफुड P अपरिफुड, P अचायंतो,  
P तस्समालपालपायवस्स. 13 > P सिण्णो for णिसण्णो, P अरियउं, P वाहजुवाणो. 14 > P अहो वीसमाणेण कहिं पि,  
P कसिणाहभोग, J ओअनीसणो. 15 > J णेण for तेण, P पायवो for पाविओ, J एस विवाए अव्वो, P वावाप्यव्वो मय दंसणो  
पल्ली. 16 > J होइइ, P adds य सोय before असोय, J पसाय for असोय, P तरुयरपत्तनिवट्ठो. 17 > P पल्लीवइणा,  
J तेण वि, P repeats ता सव्वहा न वावाप्यव्वो etc. to तेणावि रायकीरोत्ति, J पंजरओ. 18 > P om. तओ अहं च, P संबड्ढिओ.  
19 > P नगरं for णयरं, P inter. सो & उवगओ. 20 > P उवट्ठाविओ, P तं for ममं, P adds णेण before रेरे. 21 >  
P अइत्तनु, P adds च before गया, P पयट्ठा, P om. व, J मंजरीय P मंजरी । समंभमं भणियं. 22 > J होइ for  
हवइ, J adds य after भणंतेण. 23 > P समप्पिउं, P सा रायध्या मं सहिं, P वंथुं पिव. 24 > J अहियाइं for गहियाइं, P om.  
मय. 25 > J सव्वधरं. 26 > J कव्व for सव्व, J मुणिच्छिओ, J तीय. 27 > P om. च. 28 > P उण्हा. 29 > J गिम्हयाले,  
J णीसंगं, J om. एगत्तणं चित्तयंतस्स, P चित्तयंतयंतस्स, J असरणवत्तणं. 30 > P om. सुत्तं अणुगुणंतस्स. 31 > P रिसी for  
रिसी, P पियाभिसिंचिऊण. 33 > P om. इहेव, P om. ति.

1 तं च सोऊणं हरिस-वस-वियसमाण-लोयण-जुवलो राया भणिउं पयत्तो । 'सजेह जाण-वाहणाइं, अंतेउरिया-जणस्स; सव्व- 1  
रिद्धीए भज्ज भगवंतं तायं उप्पण-केवल-वर-णाणं वंदामि'त्ति भणिऊण पयत्तो वहु-जाण-वाहण-पूरमाण-महियलोः संपत्तो य  
3 भगवओ सयासं । थोऊण य पयत्तो । कह ।

जय धम्मज्ञाण-करवाल-सूडियासेस-कम्म-रिउ-सेण्ण । जय जय अकखय-णाणमणंत-जाणियासेस-परमत्थ ॥ 8  
त्ति भणमाणेण वंदिओ भगवं केवली राइणा । राया गिसण्णो य पुरओ, अण्णे वि य रायाणो भड-भोइया य णायर-जणो.  
6 य राय-धूया वि ममं घेत्तुं चैव तत्थ उवगया । मए वि संथुओ भगवं स-वुद्धि-विहवेणं । अवि य । 6

जय गिज्जिय-सयल-परीसहोवसग्ग जय गिहय-मय-मोह । जय गिज्जिय-दुज्जय-काम-वाण जय विमल-णाण-धर ॥  
त्ति भणिऊण पणामिओ मए वि भगवं केवली । गिसण्णा य राय-दुहिया ममं पुरओ गिमेऊण । केवलिणा वि भगवयाः  
9 कय-कायव्व-वावारेणं वोलीण-लोय-मग्गेण तहा वि किं पि कज्जंतरं पेच्छमाणेण भणियं । अवि य । 9

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-वहुलम्मि णवर संसारे । णत्थि सरणं जयम्मि वि धम्मं जिण-देसियं मोत्तुं ॥  
ता मा कुणह पमायं देवाणुपिया इमम्मि जिण-मग्गे । संसार-भव-समुदं जइ इच्छह अप्पणा तरिउं ॥

12 § २१०) एत्थंतरम्मि समोवइया दोणिण णील-पीय-वाससा विप्फुरंत-मणि-किरण-कणय-भासुरालंकार-सोहिया 12  
विजाहरा ।

गिम्मल-करवाल-करा फुरंत-मणि-रयण-किरण-सोहिला । गयणाओ ओवइया सहसा विजाहरा दोणिण ॥  
15 ते य भगवंतं केवलं पयाहिणं करेमाणा समोइण्णा । वंदिओ य भगवं सविणय-ओणय-करयल-दल-मउलमंजलिमुत्तिमग्गेः 15  
गिमेऊण । गिसण्णा य पायमूले भगवओ । सुह-गिसण्णेहिं भणियं 'भगवं, का उणः स' त्ति । भणिय-मेत्ते राइणा भिगुणाः  
सव्वेहि य णायरएहिं भणियं । 'भो भो विजाहरा, सा उण का जं तुव्वेहिं भणियं का स' त्ति भणिए, तेहि य पलत्तं ।

19 'अम्हे वेयडु-गिरिवराओ सम्मेय-सिहरं गया । तत्तो सत्तुंजयं चलिया । तत्थ वच्चमाणेहिं विंझ-गिरि-सिहर-वणंतराले भीमेः 18  
गिम्माणसे अरण-पएसें, जत्थ अम्हे वि गयण-गोयरा भीया इत्ति वोलेमो, णम्मयाए दक्खिणे कूले दिट्ठं महंतं मय-जूहं ।  
ताणं च मग्गालग्गा एक्का का वि मयलीव-वुण्ण-लोयणा समुच्चिज्जमाण-पओहर-भरा भउव्विग्ग-लोयणा मयाणं अणुमग्गेणः

21 वचंती वाला । तं च दट्ठण चित्तियं अम्हेहिं । 'अहो, महंतं अच्छरियं' चित्तियंता अवइण्णा । भणियाः य अम्हेहिं । 'भो भोः 21  
वालिए, किं एत्थ अरणम्मि तुमं एक्का, कत्थ वा तुमं आगय' त्ति भणिया य समाणी मुरलारण-मय-सिलिंब-वुण्ण-लोल-  
लोयणा अहिययरं पलाइउं पयत्ता । ण य ते मया तीए उव्वियंति । तेहिं चैय समं सा संगय त्ति । तओ अउव्वं वुत्तंतः

24 चित्तंता भणमाणेणं चैय अइंसणं गया वणंतराले । तओ अम्हेहिं चित्तियं । 'अहो, किं पि अत्थेत्थ कारणं, सव्वहा को विः 24  
अइसय-णाणी अम्हेहिं पुच्छियव्वो' त्ति । तओ भगवं एत्थ दिट्ठो । तेण पुच्छियं अम्हेहिं 'भगवं, का उणः स' त्ति । भणियं  
च राइणा पिउणो 'भगवं, अम्हाणं पि कोउयं जायं । ता पसीयसु, साहेसु' त्ति ॥

27 § २११) भगवं साहिउं पयत्तो । 27

अत्थि पयडा पुरीणं तेलोक्कम्मि वि पयत्त-जसहारा । धवलुत्तुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥  
जीय य मणहर-गीय-रव-रम्मइं भवणइं, भवण-माला-विभावियइं रायवहइं, रायवह-सोहिओ विवणि-मग्गु, विवणि-मग्गा-  
30 रेहिरइं गोउरदारइं, गोउरदार-विराइयइं पागार-सिहरइं, पागार-सिहर-छज्जिरइं फरिहा-बंधइं ति । जत्थ य रेहंति फरिहउः 30  
गिम्मल-जल-तरंगेहिं, जल-तरंगइं पि सोहंति वियसिय-सुरहि-कुसुमेहिं, कमलइं वि अग्घंति भमिर-भमरउलेहिं, भमर-

1 > P मंते° for अंते°. 2 > P भगवओः तायस्स उप्पन्नं, P om. य before पयत्तो. 4 > P सूडिताइसेस,  
P adds अय after जय. 5 > P om. राइणा, J om. राया, P अत्तो वि, J ण for य. before णायर. 6 >  
J रायधूअ वि, P om. ममं, P घेत्तुं, J चैअ, P om. तत्थ, P बुद्धि for सवुद्धि. 7 > P सयमलपरीसहोवसहोवसग्ग,  
J गिहयमल्लमयमोहा ।, J णाणवर. 8 > J गिसण्णो, P मं for ममं. 12 > J दुणिण (?) for दोणिण, J om. किरण, P किय  
for कणय. 14 > P उवइया. 15 > P om. य, P केवल, J सविणओणय, J उत्तिमग्गे for मुत्तिमग्गे. 16 > P नमिऊण for  
गिमेऊण, J adds अ before भणियं, J सिउणो for त्रिगुणा. 17 > P om. one भो, J कज्जं for का जं, J भणितं का P भणियं  
तं का, J om. य. 18 > P तओ for तत्तो, P सत्तुज्जं. 19 > J -पएसें, P तत्थ for जत्थ, P यत्ति for इत्ति,  
J णम्मयाय. 20 > P मयलीवपुत्रलोयणा समुच्चिज्जमाणपओभरभरा तओव्विग्ग, J भयुव्विग्ग. 21 > J अच्छरियं, P  
चित्तंता. 22 > J om. किं, P एक्को, J om. य. 23 > P पयत्तो, J om. तीए, J समं सा संगया P समं समागय, J om. त्ति,  
J अपुव्वं. 24 > J चित्तेता, P भणमाणेणं. 25 > P दिट्ठं. 26 > J om. च, P भि गुणा for पिउणो, P adds अम्हा before  
अम्हाणं, J पसिअसु. 27 > J adds भणिओ before भगवं. 28 > P तिलोक्कम्मि, P जस्स पञ्जारा for जसहारा. 29 > J जिअ for  
जीय, J रम्मइं भवणाइं, P विरवियइं रायनिवहइं, J om. विवणिमग्गु, P विपणिमग्गु विपणिः. 30 > P om. गोउरदारइं, P गोउरदारा,  
J विराविअइं पायार, J पायार, P छज्जिरवं परिहा, P कत्थ for जत्थ, P फरिहाउः. 31 > J मि for पि, J कमलेहिं for कुसुमेहिं,  
P कमल विय अग्घंति, P भमरभलेहिं भमर कुलइं विरायंति.

1 उलङ्घं वि विरायंति णव-कुसुम-रेणु-रएणं ति । अवि य ।

उत्तुंग-धवल-तोरण-वृद्ध-पढाय-च्छलेण भगइ च्च । उच्चेउं अंगुलिं सा जह् अण्णा पुरिसा णयरि ॥ ति ।

3 तम्मि य पुरवरीए सिरिवच्छो णाम राया पुरंदर-सम-सत्त-वीरिय-विह्वो । तस्स य पुत्तो सिरिवद्धणो णाम । धूया य एक्का सिरिमइ णाम । सा य विजय-पुरवद्धणो विजय-गराहिवस्स पुत्तो सीहो णाम तेण परिणीया । सो य सीहो जोच्चणं संपत्तो । केरिसो जाओ । अवि य ।

6 मारेइ खाइ लुंपइ णिरयेक्खो णिह्वो णिरासंणो । वण-सीहो इव कुचिओ पयइए पुरिसो जाओ ॥  
तं च तारिसं णाऊण राइणा विजएण णिव्विसओ आणत्तो । सो य तं राय-धूयं णियय-भारियं वेत्तूण णिग्गओ विसयाओ । एक्कम्मि पच्चंत-नामे आवासिओ, अप्प-दुइओ अच्छिउं पयत्तो । वच्चति दियहा । ताव य एत्थंतरम्मि केण वि कालंतरेण  
9 सो सिरिवद्धणो रायउत्तो धम्मरुइणो अणगारस्स अंतिए धम्मं सोऊण दुरुत्तरं संसार-सागरं णाऊण दुल्लहं भगवओ वयणं जाणिऊण सासयं मोक्ख-सुहं कलेऊण सच्चहा णिव्विण्ण-काम-भोओ अणगारो जाओ । सो य केण वि कालंतरेण परि-  
णिप्फण-सुत्तयो एक्कल्लप्पडिमं पडिवण्णो एक्को चेय विहरिउं पयत्तो ।

12 §:२१२) सो य भगवं विहरमाणो तं चेय गामं समागओ जत्थ सो भगिणी-पइ भगिणी य । तम्मि अवसरं सो भगवं मास-खमणट्ठिओ पारणए य गामं पविट्ठो । सिक्खत्थं च गोयर-चरियाए विहरमाणो भगवं तव-तणुय-देहो खाम-  
णिण्णोयरो कमेण य तम्मि भइणीए घरम्मि संपत्तो । तीय य भगिणीए दूरओ चेय दिट्ठो, दट्ठण य चित्थियं च तीए 'एस  
15 सो महं भाउओ ति, णिसुवं च मए किल एसो केण वि पासंडिण्ण वेयारिऊण पच्चाविओ । ता सच्चहा सो चेय इमो' ति ।  
तओ आऊरमाण-सिणेहाए भाउओ ति णिव्वभर-वाहुप्पीलण-त्थंभिय-णयण-गगार-वयणाए चिर-दिट्ठुक्कंठा-पसर-पयत्त-फुरमाण-  
वाहु-लइयाए अयाणंतो सो रिसी अभिधाविऊणं कंठे गहिओ, आलिं गिओ जाव रोचिउं पवत्ता तावागओ तीए भत्तारो  
18 सीहो वाहिराओ । दिट्ठो य तेण आलिं गिजंतो । तं च दट्ठण चित्थियं तेण 'अरे, पर-पुरिसो को वि पासंडिओ मह जाय-  
महिलसइ' ति । चित्तयंतो केरिसो जाओ । अवि य ।

ईसानल-पज्जलिओ दढ-सूढो कोव-रत्त-णयणिल्लो । आयडिऊण खगं अह रिसिणो पहरइ णिसंसो ॥

21 तओ गरुय-पहर-हओ णिव्विओ रिसी धरणिवट्ठे । तं च दट्ठणं णिव्वंतं किं कियं से भइणीए । अवि य ।  
दूसह-गुरु-भाइच्चह-दंसण-संजाय-त्तिच्च-रोसाए । कट्ठेण पइ पवओ जह मुच्छा-वंबलो जाओ ॥  
णिव्वमाणेण तेणावि किं कयं । अवि य ।

24 णिट्ठुर-कट्ठ-पहारा वियणा-संतवा-गरुय-मुच्छेण । खग्गेण तेण पहया जह जाया दोणिण खंडाई ॥  
णिव्विओ तं णिवाएमाणो सो वि जीविय-विमुक्को जाओ । पुणो चंड-सहावयाए महारिसि-वह-पाव-पसर-परायत्तो पढं  
रणपपभं णरयं रउरवे णरयावासे । सागरोवमट्ठिइं णेरइओ उववण्णो । सा वि तस्स [मुणिणो] भइणी गरुय-सिणेह-  
27 मुच्छा-परिणया तक्खणुप्पण-कोव-धिणिवाइय-भत्तार-णिहण-पाव-संतत्ता, तहिं चेव णरय-पत्थडे उववण्णा । सो उण रिसी  
भगवं णिहय-खगा-पहारा वियणायल्ल-सरीरो कहं कहं पि उवरओ, उववण्णो य सागरोवम-ट्ठिइं सोहम्म-विमाण-वरे ।  
तओ चइऊण णिय-आउक्खएण एत्थ भइयच्छे राया जाओ । सो य अहं दिट्ठो तुम्हेहिं पच्चक्खं केवली जाओ ।  
30 सो उण सीहो तम्मि महारउरवे णरए महंतीओ वियणाओ अणुभविऊणं कहं कहं पि आउक्खए उववट्ठिऊण णंदिपुरे  
पुरवरे वंभणो जाओ । तत्थ वि गरुहत्थं पालेऊण एग-डंडी जाओ । तत्थ य आसम-सरिसं संजम-जोयं पालिऊण मरिऊण  
य जोइसियाणं मज्जे देवो उववण्णो । तत्थ य केवली पुच्छिओ णियय-भवंतरं । साहियं च भगवया दुइयं पि जम्मंतरं ।  
33 तओ तं च सोऊण उप्पण्णो इमस्स कोवो । 'अरे, अहं तीए णियय-महिलाए मारिओ । ता कत्थ उण सा दुरायारां

1) P रेणुएणं. 2) P पढायाच्छलेण, J P उच्चेउ. 3) P समू for सम, P om. य. 4) P adds सा after तेण.  
7) P om. विजएण. 8) P om. य after ताव. 9) P राउत्तो. 10) P कामभोगो, J परिणिप्फिण्ण P परिनिष्पन्नो.  
11) P चेवच्छो for चेय विहरिउं पयत्तो. 12) P परागओ for समागओ, J adds तत्थ before भगिणी, P सो पती भगिणीए.  
13) P मासंखमणं, P सिक्खट्ठं, P चरिया विहरमाणा. 14) P -णिणोदरो, P om. दिट्ठो दट्ठण य. 15) P महं माय  
त्ति, J ति for च, J पासण्डिणा, P विचारिऊण for वेया, P om. पच्चाविओ. 16) J वाहुप्पील P वाहुपीलण, J मण्ण P मणु  
(for णयण emended), J चिर, P चिरविट्ठुक्कंठयसरंतपवत्त. 17) P अभिधावऊणं, J पयत्ता । ताव आगओ तीय. 18) P  
om. तं च, J om. मह जायमहिलसइ. 20) P ईसानल. 21) J -यहरंतो णिव्विओ, P धरणिवीढं, P निव्वियं for  
णिव्वंतं. 22) P भाइच्चहं. 23) J य तेण for तेणावि. 24) P पहारा, P खंडाई. 25) J चंड for चंड, J महारिसी, J परयत्तो  
26) P नयरं for णरयं, P रओरवि नरयावासे, J णरयवासे, J सागरोवमट्ठिती णारइओ, P नेरइए उवविओ, J P om. [मुणिणो].  
27) J चेय. 28) J -पहारा, J -टिती P द्विती, J सोइच्चे. 29) J om. चइऊण, P सो हं दिट्ठो तुम्हेहिं, P om. जाओ. 30) P  
महारउरवे, P आउक्खएण. 31) P जाओ । तओ वि गरुहत्थं, P तवसंजमं for संजमजोयं. 32) J om. य  
after मरिऊण, J om. य before केवली, J मित्र for णियय. 33) J तीय, P निय for णियय.

1 संपयं' ति चिंतेमाणेण दिट्ठा सा वि तम्हाओ णरयाओ उच्चट्टिऊण पउमणयरं णाम णयरं । तत्थ पउमस्स रण्णो सिरीकंता । 1  
 णाम महिला तीय उयरे धूयत्ताए उववण्णा । तम्मि य समए जाय-मेत्ता । तं च दट्ठण जाइ-मेत्तं उट्ठाइओ इमस्स रोसो इमाए  
 3 पुव्वं अहं विणिवाइओ' ति । 'ता कत्थ संपयं वचइ' ति चिंतयंतो गुरु-कोवे-फुरफुरायमाणाहरो समागओ वेएणं । 3  
 गहिया य सा तेण बालिया । घेत्तूण य उप्पहओ आगओ दक्खिणं दिसाभोयं । तत्थ विंझ-सिहर-कुहरंतराले चिंतियं-  
 पयत्तो । किं ताव । अवि य ।

6 'किं पक्खिवेमि समुद्धे किं वा सुण्णेमि गिरि-णियं वम्मि । किं खहरं पिव णेमो मलेमि किं वा करयलेहिं ॥ 6  
 अहवा णहि णहि दुट्ठु मए चिंतियं । ण जुज्झइ मह इमं ति । जेण इत्थिय ति इत्थिय-वज्झा, वाल ति बाल-वज्झा, अयाणियं  
 ति भूण-वज्झा, असरण ति एकिय ति सव्वहा इमम्मि चेव कंतारम्मि उज्झामि । सयं चेव एत्थ माणुस-रहिण्ण असेसोवाय-  
 9 विरहिया मरिहिइ, महा-पक्खीहिं वा विलुप्पिहिइ, सावएहिं व खज्जिहिइ' ति चिंतयंतेण उज्झिया गयणयले कमेण य 9  
 णिवडिया । अवि य ।

किं विज्जाहर-वाला अह णिवडइ चंदिमा मियंकस्स । विज्जु व्व घणवभट्टा तारा इव णिवडिया सहसा ॥

12 णिवडमाणी य आसासिया पवणेण । णिवडिया य तम्मि पएसे महंताए जालीए अणेय-गुविल-गुम्म-कोमल-किसलयाए । 12  
 ण य तीए विवत्ती जाया । तओ णिवडिया लोलमाणी जालिय-मज्जुद्धेसे ।

§ २१३ ) एत्थंतरे य तहा-विह-धम्म-कम्म-भविण्यवयाए एयम्मि चय पएसे समागया गवभ-भर-वियणा-विचभलंगी

15 वण-मय-सिलिंबी । सा य तं पएसं पाविऊण पसूया । पसव-वियणा-मुच्छा-विरमे य तीए णिरुवियं, दिट्ठं च तं मय- 15  
 सिलिंबियं बालिया य । चिंतियं च तीए इमं मह जुवलं जायं ति । सुद्ध-सहावत्तणेण ण लक्खियं । दिण्णं थणं एक्कं  
 बालियाए दुइयं मयलीयस्स । तओ एएण पओएण सा जीवमाणी जीविया । सा य मई तम्मि चय पएसे दियहे राईए

18 अच्छिउं पयत्ता । जाव ईसि परिसक्खिउं पयत्ता, तओ मिलिया मय-जूहस्स, किर मईए एसा जाय ति ण उवियंति सारंगया । 18  
 ण य तीय तत्थ कोइ माणुसो दिट्ठो । तओ तत्थेय मय-दुद्ध-पुट्टा वड्डिउं पयत्ता । तओ भो भो विज्जाहरा, तत्थ सा-  
 अरण्णम्मि भममाणी जोव्वणं पत्ता । तत्थ य अच्छमाणीए कुडंगाइं घराइं, णिद्धे पक्खिणो, बंधवे वाणर-लीवे, मित्तं

21 तरुयरा, असणं वण-फलाइं, सलिलं णिज्झरं-पाणियं, सयणं सिलायलाइं, विणोओ मयउल-पट्टि-सिहरोल्लिहणं ति । अवि य, 21  
 गेहं जाण तरु-तलं फलाइं असणं सिलायलं सयणं । मित्तं च मय-कुलाइं अहो कयत्था अरण्णम्मि ॥

तओ सा मय-जूह-संगया माणुसे पेच्छिऊण मय-सिलिंबी इव उव्वुण्ण-लोयणा पलायइ । तेण भो, जं तुव्वेहिं पुच्छियं  
 24 जहा का उण एसा वणम्मि परिवभमइ, ता जा सा मह भइणी पुव्व-भवे आसि सा णरयाओ उच्चट्टिऊण एत्थ उववण्णा । 24  
 ण य कयाइ माणुसो तीए दिट्ठो, तेण दट्ठण तुव्वे सा पलाण ति । एत्थंतरम्मि भणियं विज्जाहरेहिं णरवइणा य

'अहो महावुत्तंतं, अहो कट्ठं अण्णाणं, अहो विसमं मिच्छत्तं, अहो भय-जणओ पमाओ, अहो दुरंता ईसा, अहो कुडिया  
 27 कम्म-गई, अहो ण सुंदरो सिणेहो, अहो विसमा कज्ज-गई । सव्वहा अइकुडिलं देव-विलसियं । अवि य । 27

अकयं पि कयं तं चिय कयं पि ण कयं अदिण्णमवि दिण्णं । महिलायणस्स चरियं देव्व तए सिक्खियं कइथा ॥

भणियं च तेहिं 'भगवं, किं सा भव्वा, किं वा अभव्व' ति । भगवया भणियं 'भव्वा' । तेहिं भणियं 'कहं वा सम्मत्तं  
 30 पावेहिइ' । भगवया भणियं 'इमम्मि चय जम्मम्मि सम्मत्तं पावेहिइ' । तेहिं भणियं 'को से धम्मायरिओ होहिइ' । 30  
 भगवया भणियं मं उट्टिसिऊण 'जे एस राय-कीरो एसो इमीए धम्मायरिओ' ति । तेहिं भणियं 'कहं एसो तं वणं

पावेहिइ' । भगवया भणियं 'इमा चय राय-धूया पेसिहिइ' । इमं च वयणं णिसामिऊण पियामहस्स राय-धूयाए  
 33 कोमल-करयलंगुली-संवलंत-णह-मज्जाए भणियं । 'भगवं, समाइससु जइ किंचि कज्जं इमेणं कीरेणं, किं पेसेमि ।' 33

1 > P पउमनयरे, P om. णाम णयरं । तत्थ, P सिरीकंताए. 2 > P महादेवीए for णाम महिला तीय उयरे, J om. य after तम्मि, P om. च. 3 > P पुव्वमहं. 4 > J उत्तरं for दक्खिणं. 5 > J om. किं ताव. 6 > J किं पक्खिवेमि P किं वाखिवेमि [°वमि], P वइरं for खहरं, P ता for वा. 7 > P मे for मए, J om. ति. 8 > P एकिय, J चेअ, J चेअ, P आयससोवायरहिया. 9 > J मरीहिहापक्खीहिं, P पक्खिहि P विरुं पिइहिइ, J वा for व, P गयणे कमेण. 11 > P om. अह, P adds किं before चंदिमा, P मयंकस्स, 12 > J om. य before आसासिया, P om. य, P पएसं, J गुहिल. 13 > P से for तीए, J om. लोलमाणी, P जालिमज्जुद्धेसे । एत्थंतरो य. 14 > P om. कम्म, J भविअव्वताए, P विम्वहलंगी. 15 > P पयववियणं, J तीय. 16 > P सिलिंबिवालिया, P जुवलं. 17 > P मयलीवस्स, P मती for मई, J दिअहे दिअहे राईएण अच्छिउं. 18 > P परिवभमिओ सकिया, P om. भो. 24 > J काऊण, P परिभमइ, P उवट्टिऊण, P एत्थोववण्णा. 25 > P om. य, J तीय, P तुव्वे सा पुलाय ति. P om. भो. 27 > P कम्मगती, P अइकुडिलं देवविलसियं. 28 > P देव तद्. 29 > P 26 > P om. महा, P वुत्तंतो, J भयावणओ. 30 > P पावेहिइ, J पाविहिति । तेहिं, P सो for से. 31 > J अभवया for अभव्व ति, P om. भगवया, P तेण for तेहिं. 32 > P पावेहिइ, P भगिओ, P राधूया, J पेसिहिति P पेसिइहिइ, P वयणं पियामहस्स संतियं सुण्णिऊण रायं. 33 > P करयंगुली, J मयूहाए, P किंचि कज्जं.



1 भगवया भणियं 'अविग्वं देवाणुपिए, मा पडिवंधं करेसु । कायव्वमिणं भवयाणं, किच्चमेयं भवियाणं, जुत्तमिणं भव्याणं, 1  
जं क्रोह कथइ भव्व-सत्तो अरहंताणं भगवंताणं सिव-सासय-सोक्ख-सुह-कारए मग्गम्मि पडिवोहिज्जइ' ति । इमम्मि य  
3 भणिए 'जहाणवेसि' ति भणमाणीए अइप्पिओ तह वि भत्तीए 'अलंघणीय-वयणो भगवं' ति सिडिलियाइं पंजरस्स 3  
सलाया-बंधाइं । भणियं च तीए । अवि य ।

वर-पोमराय-वयणा पूस-महारयण-णील-पक्ख-जुया । अट्ठमिओ सि वर-सुय कइया वि हु दंसणं देजा ॥

6 अहं पि णीहरिओ पंजराओ । टिओ भगवओ केवल्लिणो पुरओ । भणियं च मए । 6

जय ससुरासुर-किंणर-मुणि-गण-गंधव्व-गमिय-पाय-जुया । जय सयल-विमल-केवल्ल-जाणिय-तेल्लोक्क-सव्भाव ॥

ति भणमाणेण पयाहिणीकओ भगवं पणमिओ य । आउच्छिओ य णरवइ । दिट्ठा य रायधूया । वंदिऊण य सव्वे उप्पइओ 9  
9 धोय-असि-सच्छइं गयणयलं, समागओ इमं वणंतरालं । एत्थ मग्गंतेण दिट्ठा मए एसा, भणिया य 'हला हला वालिए' । 9  
इमाए य इमं सोऊण ससंकिओव्वेव-भीय-ल्लोयणाए पुलइयाइं दिसि-विभायाइं जाव दिट्ठो अहं । तओ एस वण-कीरो  
ति काऊण ण पलाइया । तओ अहं आसण्णो टिओ । पुणो भणियं 'हला हला वालिए' ति । इमाए य किं किं पि अक्खत्तं 12

12 भणियं । तओ मए गहियं एकं चंचूए सहयार-फलं । भणियं च मए 'गेण्ह एयं सहयार-फलं' । गहियं च तीए । 12

पुणो मए-भणियं 'मुंच इमं सहयार-फलं' । तओ खाइउं पयत्ता । पुणो मए भणिया 'मा खायसु इमं सहयार-फलं' । पुणो  
भणइ 'किं किं पि अक्खत्तक्खरं तुमं भणसि' । मए भणियं एयं सहयार-फलं भणइ । तं पुण वाला महिला भणसि । अहं 15

15 राय-कीरो भण्णामि । एसो रुक्खो भण्णइ । एयं वणं भण्णइ । इमं गहियं भण्णइ । इमं मुक्कं भण्णइ । एए वाणर-लीव 15  
ति । एवं च मए वालो विव सव्व-सण्णाओ गाहिया । एवं च इमिणा पओगेण अक्खर-लित्रीओ गाहिया । तओ

धम्मत्थ-काम-सत्थाइं अहीयाइं । सव्वहा जाणियं हियाहियं । अवगयं भक्खाभक्खं । सिट्ठं कज्जाकज्जं ति । अण्णं च । 18

18 णज्जंति जेण भावा दूरे सुहुमा य ववहिया जे य । ते मि मए सिक्खविया णिउणं वयणं जिणवरणं ॥ 18

साहिओ य एस सयलो वुत्ततो जहा तुमं पडमराइणो धूया, वेरिएण एत्थ आणीय' ति । भणिया य मए एसा जहा  
'एहि, वच्चाओ वसिमं, तत्थ भोए वा भुंजसु परलोयं वा करेसु' । इमीए भणियं 'वर-सुव, किमेत्थ भणियव्वं, 21

21 सव्वहा ण पडिहायइ महं वसिमं' ति । किं कारणं । जेण दुल्लक्खा लोयायारा, दुरुत्तरा विसया, चवला इंदिय-तुरंगा, 21  
णिंदिओ विसय-संगो, कुवासणा-वासिओ जीवो, दुस्सीलो लोओ, दारुणो कुस्सील-पसंगो, बहुए मूला, विरला सज्जणा,  
पर-त्तत्ति-तग्गओ जणो, सव्वहा ण सुंदरो जण-संगो ति । अवि य ।

24 पर-त्तत्ति-तग्गय-मणो दुस्सीलो अलिय-जंपओ चवलो । जत्थ ण दीसइ लोओ वणं पि तं चेय रमणिज्जं ॥' 24

भणिऊण इहेव रण्णुदेसे परिसडिय-फासुय-कुसुम-फल-कंद-पत्तासणा तव-संजमं कुणमाणी अच्छिउं पयत्ता । तओ जं तए  
पुच्छियं भो रायउत्त, जहा 'कत्थ तुमं एत्थ वणम्मि, किं वा कारणं' ति तं तुह सव्वं साहियं ति ।

27 § २१४ ) एत्थंतरम्मि ईसि-पणय-सिरो पसारिय-करयलो उट्ठाविओ रायतणओ । भणियं च णेण 'साहम्मियं 27  
वंदामि' ति । रायकीरेणावि भणियं 'वंदामि साहम्मियं' ति । तओ तीए भणियं 'भणियाए लक्खिओ चेय अम्हेहिं  
जहा तुमं सम्मत्त-सावओ ति । किं कारणं । जेण केवल्लि-जिणधम्म-साहु-संजम-सम्मत्त-णाणाइं किरिया-कलावेसु णामेण वि 30

30 वेप्पमाणेसु सरय-समय-राइं-सयल-ससंक-लंछण-दोसिणा-पूर-पसर-पवाह-पव्वलणा-वियसियं पिव चंडुज्जयं तुह सुहयंदं ति । 30

एत्थंतरम्मि सूरु पसडिल-कर-वलय-दिट्ठ-वालि-पलिओ । अह जोव्वण-नालिओ इव परिणामिउं णवर आढत्तो ॥

इमम्मि य वेले वट्टमाणे भणियं एणियाए 'रायउत्त, अइक्कंतो मज्झण्ह-समओ, ता उट्ठेसु, ण्हाइउं वच्चाओ' ति

~~~~~

1 > P देवाणुपिए, J भवयाणं 'P भवियाणं, after कायव्वमिणं भवियाणं किच्च P adds a long passage

कालंतरेण परिनिप्यन्नो etc to परपुरिसो को वि पासं from the earlier context p. 125, ll. 10-18. 2 > P

को वि कत्थ वि भव्व. 3 > J जहाणवेहि (?) ति, P om. तह, P om. भत्तीए, J भत्तीए भगवं अलंघणीओ ति सिडिलिं,

J पंजरसणाया. 4 > J om. अवि य. 5 > J महारायणील, J य वि for वि हु, 6 > J अह वि णीहरिओ, P टिओ. 7 >

P समाव. 8 > P काओ for कओ, P om. य after आउच्छिओ, दिट्ठा and वंदिऊण. 9 > J उप्पइओ य ओआसिसच्छमं.

10 > P om. य before इमं, P ससंकिओव्विग्गलोयणाए, P दिसिवहाइं. 11 > P adds आसन्नो टिओ before हला,

वालिय, P om. य before किं. 12 > J चूअ for चंचूए, P om. भणियं च मए गेण्ह एयं सहयारफलं, J adds य before मए.

14 > P भणिया for भणइ, P अक्खत्तक्खरं, P adds किं before तुमं, P एमं for एयं. 16 > J om. च, J पओएण, P लिविओ.

17 > J अहिआइं, P सिज्जं for सिट्ठं. 18 > P सुहुमा य वायरा जे य । तं पि मए सिक्खकामसत्थाइं अहीयाइं सव्वहा जाणियं

हियाहियं वियानिउणं वयणं जिणवरणं । साहिओ. 19 > P om. य, P ए for एस, P दुत्ततो for वुत्ततो, J जह, P तुहं for

तुमं, J वत्थु for एत्थ, P आणिय. 20 > J इमीव, P वरसुय. 21 > P पडिहाइ मह, P लोयायारो, J दुत्तरा, P चंचला for

चवला, P तुरंगना. 22 > J adds संगो before जीवो, J दुस्सीलो. 24 > P वरं for वणं, P चव. 25 > P इहेवारवदेसे,

P repeats फासुय, J पयत्त ति. 26 > J repeats भो, J adds कारणं जेण after किं वा, P साहिय. 27 > P उट्ठाविओ, P

साहम्मिय. 28 > J तीव, P भणियाए for भणियाए. 29 > J om. जेण, J केवल्ल, P सम्मत्त. 30 > P सयलससिंछणतोसिणा,

P om. पवाह, P पवालगा, P तुहयंदं ति. 31 > P वल्लियल्लिओ.

- १ ममुद्रिनो य रायतणओ । उचगया य तस्सासम-पणुसस्स दक्खिणं दिसा-भायं । थोयंतरेण दिट्ठं एकम्मि ऊसिय-सिय-विंझ-  
गिरि-विहर-कुसुम-तराणम्मि विमल-जलुकलिया-लहरि-सीयल-जलोज्जरं । तथ य तीर-तरुयस्स हेट्ठओ संठिओ । संठियाणि  
२ गियाई वक्खाई । कुसुम-पुड्याई गहियाई । फलिहामलिणीय पडियाई सुकामलाई रुक्खाई सिलायलम्मि । उहियाई  
३ ढसिमंगारं । मज्जिया जहिच्छं । परिहियाई कोमल-धोय-धवल-वकल-दुज्जलाई । गहियं च पडमिणी-पुडए जलं । तं च  
पेत्तण चलिया उत्तरं दिसाभोयं । तथ य एकम्मि गिरि-कंदराभोए दिट्ठा भगवओ पढम-तित्य-पवत्तगस्स उसह-सामिस्स  
६ फलिह-रयणमहं महापडिमा । तं च दट्ठण जिञ्जर-भत्ति-भरावणउत्तमंगेण 'णमो भगवओ पढम-तित्ययरस्स' त्ति भणमाणेण  
कसो कुमारेण पणामो । तओ ण्हाणिओ भगवं विमल-सलिलेण, आरोवियाई जल-थलय-कुसुमाई । तओ कय-पूया  
महाविहिणा थोऊण पयत्ता । भवि य ।
- ७ जय पढम-पया-पणिय जग सयल-कला-कलाव-सत्थाह । जय पढम-धम्म-देसिय जय सासय-सोक्ख-संपण्ण ॥  
त्ति भणमाणेण णामिए चलणे । तओ एणियाए वि भणियं ।
- १० 'संठण-नेट्ठिय-यच्छयाए पीण-समुण्णय-भुय-जुयलाए । मत्त-महागय-गह-सरिसाए तुज्झ णमामि पए जिणयंद ॥'  
१२ ति भण्णोए पणामिओ भगवं । यंदिओ य रायतणओ । सुएण वि भणियं ।
- १३ 'तिरिया यि जं सट्ठणवो तुह चयणं पाविऊण लोयम्मि । पावंति ते वि सग्गयं तेण तुमं पणामिमो पयत्तेण ॥'  
त्ति इमाए य गीह्याए धुणिकण णिवटिओ चलणेसु कीरो । पुणो वंदिओ कुमारे एणियाए । तओ आगया तं पएसं  
१६ जत्थासमं । तथ य पडियगयाई मय-सिलिंवायाई, संवग्गियाई वाणर-लीवाहं, भोजियाई असेस-सुय-सारिया-सउण-सावय-  
संवाहं । पणामियाई च कुमारस्स सुह-सीयल-साठ-सुरहि-पिक-पीवर-वण-फलाहं । पच्छा जिमियं एणियाए कीरेण य ।
- १७ § २१५ ) तओ जायत्त-सुई-सव्यंदिय-गामाण य विविह-सत्थ-कला-कहा-देसि-भासा-णाण-दंसण-चरित्त-तित्थादिसय-  
१८ घेरगा-कहासुं अट्ठंताणं समागयं एणं पत्त-सवरि-सवर-जुवलयं । तं च केरिसं । भवि य ।
- कोमल-दीहर-चली-धलुद्ध-जडा-कलाव-सोहिलं । णाणा-विह-वण-तरुवर-कुसुम-सयावद्ध-धम्मेलं ॥  
गिरि-कुहर-विद्यट-सामल-धाउ-रसोयलिय-सामल-च्छायं । सिय-पीय-रत्तवत्तय-चच्चिर-चच्चिक-पइरिकं ॥
- २१ मट्ठयोर-धणत्थल-घोलमाण-गुंजावली-पसाहणयं । सिय-सिहि-पिल-विणिम्मिय-चूडालंकार-राइलं ॥  
सयगल-गंडयल-गलंत-दाण-घण-वट्ट-विरह्यालेक्खं । अवरोप्पर-सीविय-पत्त-वकलुक्केर-परिहणयं ॥ ति । भवि य ।  
कोलउल-कालयकं दाहिण-हत्थम्मि दीहरं कंडं । वामे कयंत-भुय-दंड-सच्छहं धणुयरं धरियं ॥
- २४ तस्स य सवर-जुवाणस्स पासम्मि केरिसा वर-जुवाणिया । भवि य ।
- यहु-मुत्ताहल-रुद्रा चंदण-गय-दंत-वावडा सुयणू । सिय-चारु-चमर-सोहा सबरी णयरी अयोज्झ व्व ॥  
उचसप्पिऊण य तेहिं कओ पणामो रायउत्तस्स एणियाए कीरस्स य । णिसण्णा य एकम्मि दूर-सिलायलम्मि ॥ पुच्छिया य  
२७ एणियाए सरीर-कुसल-वट्टमाणी । साहिया य तेहिं णणउत्तमंगेहिं, ण उण वायाए । णिंक्खित्तं च तं कालवट्टं धरणीए । २७  
सुहासणत्था जाया । कुमारेण य असंभावणीय-रुव-सोहा-विरुद्ध-सवर-वेस-कोजहलुफुल-लोयण-जुयलेण य णियच्छियं  
पायग्गामो जाव सिहगं ति । चित्तियं च हियएण । भवि य,
- ३० एकस्स द्वेहि विहवं रूवं अण्णस्स ओइणो अण्णे । ह्य देव्व साहसु फुडं कोडिलं कथ ते वडियं ॥  
ता धिरत्थु भावस्स । ण कज्जं लक्खणेहिं । विहडियाई लक्खणाई, अप्पमाणाई सत्थाई, असारीकया गुणा, अकारणं  
वेसायोरो, सब्बहा सब्बं विवरीयं । अण्णहा कथ इमं रूवं लक्खण-वंजण-भूसियं, कथ वा इमं इयर-पुरिस-विरुद्धं

१) J om. य before रायतणओ, P पयसस्स पच्छिमदक्खिणदिसा, J एकं for एकम्मि, P ऊससियं विंझं, J विंझहरि. २) J  
जलुत्तस्कलियासलहलं सीअल; J हेट्ठाओ, P संठिया निम्मियाई. ३) P om. कुसुमपुड्याई, J फालिआमलिणीयलपडियाई.  
४) J परिहिया कोमल, J om. पडमिणी. ५) J वलिया for चलिया, P om. पढम, J पवत्तयस्स उसमं. ६) J फडिअ for  
फलिह, P om. रयण, J भत्तिभरावणयुत्तमंगेण, P वणयुत्तमंगेण. ७) J inter. पणामो and कुमारेण, P थलकुसुमाई. ८)  
J विहाणाई for महाविहिणा, P धुणिकण for थोऊण. ९) J जय for सयल, P om. कला, P सत्थाहं!, P देसय. १०)  
P om. तओ, J एणियाय P पडियाए. ११) P लच्छिय, P भुयलाए, J जिणयंदाए त्ति. १२) P सुएण. १३) P सवणया,  
P पयत्तएणं. १४) J om. ति, P इमाए, J एणियाय P पणियाई, P आगयाइ तं. १५) J पडियगियाई, J सेस for असेस.  
१६) P सीयलाओ साओ, J वणहलाई P वणफलाई. १७) P देसिहासा, P तित्थाइसयक्खग १८) P पत्तं, J om. सत्तरि.  
१९) J दीहरपलीवडुद्ध P वलीवडुद्ध, P तरुवर, J समावद्ध. २०) P पीव for पीय, J रत्तवण्णर, P चच्चिय, J सच्चिक for चच्चिक.  
२१) P राहिलं. २२) J om. घण, J वट्ट for वट्ट. २३) P वाम. २४) P वरजुवाणिय. २५) P सुयणु, J अयोज्झ.  
२६) P य तंहिं, P om. य. २७) J पणयुत्तमंगेहिं, J om. तं. २८) J लोअणुजुअलेण. २९) P सिरगं. ३०) P देह,  
P रुयं, J देव, P कोहेलं, J ए for ते, J पडिमं P पडियं. ३१) P रूवस्स for भावस्स, J कलुणेहिं for लक्खणेहिं, J उय्यमाणाई.  
३२) J रूवंजणभूसियं.

- 1 पत्तं सवरत्तणं ति चित्तयंतेण भणियं 'एणिए, के उण इमे'त्ति । एणियाए भणियं 'कुमार, एए पत्त-सवरया, एत्थ वणे 1  
णिवसंति, अणुदिणं च पेच्छामि इमे एत्थ पएसे' । तओ कुमारेण भणियं 'एणिए, ण होंति इमे पत्त-सवरय' त्ति । तीए  
3 भणियं 'कुमार, कहं भणसि' । 'भणामि समुद्द-सत्थ-लक्खणेणं' ति । तीए भणियं 'किं सामुद्दं कुमारेस्स परिणयं' । तेण 3  
भणियं 'किञ्चि जाणामि' । तीए भणियं 'अच्छंतु ताव इमे पत्त-सवरया, भणसु ता उवरोहेणं पुरिस-लक्खणं' ति । कुमारेण  
भणियं 'किं वित्थरओ कहेमि, किं संखेवओ' त्ति । तीए भणियं 'केत्तिर्यं वित्थरओ संखेवओ वा' । कुमारेण भणियं  
6 'वित्थरओ लक्खप्पमाणं, संखेवओ परिहायमाणं जाव सहस्सं सयं सिलोमं वा' । तीए भणियं 'संखेवओ साहसु' । 6  
तेण भणियं ।

'गतेधेन्न्यतरो वर्णाः वर्णाद्धन्यतरः स्वरः । स्वराद्धन्यतरं सत्त्वं सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥

9 एए संखेवो' त्ति । 9

§ २१६ ) भणियं च तीए ईसि विहसिऊण 'कुमार, एए अइसंखेवो, सक्कयं च एयं, ता मणयं वित्थरेण भणसु  
पायएणं' ति । तेण भणियं 'जइ एवं ता णिसुणसु । अवि य ।

- 12 पुव्व-कय-कम्म-रइयं सुहं च दुक्खं च जायए देहे । तत्थ वि य लक्खणाहं तेणेमाइं णिसामेह ॥ 12  
अंगाइं उवंगाइं अंगोवंगाइं तिण्णि देहम्मि । ताणं सुहमसुहं वा लक्खणमिणमो णिसामेहि ॥  
लक्खिज्जइ जेण सुहं दुक्खं च णराण दिट्ठि-मेत्ताणं । तं लक्खणं ति भणियं सव्वेसु वि होइ जीवेसु ॥  
15 रत्तं सिणिद्ध-मउयं पाय-तलं जस्स होइ पुरिसस्स । ण य सेयणं ण थंके सो राया होइ पुहईए ॥ 15  
ससि-सूर-वज्ज-चक्कुकुसे य संखं च होज्ज छत्तं वा । अह बुद्ध-सिणिद्धाओ रेहाओ होंति णरवइणो ॥  
भिण्णा संपुण्णा वा संखाइं देंति पच्छिमा भोगा । अह खर-वराह-जंबुय-लक्खंका दुक्खिया होंति ॥  
18 वट्टे पायंगुट्टे अणुकूला होइ भारिया तस्स । अंगुलि-पमाण-मेत्ते अंगुट्टे भारिया दुइया ॥ 18  
जइ मज्झिमाए सारिसो कुल-बुद्धी अह अणामिया-सारिसो । सो होइ जमल-जणओ पिउणो मरणं कणिट्ठीए ॥  
पिहुलंगुट्टे पहिओ विणयग्गेणं च पावए विरहं । भग्गेण णिच्च-दुहिओ जह भणियं लक्खणण्णहिं ॥  
21 दीहा पएसिणी जस्स होइ महिलाहि लंघिओ पुरिसो । स च्चिय मडहा कलहणियस्स पिय-पुत्त-विरहं वा ॥ 21  
अह मज्झिमा य दीहा धण-महिलाणं विणासणं कुणइ । तइया दीहा विज्जाहिवाण मडहा पुणो कण्णा ॥  
जइ दीहा तुंगा वि य पएसिणी पेच्छसे कणिट्ठा वा । तो जणणी जणयं वा मारेइ ण एत्थ संदेहो ॥  
24 उतुंग-णहा धण्णा पिहुलोहिं णरा सुहाइं पावेंति । सक्खेहिं दुक्खिया वि य आयरिस-समेहिं रायाणो ॥ 24  
तंवेहिं दिव्व-भोगी सुहिओ पउमेहिं णरवई-पुत्तो । समणो सिएहिं पाएहिं फुल्लिएहिं च दुस्सीलो ॥  
मज्जे संखित्त-पायाणं इत्थि-कज्जो महं भवे । णिम्मसा उक्कडा जे य पाया ते धण-वज्जिया ॥  
27 जे दीह-थूर-जंघा वराह-जंघा य काय-जंघा य । ते दीह-दुक्ख-भागी अद्धाणं णिच्च पडिवण्णा ॥ 27  
जे हंस-आस-वारण-चक्काय-सोर-मयवइ-वसह-समा । ते होंति भोग-भागी गईहिं सेसाहिं दुक्खत्ता ॥  
जाणू जस्स भवे गूढो गुप्फो वा सुसमाहिओ । सुहिओ सो भवे णिच्च घड-जाणू ण सुंदरो ॥  
30 जइ दक्खिणेण चलिंयं लिंणं तो होइ पुत्तओ पढमं । अह वामं तो धूया भोगा पुण उज्जए होंति ॥ 30  
दाहिण-पलंब-वसणे पुत्तो धूया य होइ वामम्मि । होंति समेसु य भोगा दीहर-वट्टेसु तह पुत्तो ॥  
जइ होंति तिण्णि वसणा सुहुमा वा वट्टिया तओ राया । उक्खुहुए थोवाऊ होइ पलंबम्मि दीहाऊ ॥  
33 ऱ्हस्सो पउम-सवण्णो भणि-मज्झो उण्णओ सुही लिंणो । वंक-विवण्ण-सुदीहे णिण्णयले होइ दोहरगं । 33

1 > [पत्तसवरत्तणं], P एते for एए. 2 > J पत्तसवरे त्ति P पत्तसवरय त्ति, J तीअ for तीए. 3 > P adds सा before समुद्द, P om. सत्थ, P लक्खणेहि त्ति, J तीअ, J परिइअं for परिणयं. 4 > J तीअ, P ता for ताव, J लक्खणं च त्ति. 5 > J वित्थरतो, J संखेवतो, J तीअ भणियं, J वित्थरं for वित्थरओ. 6 > P जाय for जाव, J तीअ. 8 > P गतेधेन्न्यं. JP वर्णाः [वर्णाः], JP वर्णाद्धन्यतरः JP सत्त्वं, P सत्त्वे प्रतिष्ठितमिति. 9 > J संखेवओ. 10 > P adds सि before ईसि, J inter. एअं & च, J adds एअं before ता. 12 > J अहुइं च for दुक्खं च, J एणि इमाइं for तेणेमाइं, J णिसामेहि. 13 > J उवंगाइ य अंगो. 15 > P रत्तसिणिद्धं, P होंति for होइ. 16 > P होइ for होज्ज, P बुद्धि. 17 > P संखाइं, P अहि for अह. 18 > P अंगुलिपमाण. 19 > J अहमणामिया सारिसा । ता होइ जमलजणओ. 20 > P पिहुलंगुट्टो. 21 > P दीहाए for दीहा, P महिलाइं लंघिउं, P विरहो व्व. 22 > J om. य. 24 > J आयरिय- P आयंस. 25 > P दीह for दिव्व, J भागी for भोगी, J पाएहि for पउमेहिं, J रत्ता for पुत्तो, P सिएहिं पीएहिं वन्हहा दुस्सीलो फुल्लि, J om. च, P om. दुस्सीलो. 26 > J मज्जे, P कज्जे वट्टे. 27 > J थूर for थूर. 28 > P हंसचायवचकामोरायमयवइसमाहिं, J मयवसह, P गवीहिं. 29 > P हु before सो. 30 > P लिंणं विणयं for चलिंयं लिंणं, J भोगा उण. 31 > P विसणो for वसणे, P होंति for होइ, J अएएनु (corrected as तह पुत्तो) P पूएनु. 32 > P विसणा for वसणा, P भा for वा, P वट्टिया, J उक्कए. 33 > P उक्खओ for उण्णओ, P मज्जे, J सुदीहो.

- 1 जो कुणइ सुत्त-छद्दी बहु-भीयं मोत्तियप्पभं होइ । णीलुप्पल-दहि-मंडे हरियालाभे य रायाणो ॥ 1
- मंसोवहया पिहुला होइ कडी पुत्त-धण्ण-लाभाए । संकड-न्हस्साए पुणो होइ दरिदो विएसो य ॥
- 3 वसह-मज्जरो लिहो वग्घो मच्छो य जइ समा उयरे । तो भोगी वट्ठम्मि य सूरु मंडुक-कुच्छी य ॥ 3
- गंभीर-दक्खिणावत्ता णामी भोगाण साहिया होइ । तुंगा वामावत्ता कुलक्खयं कुणइ सा णाही ॥
- पिहुलं तुंगं तह उण्णयं च सुस्सिणिद्ध-रोम-मउयं च । वच्छयलं सुहियाणं विवरीयं होइ दुहियाणं ॥
- 6 सीह-सम-पट्ठि-भाया गय-दीहर-पट्ठिणो य ते भोगी । कुम्म-सम-पुट्ठि-भाया बहु-पुत्ता अत्य-संपण्णा ॥ 6
- उवद्ध-वाहुणो वद्धा दासा उण हंति मडह-बाहुणो पुरिसा । दीहर-बाहु राया पलंब-बाहु भवे रोगी ॥
- मेस-विस-दीह-खंधो णिम्मंसो भार-वाहओ पुरिसो । सीह-सम-मडह-मंसल-वग्घ-क्खंधे घणं होइ ॥
- 9 दीह-किस-कंठ-भाया पेसा ते कंबु-कंठया धणिणो । दीहर-णीमंस-णिहो बहु-पुत्तो दुक्खिओ पुरिसो ॥ 9
- पीणोटो सुभगो सो मडहोटो दुक्खिओ चिरं पुरिसो । भोगी लंबोटो वि य विसमोटो होइ भीसणओ ॥
- सुद्धा समा य सिहरी घण-णिद्धा राइणो भवे दंता । विवरीया पेस्साणं जइ भणियं लक्खणण्णूहिं ॥
- 12 वत्तीसं राईणं एकत्तीसं च होइ भोगीणं । मज्झ-सुहाण य तीसं एत्तो उणा अउण्णाणं ॥ 12
- अइ-बहु-थोवा सामा मूसय-दंता य ते णरा पावा । वीभच्छ-करालेहि य विसमेहि हंति पावयरा ॥
- काला जीहां दुहिणो चित्तलिया होइ पाव-णिरयाणं । सुद्धमा पउम-दलाभा पंडिय-पुरिसाण णायव्वा ॥
- 15 गय-सीह-पउम-पीया ताल्हा य हवंति सूर-पुरिसाण । कालो णासेइ कुलं णीलो उण दुक्खओ होइ । 15
- जे कोंच-हंस-सारस-पूसय-सदाणुलाइणो सुहिआ । खर-काय-भिण्ण-भायल-रुक्ख-सरा हंति घण-हीणा ॥
- सुहओ विसुद्ध-णासो अगम्म-णामी भवे उ छिण्णम्मि । [ ..... ] ॥
- 18 दीहाए होइ सुही चोरो तह कुंचियाए णासाए । चिविडाए होइ पिसुणो सुयणो दीहाए रायाणो ॥ 18
- सुई-समाण-णासो पावो तह चैव वंक-णासो य । उत्तुंग-थोर-णासा हल-नोउल-जीविणो हंति ॥
- मयवइ-वग्घ-सरिच्छा णीलुप्पल-पत्त-सरिसया दिट्ठी । सो होइ राय-लच्छी जइ-भणियं लक्खणण्णूहिं ॥
- 21 महु-पिंगलेसु अत्थो मज्जार-समेहिं पावओ पुरिसो । मंडल-णिब्भा चोरो रोदा उण केयरा हंति ॥ 21
- गय-णयणो सेणवई इंदीवर-सरिसएहिं पंडियया । गंभीरे चिर-जीवी अप्पाऊ उत्यलेहिं भवे ॥
- अइकसण-तारयाणं अच्छीण भणति कइ वि उप्पाडं । थूलच्छो होइ मंती सामच्छो दुब्भगो होइ ॥
- 24 दीणच्छो धण-रहिओ विउलच्छो होइ भोग-संपण्णो । णिसो खंडप्पच्छो अइरत्तो पिंगलो चोरो ॥ 24
- कोंगच्छो वह-भागी रुक्खच्छो दुक्खिओ णरो होइ । अइविसम-कुक्कुडच्छो होइ दुराराहओ पुरिसो ॥
- कोसिय-णयणालोए पुज्जो महुपिंगलेसु सुहयं ति । [ ..... ] ॥
- 27 काणाओ वरं अंधो वरं काणो ण-केयरो । वरंभो वि काणो वि केयरो वि ण कायरो ॥ 27
- एएहिं समं सुंदरि पीई मा कुणसु तेहिं कलहं वा । पुरिसाहमाण पढमा एए दूरेण वज्जेसु ॥
- सुत्त-विउद्ध व्व जहा अबद्ध-लक्खा अकारणे भमइ । रुक्खा गिलाण-रूवा दिट्ठी पावाण णायव्वा ॥
- 30 उज्जयमवलोएंतो तिरियं पुण कोवणो भवे पुरिसो । उद्धं च पुण-भागी अहो य दोसालओ होइ ॥ 30
- हीण-भुमयाहिं पुरिसा महिला-कजे य बंधया हंति । दीहाहिं य पिहुलाहिं य सुहया ते माणिणो पुरिसा ॥
- मडहेहिं य थूलेहिं य महप्पमाणेहिं हंति धण-भागी । मूसय-कण्णा मेहाविणो य तह रोमखेहिं चिरजीवी ॥
- 33 विउलम्मि भालवट्टे भोगी चंदेण सरिसए राया । अप्पाऊ संखित्ते हुंडे पुण दुक्खिया हंति ॥ 33

1) J मोत्तियं पभं P मोत्तियप्पभो. 2) J मंसोवच्चिया. 3) J मंडुक, P कुक्खी य. 5) J adds य befor रोम, J वच्छयलं, J विरायइ for सुहियाणं. 6) P पट्ठि for पुट्ठि. 7) J भोगी for रोगी. 8) J adds होइ after णिम्मंसो, P सामल for मंसल, J क्खंधे P खंधे, P हंति for होइ. 9) J हाया for भाया, P धणिणा, J णिहू P विवृ, J दक्खिओ for दुक्खिओ. 10) J वीभणओ for भीसणओ. 11) J विवरीता, P सेसाणं for पेस्साणं. 12) J हंति for होइ. 13) J थोवा, J मूसादंता, P वीभत्त, J विसमेहि य हंति. 14) P जीवा सुहिणो, P पाव for पाण. 15) J पीता, P तालुया हवंति, P दुक्खिओ. 16) J जो for जे, P सारसमूसय, J सदाणुणाइणो, P सुहिओ, P भायणरुक्खयरा. 17) P अनंमणामी, J तु for उ. 18) J om. होइ, J कुंचिताए, P चिविडीए. 19) P सुई for सुही, J चैअ, J वकणासो, P थोरनासो. 20) J सरिसआय जा दिट्ठी. 21) P पिंगलेसु, P मंडलजुण्हा चोरो, P रोदो, P केयरो होइ ॥ 22) P सेणावई, J गंभीरेहिं चिरं. 23) J अइकसिण, P मई for मंती, J सावच्छो, P दुहवो. 24) P संपुण्णो, J अतिरत्तो. 25) P कागच्छो for कोंगच्छो. 26) P नयणोलाए, J पुज्जामह, P सुहियं. 27) P वरंभो काणो य वरं न. 28) J एतेहिं, J पीठि. 29) J सुत्ता विउद्ध P सुत्तुविउद्धो व्व. 30) P उज्जयमवल्लयंतो, J adds उच्चु before तिरियं, J om. पुण, J om. भवे, P उद्धं, J मई अयो य, P त for य. 31) J कजेहिं बंधया, P य कइया, P पुरिसो ॥ 33) J भालवट्टो, P सरिसओ.

- 1 दीह-वयणा य णीया पिहुले उण होंति के वि कंतारा । चक्कागारे णीया वयणे पुण लक्खणण्णहिं ॥ 1  
वाम-दिसाए वामा आवत्तो जस्स मत्थए दिट्ठो । कुल-धण-धणिया-रहिओ हिंडउ वीसत्थओ भिक्खं ॥
- 3 दाहिण-दिसाए सच्चो आवत्तो होइ कह वि पुरिसस्स । तस्स धण-धण-सोक्खा लच्छीए भायणं होइ ॥ 3  
वामावत्तो जइ दाहिणम्मि अह दाहिणो च्च वामम्मि । तो होइ सोक्ख-भागी पच्छा पुरिसो ण संदेहो ॥  
जइ होंति दोण्णि सच्चा आवत्ता तो भये पुहइ-भत्ता । सच्चावत्तो सुहओ वामो उण दूहवो होइ ॥
- 6 मउया णिद्धा सुहया अणलाभा कलह-कारया होंति । केसा रुक्खा मलिणा छुडिया दारिद्वंताणं ॥ 6  
उर-सुह-भाला पिहुला गंभीरा सह-सत्त-गाभीया । णह-दंत-तया-केसा सुहुमा पुहईचई होंति ॥  
जइ णास-वच्छ-कंटो पिट्ट-सुहं च अइउण्णयं होइ । अह पाणि-पाय-ल्लोयण-जिक्खा रत्ता सुही राया ॥
- 9 कंटं पिट्ठी लिंगं जंवे य हवंति च्चस्सया एए । पिहुला हत्था पाया दीहाज सुत्थिओ होइ ॥ 9  
चक्खु-सिणेहे सुहओ दंत-सिणेहे य भोयणं मिट्ठं । तय-णेहेण उ सोक्खं णह-णेहे होइ परम-धणं ॥  
केस-णेहेण मछाई भोए मुंजंति सच्चहा । मंसलं णेहवत्तं च सच्चं तं सुह-भायणं ॥
- 12 होइ गईए गौरवं दिट्ठीए णरीसरो सरेण जसो । गोरो सोमो णिद्धो होइ पभू जण-समूहस्स ॥ 12  
होइ सिरी रत्तच्छे अत्थो उण होइ कणय-पिंगम्मि । होइ सुहं मासलए पलंब-वाहुम्मि इस्सरियं ॥  
अण्णाणी ण सुणासो ण वहइ भारं सुसोहिय-क्खंघो । सत्थेण णत्थि सुक्खं ण य मग्गाइ सुस्सरो किंचि ॥
- 15 अइदीहा अइहस्सा अइथूला अइकिसा य जे पुरिसा । अइगोरा अइकसिणा सव्वे ते दुक्खिया होंति ॥ 15  
जे कोसिय-रत्तच्छा कायच्छा होंति दहरच्छा य । अइकायर-कालच्छा सव्वे ते पाव-संजुत्ता ॥  
तय-रोम-णहा दंता केसा ओट्टा तहा य णयणेसु । जइ णत्थि तेसु णेहो भमिया भिक्खा वि णो तस्स ॥
- 18 पावेइ उर-विसालो लच्छिं तह पुत्तए कडी-पिहुलो । पिहुल-सिरो धण-धणं पिहु-पाओ पावए दुक्खं ॥ 18  
जइ होंति भालवट्टे लेहाओ पंच दीह-पिहुलाओ । तो सुत्थिओ धणट्टो वरिस-सयं जीवए णिययं ॥  
चत्तारि होंति जस्स य सो णवइ जीवए असी वा वि । अह तिण्णि सट्ठि वरिसा अह दोण्णि य होंति चालीसा ॥
- 21 अह कह वि होइ एक्का रेहा भालम्मि कस्स वि णरस्स । वरिसाई तीस जीवइ भोगी धण-धण-संपण्णो ॥ 21  
होइ असीइ अधम्मो णवइ पुण अंगुलाई मज्झिमओ । अट्ट-सयं जो पुरिसो सो राया णिच्छिओ होइ ॥  
एसो संखेवेणं कहिओ तुह पुरिस-लक्खण-विसेसो । जइ वित्थरेण इच्छसि लक्खेहि वि णत्थि णिप्फत्ती ॥
- 24 § २१७ ) तीए भणियं 'कुमार, सुंदरं इमं, ता किं तए जाणियं इमस्स पुरिसस्स' । तेण भणियं 'एणिए, जहा 24  
इमस्स सुहाइं लक्खणाइं दीसंति, तेण जाणिमो को वि एस महासत्तो पत्त-सयर-वेस-पच्छाइय-णिय-रुवो एत्थ विंझ-  
वणंतराले किं पि कज्जतरं अणुपालयंतो अच्छिउं पयत्तो । भणियं च ।
- 27 ता णेति किं पि कालं भमरा अवि कुडय-वच्छ-कुसुमेसु । कुसुमेति जाव चूया मयरंदुहाम-गीसंदा ॥ 27  
इमिणा ण होइयच्चं पत्त-सवरेणं' ति । इमं च सुणिज्जण सवर-पुरिसेण चितियं । 'अहो, जाणइ पुरिस-लक्खणं । ता  
ण जुत्तं अह इह अच्छिउं, वच्चामो अह्मे जाव ण एस जाणइ जहा एस अमुगो' ति चितियंतो ससुट्ठिओ पत्त-सवरो
- 30 सवरीय ति । तओ तेसु य गएसु भणियं एणियाए 'कुमार, अहो विण्णाणं ते, अहो जाणियं ते, जं एस तए जाणिओ' 30  
ति । तेण भणियं 'जाणिओ सामण्णेणं, ण उण विसेसेण । ता के उण इमे ति फुडं मह साहसु' ति । भणियं च  
एणियाए 'कुमार, एए विजाहरा' । तेण भणियं 'कीस इमो इमिणा रुवेण' । तीए भणियं 'इमाणं विजाहराणं जाणहि
- 33 च्चिय तुमं । भगवओ उसभ-सामिस्स सेवा-णिमित्तं तुट्ठेण धरणिदेणं णमि-विणमीणं विजाओ बहुप्पयाराओ दिण्णाओ ॥ 33

1) P वदणा, P होइंति, P वयणा पुण. 2) P वामो, P om. धण. 3) J inter. कह वि and होइ. 4) P दाहिणो वि वामं ति । ते होइ. 5) P होइ for होंति, J पुह for पुहइ, P दूरहवो. 6) P कारिया, P महिला for मलिणा, P फुडिया for छुडिया. 7) P सुहलाला, J गाभीया । 8) J adds कक्खा before कंटो, J पिट्ठं, J अतिउण्णयं । अहव णिपातल्लोयण, P रत्ता for ल्लोयण. 9) J कंटं पट्ठी, J दीहाउ सुत्थितो. 10) J ण for य, P भोयणं दिट्ठं, J तु for उ. 11) J मछोदी, P मुंजइ for मुंजंति, J मासालं. 12) JP गतीए, J दिट्ठीय, P गौरवं ट्टिए नरं सरो, P गोरो सामो, P पहू. 13) P सुहं सामलए, P ईसरियं. 14) P अन्नाणं सुणयंतो न हवइ तारं, J दुक्खं for दुक्खे. 15) J अदिदीहा अदिहस्सा अदिथूला अतिकिसा, J अतिगोरा अतिकसिणा, J दुक्खिता. 16) P या ।, J अतिकायर. 17) J ओट्टा P उट्टा, J भमिया. 18) J उरविसालो, P कडिपिहुलो, J विहुवातो for पिहुवाओ. 19) J भालवट्टे, P भालवलेहाओ, P ते for तो. 20) J तु for य, P सो नत्थं, J णवति जीवाओ असीति वा, J om. अह दोण्णि य होंति चालीसा. 21) J inter. होइ and कह वि, P एक्को, J जीवति. 22) J होति असीति, J णवति, P निच्छओ. 23) J adds तुह after एसो, P लक्खेण. 24) J तीय, P ति । for ता, P किं तयए, P सुह for जहा इमरस सुहाइं. 25) J णिअय. 26) J चिद्धइ for अच्छिउं पयत्तो. 27) J आउलीय for कुडयवच्छ. 28) P om. इमिणा ण to सवरेणं ति ।, J च सोक्खण सवरेणं चितियं. 29) P अम्हाण इहाच्छिउं, P om. अह्मे, J अमुओ for अमुगो, P अमुट्ठिओ for ससुट्ठिओ. 31) J केण उण, P om. मह. 32) J एत्ते, J इमेण for इमो, J तीय, J इमिणा for इमाणं. 33) P उससनामियस्स, P विजा बहु°.

- १ तां च कण्या सादृश्याया, काओ वि काल-मज्जागएहिं साहिजंति, काओ वि जलणे, अण्णा वंस-कुडंणे, अण्णा णवर-  
चवरेसु, अण्णा मदाडंहेसु, अण्णा गिरिवरेसु, अण्णा कावालिय-वेस-धारीहिं, अण्णा मातंग-वेस-धारीहिं, अण्णा रक्खस-  
रुवेणं, अवरा यागर-वेनेणं, अण्णा पुळिंद-रुवेणं णि । ता कुमार, इमाणं साधरीओ विजाओ । तेण इमे इमिणा वेसेणं ३  
विजा साहिं पयत्ता । ता एव विजाहरो सपत्तीओ । असिहारण वंभ-चरिया-विहाणेण एव वियरइ' ति । भणियं  
च कुमारेण 'कइ पुग तुमं जागारि जइ एव विजाहरो' ति । तीण भणियं 'जाणामि, गिसुयं मए कीरेण साहियं ।  
६ एक्कमि दिव्हे अहं भगवओ उसभ-सामियस उवास-पोसहिया ण गया फल-पत्त-कुसुमाणं वणंतरं । ६  
कीरो उण गओ । वागओ य दिवहस्स बोलीणे मज्झपद-समए । तओ मए पुच्छिओ 'कीस तुमं अज्ज इमाए वेलाए  
जाओ णि' । तेण भणियं 'ओ वंचियासि तुमं जीए ण दिट्ठं तं लोयगाग अच्चेरय-भूयं अदिट्ठउच्चं' ति । तओ एव मए  
७ सकोउहलाए पुच्छिओ 'वयस्स, दे साहयु किं तं अच्छरियं' । तओ इमिणा मइ साहियं जइ 'अहं अज्ज गओ वणंतरं । ७  
तए य सहसा गिसुओ मए मांणे कलयलो संए तूर-भेरी-णिणाय-मिस्सिओ । तओ मए सहसुभतरेण दिणं कणं कयरीए  
उण दिसाए एव कलयलो ति । जाव गिसुयं जतो-हुत्तं भगवओ तेलोक-गुरुणो उसह-सामिस्स पडिमा । तओ अहं कोउहला-  
१२ ऊरमाण-माणओ उवगओ तं पणुं । ताव पेच्छामि दिव्वं णर-गारीयणं भगवओ पुरओ पणामं करेमाणं । १२

§ २१८ ) तओ मए विनियं इमे ते देवा णीसंसयं णि । अहवा ण होति देवा जेण ते दिट्ठा मए भगवओ केवलिणो

- केवल-महिमाणया । तां च नहियलमि ण लगेति चलयया ण य णिमेस्संति णयणाइं । एयाणं पुण महिवट्ठे संठिया  
१३ चलयया, णिमिस्संति णयणाइं । तेण जाणामो ण एए देवा । मणुसा वि ण होति, जेण अहकंत-रूवादिसया गयणंगण-  
१५ चारिणो य इमे । ना ण होति धरणीयरा । के उण इमे । अहवा जाणियं विजाहरा इमे ति । ता पेच्छामि किं पुण इमेहि  
एव पारइं ति विनयंतो णियणो अहं चूय-पायवोयरमि । एयंतरमि णिसण्णा सव्वे जहारुहं विजाहर-णरवरा विजा-  
१८ हरीओ य । तओ गहियं च एकेण सव्व-लक्खगावयव-संपुणेण विजाहर-जुवाणएण पउम-पिहाणो रयण-विचित्तो कंचण-  
१८ घटिओ दिव्व-विमल-सलिल-संपुणो मंगल-कलसो । तारिसो चय दुइओ उक्खित्तो तां च मज्जे एकाए गुरु-णियं-व-विं-  
मंयर-नाइं-विजास-चलण-परिवलण-अवलिय-मणि-गेउर-रणरणासह-मिलंत-ताल-वसंदोलमाण-वाहु-रुइयाए विजाहरीए ।  
२१ वेत्तूण य ते जुवाणया दो वि अह्मीणा भगवओ उसभ-सामिय-पडिमाए समीवं । तओ 'जय जय'ति भगमागेहिं समकालं २१  
चिय भगवओ उत्तमंणे विवसिय-सरोरुह-मयरंद-धिदु-संदोह-पूर-पसरंत-पवाह-पिंजरिजंत-धवल-जलोच्चरो पलोट्टिओ कणय-  
कलस-समूहेहिं । तओ समकालं चिय पहयाइं पडहाइं । ताडियाओ झहरीओ । पवाइयाइं संखाइं । पग्गीयाइं मंगलाइं ।  
२४ पडियाइं थुइ-वयणाइं । जवियाइं मंताइं । पणचिया विजाहर-कुमारया । तुट्ठाओ विजाहरीओ । उच्चं पडंति किंपुरिस ति । २४  
तओ के वि तत्थ विजाहरा णच्छंति, के वि अण्णोडंति, के वि सीह-णायं पमुंचंति, के वि उक्कट्टिं कुणंति, के वि हलहलयं,  
के वि जयजयावेंति, के वि उप्पयंति, अण्णे णिवयंति, अवरे जुज्जंति । एवं च परमं तोसं समुव्वहिउमाडत्ता । तओ  
२७ भगवं पि ण्हाणिओ तेहिं जुवाणएहिं । पुणो विलित्तो केण वि सयल-वणंतर-महमहंत-सुरहि-परिमलेणं वणंगराय-जोगेणं । २७  
तओ आरोवियाणि य सिय-रत्त-कसिण-पीय-णील-सुगंध-परिमलायड्डियालि-माला-वल्लय-मुहलाइं जल-थलय-दिव्व-कुसुमाइं ।  
उप्पाडियं च कालायरु-कुंदुरुक-मयणाहि-कप्पूर-पूर-उज्जमाण-परिमल-करंविजमाण-धूम-धूसर-गयणयलावद्ध-मेह-पडल-  
३० संकास-हरिस-उडुंड-तडुविय-सिहंदि-कुल-केयारवारद्ध-कलयलं धूव-भायणं ति । एवं च भगवंतं उसह-णाइं पूइऊण णिवेइयाइं ३०

- १) P om. काओ वि कालमज्जागएहिं साहिजंति, P कोओ वि जलणो. २) P om. अण्णा मातंगवेसधारीहिं. ३) P अन्ना  
(for अवरा) वा नरवेसेणं, P इमाओ for इमाणं, P om. इमे. ४) J P पयत्तो, P असिहारणेण, P वियरत्ति कुमारेण भणियं यं  
कहं. ५) J तीय for तीए, P om. जाणामि, P कीरसयासाओ for कीरेण साहियं. ६) P adds मि after एक्कमि, P उसह-  
J-सामिस्स, J उवासओसहिया, P om. पत्त. ७) P या for य, J बोलीए, J om. तओ मए पुच्छिओ, J तुमं मज्जं इमाए.  
८) P भणियं उवंचियासि, P om. तं, J भूतं P-भूयं. ९) J वएस for वयस्स, J साह किं पि तं अच्छरीअं, J inter. अज्ज &  
अहं. १०) P om. मए, J णिणाओ । तओ, P तए for तओ, J सहसुभतरेण P सहसुत्तरेण. ११) P सुणियं for गिसुयं,  
J भगवओ उसभस्स पडिमा । तओ अहं पि कोउहलहलहलांजरमाणमाणसो, P कोउहलाऊरमाणसो. १२) J जाव for ताव  
१३) P देव निस्संसयं, P writes केवलिणो four times. १४) P केवलमहिमां P महियलं न, J om. य, P निमिस्संति, P एयाइं  
पुण. J महिवट्ठा, P संठिया. १५) J जाणामो, P मणुसा, P रूवादिसया. १६) J यारिणो for चारिणो, P मणुया for  
धरणीयरा, J adds वा after धरणीयरा. १७) P पायवसाहाए । १८) P om. विजाहरजुवाणएण, P रयणचित्तो. १९) P  
om. चय, J दुइओ, P अक्खित्तो for उक्खित्तो, P om. च, J गिरि for गुरु. २०) P गइ for गई, P-खलिय, J विजाहरीओ.  
२१) P जुवाणया, P उसहसामियपडिमासमीवं, J जयजयं ति. २२) J मयरंदु P मयरिंद, J पूवरसपवाह, P जरोच्चरो.  
२३) J कलसमुहेहिं, P adds ताइं after पडहाइं, P पग्गीयाइं. २४) J जइआइं मंताइं, J किंपुरिसा सत्ति (इत्ति?),  
P किंपुरिसा । केइ तत्थ. २५) P उक्कट्टिं, P om. के वि हलहलयं । के वि जयजयावेंति । २६) P om. च after एवं, P  
तोसमुव्वहिं. २७) J णिमहंत for महमहंत, P वणंगराय, J जोएण. २८) J सुगंध. २९) P-क्वदुरुक, P धूमससर,  
P पडइ for पडल. ३०) P उडुंड, J-कुले, P केयापारद्ध.

1 केहिं पि पुरओ णाणाविहाइं खज्ज-पेज्ज-विसेसाइं । तओ समकालं चिय दिव्वाहिं थुइंहिं थुणिकुण भगवंतं कयं एक्कं 1  
काउसग्गं धरणिंदस्स णाग-राइणो आराहणावत्तियाए, दुइयं जीवियव्वभहियाए अग्ग-महिसीए, तद्वयं सावरीए महाविज्जाए ।  
3 एवं च काऊण णमोक्कार-पुव्वयं अवयारियाइं अंगाओ रयणाहरणाइं, परिहियाइं पत्त-वक्कलाइं, गहियं कोदंडं सरं चावद्धो 3  
वल्ली-लयाहिं उद्धो टमर-केस-पव्वभारो पडिवण्णो पत्त-सवर-वेसं । सा वि जुवाणिया गुंजा-फल-माला-विभूषणा पडिवण्णा सव-  
रित्तणं । तओ एवं च ताणं पडिवण्ण-सवर-वेसाणं साहिया महारायाहिराएण सवराहिवइणा महासावरी विज्जा कण्णे ताणं  
6 जुवाणयाणं । तेहिं पि रइय-कुसुमंजली-सणाहेहिं पडिवण्णा । साहियाणि य काइं पि समयाइं । पडिवण्णं भूणव्वयं ति । 6  
तओ पणमिओ भगवं, वंदिओ गुरुयणो, साहम्मिय-जणो य ।

§ २१९ ) तओ भणियं एक्केणं ताणं मज्झाओ विज्जाहराणं आवद्ध-करयलंजलिणा । ‘भो भो लोगपाला, भो भो 9  
9 विज्जाहिवइणो, णिसुणेसु आघोसणं । आसि विज्जाहराहिवइं पुव्वं सवरसीलो णाम सव्व-सिद्ध-सावर-विज्जा-कोसो महप्पा 9  
सहप्पभावो । सो य अणेय-विज्जाहर-णरिंद-सिर-सउड-चूडामणि-णिहसिय-चलणवद्धो रज्जं पालिकुण उप्पण्ण-वेरग्ग-मणो  
पडिवण्ण-जिणवर-वयण-किरिया-अग्गो सव्व-संग-परिच्चायं काऊण एत्थं गिरि-कुहरे ठिओ । तस्स पुत्तेण सवर-सेणावइ-  
12 णामधेएण महाराइणा भत्तीए गुरुणो पीईए पिउणो एत्थ गिरि-कुहरम्मि एसा फडिग-सेलमई भगवओ उसभस्स पडिमा 12  
णिवेसिया । तप्पभूईं चय जे सावर-विज्जाहिवइणो विज्जाहरा ताणं एयं सिद्धि-खेत्तं, इमाए पडिमाए पुरओ दायव्वा, एत्थ  
वणे वियरियव्वं । ताणं च पुव्व-पुरिसाणं सव्व-कालं सव्वाओ विज्जाओ सिज्जंतीओ । तओ इमस्स वि सवरणाह-पुत्तस्स  
15 सवरिंदस्स सवर-वेसस्स भगवओ उसभ-सामिस्स पभावेणं धरणिंदस्स णामेणं विज्जाए सिणिद्धेणं सिज्जउ से विज्ज ति । 15  
भणह भो सव्वे विज्जाहरा, ‘सव्व-संगलेहिं पि सिज्जउ से कुमारस्स विज्ज’ ति । तओ सव्वेहि वि समकालं भणियं । ‘सिज्जउ  
से विज्जा, सिज्जउ से विज्ज’ ति भणिकुण उप्पइया तमाल-दल-सामलं गयणयलं विज्जाहरा । तओ ते दुवे वि पुरिसो  
18 महिला य इहेव ठिया पडिवण्ण-सवर-वेस ति । 18

§ २२० ) तओ कुमार, इमं च सोऊण महं महंतो कोऊहलो आसि । भणियं च मए ‘वयंस, कीस तए अहं ण 21  
पेच्छाविया तं तारिसं दंसणीयं’ । भगवओ पूया रइया, साहम्मिया विज्जाहरा विज्जा-पडिवण्णा य । अणादियं तं तुह 21  
एरिसं ति । तओ इयिणा भणियं ‘तीए वेलाए तेण अपुव्व-कोउएण मे अत्ताणयं पि पम्हुट्टं, अच्छसु ता तुमं ति । ता संपयं  
तुह ते विज्जा-पडिवण्णे सवर-वेस-धारिणो जुवाणे दंसेमि’ ति । मए भणियं ‘एवं होउ’ ति । गया तं पएसं जाव ण दिट्ठा ते  
सवरया । पुणो अण्णम्मि दियहे अम्हाणं पडिमं णमोक्कारयंताणं आगया दिट्ठा ते अम्हेहिं । तेहिं पि साहम्मिय ति काऊण  
24 कओ काएण पणामो, ण उण वायाए । तप्पहुइं च णं एए अम्हाणं उडएसु परिभवममाणा दियहे दियहे पावंति । तेण 24  
कुमार, अहं जाणिमो इसे विज्जाहरा । इमेणं मह कीरेणं साहियं इमं ति । तए पुण सरीर-लक्खण-विहाणेणं चय जाणिया ।  
अहो कुमारस्स विण्णाणाइसओ, अहो कुसलत्तणं, अहो बुद्धि-विसेसो, अहो सत्थ-णिम्मायत्तणं । सव्वहा  
27 जिणवर-वयणं अमयं व जेण आसाइयं कयत्थेण । तं णत्थि जं ण-याणइ सुयप्पइवेण भावाणं ॥ 27  
ति भणमाणीए पसंसिओ कुमारो ति ।

§ २२१ ) तओ थोव-वेलाए य भणियं कुमारेण । ‘एणिए,  
30 एक्कं भणामि वयणं कडुयमणिट्टं च मा महं कुप्प । दूसहणिज्जं पि सहंति णवर अब्भरिथया सुयणा ॥’ 30  
ससंभमं च चित्तिं एणियाए ‘किं पुण कुमारो णिट्ठरं कडुयं च भणिहिइ । अहवा,

~~~~~

1) J कार्णि for केहिं, P थुतीहिं, P कयमेक्कं. 2) P धरणिंदनागं, J णागरण्णो, P आराहणवत्तिं, J om. जीवियव्वभहियाए.  
3) P om. च, P om. परिहियाइं, J परिहिहाइं हिआइं पत्तं, J कोडण्डसरं, P च वद्धो वल्लियाहिं टमर. 4) J टमर for  
टमर, P वंसं for वेसं, J सवरत्तणा । 5) P पडिवण्णं, P सवराहिवइणो, J महासावरा, P तत्तो for कण्णे. 6) J पडिवण्णो ।  
P भूणव्वयं. 7) J inter. गुरुअणो and वंदिओ, J साहम्मिययणो, J om. य. 8) P एक्कोणं, P लंजलिणो । J लोअपाला.  
9) J अघोसणं, J सिद्धसवर, P विज्जो-. 10) P चूडामणिसियचलणवद्धो, J सियवलयवद्धो रज्जं, J पाविकुण, P उप्पणवेरग्गमणो,  
11) J एत्थ, P सेणावइणा व नाम । तेण महाराइणो. 12) P पीतीए, J हरिस for फडिग, P उसहरस्स. 13) P सवरविज्जा.  
J वईणो, [either गायत्रा or पूया दायव्वा, for दायव्वा]. 14) J रण्णे for वणे, P विज्जाओ विज्जंतीओ. 15) P om.  
सवरवेत्तस्स, P उसह for उसभ, P साणिद्धेणं सिज्जओ, 16) P सिज्जओ, J मि for वि, P सिज्जउ से विज्जा सिज्जउ, P adds वि  
after ते. 18) P टिया. 19) J inter. महं and महंतो. 20) J om. रइया, J य । एरिसं तुह अणादियं ति । 21) J  
तीय. P om. तेण, J आ for ता. 22) P om. ते, P जुवाणए, P दिट्ठो. 23) J णमोक्कारेयंताणं, P om. ते. 24) P  
तप्पभूईं च एए, J दिअसे दिअसे. 25) P om. मह, P उल ण for पुण, J विहाएण. 26) J विण्णाणादिसयो. 27) P समयं  
for अमयं, J सुयप्पइएण P सुइयप्पइवेण. 28) J भणमाणीय. 29) P थोववेलाए. 30) J च मा इ कुप्पव्वा । दूसभणिव्वं,  
P वि for वि, P नर for णवर. 31) J माणिहिइ.

- 1 मा विलुंपह मा विलुंपह सत्थं, मह पायच्छित्तियाए साविथा तुम्भे जइ णो विरमह' ति । एवं च सोऊण भिल्लपुरिसा 1  
कुङ्कलिहिया इव पुत्तलया थंभिया महोरया इव मंतेहिं तथा संठिया । तओ भणियं 'अरे, अणिसह सत्थवाहं, मं-भीसेह  
3 वणिज्जाए, आसासेह महिलायणं, पडियग्गह करहे, गेणहह तुरंगमे, पडियग्गह पहरंते, सक्कारेसु मइल्लप्र' ति । इमं च आणं 3  
घेत्तूणं पहाइया भिल्ला दिसोदिसं । सत्थवाहो वि तारिसे सत्थ-विब्भमे पलायमाणो वणम्मि णिल्लको परिब्भमंतेहिं पाविओ  
भिह्लहिं । तओ आसासिओ तेहिं, भणियो य 'मा वीहेह, पसण्णो तुम्हाणं सेणावई' । आणियो से पासं मं-भीसिओ तेण ।  
6 भणियं च सेणावइणा 'भो भो सत्थवाह, पुण्णमंतो तुमं, चुको महंतीओ आवईओ, जस्स एसो महाणुभागो समागओ 6  
सत्थम्मि । ता धीरो होहि, पडियग्गसु अत्तणो भंडं । जं अत्थि तं अत्थि, जं णत्थि तं एकारस-गुणं देमि ति । पेच्छसु पुरिसे,  
जो जियइ तं पण्णवेमि ति । सव्वहा जं जं ण संपइइ तमहं जाणावेसु' ति भणमाणो घेत्तुं कुमारस्स करं करेण समुट्ठिओ  
9 सेणावई पल्लिं गंतुं समाढत्तो । 9

- § २२७ ) आढत्ता य पुरिसा । 'भो भो, एवं सत्थाहं सुत्थेण पराणेसु जत्थ भिरुइयं सत्थवाहस्स' ति भणिऊण गओ  
सज्झ-गिरि-सिहर कुहर-विवर-लीणं महापल्लिं । जा य कइसिय । कहिंन्चि चारु-चमरी-पिंछ-पवभारोत्थइय-धर-कुडीरया,  
12 कहिंन्चि वरहिण-बहल-पेहुण-पडाली-पच्छाइय-गिम्हयाल-भंडव-रेहिरा, कहिंन्चि करिवर-दंत-वलही-सणाहा, कहिंन्चि तार-12  
मुत्ताहल-कय-कुसुमोवयार-रमणिज्जा, कहिंन्चि चंदण-पायव-साहा-णिवद्धं-दोलय-ललमाण-विलासिणी-गीय-मणहर ति । अवि य,  
अलया पुरि व्व रम्मा धणय-पुरी चेष धण-समिद्धीय । लंकाउरि व्व रेहइ सा पल्ली सूर-पुरिसेहिं ॥

- 15 तीए तारिसाए पलीए मज्जेण अणेय-भिल्ल-भड-ससंभम-पणय-जयजया-सद्-पूरिओ गंतुं पयत्तो । अणेय-भिल्ल-भड-सुंदरी-वंद्र-15  
दंसण-रहस-वस-वलमाण-धवल-विलोल-पम्हल-सामल-णीलुप्पल-कुमुय-माला-संवलंत-कुसुम-दामेहिं अच्चिजमाणो भगवं  
अदिट्ट-पुव्वो कुसुमाउहो व्व कुमारो वोलीणो ति । तओ तस्स सेणावइणो दिट्ठं मंदिरं उवरि पलीए तुंगयर-सज्झ-गिरिवर-  
18 सिहरम्मि । तं च केरिसं । अवि य, 18

तुंगत्तणेण मेरु व्व संठियं हिमगिरि व्व धवलं तं । पुहइ विव वित्थिणं धवलहरं तस्स णरवइणो ॥

- तं च पुण कुमार-दंसण-पसर-समुत्थिभज्जमाण-पुल्लइयं विव लक्खिज्जइ धण-कीलय-मालाहिं, णिज्जायंतं विव चुंपालय-गव-  
21 क्खासण-सयणोयरेहिं, अंजलिं पिव कुणइ पवण-पहय-धयवडा-करग्गाएहिं, सागयं पिव कुणइ पणच्चमाण-सिहि-कुल-कैया-21  
रवेहिं ति ।

- § २२८ ) तओ तं च तारिसं सयल-णयर-रमणिज्जं पल्लिं दट्ठण भणियं कुमारेण । 'भो भो सेणावइ, किं पुण इमस्स  
24 सणिवेसस्स णामं' ति । सेणावइणा चितियं । 'दूरमारुहियव्वं, उव्वाओ य कुमारो, ता विणोएयव्वो परिहासेणं' ति चितियं-24  
तेण भणियं 'कुमार, कत्थ तुमं जाओ' । कुमारेण भणियं 'अउज्जापुरवरीए' । तेण भणियं 'कत्थ सा अयोज्जापुरवरी' ।  
कुमारेण भणियं 'भरहवासे' । तेण भणियं 'कत्थ सो भरहवासो' । कुमारेण भणियं 'जंबुदीवे' । तेण भणियं 'कत्थ तं  
27 जंबुदीवं' । कुमारेण भणियं 'लोए' । तेण भणियं 'कुमार, सव्वं अलियं' । कुमारेण भणियं 'किं कज्जं' । तेण भणियं 'जेण 27  
लोए जंबुदीवे भरहे अयोज्जाए जाओ तुमं कीस ण-याणसि इमीए पलीए णामं तेलोक्क-पयड-जसाए, तेण जाणिमो सव्वं  
अलियं' । तओ कुमारेण हासिऊण भणियं 'किं जं जं तेलोक्क-पयडं तं तं जणो जाणइ सव्वो' । तेण भणियं 'सुट्ठु जाणइ' ।

- 30 कुमारेण भणियं 'जइ एवं ण एस सासओ पक्खो' । तेण भणियं 'किं कज्जं' । कुमारेण भणियं । 'जेण 30  
सम्मत्त-णाण-वीरिय-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-सारो जिणधम्मो पायडो एत्थं ॥

तह वि बहूहिं ण णजइ ण य ते तेलोक्क-बाहिरा पुरिसा । तो अत्थि किंचि पयडं पि ण-यणियं केहि मि णरेहिं ॥'

- 33 तेण भणियं 'जइ एवं जिओ तए अहं । संपयं साहिमो, इमं पुण एकं ताव जाणसु पण्होत्तरं । अवि य । 33

1 > P मा लुंपह in both places, J पातच्छित्ति, P इत्ति for ति. 2 > P कुङ्कलिहिया इव पुत्तल, P inter. इव & महोरया, P महोरया मंतेहिं, J तओ भणिआ अणिसह, P मंतीसह. 3 > P वणिथा, P महिलायलं, P सक्कारेह, P पवमिमं च for इमं च. 4 > J adds अ before पाविओ. 6 > J सत्थाह कयउण्णो तुमं, P महाणुभावो. 7 > P अत्तणं, P om. जं before अत्थि, P om. तं after णत्थि, P मुणं for गुणं, P पुरिसो. 8 > P पन्नवेमो, P संवटइ, J तं महं. 9 > P सेणावती, J समाढत्ता. 10 > Better [आणत्ता] for आढत्ता, P om. य, J सच्छाहं सत्थेण, P om. सत्थाहं, P परायणेसु, P जहा भिरु, J भिरुइयं, J om. सत्थवाहस्स ति. 11 > J om. गिरि, P om. कुहर, J लीणं, P जाव कतिसिय, P पुच्छ for पिंछ, J पवभारोत्थइयधरकुडीरया. 12 > P गिम्हयालंगडव, J रेहिर, P वर for करि, J वरहीणणाह. 13 > J रमणिज्ज, P om. अवि य, J समाढत्ता. 14 > P अलयाउर ति रम्मा, J adds रम्मा before रेहइ. 15 > J तीअ, P om. भड, P after ससंभमपणय, repeats धणसमिद्धी य । etc. to सिल्लमसंभमपणय, P दसइ for सइ, P inter. भड & निह. 16 > P विलसमाण for वलमाण, P कुसुमयमेहिं. 19 > J पुहइ विव. 20 > J सो य for तं च, P दंसणवसणहसुत्थिभज्जं, J पुल्लओ इव लक्खिज्जइ धणं, J जिज्जायंती. 21 > P कुण्णइ नच्चमाण. 23 > P सयलनयनरीरमं. 24 > J दूरं आरं, P वि for ति, J विव चुंपालेयववक्खयाणयणोअरेहिं. (partly on the margin) चितियंतेण भणिअं पलीवइणा कुमारस्स तुम्हाणं कत्थ वम्मो कत्तो वा आगया । कुमारेण भणियं । अयोज्जापुरवरीओ. 25 > P om. तेण भणियं before कत्थ etc., P अउज्जापुरवरी. 26 > P भरहावासे, J om. तं. 27 > J अयोज्जापुरवरीओ. 28 > P अउज्जाए, adds जइ before तुमं om. कुमारेण भणियं before किं कज्जं, J om. तेण भणियं, P om. जेण लोए. 29 > P सव्वं for सव्वो. 30 > P एत्थं for एत्थं. 31 > J तहा वि, P न मज्जइ जइ वे. J ता for वो, P क्खो, P पायड. 32 > P तहा वि, P न मज्जइ जइ वे. J ता for वो, P क्खो, P पायड. 33 > जइ (for तेण) भणियं तेण जइ, P om. पुण.



- 1 का चिंतित्जइ लोए णागाण फणाए होइ को पयडो । जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो कुमार जाणासु को लोए ॥ 1  
कुमारेण चिंतियं 'अरे, को चिंतित्जइ । हूं चिंता । को वा णायाण मत्थए पयडो । हूं मणी । को वा जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो ।  
3 अरे, जाणियं चिंतामणी । किमिमाए पल्लीए चिंतामणी णामं' ति चिंतयंतेण पुच्छियं जाणिय भणियं 'भो चिंतामणि'त्ति । 3  
सेणावइणा भणियं 'कुमार, जहाणवेसि' त्ति । एवं च परिहास-कहासुं आरूढा तं अत्तणो मंदिरं, दिट्ठं च अण्येय-ससंभम-  
वियरमाण-विलासिणी-णियंवर-सणा-रसंत-रव-रावियं । तयो पविट्ठा अट्ठिभतरं, उवगया देवहरयं । तत्थ य महंतं कणय-  
6 कवाड-संपुड-पडिच्छणं दिट्ठं देव-मंदिरं । तत्थ उग्घाडिऊण दिट्ठाओ कणय-रयणमइयाओ पडिमाओ । तयो हरिस-भरिजंत- 6  
वयण-कमलेहिं कओ तेलोक्क वंधूणं पणामो । णिग्गया य उवविट्ठा महरिहेसु सीहासणेसु । वीसंता खणं । तयो समप्पि-  
याओ ताणं पोत्तीओ । पक्खित्तं च सय-सहस्स-पागं वियसमाण-मालई-सुगंध-गंध-सिणेहं उत्तिमंगे तेहं । संवाहिया य  
9 अहिणव-वियसिय-कमल-कोमलेहिं करयलेहिं विलासिणीयणेणं ति । तयो उच्चट्टिया कसाएहिं, ण्हाणिया सुगंध-सुसीयल- 9  
जलेणं । तयो ण्हाय-सुई-भूया सिय-धोय-दुकूल-धरा पविट्ठा देवहरए । तत्थ य पूइया भगवंतो जहासहं । तयो झाइओ एकं  
खणंतरं समवसरणयो भगवं । जविया य जिण-णमोक्कार-चउच्चीसिया । तयो आगया भोयणत्थाण-मंडवं, परिभुत्तं च  
12 जहिच्छियं भोयणं । तयो णिसण्णा जहासुहं, अच्छिउं पयत्ता वीसत्थ त्ति । 12  
§ २२९) तयो अच्छमाणानं ताणं समागओ धोय-धवलय-वत्थ-णियंसणो लोह-दंड-वावड-करो एक्को पुरिसो ।  
तेण य पुरओ ठाऊण सेणावइणो इमं दुवलयं पढियं । अवि य ।  
15 'णारय-तिरिय-णरामर-चउ-गइ-संसार-सायरं भीमं । जाणसि जिणवर-वयणं मोक्ख-सुहं चय जाणासि ॥ 15  
तह वि तुमं रे णिइय अलज्ज चारित्त-मग्ग-पच्चओ । जाणतो वि ण विरमसि विरमसु अहवा इमो डंडो ॥'  
त्ति भणमाणेण तेण पुरिसेण ताडिओ उत्तिमंगे सेणावई । तयो महागरुल-मंत-सिद्धत्थ-पहओ चिव ओअंठिय-महाफणा-मंडवो  
18 महाभुयंगो विय अहोमुहो संठिओ चिंतिऊण य पयत्तो । अहो पेच्छ, कंहं णिट्ठरं अहं इमिणा इमस्स पुरओ सुपुरिसस्स 18  
पहओ डंडेणं, फरुसं च भणिओ त्ति । अहवा णहि णहि सुंदरं चय कयं । जेण,  
जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-वहुलम्मि एत्थ संसारे । मूढा भमंति जीवा कालमणंतं दुह-समिद्धा ॥  
21 ताणं चिय जो भव्वो सो वि अउच्चेण कह वि करणेणं । भेत्तूण कम्म-गंठिं सम्मत्तं पावए पढमं ॥ 21  
तं च फलयं समुद्दे तं रयणं चय णवर पुरिसस्स । लद्धूण जो पमायइ सो पडिओ भव-सयावत्ते ॥  
लद्धूण पुणो एयं किरिया-चारित्त-वज्जियं मोहं । काय-किरियाए रहिओ फलयारूढो जल-णिहिम्मि ॥  
24 ता जम्म-लक्ख-दुलहं एयं तं पावियं मए एण्हं । चारित्तं पुण तह वि हु ण ताव पडिवज्जिमो मूढो ॥ 24  
जिण-वयण-वाहिर-मणो ण-यणइ जो जीव-णिज्जरा-बंधे । सो कुणउ णाम एयं मूढो अण्णाण-दोसेण ॥  
मह पुण तेलोक्केकल-बंधु-वयणं वियाणमाणस्स । किं जुज्जइ जीव-वहो धिरत्थु मह जीव-लोगस्स ॥  
27 संमारो अइ-भीमो एयं जाणामि दुल्लहा वोही । भट्टा उयहिम्मि वराडिय व्व दुक्खेण पावेस्सं ॥ 27  
जाणतो तह वि अहं चारित्तावरण-कम्म-दोसेणं । ण य विरमामि अउण्णो सत्तेण विवज्जिओ अहमो ॥  
धिद्धी अहो अउण्णो करुणा-वियलो अलज्ज-नाय-सत्तो । खर-णिट्ठर-फरुसाणं दूरं चिय भायणं मण्णे ॥  
30 इय चिंततो चिय सो पव्वालिय-वाह-सलिल-णयणिल्लो । आमुक्क-दीह-णीसास-दुम्मणो दीण-वयणिल्लो ॥ 30  
भणिओ य कुमारेणं । 'भो भो, को एस वुत्ततो, को वा एस पुरिसो, किं वा कजेण तुमं ताडिओ, किं वा अवराहो खमिओ,  
किं वा तुमं दुम्मणो सि' त्ति भणिए दीह-णीसास-मंथरं भणियं सेणावइणा 'कुमार, महल्लो एस वुत्ततो, तहा वि तुज्ज  
33 संखेवेणं साहिमो, सुणासु त्ति । 33

1 > J किं for का, J णायाण, P भणाहि for फणाए, J चिंतियदिअहफलो P दिअफलो अरे जाणियं चिंतामणी ॥, P om. कुमार जाणासु को लोए ॥ कुमारेण चिंतियं 'अरे etc. to दिण्णफलो । 3 > P किं इमाए, J णाम चिंतयं, P om. पुच्छियं जाणिय, J om. भणियं, P adds चिंतामणियं भो after भो. 4 > J जहाणवेहि त्ति. 5 > P वियरमाणे वियासिणी, J रस for रव, J अच्चमंतरं. 6 > P परिच्छिन्नं, J adds च after दिट्ठं, P adds य after तत्थ, P कणयणयरमतीआड. 8 > J सत for सय, J सुअंध, J om. तेहं. 9 > P नव for अहिणव, P विणासिणीअणेणं, P ति ण्हागिया for ण्हाणिया, J सुअंध, P सुयसीयलेणं जलेणं. 10 > P सुईभूसिय, P दुगूलहरा, J om. य, J भगवंता. 11 > P चउच्चीसिया, P om. आगया, P भोयत्थाण, J om. च. 13 > J धोव, P धवलनि-यंतने. 15 > P सागरावत्ते ।, P जिणवयणेणं. 16 > P इमो दंडो त्ति. 17 > P -पहओ, J चिव उअंठिय, P om. महा before फणा. 18 > P अहो for अहोमुहो, P om. अहो, P om. अहं. 19 > P दंडेण, P om. णहि णहि, J adds अवि य after जेण. 20 > J णवर for एत्थ. 21 > J P भोत्तूण for भेत्तूण (emended). 23 > J किरिआए. 24 > J याव for ताव. 25 > P बंधो ।, P कुणाड. 26 > P 'कवयणं बंधु वियाणं', P महो for वहो. 27 > P उअहंमि. 29 > P दूविय. 30 > J चिंततो, P दीणविगणिल्लो, 31 > P om. य, P om. one भो, J om. वा before अवराहो. 32 > P महुरं for मंथरं, J तुमं for तुज्ज. 33 > P निदुग्गेसु for सुणासु.

1 § २३० ) अथि पुहई-पयासा उववण-वण-संगिवेस-रमणिजा । रयणाउरि ति णामं जण-णिवहुदाम-नंभीरा ॥ 1  
जहिं च पक्कण-कुलइं पि पवण-पहलमाण-कोडि-पडाया-णिहायइं, असेस-सत्थत्थ-णिम्मायइं पंजर-सुय-सारिया-णिहायइं,  
3 विहडिय-विरुव-रुव-सोहा-समुदय चकिय-जुवाण, विरुव-लावण-विणिजिय-मच्छर-कडच्छ-पहयउ णायर-वालियउ रइए 3  
त्ति । अचि य ।

जं तत्थ किंचि अहमं लोए लहुयं ति परिहवावडियं । इयर-णयरीण तं चिय पत्तिय पढमं गणिज्जजा ॥

6 तीए णयरीए राया रयणमउडो णाम ।

जो होइ जमो धणओ कोव-पसाएहिं सत्तु-पणइणं । दीणाण गविययाण य पयडे धण-खग-पहरेहिं ॥

सव्वहा ण समथो वण्णेउं तस्स गुणे । तओ तस्स य राइणो दुवे पुत्ता, तं जहा, दप्पफलिहो बाहुफलिहो य । एवं च  
9 तस्स रजं अणुपालयंतस्स एकम्मि दियहे अमावसाए परिहरिय-सयल-संगिहिय-पाय-पयत्थ-सत्थस्स पओस-समए वासहरयं 9  
पविट्ठस्स णीसारिय-सयल-महिला-विलासिणीयणस्स लट्ठिपईव-सिहाए दिट्ठी विलग्गा । तओ किं-किं पि चिंतयंतस्स आगओ  
तम्मि पईवे एको पयंगो । सो तं पईव-सिहं अल्लिऊणं इच्छइ । तओ राइणा पयइ-अणुयंपा-सहावेण चिंतियं । 'अरे, वराओ  
12 अण्णाण-मोहिओ पडिहिइ इम्मि पईवे, ता मा वराओ विवज्जउ' ति चिंतयंतेण गहिओ करयलेणं, घेत्तूण पक्खित्तो कवाड-12  
विवरंतरेण । पक्खित्त-मेत्ते चेष पुणो समागओ । पुणो वि चिंतियं णरवइणा 'अहो, पेच्छह विहि-विहियत्तणं पयंगस्स' । पुणो  
आगओ, पुणो गहिओ, पक्खित्तो य । पुणो वि आगओ । तओ चिंतियं णरवइणा 'अहो एयं लोए सुणीयइ किर उवाय-  
15 रक्खिओ पुरिसो वास-सयं जीवइ ति । ता पेच्छामि किं उवाएहिं मच्चुणो सयासाओ रक्खा काइ हवइ, किं वा ण व'त्ति 15  
चिंतयंतेण गहिओ पुणो पयंगो । 'दे इमं रक्खामि । जइ एस इमाओ मच्चु-मुहाओ रक्खिओ होज्जा, ता जाणिसो अथि  
वेज्जोसहेहिं वि मरण-परित्ता । अह एस ण जीविहिइ मए वि रक्खिज्जमाणो, ता णत्थिं सरणं मच्चुणो ति, परलोग-हियं  
18 चेष करणिज्जं' ति चिंतयंतेण पलोइयाइं पासाइं । दिट्ठं च एकं उग्घाडियं समुगं । तओ राइणा इत्ति पक्खित्तो तम्मि 18  
समुगयम्मि सो पयंगो, ठहओ य उवरिं, पक्खित्तो य अत्तणो ऊसीसए । एवं च काऊण पसुत्तो राया, पडिबुद्धो णिहा-खए  
चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, पेच्छामि किं तस्स पयंगस्स मह उवाएणं कयं' ति गहिउं समुगयं णिरुवियं मणि-पदीवेण जाव पेच्छइ  
21 कुट्टु-गिरोलियं ति । तं च दट्टण पुलइयं णिउणं, ण य सो दीसइ । तओ चिंतियं राइणा 'अवस्सं सो इमीए खइओ 21  
होहिइ ति । अहो धिरत्थु जीव-लोयस्स । जेण

रक्खामि ति सयणं पक्खित्तो एस सो समुगम्मि । एत्थ वि इमीए खइओ ण य मोक्खो अथि विहियस्स ॥

24 जेत्तिय-मेत्तं कम्मं पुव्व-कयं राग-दोस-कल्लसेण । तेत्तिय-मेत्तं से देइ फलं णत्थि संदेहो ॥ 24

वेज्जा करंति किरियं ओसह-जोएहिं मंत-बल-जुत्ता । णेय करंति वराया ण कयं जं पुव्व-जम्मम्मि ॥

पच्चक्खं जेण इमो मए पयंगो समुगए छूढो । गिलिओ गिरोलियाए को किर मच्चूए रक्खेज्जा ॥

27 ता णत्थि एत्थ सरणं सयले वि सुरासुरम्मि लोयम्मि । जं जं पुव्वं रइयं तं तं चिय भुज्जए एयं ॥ 27

ता कीस एस लोओ ण सुणइ पर-लोय-कज्ज-वावारं । घण-राय-दोस-मूढो सिडिलो धम्मासु किरियासु ॥


इय णरवइणो एयं सहसा वेरग-मग-पडियस्स । तारुव-कम्म-खयउवसमेहिं जम्मं पुणो भरियं ॥ तओ,

30 जाए जाई-सरणे संभरिओ राइणा भवो पुव्वो । जह पालिय-पव्वज्जो दिव-लोयं पाविओ तइया ॥ 30

तम्हाओ वि चुओ हं भोए भोत्तूण एत्थ उववणो । जं पुव्व-जम्म-पडियं तं पि असेसेण संभरियं ॥

1 > P एएसो for पयासा, J om. वण, J रयणपुरि, P लोए for णामं. 2 > P कुणइं, J वि for पि, P पि पवयण, J णिहायाइं  
J सत्थत्थु-, P सत्थनिम्माइं पिंजर-. 3 > P विउडियाविरुवसोहा, J om. लावण, P पहायओ, P -वालियउरइआए. 5 > P inter  
किंचि and तत्थ, P परिहंति वावडियं । अन्न नयरीण, P गणेज्जसु ॥. 6 > J तीअ रयणाउरी राया. 7 > P होज्ज for होर, P  
कोवपएसाहिं सत्तुपणतीणं, J पहराहिं. 8 > J om. तस्स गुणे, J बाहुफलिहो, P एवं तस्स य रज्जं. 9 > J समावासिए for  
अमावसाए, J पाव for पाय. 10 > P om. महिला, P लडीपईओ सिहाए, J विलग्गो, P om. one किं. 11 > P अहिल-  
सिऊणं इच्छइ, J पयई, P अणुकंपा. 12 > J om. अण्णाणमोहिओ, P पडीहिइ. 13 > P 'मेत्तो, J om. वि, J विविदिअत्तणं P  
विहिविहियं, J adds वि in both places after पुणो. 14 > P पक्खित्तो, P ततो for तओ, J लोए सुणीयति. 15 > J  
रक्खित्तो, P adds वा before उवएहिं. 16 > P दे इमं. 17 > P परत्ता, J P जीविहिति, P वि म्निज्जमाणो. 18 > J चेष  
for चेष, P पलोवियाइं, P उग्घाडयं, P समुयं for समुगं, P मुक्को for पक्खित्तो. 19 > J om. य, J उसीसए, J विबुद्धो for  
पडिबुद्धो. 20 > J गहिअं, J मणिपईवेण, P मणिपदीवे जाव पेच्छाइ, 21 > J कुण्ट P कुट्टु. P गिरोत्थं ति, P राइणो. 22 >  
होहिसिन्ति, P लोयस्स, P संपयं for जेण. 23 > P सत्तणं, P मे for सो, P om. एत्थ वि इमीए etc. to पुव्वजम्मम्मि. 24 >  
J जत्तिय. 25 > J णय for णेय. 26 > J गिरोलियाए. 27 > P लोयं, P पुव्वरत्थं, P भुंजए. 28 > P लोए for लोओ,  
J लोअ for कज्ज, P रागदोस. 29 > P नरवइणा, P कव्वयओव, P जंमो पुणो. 30 > P पुव्वभयो for भवो पुव्वो, P पाणिय for  
पालिय. 31 > P भुओ for चुओ, P य तेण for असेसेण.

- 1 § २३१ ) अह चित्तिउं पयत्तो धिरत्थु संसार-वास-दुक्खस्स । गय-चारित्तावरणो दिक्खं अह गेण्हए मणसा ॥ 1  
 कय-पंच-मुट्ठि-लोओ सुमणो परिहरिय-सेस-सावज्जो । गय-पावो णिल्लेवो जाओ सलिलस्सिम लउओ व्व ॥ 3  
 3 एवं च तस्स इमस्सि अवसरे अहा-संणिहियाए देवयाए किं कयं । अवि य,  
 धवलं त्रिमलं सुहयं पसरिय-दसिया-मऊह-फुरमाणं । बहु-पाव-रओहरणं रयहरणं अप्पियं तस्स ॥  
 सुह-पोत्तिया य वीया पत्ताईयाइँ सत्त अप्पगे वि । इय णव-उवहि-सणाहो जाओ पत्तेय-बुद्धो सो ॥ 6  
 6 ताव य पभाया रयणी । पढियं मंगल-पाठएणं । अवि य,  
 अरुण-कर-णियर-भरियं गयणयलं णासमाण-तारालं । ओअगइ उज्जोओ वियलइ तिमिरं दस-दिसासु ॥  
 कूयंति सारसाइँ सावय-सउणाण सुव्वए सद्धो । विरहोलुगा-सरीरं वडियं चक्काय-जुवलं पि ॥ 9  
 9 पसरइ कुसुमामोओ वियरइ दिसासु पाडलांगंधो । उद्धाइ कलयल-रवो रवंति सव्वत्थ कुक्कुडया ॥  
 इय एरिसे पभाए णरवर दे बुज्झिऊण कुण एक्कं । णिदा-मोहं अह वारिऊण परलोग-वावारं ॥  
 तं च तारिसं वंदिणा पढियं णिसामिऊण भगवं रायरिसी विहाडिऊण कवाड-संपुडं वास-भवणस्स णिगओ सीह-किसोरओ 12  
 12 विव गिरिवर-गुहाओ, दिट्ठो य परियणेण । केरिसो । अवि य,  
 कय-केस-लुंचणो सो पत्तय-रय-हरण-रेहिर-करगो । चइउं तणं व रज्जं राया सीहो व्व णिकखंतो ॥  
 तं च तारिसं पेच्छिऊणं वासहर-पालीए धाहावियं । कहं । अवि य । 15  
 15 हा हा माए धावह धावह एसो म्ह सामिओ राया । अज्जं चिय वासहरे अह किं पि विडंवणं पत्तो ॥  
 एवं सोऊण धाहा-रवं णिसामिऊण पहाइओ अंतेउरिया-जणो । संभम-वस-खलमाण-चलण-णेउर-रणणासइ-सुहलो पहाइओ  
 वर-विलासिणि-जणो । तओ तार्हिं भणियं । 18  
 18 'जिय दइय सुहय सामिय पसिय तुहं किं व अवकयं अम्हे । जेणम्हे तं मुंचसि तं अत्ताण विडंवणं काउं ॥  
 जे वेळहल-विलासिणि-करयल-संसग्ग-वड्डिया णिच्चं । ते कत्थ तुज्झ केसा अइवज्जम लुंचिया केण ॥  
 कप्पूर-पूर-चंदण-मयणाहि-समुग्गएक्क-कलियम्मि । वासहरम्मि करंका कत्थ तए पाविया णाह ॥ 21  
 21 दरियारि-दारण-सहं तुह खगं गाह रेहइ करगो । उण्णामय-दसियालं एयं पुण पिंछयं कत्तो ॥'  
 तओ एवं पलवमाणस्स अंतेउरिया-जणस्स अदिण्ण-पडिसंलावो गंतुं पयत्तो । तओ मुक्क-कंठं धाहावियं तार्हिं ।  
 'अवि धाह धाह धावह एसो अम्हाण सामिओ सहसा । केण वि हीरइ पुरओ अदिण्ण-संलाव-विमणाणं ॥  
 24 इमं च हा-हा-रवं णिसामिऊण संपत्ता भंतिणो । तेहि य दिट्ठो से भगवं महामुणि-रूवो । वंदिऊण य भणियं तेहिं 'भगवं 24  
 को एस वुत्ततो' ति । एवं च भण्णमाणो त्रिणिग्गओ चैय णयरीओ । तओ तह चिय मग्गालग्गो सेस-परियणो वि संपत्तो  
 उज्जाण-वणं । तत्थ य तस-थावर-विरहिए पएसे णिसण्णो भगवं रायरिसी । तओ णिसण्णा भंतिणो अंतेउरिया-जणो य ।  
 27 अम्हे वि दुवे वि जणा तस्स पुत्ता दप्पफलिह-भुयफलिहा भायरो णिग्गया पिउणो सयासं । तओ उवविट्ठाण य भगवं 27  
 रायरिसी साहिउं पयत्तो । अवि य ।  
 § २३२ ) णारय-तिरिय-णरामर-चउ-नाइ-संसार-सायरं भीमं । भममाणएण बहुसो अणोरपारं सया-कालं ॥ 30  
 30 रज्जं बहुसो पत्तं बहुसो पुण सेवियं च दोग्गच्चं । णिय-धम्म-कम्म-वसओ खय-हाणि पावए जीवो ॥  
 जइ देइ विसिट्ठाणं इट्ठमणिट्ठं च जइ ण आयरइ । जइ अणुकंपा-परमो ता रज्जं को ण पावेइ ॥  
 अह वंध-घाय-वह-मार-परिणओ णट्ठ-धम्म-वावारो । ता वच्चंतं णरए साहसु को रंभिउं तरइ ॥ 33  
 33 सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण संसारे । पत्तो देवत्त-पयं किमी य असुइम्मि उववण्णो ॥



- 1 > P अहा चित्तिउं पयत्ता, J दिक्खा अह. 2 > P जाओ सरयंमि जलउ व्व. 3 > J अवसरे जहासणिहिं. 5 > J य वितिआ पत्तातीआइं, P पत्ताईया वि, P पमाणो for सणाहो, P पत्तेयबुद्धो. 6 > J om. य. 7 > P नयणयलं तासमाण for गयणं etc., P उज्जोवो. 8 > P जुयलं. 10 > P 'मोहं अवयारिऊण, J परलोअ. 11 > P रायरिसी, J विहरिऊण, J om. णिग्गओ, P किसोरो. 14 > J वासहरयवालीए, J om. अवि य. 15 > J om. one धावह, J आ कहं for अह किं. 16 > P adds च after एवं, J धाहरवं P धाहावरवं, J 'यणो for जणो, J खणमाण. 17 > P वारविलासिणीयणो. 18 > P सुयय, J पत्तीअ, P अम्हे । जे जेणत्थेके मुंचसि अत्ताण. 19 > J om. जे, P विसासिणि, P संग्गि for संसग्ग. 21 > P दरियाविदारण- 22 > P अंतिउरिया, P कंठं हावियं तार्हि । अवि धावह धाह पावह. 23 > J धावह माए एसोम्ह सामिओ. 24 > P सो for से. 25 > P चैव नवरओ, P तहे व for तह चिय. 26 > J रहिए for विरहिए, P तओ निसओ. 27 > P वि दुवे जणा दप्पं, J दप्पफलिहो भुयफलिहा, P सयासं, P om. य. 28 > J om. अवि य. 30 > P उण for पुण, P दोग्गच्चं for दोग्गच्चं, P inter. कम्म (कंम) & धम्म, J रायहाणि for खयहाणि. 31 > P विसिट्ठाणं, J यारइ for आयरइ, J अणुकंपा. 32 > P अह वध, P पाय for नार.

- 1 सो णत्थि कोइ जीवो इमम्मि संसार-दुक्ख-वासम्मि । माइ-पिइ-पुत्त-बंधू बहुसो सयणत्तणं पत्तो ॥ 1
- सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण कम्मणेण । विसयासा-मूढ-मणो अवरोप्पर-मारणं पत्तो ॥
- 3 सो णत्थि कोइ जीवो चउगइ-संसार-चारयावासे । अवरोप्पर-कज्ज-मओ जो ण वि मित्तत्तणं पत्तो ॥ 3
- सो णत्थि कोइ जीवो भममाणो जो ण कम्मजोएण । ईसा-मच्छर-कुविओ जो ण य सत्तुत्तणं पत्तो ॥
- सो णत्थि कोइ जीवो चउगइ-संसार-सागरे भीमे । णह-दंत-दलिय-देहो जो य ण आहारिओ बहुसो ॥
- 6 सो च्चिय सत्तू सो चेय बंधवो होइ कम्म-जोएण । सो च्चिय राया सो चेय मिच्छुओ होइ पावेणं ॥ 6
- ता पत्तियासु एयं ण एत्थ बंधू ण चेय कोइ अरी । णिय-चरिय-जाय-कम्मं पत्तिय सत्तुं च मित्तं च ॥
- इय जाणित्तं अणित्तं संजोय-विओय-रज्ज-बंधुयणं । वेरग-मग्ग-लग्गो को वा ण करेज्ज परलोयं ॥
- 9 एत्थंतरम्मि पुच्छिओ विमलबंधुणा मंतिणा । 'भगवं, एस उण को वुत्तंते वासहरयम्मि जाओ जेण समुप्पण्ण-वेरग- 9
- मग्ग-लग्गो इमं लिंगं पडिवण्णो सि' त्ति । साहियं च भगवया सयलं पर्यग-पईव-समुग्गय-वुत्तंतं । तओ तं च दट्ठण मए
- चित्तियं । 'अहो, धिरत्थु संसार-वासस्स जं एसो पर्यगो रक्खिज्जमाणो विवण्णो । उवाओ त्ति समुग्गए पक्खित्तो, तहिं चेव
- 12 अवाओ जाओ । तं जहा । 12
- जइ सेण-त्तासिओ सो सरणत्थी मग्गए विलं ससओ । अयगर-मुहं पविट्ठो को मल्लो हय-कयंतस्स ॥
- ओसह-जोएहिं समं णाणाविह-मंत-आहुइ-सएहिं । ण य रक्खिज्जण तीरइ मरण-वसं उवगओ पुरिसो ॥
- 15 एयं णाऊण इमं अणित्त-भावेण भावियं लोयं । तम्हा करेमि धम्मं को साहारो त्थ रज्जेण ॥ 15
- एवं च मज्झ वेरग-मग्गावडियस्स तहा-कम्मक्खओवसमेणं अण्ण-जम्म-सरणं समुप्पण्णं । आसि अहं अवरविदेहे साहू, तत्तो य
- सोहम्मे देवो । तत्तो वि चइऊण अहं इह राया समुप्पण्णो । तओ कयं मए पंचमुट्ठियं लोयं । अहासंणिहियाए देवयाए
- 18 समप्पियं रय-हरणं उवकरणं च । तओ णिग्गंथो मुणिवरो जाओ अहं' ति । 18
- § २३३ ) एवं च भगवया साहिए समाणे सयले वुत्तंते पुच्छियं विमलेण मंतिणा । 'भगवं, को उण एस धम्मो,
- कहं वा कायव्वो, किं वा इमिणा साहेयव्वं' ति । एवं च पुच्छिए भणियं भगवया रायरिसिणा ।
- 21 'देवाणुपिया णिसुणेसु जं तए पुच्छियं इमं धम्मं । पढमं चिय मूलाओ ण होइ जइ संसओ तुज्ज ॥ 21
- धम्माधम्मागासा जीवा अह पोग्गला य लोयम्मि । पंचेव पयत्थाइं लोयाणुभवेण सिद्धाइं ॥
- धम्माधम्मागासा राइ-ठिइ-अवगास-लक्खणा भणिया । जीवाण पोग्गलाण य संजोए होंति णव अण्णे ॥
- 24 जीवाजीवा आसव पुण्णं पावं च संवरो चेय । बंधो णिज्जर-मोक्खो णव एए होंति परमत्था ॥ 24
- जो चलइ वलइ वग्गइ जाणइ अह मुणइ सुणइ उवउत्तो । सो पाण-धारणाओ जीवो अह भण्णइ पयत्थो ॥
- जो उण ण चलइ ण वलइ ण य जंपइ णेय जाणए किंचि । सो होइ अजीवो त्ति य विवरीओ जीव-धम्माणं ॥
- 27 अह कोह-लोह-माया-सिणिद्ध-रूवस्स दुट्ठ-भावस्स । लग्गइ पावय-पंको सिणिद्ध-देहे महि-रओ व्व ॥ 27
- सो आसवो त्ति भण्णइ जह व तलायस्स आगमहारो । सो होइ दुविह-भेओ पुण्णं पावं च लोयम्मि ।
- देवत्तं मणुयत्तं तत्थ विसिट्ठाइं काम-भोगाइं । गहिण्ण जेण जीवो भुंजइ तं होइ पुण्णं ति ॥
- 30 णरएसु य तिरिएसु य तेसु य दुक्खाइं णेय-रूवाइं । भुंजइ जस्स बलेणं तं पावं होइ णायव्वं ॥ 30
- अह पुण्ण-पाव-खेलय-चउगइ-संसार-वाहियालीए । गिरिओ व्व जाइ जीवो कसाय-चोरेहिं हम्मंतो ॥
- तं णाण-दंसणावरण-वेयणिज्जं च होइ तह मोहं । अवरंतराय-कम्मं आयुक्खं णाम गोत्तं च ॥
- 33 तं राग-दोस-वसओ मूढो बहुएसु पाव-कम्मेषु । अट्ट-विधं कम्म-मलं जीवो अह बंधए सययं ॥ 33

1 > P बंधू हुसो सणयणयत्तणं. 3 > P संसारसायरावासे, P कज्जपमओ. 4 > P जं for जो, P inter. य and ण. 5 > P जोइ for कोइ, J सायरे, P inter. न and य. 6 > P सो चेय भिच्चो अह होइ. 7 > P सत्तू य मित्तं. 8 > P जाणियं, P लग्ग-मग्गो. 9 > J वुण for उण, P inter. को & उण, P वुत्तंतेो सहरम्मि य जाओ. 10 > P मग्गो for मग्गलग्गो, P om. सि, J -पईव, P समुयंय. 11 > P एस पर्यगो, J adds वि before विवण्णो, J चेअ. 13 > J सयणत्थी. 15 > P लोयं, P बंधं for धम्मं, P inter. साहारो and को, P व for त्थ. 16 > J 'विदेहो साहो. 17 > J om. देवो, J om. अहं, P om. इह, J मे for मए, P 'सन्निहियए, J देवताए. 18 > J रयणहरणं. 19 > P om. समाणे, J om. सयले, P पुच्छियवियं विमलमंतिणा. 20 > J पुच्छिएण भणियं. 21 > P देवाणुपिया, P तुम्हं for तुज्ज. 22 > P लोयंमि, J लोआइभवेण P लोयणुभावेण. 23 > J गति-ठिति, P अवगाइ. 24 > P संवरं चेव, J inter. बंधो & णिज्जर, J एत्ते, P परमत्थो. 25 > P repeats चलइ, J जाणइ इअ कम्म उवयुत्तो. 26 > P किपि । 27 > P inter. लोह & कोह, J पायव for पावय, J देहो. 28 > P वइ for व, J आगमंदाणे, P लोयंमि. 29 > J भोगाइ. 30 > P णेगग for णेय, J जस्स हलेणं. 31 > P पुच्चवत्तव, P मिच्छिओ व्व आआइ, J -चोराण, P निज्जंतो for हम्मंतो. 32 > P om. होइ, P आउक्खं. 33 > P अट्टविहं, J सततं.

- 1 मिच्छ-अविरह-कसाया-पमाय-जोगेहिं वंधणु कम्मं । सत्तट्ट-विहं छव्विहमबंधओ णत्थि संसारी ॥ 1
- एंगंत-वद्ध-चित्तो कुसमय-मोहिज-माण-सवभावो । मिच्छा-दिट्ठी कम्मं वंधइ अह चिकणं होइ ॥ 3
- 3 गम्मागम्म-वियप्पो वच्चावच्चाइं जो ण परिहरइ । सो अविरय-पाव-मणो अविरतओ वंधणु पावं ॥
- मज्जं वि महाणिदा एण उ हवंति ते पमायाओ । एणसु जो पमत्तो सो वंधइ पावयं कडुयं ॥
- मय-क्रोह-माण-लोहा एण चत्तारि जस्स उ कसाया । संसार-मूल-भूणहिं तेहिं सो वंधणु पावं ॥ 6
- 6 काय-मण-त्राय-जोगा तेहि उ दुट्ठेहिं दुट्ठ-बुद्धीणु । वंधइ पावं कम्मं सुहेहिं पुणं ण संदेहो ॥
- ता जाव एस जीवो एयइ वेयइ य फंदणु चलणु । सत्तठ-छेगविहं वंधइ णो ण अवंधो उ ॥
- ता तेण कम्मणं उच्चाणीएणु णवर ठाणेसु । जीवो इमो भमिज्जइ कराहओ कंदुउ च्च समं ॥ 9
- 9 इंदत्तणं पि पावइ जीवो सो चेय णवर किमियत्तं । णणु दुक्ख-सहस्साइं पावणु सो च्चिय वराओ ॥
- पुढवि-जल-जलण-मारुय-त्रणस्सईं णेय-भेय-भिण्णेसु । एग-दु-ति-चउरिंदिय-विगलेसु अणेय-रूवेसु ॥
- अंडय-पोत्तय-जरजा रसाउया चेय होंति संसेया । सम्मुच्छिमा य वहुणु उट्ठिभय-उववाइआ अण्णे ॥ 12
- 12 सीउण्ह-मीस-जोगिणु जायंते के वि तथ दुक्खत्ता । संकड-वियडासु पुणो मीसासु य होंति अवरे वि ॥
- पंचेदियाण पुच्छसि चउरो भेदा उ होंति देवाणं । भवणवइ-त्राणमंतर-जोइस-वासी विमाणत्था ॥
- विज्जु-घण-थणिय-अग्गी-सुवण्ण-तह-दीव-दिसि-कुमारा य । वाऊदधी य णागा दंस भेया होंति भवणत्था ॥ 15
- 15 अह जक्ख-रक्ख-भूया पिसाय तह किणरा य किंपुरिसा । महउरया गंधच्चा अट्ट-विहा वंतरा एणु ॥
- चंदा सूरु पढमं गहा य णक्खत्त-तारया अवरे । एणु पंच-विह च्चिय जोइस-वासी सुरा होंति ॥
- वेमाणिया य दुविहा कप्पाइया य कप्पमुववण्णा । कप्पोववण्ण-भेया वारस एणु णिसामेसु ॥ 18
- 18 सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिंद-बंध-लोया य । लंतय-सुक्क-सहस्साराणय-पाणय य दिय-लोया ॥
- आरण-अच्चय-भेएहिं संठिया वारस-विहाओ । एणु कप्पोववण्णा देवा अह होंति सब्बे वि ॥
- कप्पाइया दुविहा गेवेज्जाणुत्तरा य पंच-विहा । एणुसु कोइ वच्चइ वहु-कय-पुण्णो हु जो पुरिसो ॥ 21
- 21 § २३४ ) मणुया वि अणेय-विहा कम्मय-भूमा [ अकम्म-भूमा ] य । अंतर-दीवा अण्णे सवरादी च्चवरा अण्णे ॥
- तिरिया असंख-भेया दुपया अपया चउप्पया चेव । पक्खी सप्पाइया पभूय-पय-संकुला अण्णे ॥
- णणु वि सत्त णरया पत्थर-भेएण ते विभिज्जंति । भीमा उव्वेवणया वहु-दुक्खा णिच्च-कालं पि ॥ 24
- 24 अमर-णर-तिरिय-णारय-भव-संसारम्मि सागर-सरिच्छे । अट्टविह-कम्म-वद्धा भमंति जीवा ण संदेहो ॥
- अह एत्थ मणुय-लोए जीवो च्चिय सुकय-पुण्ण-पवभारो । उप्पज्जइ तित्थयरो अंतयरो सयल-दुक्खाणं ॥
- से साहइ सच्चमिणं दिव्वण्णाणेण जाणिउं भगवं । सोऊण य तं जीवा केई वच्चंति सम्मतं ॥ 27
- 27 अण्णे पाव-परद्धा संसारे वच्चहरय-सरिसम्मि । अच्छंति दुक्ख-तविया ण तस्स वयणं अवि करंति ॥
- जे पुण करंति एयं ते पुरिसा णवर एत्थ गेण्हंति । सम्महंसण-णाणं चरणं च्चिय तिणिण परमत्था ॥
- जे जह जीवाइया भावा परिसंठिया सभावेण । सदेहइ ते तह च्चिय अह एयं दंसणं होइ ॥ 30
- 30 गम्मागम्मं जाणइ भक्खाभक्खं च वच्चमविवच्चं । जाणइ य जेण भावे तं णाणं होइ पुरिसस्स ॥
- परिहरइ पाव-ठाणं संजम-ठाणेसु वट्टए जेण । तं चारित्तं भण्णइ महव्वणु पंचयं होंति ॥
- जीवाणं अह्वायं तह य मुसावाय-विरमणं दुइयं । अदिण्णदाणा-मेहुण-विरइ पडिचाओ सब्ब-दच्चाणं ॥

1 > J मिच्छाअविरती, J जोएहिं, J छव्विहं वंधओ णेत्य संसारी. 2 > P एयंतु दुट्टचित्तो, J P कुसुमं, J सुह P अहं, J चिकणे भोए. 3 > P om. ण, P अविरओ. 4 > J मज्जं वि महाणिदा एते तु हमंति ते पमत्तातु । एतेसु जो अमतो, P पावणं. 5 > P मोहा for लोहा, J एते, J भूतेहिं. 6 > J जोआ तेहिं दुट्ठेहिं. 7 > J एतइ वेतइ अं, J P सत्तट्ट, P छवेगविहं, J वंधइ अ णोणं अहं होंतु ॥. 9 > P चेव, P om. णवर. 10 > J णेय भिण्णभिण्णेसु, J विअलेसु. 11 > J अण्डपोत्तय, P पोयय, J जरसा, J संसेता, J ओवा-त्तिआ. 12 > J जोगिय for जोगिणु. 13 > J भेता तु होति, P य for उ, J भवणवत्तिवाणवंतरजोतिसवासी, P भवणवणवाण, P जोविस. 14 > J थणितअग्गीआसण्णदीतह, J दिसकुमारा, J वाऊ उदधी णागा, P वाऊदही, J om. य, J सेता. 15 > J जह for अह, P जक्खारक्खस, J भूता, P महोण य गंधच्चा, J एते. 16 > P अरे for अवरे, JP एते, J -विध, J जोतिस. 17 > तु for य, J दुविधा कप्पातीता य, P कप्पउववण्णा, J -सेता, J एते. 18 > P om. लंतय, J स्सार आणतपाणतो य दियलोओ, P स्साराय-णपाणया य दित्थियलोया. 19 > J अच्चुतमेवेहि, P भेएहिं, J -विधातु I, P कप्पोववण्णा. 20 > J कप्पातीता, J पंचविधा । एतेसु, J उ for हु. 21 > P अणेय, J कम्माभूमा, the second pāda may be read thus: कम्मय-भूमा अकम्म-भूमा य । J -दीवा, P सवराइं. 22 > J दसंखमेता दुपता अपया चउप्पया, P पक्खा अप्पाइया, J सप्पातीता, J पसूअपत्त. 23 > P पत्थर-भेएहिं ण ते, J मेवेण ते, P विभिज्जंति. 24 > J सायर, J कम्मबंधा. 25 > P सुकयमीनसंसारे । 26 > J सो for से, P से सोहर. 27 > P ववहरय. 29 > J जे for ते, J जीवातीआ P जीवापया, J परिसंठिता, P परिसंठिया सयावेण, P होंति for होइ. 30 > P गंमानंता न वानद, P वच्चं for वच्चमविवच्चं, P भावो तं. 31 > P -ट्ठाणं, P -ट्ठाणु, J वच्चण for वट्टए, J पंचयं. 32 > J अत्तिवातं, J मुसावात, J दुवेजं P दुइयं, J दायं, J विरती, P विरइयपरिच्चाउ पंचनयं ॥

- 1 सुहुमं वा वायरं व जीवं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण वहइ ण वहावइ य वहयंतं णाणुजाणाइ ॥ 1
- भय-हास-कसाएहिं य अलियं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण भणइ ण भणावेइ भणमाणं णाणुजाणाइ ॥
- 3 गामे णयें अदिणं मण-वय-काएहिं तिविह-जोएहिं । ण य नेणहे गिण्हावे नेणहंतं णाणुजाणाइ ॥ 3
- दिव्वं माणुस-तिरियं इत्थि मणो-वाय-काय-जोएहिं । ण य भुंजइ भुंजावए भुंजंतं णाणुजाणाइ ॥
- थोव-बहुं सावजं परिगहं काय-वाय-जोएहिं । ण कुणइ ममत्तं कारेइ णेय ण य भणइ तं कुणसु ॥
- 6 एया पंच पइण्णा घेतुं गुरु-देव-साहु-सक्खीया । राई-भोयण-विरइ अह सो छट्ठं वयं कुणइ ॥ 6
- एया परिवालेंतो अच्छइ तव-संजमं करेमाणो । अह तस्स संवरो सो पावट्ठाणेसु जं विरओ ॥
- एवं च संवरेणं संवरियप्पा वि णिज्जरं कुणइ । दुविहेण तवेणेयं अर्भितर-वाहारेणं पि ॥
- 9 अणसणमूणोदरया वित्ती-संखेव-रस-परिच्चागो । काय-किलेसो संलीणया य वज्झं तवं भणियं ॥ 9
- पायच्छित्तं विणओ वेयावच्चं तओ समाधी य । सज्झाय-चरण-करणं एयं अर्भितरं होइ ॥
- एएण पओएणं पुच्च-भव-कोडि-विरइयं कम्मं । खेवेण णिज्जरिज्जइ णिज्जरणा होइ सा जाण ॥
- 12 ता संजम-णिज्जरणं काज्जण इमं स जीव-सत्तीए । वच्चइ धम्मज्झाणं सुकज्झाणं तओ जाइ ॥ 12
- भारुहइ खवग-सेदिं खविउं कम्माइ ताइ चत्तारि । केवल-णाणमणंतं अह पावइ दंसणं चेव ॥
- तो संभिणं पासइ लोयमलोयं च सव्वओ सव्वं । तं णत्थि जं ण पासइ भूयं भव्वं भविस्सं च ॥
- 15 तत्तो वि आउगंते संबोहेज्जण भव्व-कमलाइं । खविउण णाम-गोत्ते सेलेसिं पावए भगवं ॥ 15
- कायं वायं रंभइ मण-रहिओ केवली सुहुम-जोगी । अह सयल-जोग-रहिओ सिद्धिपुरिं पावए जीवो ॥
- जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सुहं अणंतं अह भुंजइ गिरुवमं जीवो ॥
- 18 ता एस एस धम्मो इमेण सज्झं च सासयं ठाणं । तेणुज्झिज्जण रज्जं पव्वज्जं अह पवणो हं ॥' 18

§ २३५ ) भणियं च भगवया रायरिसिणा । 'भो भो दप्पफलिह-भुयफलिहा मंतिणो राइणो य भणिमो । एस दुरुत्तरो संसारो, महंतं दुक्खं, अणंतं कालं, परिणइ-विरसा भोगा, कडुय-फलं कम्मं, स्रूढो बहु-जणो, तुल्लगेण पावेयव्वं 21 मणुयत्तणं, ण पाविज्जंति खेत्त-जाई-कुल-रूवारोगगाइं, थोवं आउयं, विरला धम्मायरिया, दुल्लहो जिणवर-धम्मो । दुक्को किरिया- 21 कलावो, ण तीरइ मण-णिरोहो, सव्वहा दुक्खं संसारत्तणं ति । तेण णियय-जीयं पिव रक्खह पाणिणो, अव्वत्तव्वमिव मा भणह अलिय-वयणं, तणं पिव मा गेण्हह पर-धणं, मायरं पिव मण्हह परदारं, सत्तुं पिव कलेह परिगहं, पडिवज्जह 24 इमं । अवि य । 24

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलम्मि णवर संसारे । णत्थि सरणं जयम्मि वि एकं मोत्तूण जिणवयणं ॥' ति भणमाणो समुट्ठिओ भगवं रायरिसी, णीसंगो विहरिउं पयत्तो । तओ कुमार, अम्हे तप्पभुइं सम्मत्त-मेत्त-सावगा जाया । 27 पइट्ठियं च हियए जहा अम्हेहि वि एयं अवस्स कायव्वं ति । आगया आवासं । तत्थ मंतीहिं पेसिओ दूओ । अम्ह पिउणो 27 भाया दढवम्मो महाराया अयोज्जाए, तेण य आणत्तं जहा दप्पफलिहो पढमपुत्तो रज्जं अभिसिंचसु त्ति । 'तह' त्ति पडिवणं रायलोएणं । एक्को मंती वेज्जो य एक्को भुयफलिह-जणणीय य मंतियं । अणणिज्जण पर-लोयं, अवमणिज्जण 30 जण-वयणिज्जं, अवहत्थिज्जण लोगायारं, अवलंबिज्जण पावं, संजोइयं जोइयं, कालंतर-विडवणा-मरण-फलं दिणं च मज्झ 30 पाणं । तओ कुमार, वियंभिउं पयत्तो मज्झ सो जोओ । किं च जायं । थोवं पेच्छामि अच्छिइहिं, ण फुडं सुणेमि सवणेहिं, ण-याणामि गंधं णासियाए, ण संवेएमि फरिसं सरीरेण, ण विंजामि सायं जीहाए । णासए मई, पणस्सए खुट्ठी, विणस्सए 33 पण्णा । वियलियं सीलं, णिग्गया लज्जा, अवगया दया, अवहरियं दक्खिणं, पलाणं पोस्सं, परिहरिओ रइए, णिग्गच्छिओ 33 विण्णाणेणं, पम्हुट्ठो संकाए, अवहत्थिओ विवेएणं ति । अवि य ।

1) J om. वा, J वातरं, J P वा for व, P वयजोगेहिं, J जोएहिं, J वहेइ ण व होइ, P वहावेयं, P om. य.  
 2) J जोएहिं. 3) J गामणगरे व दिणं मणवइ, P नेणहे न य गिण्हावेइ नेणहंतं. 4) P जोगेहिं, J inter. णय भुंजावए and ण भुंजइ, P न भुंजए न भुंजावेई. 5) P न कुणइ ममत्तकारे, J om. णेय, P om. य. 6) J P एता, P घेतुं, P राती, J विरति, P कुणति. 7) J P एता, J विरतो. 8) J संवरितप्पा, J दुविधेण, P वि corrected as पि. 9) P 'ण भोगो-यरिया, J परिच्चाओ, J संलीणता, J भणितं. 10) J ततो, P समाधी, J एतं. 11) एतेण, J भुव्वं for पुच्च, P निज्जरज्जइ, J होहिइ इमा जाण 12) P तओ जीइ ॥ 14) P पासइ लोयं च, J लोअमलोवं, J सव्वतोवरसं । P repeats the line तं नत्थि etc., J भूतं. 15) J संबोहेत्तूण सव्वजीवाओ । 16) P सिद्धिपुरं. 17) P सुहंमणंतं. 18) P पवज्जोइं. 19) P 'रिसिणो, P दप्पफलिहा, P om. भुयफलिहा. 20) J तलुगगावे. 21) P माणुसत्तणं, P ज्ञाती, P दुल्लगे. 22) P मणो for मण, P दुक्खं संसारो । तेण, P अव्वत्तं पिव. 24) J om. अ वि य. 25) P एक्के, P जिग्गवयणमि ॥ 26) P om. भगवं, J तप्पभूर्ति P तप्पभूइ, P om. मेत्त, J सावया. 27) P अम्हेहिम्मि, J पेसिआ दूआ, P पिउणा. 28) P दढवन्नो, P अउज्जाए, P दप्पहो, J पढमउत्तो, P om. तह त्ति. 29) J पडिवणो, P inter. एक्को and विज्जो, P om. य, P सुयफलिह. 30) P om. जण before वयणिज्जं, J लोआयारं, J जो for जोइयं, P विंजिणा, J मरणफलं. 31) P थोवं, J सुणेमि मणयइ. 32) J य संवेत्तेसि फरिसं सरीरेणं, P फरुसं, J सातं for सायं, J मती. 33) P विदयए सीलं.

- 1 विष्णाण-णाण-पोरुस-दाण-दया-वृद्धि-गुण-सयाइं पि । दारिद्रेण व जोएण तेण सहस त्ति णट्ठाइं ॥ 1  
केवलं पियं-भाणिरं पि अप्पियं भणामि पणमंतं पि ताडेमि त्ति । एरिसं च मं पेच्छिऊण राय-लोमो 'हा हा कट्टं'ति भणिऊण  
3 देवं उवाल्हिय ठिओ । अहं पुण कहिंचि गायंतो कहिंचि णच्चमाणो कहिंचि ख्यमाणो कहिंचि हसमाणो कहिंचि णिवडंतो 3  
कहिंचि पहावंतो रच्छा-कय-वीर-विरइय-मालो धूलि-धवल-सरीरो णिम्मल्ल-वद्ध-सुंड-मालो गहिय-खप्पर-करगो कइया  
वि परिहिओ, कइया विणियंसणो, कइया वि कहिं पि परिभममाणो इमं असंवद्धक्खरालाव-रइयं चच्चरियं णच्चमाणो ।  
6 अत्रि य । 6  
यदि कश्चिद्विपश्चित् न जातु सखे यदि सर्करसर्करला न भवेत् ।  
यदि चन्द्रमुनीन्द्रमनङ्ग चित्तः यदि सोऽस्ति नमोऽस्तु नमोऽस्तु ततः ॥  
9 एवं च चच्चमाणो कय-वाल-परियारो गामागर-णगर-पट्टणाराम-देवउल-सर-तलाय-तिय-चउक्क-चच्चर-महापह-पहेसु परिम्मस- 9  
माणो इमं विञ्जगिरि-सिहर-कुहरंतरालेसु पत्तो । तओ तण्हा-वुहा-किलंतो, एक्कं-गिरिणइं-पवाह-पत्यर-विचरंतरालन्नि  
पाणियं अणेय-विह-सल्लइं-तमाल-हरइय-वहेडयामलय-पत्त-फल-पूर-णिज्जास-कासाइयं, तं च दट्टणं पीयं जहिच्छाए ।  
12 णिसण्णो छायाए । तओ येव-वेलाए वेलावस-समुच्छलिय-सलिल-सागर-तरंग-रंगंत-सरिसो उदरम्मंतरो जाओ । विरिक्को 12  
उड्डं अहेण य । तओ णीहरिउं पयत्तो । पुणो पीयं, पुणो विरिक्कं । पुणो पीयं जाव सच्च-इोसक्खओ जाओ त्ति ।  
§ २३६ ) तओ पच्चागयं पिव जीविएणं, उइयं पिव दिवायरेणं, उग्वाडियाइं व दिसि-सुहाइं, आगयं पिव वुट्टीए,  
15 संपत्तं पिव सुमरणए, पावियं पिव विवेगेणं, उद्धाइयं पिव वेयणाए, सच्चहा पढमं पिव सत्य-चित्तो जाओ अहं । तओ 15  
चित्तियं मए । 'अहो, किमेयं मम वुत्तं जायं । णिग्गओ विव महाकंताराओ, णीहरिओ विव पायालाओ, उत्तरिओ विव  
समुदाओ, णिच्चुओ संपयं जाओ म्हि । ण-याणामि किं पि अहं आसी, किं ता पसुत्तो हं, किं वा गवभ-गओ हं, किं वा  
18 मत्तो हं, किं उम्मत्तगो, सच्चहा जं होइ सं होइ । भुक्खिओ हं, ता अण्णेसामि एत्य पुप्फं वा, फलं वा' चित्तेमाणेण पलोइयाइं 18  
पासाइं । जाव दिट्ठो अणेय-विह-परिवारो एक्को पसत्य-रुव-व्रंजणायार-संपुण्णो पुरिसो । तेण य ममं पेच्छिऊण पसरमागंतर-  
सिणेह-वात्थिभंगं भणियं 'सागयं तुह मह भाउणो, कत्तो सि आगओ' । मए भणियं 'अहं पुव्व-इेसाओ आगओ' । तेण  
21 भणियं । 'पयट्ठ, वच्चामो गायं' ति भणमाणो गंतुं पयत्तो, आगओ य इमं महापल्लिं । आरुडा एत्य मंदिरोयरे । तओ तेण 21  
आणत्तो विलासिणियणो 'आणेषु पोत्तिए दोण्हं पि' । तओ अव्वंणिय-उव्वट्टिय-मज्जियाणं पविट्ठो देवहरयं । तत्य 'णमो  
अरहंताणं' णिसुए अहं पि हरिस-वसुल्लसंत-पुल्लओ पविट्ठो । वंदिया य मए भगवंतो । चिर-दिट्ठं पिव वंधुं मण्णमाणेण भणियं  
24 तेण पुरिसेण । 'पणमामि साहम्मियं, अहो कयत्यो हं, पसंसणिज्जो हं धण्णो हं कय-पुण्णो अहं' ति । तओ मए वि सहरिसं 24  
सविणयं च पणमिओ । तओ कमेण उव्वविट्ठो भोयण-संडवे । तत्य जं जहा-रुइयं मोत्तुं भोयणं तओ सुहासणव्याण य  
भणियं तेण । 'साहसु, कत्य तुमं, कहं वा एयं देसंतरं पाविओ । कत्य वा इमस्मि णरयामर-तिरिय-मणुय-भव-भीम-पायाल-  
27 किलेसे महाकोव-धगधगंत-कराल-जालाउल-वाडवाणले जर-मरण-रोग-संताव-करि-मयर-जलयर-विथरमाण-दुरुत्तारे बहु-विह- 27  
कम्म-परिणाम-खार-णीसार-णीर-पडहत्थे हत्य-परियत्तमाण-संपत्ति-विवत्ति-मच्छ-पुच्छ-च्छडाभिज्जमाण-तुंग-कुल-तरंग-भंगिल्ले  
राय-रोस-वेला-जल-पसरमाण-पवाहुम्मूलिजंत-वेला-वण-पुण्ण-पायवे संसार-सायरम्मि सिद्ध-पुरि-पावयं जाणवत्तं पिव भगवं-  
30 ताणं वयणं पावियं' ति । 30

1) P त्ति नट्टाणं ॥ 2) P पियं भणिओ विवपियं, P om. मं. 3) P उवाल्हिउं ठिओ, P repeats कहिंचि नच्चमाणो, P नडंतो for णिवडंतो. 4) J पहावंतो, P पहावंतो, P निम्मल्लवुद्धसुंडेमालो. 5) P चच्चरं. 6) P अपि च for अवि य. 7) P कश्चिद्विपश्चित्, J सर्कर सर्कर न भवेत्, P भवे. 8) P चंद्र, J चंद्रमर्तिद्रं, P 'मनागतितयदि, J सोस्तु P सोस्ति. 9) J च णच्चमाणो, P om. सरतलाय, P महापहेनु. 10) P सिहरंतरालं पत्तो, P गिरिणइं. 11) P विहइंतमाउ, P हरइवहेडओमत्तय, P कसाइयं, J adds तओ before तं च. 12) J थोव for येव, J 'वसमुच्छलिय, J सायर, P सागरतरंगंत, J उरम्मंतरो, P उदरम्मंतरो, P विरिक्के. 13) P adds सो जाओ पुणो पीयं between पयत्तो । and । पुणो, J जा for जाव. 14) J दित्तिवहाइं. 15) P संपत्तं for संमत्तं, J उद्धाइयं P उद्धाइयं, J वेतणाए, J जाओ हं. 16) P उदरिओ इव. 17) J त्ति for त्ति, P मह for पि अहं, J आस्ति, J गवमगतो P गवमओ. 18) P किं वोमत्तगो, J भुक्खित्तो, J व for वा after फलं. 19) J संपण्णो, P मं ते for य ममं, J 'माणंतन्तरं'. 20) P गव्धिभंगं भणियं, P मायत्तोणो for मारणो, P om. आगओ after देसाओ. 21) P इमं पल्लिं, J मंदिरोयरो. 22) P विलासिणीयणो, P पोत्ती दोण्हं, P आच्चंणिय, P उव्वत्तिअ, P तओ for तत्थ. 23) P अरिहंताणं, P मए for णिसुए, P दिट्ठं. 24) P om. पुरिसेण, P धणो for धणो, P om. हं, J हं for अहं. 25) P च, P उव्वविट्ठो, P जहारययं भोत्तुं [भोत्तं भोयणं ।]. 26) J पाविअं 1, P इमस्मि नरयामरयामर. 27) P कस्से for किलेसे, P वडवानले, J नरणारोग, P दुरुत्तारे for दुरुत्तारे. 28) P व्यापर for खार, P पडिहत्थे, J विवत्तिअ. 29) P रंगिहो for भंगिल्ले. 29) P पसरमागवदाहुम्मूलि', P रण for वण, J पावियं तेण । जाणं. 30) P adds पिव before

1 § २३७ ) मए भणियं । 'रयणपुरे रयणचूडो णाम राया । तस्स पुत्तो हं दप्पफलिहो णामं ति । धम्मो उण तेणेय 1  
भगवया पचेय-बुद्धेण होज्जण साहिओ । उम्मत्त-जोएण य परव्वसो एत्थ अरण्णे पाविओ' ति । एवं च साहिए समाणे 1  
3 भणियं तेण । 'किं तुमं सोमवंस-संभवस्स रयणमउडस्स पुत्तो । दे सुंदरं जायं, एक्को अम्हाण वंसो । तुमं एत्थ रजे 3  
होसु संपयं' ति भणमाणेण सदाविया सव्वे सेणावइणो । ताण पुरओ सिंहासणत्थो अहिस्सित्तो अहं । तेण भणिया य ते  
सेणावइणो । 'भो भो, एस तुम्हाणं समयट्टियाणं राया पालओ । अहं पुण जं रुइयं अत्तणो तं करीहामि' भणिए तेहिं 3  
6 'तह'त्ति पडिवणं । तओ णिग्गओ तक्खणं चेय सो राया । तस्स य मग्गालग्गा अम्हे वि णीहरिया । तओ थोयंतरं 6  
गंतूण भणियं णेण 'सेणावइणो, वच्चह, णियत्तह तुब्भे । खमियव्वं जं किंचि मज्झ दुव्विलसियं । परियालेयव्वाओ ताओ  
तुब्भेहिं पइण्णाओ पुव्व-गहियाओ'त्ति भणमाणो गंतुं पयत्तो । ते वि भूमि-णिवडिया उत्तिमंगेण गलमाण-णयणया णियत्ता  
9 सेणावइणो । अहं पि थोयं पएसंतरं उवगओ तेण भणिओ 'वच्छ, दे णियत्तसु । केवलं एए मिच्छा जइ समयाइं 9  
पालयंति पुव्व-गहियाइं । तओ तए पालेयव्वा, अहवा परिच्चएयव्व ति । अणं च,

संसार-सायरम्मि दुक्ख-सयावत्त-भंगुर-तरंगे । जीवाण णत्थि सरणं मोत्तुं जिण-देसियं धम्मं ॥

12 तम्मि अपमाओ कायव्वो' ति भणमाणो पव्वसिओ । ण उण केणावि णाओ कहिं गओ ति । एवं पुण मए विगप्पियं गंतुं 12  
अणगारियं पव्वज्जमब्भुववण्णो'त्ति । तप्पभुइं च कुमार, पेच्छामि इमे मेच्छा ण मारंति तण-जीवाणं, पसुं ण घाएंति  
अघायमाणं, ण हणंति पलायमाणं, ण भणंति कूड-सक्खेज्जं, ण लुंपंति अप्प-धगं पुरिसं, ण मुसंति महिलियं, ण छिवंति  
15 अवहत्थयं, मुसिज्जण वि पणामंति थोयं, ण नेपहंति अणिच्छं जुवइयं, तं पडिवज्जंति भगवंतं भव-विणासणं देवाहिदेवं ति । 15  
तओ कुमार, कालेण य वच्चमाणेण अकायव्वं पि काउं समाढत्तं, जेण महंतो मोहो, गरुओ कोवो, महामहल्लो माणो, दुज्जओ  
लोहो, विसमा कुसील-संसग्गी, सच्च-कम्म-परायत्तणेणं जीवाणं । अहं पि तं चेय चोर-वित्तिं समस्सिओ ति । दिट्ठं चिय  
18 तुब्भेहिं । तओ चित्तियं मए । 'अहो, अकल्लाणो एस मेच्छ-पसंगो । ता मज्झ एस मेच्छ-वावार-विणडियस्स एयं पि 18  
अणेय-भव-परंपरा-पवाह-पूर-पसर-हीरमाणस्स कुसमयावत्त-गत्तावडियस्स इमं पि पम्हुसीहिइ भगवओ वयणं ति । तेण मए  
आणत्तो एस पुरिसो जहा 'अहं लोहेण इमं एरिसं अवत्थं पाविओ, तेण लोह-दंडेण ताडेयव्वो दियहे दियहे इमं भणमा-  
21 णेणं'ति । ता एत्थंतरे पुच्छियं तए जहा 'को एस पुरिसो, किं वा तुमं पि इमिणा पहओ' ति । तुह पुण पुरओ ताडियस्स 21  
महंतो महं उव्वेओ जाओ'त्ति ।

§ २३८ ) तओ भणियं कुमारेण । 'अहो महंतो वुत्ततो, महासत्तो रयणमउडो, महात्तिसओ पचेय-बुद्धो, दुल्लहो 24  
जिणवर-मग्गो, महंतो उवयारो, णीसंगा रिसिणो, महंतं वेरं एग-दव्वाभिलासित्तं, दुज्जओ लोह-पिसाओ, णिव्विवेगा 24  
पाणिणो, पयईए अणुवगय-वच्छला महापुरिसा, परिच्चयंति चक्खट्टिणो वि रज्जं, होइ चिय साहम्मियाण सिणेहो । परि-  
वालेंति मेच्छा वि किं पि कस्सइ वयणं ति । अवि य,

27 ण य अत्थि कोइ भावो ण य वुत्ततो ण यावि पज्जाओ । जीवेण जो ण पत्तो इमम्मि संसार-कंतारे ॥ 27  
ता संपयं परिहरसु णिक्करुणत्तणं, मा अणुमण्ह चोर-वित्तिं, उज्जमसु तव-संजमम्मि, अब्भुट्टेसु जिणवर-मग्गो, उज्जसु चंचलं  
लच्छिं । अवि य ।

30 रज्ज-सिरीओ भोगा इंदत्तणयं च णाम अणुभूयं । जीवस्स णत्थि तुट्ठी तम्हा उज्जाहि किं तेण ॥ 30  
एवं च कुमार-कुवल्लयचंदेण भणिए, जंपियं दप्पफलिहेणं 'एवं च एयं ण एत्थ संदेहो ति । अह उण कुमारस्स रूव-विण्णाण-  
णाण-कला-कलाव-विणय-णय-सत्त-सार-साहस-दक्खिण्णाइहिं गुणेहिं साहियं जहा महाकुल्ल-णहयल-मियंको महापुरिसो ति ।  
33 इमं पुण ण-याणामि कयरं तं कुलं, किं वा कुमारस्स सव्व-जण-हियय-सुहयं णामं ति । ता करेउ अणुगहं कुमारो, जाणिउं 33

1 > J भणियं । रयणाचूडो णाम रयणपुरे अत्थि राया । 2 > P भगवया पुत्तयवद्धेण, J पारव्वसो, P एत्थारजे. 3 > J संभमो  
त्ति रयणं. 4 > P सिंहासणत्थो, J अभिसित्तो. 5 > P सेणावइणा, P adds एक्को before भो भो, J तं कीरीहामि. 6 > P थोयंतरं,  
7 > J णेण P तेण for णेण, P om. मज्झ, P परिव्वाले. 8 > J पइण्णाइ पुव्वगहिआहि भणं, P -निवडिओत्तिमंगा. 9 > P  
थोयंतरं पएसं उवगतो, J om. भणिओ, JP एत्ते for एए, J समयाइं वालयंति. 10 > J पालेअव्वो P पालियव्वा, J परिव्वएतव्व.  
11 > P सायरंमी. 12 > P अप्पमाओ, P पव्वेसिओ, P हं किं वि for कहिं, P एयं पुण, J विअप्पियं. 13 > J पव्वज्जा  
अव्वु, J P तप्पभूइं, J पेच्छा for मेच्छा, P मारंति, J तणजीवणं, P घायंति. 14 > J om. ण हणंति पलायमाणं, P -सव्वेज्जं, J  
लुंपंति, P अत्तधणं. 15 > J पणामंति, P थोययं, J अणेण्हंति for ण नेपहंति, P अणिच्छियजुवइं, J om. तं, J भगवंतं रुज्ज  
विण्णासदेवा. 16 > P om. कुमार कालेण य etc. to लोहो विसमा. 17 > J परअत्तणेणं, P चोरयवित्तं. 19 > P कुसुम-  
यावत्तं, J पम्हुसीहिइति, P भगवया. 20 > P जहालोएण इमं, P adds ति । after पाविओ, J भणमाणएयं ति. 21 > P एयं  
तए for एत्थंतरे, P ति for तए, J om. वि. 22 > J मह उव्वेणो, P उव्वेवो. 23 > P महं for महंतो, P महात्तिसओ पचेय.  
24 > J संगो for णीसंगा, J दव्वाभिलासित्तं. 25 > J संति for पयईए, P repeats महा, J परिच्चयति, P om. वि, P साहम्मि-  
याणंमि. 27 > P कोइ for कोइ, P जोग for जो ण. 28 > P adds वि after संपयं, J om. मा, P उव्वुट्टेसु. 30 > J भोगो  
for भोगा, P उज्जाहि. 31 > P भणियं for भणिए, P om. च, J इमं for इमं. 32 > J om. पय, P om. मार, J दक्खिणा-  
तीहिं, J साहिउं, P इयं for इमं. 33 > P om. तं, P inter. कुमारो ऽ अणुगहं, P ज्ञानंअभिच्छान्तिं.



1 इच्छामि'त्ति । तत्रो कुमारेण भणियं 'अच्छउ ता सयलं जंपियव्वं । पुच्छामि पुच्छियव्वं किंत्वि तुम्हे' । तेण भणियं 'पुच्छउ 1  
कुमारो' । कुमारेण भणियं 'जो सो दढवम्मो णाम राया अयोज्जाए पुरवरीए तुज्ज पित्तिवो, तस्स किं कोइ पुत्तो अत्थि,  
3 किं वा णत्थि'त्ति । तत्रो तेण दीहं णीससिऊण भणियं 'कुमार, कत्तो एत्थियाइं पुण्णाइं । एक्कं पुण मए एकस्स देसियस्स 3  
वयणाओ सुयं जहा दढवम्म-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविओ । पुणो ण-याणामि किं तत्थ वत्तं । को वा एत्थ  
मज्झ-गिरि-सिहर-विवरंतराल-महागहणेसु सायत्तो पइसइ'त्ति । कुमारेण भणियं 'अहं सो जो सिरिप्पमायओ लद्धो दढवम्म-  
6 राइणो पुत्तो, णामं च महं कुचलयचंदो'त्ति । एवं च उल्लविय-मेत्ते अभिधाविऊण भाउओ त्ति काउं कंटे गहिऊण रोइउं 6  
पयत्तो, तत्रो परियणेण संठविया, गहियं च णयण-धोवणं जलं, उवविट्ठा आसणेसु । तत्रो पुच्छियं दप्पफलिहेणं 'भणसु,  
केण उण वुत्तंतेण तुमं एगागी एत्थ य संपत्तो, किं कुसलं राइणो दढवम्मस्स, कहं दढा देवी सामा, अवि थिरं रज्जं' ।  
9 एवं च पुच्छिए साहियं सयलं वुत्तं कुमारेण । संपयं पुण विजयणयरीए कुचलयमाला संबोहेयव्वं त्ति । एवं च पिय-कहालाव- 9  
जंपिएहिं अच्छिऊण दोण्णि त्तिण्णि दियहाइं, भणियं च कुमारेण 'ताय, जइ तुमं भणसि, तत्रो वच्चामि अहं विजयपुर-  
वारि'त्ति ।

12 § २३९ ) इमं च सोऊण भणियं दप्पफलिहेण 'कुमार, कत्थ गम्मए एरिसेसु दियहेसु, किं ण पेच्छसि, दव-दइ- 12  
विंज-पव्वय-सिहर-सरिच्छाइं वड्डमाण्णाइं णव-पाउसम्मि, पेच्छसु सुहय, णवव्भाइं दीसंति ।

कोमल-तमाल-पल्लव-णीलुव्वेहंत-कोमलच्छाया । कत्थइ गय-कुल-सरिसा मिलंति मेहा गयण-मग्गे ॥  
15 कत्थइ वण-सर-हिक्कास-कास-वहलद्ध-लग्ग-मइलंगा । वण-महिस व्व सरहसं वियरंति य मेह-संवाया ॥ 15  
अणुमग्ग-लग्ग-भंगुर-जरढ-महापत्त-पत्त-सच्छाया । करि-मयर व्व सरोसा कत्थइ जुज्जंति वारिहरा ॥  
पलउव्वेहिर-हहिर-समुद्ध-वेला-तरंग-रंगंता । पवण-वसुच्छलमाणा कत्थइ जलयावलि-णिहाया ॥  
18 डंडाहय-कुविय-भुयंग-भीम-भिंंग-सामलच्छाया । वियरंति कत्थइ णहे असुर व्व सकामिणो जलया ॥ 18  
इय सामल-जलय-समाउलम्मि णव-पाउसस्स वयणम्मि । को मुंचइ दइय-जणं दक्खिणं जस्स हिययम्मि ॥  
एवं च भणिओ समाणो ठिओ कुमारो । तम्मि य काले केरिसो पवणो वियरिउं पयत्तो । अवि य,

21 णव-पच्चमाण-सहयार-गंध-पसरंत-परिमलग्वाओ । वियरइ वणंतरेसुं कत्थइ पवणो धमवमंतो ॥ 21  
पढमोवुट्ठ-महीयल-जल-संगम-संगलंत-गंधड्डो । घायइ सुरही पवणो मय-जणओ महिस-वंद्राणं ॥  
धूली-कयंव-परिमल-परिणय-जरढायमाण-गंधिल्लो । सिसिरो वियरइ पवणो पूरंतो णासिया-विवरे ॥

24 इय पसरमाण-खर-फरुस-मारुया वेय-विहुर-भुय-पक्खा । रिट्ठा करंति णट्ठं कह-कह वि कल्लिच-णिवहेहिं ॥ 24  
पढमोवुट्ठे य पुहइ-मंडले किं जायं । अवि य उट्ठिभज्जंति णव-कोमल-कंदल-णिहायइं । णच्चंति वरहिणो गिरिवर-विवर-सिह-  
रेसु । दीण-विमणओ पावासुय-वरिणीओ । उट्ठिभज्जमाण-णवंकुर-रेहिर पुहइ । आउलीहोति जणवया । सज्जंति पवा-मंडवा ।  
27 हल-लंगल-त्रावड हलिय । णियत्तंति पंथिय । हज्जंति गामेसु घरइं । णिय-चंचु-विरइय-घरोयरे संठिय चडय । कीरंति 27  
मट्ठिया-गहणइं भगवेहिं । वज्जंति वरणावंधइं कासएहिं । जलं जलं ति वाहरंति वप्पीहय-कुत्था य । कल्लिचय-त्रावड-विसर-  
मुह-धम्मलाम-मेत्त-लद्धावलद्ध-वित्ति-परवसइ संठिय तव-णियम-सोसिय-सरीर-सज्जाय-ज्जाण-त्रावड साहु-भडरय त्ति ।

30 णव-पाउसम्मि पत्ते धाराहय-धोरगेहिं तूरंतो । को य ण करेइ गेहं एक्क च्चिय कोइला मोत्तुं ॥ 30

§ २४० ) तत्रो एरिसे णव-पाउसम्मि किं कुणंति पउत्थवइयाओ । अवि य । 30

सुरयावसाण-चुंवण-समय-विदिण्णम्मि ओहि-दियहम्मि । लेहा-विगणिय-पुण्णम्मि णवरि जीयं विणिक्खित्तं ॥

33 सहि-दंसगेहि दियहं राइं उण सुविण-विप्पलंभेहिं । दइया-दिण्ण-दिणं पिव गयं पि मुद्धा ण-याणाइ ॥ 33

1 > J आसवलं for ता सयलं, J om. पुच्छामि पुच्छियव्वं, P तुम्हे for तुम्हे. 2 > P जं for जो, P दढधम्मो, P om.  
अयोज्जाए पुरवरीए. 3 > P कुओ for कत्तो, P देसियवणाओ. 4 > J णिसुयं for मुयं, JP दढधम्मो, J महाराइणा,  
J पुत्तवरो, J पत्तं for वत्तं, P को वि एत्थ मज्झसिरि-. 5 > J सिहरकुहरंतराल, J adds को before सायत्तो, P साइत्तो,  
P om. जो, P सिरिप्पायलद्धो, J adds य before लद्धो, JP दढधम्म-. 6 > J adds सो अहं before णामं, P मेत्त for मेत्ते,  
P भाउगो. 7 > J adds य before संठविया, J -धावणं, P दप्पफलिहेणा. 8 > P om. य, J P दढधम्मस्स, P महादेवी  
for दढा देवी. 9 > P पुच्छिए सयलं पि साहियं वुत्तं. 10 > P जपिरेहिं, P दो for दोण्णि, J विजयं पुरवारि-.  
12 > P दढफलिहेण. 13 > P समाणाइं for सरिच्छाइं, P नवत्राइं. 14 > J गयउलसरिसा P कुलगदसरिसा मिलंते. 15 >  
J वहलदलग्ग, P तण for वण, P सहरिसं for सरहसं. 17 > J पल्लवुव्वे, J रंग व्व P रंगं वा । 18 > J कुवियमहाभुयंगभिंणिय-  
19 > P पाउत्तवयत्त. 20 > P om. च. 21 > J गल for गंध, P पल्लिमलग्वाओ. 22 > J वुट्ठ & P वुट्ठ for वुट्ठ. 23 > P  
जहारमागंधड्डो, J -गंधिल्लो. 24 > P निच्चं for णट्ठं, P om. दि. 25 > P पढमो वुट्ठो य, P वहिणगिरिवरदीग. 26 > J उज्जंति,  
P सज्जंति for सज्जंति (emended), P -मंडव. 27 > P -लंगल for लंगल, P गामे for गामेसु, P घरोयरसंठिय, P विवड for वटय-  
28 > P वंथंति, P वग्गेहिं for कासएहिं, J जलजलं, P कल्लिचवावडविहं मुह-. 29 > J धम्मलाम, J om. लद्धाव, J om. वित्ति, P  
सज्जाय, J वावडसाधुगन्धयर च त्ति, P -चडरय त्ति, J adds अवि य after त्ति. 30 > J धारासरोरणीहि दूरंतो, P नद  
for य. 31 > J एरिसम्मि for एरिसे, J पउत्थवइयड. 32 > J चुवणं for चुंवण, J विदिण्णम्मि, P लामा for लेहा, J णवर जीयं,  
P जीवा विणिक्खित्तो. 33 > P मदिदंसगेहि, J राइंजगमुद्ध, J दइअदयादिण्णदिणं गयं.

- 1 अणुदियहं पि गणेंती तं दियहं. गेय जाणए मुद्धा । भीमेहिं रक्खसेहिं व हिय-हिययाः काल-मेहेहिं ॥ 1
- अणुसमय-स्यंतीए वाह-जलोयालि-महल-वयणाए । पेच्छह जलओ जलओ गय-लज्जो गजए उवरिं ॥
- 3 मा जाण ण वज्झाईं मा ए मलिणाईं विंझ-सिहराईं । सहियायण-वेलविया मुच्छा-विरमे समुससिया ॥ 3
- गजसि अलज्ज विज्जुज्जलो सि. दे गज जलय मा उवरिं । झीण-सिरिएण तेण उज्झिय-झीणाए वालाए ॥
- इय णव-जलहर-माला-मुहल-मिलंतेहिं को ण जूरविओ । तव-संजम-णाण-स्यं साहु-जणं णवर-मोत्तुणं ॥
- 6 तओ तं च तारिसं लक्खिज्जण अहिणव-मलिण-जलय-माला-संव्वलंतुवेहमाण-बलायावली-कय-कवाल-मालालंकारे इत्ति 6
- तइय-णयणग्गि-विलसंत-विज्जुलए गजिय-भीमट्टहास-णच्चणाबद्ध-केली-वावड-हर-रुव-हरे मेघ-संघाए गजंत-मेह-सद्-संका-  
लुएसु पलायमागेसु. माणस-सरवर-माणसेसु मुद्ध-रायहंस-कुलेसु चित्तिं कुमारेण । अवि य ।
- 9 कसिणाण विज्जु-पुंजुज्जलाण गजंत-भीम-णायाणं । मेहाण. रक्खसाण व को चुक्कइ णवर पंथस्मि ॥ 9
- ता ण जुज्झइ मह पंहं पडिविज्जिज्जण । एवं च पडिवण्णे णव-पाउस-समए तेण भाउणा सह अणुदियहं वड्डमाण-सिणेह-भावो  
अच्छिउं पयत्तो । तओ कमेण य संपत्तेसु इंदमह-दियहेसु कीरमाणसु महाणवमीसु होंत-मणोरहेसु दीवाली-छण-महेसु
- 12 पयत्तासु देवउल-जत्तासु वोलिए बलदेवूसवे णिप्फज्जमाणेसु सव्व-सासेसु बद्ध-कणिसासु कलमासु हलहल-वड्डिरेसु 12
- पुंढेच्छु-वणेसु वियसमागेसु तामरस-संडेसु कय-कंदोद्ध-कण्णपूरासु सालि-गोवियासु डेकंतेसु दरिय-वसहेसु कोमल-वाल-  
मुणाल-वेहल-बाहुलइयालंकार-धवल-बलयावली-ताल-वस-खलखलामुहलालाव-गीय-रास-मंडली-लीला-वावडेसु गामंगण-
- 15 गोट्ट-जुवाण-जुवल-जणेसु चित्तिं कुमारेण । गंतव्वं मए तेण कज्जेणं । अवि य । 15
- तं णारहंति कज्जं जं ण समाणेंति कह वि सप्पुरिसा । आढत्ते उण जीयं वयं व णियमाः समाणेंति ॥
- ता ण जुत्तं मज्झ असमाणिय-कज्जस्स इह अच्छिउं' ति चित्तंतेण भणिओ दप्पफलिहो ॥ अवि य । 18
- 18 'जायस्स केण कज्जं अवस्स णरणाह सव्व-जीवस्स ।' 18
- णरवइणा भणियं ।
- 'जइ सीसइ तुम्ह फुडं जायस्स तु मच्चुणा कज्जं ॥'
- 21 कुमारेण भणियं 'अहो जाणियं, अण्णं पि पण्हं पुच्छिमो' । अवि य । 21
- 'इट्टस्स अणिट्टस्स व संजोए केण कह वा होयव्वं ।'
- भणियं च सेणावइणा । 24
- 24 'को व ण-याणइ. एयं संजोए विप्पओएणं ॥'
- § २४१ ) इमस्मि य णरवइणा उल्लविए समाणो जंपियं कुमारेणं सहासेण । 'जाणियं तए संजोए विप्पओएण  
होयव्वं, ता वच्चांमि अहं तेण कारणेणं' ति । णरवइणा भणियं 'किं अवस्सं गंतव्वं कुमारेण । जइ एवं, ता अहं पि सयलं  
27 परिच्छइज्जण रज्जं वच्चांमि कं पि पएसं । तथ अणगारियं पव्वज्जमव्भुवेहामि' ति भणमाणा णीहरिया ताओ पल्लीओ । भणियं च 27
- णरवइणा 'अहं सव्व-बल-वाहणो चेव तुह सहाओ तं विजयपुरवरिं वच्चांमि' । कुमारेण भणियं 'ण एव, केणा किं कज्जं ।  
जेण दुग्गमो देसो, हूरं विसयंतरं, बलवंता णरवइणो अणुबद्ध-वेरा, तुव्वे थोवं वलं ति, तेण एको चेय. सत्त-सहाओ तं
- 30 कज्जं साहेहामि' । तेण भणियं 'जइ एवं. ता अभिप्पाय-सिद्धी होउ-कुमारस्स' । कुमारेण वि. भणियं । 'एवं होउः गुरूणं पसाएणं' ति 30
- भणमाणेण समालिंगिओ । पडिओ पाएसु कुमारो, पणमिओ य साहम्मियस्स । 'वंदामि' ति भणमाणो चलिओ कुमारो  
दक्खिणं दिसाभोगं । तओ णरवइं वि ठिओ पलोएंतो कुमार-हुत्तं ताव जा अंतरिओ तरुण-तरुवर-वण-लयाः गुम्म-गहणेहिं

1 > P गणंती तं दिवहं, P महिला सा for व हियहियया. 2 > P अणवरय स्यंतीए वाहजलोरल्लिधोयनयणाए । 3 > J वहाइं for वज्झाईं, P । मयसहियण. 4 > P जलय मा एवं । उवरिह वारिएणं विओयज्झीणीए वालाए । 5 > J साहुअणं. 6 > J -जलिय, P -वेहमाण, J -पलायावली. 7 > J °णावंधं, J केवली for केली, P संकालएसु. 8 > J °पलाय', J repeats मुद्ध, J °हंसउलेसु. 9 > J भीममायाण ।, P महाण for मेहाण. 10 > P om. च, P समं. for सह, J अणुदिअहा, JP वट्टमाण J सिणेहोवयारो वोलिविउं पयत्तो. 11 > P om. य, P adds वोलिए बलदेवूसवे, P निप्पज्जमाणेसु, J सव्वसस्सेसु. 13 > J पुण्णच्छरणेसु P पुत्रच्छुवणेसु, J वणेम for for जत्तासु, P om. वोलिए बलदेवूसवे, P निप्पज्जमाणेसु, J सव्वसस्सेसु. 14 > P तालवसलामुहलाराव, J गेसय for राय, J ला संडेसु, J -जलासु for पूरासु, J साल, P सालिणावियासु डेकंतेसु, J वसभेसु. 15 > P गोह for गोह, P जुवलज्जलेसु, J adds ति before चित्तिं. 16 > J तण्णारहंति P तं नारहंति, & P कीला for लीला. 17 > P गोह for गोह, P जुवलज्जलेसु, J adds ति before चित्तिं. 18 > J जीयस्म for त्रयस्म. 20 > P तुव्वं for तुव्वं, J जातस्स, P उ for तु. 21 > J जाणियं अ अण्णं पि मच्च पुच्छिमो. 22 > P कह वि for कह व. 23 > J for ताओ. 24 > P विजयपुरिं सस्स वच्चांमि, J om. केण. 25 > P एयंमि for इमस्मि, P विप्पओणं. 27 > P वि ति for कं ति, P ओ P om. च. 28 > P विजयपुरिं सस्स वच्चांमि, J om. केण. 29 > P तुव्वे थोवं. 30 > P साहेहामि, J adds तुहं before होउ, P om. ति. 32 > P दक्खिणदिसिभागं, J दिसाभोगं, J om. कुमारहुत्तं, P जइ for जा, P तण्णरवणाव्वं.

- 1 ति । तत्रोः आगओ गेहं । दक्षिणऊण दक्षिणणिजे संमाणऊण संमाणणिजे संडाविऊण पणइयणं काऊण करणिजं दाऊण 1  
 दायवं भोत्तूण भोजं तक्खणं चेष णीहरिओ । अदिमंतर-वर-त्रियरमाण-विरह-जलण-जालावली-तत्रिजंतुवत्तमाण-णयण-पलाल-  
 3 माल-सकज्जल-वाह-जल-पवाह-पूर-पसर-पव्वाल्लिजंतो पलोइजंतो दीण-त्रिमणेणं विलासिणियणेणं णीहरिओ सो महासत्तो । 3  
 § २४२ ) कुमारो वि क्रमेण क्रमंतो अणेय-गिरि-सरिया-महाडईओ य बोलेमाणो णाणाविह-देस-भासा-दुल्लक्ख-जंपिय-  
 व्वयाहं बोलेमाणो अणेय-दिव्व-विजाहर-मणुय-वुत्तंते पेच्छमाणो संपत्तो तं दाहिण-मयरहर-त्रेला-लगं विजयापुरवरी-विसयं ।  
 6 दिट्ठं च तं कुमारेण । केरिसं । अवि य, वाण-खेव-सेत्त-संठिय-महागासु । गामोयर-पय-गिक्खेव-सेत्त-संठिय-णिरंतर-धवलहर 6  
 धवलहर-पुरोहड-संठिय-वणुजाणु । वणुजाण-मज्झ-फलिय-फणस-गालिपुरी-वणु । गालिपुरी-वण-त्रलग-पूयफली-तरुय 6  
 तरुयारूढ-गायवली-लया-वणु । वणोत्थइयासेस-वण-गहणु । वण-गहण-गिरुद्ध-दिणयर-कर-पव्भारो य त्ति । अवि य ।  
 9 चंदण-णंदण-पुला-तरुयर-वण-गहण-रूढ-संचारो । साहा-णिमिय-करगो वियरह सूरु पयंगो व्व ॥ 9  
 जहिं च सुह-सेवओ तरुयर-च्छाइओ सुपुरिस-पाय-च्छाहिओ व, वहंति कीर-रिंओलियउ लोयय-उत्तओ व, महिजंति सज्जण-  
 समानमइं इट्ठ-देवयइं व, उण्णयइं तरुयर-सिहरहं सपुुरिस-हिययइं व । धावंति तण्णय पामर व्व, गायंति जुवाणां  
 12 माहवी-मयरइं-सुइय-मत्त-महुयरी व त्ति । जहिं च सीयलइं सकज्जइं ण परकज्जइं, मणंति पहिय-वट्टइं ण पुत्त-भंडइं, 12  
 पसंसिजंति सीलइं ण विहवइं, लंघियवइयइं उच्छु-वणइं ण कलत्तइं, जलाउलइं वप्पिणइं ण जण-संघयइं ति । जहिं च  
 मयल-वुम्मिरायवुलोयण णंगल-वियावड य वलदेवु जइसय पायर, अण्णिण पणि वाल-कालि णारायणु जइसय रंभिर-गो-  
 15 वग-त्तण्णय-वावडा गोव-विलासिणी-धवल-वलमाण-णयण-ऊडक्ख-विक्खेव-विलुप्पमाण व, अण्णिण पणि संकर-जइसय भूइ- 15  
 परिभोग-डेक्कंत-द्रिय-वसहेक्क-वियावड व त्ति । अवि य ।

बहु-सुर-णियर-भमंतर-दिव्व-महा-तरुवरेहिं उच्छइयं । बहुयण-सहस्स-भरियं सगं पिव सहइ तं देसं ॥

- 18 तं च तारिसं देसं मज्झं-मज्जेण अणेय-नाम-जुवइयण-लोयणेंदीवर-माला-पूइजंतो गंतुं पयत्तो । तत्रो क्रमेण य दिट्ठा सा 18  
 विजया णयरी । केरिसा ।

§ २४३ ) अवि य । उत्तुंग-धवलहरोवरि-पवण-पहय-विलसमाण-धवल-विमलुज्जल-कोडि-पडाया-णिवह-संकुला,

- 21 णाणाविह-वणण-रयण-विण्णाण-विण्णास-विणिम्मविय-इस्मिय-सिहरग-कंचण-मणि-घडिय-पायार-वलय-रेहिर-विहुम-मय- 21  
 गोउर-कवाड-मणि-संपुड त्ति । जा य लंकाउरि-जइसिय थीर-पुरिसाहिट्ठिय ण उण वियरंत-रक्खसाउल, धणय-पुरि-जइसिय  
 धण-णिरंतर ण उण गुज्जय-णिमियत्थ-वावार, वारयाउरि-जइसिय समुद्ध-वलय-परिणय ण संण्हिय-गोविंइ । जहिं च ण  
 24 सुव्वंति ण दीसंति वयणइं बहुयणहो खलयणहो व । जहिं च दीसंति रमिजंति य दोलइं लायलइं च धवलहरेसु कामिणी- 24  
 वयणेसु त्ति । किं बहुणा,

सिरि-सोहा-गुण-संघाय-विहव-दक्खिण-णाण-भासाण । पुंजं व विणिम्मविया विहिणा पलयगिग-सीएण ॥

- 27 तीए णयरीए उत्तरे दिसि-विभाए णोसहो णिसण्णो राय-त्तणओ चित्तिउं पयत्तो । 'अहो एसा सा णयरी विजया जत्य सा 27  
 साहुणाः साहिया कुवलयमाला । तो केण उण उवाएण सा मए दट्ठवा । अहवा दे पुच्छामि कं पि जणं ताव पडत्तिं । को  
 उण एवं त्रियाणइ । अहवा पर-त्तित्त-त्तगय-वावारो महिलायणो, उद्ध-रच्छा-जीवणो चट्ट-जणो य । ता जहा सललिय-सहिण-  
 30 मिट्ट-सुहुमंगुली-सणाह-चलण-पडिंविं-लंछिओ मग्गो दीसइ एसो, तद्वा लक्खेमि इमिणा उदय-हारिया-मग्गेण होयवं । 30

2 ) J अचमंतर, J तविज्जमाणणयणथलणणाल, P °वत्तमाणानयण- 3 ) P वाहलपवाह, J °पवाह, P पव्वाल्लिजंतो अवलो-  
 इजंतो, P विलासिणीनीहरिओ. 4 ) P गिरिया, J दुल्लक्ख P दुल्लक्खं. 5 ) P adds जणव्वयाइं after जंपियव्वयाइं, P trans-  
 poses तं after लगं. 6 ) P om. तं, J om. केरिसं, P वाणक्खेव, P महागाम, J गामोअरपाणक्खेवमेत्त, P धवलहरा । धवलपुरो°.  
 7 ) J -पुरोहड, P मंडिय for संठिय वणुजाणु, P om. फलिय, P -नालिपरिवण ।, J णालिपरिवण, P पूयफलीतरुयर. 8 ) J  
 लयाजणु, J गहणरूढ, P पव्भार, J P व for य. 9 ) J चंदण for णंदण, P एया for एला, J पयंगो. 10 ) J च्छाहिओ,  
 P सुपुरिस, पायच्छाहिओ, P om. वहंति कीररिंओलियउ लोययउत्तओ व, J सज्जणपसमागमइं. 11 ) P तरुअसिहरइं, P द्विययं व  
 J धावंति तणुयपामर च धायंति आवाणा माहवी. 12 ) P मउय for मुइय, J महुअर व, J महिय for पहिय. 13 ) P सीयलइं  
 ण, J उच्छुरयइं, J om. ण कलत्तइं, P जिग for जण, P संघयइं, P जहिं च पामरसयणवुम्मुराणं यं च लोयणंगंर- 14 ) J P  
 व for य, P अत्रे पुण वालकालनाराणु, J वालकालिनारा°, P रंभिरा°. 15 ) J तणुअवावड, P धवलदलमाण, P om. विक्खेव, P  
 P अण्णे पुणु, J संसर- 16 ) P वक्खेक्क. 17 ) P बहुमुरदिवगणिरंतर, P तरुवणेहिं, J उ for ने. 18 ) J om. तं च तारिसं  
 देसं, P देसमज्झं, J जुवइयणलोयणेंदीवर P जुवइयणलोयणेंदीवर, P om. य. 20 ) J धवलहरोवर, P विमलुव्वज्जल, P संकुल°.  
 21 ) P विण्णास for विण्णाण, P विण्णविय, J पावाल for पायार, P रेहिरे- 22 ) J जच्च for जाय, P वियरंत, P  
 धरियपुरिसज्जइसिय. 23 ) P गुज्जयनमिअय, P जइसिया, P सधिविवा, P जइं च दीसंति न न्वांति वययइं बहुवयणहो.  
 24 ) J adds च after वयणइं, J च for व, P रमिजंति चंडावडइं द्रायलइं च. 26 ) J एण for णाण, J विणिम्मविणं,  
 P इलदग्गभीपन. 27 ) J वीय, P दिसाविहाए नित्तहो निसा, P एय for जत्य. 28 ) J repeats साहुणा, P ता for  
 तो, P किं पि for कं पि, P repeats वट्टज्जो for चट्टज्जो. P ता जललिय. 30 ) J मिट्ट for मिट्ट, J लंछिनो, J उअय, P  
 उदयपरिदा.

- 1 ता फुडा होहिह एत्थ मे पउत्ती, ता इमिणा चेव वचामि' ति चित्तंयतो समुट्ठिओ कुमारो । जाव थोवंतरं गओ ताव पेच्छइ 1  
 2 णायरिया-वंदं जल-भरियारोविय-कुडयं । तं च दट्टण तस्स य मग्गालग्गो णिहुय-पय-संचारो गंतुं पयत्तो । भणियं एक्काए  
 3 णायरियाए 'मा, एसा उण कुवलयमाला कुमारिया चेय खयं जाहिह, ण य केणइ परिणावेहिह' । अण्णाए भणियं 'किं ण रूवं 3  
 सुंदरं । किं तीय ण विहिणा विहिया वीवाह-रत्ती, जइ णाम रूव-जोववण-विक्खाल-लास-सोहग-मडप्पर-गव्विया कुल-रूव-  
 विहव-संपुण्णो वि णेच्छइ णरणाहउत्तो' । अण्णाए भणियं 'केरिसं तीए रूवं जेण एरिसो मडप्फरो' । अण्णाए भणियं 'किं  
 4 तीए ण रूवं सुंदरं सुंदरेण मोर-कलाव-सरिसेण केस-पवभारेण, कमल-दल-णिलीण-भमर-जुवलेण व अच्छिवत्तएणं,तेल्ल-धारा- 6  
 समुज्जायाए णासियाए, पुण्णिमायंद-सरित्तेणं मुहेणं, हत्थि-कुंभ-विभमेणं थणवट्टेणं, सुट्ठि-जेण्णेणं मज्झ-देसेणं, कणय-कवाड-  
 सरिसेण णियं वयडेणं, सुणाल-णाल-सरिसेणं वाहा-जुवलेणं असोय-पल्लवारुणेणं चरण-करयलेणं कित्तीए रूवं वण्णीयइ' ।  
 5 अण्णाए भणियं 'हूं केरिसं तीए रूवं, जा काला काल-वण्णा णिकिट्ट-भमर-वण्णा' । अण्णाए भणियं 'सच्चं, सच्चं' । ताए 9  
 भणियं 'लोओ भणइ, काला किंतु सोहिया' । अण्णाए भणियं 'अजेय-मुत्ताहल-सुवण्ण-रयणालंकार-वैचइया अहं तीए माणं  
 खंडेमि' । अण्णाए भणियं 'ण एत्थ रूवेण ण वा अण्णेण, महादेव-देवी पसण्णा, तीसे सोहगं दिण्णं' । अण्णाए भणियं  
 12 'एरिसं किं पि उववुत्थं जेण से सोहगं जायं' । अण्णाए भणियं 'जं होउ तं होउ अत्थि से सोहगं, कीस उण ण परिणि- 12  
 जइ' । अण्णाए भणियं 'किर केण वि जाणएण किं पि इसीए साहियं तप्पभुइं चय एस पादओ लंबिओ' । 'तं किर कोइ  
 जइ भिदिहिइ सो मं परिणेहिइ, अण्णहा ण परिणेहिइ ति वेणी-बंधं काऊण सा ठिय' ति भगतीओ ताओ अइकंताओ ।  
 15 कुमारो वि सहास-कोऊहल-फुल्ल-णयण-जुयलो चित्तिं पयत्तो । 'अहो, लोगस्स बहु-वत्तवालावत्तणं । ता घडइ तं रिसिणो 15  
 वयणं जहा पादयं लंबेहिइ ति । तेण णयरिं पविसामि । सविसेसं से पउत्तिं उवलहाभि' चित्तंयतो उवगओ कं पि पएसं ।  
 दिट्ठं च महंतं मढं । तत्थ पुच्छिओ एक्को पुरिसो 'भो भो पुरिसा, इमो कस्स मंदिरवरो' ति । तेण भणियं 'भट्टा भट्टा,  
 18 ण होइ इमं मंदिरं किंतु सव्व-चट्टाणं मढं' । कुमारेण चित्तियं 'अरे, एत्थ होहिइ फुडा कुवलयमाला-पउत्ती । दे मढं चय 18  
 पविसामि' । पविट्ठो य मढं । दिट्ठा य तेण तम्मि चट्टा । ते य केरिसा उण । अवि य ।

लाडा कण्णाडा वि य मालविय-कणुज्ज-गोल्लया केइ । मरहट्ट य सोरट्टा ढक्का सिरिअंठ-सैंधवया ॥

21 किं पुण करेमाणा । अवि य ।

21

धणुवेओ फर-खेडुं असिधेणु-पवेस-कणय-चित्त-डंडं च । कुंतेण लउडि-हड्डं बाहू-जुज्जं णिउडं च ॥

आलेक्ख-गीय-वाइय-भाणय-डोविल्लिय-सिग्गडाइयं । सिक्खंति के वि छत्ता छत्ताण य णच्चणाइं च ॥

- 24 § २४४ ) ते य तारिसे दरिउम्मत्त-महाविंझ-वारण-सरिसे पलोइंतो पविट्ठो कुमारो । दिट्ठाओ य तेण वक्खाण- 24  
 मंडलीओ । चित्तियं कुमारेण 'अए, पेच्छामि पुण किं सत्थं वक्खाणीयइ । तओ अल्लीणो एकं वक्खाण-मंडलिं जाव पयइ-  
 पच्चय-लोवागम-वण्ण-विथारादेस-समासोवसग्ग-मग्गणा-णिउणं वागरणं वक्खाणिज्जइ ति । अण्णत्थ रूव-रस-गंध-फास-सइ-  
 27 संजोय-मेत्त-कप्पणा-रूवत्थ-खण-भंग-भंगुरं बुद्ध-दरिसणं वक्खाणिज्जइ । कत्थइ उप्पत्ति-विणास-परिहारावत्थिय-णिच्चेग-सहावा- 27  
 यरूव-पयइ-विसेसोवणीय-सुह-दुक्खाणुभवं संख-दरिसणं उग्गाहीयइ । कत्थइ दव्व-गुण-कम्म-सामण्ण-विसेस-समवाय-पयत्थ-  
 रूव-णिरूवणावट्ठिय-भिण्ण-गुणायवाय-परूवणपरा वइसेसिय-दरिसणं परूवेंति । कहिंचि पच्चक्खाणुमाण-पमाण-लक्क-णिरू-  
 30 विय-णिच्च-जीवादि-णत्थि-सव्वण्णु-वाय-पद-वक्कप्पमाणाइवाइणो सीमंसया । अण्णत्थ पमाण-पमेय-संसय-णिण्णय-छल-जाइ- 30

1) P तप्फडा होइमे पउत्ती. 2) P नयरिया, P कुडइं, J च for एक्काए, P एक्कोए. 3) P माए एसा

J om. किमरूवं सुंदरं, P किं मरूवं. 4) P om. तीय, P adds य before विहिणा, J inter. विहिया & विहिणा,  
 P विहिया विहियएसु वोलिइ वरुदेवसवेसु etc. (the passage repeated here as on p. 148 line 12 to  
 p. 149 line 1) to पणइयणं, P वाह for वीवाह, J रंती for रत्ती, J adds किण्ण विहिया before जइ, P om. लास. 5) P

संपुत्ते, J णरणाहपुत्तो, J तीअ, J तीय ण रूवं सुंदरसुंदरेण. 6) P तं for ण, P जुवलेण धवलच्छीवत्तएण J जुवलेण व अच्छिवत्तेणं

7) J समुज्जाए, J मज्जेण, P चक्कायारेण for कवाडसरिसेण. 8) P वाहुजुयलेयणं, J चलण, J कित्तीय P किं तीए, J व्वीयति.  
 (originally perhaps पुच्छीयति) P पुच्छइ for वण्णीयइ. 9) P हूं, J तीय, P कालवन्न. 10) J तीय. 11) P खंडीए for

खंडेमि, P रूवेण वा अत्तेण वा सुहदेवी पसत्ता तीसे, J तीय से for तीसे. 12) P उववुत्थं, J उववुत्थं किं अण्णयाए जेग से सोहगं ।  
 अण्णाए, J कीस पुण. 13) J P तप्पभूइं, P पाइओ लंबिउं । 14) P जो for जइ, J भिदिहिति P निदिहिइ [विदिहिइ?],

J परिणिहिति P परिणेहिति, J परिणेहिति P परिणेति, P सं for सा, P भगतीओ अइकंताओ. 15) P कोऊरुक्कड्ड, P पयत्ता, J  
 लोअस्स, J एअं तस्स for तं. 16) P पायायं for पादयं, J लंबेहिति, P om. ति, P om. से, P पउत्तिमुव, P मुगवओ for उगवओ.

17) P om. इमो. 19) P inter. तंमि & तेण, P adds य after चट्टा, P ते या केउणा. 20) P मालविया कउज्ज, J

कुडुक्क for कणुज्ज, P करय for केइ, J टक्का सिरिअंठसैंध P टक्का किरिअंगसैंध. 21) P करेमाणो. 22) P फरुखेंडुं असिधणु,  
 P चित्तं च । कुंतेण, J कुंतो लउडीजुज्जं णिउडं च । P वाहुजुइं निजुइं च. 23) J गीतवाइत, P -णाणयाडोविल्लयासैग्गडाइया ।

णिक्खंति के वि छत्ताण. 24) P om. दरि, J सविसेसं for सरिसे, P दिट्ठा ठ तेण. 25) अरे पुच्छामि, J adds कम्मि

before पुण, J वक्खाणीयति P वक्खाणीयइ, P om. एकं, J पयति. 26) P -विगारा, P om. ति, P संजोयनिमित्तकम्मणा.

27) J खल for खण, J वक्खाणीयति, J सहावातरूवपयहि- P सहावातरूव. 28) P 'सह दुक्खाणभवं, J रूवं for भवं,  
 J उग्गाहीयति P उग्गाहेंति. 29) J om. रूव, P निरूवणाटितिभन्न, J गुणातवात्, P om. पमाण. 30) P 'जीवाट, J

सव्वयण गुवातपततवक्कप्पमाणातिवात्तिणो, P मिम्मंसणया, J -पमेय, P समय for संसय, J -जाति-

1 णिगाहत्याण-वाहणो णह्याइय-दरिसण-परा । कहिंचि जीवाजीवादि-पयथाणुगय-दव्वट्टिय-पजाय-णय-णिरुवणा-विभागो-  
वाल-णिच्चाणिच्चाणेर्यंतवायं परुवेंति । कत्थइ पुहइ-जल-जलणाणिलागास-संजोय-विसेसुप्पण-चेयणं मज्जम-मदं पिच  
3 अत्तणो णत्थि-वाय-परा लोगायतिग त्ति । 3

§ २४५ ) इमाइं च दट्टण कुमारेण चित्तिं । 'अहो, विजया महापुरी जीए दरिसणाइं सव्वाइं पि वक्खाणीयंति ।  
अह णिउणा उवज्जाया । ता किं करेमि किंचि से चालणं, अहवा ण करेमि, कज्जं पुणो विहडइ । ता कारेयव्वं मए कज्जं'  
6 ति चित्तिउण अण्णत्थ चलिओ राय-तणओ । अवि य । तत्थ वि 6

के वि णिमित्तं अवरे संतं जोगं च अंजणं अण्णे । कुहयं धाउव्वायं जक्खणि-सिद्धिं तह य खत्तं च ॥

जाणंति जोग-मालं तत्थं मिच्छं च जंत-मालं च । गारुल-जोइस-सुमिणं रस-बंध-रसायणं चेय ॥

9 छंदवित्ति-णिरुत्तं पत्तच्छेज्जं तहेंदयालं च । दंत-कय-लेप्प-कम्मं चित्तं तह कणय-कम्मं च ॥ 9

विसगर-तंतं वालय तह भूय-तंत-कम्मं च । एयाणि य अण्णाणि य सयाइं सत्थाण सुव्वंति ॥

तओ कुमारेण चित्तिं । 'अहो साहु साहु, उवज्जाया णं वाहत्तरि-कला-कुसला चउसट्टि-विण्णाणभंतरा य एए' त्ति  
12 चित्तंते वलिओ अण्णं दिसं राय-तणओ । तत्थ य दिट्ठा अणेए दालि-वट्ठा केवल-वेय-पाढ-मूल-बुद्धि-वित्थरा चट्ठा । ते उण 12  
केरिसा । अवि य ।

कर-घाय-कुडिल-केसा णिइय-चलण-प्पहार-पिहुलंगा । उण्णय-भुय-सिहराला पर-पिंड-परुढ-बहु-मंसा ॥


15 धम्मत्थ-काम-रहिया बंधव-धण-मित्त-वज्जिया दूरं । केइत्थ जोव्वणत्था वाल च्चिय पवसिया के वि ॥ 15

पर-जुवइ-दंसण-मणा सुहयत्तण-रुव-गव्विया दूरं । उत्ताण-वयण-णयणा इट्ठाणुग्घट्ट-मट्ठोरू ॥

ते य तारिसे दालि-वट्ट-छत्ते दट्टण चित्तिं । 'अहो, एत्थ इमे पर-त्तित्त-तगय-मणा, ता इमाणं वयणाओ जाणीहामि  
18 कुचलयमालाए लंविद्यस्स पाययस्स पउत्तिं । अलीणो कुमारो । जंपिओ पयत्तो । 'रे रे आरोट्ट, भण रे जाव ण पम्हुसइ । 18  
जनादंन, प्रच्छहुं कत्थ तुब्भे कल्ल जिमियल्लया' । तेण भणियं 'साहिउं जे ते तओ तस्स वलक्खएल्लयहं किराडहं तणए  
जिमियल्लया' । तेण भणियं 'किं सा विसेस-महिला वलक्खइएल्लिय' । तेण भणियं 'अहहा, सा य भडारिय संपूर्ण-

21 स्वलक्खण गायत्रि यदसिय' । अण्णेण भणियं 'वर्णिं कीदशं तत्र भोजनं' । अण्णेण भणियं 'चाईं मट्ठो, मम भोजन 21  
स्पृष्टं, तक्षको हं, न वासुकि' । अण्णेण भणियं 'कनु घडति तउ, हद्धय उल्लाव, भोजन स्पृष्ट स्सनाम सिंवसि' । अण्णेण  
भणियं 'अरे रे वड्डो महामूर्ख, ये पाटलिपुत्र-महानगरावास्तव्ये ते कुत्था समासोक्ति बुज्जंति । अण्णेण भणियं 'अस्सादिप इयं

24 मूर्खतरि' । अण्णेण भणियं 'काइं कज्जु' । तेण भणियं 'अनिपुण-निपुणाथोक्ति-प्रचुर' । तेण भणियं 'मर काइं मां मुक्त, 24  
अम्भोपि विदग्धः संति' । अण्णेण भणियं 'मट्ठो, सखं त्वं विदग्धः, किं पुणु भोजने स्पृष्ट माम कथित । तेण भणियं 'अरे,  
महामूर्खः वासुकेर्वदन-सहस्रं कथयति' । कुमारेण य चित्तिं । 'अहो, असंबद्धक्खरालावत्तणं वाल-देसियाणं । अहवा को



1 > J वातिणो, P नइवाइय, J P जीवाइ, J पदत्थाणुगत, P णुगतदव्वट्टिइ. 2 > P निच्चाणयं,  
J णेअंतवातं, P वायं रुवेंति, J जलणगिला, J विसेसुप्पणुचेतणुं, P मयं for मदं. 3 > J वात-, P परलोयगायगिति ।  
4 > P trans. दरिसणाइं after पि, J वक्खाणियंति. 5 > J inter. करेमि & किंचि. 7 > J जोअं, P जक्खण, J तहेय,  
P खत्तं. 8 > J जोअमालं, P मित्थं च जेतमालं, P गारुडमाइससुमिणं, J जोतिस. 9 > J छंदविति, J तहेय इंदं P तहेदयालं,  
J om. the line दंतकय etc. 10 > J भूत-, J एताणि, J सताइं. 11 > P उवज्जाया, P वाहुत्तरिकाला, J विण्णाणर (भ ?) तरा  
य एयंति. 12 > P चलिओ for वलिओ, P दिसंतराय, J om. य, J अणेये दालिविट्ठा, P अणेय, P वेयपाय-, P om. बुद्धि, J ते पुण.  
14 > P अन्नय for उण्णय, P बहु मासा. 15 > J जण for धण. 16 > P सुवत्तणरुव. 17 > P तारिसं, J दालिविट्ठा, J inter  
एत्थ & इमे, P जाणिहामि. 18 > J पातअस्स, J जंपिउं P जंपियउं, P जाव न पमुहुसइ. 19 > J पुच्छइ कत्थ, J भणियो, P om.  
ते, J वलक्खइएल्लयहं, J om. किराडहं. 20 > JP विसे for विसेस. The passage अहहा to कथयति (lines 20-26),  
is found only in J; it is given in the text mostly as it is with the restoration of य-श्रुति. 21 >  
मट्ठो or रुट्ठो. 22 > हच्चय or हद्धय. 23 > ते is added below the line. 24 > मरकाइं or नरकाइं. Instead of  
the passage अहहा to कथयति found in J and adopted in the the text above, P has the following passage  
which is reproduced here with minor corrections: 'अहह इमं कुअक्षर-नवक्खप्फ मात भडारिया गंगादेवि जइसिया भरमीकरेज्जा' । तेण  
भणियं 'अरे, दुच्चारिणी सा' । 'अहह इमं कुअक्षर-नवक्खप्फ मात भडारिया गंगादेवि जइसिया भरमीकरेज्जा' । तेण  
भणियं 'अरे त्वं सुज्यमान्या सा सस्यहेहिं दीर्घ-धवलेहिं लोचनेहिं निरकृति' । तेण भणियं 'हुं हुं मसल्य-चालि-निरीकृति काइं वररुदो  
त्ति अणुववण्णंदिवमि । तहिं दीर्घ-धवल-लोचनेहिं व्रततीव पिवतीव लुंपतीव विलुंपतीव अक्षिणहिं निरिक्षयति' । तेण भणियं 'अरे, तथा  
भनियं सा दुधारिणी न होति । अथ च त्वं सरपृहं निरीक्षयति । परस्परं विरुद्धं एहु वचनु' । तेण भणियं 'अरे न-याणाहि कामशास्त्र मदीय-  
गुरुःदिट्ठ । यदि भवति मात सीतसती व द्रमयंती अप्पर तदपि धुमति' । In the following conversational passage the  
readings are exhaustively noted and the passage is faithfully reproduced as in one or the other Ms.  
26 > P om. य, J चित्तिजं, J वल्लालायत्तणं वालदेसियाणं, P लावत्तणं मुक्खखवड्डयायं ।

1 अण्णो वाचारो इमाणं पर-पिंड-पुट्ट-देहाणं विज्जा-विण्णाण-णाण-विणय-विरहियाणं चट्ट-रसायणं मोत्तूणं चित्तयंतस्स भणियं 1  
 अण्णेणं चट्टेणं 'भो भो भट्टउत्ता, तुम्हे ण-याणह यो राजकुले वृत्तांत' । तेहिं भणियं 'भण, हे व्याघ्रस्वामि, क चार्ता 3  
 3 राजकुले' । तेण भणियं 'कुवलयमालाए पुरिस-द्वेषिणीए पायओ लंबितः' । इमं च सोऊण अण्णोडिऊण उट्टिओ एक्को 3  
 चट्टो । भणियं च णेणं 'यदि पांडित्येन ततो मइं परिणेतस्य कुवलयमाल' । अण्णेण भणियं 'अरे कवणु तउ पाण्डित्यु' ।  
 तेण भणियं 'घडंगु वेउ पढमि, त्रिगुण मन्त्र पढमि, किं न पाण्डित्यु' । अण्णेण भणियं 'अरे ण मन्त्रेहिं त्रुगुणेहिं परिणिज्जइ ।  
 6 जो सहियउ पाए भिंदइ सो तं परिणेइ' । अण्णेण भणियं 'अहं सहियओ जो ग्वाथी पढमि' । तेहिं भणियं 'कइसी रे 6  
 व्याघ्रस्वामि, गाथा पठसि त्वं' । तेण भणियं 'इम ग्वाथ ।

सा ते भवतु सुप्रीता अबुधस्य कुतो बलं । यस्य यस्य यदा भूमि सर्वत्र मधुसूदन ॥

9 तं च सोऊण अण्णेण सकोपं भणियं 'अरे अरे मूर्ख, स्कंधकोपि गाथ भणसि । अम्ह गाथ ण पुच्छह' । तेहिं भणियं 'त्वं 9  
 पठ भट्टो यज्जस्वामि गाथः' । तेण भणियं 'सुट्ट पढमि,

आइं कज्जि मत्त गय गोदावरि ण मुयंति । को तहु देसहु आवतइ को व पराणइ वत्त ॥

12 अण्णेण भणियं 'अरे सिलोगो अम्हे ण पुच्छह, ग्वाथी पठहो' । तेण भणियं 'सुट्ट पढमि । 12

तंवोल-रइय-राओ अहरो इट्ठा कामिनि-जनस्स । अम्हं चिय खुभइ मणो दारिद्र-गुरु णिवारेइ ॥'

तओ सव्वेहि वि भणियं 'अहो भट्ट यज्जस्वामि, विदग्ध-प्रंडितु विचावंतो ग्वाथी पठति, एतेन सा परिणेतव्या' । अण्णेण भणियं

15 अरे, केरिसो सो पायओ जो तीए लंबिओ' । तेण भणियं 'राजांगणे मइं पढिउ आसि, सो से विस्सुतु, सव्वु लोकु 15  
 पढति' ति ।

§ २४६ ) इमं च सोऊण चट्ट-रसायणं चित्तियं रायउत्तेण । 'अहो, अणाह-वट्टियाणं असंबद्ध-पलावत्तणं चट्टाणं ति ।

18 सव्वहा इमं एत्थ पहाणं जं रायंगणे पायओ लंबिओ ति पउत्ती उवलद्धा । ता दे रायंगणे चैव-वच्चाभि' ति चित्तैतो णिक्खंतो 18  
 रायतणओ मढाओ, पविट्टो णयरीए विजयाए । गोउर-दुवारे य पविसंतस्स सहसा-पवाइयाइं त्तराईं, आहयाइं पडहाइं,

पवज्जियाइं संखाइं, पढियं संगल-पाढएण, जयजयावियं जणेण । तं च सोऊण चित्तियं कुमारेण 'अरे कथ एसो जय-

21 ज्यासदो तूर-रवो य' जाव दिट्ठं कस्स वि वणियस्स किं पि कज्जं ति । तओ तं चैय सउणं मणे चैत्तूंगं संतुं पयत्तो जाव 21  
 थोयंतरे दिट्ठं इमिणा अणेय-पणिय-पसारियाबद्ध-कय-विकय-पयत्त-पवड्डमाण-कलयल-रवं हट्ट-मगं ति । तत्थ य पविसमाणेणं  
 दिट्ठा अणेय-देस-भासा-लक्खिए देस-वणिए । तं जहा ।

24 कसिणे णिट्टुर-वयणे बहुक-समर-भुंजए अलज्जे य । 'अडडे' ति उल्लवंते अह पेच्छइ गोलए तत्थ ॥ 24

णय-णीइ-संधि-विग्गह-पडुए बहु-जंपए य पयईए । 'तेरे मेरे आउ' ति जंपिरे मज्झदेसे य ॥

णीहरिय-पोट्ट-दुव्वण-मडहए सुरय-केलि-तल्लिच्छे । 'एगे ले'-जंपुले अह पेच्छइ मागहे कुमरो ॥

27 कविले पिंगल-णयणे भोयण-कह-मेत्त-दिण्ण-वावारे । 'कित्तो किम्मो' पिय-जंपिरे य अह अंतवेए य ॥ 27

उत्तुंग-थूल-घोणे कणयव्वणे य भार-वाहे य । 'सरि पारि' जंपिरे रे कीरे कुमरो पलोएइ ॥

1 > P इमाण, J बुद्ध for पुट्ट, P om. पुट्ट, P देहवद्धानं for देहाणं, P विज्जाणनाण, J विरहियाण, J भणियमण्णेण-  
 2 > P अन्नेण, P तुम्हे for तुम्हे, P नयाणह, P वृत्तांतः (?), P हो for हे, P का for क. 3 > P राजकुलो, P पुरुषः, J पातओ,  
 P लंबिओ, P अप्पोडिऊण, J inter. एक्को & उट्टिओ. 4 > P भट्टो for चट्टो, P om. च, P णेण, P ततो इमं परिणेतज्ज  
 कुवलयमाला । अन्नेण, P कमणु तओ, P पांडित्यु. 5 > J भणियं, P सडंग, J om. वेउ, J त्रिगुणमन्त्र घडमि किं-न P तिउणमंत  
 कडुमि किन्न, P पांडित्यं । अन्नेण, P न, J त्रुगुणेहिं P त्रिगुणः हिं. 6 > J सहितौ P सहियउ, J पातौ for पाए, J परिणेति, J  
 सहितउज्जोग्वाथी, J भणियं. 7 > J व्याघ्रस्वामि गाथः, J om. पठसि त्वं, J भणियं, J इम ग्वाथ P इमा ग्वाथा. 8 > Instead  
 of the verse सा ते भवतु etc. P has the following: अनया जघनाभोगमंधरया तथा । अन्यतोपि ब्रह्मलेमं हृदये विहितं  
 पदं ॥ 9 > P अन्नेण, J भणियं, P मुक्खा, P पि ग्वाथा, P गाथ न पुच्छह, J भणियं, P चव for त्वं पठ. 10 > J  
 यज्जस्वामि (?), P आथ for गाथः. 11 > J आए कप्पे for आइं कज्जि, P गथा गोयवरि न, P को तह के देसह, J आवतति  
 P आवइ, J पराणति वात्त P पराइ वत्त नेण भणियं. 12 > J भणियं, P adds एसो before अम्हे, P न, P पडहुं तेहिं भणियं  
 पडहो । तेण भणियं सुट्ट, J भणियं in both places. 13 > J अहरो कामिनि इट्ठा अम्हं चिय P अहरो इट्ठा कामिनी  
 [Better read दद्रूण for इट्ठा], J क्खुभइ P क्षुभइ, P दालिद्ध, P निवारेइ. 14 > P सव्वेहिं मि भणियं, J भणियं, J यज्ञ-  
 स्वामि (?), P विदग्धपांडित्यविज्जमंतो, P अन्नेण. 15 > P om. अरे, J पातओ, J तीय, J भणियो, P-राइंगणे, J पठित्तु  
 P पढिउं, P आसि सा विस्सुतु सव्वो लोकु. 17 > P वट्ट for चट्ट, P अहो वेयपायमूढबुद्धीणं असंबद्धपलावित्तणं छत्तवट्टाणं ति.  
 18 > J पातओ, J पतित्ती for पउत्ती, J ते for ता, P om. दे, P रायंगणं, J चैअ, P चित्तयंतो. 19 > P नयरीओ, P दुकारे,  
 P om. य, adds ओ before सहसा, J पडढयाइं पवज्जिआइं. 20 > J-वाढएणं, P एसो ज्यासदो, P om. य. 21 > P विवाहो  
 ति for किं पि कज्जं ति, P om. तं, J सउणमणेण. 22 > P थोयंतरे, P अणियवणिय, J पणियवसारया, J-वड्डमाण- 24 > P कसिणा  
 निट्टुर, P अरडे. 25 > J णीति, J पडुए, J-जंपिरे य पयतीए. 26 > P दुवन्न, P एसे ले [ एसे ले ], J जंडुळे, J मागवे कुमरो-  
 27 > P लोयणकहदिन्नमेत्तवावारे, P किं ते किं मो, J जिय for पिय, P जंपिरो, P om. अह, J अंतवेते P अत्तवेए. 28 > J वण्णे  
 P वन्ने, J वारि, for पारि, P अवेरे for रे, P कुमरो.

- 1 दक्खिण्ण-दाण-पोरुस-विण्णाण-दथा-विवज्जिय-सरीरे । 'एहं तेहं' चवंते ढक्के उण पेच्छए कुमरो ॥ 1  
सललिय-मिउ-मइवए गंधव्व-पिए सदेस-गय-चित्ते । 'चउडय मे' भणिरे सुहए अह संधवे दिट्ठे ॥  
3 वंके जडे य जड्ढे बहु-भोई कढिण-पीण-सूणगे । 'अप्पां तुप्पां' भणिरे अह पेच्छइ मारुए तत्तो ॥ 3  
घय-लोणिय-पुट्टणे धम्म-परं संधि-विग्गहं-णित्तणे । 'णउ रे भल्लउं' भणिरे अह पेच्छइ गुज्जरे अवरं ॥  
णहाओलित्त-विलित्ते कय-सीमंते सुसोहिय-सुगत्ते । 'अम्हं काउं तुम्हं' भणिरे अह पेच्छए लाडे ॥  
6 तणु-साम-मडह-देहे कोवणए माण-जीविणो रोहे । 'भाउय भङ्गी तुम्हे' भणिरे अह मालवे दिट्ठे ॥ 6  
उक्कड-दप्पे पिय-मोहणे य रोहे पर्यंग-वित्ती य । 'अडि पाँडि मरे' भणिरे पेच्छइ कण्णाडए अण्णे ॥  
कुप्पास-पाउयंगे मास-रुई पाण-मयण-तल्लिच्छे । 'इसि किसि मिसि' भणमाणे अह पेच्छइ ताइए अवरं ॥  
9 सव्व-कला-पत्तट्ठे माणी पिय-कोवणे कढिण-देहे । 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए पुलइए अवरं ॥ 9  
दढ-मडह-सामलंगे सहिरे अहिमाण-कलह-सीले य । 'दिण्णल्ले गहियल्ले' उल्लविरे तत्थ मरहट्ठे ॥  
पिय-महिला-संगामे सुंदर-गत्ते य भोयणे रोहे । 'अट्टि पुट्टि रीटि' भणंते अंधे कुमरो पलोएइ ॥  
12 इय अट्टारस देसी-भासाउ पुलइऊण सिरिदत्तो । अण्णाइय पुलएई खस-पारस-वव्वरादीए ॥ 12  
§ २४७ ) तस्स य तारिसस्स जण-समूहस्स मज्झे के उण आलावा सुव्विउं पयत्ता । अवि य ।  
दे-देहि देहि रोयइ सुंदरमिणमो ण सुंदरं वच्च । ए-एहि भणसु तं चिय अहव तुहं देमि जह कीयं ॥  
15 सत्त गया तिण्णि थिया सेसं अइं पट्टण पादेण । धीसो व यद्धवीसो वयं च गणिका कणिसवाया ॥ 15  
भार-सयं अह कोडी-लक्खं चिय होइ कोडि-सयमेगं । पल-सय-पलमद्ध-पलं करिसं मासं च रत्ती य ॥  
होइ धुरं च वहेडो गोत्थण तह मंगलं च सुत्ती य । एयाण उवरि मासा एए अह देमि एएहिं ॥  
18 कह भंडं संवरियं गेणहसु सुपरिक्खज्जण वच्च तुमं । जइ खज्जइ कह वि कवड्डिया वि एगारसं देमि ॥ 18

- एवं च कुमार-कुवलयचंदो विवणि-मग्गेण वच्चमाणो अणेए वणियाणं उल्लावे णिसुणेंतो गंतुं पयत्तो । कसेण संपत्तो अणेय-  
णायर-विलया-धवल-विलोल-लोयण-मालाहिं पलोइज्जंतो रायंगणं, जं च अणेय-णरणाह-सहस्स-उडुंड-तंडविय-सिंहंडि-कलाव-  
21 विणिम्मविय-उत्त-संकुलं । तत्थ सब्बो चेव णरवइ-जणो करयल-णिमिय-मुह-कमलो किंपि किंपि चित्तेंतो कवियणो विव 21  
दीसइ । तं च दट्टण पुच्छिओ णरणाह-पुत्तो कुमारेण 'भो भो रायउत्त, कीस णरवइ-लोओ एवं दीण-विमणो दीसइ' त्ति ।  
तेण भणियं 'भो भो महापुरिस, ण एस दीणो, किंतु एत्थ राइणो धूया कुवलयमाला णाम पुरिसहेसिणी, तीय किर  
24 पायओ लव्विओ जहा 'जो एयं पायं पूरेहिइ सो मं परिणेहि' त्ति । ता तं पादयं एस सब्बो चेव णरवइ-लोओ चित्तेइ य' 24  
त्ति । कुमारेण भणियं 'केरिसो सो पाओ' । तेण भणियं 'एरिसो सो' । अवि य । 'पंच वि पउमे विमाणम्मि ।'

- § २४८ ) कुमारेण भणियं 'ता एस पायओ केणइ कम्मि भणिए पूरिओ ण पूरिओ वा कहं जाणियव्वो' । तेण  
27 भणियं 'सा चेय जाणइ कुवलयमाला, ण य अण्णो' । कुमारेण भणियं 'कहं पुण पच्चओ होइ जहा सो चेय 27  
इमो पायओ जो कुवलयमालाए अभिमओ' । तेण भणियं । 'अत्थि पच्चओ । कहं । इमस्स पायस्स पुव्वमेव

1 > J तेह P तेहं, J टक्के, J कुमारो. 2 > J सललित्तमिदुमंदवए, P सएस, P वंसे दइणो for च (व) उडय मे of J, P सुहसे अह, J दिट्ठो. 3 > J वंके P कंवे, P-रूणगे, J अप्पा तुप्पा P अप्पां तुप्पां, J मारुए P कारुए. 4 > J लोलिय. P विग्गहे. 5 > P सीमंते सोहियं गत्ते, J आहम्ह काइं तुम्हं मित्तु भणिरे for अम्हं etc., J om. अह, P अच्छइ for अह  
6 > P-जीवणे, P भाइय, P तुम्मे for तुम्हे, J दिट्ठो. 7 > J एय for य (before रोहे), J अट्टि पोण्डिमरे P अडिपाँडिमरे.  
8 > P णइ for रुई, P असि for इसि, P मणि for मिसि, P भणमाणो. 9 > J सत्थ for सव्व, J पत्तट्ठो P पव्वभट्टे, J देहो.  
10 > P सहिए अहमाण, P दिन्नल्ले, J रा (ठा?)हिच्छे for गहियल्ले (written twice in P). 11 > P गोत्ते for गत्ते, J भोइणे, P भायणे रोहे । अट्टिमडिभणंति अवरं अंधे कुमरो, J रट्टि भणंते रंध्रे कुमरो. 12 > J सिरिअत्तो, P सिरिदत्ते । अत्रेइय पुलएती जवसपारस, J अण्णाइय पुलएई, J वव्वरादीए P वव्वरादीए. 13 > J जणस्समुहस्स सज्झे काऊण अलावा, P केण उण.  
14 > P देहेहि, P स for ण, P एएहिं, J कीयं. 15 > J तस्स गता for सत्त गया, J थिया सेसं, P पऊण पाएण । धीसो अद्धवीसो, J कणिसवाया P गणिसवाया. 16 > J सत्तं, P adds होइ after अह, P च for चिय होइ, J कोडिसत्तमेकं । पलसत्तपं, J रत्तीया P रत्तीसं. 17 > On the verse होइ etc. we have a marginal note (in J) like this (with numerals below the words): कणियउ/१ महेशरु/३ तल्ल/५ पविती/७ उवणु१ आंगुल/१० पूखाल/१००८ उ. The text of J numbers धुरं as 2, वहेडो as 6, गोत्थण as 4 and सुत्तीय as 20. J उवदिसंसा एते, J एतेहिं. 18 > J भणं संवरितं, J एगारसं. 19 > P om. च, P उल्लावें. 20 > P नारय for णायर, P om. जं, P adds केरिसं before अणेय, P उइंड, J तण्डविआ P तण्डविय. 21 > P-निम्मिय, J om. one किंपि, P वि for विव. 22 > P नरनाहउत्तो, J रायउत्ता, J adds एस after कीस, P om. एवं. 23 > P inter. ण (न) & एस, P रायणो, P पुरिसवेसिणी, P यय for तीय. 24 > J पातओ, J पातयं पूरेहिति, J ति for त्ति, P पाययं, J चेय, J विइंतेइ त्ति. 25 > P om. सो, J पातओ for पाओ, J writes twice पंच वि पउमे विमाणम्मि. 26 > J पातओ, J भणित्ते P भणिअय, J पूरितो ण पूरितो. 27 > P om. य. 28 > J पातओ, J पातयस्स for पायस्स.

- 1 निम्नि पादे इमाए काळण गोलए पक्कविण सुद्धिऊण सदाभंडारमि पक्किते । तेण कारणेण पक्कियं ति जो पमाणं ॥ 1
- पुण तीए रूइयं ते तथ पाएए घडिहि ति ततो ते परिणेहिहि' ति । इमं च सोऊण विनियं रायउत्तेणं 'अहो, सुंदरं जायं ॥ 2
- जेण सुपरिविणओ पादओ पूरेतव्वो ति । ता दे विनेमि, अहवा किमेत्तं विनियइ । 'पंच वि पडमे विमाणमि' ॥ 3
- 'अम्हे तस्मि पडमे विमाणमि उण्यणा तवं च काऊण । किं पुण ताए एत्थ पादए गिवद्ध-पुव्वं' वित्तिऊण, हूं अत्थि,  
कोसंवि-धम्मणंङ्गण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संकेया जाया पंच वि पडमे विमाणमि ॥
- ४ अहो निच्चडियं मायाहञ्जतणं मायाहञ्जसस जेण केरितो पादए-पुत्तंओ कुडिल-मग्गो कओ, इमीए कुवल्लयमालाए ओलंविओ ॥ 6
- ताय य उद्धाहओ समुह-सद-भंगीओ कल्लयलाराओ जगम्य रायंगणमि । किं च जायं । पलायंति कुंजरा । पहावंति  
तुरंगमा । ओसरंति णववहणो । पलायंति घामजया । गिवडंति पुजया । विव्यकंति वीरा । वलंति वीरा । कंपंति कायरा ।
- ९ सच्चन्ना पलय-सगए एव सुभिओ सच्चो रायंगण-जगमओ ति । विनियं च कुमारेण । 'को एसो अयंडे चेय संभओ' ति । 9
- पुलोइयं कुमारेण जाव इट्ठी जयवारणो उम्मूलियालाण-संभो पाडियारोहणो जगं मारयंतो समुहं पहाविओ ति । अवि य ।  
तुंगतणेण मेरु एव संटिओ हिमगिरि एव ओ धवल्लो । हत्थ-परिहत्थ-वलिओ पवणं पि जिणेज्ज वेणेण ॥ तओ,
- १२ रणंत-लोह-संखलं झरंत-दाण-वेमलं रलंत-पाय-बंधणं ललंत-रुद्ध-मूलयं । 12
- चलंत-कण्ण-संखयं पुरंत-दीह-चामरं रणंत-हार-धंटयं रलंत-गंडवासयं ॥
- दिट्ठं तं जयकुंजरं । अवि य ।
- १६ संवेहियग्ग-हत्थो उण्णामिय-संधरो धमधमेंतो । मारंतो जग-णिग्रहं भंजतो भवण-णिवहाइं ॥ 16
- दाण-जल-सित्त-गत्तो गंधायद्विय-रणंत-भमरउलो । पत्तो कुमार-मूलं अह सो जयकुंजरो सहसा ॥  
§ २४९ ) तं च तारिसं कुविय-कयंत-सच्छइं दट्टण जगेण लंपियं । 'वप्पो वप्पो, ओसरह ओसरह, कुविओ एस
- १८ जयहत्थी । तं च तारिसं कल्लयलं आयणोऊण राया वि सअंतेउरो आरूढो भवण-णिज्जहए दुट्ठं पयत्तो । कुमारस्स य 18
- पुरओ दट्टण राहणा भणियं 'भो भो महापुरिस, अवेह अवेह इमाओ महग्गहाओ वावाहज्जसि तुमं बालओ' ति । तओ  
तहा-भणंतस्स राहणो जणस्स य हा-हा-कारं करेमाणस्स संपत्तो कुंजरवरो कुमारसण्णं । कुमारेणावि
- २१ संवेहियऊण वत्थं आइइं तस्स हत्थिणो पुरओ । कोवेण धमधमेंतो दंतच्छोहं तर्हि देइ ॥ 21
- हत्थं-परिहत्थेणं ताव हओ करयलेण जहणमि । रोसेण जाव वलिओ चलिओ तत्तो कुमारो वि ॥  
पुण पहओ सुट्ठीए पुण वलिओ करिवरो सुवेएण । ताव कुमारो चलिओ पच्छिम-भाए गयंवरस्स ॥
- २४ ता वलइ खलइ गज्जइ धावइ उद्धाइ परिणओ होइ । रोसेण धमधमेंतो चक्काइइं पुणो भमइ ॥ 24
- जाव य रमिउव्वाओ णिप्पुर-कर-धरिय-कण्ण-जुयलिल्लो । दंत-मुसलेसु चलणं काऊणं ता समारूढो ॥  
तत्थ य समाहंतेणं भणियं कुमार-कुवल्लयचंदेण ।
- २७ 'कोसंवि-धम्मणंङ्गण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संकेया जाया पंच वि पडमे विमाणमि ॥' 27
- तं च सोऊण 'अहो पूरिओ पायओ' ति भणंतीए पेसियां मयरंद-गंध-लुद्धा गयालि-हलबोल-मुहलिया सिय-कुसुम-वरमाला  
आरूढा य कंधराभोए कुमारस्स । राहणा वि भणियं पुलइयंगेण 'साहु साहु, कुवल्लयमाले, अहो सुवरियं वरियं, अहो
- ३० पूरिओ पायओ । ताव य जयजयावियं रायलोएणं 'अहो दिव्वो एस कोइ, अहो ण होइ मणुओ' ति । ताव य 30
- णिवडिया उवरि दिव्वा अदीसमाण-सुर-पेसिया सुरहि-कुसुम-वुट्ठी । जायं च तं पएसं जयजया-सद्-मुहलं ति ।  
एत्थंतरमि पहाइओ महिंदकुमारो जयकरिणो मूले । भणियं च णेण 'जय महारायाहिराय परमेसर सिरिदढवम्म-

1 > P पाए, P लोगए for गोलए, P भंडारे, J पद्धि, J जो for जो, P जो पुयमाणं. 2 > J तीए रूइयं, P om. तं,  
P पायए, J घडिहिहि ततो तं, J परिणेहिहि । P परिणेहियत्ति, P कुमारेण for रायउत्तेणं. 3 > P सुपरिविखय पाईओ पूरओ ति,  
J पूरेतव्वो, P चितेति, J चितयति, J adds पंच वि पडमे विमाणे before अम्हे etc. 4 > P om अम्हे तस्मि पडमे विमाणमि,  
J ता for ताए, P पायए. 5 > J कोसंमि. 6 > P पायय-, P काउं for कओ, J om. ओलंविओ । ताव य- 7 >  
J उच्छाहओ, P adds जरावो before जणस्स. 8 > P विकथंति वीरा कंपंति. 9 > P वंजणवओ, P om. च, P अयंढो  
संभओ ति चितंतेणं पुलोइयं, J पुलइयं. 10 > J थंभो for खंभो, P समुहं, J संसुहं पाविओ ति । 11 > J आगत्तेण P  
कुंगत्तेण, P पवणंमि जिणेज्ज वेण ॥, J adds य after तओ. 12 > P संकुलं, P वेमलं, P रज्ज. 13 > JP संखयं  
[ = पंखयं ? ], P भार for हार, J धंटयं. 14 > P om. दिट्ठं तं जयकुंजरं. 17 > P सच्छमं, P वप्पा for वप्पो वप्पो. 19 >  
P om. one. भो, P om. one. अवेह, P बालो for बालओ. 20 > P adds य before राहणो, P करेणस्स संपत्तो, J कुमारेण  
वि. 21 > P आइइं, P दंतच्छोहिं. 22 > P ताए for ताव. 23 > P पुण पुहओ, P सुरेवेण, J adds वि after कुमारो.  
24 > P चक्काइइं. 25 > P repeats चलणं. 26 > P तत्थ समाहंतेण भणियं. 28 > P adds ति after पूरिओ, J पातओ  
ति भणंतीय, P सेय for सिय. 29 > J om. वि, J adds ति after second साहु, P कुवल्लयमाला एयं ते सुचरियं ।  
अहो. 30 > J पातओ, P om. एस, P एसो for अहो, P माणुसो ति, P य निवडियावरि अदिस्समाण. 31 > P adds  
विय before सद्. 32 > P महिंदकरिणा मूले, P om. सिरिदढवम्मणंङ्गण etc. to साहसालंकार.



1 णंदण कुमार-कुवलयचंद्र इक्खागुवंस-वालंकुर सोम-साहा-णहयल-मियंक अओज्झापुरवरी-तिलय णरवर-पुंडरीय साहसालं- 1  
 कार विज्जा-परिवारं धरणी-कंप पर-वल-खोह माण-धण कला-कुलहर दक्खिण-महोयहि विणयावास दाण-वसण पणइ-  
 3 जण-वच्छल जय कुमार' ति । इमं च सोऊण लीला-वलंत-धवल-विलोल-लोयणेणं गियच्छियं रायतणएणं । 'अहो को 3  
 एत्थ तायस्स पायाणं णामं गेणहइ' ति जाव पेच्छइ अणेय-णरणाह-पुत्त-परियारं जेट्टं सहोयरं पिव महिंदकुमारं ति । तओ  
 तं च दट्टण पसरमाणंतर-सिणेह-सम्भाव-भाव-पहरिस-वसुलसंत-रोमंच-कंचुयंगेण घट्टिओ मम्म-पएसे जयकुंजरो, तओ  
 6 णिसण्णो, आरूढो य महिंदो, पसारिय-भुएण य समालिंगियं अवरोप्परं । पुच्छिओ य 'अवि कुसलं महाराइणो, दढ-सरीरा 6  
 देवि ति, सुंदरं तुमं' ति । ताव य णरवइणा वि विजएण चित्तियं । 'अहो, अच्छरीयं इमं । एक्कं ताव इमं चेव इमस्स  
 रूवाइसयं, दुइयं असामण-जय-कुंजरालघणघवियं महासंतं, तइयं णरणाह-सहस्स-पुरओ पाद-पूरणं, चउत्थं पुण दिव्वेहिं  
 9 कुसुम-वरिस-पूयणं, पंचमं महाराइणो दढवम्मस्स पुत्तो ति । अहो, पावियं जं पावियव्वं वच्छाए कुवलयमालाए । साहु 9  
 पुत्ति कुवलयमाले, णिव्वाहियं तए पुरिसवेसित्तणं इमं एरिसं पुरिस-सीहं पावयंतीए । अहवा ण जम्मंतरे वि सुणिणो  
 अलियं मंतयंति' । भणिओ य णरवइणा कुमारो 'सम्पेह जयकुंजरं हत्थारोहाणं, आरूहसु मंदिरं' ति । एवं च भणिओ  
 12 कुमारो । 'जहाणवेसि' ति भणमाणो ओयरिओ जयकुंजराओ, आरूढो य पासायं महिंद-दुइओ, अवयासिओ राइण 12  
 ससिणेहं । दिण्णाइं आसणाइं । णिसण्णा जहासुहं । पेसिया य राइणा कुवलयमाला, ससिणेहं च पुलयंती णीहरिया य सा

§ २५० ) राइणा भणियं 'को एस वुत्ततो, कहं तुमं एक्को, कहं वा कप्पडिय-वेसो, किं वा मलिण-कुचेलो प्थ 15  
 15 दूर-देसंतरं पाविओ' ति । कुमारेण भणियं 'देव जाणसि चिय तुमं । अवि य । 15

जं णं सुमिणे वि दीसइ चित्तिय-पुव्वं ण यावि सुय-पुव्वं । विहि-वाउलीए पहओ पुरिसो अह तं पि पावेइ ॥  
 तेण देव, कहं कहं पि भममाणो देव-वसेणं अजं चिय संपयं एस पत्तो' ति । राइणा भणियं 'महिंद, किं एसो सो जो  
 18 तए पुच्छिओ दढवम्म-पुत्तो एत्थ पत्तो ण व ति । महिंदेण भणियं 'देव, जहाणवेसि' ति 'एस सो' ति । कुमारेण भणियं 18  
 'महिंदकुमार, तुमं पुण कथ एत्थ दाहिण-मयरहर-चेलालगं विजयपुरवरिं पुव्वदेसाओ संपत्तो सि' । तेण भणियं 'देव  
 णिसुणेसु । अत्थि तइया वाहियालीए समुदकल्लोल-तुरएणावहरिओ तुमं । अवि य ।

21 धावइ उप्पइओ इव उप्पइओ चैय सच्चयं तुरओ । एसेस एस वच्चइ दीसइ अइंसणं पत्तो ॥ 21  
 तओ हाहा-रव-सइ-णिवभरस्स रायलोयस्स अवहरिओ तुमं । तओ वाहिओ राइणा तुरओ तुज्झाणुमग-लग्गो सेस-णरवइ-  
 जणेण य । तओ य दूरं देसंतरं ण य तुज्झ पउत्ती वि सुणीयइ । तओ गिरि-सरिया-संकुले पएसे णिवडिओ पवणावत्त-  
 24 तुरंगमो ! तओ राया वि तुज्झ पउत्ती असंभावंतो णिवडिओ मुच्छा-वेवभलो जाओ, आसासिओ य अम्हेहिं पडंत-वाएहिं । 24  
 तओ 'हा पुत्त कुवलयचंद्र, कहिं मं मोत्तं वच्चसि' ति भणमाणो पुणो मुच्छिओ । तओ आसासिओ विलविउं पयत्तो ।

हा पुत्त कथ वच्चसि मोत्तूण ममं सुदुक्खियमणाहं । हा देव कथ कुमरो णिसंस ते अवहिओ सहसा ॥  
 27 किं च बहुणा परायत्तो विव, उम्मत्तगो विव, गह-गहिओ विव, णट्ट-सण्णो विव, पणट्ट-चेयणो विव, सव्वहा गय-जीविओ 27  
 विव ण चल्इ, ण वलइ, ण जंपइ, ण फंदइ, ण सुणेइ, ण वेयए, ण चेतइ ति । तं च तारिसं दट्टण मरणासंक-वेवभलेण  
 मंत्तियेण साहिओ से जहा 'सगर-चक्कवट्टिणो सट्टि-सहस्स-पुत्ताणं धरणिंद-कोव-विस-हुयास-जालावली-होमिआणं णिहण-  
 30 वुत्ततो तहां वि ण दिण्णो सोगस्स तेण अत्ताणो । ता महाराय, कुमारो उण केण वि दिव्वेणं अक्खित्तो किं पि कारणं 30  
 गणेमाणेणं, ता अवस्सं पावइ पउत्ती । पुच्छामो जाणए, गणंतु गणया, कीरंतु पसिणाओ, सुव्वंतु अवसुइओ, दीसंतु

2 > P धरणीकंपापरवजलखोहमाणहणकयाकुलहर, J दाणवसाण, P पणदीयलवच्छल. 3 > P adds लोल after  
 विलोल, P लोयणमेणं. 4 > P परियरियं जेट्टसहोयरं. 5 > P सम्भावतहरिस, J वसच्छलंत. 6 > P -भुएहिं, P कुलसं for  
 कुसलं. 7 > J देवीए ति । सुंदरो, P अच्छरियं, P om. इमं, P एगं ताव, J चेअ. 8 > J रूवातिसयं, P जयजंजय-  
 कुंजणगवियं, P पुरहओ, P पायपूरणं. 9 > JP दढधम्मस्स, J adds ति before वच्छाए. 10 > J णिव्वडियं उ for  
 णिव्वाहियं, तए, P पुरिसवेसित्तणं, J adds च after इमं, P om. पुरिस, J पावयंतीय. 11 > P भणति for मंतयंति, P कुंजहरं,  
 J हत्थारोहाणं P हत्थारोहाणं, J ति for ति. 12 > P पासायं. 13 > J णिसण्णो, P पुलइयं तीए नीहरिया. 14 > P कप्पडीय,  
 J कप्पडिवेसो तत्थ दूरदेसंतर पाविओ, P जेव for देव. 16 > J सुइणे, P मेत्तं for पुव्वं before ण, J हओ and P पुहई for  
 पहओ. 17 > P भममाणो दिव्व, P adds वसेणं before संपयं, J पुत्तो for पत्तो, P om. सो जो. 18 > J प दढधम्म, P om.  
 एत्थ पत्तो, P माहिंदेण, J एसो for एस. 19 > P om. तुमं पुण, P कथेतथ. 20 > P तुरणावहरिओ. 21 > P एस for चैय,  
 P पुत्तो for पत्तो. 22 > P ज्झा for तुज्झा, J मगं सेस. 23 > P om. य after तओ, P तुज्झा, J संकुलपएसे. 24 > P  
 -विव्वलो (व्व looks like च), J om. य. 25 > P भणमाणो पुच्छिओ पुणो आसासिओ ततो विलविउं, P adds अवि य before  
 हा पुत्त. 26 > J हा देव. 27 > P नइ for णट्ट, P विय for विव, J तहा for सव्वहा. 28 > P सुणइ न वेय ति । तं च.  
 29 > J जह for जहा, P सदस्सा for सहस्स, P कोववस. 30 > J inter. सोअ (for ग) स्स & तेण, P om. पि. 31 > P  
 पुच्छामि, J जाणउ, P गणंतु, J गणयं, P अवसुईओ.

- १ सुमिणयाहं, णियच्छंतु पेमिन्तिया, पुच्छिजंतु जोइणीओ, साहंतु कण्ण-पिसाइयाओ, सव्वहा जहा तथा पाविज्जइ कुमारस्स 1  
सरीर-पउत्ती, धीरो होहि ।' एवं संतियणेण भणिओ समाणो समासत्थो मणयं राया । देवी उण खणं आसासिया, खणं  
३ पहसिया, खणं विहसिया, खणं णीसहा, खणं रोइरी, खणं मुच्छिय ति । सव्वहा कहं कहं पि तुह पउत्ति-मेत्त- 3  
णियद्ध-जीवियासा आसासिज्जइ अंतेउरेणं । 'हा कुमार, हा कुमार' ति विलाव-सदो केवलं णिसुणिज्जइ ।  
§ २५१ ) णयरीए उण तिय-चउक्क-चचर-महापह-रच्छामुह-नोउरेसु 'हा कुमार, केण णीओ, कथ गओ, कथ  
६ पाविओ, हा को उण सो तुरंगमो दासुणो ति । सव्वहा तं होहिइ जं देवयाओ इच्छंति' ति । तरुणियणो 'हा सुहय, हा 6  
सुंदर, हा सोहिय, हा मुद्धड, हा वियइ, हा कुवल्लयचंद-कुमार कथ गओ ति । सव्वहा कुमार, तुह विरहे कायरा इव  
पउत्थवइया ।' णयरी केरिसा जाया ।  
९ उवसंत-मुरय-सद्दा संगीय-विवज्जिया सुदीण-जणा । झीण-विलासासोहा पउत्थवइय व्व सा णयरी ॥  
तओ कुमार, एरिसेसु य दुक्ख-बोलावियव्वेसु दियहेसु सोय-विहले परियणे णिवेइयं पडिहारीए महाराइणो 'देव, को वि  
पूसराय-मणि-पुंज-सच्छमो पोमराय-मणि-वयणो । किं पि पियं व भणंतो दट्ठं कीरो महइ देवं ॥'  
१२ तं च सोऊण राइणा 'अहो, कीरो कयाइ किं पि जाणइ ति दे पेसेसु णं' उल्लविए, पहाइया पडिहारी पविट्ठा य, 12  
मग्गालग्गो रायकीरो । उवसप्पिऊण भणियं रायकीरेण । अवि य ।  
✓ 'भुंजसि पुणो वि भुंजसु उयहि-महामेहलं पुहइ-लच्छि । वड्ढसि तथा वि वड्ढसु णरणाह जसेण धवल्लेण ॥'  
१५ भणिए, णरवइणा अउव्व-दंसणायणण-विमहय-वस-रस-समूससंत-रोमं-कंचुय-च्छविणा भणियं 'महाकीर, तुमं कओ, 15  
केण वा कारणेण इहागओ सि' ति । भणियं च रायसुएणं । 'देव, वड्ढसि कुवल्लयचंद-कुमार-पउत्तीए' ति भणियमेत्ते  
राइणा पसरंतं-तर-सिणेह-णिट्ठभर-हियएण पसारिओभय-वाहु-डंडेण गहिओ करयलेण, ठाविओ उच्छंणे । भणियं च राइणा  
१८ 'वच्छ, कुमार-पउत्ती-संपायणेण कुमार-णिविसेस-दंसणो तुमं । ता दे साह से कुमारस्स सरीर-वट्ठमाणी । कथ तए दिट्ठो, 18  
कहिं वा कालंतरम्मि, कथ वा पएसे, केच्चिरं वा दिट्ठस्स' ति । एवं च भणिए भणियं कीरेण 'देव एत्तियं ण-याणामि, जं  
पुण जाणामि तं साहिमो ति ।  
२१ § २५२ ) अत्थि इओ अइदूरे णम्मया णाम महाणइ । तीय य दाहिणे कूले देयाडई णाम महाडई । तीए 21  
देयाडईए मज्जे णम्मयाए णाइदूरे विंझ-गिरिवरस्स पायासण्णे अणेय-सउण-सावय-संकिण्णे पएसे एणिया णाम  
महातावसी । तीए आसम-पए अम्हे वि चिट्ठामो । एवं च परिवसंतस्स इओ थोएसुं चय दियहेसुं एगागी सत्त-मेत्त-परिवारो  
२४ संपत्तो तम्मि आसम-पएसम्मि कुमारो । तओ अम्हेहिं दिट्ठो । तथ य सव्वभाव-णेह-णिट्ठभरालावो पयत्तो । पुणो गंतुं 24  
समुट्ठिओ पुच्छिओ अम्हेहिं जहा 'कुमार, किं तुज्ज कुलं, किं वा णामं, कथ वा गंतुं ववसियं' ति । तओ तेण भणियं ।  
'सोम-वंस-संभवो दढवस्म-महाराओ अओज्झाए परिवसइ । तस्स पुत्तो अहं, कुवल्लयचंदो मह णामं, गंतव्वं च मए भगवओ  
२७ मुणिणो समाएसेण विजयाए पुरवरीए कुवल्लयमालाए पलंविस्स पादयस्स पूरणेण परिणेउं संबोहणेणं च' ति । एवं च 27  
भणिऊण गओ तं दक्खिणं दिंसं कुमारो । भणियं च तीय तावसीय 'कुमार, महंतो उव्वेवो तुह गुरुणं, ता जइ तुमं भणसि  
ता साहेउ एस कीरो गंतूणं सरीर-पउत्ति' ति । भणियं च तेण 'को दोसो, पूयणिज्जा गुरुणो, जइ तीरइ गंतुं, ता वच्चउ,  
३० साहेउ गुरुणं पउत्ति । साहेउव्वं च मज्झ वयणेणं पायवडणं गुरुणं' ति भणमाणो पत्थिओ मण-पवण-वेओ कुमारो' ति । 30

1 > P पुच्छियंतु, P पिसाइयाओ, P कुमार तस्स. 2 > P होही, J om. समाणो, P ओ for उण, P मुच्छिया for  
आसासिया, J om. खणं पहसिया. 3 > J रोइणी for रोइरी, J सव्वहा अहं कहं, P पउत्तिमेत्त निससवद्ध. 4 > J om,  
2nd हा, J विलव-. 5 > J तीयचउक्क, P महापहारच्छामुहा-. 6 > P होइ for होहिइ, P om. ति, J तरुणीअणो  
उण हा सुहयसुंदर. 7 > J विय for इव. 8 > J adds अवि य before उवसंत. 9 > J उअसंत, P सुदीणमणा, P मोहा  
for सोहा. 10 > P om. कुमार, P आ दुक्ख for य दुक्ख, P वियले for विहले, P देवि for देव. 11 > [मणि-सच्छम-वयणो]  
12 > P adds अवि य before तं च, P कहीइ for कयाइ, P om. णं, J om. य. 13 > J मग्गालग्गा रायकीराओ समप्पिऊण  
य भणियं. 14 > P भुंजसु पुणो, P लच्छी । 15 > P सणिए for भणिए, J णरवइणो, P दंसणायत्तण, P om. रस, J  
कंचअच्छविणो भणियं च रायसुएण, J om. भणियं महाकीर etc. to इहागओ सि ति, P adds राइणा भणिओ before महाकीर.  
16 > P सु ति for सि ति, P om. च, P om. कुमार. 17 > J पसारिओ भुअडण्डेण. 18 > J om. पउत्तीसंपायणेण कुमार,  
P साह कुमार सड्ढरीरसड्ढमाणी, P दिट्ठो कहं व कंनि व कालंतरम्मि. 19 > J om. च, J देवि for देव, J किं पुण जं for जं  
पुण. 21 > J दाहिणकूले P दाहिणे कूळ, J तीय देआडईअ मज्जे. 22 > P om. णम्मयाए णाइदूरे. 23 > P अम्ह, P om. वि,  
J च परिवसंतस्स, P परिवारो. 24 > P आसमपए कुमारो, J P भरालावे, P पयत्ते. 25 > J adds य before अम्हेहिं.  
26 > JP संभवो, P दढवस्म, J उवज्झाए for अओज्झाए, P हं for अहं, P om. मह. 27 > P मुणिणा, P विजयपुर,  
P मालालंविस्स पादस्स पादस्स पूरणेण, J पातयस्स, P परिणेओ, P संबोहणं ति । 28 > J adds ति after कुमारो, P om.  
तीय, P तावसीए, P adds गुरुणं before तुमं. 29 > P साहेउ, P पउत्ति ति, J om. ति, P पूयणिज्जा गुरुणो. 30 > P  
मयण for मज्झ, J om. पायवडणं, P पुच्छिओ for पत्थिओ.

1 § २५३ ) इमं च सोऊण राइणा तक्खणं चेय सदाविया दिसा-देस-समुद्-वणिया, पुच्छिया य 'भो भो वणिया, 1  
जाणह तुव्भे णिसुय-पुच्चा दिट्ठ-पुच्चा वा विजया णाम णयरी दाहिन-समुद्-वेलाऊलम्मि' । तेहिं भणियं 'अत्थि देव सयल-  
3 रयणाहारा णयरी विजया, को वा ण-याणइ । तत्थ राया महाणुभावो तुज्ज चरियाणुवती विजयसेणो सयं णिवसए, देवो वि 3  
तं जाणइ च्चिय जइ णवरं पम्हुट्ठो' ति । इमं च सोऊण राइणा भणियं । 'वच्छ महिंदकुमार, पयट्ट, वच्चासो तं चेय  
णयरी' ति भणमाणो समुट्ठिओ राया । तओ मया विण्णविओ । 'देव, अहं चेव वच्चासि, च्चिट्ट तुमं' ति भणिए राइणो  
6 पोम्मरायप्पमुहा आणत्ता राय-तणया । 'तुव्भेहिं सिगं महिंदेण समं गंतव्वं विजयं पुरवरिं' ति भणिए 'जहाणवेसि' ति 6  
भणमाणो पयत्ता । अम्हेहि वि सज्जियाइं जाण-वाहणाइं । तओ णीहरिया वाहिं णयरीए । संदिट्ठं च राइणा ।

'मुच्छा-मोहिय-जीया तुज्ज पउत्तीहिं आससिज्जंती । ता पुत्त एहि तुरियं जा जणणी पेच्छसि जियंती ॥'

9 देवीय वि संदिट्ठं । 9

'जिण्णो जराए पुत्तय पुणो वि जिण्णो विओग-टुक्खेण । ता तह करेसु सुपुरिस जा पियरं पेच्छसि जियंतं ॥'

इमे य संदेसए णिसामिऊण आगया अणुदियह-पयागएहिं गिम्हयालस्स एक्कं मासं तिण्णि वासा-रत्तस्स । तओ एत्थ संपत्ता ।

12 एत्थ य राइणो समप्पियाइं कोसल्लियाइं, साहिया पउत्ती महारायसंतिया, पुच्छिया य तुह पउत्ती जहा एत्थ महारायपुत्तो 12  
कुवलयचंदो पत्तो ण व त्ति, जाव णत्थि णोवल्लहा पउत्ती । तओ पम्हुट्ट-विजो विव विजाहरो, विहडिय-किरिया-वाओ  
विव णरिन्दो, गिरुद्ध-मंतो विव मंतवाई, विसंवयंतो विव तंतवाई, सव्वहा दीण-विमणो जाओ । पुणो राइणा भणियं 'मा  
15 विसायं वच्च, को जाणइ जइ वि एत्थ संपत्तो तहावि णोवल्लिक्खजइ' । अण्णं च 'अज्ज वि कह वि ण पावइ' ति ता 15  
इह-ट्ठिओ चेय कं पि कालं पडिवाल्लेह । दिण्णं आवासं । कयाइं पसायाइं । दियहे य दियहे य तिय-चउक्क-चच्चर-महापह-  
देवउल-तलाय-चट्ट-मढ-विहारेसु अण्णिसामि । तओ अज्ज पुण उट्टेमाणस्स फुरियं दाहिणेणं भुयाउंडेणं दाहिन-णयणेण य ।

18 तओ मए चित्तियं 'अहो सोहणं णिमित्तं जेण एवं पढीयइ । जहा, 18

सिर-फुरिए किर रज्जं पिय-मेलो होइ वाहु-फुरिएण । अच्छि-फुरियम्मि वि पियं अहरे उण सुवणं होइ ॥

उट्टम्मि भणसु कलहं कण्णे उण होइ कण्ण-लंकारं । पियदंसो वच्छयले पोटे मिट्ठं पुणो सुंजे ॥

21 लिंगम्मि इत्थि-जोगो गमणं जंवासु आगमो चलणे । पुरिसस्स दाहिणेणं इत्थीए होइ वामेणं ॥ 21

अह होइ विवजासो जाण अणिट्ठं च कह वि फुरियम्मि । अह दियहं चिय फुरणं णिरत्थयं जाण वाएण ॥'

ता कुमार, तेण वाहु-फुरिएण पसरमाण-हियय-हरिसो किर अज्ज तुमं मए पावियव्वो ति इमं रायंगणं संपत्तो जाव दिट्ठो

24 तुमं इमिणा जयकुंजरेण समं जुज्जमाणो त्ति । 24

§ २५४ ) तओ इमं च णिसामिऊण राइणा भणियं । 'सुंदरं जायं जं पत्तो इह कुमारो तुमं च त्ति । सव्वहा

धण्णा अम्हे, जेण दढवम्म-महाराइणा समं संबंधो, कुवलयमालाए पुव्व-जम्म-णेहोवलंभो, अम्ह धरागमणं कुमारस्स,

27 उद्दाम-जयकुंजर-लंघणं, दिव्व-रुसुम-वुट्ठि-पडणं, पादय-पूरणं च । सव्वं चेय इमं अच्छरियं । सव्वहा परिणाम-सुह-फलं 27  
किं पि इमं ति । तेण वच्चह तुव्भे आवासं, वीसमह जहा-सुहं । अहं पि सदाविऊण णणयं वच्छाए कुवलयमालाए चीवाह-  
मास-दियह-तिहि-रासि-णक्खत्त-वार-जोय-लग्ग-सुहुत्तं गणाविऊण तुम्हं पेसेहामि' ति भणमाणो राया समुट्ठिओ आसणाओ ।

30 कुमारा वि उवगया आवासं कय-संमाणा । तत्थ वि सरहसमइमग्ग-पयत्त-गइ-वस-खलंत-चलणग्ग-मणि-णेउर-रणणा-सणाइ- 30  
मेहला-सइ-पूरमाण-दिसिवहाओ उद्धाइयाओ विलासिणीओ । ताहिं जहा-सुहं कमल-दल-कोमलेहिं करयलेहिं पक्खालियाइं  
संख-चक्कं कुसाइ-लक्खण-ज्जुयाइं चलणयाइं, समप्पियाओ य दोणं पि पोत्तीओ । अवि य ।

33 णेहोयगिय-देहा सुपुरिस-फरिसो गलंत-रुइरंगी । पोत्ती रत्ता महिल च्च पाविया णवर कुमरेण ॥ 33

तओ सय-सहस्स-पाएहिं बहु-गुण-सारेहिं सिणेह-परमेहिं सुमित्तेहि व तेह-विसेसेहिं अट्ठमगिया विलासिणीयणेण, उवट्टिया

खर-फरुस-सहावेहि सिणेहावहरण-पट्टएहिं खलेहिं व कसाय-जोएहिं, ण्हाणिया य पयइ-सत्थ-सीय-सुह-सेव्व-सच्छेहिं

2 > P वेलाउलंमि, P देवा for देव. 3 > P om. णयरी, P जत्थ for तत्थ, J चरियवत्ती. 4 > J णयाणइ for

जाणह. 5 > J मए for मया, J च्चअ for चेव, P om. ति, J राइणा for राइणो. 6 > J पोप्पं P चोप्परायपमुहा, P

विजयपुरवरिं, J भणिया for भणिए. 7 > P अम्हे किंचि सज्जियाइं । ताओ, P adds अवि य before मुच्छा. 8 > P

आससिज्जंति, P ता कुणसु पुत्त एहिं जा जणणी पेमुच्छसु जियंती. 10 > J विओअ. 11 > P संदेसे, J एकमासं. 12 > P

य राइण, J संहिया for साहिया, P पयत्ती महा, P महारायउत्तो. 13 > J विणडियकिरियावाओ. 14 > J विरुद्ध for गिरुद्ध,

J मंतवाती, J om. विसंवयंतो विव तंतवाई, P तंतवाई. 16 > P कालं पडिक्खेहं, P पासायाइं, P om. य दियहे य, J महापहं-

17 > P अन्नसामि, P om. तओ, P दाहिणं, P भुयाउंडेणं, P om. दाहिन-. 18 > J पढीयति. 19 > P अच्छिफुरणंमि. 20 >

P कन्नलंकारं । फियफसो. 21 > J इत्थिजोओ. 23 > P तओ for ता. 24 > P ति for त्ति. 25 > J एअव for इमं च,

J संपत्तो for जं पत्तो. 26 > P दढधम्ममहाराइणो, J संदद्धो. 27 > P पाययपूरणं, J अच्छरीयं. 28 > P विवाह-. 29 > J

दियहं, P गणामिऊण. 30 > J सरहसमइमग्ग, P वइस for वस, P रणणो. 31 > P उद्धाइयाओ, P om. जहा, J om. दल.

32 > P om. लक्खणजुयाइं, P चलणाइं, P om. य. 33 > J देहो, P सुवुरेस, J फरिसो गलंत, P adds तीरत्ता after रत्ता.

34 > P णिया for परमेहिं, P om. सुमित्तेहि व etc. to ण्हाणिया. 35 > JP सच्छसीअ.

१ कलंकावहारएहिं सज्जण-हियएहिं घ जलुप्पीलेहिं, दिण्णाणि य सुरहि-परिमलायद्विय-गुमुगुमेंत-भमर-वलामोडिय-चरण-  
 चुंबियाइं गंधामलयाइं उत्तिमंगे । तओ एवं च कय-इट्ट-देवया-णागोकारा, भोत्तूण भोयणं सुह-णिसण्णाणं आसणेसुं किं-किं  
 ३ पि चिर-विभोय-संभरंताण समागया एका राय-कुलाओ दारिया । तीय पणाम-पच्चुट्टियाए साहियं । 'कुमार, वच्छाए  
 कुवलयमालाए णणिए गह-गोयरे गणएण ण ठवियं सुज्झमाणं लगं अज्ज वि वीसत्थं, ता मा तूरउ कुमारो हियएणं ।  
 णियथं चियं कुमारस्स इमं गेहं ता जहा-सुहं अच्छसु' ति भणिऊण णिकखंता दारिया । तओ महिंदेण भणियं 'कुमार,  
 ६ अज्ज वि दीहं इमं, संपयं महाराइणो लेहं पेसेम्ह तुह संगम-पउत्ति-मेत्तेणं अत्थेणं' ति भणिऊण विणिकखंतो महिंदो । कुमारो  
 य चिंतिउं पयत्तो 'अहो, लंघिया मए असंखा गिरिवरा, पभूया देसा, बहुयाओ णिणयाओ, महंताओ महाणइंओ,  
 अणेयाओ महाडईंओ, पावियाइं अणेयाइं दुक्खाइं, ताइं च सव्वाइं कुवलयमाला-मुहयंद-चंदिमा-गलत्थियाइं तम-वंद्राइ  
 ९ व पणट्टाइं । संपयं पुण इमिणा पडिहारि-वयणेण अण्णाणि वि जाइ लोए दुक्खाइं ताइं मज्झ हियए पक्खित्ताइं ति  
 मण्णे हं । सव्वहा कथ अहं कथ वा सा तेलोक्क-सुंदरी । अवि य ।

आइट्टं जइ मुणिणा पूरिज्जइ णाम पायओ गूढो । तेलोक्क-सुंदरीए तीए उण संगमं कत्तो ॥

१२ अच्छउ ता तीए समं पेम्मावंधो रयं च सुरयम्मि । हेलाए जो वि दिट्ठो ण होइ सो माणुसो मण्णे ॥' १२

§ २५५ ) इमं चित्तयंतो मयण-सर-गोयरं संपत्तो । तओ किं-चित्तिउं पयत्तो । अवि-य । अहो तीए रूवं ।

चलणंगुलि-णिम्मल-णह-मऊह-पसरंत-पडिहयप्सरं । पंचमियंदं कह णोमि णवर-णक्खेहिं उवमाणं ॥

१५ जइ वि-सिणिद्धं मउयं कोमल-विमलं च होइ वर-पउमं । लज्जति तीए पाया उवमिज्जता तह वि-तेण ॥ १५

सामच्छेयं मउयं रंभा-थंभोवमं पि ऊरु-जुयं । ण य भणिमो तेण समं वीहंतो अलिय-दोसस्स ॥

१८ सुरयामय-रस-भरियं महियं विबुहेहिं रमण-परियरियं । सग्गास्सं समुहस्स व तीय कलत्तं अणुहरेज्ज ॥ १८

१८ चित्तेमि मुट्ठि-गेज्जो मज्जो को णाम सहहे एयं । देवा वि काम-रूइणो तं मण्णे कथ पावंति ॥ १८

मरगय-कलस-जुयं पिव थण-जुयलं तीए जइ भणेज्जासु । असरिस-समसीसी-मच्छरेण मह णाम कुप्पेज्जा ॥

कोमल-मुणाल-ललियं बाहा-जुयलं ति णत्थि संदेहो । तं पुण जल-संसार्गिं दूसिययं विहंडए तेण ॥

२१ कंतीए सोम्म-दंसित्तणेण लोओवरोह-वयणेहिं । चंद-समं तीए मुहं भणेज्ज णो जुज्जए मज्झ ॥ २१

किं धवलं कंदोट्टं सफं रत्तं च णीलयं कमलं । कंदोट्ट-कुमुय-कमलाण जेण दिट्ठी अणुहरेज्ज ॥

घण-णिद्ध-मउय-कुंचिय-सुसुरहि-वर-धूव-वासियंमाण । कज्जल-तमाल-भमरावलीउ तूरेण केसाण ॥

२४ इय जं जं चिय अंगं उवमिज्जइ कह वि मंद-बुद्धीए । तं तं ण घडइ लोए सुंदरयर-णिम्मियं तिस्सा ॥ २४

§ २५६ ) एवं च चित्तयंतो दुइयं मयणावत्थं संपत्तो कुमारो, तत्थ संगमोवायं चित्तिउं समाढत्तो । केण उण  
 उवाएण तीए दंसणं होज्ज । अहवा किमेत्थ वियारेण ।

२७ रइऊण इत्थि-वेसं कीय वि सहिओ सहि त्ति काऊण । अतिउरम्मि गंतुं तं चंदमुहिं पलोएमि ॥ २७

अहवा णहि णहि ।

सुपुरिस-सहाव-विमुहं राय-विरुद्धं च णिंदियं लोए । महिला-वेसं को णाम कुणइ जा अत्थि भुय-डंडो ॥

३० किं पुण करियव्वं । हूं, ३०

माया-वंचिय-बुद्धी भिण्ण-सही-वयण-दिण्ण-संकेयं । तुरयारूढं हरिऊण णवर राइए वच्चांमि ॥

अहवा ण एरिसं मह जुत्तं ।

३३ स च्चेय कहिं वच्चइ कथ व तुरएहिं हीरए वाला । चोरो त्ति णिंदणिज्जो काले अह लच्छणं होइ ॥ ३३

ता किं पुण कायव्वं । हूं,

१ > J सज्जाण and P सज्जए हियए for सज्जण, P गुमुगुमेंत. २ > P नमोकारो. ३ > P पच्चुट्टियाए. ४ > J P गणए (perhaps गणएँ) for गणएण (emended), P ट्टवियं for ठवियं, J माणलगं, P तूरओ कुमार. ६ > P inter. इमं & दीहं, J पेसेसु for पेसेम्ह, P पउत्तमेत्तेणं अत्थेणं, P om. ति भणिऊण. ७ > P विय for य, P om. महंताओ महाणइंओ. ८ > P मुहलंदिवागलवत्थियाइं, J वंद इव P वंदा इव. ९ > P पणट्टं, P पडिहार, P जाणि for जाइ. १० > P कत्थीइ. ११ > P मुणिणो पूरिज्जउ. १२ > J आ तीय for ता तीए, J पेम्मावद्धो P पेम्मावंधा. १३ > P मरण for मयण, P पत्तो for संपत्तो, P om. तओ किं चित्तिउं पयत्तो. १४ > J मयूह, J परिहय. १५ > J तीय. १६ > P ऊरुजयं, P इमं for समं, P वीहंतो. १७ > J समुह व, J अणुहरेज्जा P अणुहरेज्ज. १९ > J तीय, P कुप्पज्जो. २० > P पुण खलज्जणसंमग्गिदूसियं, J दूसियं. २१ > J कंतीय, P सोम, J तीय मुहं मण्णेज्ज. २२ > P किंदोट्टं, P om. सत्थं रत्तं, P कुमुया, J अणुहरेज्जा. २३ > P कुंचियसुरहि. २४ > J से for अंगं, J सुंदरयरम्मि तिस्साए ॥ २५ > P चित्तयते, J adds य after तत्थ, P उण वाण्ण. २६ > J तीय, J होज्जा, P किमित्थ. २९ > P om. णाम, P adds नवर before जा, J जो for जा. ३१ > P राइं न for राइए. ३२ > P अहवा न जुत्त मह एरिसं, P om. मह जुत्तं. ३३ > J कहं for कहिं, P कुले य for काले य.

- 1 अवहल्यिऊण लज्जं समुहं चिय विण्णवेमि रायाणं । उप्पिज्जटं अज्जं चिय कुवलयमाला पसाएणं ॥ 1
- तं पि णो जुज्जइ । कह ।
- 3 अवहल्यिय-लज्जो हं मयण-महासर-पहार-विहलंगो । ठाहामि गुरुण पुरो पियाए णामं च वेच्छामि ॥ 3
- ता एको उण-सुंदरो उवाओ । अवि य ।
- णिक्कड्डियांसि-विसमो णिवाडियासेसं-पक्क-पाइको । दारिय-करि-कुंभयडो गेणहामि वला जयसिरिं व ॥
- 6 § २५७) एवं च चिंतयंतस्स समागजो-महिंदकुमारो । तेण य लक्खिओ से हियय-नाओ त्रियप्पो । भणियं च 6
- संहासं णेण 'कुमार कुमार, किं पुण इमं सिंगार-वीर-वीभच्छ-कस्सा-णाणा-रस-सगाहं णाडयं पिव अप्परायं णचीयइ'त्ति ।
- तओ ससंज्झस-सेय-हास-मीसं भणियं कुमारेण 'णिसण्णसु आसणे, पेसिओ तायस्स लेहो' । महिंदेण भणियं 'पेसिओ' ।
- 8 कुमारेण भणियं 'सुंदरं कयं, अह इओ कत्तिय-मेत्ताइं जोयणाइं अओज्जा पुरवरी । महिंदेण भणियं 'कुमार, किं इमिणा अपत्थुय- 9
- पसंणेण अंतरेसि जं मए पुच्छियं' । तओ सत्रिलक्ख-हास-मंथरच्छिच्छोहं भणियं कुमारेण 'किं वा अणं पत्थ पत्थुय-पुच्चं' ।
- महिंदेण भणियं 'णणु मए तुमं पुच्छिओ जहा किं पुण इमं अप्परायं तए णडेण च णच्चिं य समाहत्तं' । तओ कुमारेण
- 12 सत्रिलक्खं हसिऊण भणियं 'किं तुहं पि अकहणीयं अत्थि । जं पुण मए ण साहियं तं तुह विण्णणं परिकवमाणेण । किं 12
- जह मह हियय-नायं लक्खेसि तुमं किं वा ण व'त्ति । महिंदेण भणियं 'किं कुमार, महारायि-सिरिदुद्धम्म-परियणे अत्थि
- कोइ जो जणस्स हियय-नायं ण-याणइ'त्ति । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण । संव्वहां एयं मए चिंतियं जहा आगया
- 15 एत्थ अम्हे दूरं देसंतरं किर कुवलयमाला परिणेष्वत्ति । गहिओ जयकुंजरो, पुरिओ पायओ, दिट्ठा कुवलयमाला, किर संपयं 15
- णिच्चुया जाय त्ति जाव इमाए पडिहारीए साहियं जहा अज्ज वि कुवलयमालाए गह-लंग-जोओ ण सुंदरो, तेण 'कुमार,
- ण तए जूरियच्चं वीसत्थो होहि' एयं किर राइणा संदिट्ठं ति । तेण मए चिंतियं जहा 'एस पुरिसो छलो जेण गह-लगा
- 18 दियहो वा ण परिसुज्जइ त्ति । संव्वहा कुवलयमाला-थण-थली-परिमलण-पक्कलं ण होइ अम्ह चच्छयलं । अवि य । 18
- अइवहुयं अम्ह फलं लहुयं मण्णामि कामदेवं पि । जं तीए पेसिया मे धवल-विलोला तहा दिट्ठी ॥
- ता ण सा मं वरेउ'त्ति इमं मए चिंतियं ।
- 21 § २५८) महिंदेण भणियं 'अहो, 21
- जं तं सुव्वइ लोए पयहं आहाणयं णरवरिंद । पंडिय-पडिओ वि णरो मुज्जइ सव्वो सकजेसु ॥
- जेण पुव्व-जम्म-सिणेह-पास-वद्धा मुणिवर-णाणोवएस-पाविया जयकुंजर-लंघण-घडंत-मुणि-त्रयणा लंघिय-पाट्टय-पूरण-संपुण्ण-
- 24 पइण्णा सयल-गरिंद-अंद-पच्चक्ख-दिण्ण-वरमाला गुरुयण-लज्जावणय-त्रयण-कमल-वण-माल-ललिय-धवल-विलोल-पसरंत- 24
- दिट्ठि-माला वि कुवलयमाला त्रियप्पंतरं पाविय त्ति । अहो मूढो सि, इंगियाइं पि ण गेणहसि । किं पुणं ऐतो ण पुलइओ
- सि । किं पुलइज्जंतीए ण लज्जियं तीए । किं ण पयडिओ अंस-भाओ । किं जयकुंजर-लंघण-वावडो ण पुलइओ तं
- 27 जहिच्छं । किं किं पि गुरु-पुरओ वि ण भणियं अच्चत्तक्खरं । किं ओयंछिय-त्रयणा ण जाया । किं पिउणा 'वच्छे, 27
- वच्चसु'त्ति भणिए ण अलसाइयं । किं दूरे ण तुह दिण्णो अच्छिच्छोहो । किं ण मडलियाइं आसण्णे णंयणाइं । किं ण
- अण-त्रवएसेहिं हसियं तीए । किं कण-कंहुयच्छलेण ण वूढो रोमंचो । किं ण पीडिए णियय-थण-मुहे । किं ण गहियं
- 30 अहरं दिववरेहिं । किं ण केस-संजमण-मिसेण देसियं थणंतरं । किं ण संजमियं अलिय-व्हसियमुत्तरिज्जयं । किं तुमं 30
- दट्ठं ण पुलइयं अत्ताणयं । किं अहं ण पुलइओ गुरुयणो विव सलज्जं । किं अलिय-खेय-किंलंत-जंभा-वस-वल्लिउव्वेत्तमाण-वाहा-
- लयाए ण णिक्खत्तो अप्पा सहीए उच्छंणे त्ति, जेण भणसि जहा णाहं रइओ कुवलयमालाए'त्ति । इमं च सोऊण भणियं

1) P समुहे, P पसाएसणं. 2) J अह for कह. 3) P दाहामि, P पुरओ for पुरो, P वेत्तण for वेच्छामि. 5) P निव्वडियायेत्त, जयसिरिव्व, P च for व. 6) J हिययगओ P हियोययओ. 7) P inter. जेण (जेयण) & सहासं, P om. one कुमार, P वीमत्तकारण, J सणाहणाडयं. 8) J समुज्जससैअहास- P सज्झस, J णीसम्मगु P निसम्मसु, P तायतरस, P भणितं. 9) P अइ for इओ, J अयोज्जा P अउज्जा, J अप्पत्थुअ. 10) P पुच्छिओ, J संथरच्छिच्छोहं, J अणं कत्थ एत्थ अप्पुच्चं. 11) J णच्चिउ. 12) P अकहणीयमत्थि, P om. किं. 13) P लक्खसि, P ददथम्मः. 14) P, J for जणस्स, P जणस्स जाणइ for णयाणइ. 15) J पातओ. 16) J जायन्ति, P विवाह for गह. 17) P inter. चिंतियं & मए. 18) P om. वा before ण, J om. त्ति, P वणत्थली for थणथली, P om. पक्कलं. 19) P अप्पफरं, J तीय. 20) J मं- for मं, P वरउ, J adds ति after चिंतियं. 21) J एवं तं जं सुव्वइ पयहं आहाणयं जणे सयले । for the first line जं तं etc. P पंडिये, P व for वि, P inter. सव्वो & मुज्ज (ज्जा) इ. 22) J adds संवद्ध before सिणेह, P सिणह, P पाययपूरण. 24) P om. दिण्ण, P om. विलोल. 25) P इंगियं पि, P किं पुलयंतो न. 26) J om. ण लज्जियं तीए, J पडिओ for पयडिओ, P कुंजरलंघण, J om. तं. 27) P गुरु, J अचमंतरक्खरं, P किं उअच्छिय. 28) P adds त्ति after अच्छिच्छोहो. 29) P किं अत्रावएसेहिं न हसियं, J तीय, P किं वा कन्नकंदुयं, J कुट्टो for वूढो, J पंडिए for पीडिए, P निययमे. 30) P दसणेहिं for दिववरेहिं, P संजममिसेण. 31) P दट्ठूण न पुलइयमत्ताणयं, P वंतावस. 32) P om. ण, P सही for सहीए, P om. जहा before णाहं, P एवं for इमं.

- 1 कुमारेण 'अहो, गुरु-पुरधो पढम-विज्जुरेहा इव दिट्ठ-णट्ठा एकत्ते एत्तिए भावे पदंसिए कथ वा तए लक्खिए' ति । 1  
तेण भणियं 'कुमार, अहो पंडिय-मुक्खो तुमं, जेण
- 3 हसियं पि ण हसियं पिव दिट्ठं पि ण दिट्ठमेव जुवईण । हियंय-दइयम्मि दिट्ठे को वि अउच्चो रसो होइ ॥'  
कुमारेण भणियं 'एयं तुमं पुण जाणसि, मए उण ण किंचि एत्थ लक्खियं' ति । महिंदेण भणियं 'तुमं किं जणसि मय-जलोय-  
लंत-गंडयलोलेहड-भसलावली-कलप्पलावाउलिज्जंत-जय-कुंजर-लंघण-वावड-मणो, अहं पुण तीए तम्मि समए तुह दंसण-  
6 पहरिसुलसंत-रोमंच-पसाहण-पसाहियायार-भावण्णेषण-तग्गओ, तेण जाणिमो' ति । जं च तए आसंकिंयं महाराय-विजयसेणो 6  
बहु-दियह-लग्ग-गणण-च्छलेण ण दाहिइ बालियं ति तं पि णो । को पुण अण्णो तुह सरिसो कुल-विहव-रूव-जोच्चण-  
विण्णाण-णाण-सत्त-कला-कलावेहिं जस्स तं दाहिइ । ता मिच्छा-विद्यप्पो तुह इमो' ति भणमाणस्स समागया एक्का दारिया ।  
9 तीए चलण-पणाम-पच्चुट्टियाए विण्णत्तं । 'कुमार, भट्टिदारियाए सहत्थ-गंधिया इमा सिरिमाला तुहं पेसिया । एसो य पारि- 9  
याय-मंजरी-सिरीस-कय-कारिम-गंध-लुद्ध-मुद्दागयालि-माला-हलबोल-वाउलिज्जमाण-कारिम-केसरो कण्णऊरओ पेसिओ' ति  
भणमाणीए पणामिओ कुमारस्स । कुमारेणावि सुह-संदोह-महोयहि-मंथणुग्गओ विव सायरं गहिओ ति पुलइयं च तेहिं ।
- 12 § २५९ ) भणियं च महिंदेण 'कुमार, सुंदरं कण्णपूरयं, किंतु मणयं इमस्स इमं णालं थूलं' । कुमारेण वि 12  
भणियं 'एवमिमं, किं पुण कारणं दे णिरूवेमि' । दिट्ठं च अइतणुय-भुज्जवत्तंरियं पत्तच्छेज्ज-रायहंसियं । उच्चेल्लिया य  
कुमारेण, दिट्ठा असरिसा विय रायहंसिय ति । कुमारेण भणियं 'वयंस, जाण ताव केरिसा इमा हंसिय' ति । महिंदेण  
15 भणियं 'किमेत्थ जाणियव्वं, भुज्ज-विणिम्मिया' । तओ सहासं कुमारेण भणियं 'णणु अहं भावं पुच्छामि' । महिंदेण भणियं 15  
'केरिसो इमाए अचेतणाए भावो' । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण । णणु किं एसा भीया, किं वा उच्चिग्गा, किं वा  
दीणा, किं वा पमुइया, आउ पिय-विरह-विहुरा होउ साहीण-दइय-सुरयासाय-लालस' ति । महिंदेण भणियं 'ण इमाण  
18 एक्का वि, किंतु अहिणव-दिट्ठ-णट्ठ-दइया-सुह-संगम-लालसा एसा' । कुमारेण भणियं 'भण, कहं जाणीयइ' । महिंदेण 18  
भणियं 'किं वा एत्थ जाणियव्वं । अवि य ।

तक्खण-विणट्ठ-पिययम-पसरिय-गुरु-विरह-दुक्ख-सिडिलंगी । उकंठिय-पसरिय-लोल-लोयणा दीसए जेण ॥

- 21 कुमारेण भणियं 'एवं णिंमं णिउणं च णिरूविउं पयत्तो । पुलयंतेण य भणियं 'वयंस, दुवे इमीए पुडा' । विहाडिया य 21  
जाव पेच्छइ अवरलिवी-लिहियाइं सुहुमाइं अक्खराइं । भणियं च तेण 'अहो, अक्खराणि व दीसंति' । वाइउं पयत्ता । किं  
पुण लिहियं तथ । अवि य ।
- 24 अहिणव-दिट्ठ-दइय-सुह-संगम-फरिस-रसं महंतिया । दूसह-विरह-दुक्ख-संताविया कलुणं रुवंतिया ॥ 24  
तरलिय-णयण-बाह-जल-पूर-जलज्जलयं णियंतिया । दइया-हंसएण मेलिज्जइ इह वर-रायहंसिया ॥
- तओ कुमारेण भणियं 'अहो णिउणत्तणं कलासु कुवलयमालाए, जेण पेच्छ कारिम-कण्णपूरओ, तस्स मुणाले रायहंसिया,  
27 सा वि णिय-भाव-भाविया, तीय वि मज्जे हंसिया-भाव-विभावणं इमं दुवइ-खंडलयं ति सव्वहा तं तहा जहा तुमं भणसि' । 27  
महिंदेण भणियं 'तुमं पुण असंबइं पलवसि, जेण इमं पि एरिसं रायहंसिं अण्णहा संभावेसि' ति । ताव य ।
- मा हीरह रायरसा धण-धणिया-विहव-पुत्त-भंडेहिं । धम्मेण विणा सव्वं पुक्करियं जाम-संखेण ॥
- 30 इमं च सोऊण सहसुब्भंत-विल्लोल-चलंत-पम्हल-णयणो भणिउं पयत्तो । 'अहो अल्यंगओ दिणयरो, पूरिओ चउ-दिहय- 30  
जाम-संखो । ता संपयं करणीयं किंचि करेमो । ता वच्च तुमं, साहसु कुवलयमालाए 'सव्वं सुंदरं, अहो णिउणा तुमं' ति ।  
तओ 'जहाणवेसि' ति भणिऊण पडिगया सा दारिया ।

1 > J विज्जुरेहं पिव, P दिट्ठनट्ठा एकत्तो, P om. तए. 2 > P मुद्धो for मुक्खो, J om. जेण. 3 > J दिट्ठमे जुवईण. 4 >  
P om. पुण, J णइंचि, P om. एत्थ, P inter. किं & तुमं, P मजलोअलंतगंडयललेहडसलावलीकिलप्पं. 5 > J तीय. 6 > J  
पसोहियायारभावणेषण, P जो णिमो ति, P adds त after तए, P adds तं before महाराय. 7 > J दाहिति जालियं ति,  
P को उण, P -विहव. 8 > J जस्स तं दाहिति ।, P दारियो. 9 > J तीय, J पच्चुट्टियाए पच्चुट्टियाए P भेट्टिदारियाए,  
P गुच्छा for गंधिया, P om. तुहं. 10 > P कन्नेऊरउ पेसिउ. 11 > J भणमाणीय, P कुमारेण वि, P om. ति. 12 > P om. च  
after भणियं, P कन्नेऊरयं, J om. किंतु मणयं, J इमण्णालं, P om. वि. 13 > J om. एवमिमं, J अतितणुय, P 'चुच्चवुत्तं'.  
14 > P om. जाण, J om. इमा, P हंसिया ।. 15 > P भिट for मुज्ज, P om. महिंदेण भणियं 'केरिसो etc. to कहं जाणीयइ.  
18 > J जाणीअति. 20 > P पणट्ठ for विणट्ठ, P om. पसरियगुरु etc. to पुलयंतेण. 21 > J एवण्णिमं, P एतेण for य  
before भणियं, J पुडे विहडिया. 22 > P अक्खराइं च. 23 > P om. अवि य. 24 > J -रसम्मइंतिआ, P om. विरह,  
P संताविय, J कलुणं रुवंतिआ. 25 > P बाहजलपूरजलपूरजलज्जलयं, J णियंतिया, J देया for दइया, J मेणिऊउ. 26 > J  
णिउत्तणं, J जेण for जेण, J कण्णऊरओ, J विआले P मुणाले for मुणाले. 27 > P विणीयं, P adds विभाव before  
विभावणं, J दुइअखण्डलयं P दुइयखंडयं. 28 > J पर for पुण, P adds ण after पुण, P अहण्णट्ठा. 29 > P मोहीरह-रायहसा,  
P सव्वं पुक्करियं. 30 > P सहसुव्वच, J -पम्हल, P -नयणा, J पयत्ता, J अह for अहो, P transposes जाम after चउ.  
31 > P सहाय for साहसु, J णिउणो. 32 > P परिगया, P चेडिया for दारिया.

- 1 § २६० ) कुमारो वि कय-पहाण-कम्मा उवगया अचभंतरं । तत्थ वि कुमारेण जविया जिण-णमोक्कार-चउर्वीसिया, 1  
झाणेण य झाइओ समवसरणथो भयवं जय-जीव-बंधवो उसभणाहो । पढियं च ।
- 3 जय ससुरासुर-किंणर-णर-णारी-संव-संधुया भगवं । जय सयल-विमल-केवल-ललिउज्जल-गाण-वर-दीव ॥ 3  
मय-माण-लोह-मोहा एए चोरा मुसंति तुह वयणं । ता कुणसु किं पि तं चिय सुरक्खियं जह इमं होइ ॥  
त्ति भणित्ठण कओ मण-वियप्पियाणं भगवंताणं पणामो त्ति । तओ सुहासणथा संवुत्ता । भणियं च महिंदेण 'कुमार,  
6 कीस तए कुचलयमालाए ण किंचि संदिट्ठं पेम्म-राय-संसुयणं वयणं' । कुमारेण भणियं 'ण तुमं जाणसि परमत्थं । 6  
पेच्छामो इमिणा संदेस-विरहेण किं सा करेइ, किं ताव संगमूसुया आयल्लयं पडिचजइ, किं ता विण्णाणं ति करिय  
अम्हाणं पेसिए कण्णउरए ण कज्जं तीए संदेसेणं' ति । महिंदेण भणियं 'एवं होइ, किंतु होहिइ कुचलयचंदो चंदो  
9 च सकलंको' । कुमारेण भणियं 'कण कलंकेण' । महिंदेण भणियं 'इत्थि-वज्झा-कलंकेणं' ति । तेण भणियं 'कहं भणसि' । 9  
महिंदेण भणियं 'किमेत्थ भणियव्वं ति । ण दिण्णो तए पडिसंदेसो । तओ सा तुह संदेसायण्णणुक्कट्टिया दूइ-मग्ग-  
पलोयण-परा चिट्ठइ । पुच्छियाए दूइए ण य किंचि संदिट्ठं ति सुए गिन्ह-समय-मज्झण्ह-दिणयर-कर-णियर-सुसमाण-  
12 विरयं-जंवालोयर-कहुयालय-सहरुल्लिय च्व तुह विरह-संताव-सोसिज्जती उच्चत्त-परियत्तयं करेऊण मरिही वराइ कुचलयमाला । 12  
पुणो पभायाए रयणीए जत्थ दोससि भमंतो तत्थ लोएण भणियच्चो, अहो एसो वाल-वहओ भूण-वहओ इत्थि-वहओ त्ति,  
तेण भणामि कलंकेज्जसि' ति । कुमारेण भणियं 'अहो, तुमं सव्वहा पहरण-सीलो, ण तुह पमाणं वयणं' ति ।
- 15 § २६१ ) एवं विहसमाणा कं पि कालं अच्छिऊण पुवण्णा पल्लंकेसु, पसुत्ता सुइरं । ताव य पढियं पाहाउय- 15  
पाइएण । अवि य ।  
गिम्मल-फुरंत-रुइरप्यभेण रहिराणुरंजियंणेण । अरि-तिमिरं णासिज्जइ खग्गेण व तुज्ज सूरें ॥  
18 लोयालोय-पयासेण विमल-दीसंत-देव-चरिएण । ओयगिज्जइ भुवणं तुज्ज जसेणं व अरुणेणं ॥ 18  
सुरोअग्गण-मइलेण गलिय-देहपपहा-णिहाएण । अरि-णिवहेण व तुज्जं वियल्लिज्जइ उडु-णिहाएण ॥  
वण-राइ-परिगएणं दूरुण्णय-दुक्ख-लंघणिजेणं । पयडिज्जइ अप्पाणो वीरेण व सेल-णिवहेणं ॥  
21 मंगल-भणिएण इमं लंघिय-जलणाह-दूर-पसरेंण । वासा-णिवहेण तुमं वियसिज्जइ संपयं वीर ॥ 21  
इय तुज्ज चरिय-सरिसं सव्वं चिय णाह आगयं पेच्छ । मुह-दंसणं च दिक्खउ णरणाह णरिंद-वंदाण ॥  
इमं च गिसामिऊण 'णमो तेलोक्क-बंधुणं' ति भणमाणो जंभा-वत्त-वलिउच्चेल्लमाण-वाहा-पक्खेवो समुट्ठिओ पल्लंकाओ कुमारो  
24 महिंदो वि । ताव य समागया अप्प-हुइया एक्का मज्झिम-वया जुवइं । सा य केरिसा । अवि य । 24  
अणुसीमंतं पल्लिया इंसि-पल्लवंत-पीण-थण-जुवला । सिय-हार-लया-वसणा ललिय-गई रायहंसि च्व ॥  
तओ तीय य द्वारियाए पुरओ उवसप्पिऊण भणियं 'कुमार, एसा कुचलयमालाए जण्णो धाई पियसही किंकरी सरीरं  
27 हिययं जीवियं व' ति । तओ कुमारेण ससंभमं 'आसणं आसणं' ति भणमाणेण अचुट्ठिया, भणियं च 'अज्जे, पणमामि' । 27  
तीय य उत्तिमंगे सुंविऊणं 'चिरं जीवसु वच्छ' ति भणंतीए अभिणंदिओ कुमारो । गिसण्णा य आसणम्मि । भणियं च  
'कुमार, अम्हाणं तुमं देवो सामी जणओ सहा मित्तं बंधवो भाया पुत्त-अंडं अत्ताणयं हिययं वा, सव्वहा वच्छाए  
30 कुचलयमालाए तुहं च को विसेसो त्ति, तेण जं भणामि तस्स तुमए अणुण्णा दायव्वा । अण्णहा कत्थ तुम्हाणं पुरओ 30  
अणेय-सत्थत्थ-वित्थर-परमत्थ-पंडियाणं अम्हारिसाओ जुवइ-वंचल-हियय-सहावाओ वीसत्थं जंपिउं समारंति । ता सव्वहा  
खमसु जं भणित्ठं ।

1 ) उ अचभंता for अचभंतरं, उ जिणे for जिण, P चउवीसिया. 2 ) P उसहनाहो. 3 ) P -दीवा ॥ 4 ) P मयण for लोह, P एते चोरा, P कुणसु तं पि किं पि तं चियं. 6 ) उ इंचिय for किंचि. 7 ) P करेत्ति for करेइ, उ संगमूसुया पल्लयं, P संगमूसिया. 8 ) P कन्नारुणए, उ तीय, उ होहित्ति, P होहित्ति. 9 ) P om. इत्थिवज्झा to महिंदेण भणियं, उ इत्थिवज्जा 10 ) P त for तए, P संदेसायणुक्कट्टिया पुणो दूइ, उ दूइ. 11 ) उ चिट्ठति, उ पुच्छिया दूइ, P गिमुए for सुए, P -दियर, P om. करणियर, उ -सुसमाण. 12 ) P जंवालोयरि, P सपरियल्लयव्व, उ -परत्तयं, उ adds वि before वराइ, P वराती 13 ) P पभाया रयणीए, P भणितच्चो, उ एस for एसो. 15 ) P निवण्णा लंकेसु, P सुरं for सुइरं. 17 ) P रहिराणुरंजियंणेण, P om. य, उ य जुज्ज. 18 ) P अरुणाणं. 19 ) P सुरोअग्गेण, उ -महिलेण, उ उड for उडु. 20 ) उ परिवएणं, P अप्पाणं. 21 ) उ तुहं for तुमं. 23 ) P om. च, P -वलीउच्चेल्लमाण, उ ल्लुक्खेवो for पक्खेवो, P मुट्ठिओ for समुट्ठिओ. 24 ) P जुवती. 25 ) P पल्लवंत, उ -जुवला, P हरि for हार, उ गया P गती for गइ. 26 ) P अवसप्पिऊण, P धाती. 27 ) P हितयं, उ हिअयं जीअव्वं ति, P repeats व, P ततो, P om. one आसणं. 28 ) P तीए for त्ति, उ भणंतीय, P अहिणंदिऊण, उ भणियं तीय कुमार. 29 ) P सहा मित्तो. 30 ) P दात्तवा. 31 ) उ अत्थत्थ for सत्थत्थ, उ अम्हारिसाओ जुवइसहावचंचल, P -सहियय, P वासत्थं for वीसत्थं, P समाहरंति. 32 ) उ खमेवसु जं भणियं ।

1. § २६२ ) अस्थि इमा चेव पुरवरी तुमए वि दिट्ट-विहवा विजया णाम, इमाए चेय पुरवरीए विजयसेणो णाम राया ।  
इमा चेय तस्स भारिया रूपेण अवहसिय-पुरंदर-वरिणी-सत्था भाणुमई णाम । सा य महादेवी, ण य तीए कहिं पि किंचि  
३ पुत्त-भंडं उयरीहोइ । तओ सा कथ देवा, कथ दाणवा, कथ देवीओ, कथ मंताइं, कथ वा मंडलाइं, संबवहा वज्झंति  
रक्खाओ, कीरंति बलीउ, लिहिजंति मंडलाइ, पिजंति मूलियाओ, मेलिजंति तंताइं, आराहिजंति देवीओ । एवं च कीरमाणेसु  
बहुएसु तंत-मंतोवाइय-सएसु कंहं-कंहं पि उयरीभूयं किं पि भूयं । तओ तप्पभूइं च पडिवालियं बहुएहिं मणोरह-सय-  
६ सएहिं जाव दिट्टं सुमिणं किर पेच्छइ वियसमागाभिणव-कंदोइ-मयरंद-विंदु-णीसंद-गंध-लुद्ध-भमर-रिंछोलि-रेहिरा कुवलय-  
माला उच्छंणे । तओ विवुद्धा देवी भाणुमई । तओ णिवेइए राइणा भणियं 'तुह देवि, तेलोक्क-सुंदरी धूया भविस्सइ'  
त्ति । तओ 'जं होउ तं होउ' त्ति पडिवण्णे वच्चंतेसु दियहेसु पडिपुण्णे गव्वभ-समए जाया मरगय-मणि-वाउल्लिया इव  
९ सामलच्छाया बालिया । तओ तीए पुत्त-जम्माओ वि अहियं कयाइं वद्धावणयाइं । एवं च णिवत्ते वारह-दियसिए णामं से  
णिरूवियं गुरु-जणेणं, कुवलयमाला सुमिणे दिट्ठा तेण से कुवलयमाल त्ति णामं पइट्ठियं । सा य मए सव्व-क्केसु  
परिवड्ठिया । तओ थोएसुं चेय दियहेसु जोव्वणं पत्ता । तओ इच्छंताणं पि पिऊणं वरं वरंताणं पि णेय इच्छइ,  
१२ पुरिसहेसिणी जाया । तओ मए बहुएपयारेहिं पुरिस-रुव-जोव्वण-विलास-विण्णाण-पोरुस-वण्णेणहिं उवल्लोभिया जाव १२  
थोवत्थोवं पि ण से मणं पुरिसेसु उप्पज्जइ त्ति । तओ विसण्णे राया माया मंतियणो य कंहं पुण एसो वुत्ततो होइइ  
त्ति । एरिसे अवसरे साहियं पडिहारेण 'देव, एरिसो को वि विज्जाहर-समणो दिव्व-णाणी उज्जाणे समागओ, सो  
१५ भगवं सव्वं धम्माधम्मं कज्जाकज्जं वच्चावच्चं पेयापेयं सुंदरासुंदरं सव्वाणं साहइ त्ति, तीतागागत-भूत-भव्व-भविस्स-वियाणओ १५  
य सुव्वइ, सोउं देवो पमाणं'ति । तओ राइणा भणियं 'जइ सो एरिसो महाणुभावो तओ पेच्छियव्वो अम्हेहिं । पयट्ठ,  
वच्चाओ तं चेय उज्जाणं' ति भणमाणो समुट्ठिओ आसणाओ । तओ कुवलयमालाए वि विण्णत्तं 'ताय, तए समयं अहं पि  
१८ वच्चामि' । राइणा भणियं 'पुत्त, वच्चसु' त्ति भणमाणो गंतुं पयत्तो । वारुया-करिणिं समारुहिज्जग संपत्ता य तमुज्जाणं । १८  
दिट्ठो य सो मुणिवरो, राइणा कओ से पणामो, आसीसिओ य तेण, णिसण्णे पुरओ से राया ।

§ २६३ ) तओ सो भगवं साहिउं पयत्तो । भणियं च णेण ।

- २१ लोयम्मि दोणिण लोया इह-लोओ चेय होइ पर-लोओ । परलोगो तु परोक्खो इह-लोओ होइ पच्चक्खो ॥ २१  
जो खाइ जाइ भुंजइ णच्चइ परिसक्कए जहिच्छाए । सो होइ इमो लोओ परलोगो होइ मरिऊण ॥  
लोयम्मि होति अण्णे तिणिण पयत्था सुहासुहा मज्झ । हेओयादेय-उवेक्खणीय-णामोहिं णायव्वा ॥  
२४ ता इह-लोए हेया विस-कंठय-सत्थ-सप्पमादीया । एयाइं होति लोए दुक्ख-णिमित्तं मणुस्साणं ॥ २४  
कुसुमाइं चंदणं अंगाण य दव्वा वि होति आदेज्जं । जेण इमे सुह-हेउ पच्चक्खं चेय पुरिसाणं ॥  
अवरं उवेक्खणीयं तण-पव्वय-कुहिणि-सक्करादीयं । तेण सुहं ण य दुक्खं ण य चयणं तस्स गहणं वा ॥  
२७ ता जह एयं तिविहं इह-लोए होइ पंडिय-जणस्स । तह जाणसु पर-लोए तिविहं चिय होइ सव्वं पि ॥ २७  
पाणिवहालिय-चयणं अदिण्ण-दाणं च मेहुणं चेय । कोहो माणो माया लोहं च हवंति हेयाइं ॥  
एयाइं दुक्ख-मूलं इमाइं जीवस्स सत्तु-भूयाइं । तम्हा कण्हाहिं पिव इमाइं दूरं परिहरासु ॥  
३० गेण्हसु सच्चमहिंसा-तव-संजम-वंभ-णाण-सम्मत्तं । अज्जव-मद्व-भावो खंती धम्मो य आदेया ॥ ३०  
एयाइं सुहं लोए सुहस्स मूलाइं होति एयाइं । तम्हा गेण्हह सव्वायरेण भमयं व एयाइं ॥  
सुह-दुक्ख-जर-भगंदर-सिरवेयण-वाहि-खास-सोसाइं । कम्मवसोवसमाइं तम्हा विक्खाइं एयाइं ॥  
३३ तो एयं णाऊणं आदेये कुणह आदरं तुब्भे । हेयं परिहर दूरे उवेक्खणीयं उवेक्खेहि ॥ ३३

1) J चेअ, P adds पुरव before पुरवरी, J चेव. 2) P भज्जा for भारिया, P भाणुमती, J कीय for तीए, P om. पि, P चि for किंचि. 3) P उयारीहोति, P मंतीइ, P मंगलाइं for मंडलाइं in both places. 4) P कीरंति, J adds मूला before मूलियाओ. 5) J उयरीहोअं P उदरीभूयं, P तप्पभूयं, J मणोरहोसय, P सनसएहिं. 6) P ताव for जाव, P मयारंद-विंदनीसंद. 7) P भाणुमती, P धूया हविस्सइ. 8) P ज होउ for जं होउ तं होउ, J om. त्ति, P adds गव्वभसमये before वच्चंतेसु, P om. पडिपुण्णे गव्वभसमए, J पाउल्लिया P पुत्तल्लिया for वाउल्लिया. 9) J तीय for तीए, P adds च after कयाइं, P णिवत्ति वारसमे दिवसे णामं. 10) J गुरुअणेणं, P कुवलयमाला णामं. 11) P वट्ठिय, J चेअ P चिय, P जोव्वणं संपत्ता, P च for पि before पिऊणं, P om. पि, P इच्छत्ति पुरिसहोसिणी. 12) P adds रस before रुव, J विलासलो, P विण्णेहिं उवल्लोभिया जाव थोवं पि. 13) P मंतिणा for मंतियणो, P होइति. 14) P अवसरि. 15) P सोदति for साहइ, P तीतागागत, P भविस्स. 16) P adds त्ति after सुव्वइ, P पेच्छियव्वो. 17) P om. ति, J माला विय विण्णत्तं, P समं for समयं. 18) P वच्चाओ, J भणमाणो गंतुं पयत्ता, P तारुअं for वारुया, J तं उज्जाणं. 19) P om. सो, P om. य, P inter. से & पुरओ. 20) P सोहिउं for साहिउं. 21) P inter. होइ & चेय, J परलोओ उ परोक्खो. 22) P माणिं भुंजति णच्चति, J परलोओ. 23) J लोयम्मि, P होति, J हेओआदेयउवेक्खं, P हेउआदेयउवेक्खणे अणाओमेहिं. 24) P कंठइ, P सप्पमाइंय, P वुक्का for दुक्ख. 25) J दव्वादि होइ, P आएज्जं, J सुहहेउं P साहेउ. 26) P वच्चं य for पव्वय, P धरणं for चयणं. 27) P होति सव्वं. 28) J एताइं P हेताइं. 29) J सत्थभूताइं, P दूरेण परिहरसु. 30) P एयाइं for आदेया. 31) J एताइं in all places, J सहस्स for सुहस्स. 32) P om. the verse सुहदुक्ख etc., J सोसाती, J एताइं. 33) P एते for एयं, J उव्वखेहि, P उवेक्खेहि.



- 1 § २६४) एवं च भणिए भगवया तेण मुणिणा सव्वेहिं चये णरणाहप्यसुहेहिं भणियं 'भगवं, एवं पयं, ण पत्य 1  
संदेहो' ति । एत्थंतरम्मि णरवहणा पुच्छियं 'भगवं, मम धूया इमा कुवलयमाला, एसा य पुरिसदेसिणी कुल-रुव-विहव-  
3 विष्णाण-सत्त-संपणे वि रायउत्ते वरिजंते णेच्छइ । ता कहं पुण एसा परिणयेच्चा, केण वा कम्मि वा कालंतरम्मि' ति 3  
पुच्छिए णरवहणा, भणियं च भगवया मुणिवरेण । अत्थि कोसंवी णाम णयरी । तत्थ य तम्मि काले पुरंदरयदत्तो णाम  
राया, वासवो य मंती । तत्थ ताणं उज्जाणे समवसरिओ सीस-गण-परियारो धम्मणंदणो णाम आयरिओ । तस्स पुरओ सुणं-  
6 ताणं ताणं धम्म-कहं कोह-माण-माया-लोह-मोहोवराह-परद-माणसा पंच जणा, तं जहा, चंडसोमो माणभडो मायाहच्चो लोह- 6  
देवो मोहदत्तो ति । ते य पच्चजं काऊण तव-संजम-सणाहा, पुणो कमेण कय-जिणधम्म-संवोहि-संक्या आराहिऊण मरिऊण  
कत्थ उववण्णा । अवि य । अत्थि सोहम्मं णाम कप्पं । तत्थ य पउमं णाम त्रिमाणं । तत्थ त्रि पउमसणामा पंच त्रि जणा उववण्णा-  
8 तहिं पि जिणिंद-वयण-पडिवुद्ध-सम्मत्त-लंभ-मुदय-पावण-परा संकयं काऊण एत्थ चये भरहे मज्झिम-खंडे उप्पण्णा । एक्को वणिय । 9  
उत्तो, अवरो रायउत्तो, अवरो सीहो ति । अवरा वि एसा कुवलयमाल ति । तत्थ ताणं मज्झाओ एक्केण एसा परिणयेच्चा ।  
धम्मं च पावेयव्वं ति । भणियं च णरवहणा 'भगवं, कहं पुण सो इहं पावेहिइ, कहं वा एत्थ अम्हेहिं णाइयव्वो' ति ।  
12 भगवया भणियं 'सम्हारिय-पुव्व-जम्म-वुत्ततो कायव्व-संकय-दिण्ण-माणसो इमाए चये पडिवोहण-हेउं इहं वा पावीहइ 12  
ति, तं च जाणसु । सो चये इमं तुह उम्मत्तं तोडिय-त्रंघणं जयकुंजरं रायंगणे गेण्हहिइ, पुणो कुवलयमाला-लंविथं पाययं  
भिदिहिइ, सो चये जाणसु इमं परिणेहिइ, ण अण्णह' ति भणंतो समुप्यइओ सुणी । तओ कुमार, उप्पइयम्मि  
15 तम्मि मुणिवरे आगओ राया पुरवारिं । इमा कुवलयमाला तप्पभूटं चये किं-किं पि हियण्ण । चित्तयंती अणुदिणं सूसिं 15  
पयत्ता । ता इमाए एस पुव्व-जम्म-सरण-पिसुणो एस पायओ लंविओ । अवि य 'पंच त्रि पउमे त्रिमाणम्मि' । इमो य ण  
केण वि भिदिउं पारिओ ताव जाव एस जयकुंजर-संभम-कलयलो । तओ पुच्छिए राहणा भणियं 'पुत्ति कुवलयमाले,  
18 पेच्छ तं अत्तणो वरं, [जो] एत्थ इमं जयकुंजरं गेण्हहिइ, सो तं पादयं पूरेहिइ । इमं मुणिणा तेण आइट्टं' ति । ता 18  
पेच्छासु णं को पुण इमं गेण्हइ' ति भणमाणो णरवइं समारूढो पासाद-सिहरं, कुवलयमाला य । अहं पि तीए चये  
पास-परिवत्तिणी तम्मि समए । तओ कुमार, तए अप्फालण-खलण-चलणाहिं णिप्फुरीकए जयकुंजरे सीह-किसोरएण  
21 व लंविए पूरिओ सो पादओ । इओ य पूरिओ पायओ ति दिण्णा वरमाला । इमिणा ओषुट्टिए ददवम्म-पुत्तो ति तुह णामे 21  
उव्वूढो पहरिसो राहणा । कुवलयमाला उण तुमए दिट्ठम्मि किं एस देवो, किं विजाहरो, अह सिद्धो, उओ कामदेवो, किं वा  
चक्कवटी, किं वा माणुसो ति । पुणो वेप्पंते य जयकुंजरे, केरिसा जाया । अवि य ।  
24 वलइ वलंतेण समं खलइ खलंतम्मि णिवडइ पदंते । उट्ठाइ उल्लंते वेवइ दंतेसु आरूढे ॥ 24  
§ २६५) जइया पुण कुंजरारूढो संसुहं संठिओ तइया किं चित्तिउं पयत्ता । अवि य ।  
आयंवि-दीहर-पम्हलाइँ धवलाइँ कुसुम-सरिसाइँ । णयणाइँ इमस्स वणे णिवडेजंगेसु किं मज्झं ॥  
27 विहुम-पवाल-सरिसं रुइरं लायण-वत्ति-सच्छायं । अहरं इमस्स मण्णे पाविजइ अम्ह अहरेण ॥ 27  
पिहु-पीण-ललिय-सोहं सुर-करि-दंतरग-मूरण-समत्थं । वच्छयलं किं मण्णे पाविजइ मज्झ थणएहिं ॥  
दीहे उण्णय-सिहरे दरिय-रिऊ-काल-दंड-सारिच्छे । एयस्स वाहु-डंडे पावेज व अम्ह अंगाइं ॥  
30 मासल-पिहुलं रुइरं सुरय-रसासाय-कलस-सारिच्छं । एयस्स कडियलं णे पावेज व अम्ह सयणम्मि ॥ 30  
पूरेज एस पादं देज व अहयं इमस्स वरमालं । इच्छेज व एस जुवा होजम्ह मणोरहा एए ॥  
होज इमस्स पणहणी कुप्पेज व णाम अलिय-कोवेण । कुवियं च पसापुजा अहवा कत्तो इमं मज्झं ॥

1) P om. च, P भणिया, P ते मुणिणो, P नरनारिप्यं, P एतं for एयं 2) P नरवइया, J om. इमा, P 'देसिणी. 3) P संपत्त for संपणे, P णेच्छत्ति, P om. कहं, P adds कहिं after एसा. 4) P तं for च, J सयले for काले, P पुरंदत्तो. 5) P om. ताणं. 6) P transposes लोह after कोह, P मोहोवराहपरहरइ, J लोहभडो. 7) P मोहदत्ता, J कया, P जिण-धम्मं, P मरिऊण. 8) P सोधंम, P om. य, P य for त्रि after तत्थ. 9) P adds धम्म before जिणिंद, J सम्मत्तल्लभम्भुत्तय, P लंभुदय, P उववन्ना for उप्पण्णा, J वणित्रपुत्तो. 10) J om. अवरा वि एसा कुवलयमाल ति, P एणेण. 11) J भगवं पुण को इहं पावेहिइ, P इह पावेहिइ । भगवया भणियं संभावियपुव्वजुम- 12) P कायव्वो, P पडिवोहणाहेउं इमं पाविहिइ. 13) P जो for सो, सुहिय for तोडिय, J गेण्हहिइ P गेण्हहिइ, J पातयं. 14) J भिदिहिइ P भिदिहिइ, J चय, J परिणेहिइ P परिणेहि ति, P अण्णहि. 15) P om. तम्मि, P चय, P सुसिउं. 16) P इमा एस, J पातओ, P om. त्रि पउमे. 17) J केणइ भिदिउं, P भिदिओ, J पारओ, P पुच्छिओ, J पुच्छिए for पुत्ति, P कुवलयमालो पेच्छं. 18) P जयकुंजरो गेण्हइ ति, J गेण्हहिइ, P पाययं पूरेहिइ, J पूरेहिइ, J om. तेण, P ता पुच्छासु. 19) P णरवती, P पासाय, P त्रि for य. 20) J पाद for पास, P om. तए, P णिप्फुरीकए. 21) P पुरओ सो पायओ, J पातओ ति, J P ओषुट्टिए ददवम्म. 22) J adds तम्मि after दिट्ठम्मि, J उतो, P तओ for उओ. 23) J य कुंजरे, P य जकुंजरे, J om. जाया. 24) P वलति, J उट्ठाइ, P आरूढो. 25) J तउआ. 26) P आयंवि for आयंवि, P पंभलाइँ, P पुणो for वणे. 27) P पलास for पवाल, P लाइन्न. 28) P पिहुणललिय. 29) J दीओ for दीहे, J रिउ, P सारिच्छो, P वाहुदंडे. 30) P मंसलं, J कडियलणे, P कहिं अत्रे पावेजइ अम्ह. 31) P पायं for पादं, J जुआ, P एस जवा हो जम्ह, P पत्ते. 32) P कोवेण, P कत्ता.

1 इमं च चिंतयंतीए पूरिओ पायओ । तं च सोऊण हरिस-वस-समूससंत-रोमंच-कंचुय-रेहिरंगाए दिण्णा तुहं वरमाला, तओ 1  
 थवलंबिया तुह खंधराभोए । तं च दट्टण कुमार, तए पेसिया धवल-विलोल-लोला चलमाणा पम्हला दिट्ठी । तीय य दिट्ठीय  
 3 पुलइया केरिसा जाया । अवि य, वियसिया इव कमलिणी, कुसुमिया इव कुंदल्या, विहडिया इव मंजरी, मत्ता इव करि- 3  
 णिया, सिन्ता इव वेळिया, पीयामय-रसा इव भुयंगिया, गय-घणा इव चंदलेहिया, सुर्य-ऊसुया इव हंसिया, मिलिया  
 इव चक्रिय त्ति । सव्वहा

6 अमएण व सा सिन्ता पक्खित्ता सुह-समुद्द-मज्जे व्व । अप्पाणं पुण मण्णइ सोहग्ग-मयं व णिम्मवियं ॥ 6  
 एरिसे य थवसरे तुमं राइणा भणिओ जहा 'समपिय कुंजरवरं आरुह इमं पासायं' ति । तओ तुह दंसणासायणा-सज्जस-  
 सेउकंप-कुतूहलाऊरमाण-हिययाए समागओ तुमं । पिउणा य भणियं 'वच्छे, वच्च अंतोउरं' ति । तओ मंताहया इव भुयं-  
 9 गिया अंकुसायड्डिया इव करिणिया उम्मूलिया इव वणलया उक्खुडिया इव मंजरी दीण-विमणा कहं-कहं पि थलंघणीय-वयणो 9  
 ताओ त्ति अलसायंती समुट्टिया, गया आवासं सरीर-मेत्तेणं ण उण हियएणं । अवि य,

दुल्लह-लंभं मोत्तूण पिययमं कथ वच्चसि अणजे । कुविएण व पम्मुक्का णियएण वि णाम हियएण ॥

12 थवरोप्पर-लोयण-वाणिएहिं कलियम्मि सुरय-भंडम्मि । हिययं रयण-महग्घं संचक्कारं व से दिण्णं ॥ 12

§ २६६) तओ एवं च कुमार, तम्मि संपत्ता णियय-मंदिरम्मि, तथ्य गुरु-सज्जस-णियं व-भरुव्वहण-खेय-णीसहा  
 णिसण्णा पल्लंके संवाहिउं पयत्ता । तओ समास्तथा किं-किं पि चिन्ताभर-मंथरा इव लक्खिया मए । तओ भणिया 'पुत्ति  
 15 कुवलयमाले, किं पुण इमं हरिसट्ठाणे ठियप्पा चिन्ताए दिण्णो, किं तुह ण पूरिओ पायओ, किं वा ण पडिच्छिया वरमाला, 15  
 आओ विहडियं मुणिवर-वयणं, किं वा णाभिरुइओ हिययस्स, किं वा ण सत्तमंतो सो जुवाणो, किं वा ण पुलइया तेणं,  
 किं वा तुह हियय-उच्चेयं ति । ता पुत्ति, फुडं साहिज्जउ जेण से उवाओ कीरइ' ति संलत्ते भणियं तीए 'माए, ण इमाणं एकं  
 18 पि । किं पुण 18

वम्मह-पडिबिंब-समो सुर-जुवईणं पि पथणिज्जो सो । इच्छेज्ज ममं दासिं ण व त्ति चिन्ता महं हियए ॥'

इम्मि य भणिए, अम्हेहिं भणियं 'ओ माए, किं एयं अलियमलियं असंबद्धं उल्लवीयइ । कीस तुमं सो ण इच्छइ ।  
 21 किं तेण ण लंघिओ सो जयकुंजरो, किं वा ण पूरिओ पायओ, किं ण पेसिया तुह दिट्ठी, किं ण पडिच्छिया वरमाला, किं 21  
 ण जाओ से अंगम्मि पुलउग्गमो, किं ण मण्णिओ तेण य गुरु त्ति महाराया, किं ण साहिओ मुणिणा । सव्वहा मा एवं  
 वियप्पेसु, जेण तुमं दिट्ठा अत्थि सो ण अण्णत्थ अभिरमइ त्ति । अवि य ।

24 मा जूरसु पुत्ति चिरं दट्टण तुमं ण जाइ अण्णत्थ । तं चिय ठाणं एहिइ माणस-हंसो व्व भमिऊणं ॥' 24  
 तओ एवं पि भणिए ण सदहयइ अइपियं ति काऊण । अवि य ।

जं होइ दुल्लहं वल्लहं च लोयस्स कह वि भुयणम्मि । तं कप्पिय-दोसुक्केर-दुग्गमं केण सदहियं ॥

27 तओ अम्हेहिं भणिया 'वच्छे कुवलयमाले, जइ तुमं ण पत्तियसि ता कीरउ तस्स जुवाणस्स परिक्खा । तओ तीए भणियं 27  
 'अत्ता, किं च कीरउ तस्स' । मए भणियं 'पेसिज्जउ दूई सिरिमालं अण्णं वा किंचि वेत्तूण तओ तस्स भावो जेण वेप्पइ'  
 त्ति । तओ तीए कहं-कहं पि लज्जा-भर-मंथराए सेउल्ल-वेविर-करयलाए कप्पिया सा रायहंसिया । पुणो तीय उवरि लिहियं

30 कहं-कहं पि दुवइ-खंडलयं । अवि य । 30

अह तस्स इमो लेहो अणुराउच्छलिय-सेय-सलिलेणं । लिहिओ वि उप्पुसिज्जइ वेविर-कर-लेहणि-गएण ॥

एवं पेसिया तुह भाव-गहणत्थं दूई ।

1 > J पूरिओ य पातओ, P 'कचुइरेहिं', J उ (or ओ) for तओ. 2 > खंधराए ।, P 'लोलवलमाण, P दिट्ठीये for दिट्ठी, P om.  
 तीय य दिट्ठीय. 3 > P कुंदल्या, J विहरिया, P करणिया. 4 > P इव वल्लिया, J रा for रसा, J सुरयूसुआ. 6 > P ओ for व्व, P  
 सोहग्गवियं विणिं. 7 > P समपिऊण, P आरुहइ, P तुज्ज for तुह, J दंसणायामणा सज्जस P दंसणासामज्जस. 8 > P कुतूहरमाण,  
 P वि for य, P repeats वच्छे. 9 > J 'यड्डिया P 'इड्डिया, P adds उम्मूलि before उम्मूलिया, P कहं कहम्मि J 'वयणा.  
 11 > P दुल्लभ-, P कुविएण विप्पमुक्का, J णाह for णाम. 13 > J इमं for एवं, J एत्थ for तथ्य, P सज्जस. 14 > P  
 संवाहिऊण, J adds च before पयत्ता, P किंचि किंचि. 15 > P हरिसिद्धाणे विअप्पा, J पातओ, P किं पाण पडिच्छिया. 16 > P  
 सत्तवंतो, P om. सो, P adds ति after तेणं. 17 > P repeats तुह, P 'उच्चेवं, P संलत्तं, J तीअ. 19 > P वम्मह, J  
 परिबिंब, P जुवतीणं, P om. सो, P ण व ची. 20 > J ए for एयं, J 'मलिअसं', J उल्लवीयति, J inter. ण & सो. 21 > J  
 पातओ, J किण्णा पेसिया. 22 > J ए for य. 24 > P तुमं for चिरं, J एहिइ P एहित्ति समुद्धाउव्व भणिऊणं. 25 > P  
 भणियए ण सदहायइ अइपियंति, J अपियं. 26 > P भुवंगम्मि, P किंपिअ for कप्पिय. 27 > P भणियं, J पत्तिययीसि(?) P  
 पत्तिआसि, P कीरओ, J तीय. 28 > P पेसिज्जओ दूती. 29 > P om. त्ति, P ततो, J तीय, P करतलाए, J उवरे. 30 > P om.  
 one कहं, J दुइय for दुवइ. 31 > P इमो लोहो अणुरायच्छलिय, J अणुरायुच्चलिअ, P वि ओप्फसिज्जइ, P विवेर for वेविर, P  
 करलेहिणगएण. 32 > P दूती.

1 § २६७) ताव य समागओ महाराय-सगासाओ कंचुई । तेण य भणियं जहा कुवलयमालाए 'गणियं गणएणं अज्ज 1  
वि धीसत्थं विवाह-लग्ग-जोगो' ति । तं च सोऊण विसण्ण-मणा संजुत्ता कुवलयमाला, हंसिय व्व वजासणि-पहया कुलवहु 1  
3 व्व गोत्त-खलणेण दूमिया जाया । तओ अम्हेहि चित्तं जाणिऊण भणिया 'वच्छे, मा एवं वियप्पेसु । णिसुणेसु ताव तस्स 3  
जुवाणस्स अचंताणुराय-सूययं कं पि वयणं । तओ जं तुज्जाभिरुद्धयं तं करीहामि' ति भणमाणीहिं कहं-कहं पि संधारिया ।  
एत्थंतरम्मि समागया सा दूई तुह सयासाओ दीण-विमणा किं-किं पि चित्तयंती । तओ ससंभमाहिं पुच्छिया अम्हेहिं 6  
6 'किं कुसलं कुमारस्स' । तीए भणियं 'कुसलं, किं पुण कोइ ण दिण्णो पडिसंदेसो, केवलं भणियं, अहो कला-कुसलत्तणं 6  
कुवलयमालाए' ति । इमं च सोऊण तओ हया इव महादुक्खेण, पहया इव महामोह-मोगगरेणं, विलुद्धा इव विरहगिग-  
जालावलीहिं, ओवरिगया इव महावसण-सीहेणं, गिलिया इव महामयरुद्धय-मगरेणं, अकंता इव महाचिंता-पव्वएणं, 9  
9 गहिया इव महाकयंत-वघेणं, गसिया इव महाविघ-रक्खसेणं, उल्लूरिया इव महाकयंत-करिवर-करेहिं, सव्वहा किं वा 9  
भण्णउ कुमार, पच्चमाणं पिव महाणरए, डज्जमाणं पिव वडवाणलेण, हीरमाणं पिव पलयाणलेण, वुज्जमाणं पिव जुयंताणिलेणं,  
णिम्मजंतं पिव महामोह-पयालेणं, उक्कत्तिजंतं पिव महाजम-करवत्तेणं अत्ताणं अभिमण्णइ । तओ तं च तारिसं दट्टणं तं 12  
12 कुवलयमालं मालं पिव पव्वायमाणं 'हा, किं णेयं जयं' ति भणमाणीहिं गहिया उच्छंगाए, भणिया य । 'पुत्ति कुवलयमाले' 12  
किं तुह बाहइ' ति पुणो पुणो भण्णमाणाए 'हूं' पडिषयणं । तओ कुमार, एवं च पेच्छमाणाणं अक्खित्तं सुहं दुक्खेणं, विणिज्जिया  
रई अरईए, भल्लिया मई अमईए, पडिहयं विण्णाणं अण्णाणेणं, अवहरियं लायणं अलायण्णेणं, वसीकयं सुंदरत्तणं असुंदर-  
15 त्तेणं, सव्वहा कलि-काले व्व तीय सरीरे सव्वं विवरीयं जायं । उम्हायइ चंदण-पंकओ, धूमायइ कुसुम-रउकैरओ, जलइ व 15  
हारओ, डहइ व णलिणी-पवणओ, दीवेंति व काम-जलणयं पुणो पुणो मुणाल-णाल-वलय-हारयाइं, पुणो पुणो पज्जलंतीव  
वडलेला-लयाहरयाइं ति । केवलं कुमार, णीससइ व णीसासओ, ऊससइ व ऊसासओ, दुक्खाइजइ दुक्खयं, उक्कंपिजइ  
18 उक्कंपओ, सेयाइजइ सेयओ, पुलइजइ रोमंचओ, मोहिजइ मोहओ वि । किं वा कुमार, बहुणा जंपिएणं । 18

हिययवभंतर-तुह-विरह-जलण-जालावली-तविजंतं । णीहरइ य विरहुव्वत्त-तत्त-सलिलं व से वाहो ॥  
विरहगिग-हित्थ-पत्थिय-पय-चंपियं व हिययाओ तीय तूरंतं । दीहर-णीसास-पयाणएहिं जीयं व णिक्खमइ ॥  
21 मयलंछण-कर-गोरे उज्जइ वण-वड्डिए ति चित्तंती । तुहिण-कण-फंस-सिसिरे चंदण-हारे मुणालं व ॥ 21  
णिय-दुक्ख-दुक्खियं सा सवम्महं सहियणं पि कुणमाणी । अणलक्खियक्खरं महुयारि व्व दियहं णुरुणेइ ॥  
पुलइजइ हसइ खणं तसइ पुणो दीहरं च णीससइ । तुह-संगम-विमुहासा सा सामा सुहय सूसंती ॥  
24 श्लाऊण किं पि हूं हूं ति जंपिरी सहारिसं समुट्टेइ । लज्जावणामिय-मुही मुच्छा-विरमे पुणो रुयइ ॥ 24  
इय जीवियं पि वच्चइ सीसइ तुह हो फुडं तह करेसु । जह सा वि जियइ पयडं च जणवए होइ दक्खिण्णं ॥'

§ २६८ ) भणियं च महिंदेण 'इमम्मि य एवं ववत्थिए, साहह किं कीरउ' ति । तीए भणियं 'इमं कज्जं, एवं 27  
27 संठियं, तीए उण दसमी कामावत्था संपयं पावइ । जेण 27

विरह-भुयंगम-डक्का अइरा य विसोयलंत-विहलंगी । आसासिजइ मुद्धा सुहय तुहं गोत्त-मंतेण ॥  
संपयं पुण तीय ण-याणाभि किं वट्टइ' ति । आसंकिंयं हियएण भणियं च कुमारेण 'तह वि तुमं आउच्छणीया, किं तत्थ 30  
30 करणीयं संपयं' ति । तीए भणियं । 'कुमार, जइ ममं पुच्छसि ता अइकंतो सव्वोवायाणं अवसरो । एत्तियं पुण जइ तुव्भे 30  
राइणो भवणुज्जाणं वच्चइ, तओ अहं कुवलयमालं कहं-कहं पि केणावि वा मोहेणं गुरुयणस्स महिल्लयाणं च तम्मि उज्जाणे  
णेमि । तत्थ जहा-जुत्तं दंसण-विणोइय-मयण-महाजर-वियणा होहिइ बालिय' ति । तओ महिंदेण भणियं । 'को दोसो,

1) P om. महारायसगासाओ. 2) J विवाहगहलग्गजोओ, J विमणमणा, P विमणमण्णा संजुत्ता, J हंसि व्व. 3) J क्खलणेण, P  
खलणदूसिया. 4) P जुवाणयस्स, J तो जं तुज्जाभिरुद्धयं, P करिहिसि, J संवारिया P संधारया. 5) P दूती, J ततो ससंभमा ठिया  
पुच्छियं. 6) J तीय P तए, J तुह for पुण, J om. ण, P adds न after दिण्णो, J adds न दिण्णो (on the margin)  
before केवलं. 7) P मं for इमं, P पिलुद्धा for विलुद्धा. 8) J ओअग्गिआ, P मयरेण, P inter. चित्ता and महा. 9) P  
इव हिं महावियप्परक्खसेणं. 10) P पलयाणले वुब्भमाणं, J om. वुज्जमाणं पिव etc. to महामोहपयालेणं. 11) P adds  
णिम्मजंतं पिव जुअंताणिलेणं before णिम्मजंतं, P महाजमक्खत्तेणं. 12) P om. मालं पिव, P कुवलयमालं दव्वायमालं पिव माये  
हा, P उच्छंणे, P om. य. 13) J पुणो भिण्णप्पमाणाए, P हुं. 14) P रती अरतीए, P मती अमतीए, P पडिहअं अन्नाणं विन्नाणेणं.  
15) J अम्हायइ P उम्हाइ. 16) P हारो, J य for व after दीवेंति, P कामजलणया, P om. पुणो पुणो मुणालणालावलयहारयाइं, J  
om. पुणो पुणो पज्जलंती to लयाहरयाइं. 17) P कुमारी ससइ, P दुखातिज्जइ, P दुक्खयं चक्कंपिजंति. 18) P सेताइजइ, P om.  
सेयओ पुलइजइ, P om. वि, P बहुणो. 19) P विज्जंतं for तविज्जंतं, P om. तत्त, J सलिलणिवहो व्व से वाहो. 20) P हत्थि  
for हित्थ, J पयविअ for पयचंपियं व, P चंपयं व हीयआउ, J दूरंतं for तूरंतं, P णिक्खमए. 21) P व णिवट्टिए, J वड्डिय,  
for वड्डिए, P मुणाल व्व ॥. 22) P व for पि, P दियहं रुणंति ॥. 23) P पुलआयर हसयखणं, P दीहरं समूससइ, P om.  
सामा. 24) P सोऊण for श्लाऊण, P हुं हुं, P समुट्टेइ, P रुतइ. 25) P वसुव्वइ for वच्चइ, P जिणवुहो for च जणवए. 26)  
P om. य, J om. एवं. 27) P कामावत्थी, J adds ण before संपयं. 28) P om. य, J वसोअलंत P विसोतलंत, J अद्धा  
for मुद्धा, J गोममंतेहिं. 29) J वट्टंति l. 30) J तीय, P जती for जइ, P ती for ता. 31) P om. अहं, P कुवलयमाला,  
P गुरुजणस्स महिल्लयाणं. 32) J विणोइअं P विणोइयं, P विणयणं for वियणा, J होहिति पालिअ ति, P बालिया य ति.



1 दृष्टुण चिंतियं कुमारेण 'अहो, सच्चं जं लोए सुणीयइ किर थेरो पयावइ । जइ थेरो ण होइ, ता कहं एरिसं जुवइं विणिम्म- 1  
विऊण अण्णस्स उवणेइ ति । अहवा णहि णहि, ण होइ थेरो, जेण थेरस्स कत्तो एरिसं दिट्ठि-कम्मं णिव्वडइ ति । तं सव्वहा  
3 धण्णं तं पुहइ-मंडलं जत्थ इमं पाय-त्तल-कोमलंगुलीयं चलण-पडिविंयं इमाए संठियं'ति चिंतयंतस्स भणियं कुचलयमालाए । 3  
अवि य ।

पेच्छेज्ज व तं पुरिसं अत्ता सो वा ममं गियच्छेज्ज । एत्थिय-मेत्तं अट्ठभत्थिओ सि हय-देव्व दे कुणसु ॥

6 कत्थेत्थ सो जुवाणो अत्ता कवडेण वंचियाओ म्ह । सव्वभाव-दिण्ण-हिययाण तुम्ह किं जुज्जाए एयं ॥ 6

§ २७० ) इमं च सोऊण महिंदेण भणियं 'एसो को वि धणो इमाए पत्थिज्जइ जुवाणो' । कुमारेण भणियं 'अत्थि 9  
पुहइए वहुए रूव-जोव्वण-सोहग-सालिणो पुरिसा' । महिंदेण भणियं 'अवस्सं सुहओ पत्थिज्जइ, जइ असुहओ वि पत्थिज्जइ  
9 ता तुमं ममं व किं ण कोइ पत्थेइ'ति । तओ सहासं भणियं कुमारेण 'दे णिहुओ चिट्ठ, पेच्छामो किं एत्थ एयाओ कुणंति' । 9  
भणियं च भोगवइए 'पुत्ति कुचलयमाले, मा जूरसु, आगओ सो एत्थ जुवाणो । जइ इमे संख-चक्रंकुस-सयवत्तंकिए दीसंति  
चलण-पडिवंधए तहा जाणिमो आगओ' । 'इहं चेय मग्गामो'ति भणंतीओ पहाइयाओ सव्वाओ चेय दिसादिसं चेडीओ ।  
12 ण य उवलह्हा ते, तओ साहिंयं ताहिं 'साभिणी, ण कोइ एत्थ काणगे लक्खिओ अम्हेहिं भमंतीहिं पि' । तओ भणियं 12  
भोगवइए 'वच्च पुणो कयलीहरेसुं चंपय-वीहियासु लवली-वणेसु अण्णिसह जाव पाविओ'ति भणिए पुणो वि पहावियाओ  
ताओ सव्वाओ विलासिणीओ । भोगवइए भणियं 'पुत्ति कुचलयमाले, अहं सयं चेव इमाए पय-पइइए वच्चामि, सयं  
15 चेव उवलहीहामि, तुमए पुण एयम्मि ठाणे अच्छियव्वं'ति भणमाणी सा वि णीहरिया भोगवइ । चिंतियं च कुचलयमालाए 15  
'अहो सव्वो एस कवडो, किर दुट्ठो सो जुवाणो, तेण इमं इमं च भणियं, दिण्णो संकेओ इमम्मि उज्जागे । ता सव्वं  
अलियं । ण एत्थ सो जुवाणो, ण य पय-पंतीओ, णेय अण्णं किंचि । सव्वहा कत्थ सो देवाण वि दुल्लहो जुवाणो मए पाविओ,  
18 कालेण जाव ताओ ममं परिणावेहिइ ताव को जीवइ ति । ता संपयं चेय तहा करेमि जहा पुणो एरिसागं दोहगगं ण 18  
पावेमि गोयरे ति । देव्वं उवालहिय, वणदेवयाओ विण्णविय, तायं पणमिय, अंत्तं अभिवाइय, तं पुरिसं संभरिय, भगवंतं  
मयणं विण्णवेमि जहा पुणो वि मह सो चेय दइओ दायव्वो ति । पुणो लया-पासं वंधिऊण अत्ताणयं उव्वद्विय वावाइस्सं  
21 ति । ता तं च इह महं ण संपज्जइ, संपयं सहीओ पावति । तेण इमम्मि धण-तरुवर-लवलि-लयाहरंतरम्मि पविसिय अत्तणो 21  
अत्थ-सिद्धिं करेमि'ति चलिया तं चेय लयाहरंतरं जत्थच्छए कुमारे । दिट्ठा य कुमारेण संमुहं चलिया । तम्मि य समए कुमारे  
लज्जिओ इव, भीओ इव, विलक्खो विव, जीविओ इव, मओ विव आसि । सव्वहा अणाच्चिक्खणीयं कं पि अवत्थंतरं पाविओ,  
24 दिट्ठो य तीए सो । तओ एकिय ति भीया, सो ति हरिसिया, सयमागय ति लज्जिया, एस मे वरिओ ति वीसत्या, कत्थ 24  
एसो ति संकिया, एसो सुरूओ ति ससज्जसा, वियणे पाविय ति दिसा-पेसिय-तरल-तारया-दिट्ठी । सव्वहा तं कं पि  
ससज्जस-सेउकंप-दीण-पहरिस-रस-संकरं पाविया जं दिव्व-णाणीहिं पि मुणिवरेहिं दुक्खमुवलक्खिज्जइ ति । तम्मि अवत्थंतरे  
27 वट्ठमाणी कुमारेण अवलंविऊण साहसं, ववसिऊण ववसायं, धारिऊण धीरत्तणं, संभरिऊण कामसत्थोवएसं, ठविऊण पोढत्तणं, 27  
अवहत्थिऊण लज्जं, उज्जिऊण सज्जसं, सव्वहा सत्तमवलंविऊणं भणियं । 'एहि सुंदरि, सागयं ते' भणमाणेण पसारि-  
ओभय-वाहु-डंडेण अंसत्थलेसु गहिया । तओ कुचलयमालाय वि ससज्जस-सेउकंप-भयाणुराय-पहरिस-णिवभरं ईसि-धवलं  
30 चलमाण-लोयण-कडच्छ-विच्छोह-रेहिरं भणियं 'मुंच मुंच, ण कज्जं सव्वहा इमिणा जणेणं लोगस्स' । कुमारेण भणियं । 30

'पसियसु मा कुप्प महं को वा तुह मंतुयं कुणइ मुद्धे ।'

तीए भणियं ।

33 'पडिवयणं पि ण दिण्णं भण किं मह मंतुयं थोयं' ॥ 33

1 > J सुणीयति, P पयावती, J जुवइं, P जुवइं णिमिऊण. 2 > J ता सव्वहा. 3 > P खंडलं for मंडलं, J लोय for पाय-  
5 > J पेच्छज्ज, P आ for अत्ता, P अह for हय देव्व. 6 > P inter. जुवाणो & सो, P कवडेहिं वंचिओ अम्हे । 7 > P एवं for  
इमं, J पत्थिज्जओ, P पयडिज्जइ जुवाणो. 8 > P वहुए, P सालिणो, P अवस्स, P पडिज्जइ, J om. वि. 9 > P मम, P पत्थेय, P  
adds दे before चिट्ठ. 10 > P भोगवइं, P om. पुत्ति कुचलयमाले etc. to भणियं भोगवइए. 13 > P उणो for पुणो, J  
om. लवलीवणेसु, J पहाइओ. 14 > J सव्वा, J चेअ, J पयवइइए P पयपद्धतीए. 15 > P तुमए उण तंमि द्वाणे, J भोगमई  
P भोगवती. 16 > J दिट्ठो for दुट्ठो, P inter. दुट्ठो & सो, P जुवा, P adds य before इमं, J संकेयो, P लज्जाओणे, J om. ता  
सव्वं अलियं. 17 > P सो वाणो, J om. ण य, J पयंपंतीओ, P देवाणं, P om. वि. 18 > J परिणावेहिंति, P हिंति, P जीवति.  
19 > P देवं, J उवालहीअं, J वणविय for विण्णविय, P पणमिया, P अभिवाइया, J संभरिअं. 20 > P चेव, P तथो for पुणो, J  
लतासं, P उवद्विय for उव्वद्विय. 21 > P ण पज्जइ ता संपयं, J सहीओ, P इमं for इमम्मि, P तरुवर, J लयली, P लयाहरंमि.  
23 > J adds कंपिओ इव before विलक्खो, J मयो इव. 24 > J तीय, P एकिय, J सहरिसा for हरिसिया, P वीसत्थी. 25 >  
P adds संकिय before ससज्जसा, J पेसि P पेसिया, J om. दिट्ठी, J तं किं वि. 26 > P सव्वस for ससज्जस, P जि for जं,  
P om. पि, P दुक्खमुवलं. 27 > P om. ववसिऊण ववसायं, P ठाविऊण. 28 > P उज्जिणससज्जसं, P परिसाउभयवाहुडंडेण-  
29 > P कुचलयमाला वि, P सेउकंप, P णिचरइरं ईसि. 30 > J om. चलमाण, J लोअस्स. 31 > P मंतुवं. 33 > J भण  
किं ता मह मंतुअं भणिअं थोअं । P किं नामं तुम थोअं ।

1 कुमारेण भणियं ।

‘एत्तिय-मेत्तं भूमिं पत्तो हं सुयणु जाणसे किं पि’ ।

3 तीए भणियं ।

‘जाणामि पुहइ-मंडल-दंसण-कोऊहलेणं ति’ ॥

कुमारेण भणियं । ‘मा एवं भणसु,

6 किं सुमरसि णेय तुमं मायाइच्चत्तणम्मि जं भणियं । इच्छाकारेण तुमे सम्मत्तं अरुह दायव्वं ॥

तं वयणं भणमाणो मुणिणा संबोहिओ इहं पत्तो । ता मा जूरसु मुद्धे संबुज्जसु मज्झ वयणेण ॥’

§ २७१ ) जाव एस एत्तिओ आलावो पयत्तो ताव संपत्ता भोगवई । ‘वच्छे कुवलयमाले, राइणा वंजुलाभिहाणो

9 कण्णंतेउर-महल्लओ पेसिओ जहा अज्ज वच्छा कुवलयमाला राइए दढं असत्थ-सरीरा आसि, ता कत्थ सा अज्ज परिभमइ 9

त्ति सिग्घं गेण्हिय आगच्छसु त्ति भणमाणो इहं संपत्तो । मंदमंद-गइ-संचारो संपयं पावेइ, ता तुरियं अवकम इमाओ

पएसओ, मा अविणीय त्ति संभावेहिइ’ त्ति । तं च सोऊण सयल-दिसा-मुह-दिण्ण-तरल-लोल-लोयण-कडकख-विकखेव-रेहिर

12 चलिया कुवलयमाला । तओ कुमारेण भणियं । ‘सव्वहा

किं जंपिएण बहुणा किं वा सवहेहि एत्थ बहुएहिं । सच्चं भणामि पत्तिय जीयाउ वि वल्लहा तं सि ॥’

कुवलयमाला वि ‘महापसाओ पडिवण्णो एवं अरुहेहिं’ ति भणमाणी तुरिय-पय-णिकखेवं णीहरिया लवली-लयाहरंतराओ ।

15 दिट्ठो य सो वंजुलो कण्णंतेउर-पालओ । तेण य खस-णिट्ठुर-कक्कसेहिं वयगेहिं अंवाडिऊण ‘पेच्छ, पेच्छ, एक्का चैय कहं पाविय’ 15

त्ति भणमाणेण पुरओ कया ‘वच्च, तुरियं अंतेउरं’ ति । तओ कुवलयमालाए वि चित्तियं ‘माए, पेच्छ पुरिसाण य अंतरं ।

एक्को महुर-पलावी सुंदर-भणिएहि हरइ हिययाइं । अण्णो णिट्ठुर-भणिरो पावो जीयं पि णासेइ ॥

18 दीसंतो अमय-मओ लोयण-मण-णंदणो इमो एक्को । विस-दल-णिम्मिय-देहो एसो उण दूहवो अण्णो ॥’ 18

इमं चित्तयंती समागया कण्णंतेउरं । कुमारो वि तं चैय पणय-कोव-कय-भंगुर-भुमयालंकियं वयणं हियय-लगं पिव,

पुरओ णिम्मियं पिव, घडियं पिव, पासेसुं ठवियं पिव, उवरिं णिक्खित्तं पिव, महियलम्मि उप्पेक्खंतो तीए य चैय ताइं

21 सवियार-पेम्म-कोव-पिसुणाइं संभरमाणो वयणाइं कयत्थं पिव अप्पाणं मण्णमाणो तं महिंद अण्णोसिउं पयत्तो । दिट्ठो 21

एक्कम्मि पायवोयरे कुसुमावचयं करेमाणो । तओ भणियं कुमारेण ‘वयंस, एहि वच्चामो आवासं, दिट्ठं जं दट्ठव्वं’ । तेण

भणियं ‘कुमार, भण ताव किं, तए तत्थ मयण-महासरवर-णियर-संकुले रणंगणे किं ववसियं’ । कुमारेण भणियं ‘वयंस,

24 दिट्ठं अदिट्ठउव्वं तीए लायण-मंडणं वयणं । वयणोयर-मंडल-भूसणाइं सामाए णयणाइं ॥ 24

महिंदेण भणियं ‘कुमार,

तं वयणं ताणि य लोयणाइं पढमं तए वि दिट्ठाइं । तं किं पि साह मज्झं जं अब्भहियं तए रइयं ॥’

27 कुमारेण भणियं ‘कुओ एत्तियाइं भागधेयाइं । तह वि 27

लायण-महागिरिवर-सिहरेसु व तीय अंस-देसेसु । हत्था अमय-विहत्था वीसत्थं सुत्थिया मज्झं ॥’

तओ महिंदेण सहासं भणियं ‘एरिसो तुमं । अण्णहा,

30 बहु-दियह-मणोरह-पत्त-संगमालद्ध-दुलह-पइरिका । वण-करिवरेण णलिणि व्व पाविया सा कहं मुक्का ॥’ 30

कुमारेण भणियं ‘वयंस, मा एवं भण ।

गुरु-देव-दियादीहिं करग्गहं जा ण पाविया पढमं । जालोलि-जलिय-भीमं मण्णामि च्चिइं व तं जुवइं ॥’

33 महिंदेण भणियं ‘एवं एयं, अण्णहा को विसेसो सुकुल-दुकुलाणं’ । ‘ता पयट्ट वच्चामो आवासं’ ति भणमाणा णीहरिया 33

2 > P सुयण, P किं वि । 4 > P adds दंसणदंसण before मंडल, P om. दंसण. 6 > P इच्छाकारेण, J तुमं for तुमे.  
7 > J इहं, P इह संपत्तो, P संबुज्ज वयणेण. 8 > P भोगवती, J राइणे, P रायणा, J वंजुलाहिहाणो. 9 > P कचंतउर, P रातीय, J परिब्भमइ. 10 > J om. सिग्घं गेण्हिय आगच्छसु त्ति, J गई. 11 > J om. संभावेहिइ त्ति, P संभावेहिय त्ति, P मुहकचंतरलोयलोयणा, P विकखेवरेहिरा. 12 > J adds वि after कुमारेण. 14 > P कुवलयमालाए वि, J om. एवं. 15 > P ते for तेण, P adds कक्कस before णिट्ठुर, P एक्क चिय. 16 > P भणमाणे पुरओ, J om. वि. 17 > J पलाविर, P सुंदरिहियएण हरइ, J भणिओ. 18 > J विसमओ for दूहवो. 19 > P इमं च चित्तंती, P om. पणय, P मुमयालंकियं. 20 > P णिम्मियं, P ठिइअं for ठवियं, P उवेक्खंतो, J तीय चैअ. 21 > P कोह for कोव, P महिंद अन्नसिउ, J adds य after दिट्ठो. 22 > P पायवे कुसुं, P आवासं जं दिट्ठं तं दट्ठव्वं । कुमार भणियं तेणं भण ताव किं. 23 > P संकुल, P adds व्व before किं, P वयस्स. 24 > P अदिट्ठं उव्वं, P मंडलं, P वयणायमंडण-, J मण्डलाहूसणाइ, P समाए. 26 > तव for तं, P लोवणार्हं, J अब्भइअं 27 > P om. कुओ. 28 > J om. व, P तीययंस, J हत्थ. 29 > J हणियं for भणियं, P एसो for एरिसो. 30 > P दियर, for दियह, P adds अन्नहा before पत्त, P दुक्ख for दुलह, P वरेणे for वरेण, P कहिं for कर्ह. 31 > P भणइ for भण. 32 > J देवदियाहिं, P जालोलियनीम. 33 > J अण्णहा को.

१ उज्जाणाओ, संपत्ता आवासं । तथ य महाराइणा पेसियाओ अणेयाओ सिणेह-कारा जल-कलस-सुयंध-गहाण-गंध-वण्णय- 1  
 तंवोल-वावडाओ वारविलासिणीओ । तओ ताहिं जहाविहिं मक्खिय-उवट्टिय-गहाविय-जिमिय-परिहिय-धिलित्ता कया । तओ 1  
 ३ सुहासणत्थाण य संपत्ता एक्का विलासिणी । तीय उग्वाडिऊणं कणय-मय-पक्ख-संजोइयं तंवोल-मच्छयं पणामियं 3  
 कुमारस्स । भणियं च इमीए 'इमं केण वि जणेण पेसियं तंवोलं' । तओ कुमारेण गहियं, गिरुवियं च जाव गियय-णव-  
 णक्ख-विणिम्मवियं तंवोल-पत्तेसु पत्तच्छेज्जं । तस्स य उवरीं पत्तक्खराइं, सिरिकुवलयचंदस्स णामं लिहियं । तओ तं च 6  
 ६ वाइऊण कुमारेण भणियं 'अहो, गिउणत्तणं कस्स वि जणस्स' । गहियं तंवोलं । तओ कुमारेणावि एक्कम्मि पत्ते गह-सुहेहिं 6  
 रइयं सहंस-सारस-चक्कवाय-णलिणि-सयवत्त-भमर-रिंछोलि-रेहिरं सरवरं । विरइया य इमा गाहुल्लिया । अवि य ।

हियय-दइयस्स कस्स वि गिययण-दुक्खत्त-भत्ति-चित्तलियं । पेसिज्जइ केण वि किं पि कारणं सरवरं एयं ॥

९ § २७२ ) तओ एवं च अण्णम्मि दिवहे तेगेय कमेण णाणा-भोयणादीयं, पुणो कइया वि तंवोलं, कइया वि पत्त- 9  
 च्छेज्जं, कइया वि वीणं, कइया वि आलेक्खं, कइया वि पागं, कइया वि गंध-जोओ, कइया वि किं पि तहाविहं गियय- 9  
 णेउण्ण-सिणेह-सवभाव-पिसुणं पेसिज्जइ कुमारस्स । एवं च ताणं कुमाराणं गियय-रज्जे व्व सुहंसुहेणं भुंजमाणाणं रज्ज-सिंरिं 12  
 १२ वच्चंति दिवहा । कमेण य को उण कालो वट्ठिं पयत्तो । अवि य । 12

अगंधंति जम्मि काले कंवल-वय-तेल्ल-रल्लयग्गीओ । अच्छइ पाउय-देहो मंदो मंदो व्व सव्व-जणो ॥

किं च दीहरीहोति गिसाओ, झत्ति वोलेति वासरा, दूहवीहोति चंद-किरणाइं, परिहरिज्जंति जलासयइं, णिक्खिपंति 15  
 १५ मुत्ताहार-लट्ठीओ, सिठिलिज्जंति हम्मिय-तलाइं, अणायरिज्जंति चंदण-पंकयइं, घेपंति रल्लयइं, संगहिज्जंति इंधणइं, विरइ- 15  
 जंति घेणीओ, मक्खिज्जंति मुहइं, अंजिज्जंति अच्छिवत्तइं, गियंसिज्जंति कुप्पासयइं, चमडिज्जंति सव्व-धण्णइं, उडिभज्जंति 16  
 खज्जंकुर-सूईओ, गियत्तंति गियय-दइया-णियंवयड-विं-पओहरुम्हा-सुहइं संभरमाण पहिय त्ति । अवि य ।

१८ घण-बंधण-पम्मुक्को तुल्लग-ल्लगो य पत्त-धणु-वंसो । उय सूरु सूरु इव अह जाओ मउलिय-पयावो ॥ 18

गहिय-पलाला मय-धूलि-धूसरा खंध-णिमिय-कर-जुयला । दीसंति अल्लियंता पहिया गामम्मि हेमंते ॥

विरइ-भुयंणेण हओ खंडाखंडिं कओ व सिंसिरेण । एसो पसु व्व पहिओ पच्चइ अग्गिम्मि रयणीए ॥

२१ दीसंति के वि पहिया कर-जुवल-णियंसणा फुडिय-पाया । गोसे मगालगगा वायंता दंत-वीणाओ ॥ 21

वाहोगलंत-गयणा रहसुव्वेलंत-वाहुणो केइ । चिर-दिट्ठ-बंधवं पिव धम्मरिं गि कह समल्लीणा ॥

मल-खउरियंगमंगा तणुया णिक्किंचणा महल-वासा । दीसंति के वि रिसिणो व्व धम्म-रहिया परं पहिया ॥

२४ अवि य । जम्मि य काले 24

हिम-सत्तु-णिहय-सीसं सयलं दट्ठण काणणं सहसा । सिय-कुसुम-दसण-सोहं खलो व्व कह विहसिओ कुंदो ॥

किं च । मंजरिज्जंति पियंगु-ल्यउ, वियसंति रोद्ध-वल्लरीओ, विसट्ठंति तिलय-मंजरीओ, उवगिज्जंति महुर-मयरंद-बंध-णीसंद- 27  
 २७ पाण-मय-मत्त-मउय-मणहर-गीयावद्ध-मंडली-विलास-महुयरी-भमर-जुवाणेहिं मधमवेंत-मल्लियउ त्ति । सव्वहा 27

अलम्मि तम्मि को वा ण भरइ धणिओवऊहण-सुहाणं । णांगकुस-रुद्ध-मगे एक्के पर साहुणो मोत्तुं ॥

तम्मि य काले को कथ समल्लीणो त्ति । कालायरु-कुंकुम-सुगंध-सयणोयरेसु ईसर-जुवाणया, धम्मरिगि-धमण-पयावण- 30  
 ३० तप्परा पंथ-कप्पडिया, जर-मंथर-कंथा-मेत्त-देहया जुण्ण-धम्मिया, तण-पलाल-खल-एक्क-सरणा कासया, खल-तिल-कंथा- 30  
 जीवणाओ दुग्गय-धरिणीओ, मुस्सुर-करीसगि-समाकड्डण-वावडइं दरिइ-डिंभरुयइं, थोर-थणवट्ट-कलत्त-वच्छयल-संपुड-  
 सुह-पसुत्तइं पुअंड-मंडलइं ति । अण्णं च पंचरिग-ताव-तवियंग-महासुणि-जइसिय जर-डोव-थेरय, सिंसिर-पवण-पहय-विमल-

१ > P om. य, P om. अणेयाओ, P सणेह, P om. कारा, J om. जल, P सुगंध, J om. गंध. २ > P वाडाओ, P तेहिं

मंक्खियउवट्टियणहविय- ३ > P कणगमयमक्ख, J तंपूल for तंवोल. ४ > P गिययकरणिकखनिम्मलवियतंवोलपत्ते. ५ > P om.

य. ६ > P कस्सइ जणस्स, P णक्कं पि मि for एक्कम्मि, J णस for गह. ७ > P सार for सारस. ८ > P -दुइयस्स, J गिअयल-

हुक्कंततरुत्ति, P चित्तलियं, P व for वि. ९ > P तेण य, P गहाण for णाणा. १० > J गंधजोए P धंधुजोओ, JP कंप्पि for किपि.

१३ > P जंति काले, P कंवलयतेल्लरल्लयंगीओ, P पाउदेहो. १४ > J गिसओ संति वोलेति, P वोलेति, J -किरणा, P जलासयाइं, P

णिक्खिपंति. १५ > J -लंठिओ, J हम्मियवट्टइं, P -पंकइं, P रल्लयाइं, J इंधणयं P इंधणइं. १६ > J वेणिओ, P कुप्पासयाइं.

१७ > J खज्जंकुड P गज्जंकुर, J गियदइया J संभरमाणदइअवत्ति. १८ > P पम्मुक्को पयपत्त, P om. one सूरु. १९ > P मल for

मय, P खंधणमिय, २० > P व्व for व, P अग्गंमि. २१ > P गियंसणे, P गोसगिगमगलगगा वायंता. २२ > J वाहोअलंत, केवि ।

२३ > P णिक्किंचणा. २४ > P om. जम्मि य काले. २५ > J om. सयलं, P व्व कुदविलसिओ कंदो. २६ > J मंजरिज्जंत, P

पियंगुलयाओ, P उवग्गोज्जति. २७ > P मणहरं, P महुरीभवणजुं, P मधमवेंति मल्लियाओ. २८ > P धणिओवगूहणाणाणं, P

रुद्धमणो, P पुण for पर. २९ > P य का कथ, J सुअंध, J रमियइ for ईसर, J जुवाणया, P धम्मरिगिधमण. ३० > J जरकंथर,

J मेत्तदेवया, P देहया अज्जाहम्मिया, P कासवा, J कथ for कंथा. ३१ > P करिसगि, J समाकड्डवावडइं. P समायट्टणवावाइं, J

डिंभरुअइं P डिंभरुयइं, J वच्छयल P वच्छय. ३२ > P मंडलयं, J -तविययमहा, P सय for जइसिय.

- 1 जल-पहलुमाण-वीर्ह-तरंग-भंग-भंगुर-वियरंत-मच्छ-पुच्छच्छडावाउलसंत-मुत्ताहल-रुहर-जल-लवालंकिय दीसंति सरवर, 1  
भाविय-एयत्तासरणत्त-संसार-महादुक्ख-गहण-विउडण-सज्जायज्जाणेक वावड पमुक्क-वरिसा-कप्पायावण-संठिया आयावैति  
3 साहु-भडरय व त्ति । अवि य, 3

सिसिरेण को ण खविओ सिसिर-पवायंत-मउय-पवणेण । पर-मंस-पिंड-पुट्टे जंबुय-सुणए पमोत्तूण ॥

§ २७३ ) इमस्मि एरिसे काले सुहंसुहेण अच्छमाणाणं कुवलयमाला-कुवलयचंदाणं अण्णम्मि दियहे सदाविओ

- 6 राइणा संवच्छरो 'भो भो गणियं तए कुवलयमालाए विवाह-लग्गं' ति । तेण भणियं 'देव, तदियहं गणेमाणेण इमं सोहियं । 6  
तं जहा । इमस्स जम्म-णक्खत्तस्स उवचयकरो सीयकिरणो, सुवण्णदो सहस्सरस्सी, पुत्त-लाभयरो वहस्सई, भोग-करो  
बुधरायपुत्तो, कुडुंब-विजय-करो धरणीसुओ, णिव्वुइयरो उसणसो, भूमि-लाभयरो सणिच्छरो त्ति । अण्णं च णिवत्तं  
9 उत्तरायणं, बलियं लग्गं, सयल-दिट्ठिणो सोम्मा, पाय-दिट्ठिणो पावा, ण पीडियं गवभादाणं, अणवहुयं जम्म-णक्खत्तं, अपीडियं 9  
जम्मं, सुकम्म-णिच्च-जोओ । सव्वहा ण विरुद्धं अट्टुत्तरेणावि चकसएण णिरुवज्जंतं । कुक्कं च जइमिमं लग्गं ता दुवालसाणं  
वासाणं मज्जे ण एरिसो लग्ग-जोओ सुज्जइ त्ति । जारिसो एस फग्गुण-सुद्ध-पक्ख-पंचमीए बुधवारं साती-सुणक्खत्ते  
12 राईए वोलीणे पढम-जामे दुइय-जामस्स भरियासु चउसु घडियासु पंचमाए णालीए दोसु पाणियवलेसु पाउण करिसा-12  
हिणसु वोलीणे सिंघे उयमाणे कण्णे पूरीए मए संखे परिणीया दारिया जइ तओ दीहाज से भत्ता, चिरं  
अविहवा, सुहया वसीकय-भत्तारा, धणं कोडी-गणणाहिं, एको से पुहइ-सारो पुत्तो, भोय-भाइणी, पच्छा धम्म-भाइणी,  
15 पढमं भत्तारओ मरणं ण अण्णह' त्ति भणिए गणएणं, णरवइणा वि 'तह' त्ति पडिवज्जिय 'कल्लाणं' ति भणमाणेण 15  
णिवेइयं तं कुमारस्स । 'कुमार वच्छ, बहुयं कालंतरं तुह कुवलयमालाए णियय-विण्णाण-सत्त-सहाव-पुव्व-जम्मजियाए वि  
विओग-दुक्ख-वित्थरो कओ । ता संपयं इमीए पंचमीए गेणहसु परम-कल्लाण-मंगलेहिं गुरुणं आसीसाए देवाणं पहावेणं से करं  
18 करेणं बालियाए' त्ति । कुमारेण भणियं 'जहा महाराओ आणवेइ'त्ति । णिवेइयं कुवलयमालाय वि तओ हियय-दइय-18  
संगम-सुहलि-वयणायण्णण-पहरिस-वसूसलंत-रोमंच-कंचुइज्जंत-सललिय-मुणाल-णाल-ललिय-कोमल-बाहुलया चिर-चितिय-  
संवयंत-मणोरहाऊरमाण-हियय-हलहला भुयणे वि माइउं ण पयत्ता । किंचि तम्मि रायउले कीरिउं पयत्तं । अवि य  
21 मुसुसूरिज्जंति धण्णाइं, पुणिज्जंति सहिण-समियाओ, सक्कारिज्जंति खंड-खज्जाइं, उयक्खिज्जंति भक्खाइं, आहरिज्जंति 21  
कुलालइं, कीरंति मंच-सालाओ, विरइज्जंति धवलहरइं, रइज्जए वर-वेई, कीरंति उल्लोयइं, परिक्खिज्जंति रयणाइं,  
उप्पिज्जंति तुरंगमा, पणामिज्जंति करिवरा, णिमंतिज्जए रायलोओ, पेसिज्जंति लेह-वाहयए, आमंतिज्जए बंधुयणो,  
24 मंडिज्जए भवणोयरं, धवलिज्जंति भित्तीओ, घडिज्जए कलधोयं, वविज्जंति जवंकुरा, णमंसिज्जंति देवयाओ, सोहिज्जंति 24  
णयर-रच्छाओ, फालिज्जंति पडीओ, सीविज्जंति कुप्पासया, कीरंति धयवडा, रइज्जंति चारु-चामरी-पिच्छ-पन्भारइं  
ति । सव्वहा ।

- 27 सो णत्थि कोइ पुरिसो महिला वा तम्मि णयर-मज्झम्मि । जो ण विहल्लप्फलोओ कुवलयमाला-विवाहेण ॥ 27  
सो को वि णत्थि पुरिसो कुवलयचंदो ण जस्स हिययम्मि । ण य सा पुरीए महिला कुवलयमाला ण जा भरइ ॥


§ २७४ ) एवं च होंत-विवाह-महूसव-चावडस्स जणस्स संपत्तो सो दियहो । केरिसो ।

- 30 कणय-घडिओ व्व एसो अमय-रसासाय-वड्डिय-सररीरो । सोहग्ग-णिम्मिओ इव विवाह-दियहो समणुपत्तो ॥ 30  
तम्मि य दियहे कुवलयमाला-जणणीए होंत-जामाओ य गुरु-सिगेह-पसर-रसुच्छलंत-रोमंच-सेय-सलिल-राहाए पमक्खिओ  
कुमारो । तओ कयं से जहा-विहीए सिद्धत्थक्खय-सत्थिय-मंगलोयारणयं । कयाणि य से णियय-वंस-कुल-देस-वेस-समयट्टाईं

1 > P om. जल, P वीइ, J °च्छडावायुलसंत P °च्छडाहयुलसंत, P लवालंकित, P सरवरा । अवि य भाविया. 2 > P सज्जाय-  
ज्जाणक्क, J वावरपमुक्क, P पमुक्का, J °कप्पायावणासंठियायावैति साहुण भडरय च त्ति. 4 > P पयायत्तमउयवणेण । परमासवसापुट्टं पक्कं  
चिय जंबुयं मोत्तुं ॥ 5 > J कंडूविओ for सदाविओ. 6 > P गणितं, P om. तेण भणियं, J देव अदिअहं, P गणमाणेण. 7 > P  
om. तं, P सहस्सरसी, P बुहस्सती, P भोगयरो बुधरायउत्तो कुडुंब. 8 > J बुधरायापुत्तो, P णेवुइयरो, J उसिणसो. 9 > P सोमा  
यातट्ठिणो, P पीडितं गवभादाणं, J अणवहुत्तं P अणुवहुत्तं, JP अपीडितं. 10 > P सुकम्मा, P अट्टुत्तरेणावी, P जइ संलग्गं, J om. लग्गं ॥  
11 > P inter. एरिसो & ण (न), P फयुणद्धपक्ख, J सातीसुं णक्खत्तं P रेवतिणक्खत्ते. 12 > J दुतिअजामस्स, P पंचमाराएणाली, P  
पाणियलेसु पाउण. 13 > J उयमाण, P पूरिए संखे, P दीहाओ, P भत्तारे. 14 > P अवहिवावसीकयभत्तारो धणकोडीण गणाहिं,  
P -सारो पत्तो पच्छा, P transposes भोगभाइणी before पढमं. 15 > P मइरणं. 16 > P om. तं, J om. कुमारवच्छ, P  
सत्तसुहाव. 17 > J विउअ for विओग. 18 > P जइ महाराय, P कुवलयमालाह वि. 19 > P वसुच्छलंत, J सयल for सललिय  
P om. णाल. 20 > P सयवत्त for संवयंत, P हलाहला, P माइओ ण, J किंच for किंचि. 21 > P मुणिज्जंति for पुणिज्जंति,  
P -समिओ सक्कारिज्जंति, J खल्लइं, P खंडक्कादि उयक्खिज्जंति, J भक्खयं. 22 > P त्रियलिज्जंति धवलहर इज्जएयेती ।, J रइज्जएवेई,  
P उल्लोयइं, J रयणइं. 23 > P लेहवाहया. 24 > P सवणोयरं for भवणो, P भित्तीए, P कलधोयं, P ठविज्जंति, J गज्जंकुरा for  
जवंकुरा, J देवया, P सोहरिज्जंति देवयाओ णयर. 25 > P पयडीओ, J चमरी पिंछे. 27 > P को वि पुरिसो, J णयरि. 28 > P  
inter. ण (न) तिथ and कोवि, J पुरीय, P महियला, P कुवलयमाला ण. 29 > P महूसव. 30 > P णिम्मि इव, J विआह-  
31 > P, after तम्मि य दियहो, repeats केरिसो । कणय etc. to दियहे as above, P सहए पमक्खिओ. 32 > P जहा  
विदीए, J मंगला आरयणं, P यय for णियय, J वेत्तमयं, P -समयट्ठिती.



- 1 मंगल-क्रोडयाहं, तत्रो ण्हाय-सुइ-धोय-धवल-जुवलय-णियंसणो सिय-चंदण-चच्चिय-सरीरो वंदिय-नोरोयण-सिद्धत्य-रइय-तिलओ 1  
 खंधरावलंविय-सिय-कुसुम-सुरहि-दामो महिंदाणुगय-मग्गो अल्लीणो विवाह-मंडवं । कुवलयमाला वि कय-कायव्व-वाचारा 1  
 3 सिय-सण्ह-वसण-णियंसणा मंगल-मोत्ताहरण-रेहिर-सरीरा अल्लीणा वेदि-मूलं । तत्रो संपत्ताए वेलाए, पाविए लग्गे, अग्गि- 3  
 होत्त-सालाए जलणं आणियं छीरवच्छ-समिहा-घय-संभुक्खियं काऊण, समक्खीहूयाणं सव्व-कुल-जुण्ण-महत्तराणं, पच्चक्खे 3  
 राइणो, मज्झट्टियस्स अणेय-वेय-समय-सत्थ-पारयस्स दुयाइणो, आमंतिय लोय-पाले, णांमं गेण्हिय राइणो दढवम्मस्स, दिण्णाओ 3  
 6 लायंजलीओ । समप्पिया य तस्स करंजली कुवलयमालाए । गहिया य कुमारेण । उभय-विरइयंजलीउवेहिं करयलेहिं ताव य 6  
 पगीयाओ अविहवाओ । पवाइयाइं तूराइं । पूरियाइं संखाइं । पहयाओ झल्लरीओ । पढंति वंभण-संवाइं । जयजयावंति 6  
 महासामंता । आसीसा-समुहा कुल-महल्लया, मंगल-पढण-वियावड गाणायरिय त्ति । एवं च तेण दुयाइणा होमिउं पयत्तं । 6  
 9 'इक्खागु-वंस-पभवस्स सोमवंस-कुलालंकारस्स महारायाहिराय-दढवम्म-पुत्तस्स कुमार-कुवलयचंदस्स विजयसेण-दुहिया कुव- 9  
 लयमाला एसा दिण्णा दिण्ण त्ति जाव णिसुणेंति सयल-तेलोक-सक्खिणो भगवंता लोयवाला । पडिच्छउ लायंजली भगवं एस 9  
 सुरासुर-मणुय-तिरिय-लोयालयणो जलणो' त्ति । इमिणा कमेण पढमं मंडलं । दुइयं पि पक्खित्ता लायंजली । आहूया लोय- 9  
 12 वाला । तइयं मंडलं । पुणो तेणेय कमेण दिण्णं दायव्वं । तथा चउत्थं मंडलं । तत्रो जय जय त्ति भणमाणा जरा-जुण्ण-देहा 12  
 त्रि पहरिस-वसुव्वेळमाण-वाहुलयावली-वलयया णच्चिउं पयत्ता कुल-जुण्ण-महिल्लय त्ति । कुवलयमाला-जणणी वि सरइसुव्वे- 12  
 ल्लमाण-वाहुलया-कंचण-मणि-वलय-वर-तरल-कल-ताल-वस-पय-णिक्खेव-रेहिरा मंथरं परिसक्किया । सेसो वि विलासिणियणो 12  
 15 मय-वस-धुम्ममाण-खलंत-चलण-चलिय-मणि-णेउर-रणरणा राव-रेहिरो पणच्चिओ जहिच्छं जयजयासद्-पूरमाण-दिसिवहाओ । 15  
 णिवदंति अदिट्ठ-करयलंजलि-विमुक्काओ णाणाविह-वण्णाओ गंध-लुद्ध-मुद्ध-भमरोलि-माला-मुहल्लओ दिव्व-कुसुम-घुट्टीओ 15  
 त्ति । अवि य, 15  
 18 गिज्जंत-सुमंगल-मणहरए णच्चंत-विलासिणि-सोहणए । मलहंत-सुहासण-वामणए वज्जंत-पयत्तय-तूर-रवे ॥ 18  
 खोभंतावल-वज्जिर-तूरं तूर-रसंत-पणच्चिर-खोरं । खोर-पणच्चिर-चच्चरि-सद्दं चच्चरि-सद्द-मिलंत-जणोहं ॥ 18  
 मिलिय-जणोह-सुकलयल-रावं कलयल-राव-वियंभिय-तोसं । तोस-वियंभिय-वग्गिर-मल्लं वग्गिर-मल्ल-पलंविय-कच्छं ॥ 18  
 21 लंविय-कच्छ-ललंत-सचूलं चूल-ललंत-सुमंथर-तालं । ताल-ललंत-पफोडण-सद्दं सद्द-वियंभिय-पूरिय-लोयं ॥ ति । अवि य । 21  
 तूर-रव-नाहिर-सद्दं आऊरिय-संख-राव-नांभीरं । उव्वेळं व समुद्दं वियाह-वद्धावणं जायं ॥ 21  
 तत्रो वत्ते य वद्धावणए किं जायं । संमाणिज्जंति संमाणिज्जे, पृहज्जंति पूयणिज्जे, तोसिज्जंति तोसणिज्जे, मंडिज्जंति मंडणिज्जे, 21  
 24 दिज्जए पणह्णं, पणामिज्जइ राइणं, उवणिज्जइ गुरुणं, पक्खिज्जए जणवयाणं, अप्पिज्जए अंतैउरियाणं, पेसिज्जए णायरियाणं, 24  
 दिज्जइ य अगणणिज्जं जहाभिलसियं धणं दीण-वणीमय-किमिण-पणह्णं ति । अवि य । 24  
 दिज्जउ देसु पडिच्छसु गेण्हसु पक्खिवसु दे पडिच्छाहि । मग्गसु भणसु जहिच्छं इय हलवोलो वियाहम्मि ॥ 24  
 27 § २७५ ) तत्रो णिवत्ते वद्धावणए महिए सुर-संधे सुपूइए गुरुयणे सव्वहा कए तक्काल-पाउग्गे करणीए विरइया 27  
 कुमारस्स वासहरए महरिहा सेज्जा । अवि य । 27  
 रयण-विणिम्मिय-सोहा मुत्ताहल-णियर-रेहिरा धवला । खीरोदहि-चेला इव रइया वर-विहुमा सेज्जा ॥ 27



- 1 > J क्रोडयइ, P ण्हाइसुय, J सुइ, J सच्चिय for चच्चिय, P गोरोयणो. 2 > P सुरहिरदामो (?) महिंदाणुजायमग्गो आल्लीणो, P वावार. 3 > P वेइमूलं. 4 > P आणिरच्छीर, J adds महु after वय, P संभुक्कियं, J समक्खीहूअणेसद्धकुल, P समक्खयाणं, P कुत्र for जुण्ण, P पच्चक्खं. 5 > P मज्झट्टियस्स, P अणेयअवेय, J यत्थ for सत्थ, P दियाइणो, P राइणा दढवम्मस्स दिन्ना, J दढधम्मदि- 5  
 ण्णाओ. 6 > P om. य before तस्स, P विरइइयंजली. 8 > J विआवडणआयरिय, P णागायरिय for गाणायरिय (emended), P 8  
 दियाइणा, J होइउं P होमियं. 9 > P ष्पभवस्स, J P दढवम्म, P om. कुमार, P विजसेणस्स दुहिया. 10 > J repeats दिण्णा, 10  
 J om. जाव before णिसुणेंति, P त्तेलोक, J भगवंतो लोगवाला, P पडिच्छिओ, J भयवं, P एस समुरासुर. 11 > P लोयलयणो, J P 11  
 मंगलं for मंडलं, P लायंजलायाम्भूता, J आहूता. 12 > J adds पि after तइयं, P मंगलं in both places (for मंडलं), P तेण च, 12  
 P दातव्वं. 13 > P वाहुल्लमाणवल्लीलया णच्चिउं, J महल्लयं ति, J om. वि, J सहरसुव्वेळं P वि रसुव्वेळं. 14 > J वहुल्लयाकंठण, 14  
 P वलयचलतरकल तारवस, P विलासिणियणो. 15 > P repeats चलण, J माण for मणि, P om. जहिच्छं, P सद्दं 16 > P अविद्ध. 15  
 करयंजली, P घुट्टीओ. 18 > P गिज्जंति, J हल्लंत P मण्हंत, P वज्जंति. 19 > P खोरुत्तावज्जिरत्तरत्तरसंतं पणच्चियखोर, 19  
 P पणच्चिय. 20 > P om. मिलियजणोह, P वग्गियमेळं वग्गिय, J पलंविर. 21 > J लंछिय for लंविय, P सुचूलं, J सुमच्छ 21  
 (त्थ?) रतालं. 23 > P om. तत्रो वत्ते य वद्धावणए किं जायं, P पृहज्जंति, P मन्निज्जंति मन्निज्जे. 24 > J दिज्जउ, P पणतीणं, 24  
 P पणामिज्जपरादीणं उवणिज्जए, P पक्खिज्जए, P अप्पिज्जए, P णायराणं दिज्जए अगणिज्जं. 25 > J विज्जइ for दिज्जए, P जहाहिल्ल- 25  
 सियं. 26 > J देसु पयच्छसु. 27 > P णिवत्ति वद्धावणए, P संधे पूइए, J गुरुअणो, P पाउग्गकरणीए. 28 > P वासहरे, J 28  
 महरिया, P inter. सेज्जा and महरिहा. 29 > P खीरोयहि.

1 तस्मि य सेजा-महोदही-पुलिणोवरे व्व रायहंस-जुवल्यं पिव णिविट्ठं कुमार-जुवल्यं ति कयाणि य आरत्तियादीणि मंगल-  
कोउयाणि । अच्छिऊण य कं पि कालं परिहास-हसिर-लोयण-जुवलो सहियायणो अलिय-कय-वक्खेवो सइर-सइरं णीहरिउं  
3 पयत्तो । अवि य ।

अलिय-कय-वावडत्तण-विकखेवो दिण्ण-महुर-संलावो । अवरोप्पर-कय-सण्णो णीहरिओ से सही-सत्थो ॥  
तओ कुवलयमालाय वि भणियं ।

6 'मा मा मुंचसु एत्थं पियसहि एकल्लियं वण-मइ व्व ।'  
ताहि भणियं ।

'इय एकियाओ सुइरं पियसहि अम्हे वि होज्जासु ॥'

9 तीय भणियं ।

'शोमंच-कंपियं सिण्णं जरियं मा मुंचह पियसहीओ ।'  
ताहि भणियं ।

12 'तुज्झ पइ चिय वेज्जो जरियं अवणेही एसो ॥'

§ २७६ ) तओ एवं च भणिया समाणी लज्जा-ससज्जस-वेवमाण-पओहरा एसा 'अहं पि वच्चांमि' त्ति भणमाणी  
चलिया, गहिया य उवरि-वत्थदंते कुमारेण भणिया य 'कत्थ वच्चसि ।' तीय भणियं 'मुंच, सहियणेण समं वच्चांमि' ।

15 [ कुमारेण भणियं ]

'वच्चसु सुंदरि वच्चसु वच्चती को व रंभए एण्हि । एकं पुण मह कीरउ जं गहियं तं समप्पेहि ॥'  
तीय ससंभमं भणियं 'किं पुण मए गहियं' । कुमारेण भणियं ।

18 'तुह-चिंता-रयण-करंडयं च विण्णाण-बुद्धि-पडहत्थं । हिययं मह चोरि हियं मा वच्चसु जाव णो दिण्णं ॥'  
तीय भणियं ।

'हरियं व ण-हरियं वा हिययं क्षणं च एत्थ को सक्खी । ण हु वयण-मेत्त-सिद्धा होइ परोक्खा हु ए किरिया ॥'

21 कुमारेण भणियं ।

'एयाउ चिय तुज्झं सव्वाउ सहीउ मह पमाणं ति ।'  
तीय भणियं ।

24 'आणेसु ता इमाओ सुहय तुहं उत्तरं देमि ॥'

कुमारेण चितियं । 'अहो, सुंदरो उवण्णासो मए कओ इमीए चय पुट्टओ एस ववहारो' चितियंते । तीय भणियं 'किं इमं  
चितियइ, आणेसु पिय-सहीओ जाम उत्तरं देमि, अहवा मुंचसु मए' त्ति । कुमारेण भणियं 'मा वच्च सुंदरि, सहेमि ए  
27 पिय-सहीओ' त्ति भण्णेण कओ ताणं सहे । 'आइससु' त्ति भगंतीओ समागयाओ । भणियं च ताहिं 'कुमार, को अम्हाणं  
णिउत्ति' । कुमारेण भणियं 'अम्हं ववहारो दइव्वो' । ताहिं भणियं 'केरिसो, हुण्णिप्पउ पुव्व-पक्खो' । तेण  
भणियं 'एसा तुम्ह पियसही चलिया गंतुं, हिययं समप्पेसु त्ति मए वारिया, इमीए मित्तत्तीकयं तत्थ तुब्भे पमाणं' ति ।

30 ताहि भणियं 'पियसहि पियसहि' किं एरिसो पुवंतर-पच्चवाओ' । तीय भणियं 'एत्तिओ एस ववहारो' त्ति । ताहि 30  
भणियं 'अहो, महंतो एस ववहारो, जइ परं सिरिविजयसेण-णरवइणो णयर-महल्लयाणं च पुरओ णिव्वडइ' त्ति ।  
कुवलयमालाए भणियं 'तुब्भे चिय महप्पमाणं ति जइ किंचि इमस्स मे गहियं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरं सुंदरं' दे

33 भणह तुब्भ पमाणं ति । अवि य ।

मा कुणह पियं एयं मा वइएस्सं ति कुणह मा एसं । वम्मह-गुरु-पायच्छित्तियाए धम्मक्खरं भणह ॥  
ताहिं भणियं । 'जइ फुडं भणामो ता सुणेह,

36 एएण तुज्झ हरियं तुज्झ वि एयाए वल्लहं हिययं । अवरोप्पर-जूवय-थेणयाण जं होइ तं होइ ॥'

इमस्मि भणिय-मेत्ते गहियाओ वत्थदंते । 'कुमार, तुमं लंपिको' त्ति भगंतीए तेण वि 'तुमं कुसुमालि' त्ति भणमाणेण  
संवाए गहिया । तओ किं जायं । अवि य ।

39 एस गहिओ त्ति कलमो वरहइ ए वंधणं कुमारेणं । भणिए मज्झ सि तं चिय तेण वि सा तक्खणं भणिया ॥

1 > P om. तस्मि य सेजा, P महोदहीपुलिणोवरे, P जुवलं, P मंगलकोउ before मंगल. 2 > P कोउयाइ, P om. य,  
J हरिस for हसिर, J जुवलो सहियणो, J वव for कय, P कयविकखेवो (?), J सरइर for सर, J सरइरणीहरिउं P सयरणीहरिउं  
4 > J सहावो, P repeats सही. 5 > P om. तओ कुवलयमालाय वि etc. to ववहारो पट्टओ उत्तरवाउ त्ति on p. 173, l. 17.  
This passage is reproduced here with minor corrections like ya-śruti etc. 10 > Better सुयइ for मुंचह.  
12 > Better अवणेहिइ य एसो. 14 > J चट्टिया for चलिया. 20 > J वण for व ण. 22 > J पमाण त्ति (?). 34 >  
Better एय for एसं. 37 > J भणमाणेण संवाए (?).

1 एवं अवरोप्पर-विवयमाणा सहीहि भणिया 'मा मा करण-समक्खं अससंजसं भणह, जं अम्हे भणामो तं कीरउ' ति । 1  
तेहिं भणियं 'सुद्ध ए भणह किंचि धम्मक्खरं' ति । सहीहि भणियं । 'जइ अम्हे पमाणं ता भणिसो ण अण्णह' ति भणिए,  
3 तेहिं भणियं 'पमाणं पमाणं' ति । ताहि भणियं 'जइ पमाणं ता सुणेइ । अवि य । 3

सुद्धे पिज्जह से हिययं च कुमार ओप्पेसु । अवरोप्पर-पाविय-हिययवाग अह णिवुइं तुट्ठम ॥'  
भणिय-मेत्ते कुमारेण भणियं ।

6 'सुयणु इमं ते हिययं गेणहसु हिययं ति मा विथारेसु । एयं पि मज्झ दिज्जउ जइ मज्झत्या पमाणं ति ॥' 6  
भणमाणेणावयासिया । एवं च कए गुरु-कोव-फुरुफुरायमाणेहराए त्रिलसमाण-कुडिल-चारु-चंचल-भुमया-लयाए भणियं  
च तीए 'अवो माए इमिणा अलिय-कय-कवड-पंडिय-णड-पेडय-सरिसेणं दुज्जणी-सत्येणं इमस्स अणाय-सील-सहावस्सा-  
9 हियस्सावयासणं द्वाविय' ति भणमाणी परहुत्ता संठिय ति । तओ ताहि भणियं । 9

'मा सुयणु कुप्पसु तुमं किं कीरउ एरिसो च्चैय । णिकरुणो होइ फुडं मयण-महाधम्म-ववहारो ॥

ता सुंदरो एस ववहारो जो संपयं पत्तो' । तीय भणियं 'ण सुंदरो' । ताहि भणियं 'अण्णं सुंदरं विरएमो' । तीय  
12 भणियं 'ण कज्जं मह इमिणा वि जो संपयं रइओ' । ताहि भणियं । 12

'मा कुमर वंचसु इमं अम्हं कवडेण वालियं मुद्धं । उप्पज्जउ से संपइ जं तुह एयाए तं दिण्णं ॥'

कुमारेण भणियं ।

15 'जइ दाऊण सयं चिय पच्छायावं समुव्वहसि मुद्धे । मा होउ मज्झ दोसो गेणहसु अवयासणं णिययं ॥' 15  
ति भणमाणेण समवलंभाहिणव-सिणेह-भरा णिदयमवयासिया । तओ पहासिओ सहि-सत्यो 'अहो, एरिसो अम्हसंतिओ  
धम्महाहिरणो जं एरिसाइं पि गूढ-ववहारइं पयडीहोति ति अहो सुसिलिट्ठो ववहारो पहुओ उत्तरवाइ' ति ।

18 § २७७ ) तत्थट्ठियाण तेसिं सुहं-सुहेण वोलिया रयणी । ताव य पडु-पडह-पडिहय-पडिरव-संखुद्ध-सुद्ध- 18  
संदिस्सुजाण-वावी-कल्लइंस-सारस-कंठ-कूइय-कलयलाराव-रविजंत-महुरो उद्धाइओ पाहाउओ य तूर-रवो । पडियं च मंगल-  
पादएहिं पाहाइय-मंगलं । उग्गीयं मंगल-गायणीहिं मंगल-गेयं । समागया तो वारविलासिणीओ । पणामियं मुह-धोवणं

21 दंत-धावणं च । तओ पयंसियं अदयं च भायणत्यं । पलोइयं तत्थ मुहयंदं । उग्गीय-मंगल-गायणीहिं पणामियं विमल-दृप्पणं, 21  
तह दहि-सुवत्त-गंदावत्त-अक्खयाणि य । वंदिया गीरोयणा । सिय-सिद्धत्यएहिं विरइओ भालवट्टे तिलओ कुमारस्स । तओ  
एवं च कय-देवयाहिदेव-पणामो पच्छा विविह-कला-कोसल्ल-विण्णाण-णाण-सत्थत्य-कहासु संपत्तो मज्झपह-समओ । भुत्तं

24 जहिच्छियं भोयणं । पुणो तेणेय कमेण संपत्ता रयणी । तीय रयणीए केण वि वियइ-पओयणंतरेण किंचि उप्पाइयं । वीसं- 24  
भंतरं सहाविया अंगमंग-फरिस-रसं दिण्णा सुद्धिया । पसारिओ कणयमय-वडिय-णालो विव कोमल-वाहु-दंडो करतलो णीवि-  
देसंतरम्मि । एवं च कयावस्सय-करणीओ समुट्ठिओ सयणाओ । ताव दुइया वि रत्ती । तओ तेणेय कमेण संपत्ता तइया

27 राइं अणुराय-पवडुमाण-णिज्ज-भर-हिययाणं पिव । तओ तइय-रयणीय य णिव्वत्तिय-वीसंभेणं तेणं केणं पि लज्जा-सज्जस-सह- 27  
रिस-सुहसुप्पायएण पओएण कयं किं पि कज्जं तं । अवि य ।

जुवइयण-मण-मोहं मोहं मूढाण सव्व-जीवाणं । होइ पसूहिं वि रमियं परिहरियं दिव्व-भावेहिं ॥

30 णिव्वत्ते य तस्मि जुवइयण-मण-मोहणे मोहणे कयाइं वद्धावणयाइं । दिण्णाइं महादाणाइं । 30

§ २७८ ) एवं च कय-कायव्व-वावारा अण्णस्मि दियहे समारूढा हिमगिरि-सिहर-सरिसं पासाय-तलं । तत्थ य  
आरूढेहिं दिट्ठं तेहिं विजयपुरवरीए दक्खिण-पाथार-सेणी-बंधं धुयमाणं महारयणायरं । तं च केरिसं । अवि य ।

33 गयणंमाणं व रुंदं धवलं कलधोय-धोय-पत्तं व । दुत्तार-दूर-तीरं खीर-समुद्धस्स विवं व ॥ 33

कहिंचि परिहत्थ-मच्छ-पुच्छच्छडा-च्छडिउच्छलंत-पाणियं, कहिंचि णिट्टुर-कमठ-पट्टि-संठिउच्छलंत-विहुम-पल्लवं, कहिंचि  
कराल-मयर-करग-वग्गंत-सिप्पि-संपुडं, कहिंचि पक्क-णक्क-चक्क-करवत्तुकंत-माण-मीणयं, कहिंचि दुग्गाह-गाह-गहिय-विवस-

1 > J समेक्खं. 3 > J ताहे for तेहि, J तेहि for ताहि. 4 > Better हिययं तं for च, and कुमर for कुमार, J हिअंअ  
वाण. 6 > J मि for पि, J मज्झत्य. 7 > J 'माणेहरए, J चंचलहुमया. 8 > J 'सहवस्सोहि'. 9 > J तेहि for ताहि. 15 >  
J सउव्वहसि. 17 > J अहो सुसिलिट्ठो. 18 > J om. तत्थट्ठियाण etc. to रयणी, P तैसी, P वोलिओ, J पडिरवर-. 19 > P  
कल्लइंसस्स हंससारसकंठकूइय, J कुविय for कूइय, P रविजुत्त, J वाहुओ P पाहाओ for पाहाउओ, P adds ताव य before पडियं,  
P य for च. 20 > J om. पाहाइयमंगलं, P पाहायअमंगलं उयीयं, J om. मंगलोयं समागया etc. to देसंतरम्मि l. 26 below.  
21 > P अययं च, P उयीयं for उगीयं. 22 > P तदहिसुवन्नंदां, P भालवट्टे. 25 > P अंगमंगमंगफरिस, P पसारियाओ,  
26 > J एयं for एवं, P om. कयावस्सय etc. to सयणाओ । ताव, P दुइया वि रती for दुइया वि रत्ती, P तेणय. 27 > P रती, P  
तइया, P om. य, P विसंभेणं, P सज्जाससरिस. 28 > J सुहययाएण, J om. पओएण, P कयं कपि जंतं. 29 > P जुवतीयण, J  
पसूहिमि रमियं, P विसरिसंय रिहरियं दिट्ठिमावेहिं. 30 > J जुवइयण, J om. दिण्णाइं महादाणाइं. 31 > P om. कायव्व, P हिमहिगिरि.  
32 > J सेणीयदं. 33 > P गयणंयं व, P धवलकलहोय, P दुत्तारदूरं. 34 > J छडिउच्छलंतं, P छोडिओच्छलंतपाणियं, P कमट-  
पट्टिसंठिउच्छलंतविहुसंपल्लवं कलिहिंचि. 35 > P कर्गमग्गंत, P om. चक्क, P णीणयं for मीणयं, J गह for गाह, P गहित-



1 जह उण लद्धा तहं सा एसा पढिज्जइ ।

1

तंमि महं बहु-जण-बल्लहंमि तं किं पि कुणसु सहि जेण । असइयण-कण्ण-परंपराएँ किन्ती समुच्छलइ ॥

3 वत्तीसं-घरएसुं वत्थ-समत्थेसु द्धुब्भइ सिलोओ । अहवा खप्परियासुं सो भण्णइ बट्टविहओ ति ॥

3

तं जहा । लेखितव्यमित्यनन्तरमेव ।

|     |    |     |      |    |      |    |    |
|-----|----|-----|------|----|------|----|----|
| स   | मं | ल   | ग    | स  | क    | ण  | र  |
| प्र | नं | वं  | मां  | जै | ज    | ति | स  |
| वं  | ग  | मां | ल्यं | वं | ल्या | का | णं |
| धा  | स  | ध   | णां  | नं | य    | शा | नं |

6

9 जह पुण बुद्धीए जाणियं तह्मा पाढो पढिज्जए ।

9

सर्व-मंगल-मांगल्यं सर्व-कल्याण-कारणं । प्रधानं सर्व-धर्माणां जैनं जयति शासनं ॥

चत्तारि दोणिण तिण्णि व चउयाथो जत्थ पुच्छिया पण्हा । एक्केण उत्तरेणं भणंति पणहुत्तरं तमिह ॥

12 किं जीवियं जियाणं को सहो वारणे वियद्वुणं । किं वा जलमि भमराण ताण मंदिरं भणसु आतततं ॥

12

जह जाणइ तओ 'कमलं' । इमं पुण पणहुत्तरं दइए, होइ बहु-वियप्यं । एक्कं समत्थयं, अवरं वत्थयं, अण्णं समत्थ-वत्थयं, एक्कालावयं । पुणो लिंग-भिण्णं, विभत्ति-भिण्णं, काल-भिण्णं, कारय-भिण्णं, वयण-भिण्णं ति । पुणो सक्कयं, पाययं,

16 अवभंसो, पेसाइयं, मागाहियं, रक्खसयं, मीसं च । पुणो आइउत्तरं वाहिरुत्तरं च ति । को गिरवसेसं भणिउं तरइ । गूढुत्तरं 15 साहेमो ।

पण्हं काऊण तओ गूढं जा उत्तरं पि तत्थेय । पर-मह-वंचण-पहुयं तं चिय गूढुत्तरं भणियं ॥ तं जहा ।

18 कमलाण कत्थ जम्मं काणि व वियसंति पोंडरीयाइं । के काम-सराणिं चंद-किरण-जोण्हा-समूहेणं ॥

18

जया पुण जाणियं तथा कमलाणं कत्थ जम्मं । के, जले । वियसंति पोंडरीयाइं । काइं, सराणि । तत्थ समत्थ-समत्थ-उत्तरं । के सराणि ।

21 जं पुट्टं तं दिज्जइ अओ विय णेय जाणए तह वि । तं पयड-गूढ-रइयं पट्टं भण्णए अण्णं ॥ तं जहा ।

21

केण कयं सव्वमिणं केण व देहो अहिट्टिओ वइइ । केण य जियंति जीया साहसु रे साहियं तुज्ज ॥

जह जाणसि, केण कयं सव्वमिणं । पयावइणा । कः प्रजापतिरुद्विष्टः । क इत्यात्मा निगद्यते । सलिलं कमिति प्रोक्तम् ।

24 अत्तो तेण कयं सव्वं । ति ।

24

1 > P adds तं before जह, J पुण for उण, P पढिज्जए. 2 > P कुण साहि जेण, P असतीयणकन्नंपरंपराणं किन्ती, J समुच्छलइ. 3 > P वत्तीसुं, P वत्थमवत्थेसु, J द्धुब्भए, J खप्परियासुं P खप्परिआसुं. 4 > P तं जहा । लेखितव्यमित्यनन्तरमेव । J मित्या-नन्तरमेव. 5 > It is uncertain from the mss. that at what place the diagram is to be put. In the diagram and also in the subsequent verse वं is often written as व्वं in both the mss. Some syllables are wrongly written in the diagram. 9 > P adds तं जहा before जह पुण, P दाऊण for पुण, J om. पढिज्जए. 10 > P सव्व for सव्वं in both places, J सासनं P शासनं. 11 > J has योजनीयः before चत्तारि; possibly the diagram according to J would come after योजनीयः, J om. व, P बुद्धिआ for पुच्छिया, P तंति for तमिह, J adds तं जहा after तमिह. 12 > P किं जीवं णं जीवाणं, J वारण, P किं च जलमि भमंताण मत्ताण मंदिरं होइ भमराण for the second line. 13 > J om. जह जाणइ तओ कमलं, P om. दइए, P बहुविहं अयं, J om. अवरं वत्थयं. 14 > P om. एक्कालावयं, P विहत्तिभिन्नं, P repeats कालभिन्नं, P कारयत्तिन्नं, P adds सव्वभिन्नं before ति, P सक्कयं पुणो पायं. 15 > J अवभंसो P अववभंसं, P आति उत्तरं, J चेति for चत्ति, P गिरवसेसं, P तरइ । गूढुत्तरं साहामो. 17 > P गूढुत्तरं, J om. तं जहा. 18 > J उ for व, P पोंडरीयाणि, P कामरसाणिच्चं तं किर जोन्हासमूहेण ॥. 19 > P तदा for तथा, P काइ, J om. तत्थ etc. to केसराणि. 21 > P ज पट्टं दंसिज्जइ, J पट्टवं P पट्टं. 22 > J देहो अहिट्टिओ, P जीयति जिया साहसु मे याहितं तुज्ज. 23 > P adds तथो before केण, P पतिरुद्विष्टः । कः इत्यात्मा, P प्रोक्तं । अतो, J केण for कयं, कः प्रजापतिः etc., obviously three pādas of a sloka.

- 1 जत्थ सिलेसो विहडह चालिज्जंतेण अक्खरेणेय । घडिण पुण घडियं चिय तं भण्णह अक्खरञ्जुययं ॥ तं जहा । 1  
पच्चग्ग-धूय-गंधा सेविज्जंती सुरेहि जूडेहिं । गिम्हे चि होइ सिसिरा सा वडलावली रम्मा ॥
- 3 जह जाणासि, ता सा देवकुलावली रम्मा । 3  
जत्थ य लुप्पह किरिया मत्ता-भावेण होइ तब्भावो । तं चिय मत्ता-चुययं विंदुञ्जुययं पि एमेव ॥  
पयइ-धवलाइँ पहिओ पवास-पचागओ पिययमाण । तरलच्छाँ सयणहो सरण वयणाँ व जलाइँ ॥
- 6 जह पुण जाणासि, पियह वयणाइँ व जलाइँ ति । विंदु-चुययं जहा । 6  
असुहँण जं असुहँअ दुग्गंधाणं च होइ दुग्गंधं । बुहयण-सहस्स-परिणिदियं च को जगलं खाइ ॥  
लइयम्मि जंगलं ति ।
- 9 गूढ-चउत्थय-पायं णामेणं चेय लक्खणं सिट्ठं । आइम-पणसु तीसुं गोविज्जह जत्थ तुरिय-पयं ॥ 9  
गूढ चउत्थय-पायं जहा ।  
सुण्णो भमामि एसो आसणं मच्चु-लिंग-पत्तो हं । कण्णं दे सुण वयणं
- 12 किंतु गूढो चउत्थो पाओ । जह पुण णज्जह एत्थेय चिट्ठह । 'सुभए आलिंगणं देसु' । सेसाणं पुण लक्खणं णामेणं चेय 12  
णायव्वं । भणिएच्चिया जहा ।  
जह धम्मिण्ण भणियं दारे ठाऊण देसु भिक्खं ति । ता कीस हलिय-धूया तुरियं रच्छाए णिक्खंता ॥
- 16 भिक्खा-विणिग्गए धम्मिण्ण मढे संकेओ ति । हियय-गाहा जहा । 16  
गोसे चिय हलिय-वहू पढमं चिय णिग्गया घरदारं । दट्ठं कलंव-कुसुमं दुहिया रोसुं समाढत्ता ॥  
संकेय-भंगो दइएण साहिण्णाणं कलवं ठवियं ति हिययं । पोम्हं जहा ।
- 18 ण कयाइ तेण रमिया सयणे सुयणे चि णो अहं वसिया । णामं पि णेय गहियं कीस पउत्थं तयं भरिमो ॥ 18  
पोम्हं पुण ।  
सो चेय मए रमिओ वसिया वच्छत्थलम्मि अह तस्स । दइयं ति जो भणंतो सो चेय महं भरउ णाहो ॥ ति ।
- 21 गाहद्धं ति । जहा । 21  
अवहत्थिऊण लज्जं गेणहसु कंठम्मि किं व ण सुयं ते । अब्भत्थिओ ण लब्भइ चंदो व्व पिओ कला-णिलओ ॥  
एत्थं पुण अण्णं गाहद्धं ।
- 24 दिट्ठो णयणाणंदो णिवुइ-जणणो करेहिं चि छिवंतो । अब्भत्थिओ ण लब्भइ चंदो व्व पिओ कला-णिलओ ॥ ति । 24  
संविहाणयं जहा ।  
अइ भणसु तं अलज्जं परलोय-विहद्धयं इमं काउं । घोरे तमम्मि णरए गंतव्वं संबलि-वणम्मि ॥
- 27 एत्थं संविहाणयं । केण चि दूई पेसिया पत्थेउं । णाइया कुविया पडिवयणं देइ । किर परदार-गमणेण णरए कूड-सिंबली-वणे 27  
छुम्भइ ति । इओ ताए पुण तस्स संकेयं दिण्णं । परलोओ एस दूई । इमिणा कजेण गंतव्वं तए एत्थ संबली-वणे । काए  
पुण वेलाए । घोरे तमम्मि । अरे पुरिस ए तए त्ति, अहं तत्थ वच्चीहामि ति । एत्तिओ संविहाणो ति । गाहा-रक्खसं जहा ।
- 30 एत्तियमेत्तं चिय से भणमाणो सुच्छिओ पहिओ ॥ 30  
इमं च पच्छिमद्धं । जा काइ भुयणे गाहा, तीय रक्खसो इव सव्वत्थेसु लगगइ ति । पढमक्खर-रइयं जहा ।  
दाण-दया-दक्खिण्णा सोम्मा पयईए सव्व-सत्ताणं । हंसि व्व सुद्ध-पक्खा तेण तुमं दंसणिज्जासि ॥

1 > J सिलेसो, J चालिज्जंतोण, P विडज्जतेणं अक्खरेणेय, P अक्खरञ्जुययं. 2 > J पच्छक्खचूअ, P गंधो सेविज्जंता, P om. जूडेहिं which is added on the margin in J, P गिम्हेहिं होति. 3 > P देवकुलावली. 4 > P लुप्पति, P होति, J तब्भावे, J चिव, P विंदुञ्जुतयं पि येमेय ॥ 5 > P पियइमाण, P सयणहा, J मऊलइँ for व जलाइँ. 6 > J जे for जइ, P जाणासि, P वयणाइ जाणाइँ ति विंदुञ्जुतयं जहा. 8 > P जंगलं for जगलं, J om. लइयम्मि जंगलं ति. 9 > J चउत्थपादेणं चेअ. 11 > P adds आ after एसो. 12 > J किन्ता (?) for किंतु, P चउत्थपादो, P एत्थयं, P सुहए, P सेसाण उण. 13 > J भणिएच्चिया, P भणिएव्वे जहा, J om. जहा. 14 > P धम्मिऊण, J ठाऊ देसु, P तुरिय. 15 > J विणिग्गएण. 16 > P घरदारं, J दट्ठण P दट्ठं, J रोसुं P रोसु. 17 > P inter. दइएण and साहिण्णा (जा) ण, P हितयं, J पोम्हं for पोम्हं. 18 > P गहितं कीसं, P भणिमो. 19 > J पोम्हं for पोम्हं, P पोम्हसुण. 20 > J चेव, P इत्तं, P भण तो सो चिय, P om. ति. 22 > P कंटंमि किं च ण सुअते, P व्व कउकलाणिउणो. 24 > P णिवत्ति व जणणो, P मि for वि, P व्व कलापिउउणो ॥ 25 > J सविहाणयं. 26 > J अह for अइ, P अलज्ज, J om. इमं. 27 > J संविहाणयं, J om. पत्थेउं । णाइया, P पडिवयण न देइ, P परदार, P कूडसबलावणे छुम्भइ. 28 > J om. ति, P om. इओ, J om. ताए, P सकियं दियं दिन्नं, P om. परलोओ एस etc. to संवाहाणो ति. J संवाहाणो (? for सविहाणो). 30 > P एत्तियमेत्ते, P पुच्छिओ for सुच्छिओ. 31 > J om. च, P पच्छद्धं, J repeats जा, J P repeat तीय, P रइत्तं. 32 > P सोमा पयतीय सव्वभत्ताणं ।

- 1 तत्थ य पाय-पढमक्खराइं 'दासो हं' ति कामयंतेण लिहिज्जण पेसिया गाहा । 1  
 एवं इमाइँ एत्थं अण्णाइ मि होंति बहु-वियप्पाइं । छप्पणय-वुद्धि-वियप्पियाइँ मइ-वित्थर-कयाइं ॥
- 3 ता साहसु पिए, इमाणं मज्जे केण विणोएण चिट्ठामो'त्ति । कुवलयमालाए भणियं । 'अज्जउत्त, सच्चाइं चैय इमाइं सुंदराइं, 3  
 ता चिट्ठंतु ताव इमाइं । अण्णं किंचि देवं विण्णवेमि, जइ देवो पसायं करेइ' । कुमारेण भणियं 'पुच्छ वीसत्थं, णत्थि ते  
 अणाइक्खणीयं' । कुवलयमालाए भणियं 'अज्जउत्त, एत्तियं साहसु । कइं तए जाणिओ एस पायय-वुत्तंतो, कइं इमं देसंतरं  
 6 पत्तो, कइं वा पायओ पूरिओ'त्ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, णिसामेसु । 6
- § २८१ ) अत्थि अउज्जाए दढवम्मो णाम राया । सामा देवी । तीय पुत्तो अहं । दिव्व-तुरयावहरिओ वणं पत्तो  
 तत्थ य दिट्ठो महारिसी, सीहो, दिव्व-पुरिसो य । तेण रिसिणा साहियं पुव्व-जम्मं पंचणह वि जणाणं । तं जहा । चंडसोमो कोव  
 9 जणिय-वेरगो उवसंतो धम्मणंणस्स पायमूले कोसंबीए पुरवरीए । माणभडो वि । एत्वं चिय मायाइच्चो, लोहदेवो, मोहदत्तो 9  
 तओ एत्वं च तवं काऊण कय-जिणवर-धम्म-संकेया कालं काऊण पउमे विमाणे समुप्पण्णा । तत्थ वि धम्म-तित्थयर-संबो-  
 हिया कय-सम्मत्ता पुणो समागया जंबुदीवं । तत्थ य जो सो लोहदेवो सो इहं चंपा-पुरवरीए वणिउत्तो जाओ । तम्मि जाण-  
 12 वत्ते विणिगगओ पउमकेसरेण देवेण संबोहिओ, पव्वइओ, ओहि-णाणी जाओ । तेण वि णिरुवियं जाव चंडसोमो सीहो 12  
 जाओ, माणभडो अउज्जाए अहं जाओ । तओ अवहरिओ पउमकेसरेण मोहदत्तेण, रिसिणो य पासं संपाविओ । तेण य  
 भगवया साहिओ एस सव्वो वुत्तंतो । गहियं च मए सम्मत्तं, जहा-सत्तीए किंचि देस-विरइय-वयं च । तत्थ य सीहेण  
 15 कयं अणसणं । पुच्छिओ य मए भगवं 'सो उण मायाइच्च-देवो कत्थ ववण्णो संपयं' । साहियं च भगवया । 'दाहिण-समुद- 15  
 वेला-वण-लगा विजया णाम पुरवरी । तत्थ य विजय-राइणो धूया कुवलयमाल' ति । मए भणियं 'भगवं, तीय को  
 होही उवाओ सम्मत्त-लंभे' ति । भगवया भणियं 'तुमं चेव पडिवोहेसि' । मए भणियं 'भगवं, किं मम सा वयणं  
 18 करेइ' । भगवया भणियं 'तए सा परिणेष्वा' । मए भणियं 'केण उवाएण' । भगवया साहियं 'तीय पुरिस-देसिणीए 18  
 अण्णो मुणिवरो सयलं पुव्व-भव-वुत्तंतं साहेइ सुय-गाण-पभावेणं । ता ताणं पंचणहं जणाणं एक्का एसा । अण्णे चत्तारि  
 अण्णत्थ उववण्णा । ताणं च मज्जे एक्केण परिणेष्वा, ण अण्णेण । तओ सा तप्पभिइं पाययं लंबेहिइ पुव्व-भव-वुत्तंत-  
 21 सुययं । तं च तुमं एक्को जाणिहिसि, ण उण अण्णो, तेण तुमं तं परिणेहिसि । पुणो संजाय-पीइ-वीसंभ-परूढ-पणयाए 21  
 संभरिऊण पुव्व-जम्म-वुत्तंतं, काऊण धम्म-कइं, जणिऊण वेरगं, णिदिऊण संसार-वासं, पसंसिऊण सम्मत्तं सव्वहा तम्मि  
 काले पओय-पुव्वयं तथा करणीयं जहा णाइवत्तइ सम्मत्तं' ति । तओ मए पुच्छियं 'भगवं, एस पुण पउमकेसरो देवो  
 24 कत्थ उववज्जिहिइ' ति । भगवया भणियं 'एस तीए चेव कुवलयमालाए पुत्तो पुहइसारो णामं होहिइ ति 24  
 तओ तुम्हेहि पडिवोहेयव्वो' ति । तं च सोऊण पिए, इमं देसंतरं संपत्तो किर तुमं पडिवोहेमि ति । एवं च भिण्णो  
 पायओ । परिणीया एत्थ तुमं ति । ता पिए, संपयं इमं जाणिऊण पडिवज्जसु सम्मत्तं ।
- 27 § २८२ ) तं च केरिसं । अवि य । 27
- दुत्तार-दूर-तीरे फुडिए जाणम्मि बुज्जमाणस्स । पुरिसस्स उयहि-मज्जे जह फलहासायणं सरणं ॥  
 तह संसार-महोयहि-दुत्तारुत्तार-विसम-दुह-सलिले । जीवस्स होइ सरणं सम्मत्तं फलहयं चेव ॥
- 30 बहु-जोयण-वित्थिण्णे अडइ-मज्जम्मि भीरु-पुरिसस्स । भीयस्स अयंडे चिय सत्थो पुरओ जहा होइ ॥ 30  
 संसाराडइ-मज्जे बहु-दुक्ख-सहस्स-सावयाइण्णे । जीवस्स णत्थि सरणं मोत्तुं सत्थं च सम्मत्तं ॥  
 जह कंटय-रुक्ख-समाउलम्मि राहणम्मि णट्ट-मग्गस्स । अवियाणिय-देस-दिसी-विभाग-मूढस्स वर-मग्गो ॥
- 33 तह जीवस्स वि सुइरं कुसत्थ-मग्गोसु मूढ-हिययस्स । सिद्धि-महापुरि-गमियं मग्गं पिव होइ सम्मत्तं ॥ 33


1 > P ते for ति, J कामयंतो P भावयंतेण. 2 > J adds विह after बहु, P मतिवित्थर, J कराइं ॥. 3 > P साहसु पिए P adds ति before भणियं. 4 > P ता for ताव. 5 > P अणाविकखणीयं, P adds वा before इमं 7 > J adds अण्ण after अत्थि, P दढवम्मो महाराया, P तुरियावहरओ वणसंपत्तो. 8 > P तत्थ रिट्ठो, P रिसिणासीहियं, P को for कोव. 9 > P वेरगो, J कोसंबीपुरं. 10 > P om. च, P om. काऊण after कालं, J om. वि, P तित्थयर वोहिया कयसमत्ताण. 11 > P जंबुदीवं, J om. य, P लोहदेसो सो इय, P वणियउळा जाओ, P तम्मि य जाणवत्त वि. 12 > P संबोहिओ, P सीहो for सीहो. 13 > P om. जाओ after अहं, P रिसिणो य, P संपाइओ, P om. तेण य भगवया साहिओ. 14 > J अब्बो for सव्वो, P om. च, J किंचि P किंचि, J देसविरइयं. 15 > J adds य before कयं, J सोऊण for सो उण, P उववण्णो for ववण्णो, J om. संपयं, P भणियं for साहियं. 16 > J पुरी for पुरवरी, J भयवं, P adds य before को. 17 > J होहि P होति, P उवाय, J लंबो, P तुमं चियपडिवोहेसु, J कयणं for सा वयणं. 18 > P adds भगवं before केण, P देसिणीय. 19 > J साहेहिति P साहेति, J ण्यभावेणं, J om. ता. 20 > P adds एक्के before एक्केण, P अण्णेण I, J तप्पभूइं, J लंबेहिति P वेहिति, P वुत्तंतं. 21 > P जाणहसि, P om. तं, J P पीत्ति. 22 > J om. पुव्वजम्मवुत्तंतं काऊण, J धम्मस्स कइं, P वेरयं for वेरगं. 23 > J णाइवत्तइ सा सम्मत्त, P णातिवत्तं इ, J भयवं P भगव, P एस for पुण. 24 > J P उववज्जिहिति, J om. ति, P चैय कवलयं, J repeats पुत्तो. 25 > J तत्थ for तओ, J तुम्हेहि P तुम्हेवि, P चैय for च, J पत्तो for संपत्तो, P पडिवोहेयव्व ति. 26 > J om. एत्थ, J पिइ for पिए, J पडिवज्ज सम्मत्तं. 27 > P जं for तं, P adds से after च, P om. अवि य. 28 > P मज्जमाणस्स I, P उहिमज्जे, P फलयायणं. 29 > P महोमहिदुत्तारो विसुमदुहसयासलिले I, J सुह for दुह, P चैय. 30 > P अडमज्जंमि, J सत्थं for सत्थो. 32 > P अवियाणयदेसदिसाविहाय, P मग्गे. 33 > J कुमग्गल्लो for कुसत्थमग्गे.

- 1 जह होइ मरुथलीसुँ तण्हा-वस-सूसमाण-कंठस्स । पहियस्स सीयल-जलं होइ सरं पंथ-देसम्मि ॥ 1  
तह संसार-मरुथलि-मज्जे तण्हाभिभूय-जीवस्स । संतोस-सीयल-जलं सम्मत्तं होइ सर-सरिसं ॥
- 3 जह दुक्काले काले षसण-विहीणस्स कस्सइ णरस्स । छायस्स होइ सहसा परमणं किं वि पुण्णेहिं ॥ 3  
तह दूसमाए काले सुहेण हीणस्स एस जीवस्स । दुहियस्स होइ सहसा जिण-वयणं अमय-णीसंदं ॥  
जह णाम कोइ पुरिसो सिसिरे पवणेण सीय-वियणत्तो । संकोइयंगमंगो जलमाणं पेच्छए जलणं ॥
- 6 तह चेष एस जीवो कम्म-महासिसिर-पवण-वियणत्तो । दुक्ख-विमोक्खं सहसा पावइ जलणं व जिण-वयणं ॥ 6  
जह एत्थ कोइ पुरिसो दूसह-दारिइ-सोय-भर-दुहिओ । हेलाए चिय पावइ पुरओ चिंतामणिं रयणं ॥  
तह णारयादि-दारिइ-दूसिओ दुक्खिओ इमो जीवो । चिंतामणिं व पावइ जिण-वयणं कोइ तत्थेय ॥
- 9 जह कोइ हीरमाणो तरल-तरणेण गिरि-णइ-जलेण । कह कह वि जीय-सेसो पावइ तड-विडव-पालवं ॥ 9  
तह राग-दोस-गिरि-णइ-पवाह-हीरंत-दुक्खिओ जीवो । पावइ कोइ सउण्णो जिण-वयणं तरुवरालवं ॥  
जह कौत-सत्ति-सव्वल-सर-वर-खग्ग-प्पहार-विसमम्मि । पुरिसस्स होइ सवरे णिवारणं ताण संग्गाहो ॥
- 12 तह दुक्ख-सत्थ-पउरे संसार-रणंगणम्मि जीवस्स । जिण-वयणं संग्गाहो णिवारणं सव्व-दुक्खाणं ॥ 12  
जह दूसह-तम-भरिए णट्टालोयम्मि कोइ भुवणम्मि । अंधो व्व अच्छइ णरो समुग्गओ जाव णो सूरु ॥  
अण्णाण-महातम-संकुलम्मि अंधस्स तह य जीवस्स । कत्तो दंसण-सोक्खं मोत्तुं सूरं व जिण-वयणं ॥
- 15 जह सयल-जलिय-हुयवह-जाला-मालाउलम्मि गुविलम्मि । विच्छिणं होइ सरं सहसा पुरिसस्स भीरुस्स ॥ 15  
तह चेष महामोहाणलेण संतावियस्स जीवस्स । सव्वंग-णेवुइ-करं जिण-वयणं अमय-सर-सरिसं ॥  
जह दूर-टंक-छिण्णे कह वि पमाएण णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ सरणं तड-तरुवर-मूल-पालवो ॥
- 18 तह दूर-णरय-पडणे पमाय-दोसेहिं णिवडमाणस्स । अवलंबो होइ जियस्स णवर मूलं व सम्मत्तं ॥ 18  
इय जह सयले भुवणे सव्व-भएसुं पि होइ पुरिसस्स । सरण-रहियस्स सरणं किंचि व णो दीण-विमणस्स ॥  
तह णरय-तिरिय-णर-देव-जम्म-सय-संकुलम्मि संसारे । जीवस्स णत्थि सरणं मोत्तुं जिण-सासणं एकं ॥
- 21 § २८३ ) इमं च एरिसं जाणिऊण दइए, किं कायव्वं । अवि य । 21  
फल्यं व गेण्हसु इमं लग्गसु अवलंबणे व्व णिवडंती । सलिलं व पियसु एयं ओयर पंथम्मि वं पणट्टा ॥  
चिंतामणिं व गेण्हसु अहवा उवसप्प कप्परुक्खं वा । णिय-जीवियं व मण्णसु अह जीवाओ गरुययरं ॥
- 24 तओ पिए, केरिसं च जिण-वयणं सव्व-धम्माणं मण्णसु । अवि य । 24  
जह लोहाण सुवणं तणाण धणं धणाण रयणाइं । रयणाण काम-रयणं तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥  
जह णंदणं वणाणं हुमाण सिरिचंदणं मुणीण जिणो । पुरिसाण चक्खवट्ठी तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥
- 27 णागाणं णाइंदो चंदो णक्खत्त-तारयाणं च । असुराणं असुरिंदो तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥ 27  
देवाणं देविंदो जह व णरिंदाण णरवरो सारो । जह मयवई मयाणं सारो धम्माण जिणधम्मो ॥  
एरावणो गयाणं सारो खीरोयही समुद्धानं । होइ गिरीण व मेरु सारो धम्माण जिणधम्मो ॥
- 30 जह वणाणं सेओ सुरही गंधाण होइ वरयरओ । फरिसाणं मिउ-फरिसो धम्माण वि एस जिणधम्मो ॥ 30  
अण्णं च दइए, एस स जिणवर-धम्मो केरिसो । अवि य ।  
जह होइ जलं जलणस्स वेरियं हत्थिणो य जह सीहो । तह पावस्स वि एसो जिणधम्मो होइ पडिवक्खो ॥
- 33 जह जलणो कट्टाणं मयरो मच्छाण होइ णिण्णासो । जह मयवई पसूणं एवं पावाण जिणधम्मो ॥ 33

1 > J -सूसमाणस्स, J writes कंठस्स on the margin and ठ is just a fat zero. 2 > P मरुथली-, P संतोसवसीय लयजलं. 3 > P वि for कस्सइ. 4 > P सुहेण, P सहस्स for सहसा. 5 > P को वि पुरिसो, P संकोतियंगमंगो. 6 > P जंम for कम्म. 7 > P inter. कोइ & एत्थ, J हेलाए, P चिंतामणी. 8 > P णरयाइदारिइभूमिओ दुक्खिओ जिओ दीणो, P कोति तत्थिय ॥ 9 > J सरल for तरल, P जह for कह, J विअड-पालवं, P पालवं ॥ 10 > P तह कोहरायदोस, P -णत्ति-, P हीरं दुत्थिओ, P सउणो, P तरुवरालवं. 11 > P नह for जह, J कौत्ति-, P खग्गहारविसमंति, P सवरे for सवरे. 14 > J दंसेण सोक्खं, P व्व for व. 15 > P विउलंमि for गुविलम्मि, J विच्छिणं, P सहसा ण भीरुस्स. 16 > P चेष, P -णेवुइयरं, J रस for सर. 17 > P दूरकंटकिन्नो, P जह for तड, P सालंब for पालवो, P has an additional verse here, and it runs thus: तह दूरणरयवडणे पसमाय दोसेहिं णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ (?) सरणं जह तरुवरमूलसालंब ॥ 18 > P -वडणे, J -देसेहिं. 19 > P इह for इय, P णे for णो. 22 > J adds मूलं व before गेण्हसु, J व्व for व, P पिवसु, JP उयर for ओयर-, J यणट्टा for पणट्टा. 23 > P चिंतामणिं व्व, J उअसप्प, P कप्पं रुक्खं व, J अहवा for अह, P जीवाउयुरययरं. 25 > P सुअन्नं तेणाण, P तहहो for तहेय, P जिणवयणं ॥ 26 > P जह चंदणं, P तहेव, P जिणधमो ॥ 27 > णायाणं, P गोविंदो for णाइंदो, P तहेव. 28 > P णरिंदाणरणवरयरओ, P मयवती. 30 > P जह विनाणं से तो सुरही, P वरवरओ, P मिउ, 31 > J om. स, P जिणधंमो, P om. केरिसो. 32 > J om. य, J जहा, P leaves a gap of two letters and has एस for होइ. 33 > P मयवती, J धम्माण for पावाण.



- 1 जह गरुलो सप्पाणं मज्जारो मूसयाण जह चेरी । वग्घो इव वसहाणं तह ओ पावाण जिणधम्मो ॥ 1  
सूर-तमाण विरोहो छाया-धम्माण जह य लोगम्मि । एसो वि तह विरुद्धो कम्माणं होइ जिणधम्मो ॥
- 3 तावेण पारय-रसो ण वि णज्जइ कं दिसं समलीणो । जिण-वयण-ताव-तत्तं पावं पि पणस्सए तह य ॥ 3  
जह णिइय-वज्ज-पहार-पढण-दल्लिओ गिरी वि भिज्जेज्ज । तह जिणवरोवएसो पावं पि पणस्सए वस्सं ॥  
जलण-पहओ वि रुक्खो पुणो वि सो होज्ज किसलय-सणाहो । जिण-वयण-जलण-दुद्धस्स कम्मणो णत्थि संताणं ॥
- 6 मुक्को वि पुणो वज्जइ णरवइ-वयणेहिं कोइ णियलेहिं । जिण-वयणेण विमुक्को वंधाओ ण वज्जए जीवो ॥ 6  
पज्जलइ पुणो जलणो धूलि-कल्लिंवेहिं पूरिओ संतो । जिण-वयण-जलण-सित्तो मोहग्गी सव्वहा णत्थि ॥  
अणं च पिए, एरिसं इमं मणणसु जिण-धम्मं । अवि य ।
- 9 जह करि-सिरम्मि मुत्ताहलाइं फणिणो य मत्थए रयणं । तह एयम्मि असारो संसारे जाण जिणवयणं ॥ 9  
जह पत्थराओ कणयं वेप्पइ सारो दहीओ णवणीयं । संसारम्मि असारो गेण्हसु तह च्चैय जिणधम्मं ॥  
पंकाउ जहा पउमं पउमाउ महु महुउ रस-भेउ । णिउणं गेण्हइ भमरो गेण्हसु लोयाओ सम्मत्तं ॥
- 12 गज्जंकराओ कणयं खार-समुदाओ रयण-संघाओ । जह होइ असारो वि सारो लोयाओ जिणधम्मो ॥ 12  
§ २८४ ) अणं च पिए,  
भवणम्मि जह पईवो सूरु भुवणे पयासओ भणिओ । मोहंधयार-तिमिरे जिणधम्मं तह वियाणासु ॥ एरिसो य
- 15 अत्थाण होइ अत्थो कामो एयाण सव्व-कामाण । धम्माण होइ धम्मो मंगलाणं च मंगलं ॥ 15  
पुण्णाण होइ पुणं जाण पवित्ताण तं पवित्तं ति । होइ सुहाण सुहं तं सुंदरयाणं पि सुंदरयं ॥  
अच्चवभुयाण अच्चवभुयं ति अच्चेरयाण अच्चेरं । सेयाण परं सेयं फलं फलाणं च जाणेज्जा ॥
- 18 तओ पिए, धम्मं तित्थयराणं, 18  
जह आउराण वेज्जो दुक्ख-विमोक्खं करेइ किरियाए । तह जाण जियाय जिणो दुक्खं अवणेइ किरियाए ॥  
जह चोराइ-भयाणं रक्खइ राया इमं जणं भीयं । तह जिणराया रक्खइ सव्व-जणं कम्म-चोराण ॥
- 21 जह रंभइ वच्चंतो जणओ अयडेसु तरलयं वालं । जिण-जणओ वि तह च्चिय भव्वं रंभे अक्कजेसु ॥ 21  
जह वंधुयणो पुरिसं रक्खइ सत्तुहिं परिहविज्जंतं । तह रक्खइ भगवं पि हु कम्म-महासत्तु-सेणणस्स ॥  
जह जणणी किर वालं थणयच्छीरेण णेइ परियाइं । तह भगवं वयण-रसायणेण सव्वं पि पोसेइ ॥
- 24 वालस्स जहा धाई णिउणं अंजेइ अच्छिवत्ताइं । इय णाण-सलागाए भगवं भव्वाण अंजेइ ॥ 24  
दइए, तेण तं भगवंतं धम्म-देसयं कइं मण्णह । अवि य ।
- मण्णसु पियं व भायं व मायरं सामियं गुरुयणं वा । णिय-जीवियं व मण्णह अहवा जीवाओ अहिययरं ॥ अवि य ।
- 27 हिययस्स मज्ज दइओ जारिसओ जिणवरो तिहुवणम्मि । को अण्णो तारिसओ हूं णायं जिणवरो च्चैय ॥ सव्वहा । 27  
जइ मं मण्णसि मुद्धे कज्जाकजाण जाणसि विसेसं । जइ इच्छसि अप्प-हियं सुंदरि पडिवज्ज जिण-वयणं ॥  
जइ जाणसि संसारे दुक्खाइं अणोर-पार-भीमाइं । जइ णिव्वेओ तुम्हं सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥
- 30 जइ सुमरसि दुक्खाइं मायाइच्चत्तणम्मि पत्ताइं । जइ सुमरसि णिव्वेओ सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥ 30  
जइ सुमरसि कोसंविं जइ जाणसि धम्मणंदणो भगवं । जइ सुमरसि पव्वज्जं सुंदरि पडिवज्ज जिणधम्मं ॥  
जइ सुमरसि संकेओ अवरोप्पर-विरइओ तहिं तइया । सम्मत्तं दायव्वं ता सुंदरि गेण्ह तं एयं ॥
- 33 जइ सुमरसि अप्पाणं पउम-विमाणाम्मि देवि परिवारं । ता सव्व-सोक्ख-मूलं दइए पडिवज्ज जिणधम्मं ॥ 33



2 > J कयोप्पम्माण for छायाधम्माण, J लोगम्मि, P जहा for वि तह. 3 > P तावेण परिय-, P पावं मि विणासए.  
4 > P दलिरो, P वि भज्जेज्ज, J जिणवरोवएसं पहवं पावं, J वस्स ॥ 5 > P जलणेण कट्टरुक्खो, P किलयसणाहो, P किं पुणो for  
कम्मणो. 6 > P inter. पुणो & वि, P णरवय-, P मुक्को for विमुक्को, P वंधए for वज्जए. 7 > P जणवयणजलयसित्तो. 8 >  
P सं for इमं. 9 > P -सिरिंमि, P repeats संसारे, P om. जिण, J धम्मो for वयणं. 10 > P तं for तह. 11 > P महुअ,  
J रसहेऊ P रसमेओ. 12 > P असारो तो वि. 14 > P तह वियाणा ॥ 15 > P अत्थीण, P धम्मा for धम्माण. 16 > P  
सुहयं for सुहं तं. 19 > P आउरा वेज्जो दुक्खं करेइ. 20 > J चोराति- P चोराउमयं, P भव्वजणकंम-. 21 > P जह इं रुमइ,  
J च्चिय भयवं रंभे अक्कजेसु. 22 > P पुरिसो, P सत्तूण. 23 > P णेय परियाइं, P रसायणेण भव्व पि पासेइ. 24 > P धाइं,  
P -सिलागाए भगव. 25 > P om. धम्म, P om. कइं, P वण्णह for मण्णह. 27 > P हियस्स, P जारिसो, P त्तिभुवणंमि, P  
हुं, P चैव. 28 > J जइ इमं, P om. one वज्जा, P विसिसं, P धम्मं for वयणं. 29 > J -भीआइं. 30 > P सुमरं सि  
तं दुक्खं मायाइच्चत्तणं पि जं पत्तं, P om. second line जइ सुमरसि etc. 31 > J धम्मनिंदणो भयवं. 32 > सुंदर गेण्ह तं.

- 1 जइ तं जाणसि मुद्धे दिट्ठो चंपाए धम्म-तित्थयरो । णिसुओ धम्माधम्मो पडिबज्जसु ता जिणाणं ति ॥ सव्वहा । 1  
जइ जाणसि सुंदरसंगुलाण दिट्ठण दोण्ह वि विसेसं । ता सयल-लोय-कलाण-कारणं नेण्ह जिणवयणं ॥ ति ।
- 3 इमं च णिसामिज्जण कुवलयमालाए संलत्तं । 3  
तं णाहो तं सरणं अज्जं चिय पावियं मए जम्मं । अज्जं चेय कयथा सम्मत्तं जेण मे लद्धं ॥  
ति भणिज्जण णिवडिया कुमारस्स चलण-जुवले । कुमारेण भणियं ।
- 6 उण्णमसु पाय-पडिया दहए मा जूर इयर-जीओ व्व । लद्धा तए जिणाणं धाणा सोक्खाण संताणं ॥ 6  
ति भणमाणेण उण्णामियं वयणयं । भणियं च कुवलयमालाए ।  
'जयइ जय-जीव-जम्मण-मरण-महादुक्ख-जलहि-कंतारे । सिव-सुह-सासय-सुहओ जिणधम्मो पायडो लोए ॥
- 9 जयइ जिणो जिय-मोहो जेण इमो देसिओ जए धम्मो । जं काळण सउण्णा जम्मण-मरणाउ मुच्चंति ॥ 9  
जयइ य सो धम्म-धणो धम्म-रुई धम्मणंदणो भगवं । संसार-दुक्ख-तवियस्स जेण धम्मो महं दिण्णो ॥  
सूढो महिला-भावे दियलोग-सुओ परोप्पर-विउत्तो । अम्मह जिओ पडिबुद्धो जिणधम्मो तुम्मह वयणेहिं ॥'
- 12 ति भणंतीय पसंसिओ कुमारो ति । 12
- § २८५) जाव य एस एत्तिओ उल्लावो ताव समागया पडिहारी । णिवेइयं च तीए 'देव, दुवारो लेह-वाहओ चिट्ठइ' । कुमारेण भणियं । 'लहुं पेसिहि' ति भणिए णीहरिया पडिहारी, पविट्ठा य सह तेणेय । पणमिओ लेह-वाहओ, 15  
पुच्छिओ य कुमारेण 'कओ आगओ' । भणियं च तेण 'अओज्झा-पुरवरीए' । 'अवि कुसलं तायस्स, दढ-सरीरा अंवा' । 15  
तेण भणियं । 'सव्वं सव्वत्थ कुसलं' ति भणमाणेण पणामिओ लेहो, वंदिओ य उत्तिमंगेण, अवणीया मुद्दा, वाइउं पयत्तो । अवि य ।
- 18 'सत्थि । अउज्झापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-दढवम्मे विजयपुरीए दीहाउयं कुमार-कुवलयचंदं महिंदं च ससिणेहं 18  
अवगूहिज्जण लिहइ । जहा । तुह विरह-जलिय-जालावली-कलाव-करालिय-सरीरस्स णत्थि मे सुहं, तेण सिग्घ-सिग्घयरं  
अवस्सं आगंतव्वं' ति । 'णिसुयं कुवलयमाले', भणियं च कुवलयचंदेण, 'एस एरिसो अम्मह गुरुसंतिओ आदेसो, ता  
21 किं कीरउ' ति । कुवलयमालाए भणियं 'अज्जउत्त, जं तुह रोयइ तं पमाणं अम्महणं' ति । तओ सद्दाविओ महिंदो, दंसिओ 21  
लेहो । उवगया णरवइ-सयासं । साहिओ लेहत्थो । णरवइणा वि वाइओ लेहत्थो, साहियं जहा । 'लिहियं ममं पि  
राइणा । अवस्सं कुमारा पेसणीय ति । ता वच्च सिग्घं' ति भणमाणेण सद्दाविया णिओइया, भणिया य 'भो भो, सज्जीकरेह  
24 पुव्व-देस-संपावयाइं दढ-कट्ठिणाइं जाण-वाहणाइं, सज्जीकरेह वर-करिवर-घडाओ, अणुयट्ठह वर-तुरय-वंदुराओ, दंसेह 24  
रहवर-णियर-पत्थारीओ, सज्जेह पक्क-पाइक्क-संघे, गेणहह महारयणाइं, आणवेह ते महाणरिंदे जहा तुम्हेहिं पुव्व-देसं  
गंतव्वं' ति । आणत्ते य सव्वं सज्जीकयं, गणियं संवच्छेरेण लग्गं । ताव य हलहलीहूओ परियणो, खुहिया णयरी,  
27 सोय-वियणा-विहुरा कुमारस्स सासू, हरिस-विसण्णा कुवलयमाला, उत्तावलो सहि-सत्थो, वावडो राया । एएण कमेण 27  
कीरंतेसु पाधेएसु, पक्किजंतेसु संभारेसु, रुंविजंतासु कणिक्कासु, दलिजंतेसु उरुपुल्लेसु संपत्तो लग्ग-दियहो । संपत्ता  
कुवलयमाला, गुरुयणं परियणं सहियणं च आउच्छिउं ववसिया । ताव गया रुक्ख-वाडियं । दट्ठूण य बाल-रुक्ख-वाडियं
- 30 पसरंततर-सिणेह-भर-पसरमाण-बाहुप्पील-लोल-लोयणाए भणियं । अवि य । 30  
अइ खमसु असोय तुमं वर-किसलय-गोच्छ-सत्थ-संछण्ण । चलण-पहारोहिं समं दासो व्व तुमं मए पहओ ॥  
भो बउल तुमं पि मए मइरा-गंदूस-सेय-पाणेहिं । सित्तो सि अलज्जं चिय जइ रसिओ खमसु ता मज्झं ॥

1 > P णिसु धम्मा°, P repeats सु before ता. 2 > J दिट्ठोण, P लोव for लोय. 4 > J तण्णाहो. 5 > J जुअले P जुवलेसु. 6 > P णयवडिया for पायवडिया. 8 > P जलहिसंतारो, P सासयहओ जिणधम्मो. 9 > J जइ for जयइ, P जयमोहो J सिओ for जए, J सउण्णो, J मुच्चंति. 10 > P धम्मस्ती, P धत्तो for धम्मो. 11 > J दिअलोअ. 13 > P तुल्लावो for उल्लावो, J तीय for तीए, P लेहवाडओ चिट्ठेइ. 14 > J लहुं पवेसेहि (later correction), P तेण । पणामिओ लेहो पु° (the reading accepted is a marginal correction in J). 15 > P om. य, J अयोज्जा, P वि for अवि. 16 > P लोहो for लेहो, P om. य, J अवणिआ य मुद्दा P अविणीया मुद्दा. 18 > P अत्थि for सत्थि, P °पुरवरीए, J °हिरायायपरं, J P दढधम्म विजयं, P विजयपुरवरीए, J om. दीहाउयं, P om. कुमार. 19 > P अवज्जहिज्जण, J लिहियं for लिहइ, P जलण for जलिय, J सिग्घविग्घयरं, P तेण विसिग्घावविसिग्घतरं. 20 > J अवस्स, P कुवलयमालाए, P कुवलयचंदउत्तेण एस, P adds य before आदेसो, J आएसो. 21 > P om. अम्महणं, J om. ति. 22 > J om. वाइओ लेहत्थो. 23 > P अवस्स कुमारो पेसणीओ ति, J पेसणिय, J वच्चह, P सद्दाविया य णिइया, J नियोइआ. 24 > J संपावियाइं, P करिषडाओ. 25 > P अणवेह for आणवेह, J om. ते, J तुम्हेहि for तुम्हेहिं. 26 > J ताव for आणत्ते य, P adds ताव य before सव्वं. 27 > P -विमणा, P om. विहुरा, P सासुया for सासू, P याणो for सत्थो, P एतेण. 28 > J कीरंतेणसु P कीरंतिसु पाधेएसु उअक्किजंतेसु संसारेसु, J संभारेसु, J रुंविजंतासु, P दलिजंतेसु, J उरुपुल्लेसु P उरुपुल्लेसु. 29 > P सहिज्जं च आउच्छिओ, P om. ववसिया, J om. ताव गया, P -वाडीयं. 30 > J om. भरपसरमाण. 31 > P असोय, P adds कुसुम before गोच्छ, P om. सत्थ, P संच्छन्ना । 32 > P अलिज्जं.

- 1 भो भो तुमं पि चंपय दोहल-कज्जेण चुंविओ बहुसो । मा होज्ज मज्झ दोसं खमसु य तं परिभवं एद्धं ॥ 1
- चियलंत-कुसुम-वाहोह-दुम्मणा मज्झ गमण-सोएण । आउच्छिया सि पियसहि कुंदलए दूर-गमणाए ॥ 3
- 3 अणुयत्त गियय-दइयं एयं सहयार-पायव-जुयाणं । पइ-सरणा महिलाओ भणिया णोमालिए खमसु ॥ 3
- तं रोविया मए चिय पुणो वि परिणाविया तमालेण । धूए माहवि एण्हि ण-याणिमो कथ्य दट्ठ्वा ॥ 6
- 6 भो भो पियाल-पायव दिण्णा मे जूहिया सिणेहेण । एयाए तं कुणेजा जं किं पि कुलोइयं तुज्झ ॥ 6
- सच्चं चिय पुण्णागो पुंणाग तुमं ण एत्थ संदेहो । थालिंणिज्जसि तं चिय सयंवरं माहविलयाहिं ॥ 6
- रे णाय तुमं पि पुणो बहुसो विणिवारिओ मए भासि । मा छिवसु कुंदलइयं एण्हि तं खमसु दुच्चयणं ॥ 12
- हिंताल खमसु एण्हि बहुसो जं णिट्ठरं मए भणियं । किसलय-करगा-णिहुयं पियंगु-लइयं फरिसमाणो ॥ 9
- 9 भो भो कयं व तं पि हु अणुयत्तसु पाडलं इमं वरइं । छेए वि हु सप्पुरिसा पडिवणं णेय मुंचंति ॥ 9
- अज्ज वि ण दीसइ चिय रत्तं कुसुमं इमाए वंधूए । मा तरेज्जसु चंपय जणस्स कालो फलं देइ ॥ 12
- हे हे पियंगु-लइए वारिजंती वि मुंच मा दइयं । एसो असोय-रुक्खो पेम्मेण ण हीरइ कयाइं । 12
- 12 जाइ-विसुद्धा सि तुमं चंपय-इइयं ण मुंचसे जेण । कुलवालियाओ लोए हांति चिय सुद्ध-सीलाओ ॥ 12
- इय एवं भणमाणी चिर-परिइय-पायवे खमावंती । उज्वाह-वाह-णयणा रोत्तुं चिय सा समाहत्ता ॥ 15
- § २८६ ) संठाविया य सा सहियगेणं समागया गिय-भवणं । तथ्य वि दिट्ठाइं णाणाविहाइं वर-सउण-सावय- 15
- 15 समूहाइं, भणिउं च पयत्ता, अवि य । 15
- मुद्धे ण जीवसि चिय मिय-रहिया य मइंए तुमं महया । ता पसरसु वच्चासो आउच्छसु जो सि दट्ठ्वाओ ॥ 18
- सारसि मरसि सरंती मुंचामि कहं इमो य ते दइओ । दोणिण वि वच्चह एसो आवडिओ अंध-वुत्तंतो ॥ 18
- 18 अण्णं रुइर-कलावं मोरं तुह मोरि वरिहिमो अम्हे । धीरा मा रस-विरसं परिहासो मे कओ मुद्धे ॥ 18
- हंसिणि सरस-सिणेहे गिय-हंसं भणसु हास-सरि-सरिसं । वच्चासु सामिणीए समयं सम-दुक्ख-सोक्खाए ॥ 21
- चक्काइ तुमं रयणिं दइय-वियोगम्मि णेसि मह पासे । ता वच्चसु मा णिवडउ विओय-वजासणी तुज्झ ॥ 21
- 21 मा हांतु विसेण व ते चओरि णयणाइं पिययम-विओए । गुंजाफल-सरिसाइं वच्चसु समयं पि दइएण ॥ 21
- पढ कीरि किंचि भणिया दइय-विओयम्मि पढिहिसि अलकवं । पत्याण-वज्जणिजं अणुहव-सरिसं विरह-वज्जं ॥ 24
- आयल्लय-वुत्तंतो जइ वि तए साहियो म्हे दइयस्स । पिसुणे कुविया अहयं मुंचामि ह सारिए कस्स ॥ 24
- 24 इय कीरि-मोरि-सारंगि-सारिया-चक्क-सारसि-चओरिं । भणमाणी सा वियरइ स-णेउरा चारु-तरलच्छी ॥ 24
- एवं च आउच्छणयं कुणंतीए समागया लग्ग-वेला । तथ्य कयं धवलहरस्स बहु-मज्झ-देस-भाए सच्च-धण्ण-विरुद्धं-कुरा 27
- चाउरंतयं । तथ्य य दहि-अक्खय-सुवण्ण-सिद्धत्यय-दुच्चं-कुर-रोयणा-सथिय-वट्टमाणय-णंदावत्त-पत्त-छत्त-चमर-कुसुम- 27
- 27 भदासणा-जवंकुर-पउमादिए सव्वे दिव्व-मंगले णिवेसिए । ताणं च मज्जे अहिणव-पल्लव-किसलयालंक्रियं तिव्योदय-भरियं 27
- कणय-पउम-पिहाणं चंदण-चच्चिक्क-चच्चियं णिवट्ट-मंगल-रक्खा-सुत्तयं कणय-कलसं ठावियं । तओ तथ्य य संठिया 30
- दोणिण वि पुच्चाभिमुहा, वंदिया रोयणा, कयाइं मंगलाइं । एत्थंतरम्मि ताव य संपत्तं लग्गं । पूरिओ संखो । भणियं 30
- 30 संवच्छरेण 'सिद्धि'त्ति । ताव य उच्चालिओ दाहिणो पाओ कुमारेण । कुवलयमालाय वि वाम-चलणं चालियं । पयत्त- 30
- गंतुं, णिकखंता वाहिं । संख-भेरी-तर-काहल-मुइंग-वंस-वीणा-सहस्स-जयजयासइ-णिब्भरं गयणयलं आसी । समुहस्स 30
- गुरुयणस्स संपत्ता रायंगणं । ताव य सज्जिओ जय-कुंजरो । केरिसो । अवि य । 33
- 33 धवलो धवल-विसाणो सिय-कुसुमाभरण-भूसिओ तुंगो । जस-कुंजर-पुंजो इव पुरओ जय-कुंजरो दिट्ठो ॥ 33

1 > P चंपयडोहल, P सहसा for बहुसो, P दोसो for दोसं, P परिहवं. 2 > J दुम्मणो. 3 > J पइसरणं, P भइणिणोमालए. 4 > J चिय वाला परिणामिथा. 5 > P मे दूहिया, P कुणेजामु जं. 6 > P पुच्चाणतुमणं, P लयाइं ॥ 7 > P छिवसु for छिवसु P ता for तं. 8 > P लिहियं for णिहुयं, P फरिसमाणो. 9 > P adds भो भो कयं फरिसमाणो before भो भो, P पाडलिं. 11 > P देहे for हेहे, P व for वि, P माइमयं, P पेमेण ण हीरति. 12 > J जार्मि for जेण, P सुद्धील्लेण ॥ 13 > J खमावंति, P रोत्तं. 14 > P समाए गया, J om. गिय, P दट्ठाइं, P वरसवणसावइय. 16 > P बुद्धे for मुद्धे, J om. चिय, P चियर, हिता य, J मइए, P adds मए before तुमं, J ता पसरु. 17 > J पइइणु for ते दइओ, P दोन्नि, J विवच्चसु. 18 > P तुह पुत्ति मोरि वरिहामो, P मुद्धो ॥ 19 > P सरसिसिणेहे, P मुह for सम. 20 > P चक्काय, J विओयम्मि. 21 > P मा होओ विमेण विते चओरिणयाणाइं, J विसणवरे चओरिणयसाइं विशयम, J गुंजाहल, P मुंचसि तइयं for वच्चसु समयं. 22 > P inter. किंचि & कीरि, P दय for दइय, P पयाण, J मणुहव for अणुहव. 23 > P य for वि, P पिसुणि, P adds वि before अहयं, P अहियं. 24 > J सारया, P चक्कसारसचउरी, J om. सा, J रसिर for स. 25 > P बहुदेसमार्यमि, J धणं. 26 > P सिद्धत्थदुच्चं-कुरोवणा, P गंदावत्तयमरकुसुभदासणाजवंकुरपउमादिया. 27 > J जयंजुर for जवंकुर, J पउमातीए, J om. सव्वे, P दव्व for दिव्व. 28 > P पउमपहाणं, J om. चंदण, P चच्चियं. 29 > J मंगलाइं, P संपत्तं. 30 > P चालिओ for चालियं. 31 > J बहु for वाहिं, P सुयंगं, P गयंगं आसी । सा समुहस्स, J समुहस्स गुरुअस्स. 33 > P धवलविसाणो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जस.

- 1 धाहृदा य जय-कुंजरं दुवे वि जुवाणया । केरिसा य धीसिउं पयत्ता जणेणं । अवि य । 1  
 कुवलयचंदो रेहइ कुवलयमालाय कुंजराखुडो । इंदो इंदाणीय व समयं पुरावणारुडो ॥
- 3 § २८७) एत्तं च णीहरिउं पयत्ता अहिणंदिज्जमाणा य जण-समूहेण, वियप्पियंता णायरिया-लोएण । अवि य । अइ, 3  
 कोउय-रहस-भरिजंत-हियय-पूरंत-गेह-त्रहुमाणो । अह जंपइ धीसत्थं णायर-कुलवालिया-सत्थो ॥  
 एक्का जंपइ महिला भणइ हला को व्व एत्थ अभिरुवो । किं कुवलयमाल च्चिय अहवा एसो सहि कुमारो ॥
- 6 तओ अण्णाए भणियं । 6  
 एयस्स सहइ सीसे कसणो अह कौतलाण पढभारो । कज्जल-तमाल-णीलो इमाएँ अह सहइ धम्मेल्लो ॥  
 एयस्स सहइ वयणं सरए अह वियसियं व सयवत्तं । संपुण्ण-चंद-मंडल-लायणं सोहइ इमीए ॥
- 9 एयस्स णयण-जुयलं कुवलयदल-सरिसयं सहइ मुद्धे । तक्खण-वियसिय-सिय-कमल-कंति-सरिसं इमीएँ पुणो ॥ 9  
 रेहइ इमस्स पियसहि वच्छयलं धवल-पीवरं पिहुलं । उब्भिज्जमाण-थणहर-विरावियं रेहइ इमीए ॥  
 सोहइ मइंद-चंदं णियंव-विंवं इमस्स पेज्जालं । रइ-रहसामय-भरियं इमीए अहियं विराएज्जा ॥
- 12 ऊरु-जुयलं पि सुंदरि इमस्स सरिसं करेण गयवइणो । रंभा-थंभेण समं इमाएँ अहियं विराएज्ज ॥ त्ति । 12  
 अण्णाए भणियं । 'हला हला, एत्थ दुवे वि तए अण्णोण्ण-रूवा साहिया, ण एत्थ एकस्स वि विसेसो साहिओ' ।  
 तीए भणियं 'हला, जइ एत्थ विसेसो अत्थि तो णामं दंसीयइ, जो उण णत्थि सो कत्तो दंसीयइ' त्ति । अण्णाए भणियं
- 15 'किं विसेसो णत्थि, अत्थि से विसेसो । अवि य । 15  
 वच्छत्थलं विरायइ इमस्स असमं जयम्मि पुरिसेहि । एयाएँ णियंवयडं रेहइ महिलाण असमाणं ॥  
 अण्णाए भणियं 'अलं किमण्णेण एत्थ पुरिसंतरेण महिलंतरेण वा । इमाणं चेय अवरोप्परं किं सुंदरयरं' ति । तीए भणियं
- 18 'अत्थि इमाणं पि अंतंरं' । ताहिं भणियं 'किं अंतंरं' । अवि य । 18  
 'पुरिसाण एस सारो एसा उण होइ इत्थि-रयणाणं । एसो चेय विसेसो एसा महिला इमो पुरिसो ॥'  
 ताहिं भणियं 'किं इमिणा इत्थि-पुरिसंतरेणं, अण्णं भण' । अण्णाए भणियं 'जइ परं फुडं साहेमो । अवि य ।
- 21 एस कुमारो रेहइ एसा उण सहइ रेहइ कुमारी । छज्जइ सहइ य रेहइ दोण्ह वि सद्दा पयटंति ॥ 21  
 तओ ताहिं भणियं 'अहो एक्काए वि णायरियाए ण लक्खिओ विसेसो' । ताहिं भणियं 'पियसहि, साह को विसेसो तए  
 लक्खिओ' । तीय भणियं णिसुणेसु, अवि य ।
- 24 'मरगय-मणि-णिम्मविया इमस्स अह सहइ कंठिया कंठे । एयाए उण सोहइ एसा मुत्तावली कंठे ॥ 24  
 तओ ताहिं हसमाणीहिं भणियं 'अहो, महंतो विसेसो उवलक्खिओ, जं रायउत्तस्स अवदाय-वण्णस्स मरगय-रयणावली  
 सोहइ, एसाए पुण सामाए मुत्तावलि त्ति । अण्णं पुच्छियाए अण्णं साहियं' ति । अण्णाए भणियं ।
- 27 धणयाण दोण्ह को वा रेहइ अच्छीण भणसु को कइया । इय एयाण वि अइसंगयाण को वा ण सोहेज्जा ॥ 27  
 ताहिं भणियं 'ण एत्थ कोइ विसेसो उवलब्भइ, ता भणइ को एत्थ धण्णाणं धण्णयरं' । तओ एक्काए भणियं ।  
 'धण्णो एत्थ कुमारो जस्स इमा हियय-वल्लभा जाया । धण-परियण-संपण्णो विजओ राया गुरुयणं च ॥
- 30 अण्णाए भणियं 'णहि णहि, कुवलयमाला धण्णयरा । 30  
 धण्णा कुवलयमाला जीए तेलोक्क-सुंदरो एसो । पुण्णापुण्ण-विसेसो णज्जइ महिलाण दइएहिं ॥'  
 अण्णाए भणियं 'सव्वहा कुमारो धण्णो कुवलयमाला वि पुण्णवइ त्ति को इमाणं विसेसं करेउं तरइ'त्ति । अवराहिं भणियं ।
- 33 'धण्णो जयम्मि पुरिसो जस्सेसो पुत्तओ जए जाओ । महिला वि सा कयत्था जीय इमो धारिओ गब्भे ॥ 33

1 > P om. य after आरूढा, P य दंसिउं. 2 > P कुवलयमाला कुं, JP कुंजराखुडा, J इंदाणीअ P इंदाणीइ. 3 > P पयत्तो आणंदिज्जमाणा, P वियप्पियंता णायरलोएण. 4 > P adds the verse कोउयरहस etc. to सत्थो and further adds एक्का जं ता णायरलोएण अवि य अइ before the verse कोउय etc., J परत्त for पूरंत. 5 > P अभिरुइओ, P कुवलयमाला च्चिय. 7 > P एतस्स, P कसिणो, P अहरेइ धम्मेल्लो, 8 > P एतस्स, P सरिसं for णरए. 9 > P कुवलयदय. 10 > P वच्छलयं for वच्छयलं. 11 > P जहंण for अहियं. 12 > P ऊरुजुवलं पि सुरिसरिसं, P रंभा for रंभा, P विराएज्जंति. 13 > P साहियं for साहिओ. 14 > J तीय, P अओ for हला, P णो for तो, J दंसीयति P दंसियइ, J जो पुण, J दंसीयति, P om. अण्णाए भणियं किं etc. to असमाणं ॥. 17 > P adds वा after पुरिसंतरेण, P सुंदरयरं, J तीय. 18 > P om. अंतंरं, P ताहे for ताहिं. 19 > P एसो उण होइ इत्थियाणं. 20 > J अह for ताहिं. 21 > P सहइ रेह कुमारो । छज्जइ सहइ, P दोन्नि सद्दा पयटंति, J सद्दो पयत्तंति. 22 > J एक्काय. 24 > P -णिम्मरया, P अहइ कंठिया, P एताए, J पुण, P adds ह after एसा. 25 > P हसमाणीए, J अवदात-. 27 > P को वा वा ण सोहेज्जा. 28 > P को विसेसो उवलब्भइ. 29 > P धम्मो for धण्णो, P वल्लहा, P संपुत्तो. 30 > P कुवलयमाली. 31 > P एत्थु । 32 > P विसेसो. 33 > P जाय इमो जारिओ.

1 अण्णाओ भणंति ।

‘धण्णो विजय-गरिंदो जस्स य जामाहओ इमो सुहओ । अहवा स चिय धण्णा इमस्स स्यासू जणु जा सा ॥ अहवा,  
अम्हे चिय धण्णाओ जाण इमो णयण-गोयरं पत्तो । रइ-वम्महाण जुवलं केण व हो दिट्ठ-पुच्चं ति ॥’

एवं च विषयिज्जमाणो णायरिया-कुलवालियाहिं, अहिणंदिज्जमाणो पुर-महल्लपुहिं, पिज्जंतो तरुणियण-णयण-मालाहिं,  
उहिंसिज्जंतो अंगुलि-सहस्सेहिं, दाविज्जंतो विलया-वालियाहिं, पविसंतो जुवइयण-हिययावसहासु, जणयंतो मयण-मोहं  
कामिणीणं, करंतो मुणीण वि मण-विषयंपंतरं सच्चवा णीहरिओ पुरवरीओ । आवाप्पिया य तहाविहे प्फक्कम्मि पपुसंतरे ।

§ २८८) ताव य प्पयम्मि समणु केरिसो विषयो पुरिसाण महिलाण य ।

धण्णा कुवलयमाला जीएँ इमो वल्लहो त्ति महिलाण । पुरिसाण इमं हियाण कुवलयचंद्रो सउणो त्ति ॥  
एवं च समावाप्पिओ कुमारो णयरीए, थोवंतरे सेस-वलं पि गय-तुरय-रहवर-पाइक्क-पउरं समावाप्पियं तत्थेय । तत्थेय  
समणु णीहारिज्जंति कोसल्लियाहं, उवदंसिज्जंति दंसणिज्जाहं, संचइज्जंति णाणा-वत्थ-विसेसाहं, ठाविज्जंति महग्ग-मुत्ता-णियराहं,  
ओवाहिज्जंति महल्ल-कुलइं, उवणिमंतिज्जंति वंभण-संघइं, कीरंति मंगलइं, अवणिज्जंति अवसंगलइं, जंपिज्जंति पसत्थइं ।  
कुमरो वि ‘णमो जिणाणं, णमो सच्च-सिद्धाणं’ ति भणमाणो भगवंतं समवसरणत्थं झाइऊण सयल-मंगल-माला-रयण-भरियं  
चउच्चवीस-तित्थय-णमोक्कार-विज्जं झापंतो चित्तिउं पयत्तो । ‘भगवइ पवयण-देवए, जइ जाणसि जियंतं तायं पेच्छामि,  
रजं पावेमि, परियड्डए सम्मत्तं, विरइं पालयामि, अंतं पच्चजं अच्चुवेमि सह कुवलयमालाए, ता तह दिच्चेणं णाणेणं  
आहोइऊण तारिसं उत्तिमं सउणं देसु जेण हियय-णेच्चुइं होइ’ ति चित्थिय-मेत्ते पेच्छइ पुरओ उड्डं-पोंडरीयं । तं च  
केरिसं ।

मणि-रयण-कणग-चित्तं सुवण्ण-दंडुलसंत-कंतिळं । लंविष-मुत्ताऊलं सियायवत्तं तु सुमहग्गं ॥

उवणीयं च समीचे, विण्णत्तं च पायवडिओट्टिणण एक्केण पुरिसेण । ‘देव, इमस्स चेष राइणो जेट्ठो जयंतो णाम  
राया जयंतोए पुरवरीए, तेण तुह इमं देवया-परिगिहियं छत्त-रयणं पेसियं, संपयं देवो पमाणं’ ति । कुमारेण चित्थियं  
‘अहो, पवयण-देवयाए मे संणिज्जं कयं, जेण पेच्छ चित्ताणंतरमेव पहाणं सच्च-सउणाणं, मंगलं सच्च-दच्च-मंगलाणं,  
इमं आयवत्त-रयणं उवणीयं ति ता सच्चवा भविष्यच्चं जहा-चित्थिय-मणोरहेहिं ति चित्थिऊण साहियं कुवलयमालाए  
‘पिए, पेच्छसु पवयण-देवयाए केरिसो सउणो उवणीओ । इमिणा य महासउणेण जं पियं अम्हेहिं मणसा चित्थियं तं  
चेय सच्चं संपज्जइ’ ति ।

§ २८९) कुवलयमालाए भणियं ‘अज्जउत्त, एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । अह पत्थाणे काणि उण सउणाणि  
अवसउणाणि वा भवंति’ । कुमारेण भणियं ‘संखेवेण साहिमो, ण उण तित्थरेणं । अवि य ।

दहि-कलस-संस-चामर-पउम-महावड्डमाण-उत्तादा । दिच्चाण सच्चओ चिय दंसण-लाभाइं धण्णाइं ॥

दंसण-सुहयं सच्चं विवरीयं होइ दंसण-विरुयं । जं कण्ण-सुहं वयणं विवरीयं होइ विवरीयं ॥

एवं गंधो फरिसो रसं च जा इंदियाणुकूलाइं । तं सच्चं सुह-सउणं अवसउणं होइ विवरीयं ॥

वच्चसु सिद्धी रिद्धी लद्धी य सुहं च मंगलं अत्थि । सदा सउणं सिद्धा अवसउणा होति विवरीया ॥

पहाओ लिच्छ-विलित्तो णर-गारि-नाणो सुवेस-संतुट्ठो । सो होइ णवर सउणो अवसउणो दीण-मलिणंगो ॥

समणो स्याइ तह मच्छ-जुवलयं होइ संस-पेसी य । पुइइ फलाइं सउणं रिच्छो कुटओ य अणुगामी ॥

धीतं सच्चं पि ण सुंदरं ति एक्के भणंति आयरिया । अवरे समुहं मोत्तुं ण पिट्ठओ सुंदरं चेष ॥

1 > J भणियं for भणंति. 2 > P जामाओओ, P जा या for जा सा. 3 > J जुवलं, J दिट्ठुच्चं. 4 > J विषयिज्ज-  
माणो, P अभिणंदिज्जमाणो पुर-महिल्लपुहिं, J उणपुहिं पुइज्जंतो आणियणयण. 5 > J अंगुली, J विसंतो for पविसंतो, P -हियय-  
सेहासु जणयंतो मयणमोहं. 6 > P om. वि मण, J कम्मि for प्फक्कम्मि. 7 > J तावया प्पयम्मि. 8 > J जीअ, P हियाए, P  
सउ for सउणो. 9 > P च समारोणरीए थोवंतरे, J थोवंतरे, J समथोसिअं तत्थेय समणु णीहाविज्जंति. 10 > P झाइं for  
सउ for सउणो. 11 > P अविज्जंति, P उवणिमंतिज्जंति वंभणयंघइ, दंसणिज्जाइं, P संवाइज्जंति for संचइज्जंति, P विसेसाइं, J णियराइं P णियराइं. 12 > J सच्चविणाणं ति, P रयणसरिसं चउच्चवीस. 13 > P विच्छं ज्जायंतो चित्थियं, P तातं.  
J om. अवणिज्जंति अवसंगलइं. 14 > P पच्चज्जमच्चुवेमि, J तहा for. तह. 15 > P सउणं देसु, P णेच्चुइं होय ति, P उड्डं. 17 > J गणय for रयण, P  
कणय, J सुअणय, J लंविषसुणगलं. 19 > P जयंतोपुरवरीए, P देवतापरिगहियं, 20 > J सणज्जं P सचेज्जं. 21 > P  
आयवत्तयणं, P तो for ता, P om. जहा चित्थिय etc. to चित्थियं तं, 23 > P adds जेण जं before चेष. 24 > P om.  
अज्जउत्त, J एत्थणे for पत्थाणे, P om. उण. 25 > J om. अवसउणाणि, P om. वा, J adds दइए after अवि य. 26 > J  
कमल for कउस, P वद्धमाग, J उत्तादी ।, J दिच्चाण P देवाण. 27 > J adds समुणं P adds सुवउणं after सच्चं, P विवरीय  
होति, J विरुयं ।, J विवरीतं ॥ 28 > J विवरीतं ॥ 29 > J सिद्धि रिद्धी, P सउणसिद्धा. 30 > P णरणाणाणो, P परितुट्ठो  
for संतुट्ठो, J om. होइ णवर, P सुणो for सउणो. 31 > J मच्छजुवलं, J सुइइ P पुइइ, P फलाइं साउणं, J उटओ for कुटओ,  
P अणुगामी for अणुगामी. 32 > J ण पिट्ठओ.

- 1 साणो दाहिण-पात्ते वामं जह वल्लहओ भवे सिद्धी । अह वामो दाहिणओ वल्लह ण कज्जं तणो सिद्धं ॥ 1  
जह सुणओ तह सब्बे णाहर-जीवा भणंति सउणणू । अण्णे भणंति केई विवरीयं जंबुओ होइ ॥
- 3 मउयं महुरं वामो लवमाणो वायसो भवे सोम्मो । उत्ताल-णिट्टुर-सरा ण देंति सिद्धिं भयं देंति ॥ 3  
गोरुयस्स उ छीतं वज्जेज्जा सव्वहा वि जीय-हरं । मज्जारस्स वि छीयं पत्तिय-जीयं विणासेइ ॥  
सारस-रडियं सव्वथ सुंदरं जह ण होइ एकस्स । वामं भणंति फलयं जह सो य ण दीसए पुरओ ॥
- 6 इंदगोइजम्मा य णेरइं वारुणी य वायच्चा । सोम्मा ईसाणा वि य अट्ट दिसाओ समुद्धिटा ॥ 6  
अट्ट य जामा कमसो होति अहोरत्त-मज्झयारम्मि । जत्थ रयी तं दित्तं तं दिसि-दित्तं वियाणाहि ॥  
जं मुकं तं अंगारियं ति आधूमियं च जं पुरओ । सेसाओ दिसाओ पुण संताओ होति अण्णाओ ॥
- 9 दित्तेण तक्खणं चिय होइ फलं होहिइ त्ति धूमेणं । अंगारियम्मि वत्तं जइ सउणो रवइ तत्थेय ॥ 9  
सूराहिमुहो सउणो जइ विरसं रवइ दित्त-ठाणम्मि । ता जाण किं पि असुहं पत्थाणे कस्स वि णरस्स ॥  
सर-दित्तं सुइ-विरसं सुइ-सुहयं होइ जं पुणो संतं । संतेण होइ संतं दित्ते पुण जाण दुक्खं ति ॥
- 12 पासाण-कट्ट-भूती-सुक्य-रुक्खेसु कंटइल्लेसु । एएसु ठाण-दित्तं विवरीयं होइ सुह-ठाणं ॥ 12  
दियह-चरा होति दिया राइ-चरा होति तह य राईए । सउणा सउणा सव्वे विवरीया होति अवसउणा ॥  
एस संखेवेणं सुंदरि, जं पुण खिवा-रुतं काय-रुतं साण-रुतं गिरोलिया-रुतं एवमाईणि अण्णाणि वि विसेसाइं को साहिउं
- 15 तरइ त्ति । सव्वहा, 15

एयाणं सव्वाणं अवसउणाणं तहेय सउणाणं । पुच्चकयं जं कम्मं होइ णिमित्तं ण संदेहो ॥

तम्हा जिणवर-णामक्खराइं भत्तीए हियय-णिहियाइं । संभरिउं भगवंतं पाव-हरं समवसरणम्मि ॥

- 18 तस्स य पुरओ अत्ताणयं पि ज्ञाएज्ज पायवडियं ति । जइ जाइ तेण विहिणा अवस्स खेमेण सो एइ ॥ 18  
चमराइं आयवत्तं होइ असोओ य कुसुम-बुट्ठी य । भामंडलं धयं चिय महासणं दिव्व-णिम्मवियं ॥  
एयाइं मंगलाइं उच्चारेतो जिणं च ज्ञाएतो । जो वच्चइ सो पावइ पुण्ण-फलं णत्थि संदेहो ॥

- 21 एवं च साहिए पडिवण्णं कुवलयमालाए 'अज्जउत्त, एवं चेय एयं ण एत्थ संदेहो' त्ति । 21

§ २९० ) अण्णम्मि य दियहे दिण्णं पयाणयं महंतेण खंधावारेणं । तओ केत्तिय-मेत्तं पि भूमिं गंतूण भणियं कुमारेण

- 'ओ भो पउरा, णियत्तह तुम्हे कज्जाइं विहडंति तुम्हाणं । एवं भणिओ णियत्तो पउरयणो पज्जरंत-लोयण-जलप्पवाहो । तओ कं  
24 पि पएसं गंतूण भणिओ कुमारेण राया 'ताय पडिणियत्तसु, जेण अम्हे सिग्घयरं वच्चामो तायं च पेच्छिमो' त्ति । एवं च 24  
पुणो पुणो भणिओ णियत्तो कुवलयमालाए जणओ जणणी य । एवं च कमेण कुमारो संपत्तो तं संज्ज-सेल-सिहरव्भासं,  
आवासिओ य एकम्मि पएसे । साहियं च पुरिसेहिं 'कुमार, इम्मि सरवर-तीरे सुण्णायतणं, तत्थ कामो व्व सरुवी,  
27 इंदो व्व पच्चक्खं, सूरुो व्व कोइ रुव-सोहाए अहियं पयांसमाणो मुणिवरो चिट्ठइ' । कुमारेण भणियं 'अरे, को एस 27  
मुणिवरो, किं ताव तावसो, आउ तिदंडी, आउ अण्णो को वि' । तेहिं भणियं 'देव, ण-याणामो तावसं वा अण्णं वा ।

लोय-कय-उत्तिमंगो सिय-वसणो पिच्छएण हत्थम्मि । उवसंत-दंसणीओ दीह-भुओ वम्महो चेय ॥'

- 30 कुमारेण चित्तियं । 'अहो कत्थ भगवं साहू, ता चिरस्स अत्ताणयं बहु-पाव-पंक-कलंकियं णिम्मलीकरेमि भगवओ 30  
दंसणेणं' ति भणमाणो अब्भुट्ठिओ समं कुवलयमालाए । भणियं च णेण 'आदेसह महं तं मुणिवरं' । संपत्तो तं पएसं ।  
दिट्ठो य मुणिवरो । चित्तियं च णेण । 'अहो मुणिणो रुवं, अहो लायणं, अहो सुंदरत्तणं, अहो दित्ती, अहो सोम्मया । ता  
33 सव्वहा ण होइ एस माणूसो । को वि दिव्वो केण वि कारणेण मुणि-वेसं काऊणं संठिओ' त्ति चित्तयंतेण णिरिक्खियं जाव णिमिसंति 33

1 > P साहो for साणो, J जति वलति, P चलण for वल्लह, J दाहिणतो वलति, P वणति, P सिद्धी ॥ 2 > J अह for जह, P inter. सब्बे and तह, P जीवो, J सवणणू P सउणणू, J विवरीयं. 3 > P लवमाणो, P सोमो । 4 > J गोरुयस्स छीतं P गोरुयसओ लच्छी तं वज्जेज्जा, J वज्जेज्जा, P जीवहरं, J छीतं, J छीतं for जीयं, P जीतं विणासेति. 5 > P उण for य ण. 6 > P इंदगोती-जंमायणेस्ती वारुणी, P सोमा. 7 > J अट्टा य, P रं for तं before दित्तं, P दिसित्तं. 8 > P आहूमियं, P पुणो सत्थाओ. 9 > P दित्ते तक्खणं, JP होहिति त्ति, P रवति. 10 > P सूराभिमुहो, P विरइ for विरसं, J रमइ for रवइ, P om. रवइ, P दित्तद्वरणंमि । 11 > P दित्तं ति सुविरसं सुति, P दित्तं पुण. 12 > P रुक्खेसु, JP एतेसु, P ट्टुण, JP विवरीयं, P ट्टुणं ॥ 13 > P रायचरा, P रातीय, P सउणो सउणो, P सउणाओ ॥ 14 > P एते for एस, P om. जं पुण, J एवमातीणि, P अन्नाण विसेसाइं. 16 > J णाणं च तह य. 17 > J सत्तीय for भत्तीय, P संभरियं, P समवसरंमि. 18 > P जति जाति तेण विहिण, P एति ॥ 19 > J आतवत्तं. 20 > P ज्झायंतो, P पावति, J पुण्णहलं. 21 > P adds भणियं after कुवलयमालाए, P एति ॥ 22 > P खंधावारेण, P om. पि. 23 > P णियत्तन्मे कज्जाइं, P तुम्हा for तुम्हाणं, P जुयल for जल. 24 > P तय for ताय, P जिणम्हे for जेण अम्ह, P adds त्ति after वच्चामो. 25 > J कुवलयमालाजणओ, P संपत्तो वंच सज्जसेल. 26 > J om. च, P कुमार मंमि सरवतीरे, J सुण्णायतणं, J सरुई. 27 > J अघियं, P मुणिवरो चिट्ठति । 28 > P आउसन्नो को वि, J adds वि after अण्णो, J तावसं व अण्णं च. 29 > P थुओ ठंमहो चेय ॥; P कुमारे चित्तियं. 30 > J adds वि after कत्थ, P adds णिम्मलीकयं after कलंकियं. 31 > P णेण दंसंमि महं तं. 32 > J दिट्ठं for चित्तियं, P om. अहो दित्ती, P सोमया. 33 > J माणूसो, P om. वि कारणेण, P समुट्ठिओ for संठिओ, P om. त्ति, P चित्तयंतो णिरिक्खइ जाव.

1 गणनाइं, फुसंति पाया महियलं । तओ चितियं 'ण होइ देवो, विहडंति दिव्व-लक्खणाइं । ता सुव्वत्तं विजाहरो होइहि त्ति । 1  
 एसो य जहा अहिणव-कय-सीस-लोओ अज्ज वि अमिलाण-देहो उवलक्खीयइ तहा लक्खेमि ण एस आइसंजओ, संपयं  
 3 एस पव्वइओ, वेसो वा विरइओ । ता किं वंदामि । अहवा सुट्टु वंदणीयं भगवंताणं साहूणं दिट्ठ-मेत्तं चैव लिंगं ति । जो 3  
 होउ सो होउ त्ति साहु त्ति उवसप्पिऊण कुंमारेण कुवलयमालाए य ति-पदाहिणं भत्ति-भर-विणामिउत्तिमंगेहिं दोहि वि  
 वंदिओ साहू । भणियं च मुणिणा 'धम्मलामो' त्ति । तओ उवविट्ठो कुमारो महिंदो य । पुच्छियं च कुमारेण 'भगवओ,  
 6 कत्तो तुमं एत्थ रणुहेसे, कथ वा तुव्वे इहागया, किं वा कारणं इमाए रुव-संपयाए णिच्चिणो' त्ति । 6

§ २९१ ) तेण भणियं 'जइ सव्वं साहेयव्वं ता णिसुणेसु वीसत्थो होऊणं ति ।

अत्थि पुहई-पयासो देसो देसाण लाड-देसो त्ति । णेवत्थ-देसभासा मणोहरा जत्थ रेहंति ॥

9 तम्मि य पुरी पुराणा णामेण य बारयाउरी रम्मा । तत्थ य राया सीहो अत्थि महा-दरिय-सीहो च्च ॥ 9  
 तस्स सुओ हं पयडो भाणू णामेण पढमओ चैय । अहवल्हो य पिउणो वियरामि पुरिं विगय-संको ॥  
 ममं च चित्तयम्मे वसणं जायं । अवि य ।

12 रेहा-ठाणय-भावेहिं संजुयं वण्ण-विरयणा-सारं । जाणामि चित्तयम्मं णरिंद दट्ठं पि जाणामि ॥ 12  
 एवं च परिवभममाणो अण्णम्मि दियहे संपत्तो वाहिरुज्जाणं । तत्थ य वियरमाणस्स आगओ णुक्को उवज्जाओ ।  
 तेण भणियं । 'कुमार, मए चित्तवडो लिहिओ, तं ता पेच्छह किं सुंदरो किं वा ण व' त्ति भणिए, मए भणियं 'दंसेहि मे  
 15 चित्तयम्मं जेण जाणामि सुंदरं ण व' त्ति । दंसिओ य तेण पडो । दिट्ठं च मए तं पुहईए णत्थि जं तत्थ ण लिहियं । जं च 15  
 तत्थ णत्थि तं णत्थि पुहईए वि । तं च दट्ठण दिव्व-लिहियं पिव अइसंकुलं सव्व-युत्तंत-पचक्खीकरणं पुच्छियं मए  
 विम्हिण्ण 'भो भो, किं एत्थ पडे तए लिहियं इमं' । तेण भणियं 'कुमार, णणु संसार-चकं' । मए भणियं 'किं अणुहरइ  
 18 संसारो चक्कस्स' । तेण भणियं 'कुमार, पेच्छसु । 18

मणुयत्तण-णाहिंलं जीवाणं मरण-दुक्ख-णेमिंलं । संसार-पाय-चकं भामिज्जइ कम्म-पवणेण ॥'

§ २९२ ) तओ मए भणियं 'विसेसओ साहिज्जउ जं तत्थ लिहियं' । तेण भणियं 'देव, पेच्छ पेच्छ ।

21 एसो णारय-लोओ एसो उण होइ मणुय-लोओ त्ति । एसो उ देव-लोओ एयं तं होइ तेलोक्कं ॥ 21  
 दंडगोणं पदंसिउं पयत्तो ।

जो होइ अधिय-पावो सो इह णरगम्मि पावए दुक्खं । जो वि य बहु-पुण्ण-कओ सो सग्गे पावइ सुहाइं ॥  
 24 जो किंचि-पुण्ण-कलिओ बहु-पावो सो वि होइ तिरियंगो । जो बहु-पुण्णो पावं च थोचयं होइ मणुओ सो ॥ 24  
 एयासुं च गईसुं कुमार सव्वासु केवलं दुक्खं । जं पेच्छ सव्वओ चिय दंसंते दुक्खिया जीवा ॥  
 जं एस एत्थ राया बहु-कोव-परिगहोहिं संपुण्णो । बहुयं वंधइ पावं थोवं पि ण पावए पुण्णं ॥  
 27 जीवाण करेइ वंहं अलियं मंतेइ रोणहए सव्वं । णिच्चं मयणासत्तो वच्चइ मरिऊण णरयम्मि ॥ 27  
 आहेडयं उवगओ एसो सो णरवइ इमं पेच्छ । जीव-वध-दिण्ण-चित्तो धावइ तुरयम्मि आरूढो ॥  
 तुरओ वि एस वरओ णिइय-कस-वाय-वेविर-सरीरो । धावइ परयत्तो चिय कइ व सुहं होउ एयस्स ॥  
 30 पुरओ वि एस जीवो मारिज्जामि त्ति वेविर-सरीरो । णिय-जीविय-दुक्ख-भओ धावइ सरणं विमग्गतो ॥ 30  
 पुरओ वि एस वरओ हल्लोलिज्जइ जणेण सव्वेण । ण य जाणंति वराया अण्णा पावेण चेट्ठिओ ॥  
 एसो वि को वि पुरिसो गहियो चोरेहिं णिइय-मंगेहिं । सरणं अविदमाणो द्दीणं विक्कोसइ वराओ ॥  
 33 एए करंति एयं किर अइह होइ कइ वि इमं अत्थं । तेण य पाणं अइ भोयणं च अण्णं सुइं होही ॥ 33

1 > P गणनाइं, P adds मि after महियलं, J adds अदो before ण होइ, P होति for होइ, J adds ति before देवो, P विहडियाइं for विहडंति, P सव्वं for सुव्वत्तं, J ता सुव्वंति विजाहरे होइति ।, P होइति सोय. 2 > P अहिणवयसाम, J विज्जायि for अज्जवि, P अनिलाण, JP उवलक्खीयति, J आदिसंजतो. 3 > P विरइओ, P दिट्ठिमेत्तं. 4 > P विपयाहिणं, J विणउत्तिमंगेहि, P दोहिं वि. 5 > J वविट्ठो for उवविट्ठो, P कुमारेण, P भगवं कओ तुमं. 6 > P एत्थयुत्तं कथ, P णिच्चिण त्ति. 7 > J साहेयव्वं P साहेतव्वं. 8 > P पुट्ठीपयासो, J om. देसो, P repeats देसो, J वेसमासा for देसमासा, P मणाहार, P रेहं ॥ तम्मि पुरी पुराणा. 9 > P om. य after णामेण, P रायायी अत्थि. 10 > P विअररामि. 11 > P च चित्तयंनस्स वसणं. 12 > P रेहागणपवाचित्तिसंजुयं. 13 > P अयमि. 14 > J पेच्छ for पेच्छइ, J किंया for किंवा, P भणिसाए for भणिए. 15 > P repeats जेण, P जं for तं, P ण for णत्थि, P णं for ण. 16 > J णणत्थि पुहईयं वि, P पुहई वि, P विहियं, J अतिसंकुलं, P युत्तं, J adds च before मए. 17 > J विविण्ण, P om. पडे, P पच्छिदियं for लिहियं, P वे for तेण, P कुमार, P om. किं. 18 > J संसारचक्कस्स. 19 > J जीवारं, P वीस for पाय, P भामिज्जइ कम्म. 20 > P एत्थ for तत्थ. 21 > P एसो सव्वेओ, J तु for उ, P उ देव, J P एत्तं. 23 > P अदिय, P इह णरगमि, P कयो सो सग्गे. 24 > P वि होति तिरियं वा ।, J थोचयं. 25 > P एयसु चउगवीसुं, P विय. 26 > P मयत्तो for संपुण्णो, P वधुयं वंधइ. 27 > P adds कण before करइ, P मंतेहिं, P सव्वं । णोवयणासत्तो. 28 > P नक्खी इम पेच्छं ।, P वइ for वध, P आवति. 29 > P आइ पयत्तो, P होइ एयस्स. 30 > J अयो. 31 > P पुट्ठो for वरओ, P पुट्ठण for एत्थेण. 32 > P द्दीणं वक्कामइ. 33 > P एओ करंति एयं किर अइह होइति इमं अत्थि, J अइह होइहिं ।, J inter. इमं ळ इइ वि, J पयं पट्ट for पाणं अइ.

- 1 ण य चिंतयंति मूढा इह जन्मे चेय दुत्तरं दुक्खं । फालण-लंवण-भेयण-छेयण-करि-चमढणादीणं ॥ 1  
परलोए पुण दुक्खं णरय-गयाणं महाफलं होइ । एयं अयाणमाणा कुमार चोरा इमे लिहिया ॥
- 3 एसो वि जो सुसिज्जइ पेच्छह एयं पि एरिसं लिहियं । तण्हा-राय-सरत्तो परिग्गहारंभ-दुक्खत्तो ॥ 3  
पावइ परिग्गहाओ एयं अह परिभवं ण संदेहो । अह मुंचइ कह वि परिग्गहं पि ता णिव्वुओ होइ ॥  
एसो पडिपहरंतो इमेहिं घेत्तूण मारिओ वरओ । मा को वि इमं पेच्छे खित्तो अयडम्मि पावेहिं ॥
- 6 § २९३ ) एए वि हलियउत्ता लिहिया मे णंगलेण वाहेंता । अम्हाण होहिइ सुहं मूढा दुक्खं ण लक्खेंति ॥ 6  
एए वि एत्थ जुत्ता परयत्ता कट्टिऊण णत्थासु । खंधारोविय-जूया गलय-णिवद्धा बलीवद्दा ॥  
रुहिरोगलंत-देहा तोत्तय-पहरेहिं दुक्ख-संतत्ता । पुव्व-कय-कम्म-पायव-फलाइँ विरसाइँ भुंजंति ॥
- 9 एसा वि एत्थ धरणी फालिज्जइ णंगलेण तिकखेण । पुव्व-कयं चिय वेयइ बंधइ हलियो वि णिय-दुक्खं ॥ 9  
पुहइं जलं च वाउं वणस्सइं बहु-विहे य तस-जीवे । दलयंतो मूढ-मणो बंधइ पावं अणंतं पि ॥  
एसो वि मए लिहियो पर-कम्मयरो कुडुंविओ मूढो । पुत्त-कलत्ताण कए पावेंतो गरुय-दुक्खाइं ॥
- 12 छेत्तूण ओग्गहीओ फुल्लिय-फलियाओ मुग्ग-सालीओ । चमढेइ बइल्लेहिं गलए मेठी-णिवद्धेहिं ॥ 12  
जइ होइ बहुं धणं जीवेज्ज कुडुंबयं पियं मज्झं । ण य चिंतेइ अउणो कथ कुडुंबं कहिं अहयं ॥  
एसो सो चिय लिहियो जर-वियणा-दुक्ख-सोय-संतत्तो । डाहेण डज्जमाणो उव्वत्तंतो इमो सयणे ॥
- 15 एयं पि तं कुडुंबं दीणं विमणं च पास-पडिवत्तिं । किं तुह वाहइ साहसु किं वा दुक्खं ति जं पत्तं ॥ 15  
जं किं पि तस्स दुक्खं का सत्ती तत्तियं च अवणेउं । एक्केणं चिय रइयं एक्को चिय भुंजए तइया ॥  
अह मंत-तंत-ओसह-जोए एसो वि को वि सो देइ । कत्तो से तस्स समं जाव ण भुत्तं तयं पावं ॥
- 18 § २९४ ) एसो सो चेय मओ चल-चलुव्वेह्यं करेऊण । मरणंत-वेयणाए किं च कयं हो कुडुंबेण ॥ 18  
अह तस्स एस जीवो पुण्णं पावं च णवर घेत्तूण । कम्माणुभाव-जणियं णरयं तिरियं च अल्लीणो ॥  
एसा वि रुयइ दइया हा मह एएण आसि सोक्खं ति । तं किं पि सुरय-कज्जं संपइ तं कथ पावेमो ॥
- 21 अण्णं च एस दासो सव्वं चिय मज्झ किं पि जं कज्जं । खिप्पंतं करयं तो हा संपइ को व वुत्तंतो ॥ 21  
को मह दाहिइ वत्थं को वा असणं ति को व कज्जाइं । एयं चिय चिंतेती एसा लिहिया रुवंती मे ॥  
एए वि हु मित्ताइं रुयंति भरिऊण दाण-माणाइं । संपइ तं णो होहिइ इय रुयमाणो लिहियाइं ॥
- 24 एसो सो चिय घेत्तुं खंधे काऊण केहिं मि णरेहिं । णिजंतो सव-सयणं अम्हे लिहियो विगय-जीवो ॥ 24  
एसो अकंदंतो बंधुयणो पिट्ठो य रुयमाणो । तण-कट्ट-अग्गि-हत्थो धाहाधाहं करेमाणो ॥  
हा बंधु णाह सामिय वल्लह जिय-णाह पवसिओ कीस । कथ गओ तं णिइय सरण-विहूणे वि मोत्तूण ॥
- 27 एए ते चिय लिहिया विरएता बंधवा चितिं एत्थ । एसो पक्खित्तो चिय कुमार अग्गी वि से दिण्णा ॥ 27  
एयस्स पेच्छ णवरं चियाए मज्झम्मि किंचि जइ अत्थि । जं दुक्खेहिं विढत्तं तं सव्वं चिट्ठइ घरम्मि ॥  
खर-पवणुद्दुय-दीविय-जलंत-जालोलि-संकुले एत्थ । एक्कं चिय से वासं भण अण्णं कथ दीसेज्ज ॥
- 30 अणुदियह-सुरय-सोक्खेहिं लालिया बद्ध-णेह-सम्भावा । रोवइ दइया पासे डज्जइ एक्कलओ जलणे ॥ 30  
जेण य मणोरहेहिं जाओ संवट्ठिओ य बहुएहिं । एसो सो से जणओ रुयमाणो चिट्ठए पासे ॥  
अइ पुत्त-वच्छला सा एसा माया वि एत्थ मे लिहिया । दट्ठण डज्जमाणं पुत्तं अह उवगया मोहं ॥
- 33 जेहिं समं अणुदियहं पीयं पीयं च णेह-जुत्तेहिं । अह एक्को चिय वच्चइ एए ते जंति घर-हुत्तं ॥ 33

1 > P जन्मो, J दुक्करं दुक्खं, J भेतण छेतण, P भेयण for भेयण, J चमढणादीअं. 2 > P देइ for होइ. 3 > P मि for पि, P रायसरंते, P दुक्खंतो. 4 > P मुव्वइ for मुंचइ, P व for वि, P ता णिव्वुओ. 5 > P मं for मा, P पेच्छ खित्तो. 6 > P एते, P मे लंगलेण, P सुहं for सुहं, P लक्खेंति. 7 > P कट्टिऊण. 8 > J रुहिरोगलंत-, P तोत्तय-, J पहराहिं, P om. विरसाइँ, P adds वसहाओ after भुंजंति. 9 > J वेदइ, P बंधइ हलियो. 10 > J पुहइं, J वणस्सइं, P बहुविहे य तसजीवा, P मूढमणा, J अणंतंमि. 11 > J य for वि, P कुडुंविओ, P पावेंतो गरुया-. 12 > P मुग्गसीओ । चमढेहि. 13 > P वहु, P कुटुंबयं, P कुटुंबं, P सयणं for अहयं. 14 > P सो चिय, J इमे, P सयणो ॥ एतंमियं कुटुंबं. 15 > J पडिवत्ति P परिवत्ति, P कंमा for किं वा, P om. ति, P जयंता for जं पत्तं. 16 > J ताण तंति for तत्तियं च, P भुजंग for भुंजए. 17 > J अहमत्तंतउसहजो उवएसो, J से for सो. 18 > P सो चिय, P चलं-, P किं पि हु न कथहो कुटुंबेण. 19 > P कंमाणभाव-. 20 > दया for दइया, P प्रतेण, J अत्थि for आसि, P पावेमि ॥. 21 > P दासो for दासो, J जं किं चि for किं पि, J को व्व, J व पोत्तव्वो ॥. 22 > P दाही for दाहिइ, P adds इय befor एयं, P om. चिय, J रुअंती. 23 > P एते, P रुयंति सरिऊण. 24 > P om. सो, J काऊण रेहिं, J सवसणं, P जीहोओ for जीवो. 26 > P जियणाम. 27 > P एते, P विरयंतो बंधवा, P विती for चिति. 28 > J पेच्छ णवर चियाए. 29 > P पवणुद्दुय. 30 > P सुक्खेहिं लालियावडाणहसत्ताव । रोयइ. 32 > P adds तं सव्वं before माया, J से for मे. 33 > P अणुदियहो, J adds मिअं in between two पीयं, J णेहसंजुत्तेण P णेहजुत्तेहिं, P तं for ते.



- 1 बहु-असमंजस-वदना-सएहिं जं अजियं कह वि अत्यं । तेण पयं पि ण दिण्णं गेहे चिय संठियं सच्चं ॥ 1
- जा आसि सुट्टु दइया पुत्ता धूया य हियय-वल्लहिया । हा वावत्ति भणंती एसा अह वच्चइ धरम्मि ॥
- 3 एए वि पुणो लिहिया कट्टं भामेउ अत्तणो सीसं । सुकं तुह कट्टं चिय अपच्छिमो होसु अम्हाणं ॥ 3
- एयं ते भणमाणा तलए गंतूण देंति से वारिं । एसं किर होहिइ से कश्चुट्टो कथ गेरयं पीए ॥
- एए वि देंति गंतूण तस्स पुणगेहिं वम्हण-कुलाणं । किर तस्स होइ एयं एसो लोयस्स छउमत्थो ॥
- 6 § २९५ ) एयं कुमार लिहियं अण्णं च मए इमं इहं इयं । पेच्छसु कुणसु पसायं विद्धं किं सोहणं होइ ॥ 6
- एसो को वि जुवाणो एयाएँ समं जुवाण-विलयाए । वियसंत-पंकय-मुहो लिहियो किं-किं पि जंपतो ॥
- लज्जोणमंत-वयणा पायंगुट्टय-लिहेंत-महिवट्टा । दइएण किं पि भणिया हसमाणी विलिहिया एत्थ ॥
- 9 एसो को वि जुवाणो फंसुसव-रग्ग-वसेण हीरंतो । आलिंणतो लिहियो दइयं अमए च्च णिम्मवियं ॥ 9
- ण य जाणए वराओ एसा मल-रुहिर-सुत्त-वीभच्छा । असुइ-कलिमल-णिलया को एयं छिवइ हत्थेहिं ॥
- असुइ इमं सरीरं विवुहेहिं य णिंदियं महापावं । तह वि कुणंति जुवाणा विसमो कम्माण परिणामो ॥
- 12 एयं पि मए लिहियं सुरयं बहु-करण-भंग-रमणिज्जं । जं च रमंति जुवाणा सारं सोक्खं ति मण्णंता ॥ 12
- एए कुमार मूढा अवरोप्परयं ण चेय जाणंति । एयं अलज्जयम्मं अप्पाण-विडंवणा-सारं ॥
- ऊससइ ससइ वेवइ णयणे मउलेइ दीणयं कणइ । दीह-सिय-सल्ल-विद्धा कुणइ मरंति च्च सुरयम्मि ॥
- 15 जं जं से गुज्जयरं रक्खिज्जइ सयल-लोय-दिट्ठीओ । विणिगूहिज्जइ सुइरं दिट्ठम्मि ससज्जसो होइ ॥ 15
- मल-रुहिर-सुत्तवाहोमयज्झिया असुइ-वाहिणी पावा । जो तं पि रमइ मूढो णमो णमो तस्स पुरिसस्स ॥
- सुरयं ण सुंदरं चिय अंते काऊण लज्जए जेण । असुइं पिव अस्सिऊणं तेण ण कज्जं इमेणं पि ॥
- 18 एयं पि मए लिहियं कीय वि महिलाए मंगल-सएहिं । कीरइ से फल-ठवणं वज्जिर-तूरोह-सदेणं ॥ 18
- ण य जाणंति वराया जं ता अम्हेहिं किं पि एयंते । कुच्छिय-कम्मं रइयं तं पयडं होइ लोयम्मि ॥
- § २९६ ) एसो वि जणो लिहियो णच्चंतो रहस-तोस-भरिय-मणो । ण य जाणए वराओ अत्ताण-विडंवणं एयं ॥
- 21 एसो पुण गायंतो लिहियो णिच्चोल्लिएण वयणेणं । ण य जाणए वराओ एयं पलविज्जए सच्चं ॥ 21
- एसो वि सहइ पुरिसो हा हा पयडाए दंत-पंतीए । जं पि हसंतो वंधइ तं रोवंतो ण वेएइ ॥
- एसो वि स्यइ पुरिसो अंसु-पवाहेण मउलियच्छीओ । अण्णं वंधइ पावं अण्णं वेएइ पुच्च-कयं ॥
- 24 एसो वि धाइ पुरिसो तुरियं कज्जं ति किं पि चिंतंतो । ण य जाणए वराओ मच्चू तुरियं समल्लियइ ॥ 24
- एसो मए सुयंतो लिहियो अह णिच्चलेहिं अंगेहिं । किं सुयसि रे अलज्जिर मच्चू ते जीवियं हरइ ॥
- एसो वि मए लिहियो मल्लो अप्फोडणं करेमाणो । सारीर-वलुम्मत्तो इंदिय-विसएहिं अह णिहओ ॥
- 27 एसो वि रुवमंतो अच्चइ अत्ताणयं णियच्छंतो । ण य चिंतेइ अउण्णो खणेण रूवं विसंवयइ ॥ 27
- एसो वि धणुम्मत्तो कंठय-कडएहिं भूसिय-सरीरो । ण य विगणेइ अयाणो कथ धणं कथ वा अम्हे ॥
- एसो कुल-मय-मत्तो अच्चइ माणेण थद्धओ पुरिसो । ण य चिंतेइ वराओ काओ वि इमो हवइ जीवो ॥
- 30 एसो वि मए लिहियो लोहुम्मत्तो अहं किर लहामि । ण य चिंतेइ अउण्णो कम्म-वसा होइ एयं पि ॥ 30
- एसो पंडियवाइ लिहियो वक्खाण-पोत्थय-करगो । जाणंतो वि ण-याणइ किं जाणं सील-परिहीणं ॥
- एसो तव-मय-मत्तो अच्चइ उद्वेण वाहु-डंडेण । काऊण हणइ मूढो गव्वेण तवं ण संदेहो ॥
- 33 एसो वि कोइ पुरिसो कडिय-कोडंड-भासुरो लिहियो । मारंतो जीवाइ अण्णंतो णरय-वियणाओ ॥ 33

1 > P वट्टण for वदना. 2 > P ले for जा, J पुत्ता for पुत्ता, P जीव for हियय, P वा वावत्ति भणंती एए ते जंडंति ए हुत्तं for the 2nd line. 3 > P एते, P कट्टे भामेउ अप्पणो, J भामेउं अत्तणीसेसो, P तह for तुह, J तिय for चिय. 4 > J एवं, P एयं चि भणमाणा, P वारि । एतं किर होहिंति से कश्चुट्टो, P गेरय. 5 > P एते, J म्हेण for वम्हण, J किरत्तस्स होइअं एसो P होति एतं एसो, J उम्मच्छो for छउमत्थो. 6 > J inter. इमं & मए, J om. इहं, P रइया । 7 > J जुवाणो, P एताए, J जुवाण, P मुहो for मुहो. 8 > J लअणमंतवयणो पायंगुट्टायलिहितमहिं, P किम्मि for किं पि, P विहिलिहिया. 9 > J जुवाणो. 10 > P जाणाए, J विच्चच्छा ।, P असुइ-किलमल. 11 > P वि for य. 12 > P एतंमि for एयं पि, P करणिभंगरसणिज्जं ।, J जुवाणा, P सारसोक्खं 13 > P एते, P अवरोप्परं. 14 > J मउलेउ दीणहं, P भणइ for कणइ. 15 > J असज्जसो for ससज्ज. 16 > J सुइर for असुइ, P तंमि for तं पि. 17 > J सुंदरं चिय, P इमेणम्मि ॥. 18 > P एयंमि मए, J -ठमणं P -ट्टवणं. 19 > J ते for ता, P जं च कम्हे कतं ति एयं ते. 20 > P रोस for रहस. 21 > J णिच्चोल्लिएण, P जाणेइ, P एतं. 22 > P वि सहइ, J रोजंतो. 23 > JP वेवेइ. 24 > P किम्मि for किं पि, J चिंतंतो, J जाणइ. 25 > P अह निच्चिलहिं, J ए for ते, P वरइ for हरइ. 26 > P इंदियवसएहिं अह निहियो. 27 > J वि रुअम्मत्तो, P णिच्छंतो, P ण इ चिंतेइ, P खणेण. 28 > J तु for वि, P कणय for कंठय, P चिंतेइ for विगणेइ, J अयाणओ for अयाणो, P वणं for धणं. 29 > P वट्ट for थद्धओ, P णइ चिंतेइ. 30 > P inter. मए & वि, P कम्मवन्तो हंति एयं मि ॥. 31 > J पंडिय यातं P पंडिय वाती, P कराओ for करगो, P वि ण जाणइ, P सीण for सील. 32 > P वाहुडंडेण, P इ for हणइ, P तव ण. 33 > JP को वि for कोइ (emended), P कोडंड, P मारंतो, P अण्णंतो, J वियणाइ ॥.

- 1 एसो वि पहरइ चिय कडिय-करवाल-भीसणो पुरिसो । ण य चिंतेइ अउण्णो खणेण किं भे समाढत्तं ॥ 1
- जइ कह वि अहं णिहओ कज्जं तं कथ पावियं होइ । अह कह वि एस णिहओ संवादो मज्झ पावेण ॥
- 3 एए वि कुमार मए लिहिया सुय-सारिया य पंजरए । पुव्व-कथं वेयंता अण्णं च णवं णिवंधंता ॥ 3
- एसा वि का वि महिला वियणा-वस-मउलमाण-णयणिल्ला । पसवइ कं पि विआयं सारिच्छमिणं मए लिहियं ॥
- जो पसवइ इह वालो सो संदेहम्मि वड्डए वरओ । संकोडियंगमंगो जीवेज्ज मरेज्ज वा णूणं ॥
- 6 एसा वि एत्थ महिला दोहाइजंत-गुज्झ-वियणाए । खर-विरसाइ रसंती पीलिज्जइ सरस-पोत्ति व्व ॥ 6
- एसा वि एत्थ लिहिया का वि विवण्णा ण चेय णीहरियं । अण्णाए मयं चालं मयाइँ अह दो वि अवराइँ ॥
- § २९७ ) एसो परिणजंतो लिहियो अह पेच्छ कुमर वेदीए । त्तर-रव-मंगलेहिं णच्चिर-महिला-विलासेहिं ॥
- 9 ण य जाणए वराओ संसारो एस दुक्ख-सय-पउरो । हत्थेहिं मए गहिओ महाए महिल त्ति काऊण ॥ 9
- णचंति ते वि तुट्ठा किर परिणीयं ति मूढया पुरिसा । ण य रोयंति अधण्णा दुक्ख-समुद्दे इमो छूढो ॥
- एसो वि मए लिहियो कुमार उत्ताण-सायओ वालो । आउं ति परं भणिरो अण्णं वरओ ण-याणाइ ॥
- 12 एसो सो धि अपुण्णो कीलइ अह कीलणेहिं वालो त्ति । असुइं पि असइ मूढो ण य जाणइ कं पि अत्ताणं ॥ 12
- एवं सो चिय कुमरो कुकुड-सुय-सारियाय-मेसेहिं । दुल्लिओ अह वियरइ अहं ति गव्वं समुव्वहिरो ॥
- एसो पुणो वि तरुणो रमइ जहिच्छाए कण्ण-जुवईहिं । कामत्थेसु पयत्तइ मूढो धम्मं ण-याणाइ ॥
- 15 एसो सो चेय पुणो मज्जारो बाल-सत्थ-परियरिओ । अणुविद्ध-पलिय-सीसो लग्गइ ण तथा वि धम्मम्मि ॥ 15
- एसो सो चेय थेरो लिहियो अह वियलमाण-वल-वल्लिओ । बालेहिं वि परिभूओ उव्वियणिज्जो य तरुणीहिं ॥
- एसो वि भमइ भिक्खं दीणो अइ णियय-कम्म-दोसेण । एण्हं ण कुणइ धम्मं पुणो वि अह होहिइ दरिदो ॥
- 18 एसो वि को वि लिहियो रोरो थेरो य सत्थर-णिवण्णो । चीवर-कंथोत्थइओ पुव्व-कथं चेय वेयंतो ॥ 18
- एसो वि को वि भोगी कय-पुण्णो अच्छए सुह-णिसण्णो । अण्णे करंति आणं पुव्व-अउण्णाण दोसेहिं ॥
- § २९८ ) एसो वि को वि लिहियो राया जंपाण-पवहणारुढो । पुरिसेहिं चिय वुज्झइ जम्मंतर-पाव-वहएहिं ॥
- 21 एए वि मए लिहिया संगामे पहरणेहिं जुज्झंता । ण य जाणंति वराया अवस्स णरयं इमेणं ति ॥ 21
- एसो वि पुहइ-णाहो अच्छइ सीहासणे सुह-णिसण्णो । णीसेसिय-सामंतो मत्तो माणेण य पयत्तो ॥
- एयस्स पंच कवला ते चिय वासाइं दोण्णि काइं चि । एक चिय से महिला असरालं वड्डए पावं ॥
- 24 एसो वि को वि पुरिसो लोह-महग्गह-परिग्गहायल्लो । पइसइ भीमं उयहिं जीयं चिय अत्तणो मोत्तुं ॥ 24
- एसो वि को वि पुरिसो जीविय-हेऊण मरण-भय-रहिओ । कुणइ पर-दव्व-हरणं ण य जाणइ बहुयरं मरणं ॥
- एसो वि एत्थ लिहियो महइहे भीम-काल-बीभच्छो । पुरिसो चिय गेण्हंतो जालेणं मच्छ-संघाए ॥
- 27 ण य जाणए अउण्णो एयं काऊण कथ गंतव्वं । किं थोवं किं बहुयं किं वप्प-हियं पर-हियं वा ॥ 27
- एए वि एत्थ वणिगा सच्चं अलियं व जंपिउं अत्थं । विढवेंति मूढ-मणसा परिणामं णेय चिंतंति ॥
- एए वि के वि पुरिसा वेरग्ग-परा घराइं मोत्तूण । साहेंति मोक्ख-मग्गं कह वि विसुद्धेण जोएणं ॥
- 30 एयं कुमार लिहियं मणुयाणं विद्ध-ठाणयं रम्मं । संखेवेणं चिय से वित्थरओ को व साहेज्जा ॥ 30
- § २९९ ) एयं पि पेच्छ पत्थिव तिरिय-समूहस्स जं मए लिहियं । सोहणमसोहणं वा दिज्जइ दिट्ठी पसाएण ॥
- तं चिय सुव्वसि णिउणो तं चित्त-कलासु सुट्ठु णिम्माओ । तेणेत्य देसु दिट्ठिं खणंतरं ताव वर-पुरिस ॥
- 33 सीहेण हम्मइ गओ गएण सीहो त्ति पेच्छ णरणाह । एस य मओ मइं देण मारिओ रण्ण-मज्झम्मि ॥ 33

1 > P अउणो खणेण किमे. 2 > P णिहियो, J om. कथ, P सव्वदा मज्झ सावेण ॥ 3 > P एते, P सउणया for सारिया, J वेतंता for वेयंता, P अण्णं च णयं निवंधंता. 4 > P मउलमाण, P पसवइ किं पि. 5 > J वट्टए, J वराओ P वरओ, P अंगसंगो. 6 > J मुज्झ for गुज्झ, P पीहि लिज्जइ, J पोत्ती व्व. 7 > JP inter. एत्थ & वि, P को for का, P मयं for मयं. 8 > J कुमार वेईए P कुरवेदीए. 9 > P णइ जाणइए वराओ, J संसारवि for संसारो, P हत्थेण मए, P om. महाए. 10 > P रोवंति अउण्णा. 11 > P उत्ताणसोयओ, P आउत्ति, P भणिओ रो, J अण्णा P अणं. 12 > J सोद्धि for सो धि, P एसो सोयव्वे पुणो कीलइ, P असुइम्मि असुइ ढोणय, P किं पि. 13 > P एसो for एवं. 14 > P कंनजुवतीण । 15 > P सो चेय. 16 > P repeats अह, P वलओ, J परिहूओ, P परिभूओ उव्वियणिज्जो. 17 > P इयर for णियय, J दोसेहिं, P अ for अह. 18 > P om. चेव, J वेयंतो. 19 > P पुव्वय अण्णाण. 20 > P चिय, J वुव्वइ for वुज्झइ, P पावपवाहेहिं. 21 > P एते, P जुज्झंता, P ण य ज्झाणंति, P इमेहिं ति. 22 > P सामन्नो मन्नो माणेण परयत्तो ॥ 23 > P काइं वि, P एक चिय, P असरालं. 24 > P पयसरइ भीमओअहि जीयं. 25 > J हेतूय P हेऊण, P भीओ for रहिओ. 27 > P अउणो, J थोअं. 28 > P एते, P वणिगा, J मणसो. 29 > P एते, J सावेंति P साहंति, P जोणेणं. 30 > P सो for से, J को व्व साहेज्ज ॥ 31 > P एयं च for एयं पि, P लिहियं, P om. सोहणमसोहणं वा etc. to ताव वरपुरिस. 33 > P सोहण for सीहेण, P गएत्ति सीहो, P repeats एस.

- 1 वग्नेण एस वसहो मारिज्जइ विरसयं विरसमाणो । एसो उण भिण्णो च्चिय वग्घो सिंगेण वसभस्स ॥ 1  
एए वि मए लिहिया महिसा अवरोप्परेण जुञ्जंता । रागदोस-वसट्ठा सारंगा जुञ्जमाणा य ॥
- 3 ईसा-वसेण एए अवरोप्पर-पसर-वेर-वेलविआ । जुञ्जंति पेच्छ पसवो अण्णाण-महातमे च्छट्ठा ॥ 3  
आहारट्ठा पेच्छसु इमिणा सप्पेण गिलियओ सप्पो । मच्छेण पेच्छ मच्छो गिलियो मयरो य मयरेण ॥  
विहएण हओ विहओ ईसा-आहार-कारणा कोइ । सिहिणा य असिज्जंतो भुयंगमेषो मए लिहियो ॥
- 6 एयं च पेच्छ सुंदर चित्तं चित्तमि चित्तियं चित्तं । मच्चु-परंपर-माली जीवाण कमेण णिम्मविया ॥ 6  
एसा मए वि लिहिया वणम्मि सर-भारएण भममाणी । लया तंतु-णिवट्ठा गहिया एयाए लयाए ॥  
एसो वि य कोलियओ भममाणीए छुहा-क्किलंतीए । घरहारियाए गहियो पावो पावाए पावेण ॥
- 9 घरहारिया वि एसा कह वि भमंतीए तुरिय-गमणाए । सामाए इसा गहिया चुक्कइ को पुच्च-कम्मस्स ॥ 9  
एसा वि पेच्छ सामा सहसा पडिऊण गयण-मग्गाओ । ओवायएण गहिया पेच्छसु णरणाह कम्मस्स ॥  
ओवायओ वि एसो णिवडिय-मेत्तेण जाव उट्ठेइ । ता रण-विरालेणं गहियो लिहियो इमो पेच्छ ॥
- 12 एसो वि पेच्छ पावो रण-विरालो वला णिवडिएण । कोलेणं गहियो च्चिय सुत्तिकव-दाढा-करालेणं ॥ 12  
कोलो वि तक्खणं चिय आहारट्ठा इमेण पावेण । हम्मइ य चित्तएणं पेच्छसु चित्ते वि चित्तेणं ॥  
अह एसो वि हु दीवी दाढा-वियराल-मीम-वयणेण । लिहियो हि खलिजंतो खर-णहरा-वज्ज-वाण्हिं ॥
- 15 एसो वि तक्खणं चिय पेच्छसु वग्घो इमेण सीहेण । फालिजंतो लिहियो कर-करवत्तेण तिकखेण ॥ 15  
एसो वि पेच्छ सीहो जाव ण मारेइ दारुणं वग्घं । ता गहियो मीमेणं सरहेण पहाविणा पेच्छ ॥  
इय अवरोप्पर-सत्ता सत्ता पावम्मि णवर दुक्खत्ता । रायदोस-वसत्ता सत्तुम्मत्ता भमंति इहं ॥
- 18 § ३०० ) एयं पि पेच्छ णरयं कुमार लिहियं मए इह पडम्मि । बहु-पाव-पंक-नरुया झस त्ति णिवडंति जत्थ जिया ॥ 18  
एए ते मे लिहिया उववज्जंता कुडिच्छ-मज्झम्मि । बहु-पूय-वसामिस-गदिभणम्मि व्रीभच्छ-भीसणए ॥  
एत्थ य जाय च्चिय से णिवडंता एत्थ मे पुणो लिहिया । णिवडंता वज्ज-सिलायलम्मि उय भग्ग-सच्चंगा ॥
- 21 अह एए परमाहम्मिय त्ति पावंति पहरण-विहत्था । हण-लुप-भिंद-छिंदइ मारे-चूरेह जंपंता ॥ 21  
एए ते तेहिं पुणो वेत्तूणं जलण-तत्त-तउयम्मि । छुच्चंति दीण-वियणा विरसा विरसं विरसमाणा ॥  
एए भिजंति पुणो दीहर-तिकखासु वज्ज-सूलासु । जेहिं पुरा जीयाणं बहुसो उप्पाइयं दुक्खं ॥
- 24 एए वि पुणो जीवा विरसं विरसंति गरुय-दुक्खत्ता । एयाण एत्थ तंवं मुहम्मि अह गालियं गलियं ॥ 24  
एए पुण वेयरणिं धावंता कह वि पाविया तीरं । डज्जंति तत्थ वि पुणो तउ-त्ताविय-तंन-सीसेहिं ॥  
एसा वि वहइ सरिया वेदरणी तत्त-जल-त्तरंगिह्ला । एत्थ य हंपावडिया झत्ति विलीणा गया णासं ॥
- 27 अह पुण संगहिय च्चिय मीम-महाकसिण-देह-भंगिह्ला । एत्थ विभिजंति पुणो वणम्मि असि-ताल-सरिसम्मि ॥ 27  
एए वि मए लिहिया फालिजंता वला य वलिएहिं । करवत्त-जंत-जुत्ता खुत्ता बहु-रुहिर-पंकम्मि ॥  
एए वि पुणो पेच्छसु अवरोप्पर-सिंघ-वग्घ-रुवेण । जुञ्जंति रोह-भावा संभरिओ पुच्च-वेरि त्ति ॥
- 30 एए वि पेच्छ जीवा णरए वियणाए मोह-मूढ-मणा । विरसंति पुणो दीणं खर-विरसं भीसणं सहसा ॥ 30  
एत्थ य कुमार एए णरए बहु-दुक्ख-लक्ख-लक्खम्मि । तेत्तीस-सागराइं भमंति णिवं ण संदेहो ॥
- 33 § ३०१ ) एयं पि मए लिहियं कुमार सगं सुओवएसेण । जत्थ य जंति सउण्णा बहु-पुण्ण-फलं अणुहवंति ॥ 33  
ता पेच्छ ते वि णरवर सयणिज्जे दिच्च-वत्थ-पत्थरिए । उववज्जंता जीवा मणि-कुंडल-हार-सच्छाया ॥

1 > P सिंहेण वसहस्सं. 2 > P एते, P महिया, JP वसट्ठा (?). 3 > J एणा P एते for एए, P पोस पसरं for पसरवेर, J पसवो. 4 > J इमंमि for इमिणा, P लिहियो for गिलियो. 5 > P कारणे को वि, P भुयंगमो एस मे लिहियो. 6 > P सुचित्त for चित्तं after सुंदर, P परंपरमाणीए, P om. जीवाण कमेण etc. to भममाणीए. 7 > J लया, J लयाए. 8 > J घरहारिए, P repeats पावो. 9 > P भमतीए तु तुरियगमणाए, P गिलिया for गहिया. 10 > J ओवायएण, P ओवाएणं. 11 > JP ओवायओ, P मेत्ते ण. 13 > P म for य, P चित्तेवि चित्तेणं. 14 > P विकाराड, P om. लिहियो हि ख, J om. हि, P लिजंतो खरणरहावज्जयाएत्ति ॥ as the 2nd line. 15 > P पीलिजंतो, J काकरवंतेण. 16 > P महावणे for पहाविणा. 17 > P writes सत्ता thrice, J दुक्खंता, P रागदोस, P सत्तुसत्ता, J भवंति इहं. 18 > P बहु for बहु, P च्छट्ठा for झस. 19 > P एते ते, J उवविज्जंता P उवडज्जंता, J वस for वसामिस. 20 > J उवदग्गसच्चट्ठा ॥. 21 > P अह पत्ते परमाहम्मिय त्ति, P धावंति for पावंति, P हणलुपच्छिंदइ मारे तूरेह. 22 > P एतेहिं पुणो धक्कण णारया जलण, P वयणा for विमणा. 23 > P एते for एए, P जीवाणं, P उप्पाइओ दुक्खं. 24 > P अ for अह, J अह गलियं, P om. गलियं. 25 > J उण. 26 > J य for वि, P वेयरणी, P नाम for तत्त, P च्छट्ठत्ति for झत्ति, P पासं for णासं. 27 > P संगहिय, P महाकसण, P वि छिजंति. 28 > P एते वि, P बहुरुहिर. 29 > P एते वि पुणो, P वग्घेण, J संभरिउं, P वेर त्ति. 30 > P एते, P repeats वियणाए, J मूढवण-सग्गा, P णो for पुणो. 31 > P om. य, J एते, P om. एए, P दुक्खा, P भमंति णच्चं. 32 > P एयं मि मए, J एत्थ for जत्थ, P सउणा, J वह for बहु. 33 > P सिअय्जे for सयणिज्जे (which is a marginal correction of the former in J also), P om. वत्थ, P वत्थरिए. P उववज्जंती.

- 1 एए उण उववण्णा दिव्वालंकार-भूसिय-सरीरा । सोहंति ललिय-देहा दिव्वा दिव्वेहिं रूवेहिं ॥  
 एसो देव-कुमारो रेहइ देवी-सएहिं परियरिओ । आरण्ण-मत्त-मायंग-सच्छमो करिणि-जूहेहिं ॥
- 3 एसो उण सुरणाहो अच्छइ अत्थण-मज्झयारम्मि । बहु-देवीयण-देवीहिं परिगओ माण-पडिबद्धो ॥  
 एसो पुण आरूढो उवरिं एरावणस्स दिव्वस्स । विज्जुज्जल-जालावलि-जाला-मालाहिं दिप्पंतो ॥  
 एसो वि को वि देवो लिहिओ सुर-पेक्खणं पलोएंतो । णट्टोवयार-सरहस-हाविर-भावाओ देवीओ ॥
- 6 एयाओ पुण पेच्छसु मंथर-गमणाओ पिहुल-जहणाओ । तणु-मज्झेण य थणयल-रेहिरंगीओ ललियाओ ॥  
 एया पुण विलयाओ गायंति सुहं-सुहेण तुट्ठाओ । अच्छइ थंभिय-मणसो गीएण इमो वण-गओ व्व ॥  
 एयाण वि एत्थ पुणो कुमार दे पेच्छ विलिहिया एए । किंविस्सिया णाम सुरा किंकर-सरिसा इमे अहमा ॥
- 9 एए परिवेयंता दुक्खं वेदंति णत्थि संदेहो । एसो एत्थ महप्पा अम्हे उण किंकरा जाया ॥  
 एसो वि को वि देवो चवणं णाऊण अत्तणो अहरा । परिहीयमाण-कंती मिलान-मल्लो दुहं पत्तो ॥  
 अण्णो वि एस जीवो विलवइ कलुणं सुदीण-मण-जुत्तो । हा हा अहं अउण्णो संपइ पडिहामि असुइम्मि ॥
- 12 एसो वि को वि देवो विलवंतो चैय देवि-मज्झाओ । पवणेण पईवो इव ज्जत्ति ण णाओ कहिं पि गओ ॥  
 एयं कुमार सव्वं देवत्तणयं मए वि-लिहिऊण । एसो पुणो वि लिहिओ मोक्खो अच्चंत-सुभ-सोक्खो ॥  
 एत्थ ण जरा ण जम्मं ण वाहिणो णेय मरण-संतावो । सासय-सिव-सुह-ठाणं तं चैय सुहं पि रमणिज्जं ति ॥
- 15 एवं कुमार, तेण साहिए तम्मि तारिसे संसार-चक्क-पडम्मि पच्चक्खीकए चित्तियं मए । 'अहो, कट्टो संसार-वासो, दुग्गमो 15  
 मोक्ख-मग्गो, दुक्खिया जीवा, असरणा पाणिणो, विसमा कम्म-गई, मूढो जणो, णेह-णियलिओ लोओ, असुइयं सरीरं,  
 दारुणो विसओवभोओ, चवलं चित्तं, वामाई अक्खाई, पच्चक्ख-दीसंत-दुक्ख-महासागरोगाढ-हियओ जीव-सत्थो ति ।
- 18 अवि य । 18

मणुयाण णत्थि सोक्खं तिरियाण ण वा ण यावि देवाण । णरए पुण दुक्खं चिय सिद्धीए सुहं णवरि एकं ॥'

चित्तयंतेण भणियं मए । 'अहो तए लिहियं चित्तवडं, सव्वहा ण तुमं मणुओ, इमेण दिव्व-चित्तयम्म-पडप्पयारेण

- 21 कारणंतरं किं पि चित्तयंतो दिव्वो देवलोयाओ समागओ'त्ति । एवं भणंतेण दिट्ठं मए तस्स एक-पएसे अण्णं चित्तयम्मं । 21  
 भणियं च मए 'अहो उवज्जाय, एवं पुण इमाओ संसार-चक्काओ अइरित्तं, ता इमं पि साहिज्जउ मज्झं'ति ।

§ ३०२ ) इमं च सोऊणं दंसिउं पयत्तो उवज्जाओ । कुमार,

- 24 एयं पि मए लिहियं पेच्छसु सुविभत्त-रूव-सविभायं । काणं पि दोणह चरियं भवंतरे आसि जं वत्तं ॥ 24  
 एसा चंप त्ति पुरी लिहिया धण-रयण-कणय-सुसमिद्धा । दीसंति जीय एए पासाया रयण-पोंगिह्ला ॥  
 दीसइ णायर-लोओ रयणालंकार-भूसिओ रम्मो । दीसइ य विवणि-मग्गो बहु-धण-संवाह-रमणिज्जो ॥
- 27 एसो वि तत्थ राया महारहो णाम पणइ-दाण-परो । अच्छइ तं पालेंतो लिहिओ से मंदिरो एत्थ ॥ 27  
 एत्थ य महामहप्पा धणदत्तो णाम बहु-धणो वणिओ । देवी य तस्स भज्जा देवि व्व विलास-रूवेण ॥  
 ताणं च दोणह पुत्ता दुवे वि जाया मणोरह-सएहिं । ताणं चिय णामाई दोणह वि कुलमित्त-धणमित्ता ॥
- 30 ताणं जायाणं चिय णिहणं से पाविओ पिया सहसा । अत्थं सव्वं चिय से परिगयमाणं गयं णिहणं ॥ 30  
 णिज्जीण-विहव-सारा परिवियलिय-सयल-ल्येय-वावारा । परिहीण-परियणा ते दोग्गचं पाविया वणिया ॥  
 एक्का ताणं माया अवरो से ताण णत्थि वंधुयणो । अकय-विवाहा दोणिण वि कमेण अह जोच्चणं पत्ता ॥
- 33 भणिया ते जणणीए पुत्त मए बाल-भाव-सुद्धयरा । तुम्हे जीवावियया दुक्खिय-कम्ममाई काऊण ॥ 33

1 > JP एत्ते, P °लंकारभूविलासरूवेण । and further adds ताणं च दोणह पुत्ता etc. to णिहणं । निदीसियसरीरा before सोहंति etc. as at ll. 29-31, p. 190, J दिव्वे for दिव्वा. 2 > P देविकुमारो, P सच्छिमो करणि-. 3 > P उण सुरणाहो, P देवी उण, P पडिगओ. 4 > J एसो उण, P om. दिव्वस्स, J वज्जुज्जलजलणावलि, P दिप्पंता. 5 > J णट्टोवहारसहरिस, P णज्जेवयार-, P हाविरहावाउ. 6 > JP पुणो, P पेहुलजघणाओ, J जहणाओ । थणमज्झेण, J adds स before रेहिरं°. 7 > J एता पणमउ व्व. 8 > P एया वि, P विलिहिया एत्ते । 9 > P एत्ते, J परिवेयंता, P वेयंति णत्थ, P एसो, P एयाओ, P उट्ठाओ । P वणमउ व्व. 10 > P एत्थ, J विलिहिया एत्ते । 11 > P अण्णो, P अउणो. 12 > J चैय. 13 > P inter. वि & पुणो, J सुह, P साक्खो. rather [अण्णे] उण. 14 > P om. ण after जरा, P वाहिणा, P संतावो । सासय सिव ठाणं, J सुहं परमणिच्चं ॥ इति ॥ 15 > P adds च after एवं, P चक्के पडमि, J om. मए । अहो. 16 > P लोहो for लोओ. 17 > J विसयोवमोओ, P om. चवलं चित्तं, J अकवटं, P पच्चक्खं, J आढ for गाढ, P थि for त्ति. 18 > J वि ताव for ण वा ण यावि, P देवेण । and further repeats णरए वामाई अक्खाई etc. to ण यावि देवेण । 19 > J वि ताव for ण वा ण यावि, P देवेण । and further repeats णरए वामाई अक्खाई etc. to ण यावि देवेण । 20 > P चित्तियं तेण, P om. मए, P चित्तियंमपडसारेण. 21 > J देवलोयाओ, J तक्कयप्से, P अक्खाई etc. to ण यावि देवेण । 22 > J अणं पुण, JP अतिरिचं, P सादिल्लओ मज्झ त्ति. 23 > J उवज्जाओ. 24 > P एयं मि मए, J P अन्नं चित्तयंमं. 25 > P रयणवंगिह्ला. 26 > J adds वर पेच्छअ for पेच्छसु, J रूवयविभायं, P ताणं for काणं, J हवंतरे for भवंतरे. 27 > P एत्थ for तत्थ, P पालेंतो, P लिहिओ ने मंदिरे. 28 > J धणमित्तो णाम बहुवणो धणिओ. before रयणां, J विमणि. 29 > J om. च, J दोणहं, P inter. धणमित्त and कुलमित्त (त्ता). 30 > P णिहणं स पिया महसा, J परिगमाणं. 31 > P 29 > J om. च, J दोणहं, P inter. धणमित्त and कुलमित्त (त्ता). 32 > P एक्काण ताण माया, P विवाहा. 33 > P विवाय for वियया. निज्जीण, P दोग्गचं.

- 1 एणिह जोव्यण-पत्ता सत्ता दाऊण मज्झ आहारं । ता कुणह किं पि कम्मं इय भणिरिं पेच्छ मायं से ॥ 1  
एए वि मए लिहिया लग्गा णिययम्मि वणिय-कम्ममि । तथ वि य णत्थि किंचि वि जेण भवे भंड-मोहं ति ॥
- 3 अह होइ किंचि तथ वि जं चिय गेण्हंति भंड-जायं ति । जं जं घेप्पइ दोहिं वि तं तं एक्केण विक्काए ॥ 2  
जं एक्केण गहियं मग्गिज्झइ तं पुणो वि अद्वेण । अद्वेण जं पि किणियं वच्चइ तं ताण पाएणं ॥  
इय जाणितं वणिजं णत्थि अउण्णेहिं किंचि लाइं ति । ताहे लग्गा किसि-करिसणम्मि कह-कह वि णिव्विण्णा ॥
- 6 § ३०३ ) एए ते मे लिहिया हल-गंगल-जोत्त-पग्गह-विहत्था । अत्ताणं दममाणा गहिया दारिइ-दुक्खेण ॥ 6  
जं किंचि घरे धणं सव्वं खेत्तम्मि तं तु पक्खित्तं । मेहा ण सुयंति जलं सुकं तथ्येयं तं धणं ॥  
अह ते तं चइऊणं लग्गा थोरेसु कह वि दुक्खत्ता । एए मए वि लिहिया आरोविय-गोणि-भरयाला ॥
- 9 एए वि ताण थोरा तिलयं होऊण वाहिया सव्वे । णीसेसं ते वि मया तथ विभग्गा अउण्णेण ॥ 9  
वित्तीए संतुट्ठा पर-गेहे अच्छिउं समादत्ता । एत्थ वि एसो सामी ण देइ वित्ती अउण्णाण ॥  
एए पुणो वि ते चिय वेरगेणं इमं परिच्चइउं । अण्णत्थ पुरवरीसुं उवागया जाय-णिव्वेया ॥
- 12 एत्थ वि एए भिक्खं भमंति घरयंगणेषु भममाणा । ण लइंति तथ वि इमे णेण वि कम्मेण असुहेणं ॥ 12  
एवं च ते कमेणं पत्ता णिव्वेय-दुक्ख-संतत्ता । रयणायरस्स तीरं अत्थं परिमग्गारा वणिया ॥  
ताव य को वि इमो सो परतीरं पत्थिओ इहं वणिओ । वेत्तूण वहुं भंडं जाणं भरिऊण वित्थिण्णं ॥
- 15 एसो सो तेहिं समं वणिओ भणिओ वयं पि वच्चामो । देज्जसु अहं वित्ती जा तुह पडिहाइ हिययस्स ॥ 15  
वणिएण वि पडिव्वणं एवं होउ ति वचह दुवे वि । दाहामि अहं वित्तिं अण्णाण वि जं दइहामि ॥  
एयं तं पोयवरं कुमार एयम्मि सलिल-मज्झम्मि । पम्मोक्खियं जहिच्छं धवलुव्वत्तंत-विजयाहिं ॥
- 18 एयं एसुइ-मज्जे वच्चइ जल-तरल-वीइ-हेलाहिं । सहसा अह फुडियं चिय लिहियं तं पेच्छ बोहित्थं ॥ 18  
एए वि वणियउत्ता दुवे वि सलिलम्मि दूर-तीरम्मि । कह कह वि णिव्वुंता फलयारूढा गया दीवं ॥  
तरिऊण महाजलहिं एए पुच्छंति एस को दीवो । एसो इमेहिं कहिओ केहि मि जह रोहणो णाम ॥
- 21 एयं सोऊण इमे लट्ठं जायं ति हरिसिया दो वि । अवरोप्पर-जंपंता एए मे विलिहिया एत्थ ॥ 21  
एयं तं दीववरं जत्थ अउण्णो वि पावए अत्थं । संपइ ताव खणामो जा संपत्ताइ रयणाइ ॥
- § ३०४ ) एवं भणिऊण इमे खणितं चिय णवर ते समादत्ता । दियहं पि अह खणंता ण किं चि पावति ते वरया ॥
- 24 अह तथ वि णिव्विण्णा अट्ठीणा कं पि एरिसं पुरिसं । धाउव्वायं धम्मिओ त्ति तेण ते किं पि लिक्खिविया ॥ 24  
तथ वि खणंति गिरि-कुहर-पत्थरे णट्ठ-सयल-पुरिसत्था । ते च्चिय धमंति सुइरं तथ वि छारो परं हत्थे ॥  
तथ वि तेणुव्विग्गा लग्गा अह खेलितं इमे जूयं । एत्थ वि जिणिऊण इमे वद्धा सहिएण ते वणिया ॥
- 27 कह-कह वि तथ मुक्का लग्गा ओलगिउं इमे दो वि । तथ वि एसो जाओ संगामो पाडिया वद्धा ॥ 27  
एत्थ वि चुक्का मुक्का अंजण-जोएसु पोय-रूवेसु । अंजंति य णयणाइ उववाओ जाव से जाओ ॥  
अह पुण ते चिय एए कं पि इमं गहिय-पोत्थय-करग्गा । पुरओ काउं पुरिसं विलम्मि पविसंतया लिहिया ॥
- 30 एत्थं किर होहिइ जक्खिणि त्ति अग्गे वि कामुया होहं । जाव विगराल-वयणो सहसा उद्धाइओ वग्गो ॥ 30  
एए ते चिय पुरिसा मंतं गहिऊण गुरुयण-सुहाओ । सुद्धा-मंडल-समएहिं साहणं काउमादत्ता ॥  
एत्थ वि साहंताणं सहसा उद्धाइओ परम-भीमो । रोदो रक्खस-रूवी पुच्च-कओ पाव-संवाओ ॥ सच्चहा,
- 33 जं जं करंति एए पुव्व-महा-पाव-कम्म-दोसेण । तं तं विहडइ सव्वं बालुय-कवलं जहा रइयं ॥ 33

1 > J सत्ता for सत्ता. 2 > P एते वि माइभणिया लग्गा, P किंची जेण. 3 > J inter. तथ & किंचि, J adds ता before जं चिय, P भंडमुहं पि ।, P om. वि, J om. one तं, J विक्राइं for विक्काए. 4 > J तत्थाण for तं ताण. 5 > J ता for ताहे. 6 > P एते ते, P गहिता दारिइरक्खेण. 7 > P धणं सव्वं. 8 > P लग्गा थोरेसु, P व for वि, P एते. 9 > P एते, P ताण थोरा, P सत्थो for सव्वे, P णीसेसे for णीसेसं. 10 > P मी for सामी, P देति. 11 > P एते, P परिव्वइओ । 12 > P एते, P वरपंगणेषु. 14 > J इमा सा परतीरं, P वहु. 15 > P repeats भणिओ. 16 > P दाहामि तुहं वित्ती. 17 > J P एतं, J पोतवरं P पाववरं, P एतंमि, P धवलुव्वत्तंत. 18 > P एतं, P नीतिहेलीहिं, P अह for तं. 19 > P एतेवि, P om. one कह, P वि णिव्वत्तंता फलरूढा. 20 > P एते, P इमोण for इमेहिं, P केइहिं जह. 21 > P एतं, P लट्ठं, P एते, P विलिया. 22 > P एतं, P तथ अतत्तो for जत्थ अउण्णो. 23 > P पत्ता ए for चिय णवर, P ता णं for ता ण, J ताण इंचि. 24 > P अट्ठीणा किंपि, P पुरि for पुरिसं. 25 > J किर for चिय, P हत्थो. 26 > P विग्गा अदत्ता खेच्छिउं इमे. 27 > P चुक्का for मुक्का, P इसो for एसो. 28 > P तथ for एत्थ, J जोएसु पायरूवेसु । अंजंति, J उवग्गतो. 29 > J एते किं पि अइं, P इमं महियं, P करम्मं, J पुरिसं पिच्छंमि, P पइसंतया. 30 > P एत्थ किर होहिनि, J विअराल. 31 > J एते, P गुरुयसुहाओ. 32 > J साहंताणं P साहंताणं. 33 > P एते, P विहडसव्वं.

- 1 अह एए एयं जाणिऊण णिव्विण्ण-काम-रइ-भोगा । देवीएँ पाय-वडिया चिट्ठंति इमे सुह-णिव्वण्णा ॥ 1
- एत्थ वि सा हो देवी कथ वि अण्णत्थ पवसिया दूरं । एए वि पेच्छ वरया सेलत्थंभोवमा पडिया ॥
- 3 दिवहेहिँ पुणो पेच्छसु सयलाहारेण वज्जिय-सरीरा । अट्टिमय-पंजरा इव णिव्विण्णा उट्टिया दो वि ॥ 3
- § ३०५ ) कह कह वि समासत्था एए भणिऊण इय समाढत्ता । अच्चो देव्वेण इमो रोसो अम्हाण णिव्वडिओ ॥
- जं जं करेसु अम्हे आसा-तण्णहल्लुएण हियएण । तं तं भंजइ सव्वं विहिदासो पेच्छ कोवेण ॥
- 6 अम्हाण धिरत्थु इमं धिरत्थु जीवस्स णिप्पलं सव्वं । घडियम्हे देव्वेणं अहो ण जुत्तं इमं तस्स ॥ 6
- किं तेण जीविणं किं वा जाएण किं व पुरिसेणं । जस्स पुरिसस्स देव्वो अम्हाण व होइ विवरीओ ॥
- दीसंति केइ पुरिसा कम्मि वि कम्ममि सुत्थिया बहुसो । अम्हे उण गय-पुण्णा एकम्मि वि सुत्थिया णेय ॥
- 9 ता अम्ह हो ण कज्जं इमेण जीवेण दुक्ख-पउरेण । आरुहिउं अहवा गिरियडम्मि मुच्चासु अत्ताणं ॥ 9
- एयं चय भणंता पत्ता य इमे चउर-सिहरम्मि । एयं च चउर-सिहरं लिहियं मे पेच्छ णरवसहा ॥
- एत्थारुहंति एए पेच्छसु णरणाह दीण-विमण-मणा । आरुढा सिहरम्मि उ अत्ताणं मोत्तुमाढत्ता ॥
- 12 भो भो गिरिवर-सिहरा जइ तुह पडणो वि अत्थि माहप्पो । तो अम्हे होज्जामो मा पुरिसया परभवम्मि ॥ 12
- इय भणिउं समकालं जं पत्ता घत्तिउं समाढत्ता । मा साहसं ति भणियं कथ वि दिव्वाए वायाए ॥
- सोऊण इमं ते चिय दुवे वि पुरिसा ससज्जसा सहसा । आलोइउं पयत्ता दिसाओ पसरंत-णयणिल्ला ॥
- 15 केणेत्थ इमं भणियं मा हो एयं ति साहसं कुणह । सो अम्ह को वि देवो मणुओ वा दंसणं देह ॥ 15
- एत्थंतरम्मि णरवर पेच्छसु एयं तवस्सिणं धीरं । परिसोसियंगमंगं तेएण य पज्जलंतं वा ॥
- एएण इमं भणियं बलिया ते तस्स चय मूलम्मि । अह वंदिऊण साहू भणियो दोहिं पि एएहिं ॥
- 18 § ३०६ ) भो भो मुणिवर सुव्वउ कीस तुमे वारियम्ह पडणाओ । णणु अम्ह साहसमिणं जं जीवामो कह वि पावा ॥ 18
- भणियं च तेण मुणिणा वर-पुरिसा तुम्ह किं व वेरगं । भणियो इमेहिँ साहू दारिदं अम्ह वेरगं ॥
- तेण वि ते पडिभणिया कुणह य अत्थस्स बहुविह-उवाए । वाणिज्जं किसि-कम्मं ओलगादी बहु-वियप्पा ॥
- 21 तेहि वि सो पडिभणियो भगवं सव्वे वि जाणिया एए । एक्केण वि णो किंचि वि तेण इमे अम्ह णिव्विण्णा ॥ 21
- मुणिणा पुणो वि भणियं एए तुम्हेहि णो कया विहिणा । जेण अहं तुह भणिमो करेह तेणं विहाणेणं ॥
- भणियं च तेहिँ भगवं आइस दे केण हो उवाएण । अत्थो होहिइ अम्हं सुहं च परिभुंजिमो बहुयं ॥
- 24 भणियं च तेण मुणिणा जइ कज्जं तुम्ह सव्व-सोक्खेहिं । किसि-कम्म-वणिज्जादी ता एए कुणह जत्तेण ॥ 24
- कुणसु मणं आमणयारयं ति देहामणेसु वित्थिण्णे । पुण्णं गेण्हसु भंडं पडिभंडं होहिइ सुहं ते ॥
- अह कह वि किसिं करेसि, ता इमं कुणसु ।
- 27 मण-गंगलेण पूए सुपत्त-खेत्तम्मि वाविए वीए । सयसाहं होइ फलं एस विही करिसणे होइ ॥ 27
- अह कह वि गोवालणं कुणसि, ता इमं कुणसु ।
- § ३०७ ) गेण्हसु आगम-लउडं वारे पर-दार-दव्व-खेत्तेसु । इंदिय गोरुययाइं पर-लोए लहासि सुह-वित्तिं ॥
- 30 अह कम्मं ता करेसि, ता इमं कुणसु । 30
- जं जं भणाइ सामी सव्वण्णू कुणह भो इमं कम्मं । तं तं करेह सव्वं अक्खय-वित्तीय जइ कज्जं ॥
- अह वच्चह जाणवत्तेण, ता इमं कुणसु ।
- 33 कुण देह जाणवत्तं गुणरयणाणं भरेसु विमलाणं । भव-जलहिं तरिऊणं मोक्खदीवं च पावेह ॥ 33

1 > P एते एतं, J तं for एयं, P णिव्वन्नकामरइअभोगा, P सुहनिसन्ना ॥ 2 > P om. हो, P विरया for वरया, J वडिया for पडिया. 3 > P अट्टिमयं. 4 > P एते, P देव्वेण, J णिव्वरिओ. 6 > P om. इमं धिरत्थु, J घडिअम्हे P घडिओ म्हे, P देव्वेणं. 7 > P देवो, P वि for व. 8 > P केवि for केइ, P कंमं वि. 9 > J जीएण, P आरुहयं, J अह for अहवा, P मुव्वम्ह for मुच्चासु. 10 > P एतं, P पउर for चउर, P वर for च चउर. 11 > P एते, P दीव for दीण, J om. उ. 12 > P पटणा वि, P परिभवम्मि. 13 > J जाअंता for जं पत्ता, P पत्ता घेत्तिउ, P om. भणियं, P adds भणिया after वि. 14 > P सज्जसा, P आलोइयं, J पसरंत-णयणिल्ला. 15 > P वि देवो, P देओ for देह. 16 > P पेच्छह एतं तवसिणं, J परिसेसि. 17 > P एए इमं, P भणिया, P एयस्स for ते तस्स, J साहू, J दोहिं पि. 18 > P पव्वओ for सुव्वउ, P वारिया अम्ह. 19 > P inter. किंचि (P किम्ब) & तुम्ह, P तुह for तुम्ह, J इमेण साहू. 20 > P बहुविहओवाओ 1, J वाणिज्जकिसी, P ओलगादी. 21 > J तेहिंसो पडिभणिमो, P एते 1, P णा पुणो. 22 > J करेसु. 23 > P आइस डेकोण, P होही अम्हं, J पडिभुंजिमो. 24 > J om. तेण, P अत्थे for सत्थ, P कम्म- for णो. 25 > J कुणसु. 25 > P कुणसु for कुणसु, J आमणयारयं ति P आमणयारयं, P देहामणे, P पुण्णं for पुण्णं, P मटं विणिज्जाती ता, J एते कुणसु. 26 > P वि कहिं करेसु, J किसि करेसि. 27 > J एते सुपत्त, P सुपत्त, P टाविए for वाविए, P सयसोह, P करिसणा. 28 > P गोवालत्तं, P om. कुणसि ता इमं. 29 > P गोरुवार्ड, P लउडु. 31 > P adds होइ before कुणह, P मं for भो इमं. 33 > J कुण जाणवत्तं देहं, P तरंत्तु for भरेसु, P मोक्खे दीवं वि पां.

- 1 अह खणसि रोहणं, ता इमं कुणसु ।  
पाणं कुण कोदालं खण कम्मं रोहणं च चित्थिणं । अइरा पाविहिसि तुमं केवल-रयणं अणग्घेज्जं ॥
- 3 अह कुणह थोर-कम्मं, ता इमं कुणसु ।  
मण-थोरं भरिऊणं आगम-भंडस्स गुरु-सयासाओ । एयं हि देसु लोए पुण्णं ता गेणह पडिभंडं ॥
- अह भिक्खं भमसि, ता कुणसु ।
- 6 गेणहसु दंसण-भंडं संजम-कच्छं मइं करकं च । गुरु-कुल-धरंगणेसुं भम भिक्खं पाण-भिक्खट्टा ॥  
अण्णं च जूयं रमियं, तं एवं रमसु ।  
संसारम्मि कडित्ते मणुयत्तण-कित्ति-जिय-वराडीए । पत्तं जइत्तणमिणं मा घेप्पसु पाव-सहिण्ण ॥
- 9 अह धाउच्चायं ते धमियं, तं पि  
तव-संजम-जोएहिं काउं अत्ताणयं महाधाउं । धम्मज्जाण-महग्गिणं जइ सुज्जइ जीय-कणयं तं ॥  
किं च राइणो पुरओ जुज्जियं तुम्हेहिं । तत्थ वि,
- 12 ओलगाह सव्वण्णू इंदिय-रिउ-डामरेहिं जुज्जसु य । तव-कइय-करवाला जइ कज्जं सिद्धि-णयरीए ॥  
अह मल्लत्तणं कुणसु ।  
संजम-कच्छं अह वंधिऊण किरिया-वलम्मि ठाऊण । हणिऊण मोह-मल्लं जय-णाण-पडाइयं गेणह ॥
- 15 किं च अंजणजुत्ती तुम्हेहिं कया, तं पि सुणेसु ।  
संजम-दंसण-जोयं-णाण-सलायाए अंजियच्छि-जुओ । पेच्छसि महाणिहाणे णरवर सुर-सिद्ध-सुह-सरिसे ॥  
अण्णं च असुर-विवरे तुम्हे पविट्टा थसि । तत्थ वि,
- 18 णाण-जलंत-पदीवं पुरओ काऊण किं पि आयरियं । विसिउं संजम-विवरे गेणहह सिद्धिं असुर-कणं ॥  
[ ३०८ ] किं च मंतं साहिउं पयत्ता, तं च इमिणा विहाणेण साहेयव्वं । अत्रि य ।  
समयम्मि समय-जुत्तो गुरु-दिक्खा-दिण्ण-सार-गुरु-मंतो । सिद्धंतं जवमाणो उत्तम-सिद्धिं लहसि लोए ॥
- 21 अण्णं च देवया आराहिया तुम्हेहिं सा एवं आराहेसु ।  
सम्भत्त-णिच्छिय-मणो संजम-देवंगणम्मि पडिऊण । जइ ते वरेण कज्जं दिक्खा-देविं समाराहे ॥  
एयाइं वणिजाइं किरि-कम्माइं च एवं कीरमाणाइं उत्तम-वहु-णिच्छय-फलाइं होति ण अण्णह त्ति 'ता भो वणियउत्ता,
- 24 मा णिव्वेयं काऊण पाण-परिचायं करेह । जइ सव्वं दुग्गच्च-णिव्वेएण इमं कुणह, ता किं तुम्ह इह पडियाणं दोहगं 24  
अवसप्पइ, पावसप्पइ । कहं ।  
पुच्च-कय-पाव-संचय-फल-जणियं तुम्ह होइ दोग्गच्चं । ता तं ण णामइ चिय जाव ण णट्टं तयं पावं ॥
- 27 एवं च तस्स णासो ण होइ जम्मे वि पडण-पडियस्स । अण्णम्मि वि एस भवंतरम्मि तह चेय तं रइयं ॥  
ता मा होहिह मुद्धा अयाणुया वाल-मूढ-सम-सरिसा । अत्ताण-वज्जयारा पावा सुगइं ण पावेह ॥  
तओ तेहिं भणियं ' भगवं, कइं पुण जम्मंतरे वि दारिइं पुणो ण होइ ' त्ति । भगवया भणियं ।
- 30 ' जइ कुणह तवं विडलं दिक्खं घेत्तूण गस्य-वेरग्गा । ता हो पुणो ण पेच्छह दारिइं अण्ण-जम्मे वि ॥ ' 30  
तओ एवं च णिसामिऊणं इमेहिं भणियं ' भगवं, जइ एवं ता दारिइ-भय-विहलाण सरणं होहि, देसु दिक्खं ' त्ति । तओ  
कुमार, दिण्णा दिक्खा ताणं तेण सुणिणा, इमे य ते पव्वइया, मए लिहिया तवं काऊण समाइत्ता । कालेण य इमे ते चेय
- 33 मरिऊण देवलोगं पाविया । पुणो तम्मि भोए भुंजिऊण एसो एको ताणं चविऊण देव-लोगाओ वारवईं णाम णयरी तत्थ 33

2) J व for च, P अणग्घेय. 4) P मणघोरं भणिऊण आगम-; J एअम्मि P एतं हो for एयं हि. 6) P दंसणदंडं संड  
जमसमिइं तवं करकं च । 7) P जूयरमियं, J एअं for एवं. 8) P कडित्ते, P कित्ति for कित्ति. 9) P धाउच्चायं ते धमियं तं.  
10) P धम्महा for महा, P महग्गी जय सुज्जइ जीयकणयं. 11) P किं वि राइणो, P जुज्जियओ, J तुम्हेहिं. 12) J सव्वण्व  
for सव्वण्णू, P रिओडामएहिं जुज्जसि, J -डामरेहिं जुज्जसु आ । 13) J मल्लत्तणं कुणह, P मल्लणं. 14) P किरिय-. 15)  
P किं वि अंजणजुत्तीउ, J तुम्हेहि, J सुणसु. 16) P दंसणजोगं, J सिद्धिः, P -सरिसो. 17) P सुह for असुर. 18) J  
पइवं. 19) P किं वि, P साहितव्वं. 20) P om. समयम्मि, P -गुरुमंतो, P -सिद्धी लहसु. 21) J om. च, P देवता, P  
तुम्हे सा. 22) J ए for ते, P देवी समाराह । 23) P एताइं, J एयाइं अवणिज्जइ किसिक्कमादीणि एवं कीरमाणा अत्तमदु-  
पुण & कहं, P adds दा वि after वि, P होहि त्ति. 30) P कुणसि for कुणह, P दुक्खं for दिक्खं, P गस्य, J तम्हा for  
ताहो, J अण्णजम्मन्नि ॥ 31) P om. च, P दारिइं, P दोहि for होहि, P om. ति. 32) P दिक्खियाणं for दिण्णा दिक्खा  
ताणं, P सुणिणो दिण्णा इमे य, P repeats जइ एवं ता etc. to मए लिहिया । तवं and adds च before काऊण. 33) J  
देवलोजं, J तम्मि अ भोअ सुं, J देवलोजाओ, P वारवती.

- 1 सीह-रणो पुत्तो भाणू णाम जाओ । सो एत्थ उज्जाणे वट्टइ, तुमं जो पुण दुइओ से भाया सो अहं एयं पडं लिहियण 1  
तुम्ह पडिबोहणत्थं इहागओ । ता भो भो भाणुकुमार, पडिबुज्झह पडिबुज्झह । भीमो एस संसार-वालो, दुग्गमो मोक्ख-  
3 मगो, तरलाओ संपयाओ, हत्थ-पत्ताओ विवत्तीओ, दूसहं दारिहं, सो से एस जीवो, असासयाइं पयत्थाइं । अवि य । 3  
णाऊण इमं सव्वं संसार-महण्णवे महादुक्खं । बुज्झसु भाणुकुमारा मा मुज्झसु विसय-सोक्खेहिं ॥ ति ।  
इमं च सोऊण ईहापोह-मग्गणं करेमाणो धस ति सुच्छिओ भाणुकुमारो । ताव य उद्धाइया पास-परिवत्तिणो वयंसया ।  
6 तेहि य आसासिओ सीयलेणं कयली-दल-पवणेणं । समासत्थेण य भणियं भाणुकुमारेण ।  
'तं णाहो तं सरणं तं चिय अह बंधवो महापुरिस । जेण तए हं मूढो एसो सुमराविओ एण्ह ॥  
सव्वं सरियं जम्मं पुव्वं अम्हेहिं जं कयं आसि । तं एयं सव्वं चिय चरियं अम्हेहिं अणुहूयं ॥  
9 § ३०९ ) एवं च भणमाणो अहं णिवडिओ चलणेसु । पणाम-पञ्चुट्ठिओ य पेच्छामि तं उवज्जायं । अवि य । 9  
वर-वेजयंति-माला-परियरिए रयण-किरण-विच्छुरिए । दिव्वे विमाण-रयणे मज्झ-गयं रयण-पुजं व ॥  
वर-हार-मउड-राहं वणमाला-धोलमाण-सच्छायं । मणि-कुंडल-गंडयल्लसंत-दिती-पयासेंतं ॥  
12 भणियं च तेण देवेणं । 'भो भो भाणुकुमार, दिट्ठो तए एस संसार-महाचक्क-वित्थरो, जायं तुह वेरग्गं, संभरिया जाइं, अम्हे 12  
ते दोण्णि वि सहोयरा वणिय-दारया, पावियाइं इमाइं दोग्गच्च-दुक्खाइं । पुणो तेण रिक्खिणा संबोहिया, तओ एसा  
रिद्धी पत्ता । तत्थ य तुमं एको चविऊण समागओ । ता दुल्लहं मणुयत्तणं, पत्थणीयाइं सुहाइं, परिहरणीयाइं  
15 णरय-दुक्खाइं, तुल्लग-पावणीयं जिणवर-धम्मं, ता सव्वहा ण कज्जं माणुसेहिं भोगेहिं, दिक्खं पडिवज्ज भगवंताणं साहूणं 15  
संतियं । जेण य पावेसि तुमं । अवि य ।  
जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सुहं महत्थं तं सिद्धिं पावसे जेण ॥'  
18 एवं च कुमार, तेण देवेणं भणिए समाणे, मए उम्मुक्काइं तक्खणं चेय आभरणाइं, कयं सयं चेव पंच-मुट्ठियं लोयं उत्तिमंगे, 18  
उवणीयं च तेण य दिव्वेणं रयहरण-मुहपोत्तिया-पडिग्गहादीयं उवगरणं, णिक्खंतो उज्जाणाओ । ताव य हाहा-रव-मुहलो  
वयंस-भिच्च-सत्थो उद्धाइओ सीह-रणो सयासं । अहं पि तेण देवेण तम्हाओ पदेसाओ अवहरिय इह पदेसे मुक्को । संपयं पुण  
21 कं पि आयरियं अण्णिस्सामि जस्स मूले पव्वज्जं करेमि ति । ता इमिणा वुत्तंतेण एत्थ वणे अहं इमिणा य पव्वइओ ति । 21  
इमं च णिसामिऊण भणियं च कुमारेण । 'अहो, महंतो वुत्तंतो सुंदरो एस संसार-चक्क-पओओ, णिउणो य भाया दिव्वो ।  
कयं तुह भाउयत्तणं, तेण पुण्णवंतो तुमं जेणं इमं पावियं' ति । इमं च सोऊण महिंदकुमारेण वि गहियं सम्मत्तं,  
24 पडिवण्णाइं अणुव्वयाइं । भणियं च महिंदेण 'अहो, एरिसो तुमं अम्हाणं णिण्णेहो जेण भगवओ धम्मं णाविकिखयं' । 24  
कुमारेण भणियं । 'महिंद, पुव्व-विहियं एयं णियय-परिणामेण पाविज्जइ' ति भणिऊण वंदिऊण साहुं उवगया आवासं ति ।  
भणियं च कुवलयचंदेण । 'अहो एरिसो एस जिणवर-मगो दुग्गमो जेण बहुए जीवा मिच्छा-विद्यप्प-वामूढा परिभमंति  
27 संसारे, ण उण सयल-तेलोक्क-पयड-रूवं पि इमं जिणधम्मं पावंति । ता ण-याणामो किं कम्माणं बलवत्तप्पणं, आहु 27  
जीवस्स मूढत्तणं, किं वा जिण-मग्गस्स दुल्लभत्तणं, किं वा विहाणं एरिसं चेय सयल-जग-जीव-पयत्थ-वित्थरस्स' ति । एवं  
भणमाणा केवलि-जिण-साहु-धम्म-सम्मत्त-कहासुं महिंदकुमारस्स दढं सम्मत्त-परिणामं जाणेमाणा संपत्ता तं खंधावार-  
30 णिवेसं । तत्थ कय-कायव्व-वावारा पडियग्गिय-सयल-सेणिय-जणा पसुत्ता । राईए वि पुणो विमले गयणंगणे णिवडमाणेसु 30  
तारा-णियरेसु, संचरमाणेसु हरि-णउलेसु गुहा-मुहेसु, राई-खेय-णीसहेसु मयवईसु, चरमाणेसु महाकरि-जूहेसु, करयरैतेसु  
वायस-सउणेसु, णिलुक्कमाणेसु कोसिय-संधेसु, सव्वहा  
33 कुंकुम-रायारत्ता सूरं दइयं व मग्गए एतं । पुव्व-दिसा महिला इव णहयल-सयणं समारूढा ॥ 33

1 > J adds य after सो and च after तुमं, J adds सो and P adds सोऊण before जो पुण, P इमं for एयं.  
2 > P भाणुकुमार, P ति for second पडिबुज्झह, J भो भो for भीमो, J दुग्गे for दुग्गमो. 3 > P om. पताओ विवत्तीओ etc.  
to महादुक्खं । बु. 5 > J ईहापूह, P विमग्गणं for मग्गणं, J मुद्धाइया P उद्धाइय, P परियत्तणो, J वयंस तेहि. 6 > J om.  
कयलीदल, J adds ति after भाणुकुमारेण. 7 > J मह for अह, P एण्ह. 8 > P om. जम्मं पुव्वं अम्हेहिं, J om. तं, J om.  
चिय. 9 > P पणामि पञ्चुट्ठिओ. 10 > P कणय for किरण. 11 > P सोहं for राहं. 12 > P जाती. 13 > J om. वि, P  
पावियाइं, P दोगच्च, P om. तेण. 14 > P om. य, P चविओ समाउगओ, P माणुसत्तणं. 15 > P om. णरय, P णु for ण.  
16 > P om. अवि य. 17 > P णेय माणुसं दुक्खं सासयमुहपरमत्थं तं. 18 > P कुमारेणं देवेणं, P समाणो, P सयं वे मुट्ठियं  
लोवे उत्तिमंगे, J उत्तमंगे. 19 > P दिव्वेयं, J परिग्गहादीयं उवकरणं णिक्खंताओ, P हा for हा हा. 20 > P om. भिच्च, P  
पएसाओ, P पएसे. 21 > P पुण किं पि, P om. अहं इमिणा य. 22 > P च णेसामिऊण, P om. वुत्तंतो, J om. चक्क, P पओतो.  
P य साया दिव्वा. 23 > J पुण्णवंतो, P एवं for इमं, J कुमारेणावि. 24 > J धम्म, P णाविकिखयं. 25 > J णिय; J साहुं,  
26 > J om. भणियं च कुवलयचंदेण, P परिभमंति. 27 > P adds ता ण धम्मं पावंति after पावंति, P बलवत्तप्पणं, P आउ  
for आहु. 28 > P om. किं वा जिणमग्गस्स दुल्लभत्तणं, J जय for जग, J om. पयत्थ. 29 > P भणमाणो, P जाणेमाणो संत्ता  
पत्तो तं खंधावार, J खंधारणिवेसं. 30 > J adds य after तत्थ, P inter. पुणो & वि, J adds वि after पुणो. 31 > P  
रातीसु for राईखेयणीसहेसु मयवईसु, P करयरैतेसु. 32 > J वायसउलेसु. 33 > J रायारत्तासूरं, P दइयं ति, P पत्तं, J -सयणं.



1 § ३१०) एरिसम्मि य समए दिण्णं पयाणयं ताव जा संपत्ता कमेण विंझ-सिहरासण्णं, तव्य य समावासिया । तओ 1  
 कय-दियह-सेस-परियारा कय-राई-वावारा य णिसण्णा सयणिजेसु । तओ कय-सयल-वावारा उवविट्ठो सयणयले कुमारो 3  
 कुवलयमाला य । तव्य य अच्चिऊण कं पि कालं वीसंभालाव-णिट्ठभरा, पुणो कय-अरहंत-णमोक्कारा कय-जहा-विक्खिय- 3  
 पच्चक्खाणा य णिवण्णा सयणयले, पुणो सयल-खेय-णीसहा पसुत्ता । थोव-वेलाए य विवुट्ठो कुमारो जाव तीए राईए दियट्ठे 3  
 जासं ति पलोयंतेण गयणयलं दिट्ठं एक्कम्मि विंझ-गिरिवर-कंदरालंतरम्मि जलणं जलमाणं । तं च पेच्छिऊण त्रियप्पिटं 3  
 6 समाढत्तो कुमारो । 'अहो, किं पुण इमं, किं ताव एत्त वणदेवो । सो ण होइ, तेण वित्थारेण होयच्चं, इमं पुण एक्कय पएसे । 6  
 अह होज्ज वसिमं, तं पि एत्थ णत्थि । अह चिति होज्ज, सा वि ण संभावीयइ । दीसंति य एत्थ पासेसु परिभममाणा के वि 6  
 पुरिसा । किं वा ण हांति पुरिसा, रक्खसा पिसाया वा एए । ण मए दिट्ठा रक्खसा पच्चक्खं । ता किं ण पेच्छामि के एए । 6  
 9 किं वा एत्थ पज्जलइ' ति चित्तिऊण सुइरं णिहुयं समुट्ठिओ कुवलयमालं मोत्तुं पलंकाउ ति । णिवद्दा दुरिया । गहियं 9  
 खग-रयणं वसुणंदयं च । णिहुय-पय-संचारं वंचिऊण जामइल्ले गंतुं पयत्तो, तं जलणं थोव-वेलाए य पवण-मण-वेओ 9  
 कुमारो संपत्तो थोवंतर-संठियमुद्देसं थोवंतरेण य णिहुओ टिओ कुमारो, दे किं वा एए मंतयंति, के वि रक्खसा वा पुरिसा 9  
 12 व ति । तओ ते य जंपिटं पयत्ता । 'अरे लक्खह जलण-जालाओ । किं ताव पीताओ, आहु लोहियाओ, किं वा सुक्खिलाओ, 12  
 किं वा कसिण' ति । तओ अण्णेण भणियं 'अरे, किमेत्थ लक्खियच्चं । इमं जालाए लक्खणं । तं जहा । 12

तंवम्मि होइ रत्ता पीता कणयम्मि सुक्खिला रयए । लोहे कसिणा कंसम्मि णिप्पभा होइ जालाओ ॥

15 जइ आवट्टं दच्चं ता एसा होइ अहिय-रेहिल्ला । अह कह वि अणावट्ठो स चिय मउया य विच्छाया ॥ 15  
 अण्णे उण भणंति ।

लक्खेह अगियम्मं णिउणा होऊण सव्व-वुट्ठीए । राहा-वेह-समाणं एयं दुल्लक्खयं होइ ॥

18 जइ मउयं ता वंगं खर-जलणे होइ फुट्टणं कणयं । मउयं वंग-विहीणं अज्ज वि बहुए ण जाणंति ॥' 18  
 अण्णेण भणियं । 'किमेत्थ जाणियच्चं,

जह दीसइ अगि-समा मूसा-अंतो कढंत-धाउ-रसा । जह य सिण्णिदा जाला तह कालो होइ वावस्स ।'

21 एवं च जंपंता णिसुया । 21

§ ३११) कुमारेण चित्तियं च । 'अहो धाउवाइणो इमे तण्हा-वस-विण्डिया वराया पिसाय च्च अट्ठेए गिरि-गुहासु 21  
 य परिभमंति । ता किं देमि से देसणं, अहवा ण दायच्चं देसणं मए इमाणं । कयाइ कायर-हियया एए सं दट्ठुणं दिच्चो ति 24  
 24 संभाविऊण भय-भीया दिसोदिसं पलाइस्संति विवज्जिस्संति वा । ता इहट्ठिओ चैय इमाणं वावारं पेच्छंतो अच्चिस्सं' 24  
 ति टिओ । भणियं च तेहिं 'अहो, एस अवसरो पडिवावस्स, दिज्जउ पडिवावो णिसिच्चउ धाऊ-णिसेगो' ति । भणमाणेहिं 24  
 सव्वेहिं चैय पक्खित्तो सो चुण्ण-जोगो मूसाए । अवसारिया मूसा । पक्खित्ते णिसेगो थोव-वेलाए य णियच्छियं जाव 24  
 27 तंवयं जायं । तओ वज्जेणेव पहया, भोग्गरेणेव ताडिया, जम-डंडेणेव डंडिया विमणा गिरासा सोयाउरा 'धिरत्थु 27  
 जीवियस्स' ति भणिऊण अवरोप्पर-वयणावल्लोवण-विलक्खा जंपिटं समाढत्ता 'भो भो भट्टा, कहिं भणह सामग्गीए जोओ 27  
 ण जाओ, जेण कणयं ति चित्तियं सुच्चं जायं' । तओ एक्केण भणियं । 'दिट्ठ-पच्चओ एस जोगो, सुपसिद्धं खेत्तं, कुल्लो 27  
 30 उववज्जाओ, णिउणा णरिंदा, सरसाओ ओसहीओ, सोहणं लगं, दिण्णाओ वलीओ । तह वि विहडियं सच्चं । णत्थि 30  
 पुच्च-पुण्णो अम्हाणं । को अण्णो संभवो एरिसस्स वि विहडणे, ता एवं गए किं संपयं करणिज्जं' ति । तओ तेहिं भणियं 30  
 'पयट्ठह वच्चामो गामं, किं अवरं एत्थ करियच्चं' ति भणमाणा चलिआ । भणिया य कुमारेण 'भो भो णरिंदा, मा 30

1) P मए for समए, P om. य. 2) J आगया for कय (before राई), P रोती for राई, J णिसण्णो, P adds सत्ता before सयणिजेसु. 3) J णमोक्कारा. 4) J om. सयल, J णीसहो पसुत्तो थोववेलाए, P उवविट्ठो for विवुट्ठो, J om. तीए, P रातीए दिवट्ठुजायं. 5) J पलोयंतेण, P विअप्पिअं. 6) J om. अहो, J om. किं before ताव, P एक्कय. 7) P वो for होज्ज, J संभावीयति P संभावीयत्ति, P परिभममाणा. 8) JP एत्ते, J adds ता and P adds ए before ण मए, P किं for के, JP एत्ते. 9) J वा एतं एत्थ पज्जलइ (ओ?), J सुइरं for सुइरं, P मोत्तुणं for मोत्तं. 10) P रयणी for रयणं, P वि for च, P पयसंचारो, P जलमालं for जलणं, J repeats तं जलणं, J थोव-. 11) J adds तं before थोवंतर, J संठियं उद्देसं P सद्धियमुद्देसं, J थोवंतरेण, P ट्ठिओ, P om. दे, JP एत्ते. 12) J वच्चंति for व ति, P जंपियं, P पयत्तो, P लक्खेह, P repeats अरे लक्खेह जलणजालाओ, P आउ for आहु, J लोहिताओ. 13) P ततो, P एक्केण for अण्णेण, P adds इमं जालाए लक्खियच्चं । before इमं जालाए etc. 14) P रयते, P कसिण ति कंसमि णिप्पिहा होइ. 15) J एस होइ, P om. कह, P अणावट्ठसि व्वय मउया य. 16) J om. उण. 17) P णिऊण होऊण, P सव्व बुट्ठाए, P वेहस्स माणं. 18) P तो for ता, P मउयवगविहीण. 20) P सणिद्धा जा तह, J झाला for जाला. 21) P जंपंतो. 22) J धाउवाइणो, P अट्ठीए. 23) P om. मए इमाणं, P ए for एत्ते. 24) J भयमीता, P दिसादिसं, P repeats पलाइस्सं, J विवज्जिअंति, P 'ट्ठिओ । 25) P दिज्जइ, J -णिसेगिन्ति. 26) P जोगो, J अवसारिया, J पक्खित्तो, P तं for य. 27) P तंवं जायं, P वज्जेण व हया, P भोग्गरेण व, J जमडंडेण व P जमडंडेण व डंडिया, P साआउरा. 28) P जीवियस ति, P वयणावल्लोवणक्खा, J मट्ठो for भट्टा, P om. कहिं, J भग, P adds किं after भणह. 29) P तंवं for सुच्चं, J जोओ, P सुपसिद्धखेत्तं. 31) P पुच्चपुत्राइ अम्हाणं, P एरिसस्स वि. 32) P पट्ट वच्चामो, J अवरं, P णरिंदा, P writes मा वच्चह thrice.

1 वचह, मा वचह' ति । इमं च णिसामिऊण संभम-वस-पसरिय-दिसिवह-लोल-लोयणा भीया कंपत-गत्ता पलाइउं 1  
पयत्ता । तओ भणियं कुमारेण 'भो भो मा पलायह, अहं पि णरिंदो कुतूहलेण संपत्तो, ण होमि रक्खसो । 'मा  
3 पलायह' ति भणिया संठिया । संपत्तो कुमारो । भणिया य कुमारेण 'सिद्धि सिद्धि' ति । पडिभणियं तेहिं 'सुसिद्धि 3  
सुसिद्धि सागयं महाणरिंदस्स, कत्तो सि आगओ' । कुमारेण भणियं 'अहं पि णरिंदो चेष, एयं चिय काउं इह  
समागओ अयोज्जाओ' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं एयं, किं अत्थि किंचि सिद्धं णिव्वीयं अहवा होइ रस-बद्धो  
6 अद्धकिरियावसिद्धो पाओ अहवा विउक्करिसो । कुमारेण भणियं ।

'जइ होइ किंचि दव्वं हौंति सहाय व्व णिउणया केइ । ओसहि-जोयउ अक्खर ता सिद्धं णत्थि संदेहो ॥'

तओ सव्वेहि मि भणियं 'एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । किंतु तुह किंपि सिद्धं अत्थि' । कुमारेण भणियं 'कहं जाणह जहा  
9 मह सिद्धं' । तेहिं भणियं 'अत्थि लक्खणाइं सिद्ध-पुरिसस्स' । कुमारेण भणियं 'केरिसाइं सिद्ध-पुरिस-लक्खणाइं, 9  
भणह' । तेहिं भणियं 'सुणसु,

जो सव्व-लक्खण-धरो गंभीरो सत्त-तेय-संपण्णो । मुंजइ देइ जहिच्छं सो सिद्धी-भायणं पुरिसो ॥

12 इमाइं च लक्खणाइं सव्वाइं तुज्झ दीसंति । ता साहसु किं तुह सिद्धं, किं ता अंजणं, आउ मंतो, आउ तंतो, किं व 12  
जक्खिणी, किं वा काइ जोइणी, किं वा रक्खसी पिसाई वा । किं वा तुमं, को वि विजाहरो देवो वा अम्हे वेलवेसि  
दुक्खिए । ता साहिजउ, कीरउ पसाओ' ति । भणियं च कुमारेण 'अहं माणुसो णरिंदो, ण य मम किंचि सिद्धं' ति । तेहिं  
15 भणियं 'सव्वहा अवस्सं तुह किं पि सिद्धं, तेण एत्थ महा-विंझ-कुहरंतरे सरस-मयणाहि-दिव्व-विलेवण-पसरमाण-परिमलो 15  
अहिणव-समाणिय-तंबोलो दिव्व-कुसुम-विसट्टमाण-कय-मुंढ-मालो तक्खण-सूइज्जंत-बहल-दइया-दिव्व-परिमलो इत्ति इहं  
संपत्तो णिम्माणसे अरण-देसे' ति ।

18 § ३१२ ) चिंतियं च कुमारेण । 'अहो, इमाणं गरुओ अणुबंधो, तं जं वा तं वा उत्तरं देमि' ति चिंतयंतेण भणियं । 18

'जइ एवं ता णिसुणेसु । अत्थि दक्खिण-समुद्-वेला-लगं विजयं णाम दीवं । तत्थ य कुवलयमाला णाम जक्खिणी, सा  
महं कहं पि सिद्धा, तीय एसो पभावो परिमलो य' ति । तओ तेहिं भणियं 'अहो, एवं एयं ण एत्थ संदेहो, केण उण  
21 एरिसं मंतं तुह दिण्णं' ति । कुमारेण भणियं 'अण्णेण महामुणिणा दिण्णो' ति । तेहिं भणियं 'अहो, महप्पभावो मंतो 21  
जेण आगरिसिया तए जक्खिणि' ति । कुमारेण भणियं 'तुम्हे उण किमेत्थ काउमाढत्तं' । तेहिं भणियं 'अउण्ण-फलं'  
ति । कुमारेण भणियं 'तह वि साहह मे, केरिसो जोओ एसो समाढत्तो' । तेहिं भणियं 'जइ फुडं सीसइ ता णिसुणेसु ।

24 एत्थ विंझ-गिरिवरे एयं खेत्तं एयम्मि पएसे तं च अम्हेहि धमिउमाढत्तं । तं च ण सिद्धं सुलुव्वं णिव्वडियं, कणयं तु 24  
पुत्थए लिहियं । कुमारेण चिंतियं । 'ता ण-याणीयइ केरिस-दव्वेहिं वावो पडिबद्धो णिसेओ वा कओ इमेहिं'  
ति चिंतयंतेण भणियं 'अहो, इमं ताव खेत्तं, ता इमस्स कहं पिंडी बद्धा, कहं वा पडिवाग-णिसेए कए' । तेहिं

27 सव्वं कहियं 'इमं इमं च दव्वं' ति । तओ कुमारेण चिंतियं 'अहो विरेयणाइं दव्वाइं, तह वि ण जायं कणगं 27  
ति । ता किं पुण इमाणं एरिसं जायं ति । हूं, अत्थि अवहरियं तं इमाणं' । चिंतयंतेण भणियं कुमारेण 'अहो, गेण्हह  
सज्जेह दव्वं, धमह तुम्हे अहं पडिवायं देमि । जइ अत्थि सत्ती रक्खसाणं वंतराणं वा अवहरंतु संपयं' ति

30 भणमाणस्स सव्वं सज्जीकयं, धमिउं समाढत्ता । थोव-वेलाए य जाणिऊण जाला-विसेसं कुमारेणं अवलंकिऊण सत्तं 30  
णमोक्कारिया सव्व-जय-बंधवा जिणवरिंदो, पणमिया सिद्धा, गहियं तं पडिवाय-उण्णं, अभिमंतियं च इमाए विजाए ।  
अवि य 'णमो सिद्धाणं णमो जोणी-पाहुड-सिद्धाणं इमाणं' । इमं च विज्जं पढंतेण पक्खत्तं मूसा-मुहम्मि, धग ति य

1 > J भीअकंपत. 2 > P महा for मा. 3 > P भडिभडिणियं सुद्धित्तिरेहिं य सागयं for पडिभणियं etc. 4 > J एयं  
त्ति काउं, P चेव पर्यचियं. 5 > P om. अयोज्जाओ, J adds ति after णिव्वीयं, J अहवा होराइ रसबंधो, P अद्धकिरियावसिद्धा पाउ  
णहवा. 6 > J पातो for पाओ. 7 > J जं किंचि अत्थि दव्वं for जइ etc., P अखरसिद्धि. 8 > P वि for मि, P तु for तुह.  
9 > J मम P महा for मह, P सिद्धि 1, P पुरिसस्स लक्खं. 11 > J हरो for धरो, P संपत्तो 1. 12 > P तायंजणं, J आउ, J  
om. आउ तंतो, P रंतो for तंतो. 13 > P किं रक्खसी पिसाती, P वेलवेमि. 14 > J दुक्खिए, P अहो for अहं, J सिद्ध ति 1.  
15 > P मज्झ विंझकुहरंतरे, P दिव्वेविलेव पसरं. 16 > P कयकुंढमालो. 18 > P इमाणं गुर्याणुबंधो, J अणुवद्धो ता जं, P  
चिंतियंतेण. 19 > J समुदे, J om. य, P जा for सा. 20 > P एस भावो परिमलो व ति, P om. ण. 21 > J महापभावो.  
22 > J तुम्हे for तुम्हे. 23 > J om. कुमारेण भणियं, J om. मे, J एसमाढत्तो. 24 > J धमिउं समाढत्तं P धंमिउमाढत्तं, P  
च णिसुद्धं सुव्वं णिव्वत्तियं. 25 > P पडियं for लिहियं, J om. ता, J णयाणसि केरिस, P पडिवंधो, J णिसिओ वा कत्तो. 26 > J  
तेण for चिंतयंतेण, P om. भणियं, P पडिवंधो for पिंडी बद्धा, J om. पडिवाग, J णिसेए कए तेहिं अ सव्वं. 27 > P repeats  
दव्वाइं, J कणयन्ति. 28 > J om. चिंतयंतेण भणियं कुमारेण, P चिंतियंतेण, P om. अहो, J om. गेण्हह. 29 > J मज्जोइ P  
धंमह तुम्हे अहं, J पडिवाव देमि, P om. जइ, P om. वा. 30 > P सज्जीवकयं धंमिउमाढत्ता, J अविबंधिकण. 31 > J पणमिया,  
P अहमंतियं. 32 > J सिद्धादि for इमाणं.

1 पञ्जलिया मूसा ओसारिया य, णिसित्ता णिसेएण थोव-वेलाए णियच्छियं जाव विज्जु-पुंज-सच्छयं कणयं ति । तं च दट्टण 1  
 सव्वे पहरिस-वसुलसंत-रोमंचा णिवडिया चलणेसु कुमारस्स, भणिउं च पयत्ता । 'णमो णमो महारिंदस्स । अहो 1  
 3 अच्छरियं । तं चयं खेतं, तं चयं चुण्णं, सो चयं णिसेओ । अम्हं तंयं जायं, तुह पुण हेमं ति । अत्थि पुरिस-विसेसो 3  
 ति । ता साह, एस को विसेसो' ति भणिए संलत्तं कुमारेणं 'भो भो तुम्हे सद्धाभिसंकिणो सत्त-मंत-रहिया । मए पुण 4  
 सत्तं अवलंबियं, पणमिओ इट्ठ-देवो, मंतं पटियं, तेण मह सिद्धं एयं, ण उण तुम्हाणं' ति । तेहिं भणियं 'देसु अम्हाणं 5  
 6 तं मंतं, साहसु य तं सिद्ध-देव-सुयं ति' । कुमारेण भणियं । 'एत्थ अधिकय-देवओ भगवं सव्वण्णू जेण एयं सव्वं जोणीपाहुडं 6  
 भणियं, ता तस्स णमोक्कारो जुज्जइ । मंतो 'णमो अरहंताणं णमो सव्वसिद्धाणं' ति भणंतो समुट्ठिओ कुमारे 'वच्चाभि 7  
 अहं' ति । तथो तेहिं ससंभमं पायवडिण्हि भणिओ 'देव, पसीदसु करेसु पडिवज्जसु थोलगं ति । तुव्मे उवज्जाया, 8  
 9 अम्हे चट्ट' ति । कुमारेण भणियं 'दिण्णा मए तुम्हाणं विज्जा । संपयं जं चेह कुणह तं चयं सिज्जइ ति । पडिवण्णा य 9  
 मए थोलगा । जइया कहिंचि कुवलयचंदं पुहईवइं सुणेह तइया आगंतव्वं' ति भणमाणो पत्थिओ कुमारे मण-पवण-वेगो 10  
 तं चयं दिसं जत्थागओ, संपत्तो कडय-संणिवेसं उवगओ सयणीयं जाव कुवलयमाला विउद्धा ससंभम-पसारिय-लोल-ल्येण 11  
 12 ण य तं पेच्छइ । कुमारं अपेच्छंती य चिंतिउं पयत्ता 'कत्थ मण्णे गवो मह दइओ, किं कत्थइ जुयइ-वियप्पेण, अहवा 12  
 मंत-साहणेणं, अह विज्जाहरीहिं अवहरिओ, किं णु एयं' ति चिंतयंतीए इत्ति संपत्तो पुरओ । तओ सहरिसाए गहिओ 13  
 कंठे वीसथो य पुच्छिओ । 'देव, जइ अकहणीयं ण होइ, ता साहिज्जउ कत्थ देवो गओ' ति । कुमारेण भणियं । 'किं 14  
 15 तमत्थि जं देवीए ण साहिज्जइ' ति भणिज्जण साहिओ सयलो धाउव्वाइय-वुत्तंति ति । 15

§ ३१३ ) भणियं च कुवलयमालाए 'देव, सव्व-कला-पत्तट्ठा किल्ल अहं, एयं गुरुणो समाइसंता, इमं पुण णरिंद-कलं 16  
 ण-याणिमो । ता कीस ममं ण होसि तुमं उवज्जाओ' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, कीस उण सयल-कला-कलाव-पत्तट्ठाए 17  
 18 वि होज्जण एयं ण सिक्खियं' ति । तीए भणियं 'अज्जउत्त, किर एत्थ णत्थि फलं, वादो चयं केवलं' । कुमारेण भणियं 'मा 18  
 एवं भणह । अवि य ।

अवि चलइ मेरु-चूला सुर-सरिया अवि वहेज्ज विवरीया । ण य होज्ज किंचि अलियं जं जोणी-पाहुडे रइयं ॥'  
 21 तीए भणियं 'जइ गाह, एवं ता कीस एए धाउव्वाइणो णिरत्थयं परिदभंता दीसंति' । कुमारेण भणियं । 'अत्थि णिरत्थया 21  
 णरिंदा जे सत्त-परिहीणा सोय-परिवज्जिया अवंभयारिणो तण्हाभिभूया लुद्धा मित्त-वंचणपरा कयग्वा अदेव-सरणा मंत-वज्जिय- 22  
 देहा असहाया अयाणुया अणुच्छाहिणो गुरु-णिंदया असइहमाणा अलसायंति । अवि य ।  
 24 जे एरिसा णरिंदा आगम-सत्तेहिं वंचिया दूरं । रंक व्व चीर-वसणा भमंति भिक्खं खल-णरिंदा ॥ 24  
 जे उण विवेगिणो उच्छाहिणो वंभयारिणो जिइंदिया अलोलुया अगध्विया अलुद्धा महत्था दाण-वसणिणो मित्त-वच्छला गुरु- 25  
 भत्ता देव-पूयया अभिउत्ता मंतवाएसु ताणं णीसंसयं सिद्धि ति । अवि य ।  
 27 जे गुरु-देवय-महिमाणुत्तप्परा सयल-सत्त-संपण्णा । ते तारिसा णरिंदा करंति गिरिणो वि हेममए ॥' 27  
 कुवलयमालाए भणियं 'जइ एवं, ता कीरउ पसाओ साहिज्जउ मज्झ इमं' ति । कुमारेण भणियं ।  
 'किरियावाइ णरिंदा धाउव्वाइं य तिण्णि एयाइं । लोए पुण सुपसिद्धं धाउव्वाइं इमे सव्वे ॥  
 30 जो कुणइ जोय-जुत्तिं किरियावाइं तु सो भवे पुरिसो । जो उण वंधइ णिउणो रसं पि सो भण्णइ णरिंदो ॥ 30  
 जो गेण्हिज्जण धाउं खेत्ताओ धमइ खार-जुत्तीए । सो किर भण्णइ पयडं धाउव्वाइं जणे सयले ॥  
 किरिया बहू वियप्पा णिव्वीया होइ पाय-वीया य । अद्ध-किरिया य पयडा पाओ तह होइ उक्करिसो ॥  
 33 सा हेम-तार-भिण्णा दुविहा अह होइ सा वि दुवियप्पा । कट्ट-किरिया य पढमा दुइया सरसा भवे किरिया ॥ 33

1 > P पञ्जलियाओ मूसाओ, J णिसेएत्थोअ, P णिसेतेण, J adds य before णियच्छियं, P विज्जपुंज. 2 > P सव्वपहारिस-  
 वसुलसंतरोमंच, J वसुलसंत, P कुभणियं for भणिउं. 3 > P हेमन्ति. 4 > J तुव्वे for तुम्हे, P om. सद्धाभिसंकिणो, J om.  
 सत्त. 6 > P adds हसु after साहसु, J देवयं for देवसुयं, P om. कुमारेण भणियं । 'एत्थ etc. to अम्हे चट्ट' ति ।, J अधिकअ-  
 देवतो. 9 > J चट्टंति. 10 > J वेओ for वेगो. 11 > J सणियं for सयणीयं, P पसरिय. 12 > P om. य before  
 चिंतिउं, P कण्ण for कत्थ, P कत्थ वि जुवइ. 13 > J किण्ण P किण्णु एत ति, J चिंतयंतीय, P तह for तओ, J सहरिसाय.  
 14 > P जइ कहणीयं ण होत्ति ता, P किमेत्थ for किं तमत्थि. 15 > J सयलधा°, JP धाउव्वात्तिय. 16 > P दिव्व for देव, J  
 एतं, P om. एयं. 17 > JP पत्तट्ठा य वि. 18 > P य for एयं, J तीअ, P om. णत्थि फलं, J वातो for वादो, P केवलो णत्थि  
 फलं । कुमारेण. 19 > J मण for भणह. 20 > P मूरुचूला, P अवि हवेज्ज. 21 > J तीय, P धाउव्वाइणा, J णीरत्थयं, P  
 परिभंता. 22 > P जे स परिवज्जिया, J तण्हाभिभूता लद्धा मित्तवयेण परा, JP अदेव for अदेव, P सन्नि for मंत. 23 >  
 अलसत्ति । अवि य. 24 > P जे पुरिसा णतरिदा, P रंकवचीर, P तिक्खं for भिक्खं. 25 > P om. उच्छाहिणो वंभयारिणो J  
 जिंतिदिया, J om. अलोलुया, J अणुद्धा, P दाणवणवसणिणो, J वच्छलो. 26 > J मंतवातेमु. 27 > P गुण for गुरु, P महिमाण-  
 तप्परा, P om. सत्त, J हेममये. 29 > JP किरियावात्ति, P णरिंदो, J धाउव्वाथा P धाउव्वाती, JP एताइं, J धाउव्वाती, P धाउव्वाओ  
 इमो सव्वो. 30 > J किरियावाती, P उ for तु, P रसं मि सो. 31 > J खेत्तातो, J धाउव्वाती P धाउव्वाती, P सयलो. 32 >  
 P होत्ति, J पादवीआ य, J पातो तह. 33 > P होत्ति सा वियप्पा अद्धकिरिया पढमा, J दुत्तिया.

- 1 तह वाव-गिसेगेहिं दव्वेणेकेण दव्व-जोएहिं । तह धाउ-मूल-किरियां कीरइ जीवेहिं अण्णा वि ॥ 1
- एवं बहू वियप्पा किरिया सत्थेसु सुंदरि पसिद्धा । ते सारोदाहरणे वाहिप्यंते गिसामेहि ॥
- 3 गागं गंधं सुव्वं घोसं तह तार-हेम-तिक्खाई । सीस-तउ-तंब-कंसं रूप-सुवण्णाई लोहं च ॥ 3
- भारं तथा पसिद्धं सूयय-कुण्डी य तालयं चैय । णाइणि-भमराईयं एसा भासा णरिंदाणं ॥
- एसो धाउव्वाओ सुंदरि वोच्छामि संपयं एयं । सयलं णरिंद-वायं अहवा को भाणिउं तरइ ॥
- 6 § ३१४ ) ताव य पडु-पडह-पडिरव-संखुद्ध-विउद्ध-वण-सावय-सहस्स-पडिरवुच्छलंत-वहल-हलबोल-हलहलाउरमाण- 6
- दस-दिसं पहयं पाहाउय-मंगल-तूरं । ताव य णिवडंति तारया, गलियप्पभो गिसाणाहो, ऊसारिज्जंति दिसि-मुहाई, वड्डए
- गयणयलं, पणस्सए तिमिरं, अरुणारुणा पुव्व-दिसा, पलवंति वण-कुक्कुडा, पलायंति रिच्छा, पविसंति गुहासु मइंदा, गुविल-
- 9 मल्लियंति वग्घा, करयरंति सउणया, मूइज्जंति घूया, करयरंति रिट्ठा । दिणयर-णरवर-कर-णियर-विलुप्पणा भीय व्व झीण- 9
- विमणा पईव-कुडुंविणो त्ति । एत्थंतरम्मि पढियं वंदिणा । अवि य ।
- णासंतो तिमिरयं पि विछायइ ससि-बिंबयं । विमलंतो दिसि-मुहाई अंधीकरेइ घूयए ॥
- 12 विहडंतो संगमाई मेळंतो चक्कायए । ओलगइ भुयणम्मि दिणयर-कर-पवभारओ ॥ 12
- इय एरिसे पभाए णिइं मोत्तण णाह दइयं व । कीरंतु अवक्खेयं गुरु-देवय-पणइ-कज्जाई ॥
- इमं च पढियं गिसामिज्जण कुमारेण भणियं ।
- 15 'सुंदरि एस पभाया रयणी संपयं गुरु-देव-बंधु-कज्जाई । कीरंति इमाई वणे अच्छउ पासत्थ-उल्लावो ॥' 15
- भणमाणा णिम्मल-जल-विमलिय-वयण-कमला पविट्ठा देवहरयं । 'णमो जिणाणं' ति भणमाणा पणमिया भगवंताणं कमल-
- कोमलेसु चलण-जुवलेसु । तओ पुण भणिउमादत्ता ।
- 18 सुप्रभातं जिनेन्द्राणां धर्मबोधिविधायिनाम् । सुप्रभातं च सिद्धानां कर्मौघघनघातिनाम् ॥ 18
- सुप्रभातं गुरुणां तु धर्मव्याख्याविधायिनाम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां जैनसूत्रप्रदर्शिनाम् ॥
- सुप्रभातं तु सर्वेषां साधूनां साधुसंमतम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां येषां हृदि जिनोत्तमाः ॥
- 21 एवं च शुण्डिण कयं कायव्वं । ताव य सजल-जलय-गंभीर-धीर-पडिसइ-संका-विद्वाण-सरोयर-रायहंस-कुल-कलयल-मुहला 21
- अप्फालिया पयाणय-ढक्का । तेण य सहेण जय-जयासइ-मुहलो विबुद्धो सव्व-खंधायार-परियणो सामग्गिउं पयत्तो
- सव्वभंडोवक्खराइं । किं च कीरिउं पयत्तं । अवि य कच्छिज्जंति गइंदे, पल्लाणिज्जंति तुरंगमे, भारिज्जंति करहे,
- 24 भरिज्जंति बइल्ले, जुपंति रहवरे, जोइज्जंति सयडे, उट्ठाविज्जंति भारिए, संभाविज्जंति जंपाणिए, संभारिज्जंति कम्मयरए, 24
- संजमिज्जंति भंडयरे, संवेळिज्जंति पडउडीओ, परिहिज्जंति समायोणे, घेपंति य सर-सरासण-झस-चक्क-कौतासि-णिवहे
- पक्कल-पाइक-णिवहेणं ति ।
- 27 उट्टेसु वच्च तूरसु गेणहसु परिसक्क तह पयट्ठाहि । उच्छलिए वहल-बोले गोसग्गे तं बलं चलियं ॥ 27
- कुवलयमाला वि समारुढा वारुयं करिणिं । कुमारो वि विविह-तुरय-खर-खुरगुदारिय-महियलुच्छलंत-रय-णियर-पूरमाण-
- दस-दिसामुह-णिरुद्ध-दिणयर-कर-पसर-पसरियंधयार-दुहिण-संकास-हरिस-तंडविय-सिंहंडि-कलाव-रेहिरं वणं खणंतो गंतुं
- पयत्तो । अणवरय-पयाणएहिं संपत्तो अत्तणो विसय-संधिं । ताव य महिं देण पेसिओ सिरि-ददवम्मराइणो वद्धावओ 30
- 30 जहा कुमारो संपत्तो त्ति । तं च सोउं राया वि सहरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंच-कंचुओ णीहरिओ सपरियणो संसुहं गंतुं 30
- पयत्तो । पहाइओ कुमारस्स वद्धावओ जहा महाराया संपत्तो त्ति ।
- 1 > P गिसागेहिं, J धातुः, J अण्णे वि. 2 > P सव्वेसु सुंदरि, P ते सागेता हरणे साहिप्यंते गिसामेहि ॥. 3 > P वंगं for गंधं, J तिक्खती P तिक्खाती, P तंवा-. 4 > J सूतय, P तालसंचेया, J भवणातीयं P भमरादीतं. 5 > J धातुव्वातो, J पेच्छामि for वोच्छामि, P अहवा भणिउं. 6 > J adds पडिअ before पडु, P संखुव्व, J मुद्द for विउद्ध, P पडिरावुद्धलंत. 7 > J गलिअप्पभे, P ऊरिसारिज्जंति, P वट्टए. 8 > J रच्छा P तिरिच्छा for रिच्छा, P गुहासु सिंघा गुव्विसंतिमल्लियंति. 9 > P करयरंति, J करयरंति before रिट्ठा, J दीस for भीय, P भीय वज्झीणविमणा पतीवकुट्टुविणो. 11 > J तिमिरचयं, P विच्छाइयससि, J pūts danda after विमलं, J अंधीअरेइ P अधीकरेइ. 12 > P विहडंतो, J चक्कायए, P ओलगइ उअगइ, J भुअणयम्मि, 13 > P पभाइए, J णिइं for णिइं, P कीरओ सचक्खेवयं, P पणयकज्जाई. 14 > P inter. भणियं & कुमारेण. 15 > J एसा पभाया, J देवय for देव, P वंधकज्जाई, P जाव संलावो for पासत्थउल्लावो. 16 > P om. जल, P विमल for विमलिय, J om. ति. 17 > J जुवलेसु P जुवणेसु, J भाणिउमादत्ता P भणिउमादत्तो. 18 > P धर्मं बोधविं. 19 > P जिनेन्द्राणां for गुरुणां. 20 > J सर्वेषां, P साधुसंमतम्, P येषां हृदि जिनोत्तमाः ॥. 21 > J वयं P कय for कयं, J अवि य for ताव य, P om. one जल, J adds इ after पडिसइ, P निदाण for विद्वाण, P हंसराय for रायहंस, J कल for कलयल. 22 > J पयाणयपयढक्का, P सहेण जयासइमुहलो, P खंधायार, P सामग्गिउ पयत्तो. 23 > P किं चि for किं च, J पयत्ता । P पल्लाणिज्जंति. 24 > P adds, after जोइज्जंति, भरिउं पयत्तं । etc. to जोइज्जंति, P उट्ठाविज्जंति, J संभारिज्जंति जंपाणिए, P भंडागारे for भंडयरे. 25 > P adds ज्जंति after संवेळिज्जंति, P समायोणे, P om. य, J om. सर, P सज्जस for झस, P तंडागारे for तंडयरे. 26 > P adds उच्छलिए, P उच्छलियवहलबोले, P उट्टेसु वच्च तूरसु. 28 > J वद्धावकरिणि, P तडुविय, J कलकरोहि खणंतो, P ता जणंतो for खणंतो. 29 > P om. दस, P दिसिआसुइ, P तिय, P om. पसर, P दुहिणासंकास, P om. हरिम, P तडुविय, J कलकरोहि खणंतो, P ता जणंतो for खणंतो. 30 > J अत्तो P अगओ for अत्तणो, P वारणो for वारणो. 31 > P सौज्जण for सोउं, J वि हरिसव्वस, P वियस for वस. 32 > J व after कुमारस्स.

- 1 §३१५) तत्रो कुमारो वि पहरिस-वस-वियसमाण-कुवलय-दल-दीह-लोयण-जुवलो 'सागयं तायस्स' त्ति भणंतो 1  
उत्तिण्णो तुरयाओ । सरय-समउगगय-दिणयर-कर-परिमास-वियसियंत्तुस्स-सरिस-चलण-जुवलो चलणेहिं चय गंतुं पयत्तो । 3  
3 ताव य वेणुं संपत्तो महाराया । दिट्ठो य णेण कुमारो देव-कुमारो च्च णयण-मणाणंदणो । कहं । अवि य । 3  
कमलेण दिणयरो इव अहवा कुमुएण चंदिमा-णाहो । सिहिणा घणो च्च अह कोइलेण चूओ च्च महुमासे ॥  
तं च दट्ठण सरहस-पसारिय-दीह-वाहु-फलिहेण आलिंगिओ कुमारो राइणा । हिययवमंतर-घर-भरिउच्चरंत-पहरिस-वस-  
6 णीहरंत-वाहुप्पील-लोल-लोयणा दोणिण वि जाया । पणामिओ य पाणसु महाराया । माया वि चिर-विरह-दुव्वलंगी 6  
दिट्ठा कुमारेण । तीए सिणेह-णिठभरं अवगूढो । रोइउं च पयत्ता, संठाविया य परियणेण । दिण्णं णयण-वयण-धोवणं  
गंधोदयं उवविट्ठा तस्मि चय ठाणे । कुमारो वि गहियो उच्छंगे देवीए, चुंविओ उत्तिमंगे, भणिओ य 'पुत्त, दढ-कटिण-  
9 हियओ सि तुमं । अम्हे उण पुत्त-भंड-णेह-णिठभर-पसरमाण-विरह-जालावली-दूमिया मयं पिव अत्ताणं मण्णामो । 9  
ता जीविसु चिरं, अइवहुयं अम्ह इमं जं जियंतो दिट्ठो सि' त्ति । भणियं च राइणा । पुत्त,  
तइया अम्हाण तुमं देव्वेण हओ तुरंग-रूवेण । कथ गओ कथ ठिओ कह चुक्को तं तुरंगाओ ॥  
12 कह गमिओ ते कालो कथ व परिहिंदिओ अणाहो च्च । कह व मणि-पूस-वण्णो कथ व सो पूसओ दिट्ठो ॥ 12  
कह व तुमं संपत्तो वेलाउलम्मि कहं समुदस्स । वच्छेण वच्छ इमिणा कह व महिंदेण संपत्तो ॥  
कह व तए परिणीयं कह णाओ विजयसेण-णरवइणा । किं तथ ठिया तुव्वे केण व कजेण कालमिणं ॥  
15 कह आगओ कह गओ कह वा दुक्खाइं पुत्त पत्ताइं । साहिज्जउ मह एयं जेणजं णिव्वुइं होइ ॥ 15  
एवं च पुच्छिओ समाणो चलणे पणमिज्जण साहिउं पयत्तो । साहियं च सयलं बुत्तंतं संखेवेणं ति । ताव य ।  
उज्जमह धम्म-कजे मा वज्जह णेह-णियल-पासेहिं । णेहो त्ति णाम डडुं भणियं मज्झणह-ढंढाए ॥  
18 तत्रो अहो मज्झणहो जाओ त्ति कय-मज्जण-भोयणा संवुत्ता । पुणो सुहासणत्या जाया, विविह-देस-कला-कलाव-कहासु 18  
चिरं ठिया । गणियं च गणएहिं कुमार-गह-दिण-लग-वेला-पवेसस्स समयं जुवरायाभिसेयस्स य । तत्रो हरिस-तोस-  
णिठभरेहि य समाढत्ताइ य वद्धावणयाइं । धवल-धयवडाडोव-मंडिया कीरए अओज्झा पुरवरी । सजीकयं सयलं  
21 उवगरणं । बोलीणो य सो दियहो त्ति । ताव य । 21  
किं अच्छह वीसत्या दुक्कइ कालो त्ति कुणह कायव्वं । उय जाम-संख-सदो कुविय-कयंतस्स हुंकारो ॥  
तं च सोऊण समुट्ठिया सव्वे धम्म-कजाइं काउं समाढत्ता । पाओसियवयं अत्थाणि-मंडलं दाऊण पसुत्तो कुमारो । णिसा-  
24 चिरामे य पट्ठियं वंदिणा । अवि य । 24  
पडणम्मि मा विसूरह मा गव्वं वहह उगमे पुरिसा । इय साहेतो च्च रची अत्थमिओ उगगओ एण्हिं ॥  
इमं च सोऊण समुट्ठिया सयल-महारायप्पमुहा णरिंद-वंदा । तत्रो कय-कायव्वाणं च वच्चंति दियहा ।  
27 §३१६) पुणो समागओ कुमारस्स णयर-पवेस-दियहो । अओज्झा-पुरवरीए घोसावियं च राइणा जहा कीरउ 27  
णयरीए सक्कारो त्ति । तत्रो किं च कीरिउं समाढत्तं । अवि य सोहिज्जंति रच्छा-मुहाइं, अवणिज्जंति कयार-संकरे, सिच्चंति  
गंधोदएण रायवहे, वज्जंति वंदणमालाओ, विरइज्जंति कणय-तोरणे, भूसिज्जंति धवलहरे, मंडिज्जंति वार-मूले, चित्ति-  
30 ज्जंति राय-सभाओ, पृइज्जंति चच्चरे, समाढपंति पेच्छणए, पत्थरिज्जंति सिंघवडए, त्रिथारिज्जंति चंदोयवे, विहाडिज्जंति 30  
पडिओ, उदिभज्जंति पट्ट-पडायाओ, लंविज्जंति कडि-सुत्तए, पयडिज्जंति महारयणे, विक्खिण्णंति मुत्ताहले, कीरंति कुसुम-  
दामोऊले, हलहलायइ कुमार-दंसणूसव-पसरमाणुकंठ-णिठभरो णायर-लोओ त्ति । अवि य ।  
33 मणि-रयण-भूसियंगी पिययम-दट्ठव्व-पसरिउकंठा । वासय-सज्ज व्व पुरी अच्छइ कुमरं पडिच्छंती ॥ 33

1 > P om. वस, J जुअलो, P adds य after जुवलो. 2 > P सरयमउगंत, P परिफंस for परिमास, J जुअलो. 3 > J  
चेय before संपत्तो. 4 > P विव for इव, P घणा च्च, P सउ for चूओ. 5 > J सहरिस पसरिअ, J वरि for वर. 6 > P  
वाहुलोल, P om. माया, J विरहिर for चिरविरह. 7 > P णिव्वमंतरं अवज्जुओ, J om. च, P संठाविया, P वयणे. 8 > J  
गंधोअयं, P उवविट्ठो, P च्छाणे for ठाणे, P om. दढ. 9 > P डम for भंड, J दूमिया. 10 > P जीविसु, P om. इमं. 11 > J  
अम्हण, J ए for हओ, P राओ for गओ, P ट्ठिओ, J कथ चुक्को, P तह for तं. 12 > J कह य गमिओ, J om. ते, J om.  
व and च्च l. 13 > J वेलाउलम्मि किं समुदस्स, P वेलाउल कहं, P मज्झं for वच्छ, P कह वि महिं. 14 > P कह वि तए,  
J om. णाओ, P ट्ठिया. 15 > P om. कह गओ, J मए एअं. 16 > P चलणेसु पयत्तो, P संसंखेवेणं. 17 > P णेहणेयल, P  
टंढं for डडुं. 18 > J कयभोयणमज्जणा P कयमज्जणभोयणा. 19 > J om. च and adds गणियं on the margin, P adds  
पवेला after वेला, J जुगराया P जुवरायाहिसयस्स य ।, J om. य, rather [कुमारस्स गहदिणलगवेलासमयं पवेसस्स जुवरायाभिसेयस्स  
य]. 20 > P adds धवणयाइं after वद्धावणयाइं, J अओज्झा. 22 > P दुक्कयकालो, P उ for त्ति, P च उ for उय. 23 >  
P धम्मे for धम्म, J पाउसिअवयं अत्थाणि P पाओसियं च अत्थाणि. 24 > P om. य before पट्ठियं. 25 > P वहह  
मगव्वं च मंगव्वं उगगसे पुरिसे. 26 > P समुट्ठिता सव्वे महारायप्पमुहा णरिंदवदा, J om. च. 28 > P om. रच्छामुहाइं  
etc. to भूसिज्जंति. 29 > P वरमूले, J P चित्तिज्जंति राय. 30 > J सिंघवडए, P repeats सिंघवडए त्रिथारिज्जंति, J  
वित्थरिज्जंति, P चंदावे, J विहाडिज्जंति पडिओ. 31 > P पडिओविमज्जंति पट्टपडाओ, P कइसुत्तए. 32 > J दामोऊले, P हलहलायइ,  
P दंसणूसव, J पसरमाणुकंठ P पसरमाणुकंठो, P लोय त्ति.

- 1 एत्थंतरम्मि कुमारो वि सह राहणा समाह्वो जयकुंजरं पविसिउं समाह्वो अयोज्जा-पुरवरीए । ताव य पूरिजंति संखाइं 1  
जयजयाविथं वंदिय-जणेणं । पविसंते य कुमारे सव्वो य णयर-णायरियायणो कोउय-रसाऊरमाण-हियओ पेच्छिउं  
3 समाह्वो । कमेण य वोलीणो कुमारो रायमग्गं, संपत्तो रायदारं । वोलीणे य कुमारे किं भणिउं समाह्वो णायर-जणो । 3  
अवि य ।

धम्मं करेह तुरियं जइ कज्जं एरिसीएँ रिद्धीए । मा हीरह चिंताए ण होइ एयं अउण्णाण ॥

- 6 कुमारो वि रायउले पेच्छइ परियणं । केरिसं । अवि य ।

रज्जाभिसेय-मंगल-समूह-करणेक-वावड-करग्गं । हियउग्गय-हलहलयं विथरंतं परियणं पुरओ ॥

§ ३१७ ) पविट्ठो य अत्थाण-मंडवं कुमारो, णिसण्णो य णाणा-मणि-किरणुलसंत-वद्ध-सुरचाव-विबभमे कणय-

- 9 महामइंदासणे । णिसण्णस्स य मंगल-पुव्वयं जयजया-सइ-पूरमाण-महियलं उक्खित्ताइं महाराय-पमुहेहिं महासामंतेहिं 9  
णाणा-मणि-विचित्ताइं कणय-पउम-प्पिहाणाइं कोमल-किसलय-सणाहाइं कंचण-मणि-रयण-कलस-संघायाइं । तेहिं  
जय-जयासइ-णिबभरं अहिसित्तो कुमारो जोयरज्जाभिसेयम्मि, जोकारिओ य महाराय-दद्वम्म-पमुहेहिं । णिसण्णा सव्वे  
12 सीहासणस्स पुरओ । भणियं च महाराहणा । 'पुत्त कुमार, पुण्णमंतो अहयं जस्स तुमं पुत्तो । इमाइं च चिर-चित्थियाइं 12  
मणोरहाइं णवरं अज्ज संपुण्णाइं । ता अज्जप्पभुइं धण-धण-रयय-मोत्तिय-मणि-रयण-जाण-वाहण-पवहण-खेड-कव्वड-णयर-  
महाणयर-गाम-नाय-तुरय-णरवर-रह-सय-सहस्सुद्धमं तुज्ज दे रज्जहरं दिण्णं । अहं पुण धम्माधम्म-णिरुवणत्थं कं पि  
15 कालंतरं अच्छिउण पच्छा कायव्वं काहामो' त्ति । कुमारो वि एवं भणिओ सविणयं उट्ठिउण णिवडिओ राहणो 15  
चलण-जुयले 'महापसाओ' त्ति भणिय, 'जं च महाराओ आणवेइ तं अवस्सं मए कायव्वं' त्ति । दंसिया कुवलयमाला  
गुर्यणस्स । कओ पणामो । अभिणंदिया तेहिं । एवं च अवरोप्पर-वयण-कमलावलोयणा-सिणेह-पहरिस-णिबभराणं  
18 वच्चइ कालो, वोलेति दिथहा । अण्णम्मि दिणे राहणा भणियं । 'पुत्त कुमार, णिसुणेसु । 18

जं किंचि एत्थ लोए सुहं व असुहं व कस्सइ णरस्स । तं अप्पण च्चिय कयं सुहमसुहं वा पुराकम्मं ॥

मा हो जूरह पुरिसा असंपडंतेसु विहव-सारेसु । जं ण कयं पढमं चिय कत्तो तं वास-लक्खेहिं ॥

- 21 ता जइ सुहेण कज्जं इह जस्से कुणह आयरं धम्मे । कारण-रहियं कज्जं ण होइ जस्से वि लोगम्मि ॥ 21  
तओ कुमार, इमं णाऊण धम्मे आयरो कायव्वो । कालो य एस ममं धम्मस्स, ता तं चेय करिस्सं' त्ति । कुमारेण भणियं ।  
'ताय, जं तए समाणत्तं तं सव्वं तथा, सुंदरो य एस धम्म-कम्म-करण-णिच्छओ, एकं पुण विण्णवेमि 'सो धम्मो जत्थ  
24 सफल-किलेसो हवइ' त्ति । राहणा भणियं । 'कुमार, बहुए धम्मा, ताणं तो जो चेय एक्को समाह्वो सो चेय सुंदरो' त्ति । 24

§ ३१८ ) कुमारेण भणियं 'ताय, मा एवं आणवेह, ण सव्वो धम्मो समो होइ' । तेण भणियं 'कुमार, णणु सव्वो  
धम्मो समो चेय' । तेण भणियं 'देव, विण्णवेमि । अवि य ।

- 27 किं पुहइएँ गइंदा होंति समा गयवरेहिं अवरेहिं । अहव तुरया तुरंगेहिं पव्वया पव्वय-वरेहिं ॥ 27  
किं पुरिसा पुरिसेहिं अहवा तियसा हवंति तियसेहिं । किं धम्मेहिं वि धम्मा सरिसा हु हवंति लोयम्मि ॥  
जह एयाण विसेसो अत्थि महंतो जणेण उवलद्धो । तह धम्माण विसेसो अह केण वि देव उवलद्धो ॥'

- 30 णरिंदेण भणियं । 30

'जइ अत्थि कोइ धम्मो वरयरओ एत्थ सव्व-धम्माणं । ता कीस सव्व-लोओ एकम्मि ण लग्गए एसो ॥'

कुमारेण भणियं ।

- 33 'जइ एक्को णरणाहो सव्व-जणेहिं पि सेविओ होज्ज । धम्मो वि होज्ज एक्को सव्वेहि मि सेविओ लोए ॥ 33  
पेच्छंता णरवसहं सेवंते गाम-सामियं के वि । संति परमत्थ-रहिया अण्णाण-भयाउरा पुरिसा ॥  
एवं एए मूढा पुरओ संते वि धम्म-सारम्मि । तं काउं असमत्था अहव विवेगो ण ताण इमो ॥

1 > P एत्थंतरे कुमारो, P अउज्जा, P तूराइं for संखाइं. 2 > J वंदिअणेणं, J रहसाऊरमाण, P कम्मेण.  
3 > P om. य, P रायमग्गो, P om. संपत्तो रायदारं, P वोलीणो कुमारे, P भणियं, P णयरजणो. 5 > P जयकय्यं, J एरिसीय.  
7 > J हियउग्गय, P हियउग्गमहलहलयं विथरंतं. 8 > P om. य after पविट्ठो. 9 > P महामइंदासणे, J -पमुहेहिं. 10 > P  
पउमप्पिहाणाइं कोमले किसलय- 11 > P अतिसित्तो, J जोअरज्जा, P जोकारिओ, J om. य, P य मेहराय, J P  
दद्वम्म, J adds य before सव्वे. 12 > P om. च. 13 > P अज्ज पुत्ताइं, J अज्जप्पभुअं P अज्जपत्तइं, J रयतमुत्तिय, P  
रयण for रयय, P -णयरा. 14 > P om. णरवर, J सहस्सुद्धमं, J om. दे, P रज्जहरं दिव्वं । 15 > P om. त्ति. 16 > J P  
भणियं, P महाराहणो आणवेइ, P अवस्स. 17 > J गुरुअस्स, J अहिणंदिया, P अवसेप्परवरोप्परवयण. 18 > J दिअहे for  
दिणे. 19 > P होइ for एत्थ. 20 > P adds एवं च before मा हो जूरह, J असंपुटंतेसु, J जण्ण for जं ण, J पढमं चिय.  
21 > P सुहेहिं, J अह for इह, P adds कुण before कुणह, P रज्ज for कज्जं, J लोअम्मि. 22 > P adds य before एस.  
23 > J धम्मकारणणिच्छओ, J कत्थ for जत्थ. 24 > P सफलं, P om. ताणं, J om. तो. 25 > P om. ण सव्वो. 27 > P  
पुहतीए, P समागयावरेहिं, P कुरया for तुरया, P om. पव्वया पव्वयवरेहिं. 28 > J adds किं after पुरिसा, J धम्मे दि मि धम्मा.  
29 > P एयाविसेसो. 31 > P ल for ण. 33 > P -जणहिं, P होज्ज for होज्ज, P repeats सव्वेहिं. 34 > P णरवसहे, J  
गाम for गाम, P भयाउयाउरा. 35 > P मूढारजो.

- 1 तेण भणियं 'कुमार, कहं पुण धम्मस्स वरावरत्तणं लक्खिज्जइ' ति । कुमारेण भणियं 'देव, फलेण' । णरवइणा भणियं 1  
'कुमार,
- 3 पच्चक्ख-णुमाण-चउक्कयस्स को प्रत्य वावडो होइ । किं उवमाणं अहवा वि आगमो फल-उवेक्खाणु ॥ 3  
पच्चक्खं धम्म-फलं ण य दीसइ जेण होइ पर-लोणु । पच्चक्खं जत्थ ण वा तत्थ कहं होइ अणुमाणं ॥  
उवमाणं दूरे चिय अहवा किं भणह आगम-पमाणं । धम्मागमा सम चिय सफला सव्वे वि लोगम्मि ॥
- 6 ता कत्थ मणं कुणिमो कत्थ व सफलो ति होहिइ किलेसो । कत्थ व मोक्खं सोक्खं इय वोळइ मज्झ हिययं ति ॥ 6  
कुमारेण भणियं 'ताव देव को उवाओ' । राइणा भणियं 'एक्को परं उवाओ ।  
पुच्छिज्जउ को वि णरो पंडिय-पडिओ जयम्मि सवियडो । को एत्य धम्म-सारो जत्थम्हे आयरं करिमो ॥
- 9 कुमारेण भणियं । 'देव, 9  
को एत्य किं वियाणइ अह जाणइ राय-दोस-वस-मूढो । अण्णह परमत्थ-गई अण्णह पुरिसो चियप्पेइ ॥  
ईसाएँ मच्छरेणं सपक्खराएण पंडियप्पाणो । अलियं पि भणंति णरा धम्माधम्मं ण पेच्छंति ॥
- 12 § ३१९ ) णरवरेण भणियं 'एवं ववत्थिए दुग्गमे तत्त-परिणामे को उण उवाओ भविस्सइ' ति । कुमारेण 12  
भणियं 'देव,  
एक्को परं उवाओ मह हियए फुरइ णिच्च-संणिहिओ । परमत्थो तेण इमो णज्जइ धम्मस्स पच्चक्खं ॥
- 15 इक्खाणु-वंस-पभवा णर-वसभा के वणंत-संखिला । णिच्चाणमणुप्पत्ता इह धम्मं कं पि काज्जण ॥ 15  
आराहिज्जण देविं मंगल-पुच्चं तवेण विणएण । पुच्छिज्जउ कुल-धम्मो को अह परंपरायाओ ॥  
एवं कयम्मि जं चिय तीए कुलदेवयाएँ आइट्टं । सो चेय अह धम्मो बहुणा किं एत्य भणिएण ॥
- 18 इमं पडिवणं राइणा भणियं च । 'साहु कुमार, सुंदरं तए संलत्तं, ता णिव्वियारं इमं चेय कायव्वं' ति भणमाणो 18  
ससुट्ठिओ राया, कायव्वं काउमाढत्तो । तओ अण्णम्मि दियहे असेसाए गंध-कुसुम-वलि-पईव-सामग्गीए पविट्ठो  
देवहरयं राया । तत्थ य जहारुहं पूइज्जण देवे देवीओ य पुणो थुणिज्जण समाढत्तो । अवि य ।
- 21 जय विजय जयंति जए जायाहि अवराइए जय कुमारी । जय अंवे अंवाले वाले जय तं पिए लच्छी ॥ 21  
इक्खाणु-णरवराणं को कुल-धम्मो पुराण-पुरिसाण । साहिज्जउ मज्झ इमं अहवा वज्झा तुमं चेय ॥  
इमं च भणिज्जण णरवई णिसण्णो कुस-सत्थरे, ठिओ एकमहोरत्तं । दुइय-राईए य मज्झिम-जामे उट्टाइया
- 24 आगासयले वाया । 24  
ओ भो णरवर-वसभा जइ कज्जं तुम्ह धम्म-सारेण । ता गेणहसु कुल-धम्मं इक्खाणुणं इमं पुच्चं ॥  
इमं च भणंतीए समप्पियं कणय-सिलायलं णरिंदस्स कुलसिरीए । तं च पाविज्जण विउडो राया जाव पुरओ पेच्छइ
- 27 कणय-सिलायलं । तं च केरिसं । अवि य । 27  
ललिउच्चेहिर-मत्ता-वण्णय-पट्टंत-पत्तिया-णिवहं । वंभी-लिवीएँ लिहियं मरगय-खय-पूरियं पुरओ ॥  
तं च दट्ठूण हरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंचेण सदाविओ कुमारो भणिओ य । 'पुत्त कुमार, एसो दिण्णो कुलदेवयाए अम्हाण
- 30 कुलधम्मो, ता णिरुवेउं वाएसु इमं' ति । कुमारेण वि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण धूव-वलि-कुसुमच्चणं काज्जण सविणयं 30  
भत्तीए वाइउं पयत्तं ।  
§ ३२० ) किं च तत्थ लिहियं । अवि य ।
- 33 दंसण-विसुद्धि-णाणस्स संपया चरण-धारणं चेय । मोक्खस्स साधयाइं सयल-सुहाणं च मूलाइं ॥ 33  
जत्थ ण हम्मइ जीवो संतुट्ठो णियय-जोणि-वासेण । ण य अलियं मंतिज्जइ जियाण पीडायरं हियए ॥

1 > P कह पण धम्मवरावरत्तणं, P om. ति. 3 > J पच्चक्खाउमाण पमाणचउक्कयस्स, J om. वि. 4 > P om. य.  
5 > P वि भणंति for किं भणह, P सफलो, J लोगम्मि. 6 > P होहिइति, P हियएंति. 7 > J तह वि for ताव, J पर for परं.  
8 > P पुच्छिज्जइ, J कोइ णरो, P सविअडो. 10 > J परमत्था-, P -गती. 11 > J पंडिअप्पाणा. 12 > P णरवइणा for णरवरेण,  
P एवं ववत्थिए, P परिणामो, J को उण. 14 > P एक्को महिहरपकओ यए फुरइ, J संणिहिओ P सन्निहिओ. 15 > P -पभवा णरवसहा,  
J कवि अणंत- for केवणंत, P संखेज्जा for संखिला, P धम्मं किं पि. 18 > P om. च, P om. चेव. 19 > J om. गंव, J .प्पईव  
P -पतीव. 20 > P om. य after तत्थ, P om. पुणो थुणिज्जण etc. to को कुलधम्मो. 21 > J जए जायाहि अवराइए.  
22 > P वज्झं for वज्झा, P च for चेय. 23 > P om. इमं च, P om. णरवई, P णिवण्णा for णिसण्णो, P adds परती  
before कुस, P ट्ठिओ, J दुइअ य राईए मज्झिमजामे उट्टाइया. 25 > J -वसहा, P कज्ज, J कुलधम्मो, P इक्खाणुकुलाइयं पुच्चं.  
26 > J भणंतीय, P om. पुरओ. 27 > P om. तं च केरिसं. 28 > P 'मत्तावण्णयपट्टंतिपत्तिया-, J वंभीलिवाए, P पूरिउ for  
पूरियं. 29 > P हरिसवसुच्छलंत-, P कुलदेवता अम्हाण. 30 > P णिरुवेह, P वाएसुइ इमं ति । कुमारो वि, P भणमाणो,  
J कुसुमच्चणं. 31 > P पयत्तो ।. 32 > P लिहितं. 33 > P -विसुद्ध-, P साहणाइं सयणसुहाणं. 34 > P णं हंमइ, P पीडायरं.

- 1 ण य घेप्पइं अदिण्णं सरिसं जीएण कस्सइ जणस्स । दूरेण जत्थ महिला वज्जिज्जइ जलिय-जलणं व ॥  
अत्थो जत्थ चइज्जइ अणत्थ-मूलं जयम्मि सयलम्मि । ण य भुज्जइ राइए जियाण मा होज्ज विणिवाओ ॥
- 3 तं णरवर गेणह तुमं धम्मं अह होइ जत्थ वेरग्गो । परियाणसु पुहइ-जिए जलम्मि जीयं ति मण्णेसु ॥  
अणिलाणले सजीए पडिवज्ज वणस्सइं पि जीवं ति । लक्खिज्जइ जत्थ जिओ फरिसेंदिय-मेत्त-वावारो ॥  
अलस-किमिया दुइंदी पिवीलियाइं य होंति तेइंदी । भमराइं चउरिंदी मण्णसु सेसा य पंचेंदी ॥
- 6 णर-पसु-देव-दइच्चे सव्वे मण्णेसु बंधवे आसि । सव्वे वि मए सरिसा सुहं च इच्छंति सव्वे वि ॥  
णासंति दुक्ख-भीरु दुक्खाविज्जंति सत्थ-पउरेहिं । सव्वाण होइ दुक्खं दुव्वयण-विसेण हिययम्मि ॥  
सव्वाण आसि मित्तं अहयं सव्वाण बंधवो आसि । सव्वे वि बंधवा मे सव्वे वि हवंति मित्ताइं ॥
- 9 इय एवं परमत्थे कह पहरिज्जउ जियस्स देहम्मि । अत्ताण-णिव्विसेसे मूढा पहरंति जीयम्मि ॥  
जं जं पेच्छसि जीयं संसारे दुक्ख-सोय-भय-कलियं । तं तं मण्णसु णरवर आसि अहं एरिसो च्चेय ॥  
जं जं जयम्मि जीवं पेच्छसि सिरि-विहव-मय-मउम्मत्तं । तं तं मण्णसु णरवर एरिसओ आसि अहयं पि ॥
- 12 जीएसु कुणसु मेत्तिं गुणवंते कुणसु आयरं धीर । कुणसु दयं दीण-मणे कुणसु उवेक्खं च गव्वियए ॥  
असमंजसेसु कायं वायमसब्भेसु रंभ वयणेसु । रंभसु मणं अयज्जे पसरंतं सव्व-दव्वेसु ॥  
काएण कुणह किरियं पढसु य वायाए धम्म-सत्थाइं । भावेसु भावणाओ भावेण य भाव-संजुत्तो ॥
- 15 कुणसु तवं सुविसुद्धो इंदिय-सत्तुं णिरंभ भय-रहिओ । कोवम्मि कुणह खंतिं असुइं चित्तेसु कामम्मि ॥  
माणम्मि होसु पणओ माया-ठाणम्मि अज्जवं कुणसु । लोहं च अलोहेणं जिण मोहं णाण-पहराहिं ॥  
अच्छसु संजम-जमिओ सीलं अह सेव णिम्मलं लोए । मा वीरियं णिगूहसु कुण कायवं जयं भणियं ॥
- 18 मा कुणसु पाग-किरियं भिक्खं भमिज्जण भुंजसु विहीए । मा अच्छसु णिच्चित्तो सज्झाए होसु वक्खित्तो ॥  
णिज्झीण-पाव-पंको अवगय-मोहो पणट्ट-मिच्छत्तो । लोयालोय-पयासो समुग्गओ जस्स णाण-रवी ॥  
संभिण्णं सो पेच्छइ लोयमलोयं च सव्वओ सव्वं । तं णत्थि जं ण पासइ भूतं भव्वं भविस्सं च ॥

21 सो य भगवं किं भण्णइ ।

तित्थयरो लोय-गुरू सव्वण्णू केवली जिणो अरहा । सुगओ सिद्धो बुद्धो पारगओ वीयरगो य ॥

सो अप्पा परमप्पा सुट्टमो य णिरंजणो य सो च्चेव । अवत्तो अच्छेज्जो अब्भेज्जो अक्खओ परमो ॥

24 जं जं सो परमप्पा किंचि समाइसइ अमय-णीसंदं । तं तं पत्तिय णरवर तेण व जे दिक्खिया पुरिसा ॥

अलियं अयाणमाणो भणइ णरो अह व राग-दोसत्तो । कह सो भणेज्ज अलियं भय-मय-रागेहिं जो रहियो ॥

तम्हा णरवर सव्वायरेण पडिवज्ज सामियं देवं । जं किंचि तेण भणियं तं तं भावेण पडिवज्ज ॥

27 सुट्टमो सरीर-मेत्तो अणादिमं अक्खओ य भोत्तादी । णाण-किरियाहि मुच्चइ एरिस-रूवो जहिं अप्पा ॥

एसो णरवर धम्मो मोक्ख-फलो सव्व-सोक्ख-मूलं च । इक्खागू-पुरिसाणं एसो च्चिय होइ कुल-धम्मो ॥

जं जं एत्थ णिस्सं तं तं णरणाह जाण सारं ति । एएण विरहियं पुण जाण विहम्मं कुहम्मं च ॥

30 एयं अवमण्णंता णरवर णरयम्मि जंति घोरम्मि । एयं काज्जण पुणो अक्खय-सोक्खाइं पावंति ॥

§ ३२१ ) एवं च पढिए इमम्मि धम्मो णरवइणा भणियं । 'अहो अणुग्गिहीया अम्हे भयवइए कुलदेवयाए । ता सुंदरो एस धम्मो, ण एत्थ संदेहो । एयं पुण ण-याणिज्जइ केरिसा ते धम्म-पुरिसा जाण एरिसो धम्मो' त्ति । कुमारेण भणियं 'देव, जे केइ धम्मिय-पुरिसा दीसंति ताणं च्चेय दिक्खं घेत्तूण कीरए एस धम्मो' त्ति । राइणा भणियं 'कुमार, मा

1 > P घेप्पइ, P जियस्स for जणस्स, P जलण for जलिय. 2 > P वइ for चइज्जइ, P जलंमि for जयम्मि, P भुज्जति रातीए. 3 > P धंमं जह होइ, P repeats जह होइ, P हइ जए for पुहइ जिए, J पीअं for जीयं. 4 > P सुजीए for सजीए, P जीवं पि ।, P फरिसेहियमेक्खवावारो. 5 > P अलसा-, P दिइंदी for दुइंदी, J om. पिवीलियाय होंति तेइंदी ।, P पिवीलियाती, P भमराती चउरेंदी, P पंचिंदी. 6 > P अव्वे वि for सव्वे वि, P सा for सरिसा. 7 > P दुखाविज्जंति, P पहरेहिं, J विसेए for विसेण. 9 > P पहरिज्जइ. 10 > P adds त after अहं. 11 > P जीवे for जीवं, J मपुमत्तं. 12 > P मित्तं for मेत्तिं, J गुणमंते, P कुणसु अवेक्खं. 13 > P वायमसत्तेसु, J om. रंभ, P सव्वेसु for सव्वदव्वेसु. 14 > P भाएसु भायणाओ. 15 > P इंदियसेत्तुं, J णिसुंभ P णेरंभ, P खंती असुत्ति, P देहंमि for कामम्मि. 16 > P मायंमि for माणम्मि. 18 > P पाव for पाग, P णिव्विज्जो for णिच्चित्तो, P आउत्तो for वक्खित्तो. 19 > P णिज्झाण, P लोयालोग. 20 > P पेच्छ लोगमलोयं, J सव्वतो, P पेच्छं for सव्वं, J जण पासति भोत्तुं सव्वं, P भूतसव्वं. 22 > J सुगतो णिद्धो, J वीतरागो. 23 > J अप्पा वरमप्पा, J च्चेअ ।, J सव्वत्तो for अव्वत्तो, P अमेज्जओ, J अक्खरो परमो. 25 > J रागरोसत्तो, J भममय, P भयममरोगेहिं. 27 > P अणाइमं, J अक्खयभोत्तादी ।, J -किरियादी, P adds मुच्चा before अप्पा. 28 > J om. च. 29 > J णिहित्तं for णिस्सं. 31 > P भयवतीए. 32 > P इमं for एयं, P एसो for एरिसो. 33 > P दिक्खा, J कीरउ, P om. मा.



1 एवं भण । पाणाविह-लिंग-वेस-धारिणो धम्मपुरिसा परिवसंति पुहई-तले । ते य सव्वे भणंति 'अम्हं च उ धम्मो 1  
सुंदरो,' अण्णो वि भणइ 'अम्हं च उ धम्मो,' अण्णो वि 'अम्हं च उ' ति । एवं च ठिए कस्स सद्धहामो कस्स वा  
3 ण व' ति । कुमारेण भणियं 'ताय, जइ एवं ता एक्को अत्थि उवाओ । जो कोइ पुहईए धम्म-पुरिसो सो सव्वो पडहएण 3  
आघोसिजइ जहा, राया धम्मं पडिवजइ जं चेय सुंदरं, ता सव्वे धम्म-पुरिसा पच्चक्खीहवंतु, साहेंतु य अण्णो धम्माइं  
जेण जं सुंदरं तं गेण्हइ ति । पुणो देव, साहिए सयले धम्म-वित्थरे जो चेय एयस्स दिण्णस्स देवयाए विचारिजंतो  
6 वडीहिइ, तम्मि चेय आयरं काऊण दिक्खं पडिवज्जीहामो' ति । राइणा भणियं 'एवं जइ परं पाविजइ विसेसो ति । ता 6  
आणवेसु पडिहारं जहा पाडहियं सदावेसु । आएसणंतरं च समाणत्तो पडिहारो, संपत्तो पाडहिओ, समाइट्टो राइणा जहा  
इमिणा य अत्थेण घोसेसु सव्व-णयर-चच्चरेसु पडहयं' ति । तओ 'जहाणवेह' ति भणमाणो णिग्गओ पाडहिओ घोसिडं  
9 च पयत्तो । कथ । अवि य ।

सिंगाडय-गोउर-चच्चरेसु पंथेसु हट्ट-मग्गेसु । वर-मढ-देवउलेसुं आराम-पवा-तलाएसुं ॥

किं च घोसिडं पयत्तो । अवि य ।

12 जो जं जाणइ धम्मं सो तं साहेउ अज्ज णरवइणो । जो तत्थ सुंदरयो तं चिय राया पवज्जिहिइ ॥ 12  
एवं च घोसेतेण 'ढं ढं ढं ढं' ति अप्फालिया ढक्का । किं च भणितं पयत्ता । अवि य ।

अप्फालिया वि ढक्का छज्जीव-णिकाय-रक्खणं धम्मो । जीय-दया-दम-रहिओ ढं ढं ढं ढं ति वाहरइ ॥

15 तओ इमं च घोसिजंतं तिय-चउक्क-चच्चर-महापहेसु सोऊण सव्वे धम्म-पुरिसा संभंता मिलिया णियएसु धम्म-विसेस 15  
संघेसु अवरोप्परं च भणितं पयत्ता । अवि य ।

ओ भो सहधम्मयरा वच्चह साहेह राइणो धम्मं । धम्मम्मि पुहइणाहो पडिवुज्जइ किं ण पज्जत्तं ॥

18 एवं च अवरोप्परं मंतिऊण जे जत्थ णिगाए ससिद्धंत-कुसला ते समुट्टिया धम्मिय-पुरिसा, संपत्ता रायमंदिरं । राया 18  
वि णिक्खंतो वाहिरोवत्थाण-मंडवं दिट्टो सव्वेहिं जहाभिरुव-दंसणीयासीसा-पणाम-संभासणेहिं । णिव्विट्ठा य णियएसु  
आसणेसु । भणिया य राइणा 'ओ भो धम्मिय-पुरिसा, गहियत्था तुम्हे अम्हाभिप्पायस्स । ता भणइ कमेण अत्तणो  
21 हिययाभिरुइए धम्म-विसेसे ।'

§ ३२२ ) एवं च भणिया समाणा परिवाडीए साहिडं पयत्ता । एक्केण भणियं । अवि य ।

जीवो खण-भंगिल्लो अचेयणा तरुवरा जगमणिच्चं । णिव्वाणं पि अभावो धम्मो अम्हाण णरणाह ॥

24 राइणा चित्तिं । 24

जीवो अणाइ-णिहणो सचेयणा तरुवरा वि मह लिहिया । मोक्खो सासय-ठाणं अह दूरं विहडए एयं ॥  
अण्णेण भणियं ।

27 सव्व-गओ अह जीवो मुच्चइ पयईए झाण-जोएहिं । पुहइ-जल-सोय-सुद्धो एस तिदंडीण धम्मवरो ॥ 27  
राइणा भणियं ।

सव्व-गओ जइ अप्पा को झाणं कुणइ तत्थ सोयं वा । पुहइ-जलाउ सजीवा ते मारेउं कहां सुद्धी ॥

30 अण्णेण भणियं । 30

सव्व-गओ इह अप्पा ण कुणइ पयडीए वज्झए णवरं । जोगवभासा मुक्को इह चेय णिरंजणो होइ ॥  
राइणा चित्तिं ।

33 अप्पा सरीर-मेत्तो णिय-कम्मे कुणइ वज्झए तेणं । सव्व-गए कह जोओ विवरीयं वट्टए एयं ॥ 33  
अण्णेण भणियं ।

एक्को चिय परमप्पा मूए भूयम्मि वट्टए णियं । णिच्चाणिच्च-विरहिओ अणाइ-णिहणो परो पुरिसो ॥

36 राइणा चित्तिं । 36

1 > P भणइ for भण, J विसेस for वेस, P परिवसंति पुहतीयले । 2 > J om. धम्मो before अण्णो, P adds भणइ before अम्हं, P सद्धहामि । 4 > P घोसिजइ for आघो, P adds तं गेण्हइ for ता, J 'हेंतु for 'हवंतु, J यण्णो । 5 > P om. जं, P तस्स धम्मस्स for एयस्स । 6 > J वडीहिति P ण वाही ति, J दिक्खं पवज्जीहामो, P राइण भणियं, J एयं, J पाविज्ज विसेसो । 7 > P om. संपत्तो पाडहिओ । 8 > J इममिणा for इमिणा, J णरथ for णयर, P पडिहयं, P जहाणवेहि । 10 > P सिंघाउगोउरचच्चरे पत्थेसु हट्टमयेसु । 11 > J पयत्तं । 12 > P धम्मो, P साहेइ, P ता for जो, J किय for चिय, J परिज्जिहिति P पडिवज्जिहि ति । 13 > P om. च, P om. ति, P भाणितं । 14 > P ढक्का जिणधम्मो सुंदरो ति लोमंमि । अत्ते उण जे धम्मा ढं etc. 15 > P घोसिजंति तिय, P चच्चरेसु महा, P णियधम्म- । 16 > J सामेसु for संवेसु, P भणियं, P om. अवि य । 17 > J 'णाहो पडिवज्जइ किण्ण पव्वज्जं ॥ 18 > P जत्थ णिकाएसु सिद्धंति कुसला । 19 > P वाहिरवत्थाण, J दंसणीया । सीसा, J पिविट्ठाय णिआएसु, P णियए आसणेसु । 20 > J तुम्मे for तुम्हे, P om. ता । 21 > P हिययादिसइए धम्मं । 22 > P om. च, P साहिओ । 23 > J णेच्चाणं । 25 > P तवेयणा for सचेयणा, J तरुवरा, P मोक्खसासयं द्वाणं । 26 > J om. अण्णेण भणियं । सव्वगओ अहजीवो etc. ending with कहां सुद्धी ॥ 27 > P पयइएज्झाण- । 29 > P सोयव्वा । 30 > P om. अण्णेण भणियं (after कहां सुद्धी ॥) सव्वगओ इह etc. ending with वट्टए एयं ॥ 33 > J तं ॥ for एयं ॥ 35 > P पुरो for परो ।

- 1 जइ एको चिय अप्पा कह सुह-दुक्खाइँ भिण्ण-रूवाइँ । एकेण दुक्खिएणं सव्वे ते दुक्खिया होंतु ॥  
अण्णेण भणियं । 1
- 3 अच्चावारं दिज्जइ पसुओ मारिज्जए य मंतेहिं । माई-पिइस्स मेहं गो-मेहो वा फुडो धम्मो ॥  
राइणा चित्तियं । 3
- जं दिज्जइ तं सारं जं पुण मारिज्जए पसू गो वा । तमधम्मं मह लिहियं देवीए पट्टए सव्वं ॥  
6 अण्णेण भणियं । 6
- काय-बलि-वइस-देवो कीरइ जलणम्मि खिप्पए अण्णं । सुप्पीया होंति सुरा ते तुट्ठा देंति धम्मं तु ॥  
राइणा चित्तियं ।
- 9 को पेच्छइ काय-बलिं जं पुण जलणम्मि खिप्पए भत्तं । तं तस्स होइ अण्णस्स वा वि एयं ण-याणामो ॥  
अण्णेण भणियं । 9
- चइऊण सव्व-संगं वणम्मि गंतूण वकल-णियत्थो । कंद-फल-कुसुम-भक्खो जइ ता धम्मो रिस्सी तेण ॥  
12 राइणा चित्तियं । 12
- सारो जइ णीसंगो जं पुण कंदप्फलाइँ भुंजंति । एसो जीव-णिकाओ जीव-दया वट्टए धम्मो ॥  
अण्णेण भणियं ।
- 15 दिज्जइ बंभण-समणे विहले दीणे य दुक्खिए किंचि । गुरु-पूयणं पि कीरइ सारो धम्माण गिहि-धम्मो ॥  
णरवइणा चित्तियं । 15
- जं दाणं तं दिट्ठं अणंत-घाओ ण पेच्छइ घरम्मि । एसो विंधइ बालं चुक्कइ हत्थिस्स कंडेण ॥  
18 अण्णेण भणियं । 18
- भक्खाभक्खाण समं गम्मागम्माण अंतरं णत्थि । अहैत-वाय-भणिओ धम्मो अम्हाण णिक्खुदो ॥  
राइण चित्तियं ।
- 21 एयं लोय-विरुद्धं परलोय-विरुद्धयं पि पच्चक्खं । धम्मो उण इंदिय-णिग्गहेण मह पट्टए लिहियं ॥  
अण्णेण भणियं । 21
- विण्णप्पसि देव फुडं पंच-पवित्तेहिं धासण-विहीय । सइइत-वाय-भणिओ धम्मो अम्हाण णिक्खुदो ॥  
24 राइणा चित्तियं । 24
- लोमसहारे जिडिभदियस्स अणुकूलमासणं फंसे । धम्माओ इंदिय-णिग्गहेण एसो वि धम्मो त्ति ॥  
अण्णेण भणियं ।
- 27 धम्मट्ठियस्स दिज्जइ णियय-कलत्तं पि अत्तणो देहं । तारेइ सो तरंतो अलावु-सरिसो भव-समुदं ॥  
राइणा भणियं । 27
- जइ भुंजइ कह व सुणी अह ण सुणी किं च तस्स दिण्णेण । आरोविया सिलोवरि किं तरइ सिला जले गहिरे ॥  
30 अण्णेण भणियं । 30
- जो कुणइ साहस-बलं सत्तं अवलंबिऊण णरणाह । तस्स किर होइ सुगई मह धम्मो एस पडिहाइ ॥  
राइणा चित्तियं ।
- 33 वेय-सुईसु विरुद्धो अप्पवहो णिदिओ य विबुहेहिं । जइ तस्स होइ सुगई विसं पि अमयं भवेज्जासु ॥  
अण्णेण भणियं । 33
- गंतूण गिरि-वरेसुं अत्ताणं सुंचए महावीरो । सो होइ एत्थ धम्मो अहवा जो गुग्गुलं धरइ ॥  
36 राइणा चित्तियं । 36

1 > P तिण्णि for भिण्ण, J होंति ॥ 3 > P मारिज्जएहिं मंतेहिं, P फुडो धम्मो ॥ 4 > P वि भणियं for चित्तियं. 5 > J मारिज्जइ, P एयं चिलायकंमं एस विहंमो जए जाओ ॥ for the second line तमधम्मं etc. 7 > J वैस for वदस, J सुप्पीया P सुग्गीया, J देंतु. 9 > P repeats को नेच्छइ, P जं पुण लोणंमि निक्खिंवे भत्तं । तं तस्स तस्स ण वेवयाण छारो परं हत्थे ॥ 13 > P एसो जीवाण वहो कह कीरओ कुच्छिओ धम्मो ॥ for the second line. 15 > P दिज्जओ, P -समण, P पूयणं पि, J गिहधम्मो. 17 > J -वातो P -चाओ, P after कंडेण ॥ omits अण्णेण भणियं । भक्खा<sup>०</sup> etc. ending with पट्टए लिहियं ॥ 19 > J अहैतवात्- 21 > J, after लिहियं ॥, omits अण्णेण भणियं । विण्णप्पसि etc. ending with धम्मो त्ति. 23 > P विण्णप्पसि, P वातभणितो, P णिक्खुदो. 27 > P सरिसं. 29 > P कह व सुणी, J व सुणी विं व तस्स, P सिलोवरि, P सिलायले. 31 > J सामस for साहस, P सुणती. 33 > P जलं जलं च जीए तस्स वहो अप्पवारओ पुरिसो for the first line वेयसुईसु etc. P सुगती, P अमयं हवेज्जासु. 35 > P भेरुगिरिं for गिरिवरेसुं, J महावीरो, P गुग्गुलं.

- 1 अक्षाणं मारंतो पावइ कुगई जिओ सराय-मणो । एवं तामस-मरणं गुरुगुल-धरणाद्वयं सच्चं ॥ 1
- अण्णेण भणियं । 3
- 3 खाणे कूव-तलाए बंधइ वावीओ देइ य पवाओ । सो एत्थ धम्म-पुरिसो णरयर अम्हं ठिओ हियए ॥ 3
- राइणा चित्तियं । 6
- पुहई-जल-जलगानिल-वणस्सई तह य जंगमे जीवे । मारंतस्स वि धम्मो ह्वेज्ज जइ सीयलो जलणो ॥ 6
- अण्णेण भणियं । 9
- गंगा-जलम्मि ण्हाओ सायर-सरियासु तह य तित्थेसु । धुयइ मलं किर पावं ता सुदो होइ धम्मेण ॥ 9
- णरवइणा चित्तियं । 9
- 9 भागीरहि-जल-विच्छालियस्स परिसडउ कह व कम्मं से । वाहिर-मलावणयणं तं पि हु णिट्ठणं ण जाणुजा ॥ 9
- अण्णेण भणियं । 12
- राइण रायधम्मो वंभण-धम्मो य वंभणाणं तु । वेसाण वेस-धम्मो णियओ धम्मो य सुद्धान ॥ 12
- राइणा चित्तियं । 15
- धम्मो णाम सहावो णियय-सहावेसु जेण वटंति । तेणं चिय सो भण्णइ धम्मो ण उणाइ पर-लोओ ॥ 15
- अण्णेण भणियं । 15
- 15 णाय-विदत्त-धणेणं जं काराविज्जंति देव-भवणाइं । देवाण पूयणं अच्चणं च सो चेय इह धम्मो ॥ 15
- राइणा चित्तियं । 18
- को ण वि इच्छइ एयं जं चिय कीरंति देवहरयाइं । एत्थं पुण को देवो कस्स व कीरंतु एयाइं ॥ 18
- अण्णेण भणियं । 18
- काऊण पुढवि-पुरिसं डज्झइ मंतेहिं जत्थ जं पावं । दीविज्जइ जेण सुहं सो धम्मो होइ दिक्खाए ॥ 18
- राइणा चित्तियं । 21
- 21 पावं डज्झइ मंतेहिं एत्थ हेऊ ण दीसए कोइ । पावो तवेण डज्झइ ज्ञाण-महग्गीए लिहियं से ॥ 21
- अण्णेण भणियं । 24
- ज्ञाणेण होइ मोक्खो सो परमप्पा वि दीसए तेण । ज्ञाणेण होइ सगं तम्हा ज्ञाणं चिय सुधम्मो ॥ 24
- राइणा चित्तियं । 27
- ज्ञाणेण होइ मोक्खो सच्चं एयं ति ण उण एक्केण । तव-सील-णियम-जुत्तेण तं च तुव्भेहिं णो भणियं ॥ 27
- अण्णेण भणियं । 27
- 27 पिउ-माइ-गुरुयणम्मि य सुरवर-मणुएसु अहव सन्वेसु । णीयं करेइ विणयं एसो धम्मो णरवरिंद ॥ 27
- णरवइणा चित्तियं । 30
- जुज्झइ विणओ धम्मो कीरंतो गुरुयणेसु देवेसु । जं पुण पाव-जणस्स वि अइयारो एस णो जुत्तो ॥ 30
- अण्णेण भणियं । 33
- णवि अत्थि कोइ जीवो ण य परलोओ ण यावि परमत्थो । मुंजह खाह जहिच्छं एत्तिय-मेत्तं जए सारं ॥ 33
- राइणा चित्तियं । 33
- 33 जइ णत्थि कोइ जीवो को एसो जंपए इमं वयणं । मूढो णत्थिय-वाइ एसो दंहुं पि णवि जोरगो ॥ 33
- अण्णेण भणियं । 36
- गो-भूमि-धण्ण-दाणं हलप्पयाणं च वंभण-जणस्स । जं कीरइ सो धम्मो णरवर मह वल्लहो हियए ॥ 36
- राइणा चित्तियं । 36

1 > P कुगई, J गई for जिओ, P जिओ राइमणो । एयं तामस. 3 > J खाणेइ for खाणे, J -तालाए, J वावीए, P उ for य P अम्हं ठिओ. 5 > J दुविहो थ होइ धम्मो भोगफलो होइ मोक्खधम्मो य । दाणं ता मोक्खफलं ता भोगफलो जइ जिजाणं ण पीड-यरो ॥ for the verse पुहई जल etc., P repeats जल, P विहंमो. 7 > P साय for सायर, P तो for ता. 9 > J जइ होइ सुद्धमावो आराहइ इट्ठदेवयं परमं । गंगाजलतलयाणं को णु विसेसो भवे तस्स ॥ for the verse भागीरहिजल etc., P -मलावणयलं तं 11 > P रायाण, J सुद्धान. 13 > J धम्मो, P णार्वित्तियंहावो, J धम्मइ for भण्णइ, J उणाए. 15 > P कारविज्जंति, J चे अ- 17 > J एक्कं for एत्थ, P को इह for पुण को. 19 > P इह इ for पुढवि, P तेण for जेण. 21 > P कोति for कोइ, P सुद्ध-जल-वेलवणो पासंठो एस तो रइओ ॥ for the line पावो तवेण etc. 22 > J om. भणियं. 23 > P विदीसते तेण, J जाणं for ज्ञाणं, J adds जुज्झ before जुत्तेण, P सुधम्मा. 25 > P जुत्ते for जुत्तेण. 27 > J माउ for माइ, P गुरुजणंमि, J om. च. 29 > J धम्मं, P गुणवएसु देवेसु, P ज for जं, J अतियारो. 31 > J एत्थ for अत्थि. 32 > P को वि जीवो. 33 > P को एसं जंपए, J णत्थियवाती, P दंहुंमि विणिजोगो. 35 > J धम्मदाणं P धणदाणं.

- 1 देइ हलं जीयहरं पुहई जीयं च जीवियं धणं । अबुहो देइ हलाइं अबुहो चिय गेणहए ताई ॥ 1  
अण्णेण भणियं ।
- 3 बुक्खिय-कीड-पयंगा मोएऊणं कुजाइ-जम्माइं । अण्णत्थ होंति सुहिया एसो करुणापरो धम्मो ॥ 3  
राइणा चित्तियं ।  
जो जत्थ होइ जंतू संतुट्ठो तेण तत्थ सो सव्वो । इच्छइ ण कोइ मरिउं सोउं पि ण जुज्जए एयं ॥
- 6 अण्णेण भणियं । 6  
सहूल-सीह-रिच्छा सप्पा चोरा य दुट्ठया एए । मारेंति जियाण सए तम्हा ताणं वहे धम्मो ॥  
राइणा चित्तियं ।
- 9 सव्वो जीवाहारो जीवो लोयम्मि दिट्ठ-परिणामो । जइ दुट्ठो मारिज्जइ तुमं पि दुट्ठो वहं पावं ॥ 9  
अण्णेण भणियं ।  
दहि-दुद्ध-गोरसो वा घयं व अण्णं व किं पि गाईणं । मासं पिव मा भुंजउ इय पंडर-भिकखओ धम्मो ॥
- 12 राइणा चित्तियं । 12  
गो-मासे पडिसेहो एसो वज्जेइ मंगलं दहियं । खमणय-सीलं रक्खसु मज्झ विहारेण वि ण कज्जं ॥  
अण्णेण भणियं ।
- 15 को जाणइ सो धम्मो णीलो पीओ व सुक्किलो होज्ज । णाएण तेण किं वा जं होहिइ तं सहीहामो ॥ 15  
राइणा चित्तियं ।  
णज्जइ अणुमाणेणं णाएण वि तेण मोक्ख-कज्जाइं । अण्णाण-सूढयाणं कत्तो धम्मस्स णिप्फत्ती ॥
- 18 अण्णेण भणियं । 18  
जेण सिही चित्तलिए धवले हंसे कए तह म्हे वि । धम्माहम्मे चिंता काहिइ सो अम्ह किं ताए ॥  
राइणा चित्तियं ।
- 21 कम्मणेण सिही चित्तो धवलो हंसो तुमं पि कम्मणेण । कीरउ तं चिय कम्मं तस्स य दिव्वो विही णाम ॥ 21  
अण्णेण भणियं ।  
जो होइ धम्म-पुरिसो सो चिय धम्मो पुणो वि धम्म-रओ । जो पुण पावम्मि रओ होइ पुणो पाव-णिरओ सो ॥
- 24 राइणा चित्तियं । 24  
जइ एक्को चिय जीवो धम्म-रओ होइ सव्व-जम्मेसु । ता कीस णरय-गामी सो चिय सो चैय सगगम्मि ॥  
अण्णेण भणियं ।
- 27 जो ईसरेण केण वि धम्माहम्मेसु चोइओ लोगो । सो चैय धम्म-भागी पत्तिय अण्णो ण पावेइ ॥ 27  
णरवइणा चित्तियं ।  
को ईसरो त्ति णामं केण व कज्जेण चोयणं देइ । इट्ठाणिट्ठ-विवेगो केण व कज्जेण भण तस्स ॥
- 30 अण्णेण भणियं । 30  
धम्माधम्म-विवेगो कस्सइ पुहवीए होज्ज पुरिसस्स । मूढ-परंपर-माला अंधाण व विरइया एसा ॥  
णरवइणा चित्तियं ।
- 33 धम्माधम्म-विसेसो अवस्स पुरिसस्स कस्स वि जयम्मि । तेण इमे पव्वइया अण्णह को दुक्करं कुणइ ॥ 33  
अण्णेण भणियं ।  
णाऊण पंचवीसय-पुरिसं जइ कुणइ वंम-हच्चाओ । तो वि ण लिप्पइ पुरिसो जलेण जइ पंकयं सलिले ॥
- 36 राइणा चित्तियं । 36

1 > P देइ वलं जीयहरं पुहविजीवं च, P ताई for ताई. 3 > P मो मो ए for मोएऊणं, P अन्नेत्थ, J करुणो परो, P धमो ॥  
5 > P हो for सो, P सोउ पि ण जुए एयं. 6 > P adds पुण before भणियं. 7 > P -रिच्छा, P चोरा या एए I, J एते I, P मारंति जिणणसए. 9 > P लोयंमि, P मारिज्जर तुमं, J तुमं पि दिट्ठो वधं, P पावा for पावं ॥ 11 > P किं पि काईणं, P भुज्जउ इय पिंडरभिकखओ धमो. 13 > P कखमणय. 15 > P जो for को, J पीहो व्व सु, P होज्जा I, P होहिति तं. 17 > J मज्जाए for कज्जाइं. 19 > P चित्तिलिंते, P तहेवे for तहग्हे, P धम्मोधम्मो, P काही सो. 20 > P om. राइणा चित्तियं before कम्मणेण J चिण्णा for चित्तो, P देने for दिव्वो. 23 > P जो होवइ, P after धम्मपुरिसो repeats अम्ह किं ताए । कम्मणेण etc. ending with जो होइ धम्मपुरिसो, P om. धम्मो, J होज्ज रओ for धम्मरओ, P सो उण पावरओ सो होइ for जो पुण etc. 25 > P तो for ता, P चै for चिय. 27 > P धंमाधंमेसु, J गाहोओ लोगो for चोइओ लोगो, J चैय, J पत्तिश्रग्गो P पच्चियगो. 29 > P ईसर त्ति, J लोमं for णामं, J चैयणं for चोयणं, P -विवेओ, P मणंतस्स. 31 > P धम्माधम्मविवेओ कस्सण पुट्ठीए, J -मायी for माला. 33 > P -वित्तउवस्स पुरिसस्स, J व for वि, P दुक्कर कुणइ. 35 > P पंचवीसयं, P पंकयसलिले.

- 1 जाणंतो खाइ विसं कालउडं तेण सो णवि मरेज्ज । ता जइ होज्ज इमं पि हु ण य तं तम्हा हु धम्मोयं ॥ 1  
अण्णेण भणियं । 3
- 3 पाणि-वहालिय-वयणं अदिण्णदाणं च मेहुणं अत्थो । वज्जेसु दूरओ चिय अरहा देवो इमो धम्मो ॥  
राइणा चित्तियं । 6
- 6 पावट्ठाण-णियत्ती अरहा देवो विराग-भावो य । लिहियम्मि तम्मि धम्मो घडइ इमो णत्थि संदेहो ॥  
[ ३२३ ] इमं च जाव णरवई चित्तिउं समाढत्तो ताव य । 9
- 9 सम्मत्त-जाणवत्तं अह एसो णरवई समासुहइ । आरुहइ जस्स कज्जं पुक्करियं जाम-संखेणं ॥  
तं च मज्झण-संख-सइं सोऊण णियय-धम्म-कम्म-करणिज्ज-वावट्ठ-मणेहिं पुलइयाइं दस वि द्विशिवहाइं धम्म-पुरिसेहिं । 9
- 9 णरवइणा वि गहिय-सव्व-धम्म-परमत्थेण भणिया सव्व-धम्म-वाइणो 'वच्चह तुवमे, करेह गियय-धम्म-कम्म-किरिया-कलावे' 9  
त्ति । एवं च भणिया समाणा सव्वे णिययासीसा-मुहला समुट्ठिया अत्थाणि-मंडवाओ । साट्ठणो उण भगवंते राइणा  
भणिए 'भगवं, तुवमेहिं कत्थ पुरिसो धम्मो पाविओ' त्ति । साट्ठहिं भणियं 'अम्हेहिं सो महाराय, आगमाओ' त्ति । 12
- 12 तेण भणियं 'को सो आगमो' त्ति । गुरुणा भणियं 'अत्त-वयणं आगमो' त्ति । राइणा भणियं 'नेरिसो अत्तो जस्स वयणं 12  
आगमो' त्ति । गुरुणा भणियं ।  
'जो राय-दोस-रहिओ किलेस-मुक्को कलंक-परिहीणो । णाणुज्जोइय-भुयणो सो अत्तो होइ णायव्वो ॥'  
15 राइणा भणियं । 15
- 15 सो केण तुम्ह दिट्ठो केण व णिसुओ कइं कहेमाणो । केण पमाणेण इमं वेप्पड अम्हारिसेहिं पि ॥  
गुरुणा भणियं । 18
- 18 अम्हेहिं सो ण दिट्ठो ण य णिसुओ किंचि सो कहेमाणो । आगम-गमएहिं पुणो णज्जइ इह अत्थि सव्वण्णू ॥  
राइणा भणियं । 18
- 18 जइ ण णिसुओ कइं तो कइ भणसि महागमेण सव्वण्णू । जो ण सुओ ण य दिट्ठो कइ तं अम्हाण साहेसि ॥  
21 गुरुणा भणियं । 21
- 21 जइ वि ण सुओ ण दिट्ठो तहा वि अण्णेहिं दिट्ठ-पुव्वो त्ति । गुरव-परंपर-माली-क्रमेण एसो महं पत्तो ॥  
जइ तुम्ह इमं रज्जं पावइ पारंपरेण पुरिसाण । तह अम्ह आगममिणं पावइ जोगत्तण-विसेसो ॥ 24
- 24 राइणा भणियं 'कइं पुण एस सुंदरो त्ति आगमो णज्जइ' । गुरुणा भणियं ।  
जीवाजीव-जहट्ठिणं य कम्म-फल-पुण्ण-पाव-परिकहणे । पुव्वावराविरुद्धो अणुहव-पच्चक्ख-गम्मो य ॥  
अणुमाण-हेउ-जुत्तो जुत्ती-दिट्ठंत-भावणा-सारो । अणवज्ज-वित्ति-रइओ तेणेसो आगमो सारो ॥  
27 राइणा भणियं । 'सुंदरं सुंदरयरं इमं, जइ पुण इमस्स आगमस्स उवएसं जहा-भणियं करेइ पुरिसो, ता किं तस्स फलं 27  
हवइ' त्ति । गुरुणा भणियं ।
- 30 सव्वण्णु-वयण-वित्थर-भणिए जो सइहइ सयल-भावे । विहि-पडिसेह-गिरुवण-परो य सो भणिए साहू ॥  
30 सो तव-संजम-लीले काउं विरइं च णाम संपत्तो । णिट्ठविय-सव्व-कम्मो सिद्धिपुरिं पावए अइरा ॥  
जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सिंवं च सोक्खं तं सिद्धिं पावए सहसा ॥  
33 चंदं भणियं । 'कुमार, गिरुत्तं एस सो मोक्ख-धम्मो त्ति । अवि य ।  
एसो हि मोक्ख-धम्मो धम्माण वि एस सारओ धम्मो । एसो वि देवि-दिण्णो इक्खागूणं च कुल-धम्मो ॥'  
1 > P विसं तालउडं तिण सो, P होइ for होज्ज, J इमंमि हु, P तं तंमा कुवम्मो य ॥ 3 > P पाण for पाणि, P मेहुणे  
अत्थि । 5 > P विरागधम्मो य, P इमं णत्थि. 6 > P णरवइ चित्तिउमाढत्तो. 7 > P सामन्न for सम्मत्त, P णरवती, P कज्जं  
बुक्करियं. 8 > P संखइ सोऊण, J om. करणिज्ज, P om. वि. 10 > J भणिया सव्वे, J om. णियया, P अत्थाणमंडवाउ. 11 >  
P भणियं for भणिए, J om. अम्हेहिं सो. 12 > P om. को सो आगमो etc. ending with णायव्वो ॥ राइणा भणियं ।  
16 > P तुम्हे दिट्ठो, J इहं वेप्पइ, P अम्हारिसेहिम्मि । 18 > J inter. सो & ण, P adds कइं before कहेमाणो. 20 > J  
कइं रे for कइं तो, P भणासि, P सुए for सुओ, P om. य. 22 > P om. सुओ ण, P adds अम्हे before तहा, P गुरुएस for  
गुरव, P एसा महं पत्ता. 23 > J पुरिसेण ।, P आगमेणं for आगममिणं, P जोगत्तण. 24 > P inter. त्ति & आगमो.  
25 > J जहतिय, J कम्मफलो, P परिकहणा । पुव्वावरा. 26 > P वित्तिरइओ तेण य सो. 27 > P सुंदरं सुंदरं. 29 >  
P सयलरुत्ते, P जो for सो. 30 > P सीलो काओ विरयं, P ण for णाम, J संपुण्णो for संपत्तो, P णिट्ठवियसकमो सिद्धिपुरी.  
31 > P णेय दुक्खसव्वाइं । 32 > P ससीसकंपं. 33 > J om. अवि य. 34 > P हु for हि, P adds ति before  
धम्माण, P एसो देवी दिण्णी.

- 1 एसो तुह दिट्ठंतो साहिज्जइ अबुह-बोहणट्टाए । जो एस महाजलही एसो संसार-वासो त्ति ॥ 1
- जा समिला सो जीवो जं जूयं होइ तं खु मणुयत्तं । जे देवा दोणिण इमे रागदोसा जियस्स भवे ॥
- 3 अह तेहिं चिय समिला उक्खित्ता णवर मणुय-छिड्डाओ । परिभवइ कम्म-पवणेरिया व वरं भव-समुद्दस्मि ॥ 3
- अह राग-दोस-वसओ चुक्को मणुयत्तणाओ सो जीवो । चउरासीति-सहस्से सयाण मूढो परिभमइ ॥
- मणुयत्तणाउ चुक्को तिरिक्ख-जोणीसु दुक्ख-लक्खासु । भमइ अणंतं कालं णरएसु य घोर-रूवेसु ॥
- 6 अह राग-दोस-दालिह-दुक्ख-संताव छिण्णासो । कम्म-पवणेण जीवो भामिज्जइ कहिय समिल व्व ॥ 6
- कालेण अणंतेण वि सा समिला जह ण पावए छिड्ढं । तह मणुयत्तण-चुक्को जीवो ण य जाइ मणुयत्तं ॥
- § ३२७ ) भणियं च गुरुणा ।
- 9 जह समिला पवभट्टा सायर-सलिले अणोरपारस्मि । पविसेजा जुग-छिड्ढं इय संसइओ मणुय-लंभो ॥ 9
- पुव्वंते होज्ज जुयं अवरंते तस्स होज्ज समिला उ । जुय-छिड्ढस्मि पवेसो इय संसइओ मणुय-लंभो ॥
- सा चंड-वाय-वीई-पणोल्लिया वि लभेज्ज जुयच्छिड्ढं । ण य मणुसाओ चुक्को जीवो पुण माणुसं लहइ ॥
- 12 अह मणुयत्तं पत्तं आरिय-कुल-विहव-रूव-संपण्णं । कुसमय-भोहिय-चित्तो ण सुणइ जिण-देसियं धम्मं ॥ कहं । 12
- जह काय-मणिय-मज्झे वेरुलिओ सरस-विहव-संठाणो । इयरेण णेय णज्जइ गुण-सय-संदोह-भरिओ वि ॥
- एवं कुधम्म-मज्झे धम्मो धम्मो त्ति सरिस-उल्लावो । मोहंधेहिं ण णज्जइ गुण-सय-संदोह-भरिओ वि ॥
- 15 जह णल-वेणु-वणेसुं कह वि तुलगेण पाविओ उच्छू । ण-यणंति के वि बाला रस-सार-गुणं भलक्खेंता ॥ 15
- तह कुसमय-वेणु-महावणे वि जिणधम्म-उच्छू-बुच्छेओ । मूढेहिं णेय णज्जइ सुह-रस-रस-रसिय-रसिओ वि ॥
- जह बहु-तरुवर-गहणे ठवियं केणावि कप्पतरु-रयणं । पुरिसेहिं णेय णज्जइ कप्पिय-फल-दाण-दुल्लियं ॥
- 18 तह कुसमय-तरु-गहणे जिणधम्मो कप्प-पायव-समाणो । मूढेहिं णेय णज्जइ अक्खय-फल-दाण-सुहओ वि ॥ 18
- जह मज्झे मंताणं मंतो बहु-सिद्धि-सिद्ध-माहणो । असयणोहिं ण णज्जइ सरिसो सामण्ण-मंतेहिं ॥
- तह कुसमय-मंत-समूह-मज्झ-परिसंठिओ इमो धम्मो । असयणोहिं ण णज्जइ सिद्धि-सयंगाह-रिद्धिलो ॥
- 21 जह सामण्णे धरणीयलमि अच्छइ गिहित्तयं अत्थं । अबुहो ण-याणइ चिय इह बहुयं अच्छइ णिहाणं ॥ 21
- तह धम्म-धरणि-णिहियं जिणधम्म-णिहाणयं इमं सारं । अबुहो ण-याणइ चिय मण्णइ सरिसं कुत्तियेहिं ॥
- इय णरवर जिणधम्मो पयडो वि णिगूहिओ अउण्णाण । दिट्ठं पि णेय पेच्छइ ण सुणइ साहिज्जमाणं पि ॥
- 24 अह णिसुयं होइ कहं पि तह वि सद्धं ण सो कुणइ । मिच्छा-कम्म-विमूढो ण-यणइ जं सुंदरं लोए ॥ 24
- जह पित्त-जरय-संजाय-डाह-डज्जंत-वेविर-सरीरो । खंड-वय-मीसियं पि हु खीरं अह मण्णए कहुयं ॥
- तह पाव-पसर-संताव-मूढ-हियओ य अयणओ कोइ । पायस-खंड-सम-रसं जिण वयणं मण्णए कहुयं ॥
- 27 जह तिमिर-रूद्ध-दिट्ठी गयणे ससंते वि पेच्छए रूवे । संते वि सो ण पेच्छइ फुड-वियडे घडय-पड-रूवे ॥ 27
- तह पाव-तिमिर-मूढो पेच्छइ धम्मं कुत्तिय-त्तियेसु । पयडं पि णेय पेच्छइ जिणधम्मं तत्थ किं कुणिमो ॥
- जह कोसिय-पक्खि-गणो पेच्छइ राईसु वहल-तिमिरासु । उइयम्मि कमलणाहे ण य पेच्छइ जं पि अत्ताणं ॥
- 30 तह मिच्छा-दिट्ठि-जणो कुसमय-तिमिरेसु पेच्छए किं पि । सयलुज्जोविय-भुयणे जिणधम्म-दियायरे अंधो ॥ 30
- जह अरिगंधण-तत्ते जलमि सिज्जंति बहुयरा मुग्गा । कंकदुया के वि तहिं मणयं पि ण भिज्जिरे कठिणा ॥
- तह धम्म-कहा-जलणेण तविय-कम्मस्स पाव-जीवस्स । कंकदुयस्स व चित्तं मणयं पि ण होइ मउययरं ॥
- 33 जह मुद्ध-बालयओ दुक्कइ वग्घीए जणणि-संकाए । परिहरइ पुणो जणगी मूढो मोहेण केणावि ॥ 33

1) P संसारे वासो. 2) P सा for सो, P तु for खु, J सदभावा for सवे. 3) J जीव P जीय for चिय, J उत्थामिआ for उक्खित्ता णवर, J om. 2nd line परिभवइ etc., Rather विरं for व वरं. 4) P परिभवइ. 5) P -वग्घीसु, P व for व. 6) P दोसदालिह, J adds ताव after संताव. 7) P कह वि for जह ण, J मणुयत्तं ॥. 9) P सागर, J पविसेजा जुअच्छिड्ढं, P om. इय संसइओ मणुयलंभो etc. to लभेज्ज जुयच्छिड्ढं ॥. 10) J पुव्वंतो, J समिला तु । 11) J संताव, J पणोल्लिया. 12) P संपुण्णं, J कह for कहं. 13) P कह for जह J वेरुलिआ सरिसवयणसंठाण । 14) J कुधम्म, P सरिसओलओ, J मोहंधेण. 15) P विओ for पाविओ, J उच्छं, J रसमार, P अल्लयं वा ॥. 16) P तह for तह, J adds हो after तह, P कुसमय, J विच्छेओ P बुच्छेओ, P om. रसिय. 17) P तक्कय, P कप्पमणयं । 18) P कुसमय 19) P om. ण before णज्जइ. 20) P कुसमय. 21) J adds अ before गिहित्तयं, P अर for अर, J अच्छए अत्थं ॥. 22) P repeats धम्म, P repeats the line अबुहो ण याणइ चिय अर बहुयं अच्छइ णिहाणं ॥ after इमं सारं । 24) P होति कइ, J adds अ before सद्धं, P सद्धं, P ण for ण सो कुणइ, P जह for जं. 25) P तय for तय, J दोबदरिण, P मीसियं, J हु खीरं. 26) P संताव for संताव, P om. व, P अयाणुड वो वि । 27) J णेय पेच्छइ, P पेच्छइ, P om. रूवे । संते वि सो ण etc. to पि णेय पेच्छइ. 28) P कुणिमो for कुणिमो. 29) P पक्खिगणो, P विज्जिरे कठिणे, letter सिज्जंति, विज्जिरे. 30) P कुसमय, P भुयणो. 31) P तत्ते, J सिज्जंति, J मणयं, J भिज्जिरे कठिणे, letter सिज्जंति, विज्जिरे. 32) J विज्जिरे कठिणे, P कंकदुयस्स, P वि for व, P मणुयं. 33) J मुद्धबालयओ, J वग्घीए, P जणगी, J मूढो for मोहेण.

- 1 तह सुद्धो कोइ जिओ कुसमय-वग्घीसु हुक्कइ सुद्धथी । परिहरइ जिणाणत्तिं जणणिं पिव मोक्ख-भग्गस्स ॥ 1  
इय णरवर केइ जिया सोऊण वि जिणवरिंद-वयणाइं । ण य सदहंति मूढा कुणंति बुद्धिं कुत्तियेसु ॥
- 3 अह कह वि कम्म विवरेण सदहाणं करेज्ज एस जिओ । अच्छइ सदहमाणो ण य लगइ णाण-किरियासु ॥ 3  
जह अयड-तडे पुरिसो पयलायइ सुणइ जह पडीहामि । ण य वच्चइ सम-भूमिं अलसो जा णिवडिओ तत्थ ॥  
तह णरय-कूव-तड-पडण-संठिओ कुणइ पाव-पयलाओ । तत्र-णियम-समं भूमिं ण य वच्चइ णिवडिओ जाव ॥
- 6 जह सयल-जणिय-काणण-वण-दव-डज्जंत-भीसणं जलणं । दट्टूण जाणइ णरो डज्जिज्जइ सो ण य पलाइ ॥ 6  
तह सत्तु-मित्त-घर-वास-जलण-जालावली-विलुट्ठो वि । जाणइ डज्जामि अहं ण य णासइ संजमं तेण ॥  
जह गिरि-णइ-वेय-वियाणुओ वि मज्जेज्ज गिरि-णइ-जलमि । हरिज्जण जाणमाणो णिज्जइ दूरं समुद्धमि ॥
- 9 तह पाव-पसर-गिरि-णइ-जल-रय-हीरंतयं मुणइ जीयं । ण य लगइ संजम-तरुवरमि जा णिवडिओ णरए ॥ 9  
जह कोइ णरो जाणइ एसो चोरेहिं मूसए सथो । ण य धावइ गामंतो जा मुसिओ दुट्ठ-चोरेहिं ॥  
तह इंद्रिय-चोरेहिं पेच्छइ पुरओ मुसिज्जए लोए । जाणइ अहं पि मुसिओ संजम-गामं ण अल्लियइ ॥
- 12 अह कोइ चोर-पुरिसो जाणइ कइया वि होइ मह मरणं । ण य सो परिहरइ तयं जाणंतो पाव-दोसेण ॥ 12  
तह पाव-चोरियाए गिट्ठो जीवो वियाणए दुक्खं । जाणंतो वि ण विरमइ जा पावइ णरय-णिग्गहणं ॥  
इय णरवर को पावइ मणुयत्ते पाविए वि जिण-वयणं । णिसुए वि कस्स सद्धा कत्तो वा संजमं लहइ ॥
- 15 तेण णरणाह एयं दुलहं भव-सायरे भमंतस्स । जीवस्स संजमं संजममि अह वीरियं दुलहं ॥ 15  
तुमए पुण संपत्तं सम्मत्तं संजमं च विरियं च । पालेसु इमं णरवर आगम-सारेण गुरु-वयणं ॥  
धम्ममि होसु रत्तो किरियाए तग्गओ रओ ज्ञाणे । जिण-वयण-रओ णरवर विरओ पावेसु सव्वेसु ॥
- 18 होसु दढव्वय-चित्तो णित्थारग-पारगो तुमं होसु । वड्डसु गुणेहिं मुणिवर तवमि अच्चुज्जओ होसु ॥ 18  
भावेसु भावणाओ पालेसु वयाइं रयण-सरिसाइं । कुण पावकम्म-खवणं पच्छा सिद्धिं पि पावेसु ॥ त्ति ।

§ ३२८ ) एवं च गिसामिज्जं भगवं दढव्वम-राय-रिसी हरिस-वसुल्लसंत-रोमंचो पणमिओ चलणेसु गुरुणो, भणियं 21 च । 'भगवं, अवि य, 21

- अज्जेय अहं जाओ अज्ज य संवड्ढिओ टिओ रज्जं । मण्णामि कयत्थं अप्पयं च जा एस पव्वइओ ॥  
जं जं मह करणिज्जं तं तं तुम्हेहिं आइसेयव्वं । जं जं चाकरणिज्जं तं तं पडिसिज्जह सुणिंद ॥' त्ति ।
- 24 गुरुणा भणियं । 'एवं हवउ' त्ति भणिए चलण-पणामे अब्भुट्ठिओ वंदिओ सयल-सामंत-चक्केण कुमारेण य । णायर-जणो वि 24  
कय-जय-जय-सद्धो अभिणंदंतो आगओ णयरिं । णरिंद-लोओ वि 'अहो महासत्तो महाराया दढव्वमो' त्ति भणंतो आगंतुं  
पयत्तो । तओ गुरुणा वि महाराया कारविओ तक्कालियं करियव्वं त्ति । एवं च करंतो कायव्वाइं, परिहरंतो अकायव्वाइं,  
27 भणंतो भणियव्वाणि, अभणंतो अभणियव्वाइं, जंतो गम्माणि, वज्जंतो अगम्माणि, भुंजंतो भक्खाणि, अभुंजंतो अभक्खाणि- 27  
पियंतो पेयाणि, परिहरंतो अपेयाणि, इच्छंतो इट्ठाणि, वज्जंतो अणिट्ठाणि, सुणंतो सोयव्वाणि, अवमण्णंतो असोयव्वाणि,  
पसंसंतो पसंसणिज्जाणि, उवेक्खंतो अपसंसणिज्जाणि, वंदंतो वंदणिज्जाणि, वज्जंतो अवंदणिज्जाणि, णिंदंतो संसार-वासं, पसं,  
30 संतो जिणिंद-वर-मग्गं त्ति । अवि य । 30

कजाकज-हियाहिय-गम्मागम्माइं सव्व-कजाइं । जाणंतो चिय विहरइ किंचिमेत्त-परिसेस-कम्मंसो ॥ त्ति ।

1 > J को वि, P कुसमय, J -वग्घीय, P जिणाणत्ती जणणि, P मोक्खसारस्स. 2 > P इय नर को वि, J बुद्धी. 3 > J सदहणं जद करेज्ज. 4 > J सुणइ for मुणइ, J एत्थ for तत्थ. 5 > P नयर for णरय. 6 > P तण for दव, P om. three lines दट्टूण जाणइ णरो etc. to संजमं तेण ॥. 8 > P वियाणओ. 9 > P सुणइ for मुणइ, P तरुवरमि. 11 > P adds पुइ before पुरओ, P -गाम. 12 > P पावदोसेहिं. 13 > J जीओ, J विरइ for विरमइ, P -णिग्गमणं. 14 > J पावि for पाविए, P सिद्धा कत्ता. 15 > P दुलहं भवसागरे, P वीरियदुलहं. 16 > P च विरईयं । 17 > P om. रओ, P ज्ञाणे, J inter. णरवर & विरओ, P पावमु. 18 > J णित्थारया, P अब्भुज्जओ. 20 > P भयवं, P -वसुच्छलंतरोमिंचो पणामिओ, P गुरुणा, P om. भणियं च. 22 > J आउ for जाओ, P ट्ठिओ, P अप्पियं च जाएसु पव्वइओ. 23 > J तुम्हेहिं for तुम्हेहिं, P आयसेयव्वं, P जं च न करणिज्जं, J परिसिज्जह P पडिसिद्धह. 24 > J हवउ, P हणिए for भणिए, J -पणामव्भुट्ठिओ, P पणामे पव्वुट्ठिओ य वंदिओ य सयल, J णायरजणेहि कयं. 25 > P अभिंददिज्जण, P नरिंदलो, J om. वि, P आहो for अहो, J दढव्वमदेवो, P दढव्वमो. 26 > J पयत्ता, J adds तं before तओ, P कारिओ तक्कालियं किरियव्वं, P करण्णो for करंतो. 27 > P om. भणंतो भणियव्वाणि, J om. भणियव्वाणि अभणंतो, P वज्जंतो, J om. भुंजंतो भक्खाणि, P भुंजंतो for भुंजंतो (emended). 28 > P पेयाणि for अपेयाणि, P असुणंतो for अवमण्णंतो. 29 > J वज्जंतो for वंदंतो, P वंदणियाणि, P reports अवंदंतो for वज्जंतो. 31 > J जाणंतो विहर केइ किंचिमेत्तपरिसेय-

1 § ३२९ ) एवं च तस्स मुणिणो वच्चइ कालो कुवलयचंदस्स । पुण असेस-णरिंद-चंद-मंडली-मउड-कोडि-विडं- 1  
मणि-णिहसमाण-मसिणिय-चलण-पट्टस्स बोलीणाइं सत्त-वास-लक्खाइं रजं करेतस्स । एत्थंतरम्मि पउमकेसरस्स देवस्स को  
3 वुत्तंतो वट्टिउं पयत्तो । अवि य ।

जायइ आसण-कंपो छाया परियलइ गलइ माहप्पो । विमणा य वाहणा परियणो य आणं विलंधेइ ॥

तओ तं च जाणिऊण तत्रक्खयं खणमेकं परिचिंतिऊण दीण-विमण-दुम्मण-हियएण वियारियं हियए ।

6 मा होह रे विसण्णो जीव तुमं विमण-दुम्मणो दीणो । ण हु चिंतिएण फिट्ठइ तं दुक्खं जं पुरा रइयं ॥

जइ पइससि पायालं अडइं व दरिं गुहा समुहं वा । पुव्व-कयाउ ण मुंचसि अत्ताणं खायसे जइ वि ॥

जइ र्यसि वलसि वेवसि दीणं पुलएसि दिसि-विदिसियके । हा हा पलवसि विलवसि चुक्कसि कत्तो कयंताओ ॥

9 जइ गासि धासि दुम्मण मुज्झसि अह लोलसे धरणिवट्ठे । जंपसि मूओ व्व ठिओ चुक्कसि ण वि तं कयंताओ ॥

जं चय कयं तं चय भुंजसे णत्थि एत्थ संदेहो । अकयं कत्तो पाविसि जइ वि सयं देव-राओ त्ति ॥

मा हो जूरह पुरिसा विहवो णत्थि त्ति अम्ह हियएण । जं पुव्वं चिय ण कयं तं कत्तो पावसे एण्हि ॥

12 मा हो मज्जह पुरिसा विहवो अम्हं ति उत्तुणा हियए । किं पि कयं सुकयं वा पुणो वि तं चय भे कुणह ॥

होऊण अम्ह ण हुयं मा दीणा होह इय विचिंतेह । काऊण पुणो ण कयं किं पि पुरा सुंदरं कम्मं ॥

ता एत्तियं मए चिय सुकयं सुकयं ति अण्ण-जम्मम्मि । एत्तिय-मेत्तं कालं जं भुत्तं आसि दिय-लोए ॥

15 जेहिं कयं सरिसेहिं पुव्व-तवं धम्मणंदण-समक्खं । ते सब्बे मह सहया पुव्वयरं पाविया पढणं ॥

ता मज्झं चिय विहवे चिरयरं आसि काल-परिणामं । एवं ठियम्मि किं जह अप्पाणं देमि सोयस्स ॥

§ ३३० ) ता जं संपइ संपत्त-कालं तं चय काहामि त्ति आगओ अयोज्झा-पुरवरिं, दिट्ठो राया कुवलयचंदो,

18 कुवलयमाला य । साहियं च ताण जहा 'अहं अमुग-मासे अमुग-दियहे तुम्ह पुत्तो भवीहामि त्ति । ता इमाइं पउमकेसर- 18

णामंकियाइं दिव्वाइं कडय-कोडल-कंठाभरणदीयाइं आभरणाइं गेण्हह । इमाइं च मह पसरमाण-बुद्धि-वित्थरस्स परिहियव्वाइं ।

जेण इमाइं बहु-काल-परिहियाइं पेच्छमाणस्स मह जाईसरणं उप्पज्जइ त्ति । पुणो जेण उप्पण्ण-पुव्व-जाई-सरणो

21 संजाय-वेरगो ण रज्ज-सुहे सुट्ठु वि मणं करिस्संति । किंतु भव-सय-सहस्स-दुल्लहे जिण-मग्गे रइं करेमि' त्ति भणमाणेण 21

समप्पियाइं आभरणयाइं । उप्पइओ य णहयलवहं संपत्तो सग्गं । तत्थ य जहा-तव-विहवं पुणो वि भोए भुंजिउं पयत्तो ।

एवं च वच्चंतेसु दियहेसु तम्मि चय पउमकेसर-देव-दिण्णे ओहि-दियहे उउमइए कुवलयमालाए उप्पण्णो गवभो ।

24 जहासुहं च मणोरह-सय-सएहिं संवट्ठिओ । णिय-काल-मासे य संपुण्ण-सयल-दोहलाए सुकुमाल-पाणि-पाओ जाओ 24

मणिमय-वाउल्लओ विय दारओ त्ति । सो य परिवाडीए वड्ढमाणो गहियासेस-कला-कलावो पसरमाण-बुद्धि-वित्थरो

जाओ । तओ तस्स य से णामं पुव्व-कयं चय मुणिणा पुहइसारो त्ति । तओ तस्स समोप्पियाइं ताइं आभरणाइं । ताणि

27 य पेच्छमाणस्स 'इमाइं मए दिट्ठ-पुव्वाइं' ति ईहापूह-मग्गण-गवेसणं कुणंतस्स झत्ति जाईसरणं समुप्पणं । तओ संभरिय- 27

पुव्व-दुक्खो मुच्छिओ पडिओ धरणिवट्ठे । ससंभमं पहाइएण य सित्तो चंदण-जलेण सहयर-सत्थेणं त्ति । तओ आसासिओ

चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, तारिसाइं सग्गे सुहाइं अणुभविऊण पुणो वि एरिसाइं तुच्छासुइ-गिंदियाइं अइ मणुय-सुहाइं

30 जीवो अभिलसइ त्ति धिरत्थु संसारवासस्स । अहवा धिरत्थु जीवस्स । अहवा धिरत्थु कम्मस्स । अहवा धिरत्थु 30

रायहोसाणं । अहवा धिरत्थु पुणो वि इमस्स बहु-दुक्ख-सहस्साणुभव-णिव्विलक्खस्स णिय-जीव-कलिणो, जो जाणंतो वि

दुक्खाइं, वेणंतो वि सुहाइं, बुज्झंतो वि धम्मं, वेयंतो वि अहम्मं, पेच्छंतो वि संसारं, अणुभवंतो वि वाहि-वियारं, वेवंतो

1 > P मुणिंदो वच्चए, P णियसेस for पुण असेस, J कोडी- 2 > J णिहसणामसिणीअयचलणवट्टं बोलीणाइं. 3 > P वट्टिउं

for वट्टिउं, P om. अवि य. 4 > P विमणो, P परियणा वि आणं विलंधंति. 5 > J एवं for तं, J हियएणावि आविअहिअए-

6 > P होमि for होह, J दिट्ठइ for फिट्ठइ, P इयं for रइयं. 7 > P पयससि, P गुहं, P मुंचणि for मुंचसि, P खाइसे. 8 > J

दस- for दिसि, J विलवसि for पलवसि. 9 > P वासि for धासि, P om. अह, P लोलसि, J अउ for मूओ, J कत्तो for ण

वि तं. 10 > P जं चिय कयं तं चिय भुंजसि, J पावइ for पाविसि. 11 > J विहओ णत्थि, J मज्झ for अम्ह, J inter. तं &

कत्तो, P पावसे इण्हि ॥. 12 > P मा हो गव्वह पुरिसो, J अअं for अम्हं, P अत्तुणो for उत्तुणा, J सुकयं हो पुणो वि. 13 >

ता जं, P adds कायव्वं before तं चय, P चय कहामि, P आउज्झापुरवरिं. 18 > P (m. च, J adds य before तुम्ह, P om.

त्ति, J om. ता, J adds च after इमाइं, P पउमसारणांमंकियाइं किं दिव्वाइं. 19 > J कणय for कडय, P om. 'भरणा',

J आहरणाइं. 20 > P om. जेण इमाइं, J जातीसरणं, P जाइसरणं उज्जइ त्ति, J जातीसरणो य जातवेरगो ण रज्जमु सुहेमु ठाड मणं

करइस्सं किंतु सयसयसइस्स दुल्लभे, P जातिसरणो. 21 > P जिणमग्गो, P मणमाणे समप्पियाइ आभणयाइं. 22 > P om. उप्पइओ

य णहयलवहं etc. to समोप्पियाइं ताइं आभरणाइं. 23 > J उउमतीए. 24 > J कुकुमाल for सुकुमाल. 27 > P दिट्ठा पुव्वाइं

त्ति, P करेतस्स for कुणंतस्स, P om. झत्ति, J जातीसरणं. 28 > J धरणिवट्ठे, J ससंभमप भाइएण, P पदाइएणमि सित्तो. 29 >

P पुत्तेणो for पुणो, J om. वि, J तुच्छासुइं P वच्छासुति, P om. अइ, P मणुसुहाइं. 30 > P अहिलसइ. 31 > P रागदीसाणं,

P पुत्तेणो for पुणो, J om. वि, J तुच्छासुइं P वच्छासुति, P om. अइ, P मणुसुहाइं. 30 > P अहिलसइ. 31 > P रागदीसाणं,



- 1 वि महाभयं, तह वि पसत्तो भोएसु, उम्मत्तो विसएसु, गच्चिओ अत्थेसु, लुद्धो विहवेसु, थद्धो माणेसुं, दीणो अक्खमाणेसु, 1  
मुच्छिओ कुट्टवेसु, वद्धो सिणेह-पासेसु, गहिओ माया-रक्खसीए, संजमिओ राय-णियलेहिं, पलित्तो कोव-महाजलणेण,  
3 हीरंतो आसा-महाणइप्पवाहेणं, हिंदोलिजंतो कुवियप्प-तरंग-भंगेहिं, दिण-पक्ख-णक्खत्त-करवत्त-दंतावली-मुसुमूरिओ 3  
महाकाल-मञ्जु-वेयालेणं ति । ता सब्बहा एवं ठिए इमं करणिजं, पव्वजं घेत्तूणं उप्पण्ण-वेरगो तव-संजमं करेहामि त्ति  
चिंतयंतो भणिओ वयंसएहिं । 'कुमार, किं णिमं सत्थ-सरीरस्स ते सुच्छा-वियारो' त्ति । तेण भणियं 'ममं आसि उयरे  
6 अजिण्ण-वियारो, तेण मे एसा भमली जाय' त्ति ण साहिओ सब्भावो वयंसयाणं ति । एवं च वचंतेसु दियहेसु अणिच्छंतो 6  
वि अहिसित्तो जोयरज्जाभिसेए कुमारो, कुवलयचंद-राइणा भणिओ 'पुत्त, तुमं रज्जे, अहं पुण तुज्झ महल्लओ त्ति ता करेसु  
रज्जं' ति । कुमारेण भणियं 'महाराय, अच्छसु तुमं, अहं चेव ताव पव्वयामि' त्ति । राइणा भणियं 'पुत्त, तुमं अज्ज वि  
9 चालो, रज्ज-सुहं अणुभव, अम्हे उण भुत्त-भोगा । इमो चेय कुलकमो इक्खागु-वंस-पुव्व-पुरिसाणं जं जाए पुत्ते अभिसित्ते 9  
परलोग-हिंयं कायध्वं ति । एवं भणियं सब्ब-महल्लएहिं । ठिओ कुमारो । राया वि णिव्विण्ण-काम-भोगो पव्वज्जाभिमुहो  
संजम-दिण्ण-माणसो अच्छिउं पयत्तो कस्स वि गुरुगो आगमणं पडिच्छंतो त्ति ।
- 12 § ३३१ ) एवं च अण्णम्मि दिणे दिण्ण-महादाणो संमाणियासेस-परियणो राया कुवलयमालाए समं किं-किं पि 12  
कम्म-धम्म-संबद्धं कहं मंतयंतो पसुत्तो । पच्छिम-जामे य कह-कह वि विवुद्धो चिंतितं पयत्तो । अवि य ।  
कइया खणं विवुद्धो विरत्त-समयम्मि काय-मण-गुत्तो । चरण-करणाणुयोगं धम्मज्झायणे अणुगुणेस्सं ॥  
15 कइया उवसंत-मणो कम्म-महासेल-कटिण-कुलिसत्थं । वजं पिव अणवजं काहं गोसे पडिक्कमणं ॥ 15  
कइया कय-कायव्वो सुमणो सुत्तथ-पोरिसिं काउं । वेरग-मग्ग-लग्गो धम्मज्झाणम्मि वट्टिस्सं ॥  
कइया णु असंभंतो छट्टट्टम-तव-विसेस-सूसंतो । जुय-मेत्त-णिमिय-दिट्ठी गोयर-चरियं पवज्जिस्सं ॥  
18 कइया वि हसिजंतो णिंदिजंतो य मूढ-वाल्लेहिं । सम-मित्त-सत्तु-चित्तो भमेज्ज भिक्खं विसोहंतो ॥ 18  
कइया खण-वीसंतो धम्मज्झायणे समुट्ठिओ गुणिउं । रागहोस-विमुक्को भुंजे सुत्तोवएसेण ॥  
कइया कय-सुत्तथो संसारेगत्त-भावणं काउं । सुण्णहर-मसाणेसुं धम्मज्झाणम्मि ठाइस्सं ॥  
21 कइया णु कमेण पुणो फासु-पएसम्मि कंदरे गिरिणो । आराहिय-चउ-खंधो देहच्चायं करीहामि ॥ 21  
इय सत्त-सार-रहिओ चिंतेइ च्चिय मणोरहे णवरं । एस जिओ मह पावो पावारंभेसु उज्जमइ ॥  
धण्णा हु बाल-मुणिणो बालत्तणयम्मि गहिय-सामण्णा । अणरसिय-णिव्विसेसा जेहिं ण दिट्ठो पिय-विओओ ॥  
24 धण्णा हु बाल-मुणिणो अकय-विवाहा अणाय-मयण-रसा । अदिट्ठ-दइय-सोक्खा पव्वजं जे समल्लीणा ॥ 24  
धण्णा हु बाल-मुणिणो अगणिय-पेम्मा अणाय-विसय-सुहा । अवहत्थिय-जिय-लोया पव्वजं जे समल्लीणा ॥  
धण्णा हु बाल-मुणिणो उज्जय-सीला अणाय-घर-सोक्खा । विणयम्मि वट्टमाणा जिण-वयणं जे समल्लीणा ॥  
27 धण्णा हु बाल-मुणिणो कुट्टुव-भारेण जे य णोत्थइया । जिण-सासणम्मि लग्गा दुक्ख-सयावत्त-संसारे ॥ 27  
धण्णा हु बाल-मुणिणो जाणं अंगम्मि णिव्वुडो कामो । ण वि णाओ पेम्म-रसो सज्जाए वावड-मणेहिं ॥  
धण्णा हु बाल-मुणिणो जाय च्चिय जे जिणे समल्लीणा । ण-यणंति कुमइ-मग्गे पडिक्कूले मोक्ख-मग्गस्स ॥  
30 इय ते मुणिणो धण्णा पावारंभेसु जे ण वट्टंति । सूडंति कम्म-गहणं तव-कड्डिय-तिक्ख-करवाला ॥ 30  
अम्हे उण णीसत्ता सत्ता विसएसु जोव्वणुम्मत्ता । परिवियलिय-सत्तीया तव-भारं कह वहीहामो ॥  
पेम्म-मउम्मत्त-मणा पणट्ट-लज्जा जुवाण-कालम्मि । संपइ वियलिय-सारा जिण-वयणं कह करीहामो ॥  
33 सारीर-वलुम्मत्ता तइया अप्पोडणेक्क-दुल्ललिया । ण तवे लग्गा एण्ह तव-भारं कह वहीहामो ॥ 33

~~~~~

- 1 > P पसत्तो for पसत्तो, P विम्मत्तो for उम्मत्तो. 2 > P कुट्टवेसु, P सिणेह, J रक्खसीए, J रायणिअणेसु. 3 > P  
महाणइप्पवाहेणं, P वियप्प for कुवियप्प, J णक्खरकरणत्त. 4 > P मञ्जू, P एवं ट्टिए. 5 > P चिंतियंतो, J किंणिभिअं,  
P किण्णिमसत्थं, J ए for ते, P अउरे for उयरे. 6 > J अजिण्णे, P वयंसयाणं त्ति, J om. च, J om. अणिच्छंतो वि. 7 > J  
अभिसित्तो. 8 > J om. अहं चेव ताव पव्वयामि त्ति राइणा भणियं पुत्त तुमं, P मं for तुमं. 9 > J भत्तभोआ, P om. पुव्व,  
J adds य after अभिसित्ते. 10 > J परलोअहिअं, J om. ति, J भणिओ for भणियं, P adds त्ति after कुमारो. 13 > P  
om. कम्म, P om. य, P कहं विवुद्धो, P चिंतयंतो पयत्तो. 14 > J विवुद्धो for विवुद्धो, J धम्मज्झाणो. 16 > P om.  
सुमणो. 17 > P यंभंतो for असंभंतो, P दिमिय for णिमिय. 20 > P संसारे गंतु भावणा कउं, P ट्टाइस्सं. 22 > P सब्बसार.  
23 > P adds उज्जायसीला अणेय before बालत्तणयम्मि, P repeats बालत्तणयंमि गहिय साम(मि)ण्णा, P अणरसिय  
P पिओ for पिय. 24 > J विआहा, P -नयणरसा, P अदिट्ठकदइय, P लेण for जे. 25 > J om. four lines from धण्णा हु  
बालमुणिणो अगणियपेम्मा etc. to जे समल्लीणा, P जेयलोया, P अणेयधारसोक्खा. 27 > P कुट्टुव, J णो छइया. 28 > J णिव्वुओ.  
29 > J कुमतमग्गे. 30 > J वट्टंता. 31 > P ववभारं for तवभारं, 32 > J -मयुम्मत्तमणा, P जुवाण, P करीकामो.  
33 > P अप्पोडणेक्क, P जरमरणवाहिविहुरा for ण तवे लग्गा एण्ह.

- 1 अगणिय-कजाकजा रागदोसेहिं मोहिया तइया । जिणवयणम्मि ण लग्गा एण्हि पुण किं करीहामो ॥ 1  
जइया धिईए वलिया कलिया सत्तीए दप्पिया हियए । तइया तवे ण लग्गा भण एण्हि किं करीहामो ॥
- 3 जइया णिट्ठुर-देहा सत्ता तव-संजमम्मि उज्जमिउं । ण य तइया उज्जमियं षण्हि पुण किं करीहामो ॥ 3  
जइया मेहा-जुत्ता सत्ता सयलं पि आगमं गहिउं । ण य तइया पव्वइया एण्हि जड्ढा य वड्ढा य ॥  
इय वियलिय-णव-जोव्वण-सत्तिल्ला संजमम्मि असमत्था । पच्छायाव-परद्धा पुरिसा झिज्जंति चिंतैता ॥
- 0 जइ तइया विरमंतो सम्मत्त-महादुमस्स पारोहे । अज्ज-दियहम्मि होंतो सत्थे परमत्थ-भंगिल्लो ॥ 6  
जइ तइया विरमंतो सुय-णाण-महोयहिस्स तीरम्मि । उच्चंतो अज्ज-दिणं भव्वाइं य सेस-रयणाइं ॥  
जइ तइया विरमंतो आरुढो जिण-चरित्त-पोयम्मि । संसार-महाजलहिं हेलाए चैय तीरंतो ॥
- 9 जइ तइया विरमंतो तव-भंडायार-पूरियप्पाणो । अज्ज-दिणं राया हं सुणीण होंतो ण संदेहो ॥ 9  
जइ तइया विरमंतो वय-रयण-गुणेहिं वड्ढिय-पयावो । रयणाहिवो त्ति पुज्जो होंतो सव्वाण वि सुणीणं ॥  
जइ तइया विरमंतो रज्ज-महा-पाव-संचय-विहीणो । झत्ति खवेंतो पावं तव-संजमिओ अणंतं पि ॥
- 12 जइ तइया विरमंतो तव-संजम-णाण-सोसियावरणो । णाणाण कं पि णाणं पावेंतो अइसयं एण्हि ॥ 12  
इय जे बालत्तणए मूढा ण करेंति कह वि सामणं । सोयंति ते अणुदिणं जराए गहियाहमा पुरिसा ॥  
ता जइ कहं पि पावइ अहं पुण्णेण को वि आयरिओ । ता पव्वयामि तुरियं अलं म्ह रज्जेण पावेणं ॥
- 15 § ३३२ ) इमं च चिंतयंतस्स पठियं पहाउय-पाढएणं । अवि य । 15  
हय-तिमिर-सेण्ण-पयडो णिवडिय-तारा-भडो पणट्ट-ससी । वित्थय-पयाव-पसरो सूर-णरिंदो समुग्गमइ ॥  
इमं च सोऊण चिंतियं राइणा 'अहो, सुंदरो वाया-सउण-विसेसो । अवि य ।
- 18 णिज्जिय-गुरु-पाव-तमो पणट्ट-गुरु-मोह-णरवइप्पसरो । पसरिय-णाण-पयावो जिण-सूरो उग्गओ एण्हि ॥ 18  
चिंतयंतो जंभा-वस-वल्लिउव्वेहमाण-भुय-फलिहो,  
'नमस्ते भोग-निर्मुक्त नमस्ते द्वेष-वर्जित । नमस्ते जित-मोहेन्द्र नमस्ते ज्ञान-भास्कर ॥'
- 21 इति भणंतो समुट्ठिओ सयणाओ । तओ कुवलयमाला वि 'णमो जिणाणं, णमो जिणाणं' ति भणमाणी संभव-वस-ललमाण- 21  
खलंतुत्तरिज्जय-वावडा समुट्ठिया । भणिओ य णाए राया 'महाराय, किं तए एत्तियं वेलं दीहुण्ह-मुक्क-णीसासेणं चिंतियं  
आसि' । राइणा भणियं 'किं तए लक्खियं ताव तं चैय साहेसु, पच्छा अहं साहीहामो' ति । कुवलयमालाए भणियं ।
- 24 "महाराय, मए जाणियं जहा तइया विजयपुरवरीए णीहरंतेण तए विण्णत्ता पव्वयण-देवया जहा 'जइ भगवइ, जियंतं 24  
पेच्छामि णरणाहं, रज्जाभिसेयं च पावेमि, पच्छा पुत्तं अभिसिंचामि, पुणो पव्वज्जं अंतं गेपहामि । ता भगवइ, देसु उत्तमं  
सउणं' ति भणिय-मेत्ते सव्व-दव्व-सउणाणं उत्तमं आयवत्त-रयणं समप्पियं पुरिसेणं । तओ तुम्हेहिं भणियं 'दइए उत्तमो
- 27 एस सउणो, सव्व-संपत्ती होहिइ अम्हाणं' ति । ता सव्वं संजायं संपइ पव्वज्जा जइ वेप्पइ' ति । इमं तए चिंतियं' ति । 27  
णरवइणा भणियं 'देवि, इमं चैय मए चिंतियं' ति । अवि य ।  
पुहईसार-कुमारो अभिसित्तो सयल-पुहइ-रज्जम्मि । संपइ अहिसिंचामो संजम-रज्जम्मि जइ अम्हे ॥
- 30 कुवलयमालाए भणियं । 'देव, 30  
जाव इमं चिंतिजइ अणुदियहं सूसमाण-हियएहिं । ताव वरं रइयमिणं तुरिओ धम्मस्स गइ-मग्गो ॥'  
राइणा भणियं । 'देवि, जइ एवं ता मग्गामो कत्थ वि भगवंते गुरुणो जेण जहा-चिंतियं काहामो' ति भणंतो राया
- 33 समुट्ठिओ सयणाओ, कायव्वं काऊण समाढत्तो । 33

1 > J रायदोसेहिं, P मोहिय तइया, P करीहार for करीहामो and then repeats four lines from वलुमत्ता तइया etc. to एण्हि पुण किं करीहामो, J adds a line जइया मेहंजुत्ता सत्ता सयलं पि आगमं गहिउं which occurs at its place below (line 4). 2 > J धितीय P वित्थिय for धिईए, J वलिया for कलिया, J दूणिया for दप्पिया. 3 > P उज्जमियं, P तइया उज्जमिया. 4 > P सयलंमि आगमं, P एहिं जड्ढा. 5 > P परद्धा परिम्महिज्जंति. 6 > P भंगिल्लो. 7 > P om. य, P सीस for सेस. 8 > P सइया for तइया, J पोतम्मि. 9 > P पूरियप्पाणो. 10 > P रयणायरो त्ति पुरिसो होंतो. 11 > P संचिय, P ज्झत्ति, P अणंतंमि. 12 > P सोहियाभरणो. 13 > P सामणं l. 14 > P कोइ for को वि, JP अलम्ह. 16 > J om. णिवडियताराभडो, P निपडियं, J विणिहयप्पावपसरो for वित्थयपयावपसरो. 17 > P राइणो. 19 > P चिंतयं भावसल्लि-ओव्वेहमाणुभुय. 21 > J om. णमो जिणाणं ति, P संभव, P ललमाणंतुत्तरिज्जय. 22 > J 'तुत्तरिज्जंतय. 23 > P रायणा, P तं चिय, J साहिमो त्ति. 24 > J om. महाराय मए जाणियं, J विजयपुरीए. 25 > P अभिसंचयामि, P वत्तियं for उत्तमं. 26 > P om. दव्व, P उत्तमं, P repeats उत्तमं आयवत्तरयणं, J तुम्हेहिं for तुम्हेहिं, P चइए for दइए. 27 > P होही for होहिइ, P सव्वत्तं जायं संपयं पव्वज्जा, J adds च before तए. 28 > J adds ए before देवि. 29 > P असहिसित्तो सुयपुट्टरज्जम्मि. 31 > P चिंतिज्जंति, P गतिमग्गो. 32 > P देव for देवि, J कत्थर for कत्थवि.

1 § ३३३ ) एवं च अच्छमाणेण तम्मि चैय दियहे बोलीगे मज्झणह-समए पडिणियत्तेसु सेस-समण-माहण-वणीमय- 1  
किमिण-सत्थेसु भुत्त-सेस-सीयल-विरसे आहारे जणवयस्स णिय-मदिरोवरि णिज्जूह-सुहासणत्थेण दिट्ठं साहु-संघाडयं णयरि- 3  
3 रच्छा-मुहम्मि । तं च केरिसं । अवि य । 3

उवसंत-संत-वेसं करयल-संगहिय-पत्तयं सोम्मं । जुय-मेत्त-णिमिय-दिट्ठिं वासाकप्पोटिय-सरीरं ॥

तं च साहु-संघाडयं तारिसं पेच्छिऊण रहस-वस-समूसंत-रोमंच-कंचुओ राया अवड्ढणो मंदिराओ । पयट्ठो य गयवर-गमणो 6  
6 तं चैय दिसं जत्थ तं साहु-जुवलयं । तम्मि य पयट्ठे पहाड्ढो सयल-सामंत-मंडल-संगिहो राय-लोओ सयलो य पक्कल- 6  
पाइक्क-णिवहो । तओ तुरिय-तुरियं गंतूण राया तम्मि चैय रच्छा-मज्झयारे तित्तं पयाहिणं काऊणं णिवड्ढिओ चलणेसु 6  
साहूणं । भणित्तं च पयत्तो ।

9 चारित्त-गाण-दंसण-तव-विणय-महावलेण जिणित्तं । गहियं जेहिं सिव-पुरं णमो णमो ताण साधूणं ॥ 9  
भणमाणेण पुणो पुणो पणमिया जेण साधुणो । उच्चूढो य चूडामणि-किरण-पसरमाण-दस-दिसुज्जोविणुण उत्तिमंगेण बहु-भव- 9  
सय-सहस्स-णिम्महणो मुणि-चलण-कमल-रओ त्ति । मुणिवरेहिं पि 9

12 सम-मित्त-सत्तु-चित्तत्तणेण सम-रोस-राय-गणणेहिं । विस्सहय-संभम-रहियं अह भणियं धम्मलाभो त्ति ॥ 12  
भणिया य भत्ति-भरावणउत्तमंगेण राइणा भगवंतो समणा । अवि य । 12

तव-संजम-भार-सुणिच्चरस्स सुय-विरिय-वसभ-जुत्तस्स । देह-सयडस्स कुयलं सिद्धि-पुरी-मग्ग-नामिस्स ॥

15 साधूहिं भणियं 'कुसलं गुरु-चलणप्पभावेण' ति । राइणा भणियं 'भगवंतो, अवि य, 15  
गुरु-कम्म-सेल-वज्जं अण्णाण-महावणस्स दावणिं । किं णामं तुह गुरुणो साहिज्जउ अह पसाएणं ॥ 15  
साहूहिं भणियं । 'महाराया,

18 इक्खागु-वंस-जाओ पाविय-गुरु-वयण-सयल-सत्थत्थो । कंदप्प-दप्प-फलिहो दप्पफलिहो त्ति आयरिओ ॥' 18  
राइणा भणियं । 'भयवं, किं सो अम्ह भाया रयणमउडस्स रिसिणो पुत्तो दप्पफलिहो किं वा अण्णो' त्ति । साहूहिं 18  
भणियं । 'सो चैय इमो' त्ति भणिय-मेत्ते हरिस-वस-वियसमाण-लोयण-जुवलेण भणियं 'भगवं, कम्मि ठाणे आवासिया 18

21 गुरुणो' त्ति । तेहिं भणियं । 'अत्थि देवस्स मणोरमं णाम उजाणं, तत्थ गुरुणो' त्ति भणंता साहुणो गंतुं पयत्ता । णरवई 21  
वि उवगओ मंदिरं । साहियं च कुवलयमालाए महिंदस्स जहा 'पत्तं जं पावियव्वं, सो चैय अम्ह भाया दप्पफलिहो संपत्तो 21  
आयरियत्तण-कल्लाणो इहं पत्तो । ता उच्छाहं कुणह तस्स चलण-मूले पव्वज्जं काऊणं' ति । तेहिं भणियं । 'जं महाराया 21

24 कुणइ तं अवस्सं अम्हेहिं कायव्वं' ति भणमाणा काऊण करणिज्जं, णिरुविऊण णिरुवणिज्जं, दाऊण देयं, उच्चलिया कोउय- 24  
सिणेह-भत्ति-पहरिस-संवेय-सद्धा-णिव्वेय-हलहलाऊरमाण-हियवया संपत्ता मणोरमं उजाणं । तत्थ य दिट्ठो भगवं दप्प- 24  
फलिहो, वंदिओ य रहस-पहरिस-माणसेहिं । तेणावि धम्मलाभिया पुच्छिया य सरीर-सुह-वट्टमाणो, णिविट्ठा आसणेसु । 24

27 § ३३४ ) पुच्छियं च राइणा । 'भगवं, तइया तुमं चिंतामणि-पल्लीओ णिक्खमिऊण कत्थ गओ, कत्थ वा दिक्खा 27  
गहिया, किं च णामं गुरु-जणस्स' ए पुच्छिओ भगवं साहिउं पयत्तो । महाराय, तइया अहं णीहरिऊण संपत्तो भरुयच्छं 27  
णयरं ति । तत्थ साहुणो अण्णेसिउं पयत्तो । दिट्ठो य मए भगवं महामुणी, वंदिओ मए जाव तेणाहं भणिओ 'भो भो 27  
30 दप्पफलिह रायउत्त, परियाणसि ममं । मए भणियं । 'भगवं 30

पंच-महव्वय-जुत्तं ति-गुत्ति-गुत्तं तिदंड-विरय-मणं । सिवउरि-पंथुवएसं को वा तं ण-यणए जीवो ॥'

तेण भणियं 'ण संपयं पुव्वं किं तए कहिंचि दिट्ठो ण व' त्ति । मए भणियं 'भगवं, ण सह हिययस्स मई अत्थि जहा मए 33  
33 दिट्ठो सि' त्ति । तओ तेण भणियं 'केण उण चिंतामणी पल्ली तुह दिण्ण' त्ति । मए भणियं 'भगवं, किं तुमं सो' त्ति । तेण 33

1 > P तंमि य चैय हे बोलीणे, P सेसयणवाहणवलीमयकिसिणसत्थेसुत्तसेसे- 2 > P निज्जुहिय for णिज्जूह- 3 > P om. तं  
च केरिसं- 4 > P पत्तं य सोमं, P -दिट्ठी, P वासाकप्पोटिय- 5 > J समूसलंत, P अवड्ढो महिमंदिराओ- 6 > P adds य  
after जत्थ, J पयट्ठो, P मंडव for मंडल- P om. लोओ, P लो for सयलो, J पक्क for पक्क- 9 > P संमत्त for चारित्त, P णियम  
for विणय, P साहूणं- 10 > P जे for second पुणो, P om. जेण, P साहुणो, P उच्चूढो य चूडामणी-, P दसु for दस, J सय  
for भव- 11 > J om. मुणिवरेहिं पि- 12 > J त्रित्तणेण, P समरोररायणणेणेहिं, J तह for अह- 13 > Oa this page  
the writing in J is very much rubbed, J भत्तिभारावणयुत्तमंगेण, P समाणा- 14 > J सुत for सुय, P तिरिय for  
विरिय, P देव for देह- 15 > P साहूहिं, J गुरुण चलणं, P भयवंतो- 16 > J मोह for कम्म, P वयं for वज्जं,  
J किण्णामं P किनामं, J अम्ह for अह, J पसाएणं- 17 > J देव for महाराया- 18 > P इगु for इक्खागु, P विणय for वयण,  
P -सुत्तत्थो, J दप्पफलिहो- 19 > P रायणा, P कि एसो, P रिसिणो दप्पपुत्तो फलिहो- 20 > P वियमाण, J जुअलेण, J om.  
भणियं before भगवं- 21 > P om. देवरस, J मणोरमनामुज्जाणं, P णरवत्ती वि गओ- 22 > J adds य before जहा, P अप्पम्ह  
for अम्ह, P संपत्तापरियत्तणे इहं- 24 > P adds वि before कायव्वं- 25 > P हलहलाकरमाण, P om. य- 26 > P  
वंदिओ य रहरिसमाणसेहिं तेहिं वि धम्मलाभिया, P संरीस for सरीस, J वट्टमाणि णिदिट्ठा, J णिविट्ठामासणेसु- 27 > P om.  
भगवं, J चिंतामणी- 28 > P किंचि णामं, J गुरुअणस्स, P om. ए, P नीहारिऊण- 29 > P om. ति, J inter. भगवं  
& महामुणी, J adds य before मए- 31 > J तिडण- 32 > J हिअयसम्मत्ती, P मत्ती- 33 > P om. मए भणियं भगवं कि  
etc. to आमं ति ।

1 भणियं 'भामं' ति । मए भणियं 'भगवं, तए मह रज्जं दिण्णं' । तेण भणियं 'आसि' । मए भणियं 'जइ एवं ता भगवं 1  
 ३ रयणं रायरिखि-संपयं पि देसु मे संजम-रज्जं' ति । तेण भणियं । 'जइ एवं ता कीस विलंबणं करेसि' ति भणंतस्स तस्स 3  
 ३ कयं मए पंच-सुट्टियं लोयं । भगवया वि कयं मज्झ सव्वं कायव्वं । तओ जहारिहं अज्झावयंतेण सिक्खाविओ सयलं 3  
 पवयणसारं । णिक्खित्तो गच्छो, विहरिउं पयत्तो । भगवं ति-रयणयरणाहिवो विहरमाणो संपत्तो अयोज्झाए । तत्थ य 3  
 णिक्खंतो तुज्झ जणओ महाराया दढवम्म-रिसी । सो यं भगवं मासक्खवणेहिं पारयंतो कम्मक्खयं काउमाढत्तो । तओ तं 6  
 6 च एरिसं जाणिऊण गुरुणा णिक्खित्तो अम्ह गच्छ-भारो । एवं च काऊण घेत्तूण दढवम्म-रिसिं सम्मेय-सेल-सिहरे 6  
 वंदण-वत्तियाए संपत्तो । तत्थ य जाणिऊण अप्पणो कालं, कयं संलेहणा-पुव्वयं कालमासे अउव्वयं करणं खवग-सेटीए 6  
 केवल-णाणं आउक्खयं च । तओ अंतगड-त्रेवली जाया भगवंते दो वि सुणिंद-वसहे ति ।

9 § ३३५ ) एवं च सोऊण कुवलयवंदप्पमुहा सव्वे वि हरिस-वस-संपत्ता णरिंदा । तओ भगवया भणियं । 'सावग, 9  
 सो च्चिय एको पुरिसो सो च्चिय राया जयम्मि सयलम्मि । हंतूण मोहणिज्जं सिद्धिपुरी पाविया जेण ॥'  
 भणियं च सव्वेहिं । 'भगवं, एवं एयं ण एत्थ संदेहो । ता कुणह पसायं, अम्हं पि उत्तारेसु इमाओ महाभव-समुहाओ'  
 12 ति । भगवया वि पडिवण्णं । 'एवं होउ' ति भणमाणस्स भगवओ राइणा ओयारियाइं आभरणाइं महिंदप्पमुहेहिं कुवलय- 12  
 मालाए वि अणेय-णारीयणेण परियालियाए । पवयण-भणिय-विहाणेण य णिक्खंता सव्वे वि । समप्पिया य कुवलयमाला 12  
 पवत्तिणीए । तत्थ जहा-सुहं आगमाणुसारेणं संजमं काऊण संपुण्णे णिय-आउए संपत्ता सोहम्मं कप्पं दु-सागरोवमट्टिइंओ 12  
 15 देवो जाओ ति । कुवलयचंद-साधू वि गुरुवएसे वट्टमाणो बहुयं पाव-कम्मं खविऊण कालेण य णमोक्कारमारहिऊण 15  
 वेरुलिय-विमाणे दु-सागरोवम-ट्टिइंओ देवो उववण्णे ति । सीहो उण पढमं अणसणं काऊण विंझाडईए संपत्तो तं चय 15  
 विमाण-वर-रयणं ति । सो वि भगवं ओहिण्णाणी सागरदत्त-मुणी संबोहिऊण सव्वे पुव्व-संगए काले य कालं काऊण 15  
 18 देवत्तण-बद्ध-णाम-गोत्तो तम्मि चय विमाणम्मि समुप्पण्णे ति । अह पुहईसरो वि कं पि कालंतरं रज्जं काऊण पच्छा 18  
 उप्पण्ण-पुत्त-रयणो संठाविय-मणोरहाइच्च-रज्जाभिसेओ संभंतो संसार-महारक्खसस्स णाऊण असारत्तणं भोगाणं सो वि 18  
 गुरुणं पाय-मूले दिक्खं घेत्तूण पुणो कय-सामण्णे तम्मि चय विमाणे समुप्पण्णे ति । एवं च ते कय-पुण्णा तम्मि 18  
 21 वर-वेरुलिय-विमाणोयर-उववण्णा अवरोप्परं जाणिऊण कय-संकेया पुणो णेह-णिब्भर-हियया जंपिउं पयत्ता । 'भो सुरवरा, 21  
 णिसुणेह सुभासियं ।

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलम्मि णवर संसारे । कत्तो अण्णं सरणं एक्कं मोत्तूण जिण-वयणं ॥  
 24 तिरिय-णर-दणुय-देवाण होंति जे सामिणो कह वि जीवा । जिण-वयण-भवण-रूवाण कं पि पुव्वं कयं तेहिं ॥ 24  
 जं किं पि कह वि कस्स वि कत्थ वि सोक्खं जणस्स भुवणम्मि । तं जिण-वयण-जलामय-णिसित्त-रक्खस्स कुसुमं तु ॥ सव्वहा,  
 किं सोक्खं सम्मत्तं किं व दुहं होइ मिच्छ-भावो ति । किं सुह-दुक्खं लोए सम्मामिच्छत्त-भावेण ॥  
 27 सम्मत्तं सग-समं मिच्छत्तं होइ णरय-सारिच्छं । माणुस-लोय-सरिच्छो सम्ममिच्छत्त-भावो उ ॥ 27  
 सम्मत्तं उडु-गई अहर-गई होइ मिच्छ-भावेण । तिरिय-गई उण लोए सम्मामिच्छत्त-भावेण ॥  
 सम्मत्तं अमय-समं मिच्छत्तं कालऊड-विस-सरिसं । अमय-विस-मीसियं पिव मण्णे उंभयं तु लोगस्स ॥  
 30 सम्मत्तं जय-सारो मिच्छत्तं होइ तिहुयण-असारो । सारासार-सरिच्छो सम्मामिच्छत्त-भावो उ ॥ 30  
 जं जं जयम्मि सारं तं तं जाणेसु सम्म-पुव्वं तु । जं जं जए असारं तं तं मिच्छत्त-पुव्वं तु ॥  
 एरिसं च तं जाणिऊण भो भो देवाणुपिया, अणुमण्णह जं अहं भणिसं ति । तओ सव्वेहि वि भणियं 'को वा  
 33 अम्ह ण-याणइ जं सव्वं सम्मत्त-पुव्वयं ति । एवं ठिए किं भणियव्वं तं भणह तुव्वे' ति । तेण भणियं 'एत्तियं भणियव्वं 33

1 > P रिज्जं for रज्जं, J om. जइ, P तं for ता. 2 > J रयणंगयरिसी संपयं, P करिसि. 3 > J मम for मज्झ, J om. कायव्वं. 4 > P पयत्तो । रयणंगणरयणाहिवो, P अउज्झाय. 5 > J तुव्वं or तुम्ह for तुज्झ, P महाय for महाराया, JP दढ-धम्मरिसी, J मासखमणेहि, J तव for तंच. 6 > P निक्खिअम्ह गच्छभरो, JP दढधम्मरिसिं, P संमेतसेलसिहरे वंदण. 7 > P om. कयं, J अउव्वं. 8 > J -भगवंतो, JP वसहो ति. 9 > J विसुण्णा for वससंपत्ता, J देव for सावग. 10 > P सेको for एको, P जलंमि for जयम्मि, P मोहरज्जं, P पावया. 11 > P कुणह पिसायं, P om. भव. 12 > J om. वि, P ओयारियाओ आहरणाइ. 13 > P वियणेणारीयणपरियालियाए, J -णारित्तणेण, P यणिक्खित्ता, P om. वि. 14 > J एत्थ for तत्थ, J य जाणिऊण. 15 > P वेरुलिया, J दुस्सागरोवमट्टितीओ उववण्णे P दुस्सागर- for णिय, J ंट्टितीओ P ट्टिती. 16 > P साहू, P बहुपाव, J काले य. 17 > J वेरुलिया, J दुस्सागरोवमट्टितीओ उववण्णे P दुस्सागर- for उ. 18 > P inter. verses सम्मत्तं उडुगई etc. & सम्मत्तं अमयसमं etc., P उडुगती, P तिरियगती. 19 > J विसमीसयं, J पि for तु. 20 > P adds जय before होइ, P होइ संसारो । सोरासार, J तु for उ. 21 > P om. तु, J ण सारं for असार. 22 > P adds इमं च before एरिसं, P om. च तं, P om. one भो, J देवाणुपिया, P भणिसं ति, om. तओ सव्वेहि वि भणियं. 23 > P om. भणियव्वं तं.

1 जं हुत्तारो संसार-सागरो, विसमा कम्म-गई, अणिच्चं जीवियं, भंगुरो विसय-संगो, चंचला इंदिय-तुरंगा, बंधण-सरिसं 1  
पेम्मं, उम्मायणो मयण-वाण-पसरो, मोहणं मोहणीय-कम्म-महापडलं ति । ता तुल्लग-पावियं पि सम्मत्त-रयणं एत्थ 2  
3 महोयहि-समे संसारे अक्खिप्पइ महाराय-मच्छेहिं, उल्लूरिज्जइ महारोस-जल-माणुसेहिं, पल्लहत्थिज्जइ महामाया-कम- 3  
4 ढीए, गिलिज्जइ महामोह-मयरेणं ति । तओ इमं च जाणिऊण पुणो वि सयल-सुरासुर-गर-तिरिय-सिद्धि-सुह-लंभ-कारणे  
भगवंताणं वयणे आयरं कुणह पावियव्वे । तेहिं भणियं 'कहं पुण पावियव्वं' ति । तेण भणियं 'पुणो वि गेण्हह समायाणं  
6 जहा जत्थुप्पण्णा तत्थ तुम्हाण मज्जे केण वि अइसय-णाणिणा सव्वे संबोहणीया जिणधम्मे' ति । तेहि वि 'तह' ति 6  
पडिवण्णं । तं च तारिसं समायाणं काऊण वीसत्था भोए भुंजिउं समाढत्ता ।

§ ३३६ ) एवं च भुंजताणं भोए वच्चइ कालो जाव भुत्ताइं दोणिण सागरोवमाइं किंचि-सेसाइं । इमस्मि य जंबुदीवे 9  
9 दाहिण-भरहे बोलीणेषु तिसु कालेषु किंचि-सेसे चउत्थे काले सिद्धिं गएसु इहावसप्पिणी-वट्टमाणेषु उसभाइसु पास- 9  
जिण-चरिमेसु तित्थंकरेसु समुप्पण्णे ति-लोय-सरोयर-महापंकए व्व महावीर-जिणिंदे ति । एरिसे य अवसरे सो कुवलय-  
चंद-देवो णिय-आउयं पालिऊण देव-लोगाओ चुओ समाणो कत्थ उववण्णो । अवि य । अत्थि कायंदी णाम णयरी । सा य  
12 केरिसा । अवि य । 12

तुंगट्टालय-तोरण-मंदिर-पुर-गोउरेहिं परियरिया । तिय-चच्चर-सुविभत्ता जण-धण-मणि-कंचण-विचित्ता ॥  
तम्मि य महाणयरीए कंचणरहो णाम राया ।  
15 रिउ-कुंजरान सीहो जो य रवी मित्त-पंकय-वणस्स । पणइ-कुमुयाण चंदो वासारत्तो व्व धरणियले ॥ 15  
तस्स य महिलाए इंदीवर-णामाए सुपुत्तो मणिरहो णाम समुप्पण्णो । सो य संबद्धिओ बहुएहिं मणोरहसएहिं परिवट्ट-  
माणस्स कहं कहं पि तारूव-कम्मोदएणं पारद्धि-वसणं समुप्पण्णं । तओ दियहं राइए य अवीसंतो आहेडयं वच्चइ  
18 पडिसेहिज्जंतो वि गुरुर्यणेणं, णिंदिज्जंतो वि वयंसएहिं, णिरुज्जंतो वि मंतियणेणं, वारिज्जंतो वि परियणेणं ति । अण्णया 18  
य तस्स तम्मि अवसरे पारद्धिं अरण्णं पविट्टस्स को वुत्ततो जाओ । अवि य ।

णर-सुर-दइच्च-महिओ थुव्वंतो थुइ-सुहासिय-सएहिं । उप्पण्ण-णाण-सारो पत्तो वीरो तिलोय-गुरू ॥  
21 तस्स य भगवओ महइ-महावीर-वट्टमाण-जिणधंदस्स विचित्ते पएसे विरइयं देवेहिं मणि-सुवण्ण-रयय-पायार-तियं, ठावियं 21  
दिव्वं वियड-दाढा-कराल-वयण-सीहाहिट्टियं आसण-रयणं, णिम्मविओ मउय-सिसिर-सुरहि-पवण-चलमाण-साहा-समूह-पेरंत-  
णव-वियसिय-सुरहि-कुसुम-गोच्छ-रिंछोलि-णिलीण-महु-मत्त-भमर-रणरणावद्ध-संगीय-मणहरो रत्तासोय-पायवो । तस्स य  
24 अधे णिविट्ठो भगवं सुरासुर-णरिंद-वंदिय-चलण-जुयलो संसार-महोवहि-णिमज्जमाण-जंतु-सहस्स-हत्थावलंबण-दाण-दुल्लिओ 24  
महावीरो । तत्थ य इंदभूइप्पसुहाणं एगारसण्हं महामईणं गणहर-देवाणं सोधम्म-णाहस्स महिंदस्स य अण्णायं च भवण-  
वइ-वाणमंतर-जोइस-विमाण-वासीणं सुराणं कंचणरहस्स य राइणो सपरियणस्स सम्मत्त-मूलं भव-भय-विणासणं दुविहं  
27 धम्मं साहिउं पयत्तो । अवि य । 27

णारय-तिरिय-णरामर-भव-सय-संवाह-हुगम-दुरंते । संसार-महा-जलहिस्मि णत्थि सरणं सिवाहित्तो ॥  
सम्मत्त-णाण-दंसण-तिएण एएण लब्भए मोक्खो । जीवस्स गुणा एए ण य दव्वं होइ सम्मत्तो ॥  
30 सम्मं भावो सम्मं जहुज्जुयं णत्थि किंचि विवरीयं । धम्माधम्मागासा-पोग्गल-जीवेसु जो अणिओ ॥ अहवा । 30  
जीवाजीवा आसव-संवर तह वंध-णिज्जरा मोक्खो । एयाइं भावेणं भावेंतो होइ सम्मत्ते ॥ अहवा ।  
जं चिय जिणेहिं भणियं पडिहय-मय-दोस-मोह-पसरेहिं । तं सव्वं सव्वं चिय इय-भावो होइ सम्मत्तं ॥  
33 अरहा जाणइ सव्वं अरहा सव्वं पि पासइ समक्खं । अरहा भासइ सव्वं अरहा बंधू तिहुयणस्स ॥ 33

1 > P कंमगती. 2 > P मोहणिय, P ति for पि, P adds ति before एत्थ. 3 > P -समं संसारि, P महारायकमढिणा.  
5 > J समायां जहा जत्थु°. 6 > P जं हो for जहा, P य for वि, J अतिसय, P om. जिणधम्मे ति, J तेहि मि तह. 7 >  
J om. तारिसं. 8 > P वच्चएइ, P किंचि, P इमं पि य जंबुदीवे. 9 > P किंचसेसे, P सिद्धि, P इहावओरसप्पिणीए-, P उसभाइपास-  
जिणवट्टेसु तित्थंकरेसु. 10 > P इव for व्व, P कुवलयचंदो णिय-. 11 > J देवलोभाओ. 13 > J गोअरेहिं, P सुविहत्ताजण-  
धणिमणि. 14 > J करणरहो for कंचणरहो. 15 > P रत्तो व धरणियले ॥. 16 > J णामाए पुत्तो रयणरहो णामो,  
P संबद्धिओ. 17 > P रणे for रूव, J adds से before समुप्पण्णं, P रातीए, J वीसंतो P अविंसंतो. 18 > P गुस्तरेंणं,  
P निरुंभण्णो for णिरुज्जंतो, P om. वारिज्जंतो वि परियणेणं. 19 > J अण्णता, J inter. तस्स & तम्मि, P पारद्धिए रण्णे. 21 >  
P om. य after तस्स, J वद्धमाण, J रयत P रइय, J तिसं for तियं. 22 > J -सिहाहिट्टियं, P णिमिओ for णिम्मविओ.  
23 > P -निलीणमररणणावत्तसगीय. 24 > P अधि for अधे, P om. णरिंद, P महो for महोवहि, P जंतुहत्थावलंबण. 25 >  
P तस्स for तत्थ य, JP इंदभूति°, P महामंतीणं गणं, P सोहमनाहस्स, J om. च. 26 > J जोतिस, P वासीसुराणं. 27 >  
P adds जिणे before धम्मं. 28 > P दुग्गदुरंते, P जिणं मोत्तुं for सिवाहित्तो. 29 > P तिणएतेण, P एतेण दिव्वं होत्ति सम्मत्तं.  
30 > P जहुहुत्तं for जहुज्जुयं, P inter. णत्थि & किंचि, P धम्माभासा, J सो for जो. 31 > J जीवासव, P भावें च तो अह  
होइ सम्मत्तं. 32 > P भणियं हयराणदोस, P adds, after होइ सम्मत्तं ॥, अरहा जाणइ सव्वं सव्वं चिय इय भावो होइ संमत्तं ।  
33 > P जाणं for सव्वं before पि.

- 1 कंखं, विगिंचेह विद्वकिच्छं, पमाएह कुसमय-पसंसं । 1  
 समत्त-सार-रहिए मा सज्जह उत्तुणे पर-कुतित्ये । मिच्छत्त-वद्धणं भो होइ कयं अलिय-वयणं च त्ति ॥ तम्हा,  
 3 जइ छुवभह पायाले पव्हत्थिज्जह गिरिस्स टंक्किमि । जइ छिज्जइ कह वि सिरं मा मुंचह तह वि जिणवयणं ॥ ति । 3  
 § ३३९ ) एयं दंसण-रयणं णाणं पुण सुणसु जं मए भणियं । एक्कारसंग-चोदस-पुव्वं अत्थं च वित्थरियं ॥  
 एकम्मि वि जम्मि पदे संवेयं कुणइ वीयराम-मए । तं तस्स होइ णाणं जेण विरागत्तणमुवेइ ॥  
 6 किं बहुणा वि सुएणं किं वा बहुणा वि एत्थ पट्टिएणं । एकम्मि वि वटंता पयम्मि बहुए गया सिद्धिं ॥ 6  
 तम्हा करेसु जत्तं दंसण-चरणेसु सव्व-भावेणं । दंसण-चरणेहिं विणा ण सिज्जिरे णाण-सहिया वि ॥  
 § ३४० ) णाणेण होइ किरिया किरिया कीरइ परस्स उवएसो । चारित्ते कुणह मणं तं पंच-महव्वए होइ ॥  
 9 पाणिवहालिय-वयणं अदिण्णदाणं च मेहुणं चेय । होइ परिग्गह-सहियं एएसु य संजमो चरणं ॥ 9  
 एयाइं पावयाइं परिवज्जंतो करेसु चिरइं तु । इह परलोए दुह-कारयाइं वीरेण भणियाइं ॥  
 जो हिंसओ जियाणं णिच्चं उच्चेय-कारओ पावो । असुहो वेराबंधो वेरेण ण मुच्चइ कया वि ॥  
 12 णिंदिज्जइ सव्व-जणे वह-बंधं घाय-दुक्ख-मरणं वा । पावइ इहं चिय णरो पर-लोए पावए णरयं ॥ 12  
 सव्वं च इमं दुक्खं जं मारिज्जइ जिओ उ रसमाणो । जह अप्पा तह य परो इच्छइ सोक्खं ण उण दुक्खं ॥  
 जह मम ण पियं दुक्खं सोक्खत्थी जह अहं सजीयस्स । एमेव परो वि जिओ तम्हा जीवाण कुण अभयं ॥  
 15 § ३४१ ) एवं च साहिए भगवया तित्थयरेण पुच्छियं गणहर-देवेण 'भगवं, कइं पुण हिंसा भणइ' । 15  
 भगवया भणियं ।  
 जीवो अणादि-णिहणो सो कह मारिज्जए जणेण इहं । देहंतर-संकमणं कीरइ जए णाम तस्सेय ॥  
 18 एक्के भणंति एवं अण्णे उण वाइणो जहा सुहुमो । ण य सो केणइ जीवो मारिज्जइ णेय सो मरइ ॥ 18  
 अण्णे भणंति पुरिसा सव्व-गओ एस तस्स कह घाओ । अण्णे पुण पडिवण्णा अणुमेत्तो केण सो वहिओ ॥  
 अवरे भणंति एवं उड्ड-गई किर जिओ सभावेण । अच्छइ देह-णिवद्धो जो मोयइ धम्मिओ सो हु ॥  
 21 अवरे भणंति कुगइच्छूदो अह एस अच्छइ वराओ । अह जोणि-विप्पमुक्को वच्चउ सुगईसु आवेओ ॥ 21  
 अण्णे भणंति मूढा पुराण-घरयाउ पइसइ णवम्मि । को तस्स होइ पीडा देहंतर-संकमे भणसु ॥  
 अण्णे भणंति पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुव्वि । तेण मए मारिज्जइ दिज्जइ तस्सेय जो देइ ॥  
 24 अवरे विहियं ति इमं इमस्स जायस्स मरण-जम्मं वा । तं होज्ज अवसयं चिय मिस-मेत्तो मज्झ अवराहो ॥ 24  
 अवरे भणंति विहिणा एसो अह पेसिओ महं वज्जो । तस्सेव होउ पुण्णं पावं वा मज्झ किं एत्थ ॥  
 अण्णे पुण पडिवण्णा कम्म-वसो कम्म-चोइओ जीवो । कम्मेणं मारिज्जइ मारेइ य कम्म-परयत्तो ॥  
 27 इय एवमाइ-अण्णाण-वाइणो जं भणंति समएसुं । तं सव्वं अलियं चिय जीव-वहे होंति दोसाइं ॥ 27  
 जीवो अणादि-णिहणो सच्चं देहंतरम्मि संकमइ । देहाओ से ण सुहं विउज्जए होइ दुक्खं से ॥  
 उसास-इंदियाइं अट्ठिभतर-धाहिरा इमे पाणा । ताणं विओय-करणं पमत्त-जोएण सा हिंसा ॥  
 30 अह तेहिं विउज्जंतस्स तस्स जीवस्स दुस्सहं दुक्खं । जं उप्पज्जइ देहे अइ पावो तस्स सो भणिओ ॥ 30  
 तिल-तेल्लाण परोप्परमणुगय-सरिसस्स जीव-देहस्स । दुक्खं ताण विओओ कीरइ जो कुणइ सो पावो ॥ त्ति ।  
 एवं च साहिए सुरासुर-गुरुणा पुच्छियं भगवया गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावय-रयणं  
 33 केरिसेण पुरिसेण रक्खिउं तीरइ' त्ति । भगवया भणियं । 33

1 > P विगिंचेह, J विगिच्छं, P कुसुमय. 2 > J सामत्थं व for मा सज्जह, J परकुडिच्छे ।, P सो for भो, P कणं for कयं, P om. तम्हा. 3 > P पायालो, J पव्हत्थिज्जह, P कहं वि. 4 > J पुण भणसु, P पुच्छं for पुव्वं, J अण्णं for अत्थं. 5 > P एकम्मि जो पर्यमी संवेयं, J वीतरामते P वीयमए, J ता for तं, J जोण for जेण. 6 > J om. वि before एत्थ. 7 > P करेसु जुत्तं, P चरणेणसु, J दंसणचरणेसु विणा. 8 > J om. one किरिया, P कीरस्सइ, P उवएसो. 10 > JP एताइं, P पडिवज्जंतो, J ति for तु, P दुह काइं वीरेण, J वीरेहिं. 11 > J णहिमओ for हिंसओ, P उव्वियकारणो, J असुहो रोदाबंधो, J कयाइ ॥ 12 > J adds ण before वहबंधं, J वहबंधघाय, J णरओ for णरयं. 13 > J जयंमि for उ, P वि for य, J सोक्खे. 14 > J अच्चयं, 15 > P तित्थंकरेण, J गणधर, P inter. कइं & पुण. 17 > P अणाइ-, P सो किर माणिज्जए जणिण इहं, J जाण माण for जए णाम, P जय for जए. 18 > J पुण for उण, P वाइणा, P क्खेण वि for केणइ, P adds त्ति after मरइ. 19 > P को for कह, P अवरे उण for अण्णे पुण, J अणुमेत्ता. 20 > P एयं उड्डगती, P सहावेण, P जो मायाइ, P साहू for सो हु. 21 > J कुगई, J विप्पवत्तो, P मुच्चइ for वच्चउ, P सुगइं सुयावेयो. 23 > P पुव्वं, P om. दिज्जइ, P वेइ for देइ. 24 > J जीवस्स for जायस्स, J होइ for होज्ज. 25 > J तस्सेय P तस्सव, P जोओ for होउ. 26 > P उण for पुण, P पडिवज्जो, P परियत्तो. 27 > J एवमाति अण्णाणवातिणो, P अन्नाणवाणो भणंति, P होइ for होंति. 28 > J संभमइ for संकमइ, P सो ण य अहं J सो ण सुहं for से ण सुहं ( emended ). 29 > P इंदियाइं भवति अट्ठिभतरा इमे, J भवे for इमे, P ताओ for ताणं, J अमत्तजोएण. 30 > P om. तस्स. 31 > P तिल्लेत्तल्लाण, J सरिसं जिअस्स देहरस्स, P जं for जो. 32 > P पुच्छिउं, J गोतम, P गोयमगण-हारिणा, J पाणातिवातविरमण महावयणरयणं, P पाणातिपात, P महावइरयणं. 33 > J om. पुरिसेण.



- 1 कंठं, विगिंचेह विद्वकिच्छं, पमाएह कुसमय-पसंसं ।  
सम्मत्त-सार-रहिण् मा सज्जह उत्तणे पर-कुत्तिये । मिच्छत्त-वट्ठणं भो होइ कयं अलिय-वयणं च वि ॥ तम्हा,
- 3 जइ छुब्बमह पायाले पव्हत्थिज्जह गिरिस्स टंक्रमि । जइ छिज्जह कइ वि सिरं मा सुंचह तइ वि जिगयणं ॥ वि ।  
§ ३३९ ) एयं दंसण-रयणं णाणं पुण सुणसु जं मए भणियं । एक्कारसंग-चोइस-पुच्चं अयं च शिथरियं ॥  
एक्कम्मि वि जम्मि पदे संवेयं कुणइ वीयरग-मए । तं तस्स होइ णाणं जेण विरागत्तणमुवेइ ॥
- 6 किं बहुणा वि सुएणं किं वा बहुणा वि एत्थ पडिपणं । एक्कम्मि वि वट्ठता पयम्मि बहुण गया सिद्धिं ॥  
तम्हा करेसु जत्तं दंसण-चरणेसु सच्च-भावेणं । दंसण-चरणेहिं विणा ण सिद्धिरे णाण-सहिंया वि ॥  
§ ३४० ) णाणेण होइ किरिया किरिया कीरइ परस्स उवएसो । चारित्ते कुणइ मणं तं पंच-मदएण होइ ॥
- 9 पाणिवहालिय-वयणं अदिण्णदाणं च मेहुणं चैय । होइ परिगह-सहिंयं एणसु य संजमो चरणं ॥  
एयाइं पावयाइं परिवज्जेतो करेसु विरइं तु । इह परलोए दुह-कारयाइं वीरेण भणियाइं ॥  
जो हिंसओ जियाणं णिच्चं उच्चैय-कारओ पावो । असुहो वेरावंधो वेरेण ण मुचइ कया वि ॥
- 12 णिंदिज्जइ सच्च-जणे वह-बंधं घाय-दुक्ख-मरणं वा । पावइ इहं चिय णरो पर-लोए पावण णरयं ॥  
सच्चं च इमं दुक्खं जं मारिज्जइ जिओ उ रसमाणो । जह अप्पा तह य परो इच्छइ सोक्खं ण ठण दुक्खं ॥  
जह मम ण पियं दुक्खं सोक्खत्थी जह अहं सजीयस्स । एमेव परो वि जिओ तम्हा जीवाण कुण भयं ॥
- 16 § ३४१ ) एवं च साहिण् भगवया तित्थयरेण पुच्छियं गणहर-देवेण 'भगवं, कइं पुण हिंसा भण्णइ' । १ ।  
भगवया भणियं ।  
जीवो अणादि-णिहणो सो कइ मारिज्जए जणेण इहं । देहंतर-संकमणं कीरइ जणं णाम तस्सेय ॥
- 18 एक्के भणंति एवं अण्णे उण वाइणो जहा सुहमो । ण य सो केणइ जीवो मारिज्जइ णेय सो मरइ ॥  
अण्णे भणंति पुरिसा सच्च-गओ एस तस्स कइ घाओ । अण्णे पुण पडिचण्णा अणुमेत्तो केण सो वदिओ ॥  
अवरे भणंति एवं उट्ठ-गई किर जिओ सभावेण । अच्छइ देह-णिवद्धो जो मोयइ धम्मिओ सो तु ॥
- 21 अवरे भणंति कुगइच्छुओ अह एस अच्छइ वराओ । अह जोणि-विप्पमुक्को वच्चउ सुगईसु आवेओ ॥  
अण्णे भणंति मूढा पुराण-घरयाउ पइसइ णवम्मि । को तस्स होइ पीडा देहंतर-संकमे भणसु ॥  
अण्णे भणंति पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुच्चिं । तेण मए मारिज्जइ दिज्जइ तस्सेय जो देइ ॥
- 24 अवरे विहियं ति इमं इमस्स जायस्स मरण-जम्मं वा । तं होज्ज अवसयं चिय मिस-मेत्तो मज्झ धवराओ ॥  
अवरे भणंति विहिणा एसो अह पेसिओ महं वज्जो । तस्सेव होउ पुणं पावं वा मज्झ किं एत्थ ॥  
अण्णे पुण पडिचण्णा कम्म-वसो कम्म-चोइओ जीवो । कम्मेणं मारिज्जइ मारेइ य कम्म-परयत्तो ॥
- 27 इय एवमाइ-अण्णाण-वाइणो जं भणंति समएसुं । तं सच्चं अलियं चिय जीव-वहे हंति दोसाइं ॥  
जीवो अणाइ-णिहणो सच्चं देहंतरम्मि संकमइ । देहाओ से ण सुहं विउज्जए होइ दुक्खं से ॥  
ऊसास-इंदियाइं अहिंभतर-वाहिरा इमे पाणा । ताणं विओय-करणं पमत्त-जोएण सा हिंसा ॥
- 30 अह तेहिं विउज्जवस्स तस्स जीवस्स दुस्सहं दुक्खं । जं उप्पज्जइ देहे अह पावो तस्स सो भणिओ ॥  
तिल-तेल्लाण परोप्परमणुगय-सरिसस्स जीव-देहस्स । दुक्खं ताण विओओ कीरइ जो कुणइ सो पावो ॥ वि ।  
एवं च साहिण् सुरासुर-गुरुणा पुच्छियं भगवया गोयम-साभिणा 'भगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावय-रयणं
- 33 केरिसेण पुरिसेण रक्खिउं तीरइ' ति । भगवया भणियं ।

1 > P विगिच्छेह, J विगिच्छं, P कुसुमय. 2 > J सामर्थ्यं व for मा सज्जह, J परकुडिच्छे ।, P सो for भो, P कयं for कयं, P om. तम्हा. 3 > P पायालो, J पण्हेछिज्जह, P कइं वि. 4 > J पुण भणसु, P पुच्छं for पुच्चं, J अण्यं for अयं. 5 > P एयं वि जो पथमी संवेगं, J वीतरागमते P वीयमए, J ता for तं, J जोण for जेण. 6 > J om. वि before एत्थ. 7 > P परेण सुचं P चरणेणसु, J दंसणचरणेसु विणा. 8 > J om. one किरिया, P कीरस्सइ, P उवएसो. 9 > P परेण सुचं J ति for तु, P दुह काइं वीरेण, J वीरेहिं. 11 > J णहिमओ for हिंसओ, P उच्चैयकारणो, J अणुओ रोदायंओ, J कया ॥ 12 > J adds ण before वहबंधं, J वहबंधंघाय, J णरओ for णरयं. 13 > J जयंमि for उ, P वि for य, J मोयओ. 14 > J अवसयं, 15 > P तित्थंकरेण, J गणधर, P inter. कइं & पुण. 17 > P अणाइ, P सो किर माणिज्जए जणिणं इहं, J मया मया J कुगई, J विप्पमुत्तो, P मुचइ for वच्चउ, P सुगई सुपावेओ. 18 > J पुण for उण, P वाइणा, P कखेण वि for केणइ, P adds चि after मरे. 19 > P जो जायस्स, J होइ for होज्ज. 20 > P तस्सेय P तस्सव, P जोओ for होउ. 21 > J एयं उट्ठगती, P सदावेण, P जो मादाइ, P मइ for माइ. 22 > J उप्पज्जइ, J इहं वरओ, P उप्पज्जइ, P वरओ for वरओ. 23 > P पुच्चं, P om. दिज्जइ, P वेइ for इइ. 24 > J उप्पज्जइ for उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ. 25 > J तस्सेय P तस्सव, P जोओ for होउ. 26 > P उण for उण, P उण for उण, P उण for उण. 27 > J एवमाइ अण्णाणवातिणो, P अत्राणवाणो भणति, P होइ for हीति. 28 > J उप्पज्जइ for उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ. 29 > P इंदियाइं भवति अहिंभतरा इमे, J इमे for इमे, P इमे for इमे, P इमे for इमे. 30 > P om. तस्स. 31 > P तिल्लतेल्लाण, J सरिसं जिअस्स देहरसु, P उ for उ. 32 > P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ. 33 > P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ, P उप्पज्जइ.



- 1 इरिया-मण-समिईओ एसण-पडिलेह तह य आलोयं । पढमस्स वयस्स इमा समिईओ पंच विण्णेया ॥ 1  
जुगमेत्त-दिण्ण-दिट्ठी जंतू-परिहरण-दिण्ण-णयण-मणो । आवासयम्मि वच्चइ इरिया-समिओ हु सो पुरिसो ॥
- 3 तव-णियम-सील-रुक्खे भजंतं उपपहेण वच्चंतं । पाणंकुसेण रंभइ मण-हत्थि होइ मण-समिओ ॥ 3  
असणं पाणं वत्थं व पत्तयं संजमम्मि जं जोगं । एसंतो सुत्तेणं सग्गइ जो एसणा-समिओ ॥  
सेज्जा-संथारं वा अण्णं वा किंचि दब्ब-जायं तु । गेणहइ जइ वा मुंचइ पडिलेहेउं पमज्जेउं ॥
- 6 गहियं पि जं पि भत्तं पाणं वा भोयणस्स कालम्मि । आलोइऊण भुंजइ गुरुणो वा तं णिवेएइ ॥ 6  
एयाहिं पंच-समिईहिं समियओ जो भवे कह वि साधू । सो सुहुम-जंतु-रक्खं कुणमाणो संजओ भणियो ॥  
पाणाइवाय-विरमणमह पढमं इह महव्वयं भणियं । संपइ भण्णइ एयं मुस-वयण-णियत्तं विइयं ॥
- 9 § ३४२ ) असवाय-कवलियं मि उ अलियं वयणं ति होइ मुसवाओ । तत्तिरमणं णियत्ती होइ मुसावाय-विरइ ति ॥ 9  
अलियं जो भणइ णरो णिंदिय-अहमो इहं दुसद्धेओ । अह चप्फलो ति एसो हीलिज्जइ सव्व-लोएण ॥  
दुक्खेहिं ठवेइ जिए अब्भक्खाणेहिं अलिय-वयणेहिं । ताणं पि सो ण चुक्कइ पुवं अह बंध-वेराण ॥
- 12 मारण-लुंण-दुक्खे पावइ जीहाएँ छेयणं लोए । मरिऊण पुणो वच्चइ णरए अह दुक्ख-पउरम्मि ॥ 12  
जं सज्झ इमं दुक्खं अलिय-अभक्खाण-पडिवयस्स भवे । तह एयस्स वि तम्हा कुणह णियत्तिं तु अलियस्स ॥  
एवं परूविए तिहुयण-गुरुणा पुच्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं, केरिसं पुण अलिय-वयणं होइ' ति । भगवया भणियं ।
- 15 सब्भाव-पडीसेहो अत्थंतर-भासणं तहा णिंदा । एयं ति-भेय-भिण्णं अलियं वयणं मुणेयव्वं ॥ 15  
सब्भाव-पडीसेहो आया णत्थि ति णत्थि पर-लोओ । अब्भुय-भणणं आया तंदुल्यंगुट्टमेत्तो वा ॥  
जो हत्थि भणइ खरं एसो अत्थंतरो उ अलियस्स । पेसुण्ण-भाव-जुत्तं अरहा तं भण्णए अलियं ॥
- 18 फरुसं णिंदियमहमं अपच्छियं कोव-माण-संवलियं । सच्चं पि जइ वि भण्णइ अलियं तं जिणवर-मयम्मि ॥ 18  
सच्चं पि तं ण सच्चं जं होइ जियाण दुक्ख-संजणयं । अलियं पि होइ सच्चं जियाण रक्खं करेमाणं ॥  
एयं अलियं वयणं अह कुणइ इमस्स विरमणं जो उ । दुइयं पि हु धरइ वयं दिण्ण-महा-सह-पुवं तु ॥
- 21 एवं च परूविए भगवया तियसिंद-वंदिएणं पुच्छियं गोयमसामिणा 'भगवं, कहं पुण एवं मुसावाय-वेरमण-महव्वय-रणं 21  
रक्खणीयं' ति । भगवया भणियं ।  
अणुवीइ-भासणं कोह-माय-लोहं च णिभर-पयारो । हासच्चाओ य तहा पंचेए भावणा होंति ॥
- 24 एयम्मि मए भणिए वयणेहिं होज ताव चित्तेमि । जंतूण सुहं दुक्खं होजा अणुवीइ-भासा तु ॥ 24  
कोवेण किंचि भण्णइ अलियं वयणं ति केण वि णरेण । तम्हा पच्चक्खाणं कोवस्स करेह हियएणं ॥  
लोह-महा-गह-गहिओ को वि णरो किं पि जंपए अलियं । दूरेण तं अहिविखव मुणिवर संतोस-रक्खाए ॥
- 27 इह लोयाजीव-भएण कोइ पुरिसो भणेज्ज अलियं पि । सत्तविहं तं पि भयं परिहर दूरेण मुणिवसभा ॥ 27  
होइ परिहास-सीलो को वि णरो वेल्लेइ हासेणं । तं पि ण जुज्जइ काऊण सच्च-संधाण साधूणं ॥  
एयाओं भावणाओ भावेंतो रक्ख संजयं वयणं । एयाहिं विणा मुणिवर सच्चं पि ण सच्चयं होइ ॥
- 30 § ३४३ ) तह तेणो वि हु पुरिसो पर-दव्वं जो हरे अदिण्णं तु । सव्वत्थ होइ वेस्सो जण-संपयणं च पावेज्ज ॥ 30  
बंध-वह-वाय-छेयण-लंबण-तडिवडण-सूल-भेयादी । पावइ अवस्स चोरो मओ त्रि णरयं पवज्जेज्ज ॥  
जइ इट्ट-दव्व-चिरहे होइ विओओ महं तह इमस्स । एयं चित्तेऊणं कुणह णियत्तिं पर-धणस्स ॥
- 33 एवं च समाइट्टो भगवया संसार-महोयहि-जाणवत्तेण भणियं च गोयम-मुणिवरेणं 'भगवं, इमं पुण अदिण्णदाण-विरमण- 33

1 > JP समितीओ, P अलोया I, P om. वयस्स, JP समितीओ. 2 > J आवस्सयम्मि, J समितो. 3 > P रुक्खो, P रंभइ मणहत्थी, J मणसमितो. 4 > J -समितो. 5 > P किं पि for किंचि, JP दव्वजातं, P मुच्चइ, J पडिलेहेतु वमज्जेतुं. 7 > J एताहिं पंचसमितीहिं समितओ, P समिइओ जइ भवे, P साहू, J संजतो भणितो. 8 > J पाणातिवात, P om. भण्णइ, P एवं, JP वितियं. 9 > J मासवाकुअलिअम्मि तु अलियं, P असदवाय, J मुसवातो, J मुसावातविरति, P -विरए ति. 10 > P adds हि before इहं, P अह तिफलो. 11 > P ठवेवि, P वंक् for बंध. 12 > P लंछण for लुंण. 13 > P जइ for जं, P अलिय-उभक्खाणगडिगयस्स, P निवत्ति. 14 > J adds च after एवं, P पुच्छिओ, J गोतम, P inter. पुण & केरिसं. 15 > P पडिरसेहो, P -भावणं. 16 > P पडिरसेहो, J अब्भयभणमाया. 17 > P हत्थी, J तु for उ, P गग्गा for अरहा, 18 > J परिहरइ, J मुणिवसदा ॥ 28 > P किं पि for वेल्लेइ, P काउं सच्चं, J संधारण, P साधूणं. 29 > J एताओ, P सव्वयं for संजयं, P एताहिं. 30 > P परेदव्वं, P हरेइ दिअं तु, P वेस्सो जणज्जावणं. 31 > J पंच for बंध, P मय for वाय, J लंबण, J सूलमेताइ, P पविज्जेज्ज. 32 > P निवत्ती. 33 > J महोवदि, J om. च, J गोतम.

- 1 महव्यय-रयणं कंहं पुण सुरक्खियं साहुणो ह्वइ' त्ति । भगवया भणियं । 1  
 अणुवीइ य भक्खण एत्तियं ति साहम्मिउग्गहो चैय । अणुणाय-भत्त-पाणो भुंजणए ताओ समिईओ ॥
- 3 देविंद-राय-सामंत-वग्गहो तह कुहुंविज-जणस्स । अणुवीइ वियारेउं मग्गिजइ जस्स जो सामी ॥ 3  
 वक्खित्त-कोव-माणेहिं होज्ज दिण्णो कया वि केणावि । मग्गिज्जए य भिक्खं अवग्गहो तेण कजेण ॥  
 इह सुत्त-गंथ इह मंतयाइँ एयम्मि होज्ज मे उयही । अवियत्तं मा होहिइ अवग्गहो एत्तिओ अम्हं ॥
- 6 पासत्थोसण्ण-कुसील-संजया होज्ज सड्डया वा वि । तं जाइऊण जुज्जइ साहम्मियवग्गहो एसो ॥ 6  
 ऊसस-णीसस-रहियं गुरुणो सेसं वसे ह्वइ दव्वं । तेणाणुण्णा भुंजइ अण्णह दोसो भवे तस्स ॥  
 एयाओँ भावणाओ कुणमाणो तत्तियं वयं धरइ । एत्तो वोच्छामि अहं मेहुण-विरइ त्ति णामेण ॥
- 9 § ३४४ ) काम-महागह-गहिओ अंधो वहिरो व्व अच्छए मूओ । उम्मत्तो मुच्छियओ व्व होइ वक्खित्त-चित्तो य ॥ 9  
 विव्भम-कडक्क-हसिरो अणिव्वुओ अणिहुओ य उव्वंतो । गलियंकुसो व्व मत्तो होइ मयंधो गयवरो व्व ॥  
 अलियं पि हसइ लोए सवियारं अप्पयं पलोएइ । उग्गाइ हरिसिय-मणो खणेण दीणत्तणं जाइ ॥
- 12 विहसिज्जइ लोएणं एसो सो णिदिओ जणवएणं । कज्जाकज्जं ण-यणइ मोहेण य उत्तुणो भमइ ॥ 12  
 परदार-गमण-दोसे वंधण-वहणं च लिंग-छेदं च । सव्वस्स-हरणमादी बहुए दोसे य पावेइ ॥  
 मरिऊण य पर-लोए वच्चइ संसार-सागरे घोरे । तम्हा परिहर दूरं इत्थीणं संगमं साहू ॥
- 16 अह कोइ भणइ मूढो धम्मो सुरएण होइ लोगम्मि । इत्थीणं सुह-हेऊ पुरिसाण य जेण तं भणियं ॥ 16  
 आहारं पिव जुज्जइ रिसिणो दाउं च गेण्हउं चैय । जं जं सुहस्स हेऊ तं तं धम्मप्फलं होइ ॥  
 एयं पि मा गणेज्जसु दुक्खं तं दुक्ख-कारणं पढमं । तं काऊण अउण्णा उव्वेति कुगई गई जीवा ॥
- 18 दुक्खं च इमं जाणसु वाहि-पडीयार-कारणं जेण । पामा-कंडुयणं पिव परिहर दूरेण कुरयं तं ॥ 18  
 असुहं पि सुहं मण्णइ सुहं पि असुहं ति मोहिओ जीवो । दुक्ख-सुह-णिव्विसेसो दुक्खं चिय पावए वस्सं ॥  
 पामा-कच्छु-परिगओ जह पुरिसो कंडुय-रइ-संतत्तो । णह-कट्ट-सक्कराहिं कंडुयणं कुणइ सुह-बुद्धी ॥
- 21 तह मोह-कम्म-पामा-वियणाए चुल्लुल्लैत-सव्वंगे । सुरय-सुहासत्त-मणो असुहं पि हु मण्णइ सुहं ति ॥ 21  
 एवं च भगवया तियारिंद-णरिंद-वंद-सुंदरी-वंदिय-चलणारविंदेण साहिए सग्गणे भगवया पुच्छियं गीयम-गणहारिणा  
 'भगवं हूंमं पुण मेहुण-वेरमण-महव्यय-महारयणं कंहं पुण सुरक्खियं होइ' त्ति । भणियं च भगवया ।
- 24 वसहि-कहा-महिलिंदिय-पुव्वणुसरणं पणीय-रस-भुत्ती । एयाओँ परिहरंतो रक्खइ मिहुणव्वयं पुरिसो ॥ 24  
 इत्थि-पसु-पंडय-वज्जियाएँ वसहीएँ अच्छइ णीसंगो । सज्झाय-ज्ञाण-णिरओ इय वंभे भावणा पढमा ॥  
 इय छेयाओ ताओ णायरियाओ चलंत-णयणाओ । किलिक्किंचिय-सुरयाइं इत्थीणं वज्जए साहू ॥
- 27 थण-जहण-मणहराओ पेच्छामि इमाओँ चारु-जुवईओ । इय वंभचेर-विरओ मा मा आलोयणं कुणसु ॥ 27  
 इय हसियं इय रमियं तीय समं मा हु संभरेज्जासु । धम्मज्झाणोवगओ हवेज्ज णिच्चं मुणी समए ॥  
 मा भुंजेज्ज पणीयं घय-गुड-संजोग-जोइयं बहुयं । जइ इच्छसि पालेउं वंभव्वयमुत्तमं धीर ॥
- 30 एयाओँ भावणाओ भावेंतो भमसु भाव-पव्वइओ । संपइ वोच्छामि अहं परिग्गहं होंति जे दोसा ॥ 30  
 § ३४५ ) कुणइ परिग्गह-सारं जो पुरिसो होइ सो जए लोभी । अग्गि व्व इंधणेणं दुप्पूरो सायरो चैव ॥  
 लोभाभिभूय-चित्तो कज्जाकज्जाइँ णेय चिंतेइ । अज्जेतस्स य दुक्खं दुक्खं चिय रक्खमाणस्स ॥
- 33 लुद्धो त्ति एस लोए णिदिज्जइ परिभवं च पावेइ । णट्टेसु होइ दुक्खं तम्हा वोसिरसु परिगहणं ॥ 33

1 > P सुक्खियं, 2 > J अणुवीइ अभक्खणं P अभिक्खण, P भत्तपाणे भुंजणाए, J समितीओ P समिता. 3 > J सामं for सामंत, J om. वग्गहो. 4 > J विक्खित्त, P मालेहिं for माणेहिं. 5 > P मताइँ for मंतयाइँ, J होहिति P होहित्ति. 6 > J संजता, P अट्टया for सड्डया, P ते for तं. 7 > P तेणाणुसोयं for तेणाणुण्णा, P ह्वइ for भवे. 8 > J तत्तियं वतं P तइययं वयं. 9 > J होइ P होति. 10 > J विव्भम, P कडक्क, P अणिच्छओ, J अणिहिओ. 11 > P लोएइ for सवियारं अप्पयं पलोएइ. 12 > P निंदओ. 13 > P छेयं, J हरणमाती, P सो for दोसे, J पावेति. 14 > P पलोए वच्चइ संसायरे, P परिहरइ. 15 > P सुरते कंहं न for सुरएण होइ, J लोअंमि. 16 > P adds, after जुज्जइ, पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुव्वं । तेण मए मारिज्जइ तरसेय जो देइ ॥ अवेरे विहियंति, J हेउं तं. 17 > P कुगई गई. 18 > P वाहीपडियार, J पतीआर. 19 > P च for पि सुहं, P om. पि, P सुहं for असुहं. 20 > P पामाकंडुपरिगओ, J कंडुअरत्ति, P कंडुयणं. 21 > P कंमपावाविणयाते चलचल्लैतसव्वंगं, J विअणाय चुल्लुल्लैत. 22 > J गोतम-, P गणहारिणो. 23 > J मेहुणं वेरमण, P वेरमणं महव्वयं, P पुण रक्खियं भवइ त्ति । 24 > P रसोई, J एताए for एयाओ. 25 > J इत्थीपसुपंडिय, J वसईए अच्छ णीसंको, P निरसंगो, P एगंते for इय वंभे. 26 > P adds य after ताओ, P किलिक्किंची सुरयादी. 27 > P थणहरनमणथराओ, J आलोवणं. 28 > P ओ for हु, P धम्मज्झाणावगओ. 29 > J संजोअ, P इच्छइ, P वीर for धीर. 30 > J एताओ, P भातो for भावेंतो, P adds संपइओ before संपद. 31 > J ते for सो, J चैय. 32 > J P भूतचित्तो, J अज्जेतस्स. 33 > P परिहवं.

- 1 मरिऊण जाइ णरयं आरंभ-परिगहेहिं जो जुत्तो । तस्स ममत्ते पावं ममं ति अप्य व्व संकुणइ ॥ 1
- एवं च सयल-विमल-वेवलालोइय-लोयालोएण परूविण् भणियं गोयम-मुणिणाहेणं 'भगवं, इमं पुण परिगह-वेरमण-मह-
- 3 व्वय-रयणं कंहं सुरक्खियं हयइ' त्ति । भगवया भणियं । 3
- पंचह इंदियाणं विसए मा कामसु ह सुरूवे य । असुहे य मा दुगुंळसु इय समिहं पंच परिगहणे ॥ त्ति । इय
- पंच-महव्वय-जुत्तो ति गुत्ति-गुत्तो तिदंड-विरय-मणो । साहू खवेइ कम्मं अणेय-भव-संचियं जं तु ॥ पुणो,
- 6 जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासयमकारिमं चिय णवर सुहं जाइ तं सिद्धिं ॥ 6
- एयाण वयाण पुणो भेया दो होंति जिणवर-मएण । अणुवय-महव्वयाइं गिहिणो मुणिणो य सो भेदो ॥
- एए मुणिणो कहिया जावज्जीवं हवंति सव्वे वि । गिहिणो उण परिमाणं अणुवए ते वि वुच्चंति ॥ अणं च ।
- 9 कुणइ दिसा-परिमाणं अणुदियहं कुणइ देस-परिमाणं । तेणुइं विरओ सो लब्भइ सव्वेसु अत्थेसु ॥ 9
- तइयं अणद्वदंडं उवभोगं अत्तणो परिहरेत्ता । सेसेसु होइ विरओ पावट्टाणेषु सव्वेसु ॥
- सामाइयं चउत्थं एयं कालंतरं महं जाव । समणो व्व होमि विरओ सावज्जाणं तु जोगाणं ॥
- 12 पोसह-उववासो विय पव्वे अट्टमि-चउइसीय अण्णयरे । उववासो होइ तहिं विरइं सावज्ज-जोगाणं ॥ 12
- घर-भोग-जाण-वाहण-सावज्ज-जियाण दुपयमादीण । परिमाण-परिच्छेदो विरइं उवभोग-परिभोगे ॥
- णाएण जं विदत्तं खाणं पाणं च वत्थ पत्तं वा । साहूण जा ण दिण्णं ताव ण भुंजामि विरओ हं ॥
- 15 तिण्णि य गुणव्वयाइं चउरो सिक्खावयाइं अण्णाइं । पंच य अणुव्वयाइं गिहि-धम्मो वारस-विहो उ ॥ अणं च । 15
- मरणंतम्मि पवज्जइ छट्टम-तव-विसेस-सूसंतो । समणो व सावओ वा मरणं संलेहणा-पुव्वं ॥
- § ३४६ ) एवं च तियसिंद-सुंदरी-वंद्र-रहस-पणमंत-पारियाय-मंजरी-कुसुम-रय-रंजिय-चलणारविंदेण साहिए जिणिं-
- 18 देण भणियं गणहर-देवेणं 'भगवं, इमाणं पुण वारसण्हं वयाणं संवेग-सद्धा-गहियाणं गिहिणा के अइयारा रक्खणीय' त्ति । 18
- भगवया भणियं ।
- एक्केके पंच जहा अइयारा होंति सव्व-वय-सीले । तह भणिमो सव्वे चिय संखेवत्थं णिसामेह ॥
- 21 बंध-वहच्छवि-छेदो अइभारारोवणं चउत्थं तु । पाणण्ण-णिरोधो वि य अइयारा होंति पढमस्स ॥ 21
- मिच्छोवदेस-करणं रहसब्भक्खाण कूड-लेहो य । णासावहार-करणं अलियं मंतस्स भेदं च ॥
- तेण-पउंजण-आहिय-गहणं विरूद्ध-रज्जं वा । उणाहिय-माणं चिय पडिरूवं तेणिया होंति ॥
- 24 परउच्चाहो इत्तर-परिगहे गमण होइ पर-महिला । कीरइ अणंग-कीडा तिवो वा काम-अहिलासो ॥ 24
- खेत्त-हिरण्णे धण्णे दासी-दासेसु कुप्प-भंडेसु । होइ पमाणाइकम अइयारो होइ सो वस्सं ॥
- खेत्तादिकम-सीमा-वइकमो तह हिरण्ण-अइचारो । खेत्तस्स वुद्धि-सइअंतरं च पंचेव य दिसाए ॥
- 27 सहइव्वाणयणं पेस-पओगो य सह-पाडो य । रूवाणुवाय-पोग्गल-पक्खेवो होइ देसस्स ॥ 27
- कंदप्पे कुकुइए मोहरिए चेव होइ असमिक्खा । उवभोगो वि य अधिओ अणद्वदंडस्स अइयारो ॥
- मण-वयण-काय-जोगे दुप्पणिहाणे अणादरो चेय । ण य सुमरइ तिय-कालं सामाइए होंति अइयारा ॥
- 30 उच्छग्गो आयाणं संधारो वा अजोइए कुणइ । ण य आदरो ण भरइ पोसध-धम्मस्स अइयारा ॥ 30

1 > P जोइ for जाइ, J adds य before ममत्ते, P पाव, J ममहि अपव्व संकुण ॥ 2 > P 'लोइया लोयालोए J (लोआ) लोएण for लोयालोएण, J गोतम, P गोममुणि'. 4 > P कामसुहे सुरज्जेज्जा । अहेसु य, JP समिती, P परिगहेणे, P om. इय, 6 > P मच्छू, P ण य for णेय, P चिय नवरं अह जीइमं तं, J सिद्धी. 7 > P अणुव्वय. 8 > J उण मरियाणं, J तु for वि, P विमुच्चंति. 9 > J तेणत्थं for तेणुइं, J विरतो सो P परिओसो. 10 > P अणत्थदंडं, P परिहरित्तो, J विरतो P विरत्तो. 11 > P repeats एयं, J महो P मह for महं [=अहं], P सव्वणो, J विरतो. 12 > J पोसध-, J अट्टमी चउइसीय P अट्टमि चउइसीउ. P होति, JP विरती. 13 > J दुपतमातीण, P परिच्छेओ, J विरती 14 > J तत्थ for वत्थ, P विन्नं for दिण्णं, P विरतो 15 > P वारसविहाओ ॥ 16 > J संजतो for सावओ. 17 > J एतं for एवं, P om. वंद्र, P -परियाय-, J कुसुमरयंजिअ. 18 > J adds च after भणियं, P भणियं for भगवं, P गहिताण, JP अतियारा. 20 > P adds एक्केके पंच पंच जहा अतियारा-होंति रक्खणीय त्ति । भगवया भणियं before एक्केके, P चिय, P निसामेहा. 21 > P बंधं वहं च छेओ, P -निरोहा वि, J अतियारा. 22 > P मिच्छोवएस, P रहस्सभक्खाण कूडलोहो य ।, P भेयं. 23 > J पयुंजणयाहित, P -आहित, J होइ for होंति. 24 > P परिविवाहो इत्तर, J उत्तर for इत्तर. 25 > P खेत्त हिरसे सुवत्ते धणधत्तदासिदासे कुप्प, J पमाणातिकम अतियारो, P होइ सव्वरसं- 26 > J खेत्तातिकम्म, J वतिकमो P वदकमे, J अइयारो P अतिचारो, J -सतिअंतरं P -स्सअंतरं. 27 > J सहो दव्वाण परं पेस- P सद्धा दव्वाणयणं, J सहपातो P सहपाडो, J रूवाणुपाव P रूवाणुपाय, P होति. 28 > P कंदप्प, P असमिक्को, P उवभोगा, P अधिओ अणत्थ-, J अतियारो. 29 > J जोए, J णयादरो चेअ P अणायरे चेव, J सुमरति. 30 > P उवसग्गो for उच्छग्गो, P अजोयणे for अजोइए, P आरो for आदरो, J भरइ P भरेइ पोसइ-, P अतिचारो.

- 1 सच्चित्ते संबद्धो मीसो सच्चित्त-अभिसव-दुपक्को । आहारंतो पुरिसो अइयारं कुणइ उवभोगे ॥ 1  
सच्चित्ते णिक्खेवो अधवा पिडणं परस्स एयं ति । देइ व मच्छर-जुत्तं अधवा काले अइक्कंते ॥  
3 संलेहणाए जीविय-मरणे मित्ताणुराग-मुह-हियओ । कुणइ गियाणं एए मरणंते होंति अइयारा ॥ 3  
इय सम्मत्त-महव्वय-वय-सील-गुणेषु रक्ख अइयारे । णर-सुर-सिद्धि-सुहेहिं जइ कज्जं तुम्ह भव्वजिय ॥ त्ति ।

६ ३४७ ) एवं च संसार-महोवहि-कम्म-महापवण-पहय-दुक्ख-सहस्स-तरंग-भंग-भंगुरे णरय-महामयर-करवत्त-कराल-  
दाढावली-मुसुमूरणा-चुक्कस्स जहिच्छिय-तीर-गामिए जियस्स जाणवत्ते व्व साहिए समण-सावय-महाधम्म-रयणे जिणिंदयं देणं  
ति अवसरं जाणिऊण बहु-जीव-वह-पावासंकिएण पुच्छियं कंचणरहेण राइणा 'भगवं, मणिरह-कुमारो किं भव्वो, किं वा  
अभव्वो' त्ति । भगवया तिलोय-गुरुणा भणियं 'महाणुभाव, ण केवलं भव्वो चरम-सरीरो वि' । कंचणरहेण भणियं  
९ 'भगवं, जइ चरम-सरीरो ता कीस णिरुज्झंतो वि पारद्धि-वसणी जाओ' । भगवया भणियं 'किं कीरउ एत्थ एरिसा तस्स  
कम्म-भवियव्वय' त्ति । राइणा भणियं 'भगवं, कइं पुण कइया तस्स वोही जिण-मग्गे होहिइ' त्ति । भगवया भणियं  
'देवाणुप्पिया, पड्डिबुद्धो वि एत्तियं वेळं उवसंत-चारित्तावरणो जाव जाय-णिव्वेओ पत्त-संवेगो इहेव पत्थिओ' त्ति । राइणा  
१२ भणियं 'भगवं केण उण वुत्तंतेण से संवेगं जायं' ति । भगवया भणियं 'अत्थि इओ जोयणप्पमाण-भूमि-भाए कोसवं णाम  
वणं । तत्थ बहुए मय-संवर-वराह-सस-संघाया परिवसंति । तत्थ पारद्धि-णिमित्तं संपत्तो अज्ज मणिरह-कुमारो । तत्थ भममाणेण  
दिट्ठं एकम्मि पएसे मयउलं । तं च दट्ठण अवलयं अवलएण संकमंतो उवगओ समीवं । केरिसो य सो । अवि य ।

१५ आयण्ण-पूरिय-सरो णिच्चल-दिट्ठी णिउच्चियग्गीओ । णिम्मविओ लेप्प-मओ व्व कामदेवो कुमारो सो ॥ १५  
सो वि कइं-कइं पि णियय-मंस-विलुंपणा-भय-चक्रिय-लोल-दस-दिसा-पेसिय-कसिण-तरल-तारएहिं दिट्ठो मुद्ध-मय-सिलिंवेहिं ।  
तं च दट्ठण सहसा संभंता पणट्ठा दिसोदिसिं सव्व-मया । ताणं च मज्जे एक्का मय-सिलिंवी तं कुमारं दट्ठण चिरं णिज्झाह-  
१८ उण दीहं णीससिऊण णिप्फंदिर-लोयण-जुयला सिणेह-वस-पम्हुट्ट-णियय-जीय-विलुंपण-भया पफुल्ल-लोयणा उप्पण्ण-हियय-  
वीसंभा सव्वंग-मुक्क-णीसहा तं चेय आयण्ण-पूरिय-सरं कुमारं अहिलसेइ त्ति । तं च तारिसं दट्ठण कुमारेण चित्तियं । 'अहो,  
किमेयं ति । जेण सव्वे मया मईओ मय-सिलिंवा य दिसोदिसं पणट्ठा, इमा पुण मयसिलिंवी ममं दट्ठण चिरयाल-दिट्ठ-  
२१ दइयं पिव अवयासण-लालसा अभिमुहं उवेइ' त्ति चित्तियंतस्स संपत्ता तं पएसं । कुमारो वि संपत्तो । तओ दिट्ठो य तीय  
अणेय-सावय-जीवंतयरो अद्धयंद-सरवरो । तह वि,

दइयं पिव चिर-दिट्ठं पुत्तं पिव पाविया पियं मित्तं । अवगय-मरण-वियप्पा कुमरं अह पाविया मइया ॥  
२४ तं च तहा दट्ठण सिणेह-णिरंतरं पिव दइयं वण-मय-सिलिंविं कुमारेण 'आ अणज्जो अहं' ति णिदयं भगं तं सरवरं,  
चलणग्गेण य अक्कमिऊण सोडियं तं अत्तणो चावं । तओ मोडिय-कोडंडो अच्छोडिय-असि-धेणुओ इमं भणिउं पयत्तो ।  
अवि य ।

२७ जो मह पहरइ समुहं कड्डिय-करवाल-वावड-करग्गो । तं मोत्तूण रण-मुहे मज्झ णियत्ती पहरिउं जे ॥ २७  
जो पहरइ जीवाणं दीणाणं असरणाण विमणाणं । णासंताण दस-दिसं कत्तो भण पोरिसं तस्स ॥  
मारिज्जइ दुट्ट-मणो समुहं मारेइ पहरण-विहत्थो । जो उण पलाइ भीओ तस्स मयस्सावि किं मरइ ॥  
३० मा होह गव्विय-मणा अम्हि किर विणिहया जिया रण्णे । एएहिं चिय वहिया तुब्भे एवं वियप्पेसु ॥ ३०  
एए अरहेहिं जिया एक्कं वारेंति विणिहया रण्णे । अम्हे पुण एएहिं अणंतसो मारिहिज्जामो ॥  
अहमो चिलीण-कम्मो पावो अह विट्ठलो णिहीणो य । जो अवराह-विहीणे पहरइ जीवम्मि पाव-मणो ॥

1 > J सच्चित्ता अभिसवदुपक्को, P अभिसवदुपक्को । आहारंतो, P अइयारो, P उवभोगो. 2 > P अहव पियाणं, P एतं ति, P अहवा. 3 > J जीवित, P मित्ताणुराय, J कुणइ मित्ताणं च एते, P मरणं तो, J अतिआरा. 4 > P सम्मत्त. P रय for वय, P वएसु for गुणेषु, J अतिआरे P अतियारे, J कज्जा, JP भवजिय. 5 > P महोयहिकम्ममहपवण, P om. भंग. 6 > P जिस्स for जियस्स, P साहिते, 7 > P पावासाकंएण, P रायणा. 8 > P केवलो, J om. वि, P कंचणरथेन भणितं. 9 > P निरुभंतो वि, P after पारद्धिवसणीजाओ repeats the further portion, namely, भगवया भणियं देवाणुप्पिया etc. to संवेगं जायं ति, J adds अ before किं, J repeats एत्थ, J एरिसो. 10 > J om. भगवं, P om. कइं. 11 > J देवाणुप्पिया, P एत्तियवळं, J. om. जाव, P om. जाय, J पयत्त for पत्त. 12 > P om. से, J वेरगं for संवेगं, J प्पमाणे भूमाए. 13 > J तत्थ य बहुमय, P मणोरहकुमारो. 14 > J संकंतो, P उवगतो. 15 > P णिउच्चियग्गीओ. 16 > P नियमास, J भूय for मय, JP चकित. 17 > J सहा for सहसा, J दिसादिसं, J om. मय. 18 > J om. दीहं णीससिऊण, P सिणेह, P णियजीविया विलुप्पणभया वप्पुफुल्ल, J वप्पुफुल्ल. 19 > P च for चेय, J अहिलेइ त्ति, P om. अहो किमेयं ति. 20 > J adds य after मईओ, P दिसादिसि पयट्ठा, P उण for पुण, J adds एक्का after पुणो, P चिरकाल. 21 > P अहिमुहं, P चित्तियंतस्स. 22 > J जीवंतरो अद्धयंद, P जीवंतपरो अद्धयंदस्स वरो तहे वि. 23 > P कुमारं, P inter. अह & कुमारं, P मतिया. 24 > P inter. तहा & तं च, P वणमयासिलिंवी, P भयं for भगं. 25 > P मोडितं अत्तणो, P -कोडंडो, J -ससिधेणुओ. 27 > J om. तं, P रणमुहो, J जो for जे. 28 > P भीयाणं for दीणाणं, P कत्तो पुण पारुसं. 30 > P गव्वियगणो अम्हि किर विणिहया, P repeats जिया, P विहया for वहिया, P वियप्पेओ । 31 > P एते, P उण for पुण. 32 > P विणिट्ठणो for विट्ठलो, P विहीणो.

1 § ३४८ ) एवं च चिंतयंतेण उप्पण्ण-मित्त-करुणा-भावेण छित्ता करयलेहिं सा मय-सिलिंबी । अवि य । 1  
जह जह से परिमासद् अंगे मइयाए णिहुययं कुमरो । पणय-कलहे व्व तह तह दइयाए गलंति अच्छीणि ॥  
3 कुमारस्स वि तं दट्टणं वियसिय-लोयणेहिं उव्वूढो अंगेसु रोमंचो, पसरिओ हियए पहरिसो, णायं जहा 'का वि एसा 3  
मम पुव्व-जम्म-संबद्धं त्ति । अवि य ।

जाइंभराइं मण्णे इमाइं णयगाइं होति लोयस्स । वियसंति पियम्मि जणे अव्वो मउलेंति वेसम्मि ॥  
6 सा एयं पुण ण-याणिमो कम्मि जम्मंतरम्मि का मम एसा आसि' त्ति चिंतयंतस्स ठियं हियए 'अज्ज किर ताओ गोसे 6  
जेय चंपाउरिं उवगओ किर तत्थ भगवं सव्वण्णू समवसरण-संठिओ, तस्स वंदणा-णिमित्तं ता अहं पि तत्थ गमिस्सं  
9 गोउरंतरे वट्टइ, मय-सिलिंबी वि त्ति भणंतस्स भगवओ पुरओ मणिरह-कुमरो ति-पयाहिणं च काउं भगवंतं वंदिउं 9  
पयत्तो ।

'जय जय जियाण बंधव जय धम्म-महा-समुद्द-सारिच्छ । जय कम्म-सेल-दारण जय णाणुज्जोविय मुणिंद ॥' त्ति ।  
12 भणमाणो पणमिओ चलणेसु । पणाम-पच्चुट्टिएण भणियं । 'भयवं, 12  
तं णत्थि जं ण-याणसि लोआलोअस्मि सव्व-वुत्तंते । ता मह साहसु एयं का एसा आसि मह मइया ॥'  
एवं च पुच्छिओ भयवं णाय-कुल-तिलओ जय-जीव-बंधवो बहुयाण जिय-सहस्साण पडिबोहणत्थं णियय-जाय-पव्वत्तं  
15 पुव्वक्खाणं साहिउं पयत्तो । 15

§ ३४९ ) 'भो भो देवाणुप्पिया, अत्थि इओ एकम्मि मह जम्मंतरे सागेयं णाम णगरं । तत्थ मयणो णाम राया ।  
तस्स य पुत्तो अहं, अंगंगकुमारो य महं णामं तम्मि काले आसि । एवं च अच्छमाणस्स तम्मि णयरे को वुत्तंते आसि ।  
18 अवि य । आसि वेसमणो णाम महाधणो सेट्ठी । तस्स य पुत्तो पियंकरो णाम । सो य सोम्मो सुहओ सुयणो सुमणोहरो 18  
वाइं कुसलो विणीओ पियंवओ दयालू दक्खिण्णो संविभागी पुव्वाभिभासी य त्ति । तस्स य एरिसस्स समाण-जम्म-काला  
सह-संबद्धिया सहज्झय घरे पिउ-मित्तस्स धूया णामेण सुंदरि त्ति । सा वि रूवेण मणोहरा मुणीणं पि भावाणुरत्ता य ।  
21 तस्स पियंकरस्स तं च तारिसं दट्टण तेण पिउणा तस्सेय दिण्णा, परिणीया य । धणियं च बद्ध-णेह-सवभावा अवरोप्परं 21  
खण-मेत्तं पि विरहे ऊसुया होति । एवं च ताणं अहिणव-सिणेहे णव-जोव्वण-वस-पसरमाण-सिणेह-पेम-राय-रसाणं वच्चए  
कालो । अण्णया य तहा-भवियव्व-कम्म-दोसेण वेयणीउदएण अपडु-सरीरो सो पियंकरो जाओ । अपडु-सरीरस्स सा सुंदरी  
24 महासोगाभिहया ण भुंजए ण सुयए ण जंपए ण अण्णं कायव्वं कुणइ, केवलं संभाविय-दइय-मरणा हिययव्वंभंतर-घरुव्वरंतं 24  
संताव-ताविय-णयण-भायणुव्वत्तमाण-वाह-जल-लवा दीण-विमणा सोयंती ठिया । तओ तंहाविह-कम्म-धम्म-भवियव्वयाए  
आउय-कम्ममक्खययाए य मओ सो वणिय-पुत्तो । तओ तं च मयं पेच्छिज्जण विसण्णो परियणो, सो य विमणो पल-विउं  
27 पयत्तो । अवि य । 27

'हा पुत्तय हा वालय हा मुद्धउ-गुण-गणाण आवास । कत्थ गओ सि पियंकर पडिवयणं देसु मे तुरियं ॥'  
एवं च पलाव-णिग्भरे घर-जणवए हलबोलीहूए परियणे कयं च करणिजं, विणिम्मिवियं मय-जाणवत्तं । तओ तत्थ वोढु  
30 माढत्ता । तओ तं च तारिसं दट्टण सुंदरी पहाइया । 'भो भो पुरिसा, किं एयं तुव्वेहिं समाढत्तं' । तेहिं भणियं । 'वच्छे 30  
एस सो तुह पई विवण्णो, मसाणं णेऊण अग्गि-सक्कारो कीरइ' त्ति णिसुए कोव-विरज्जमाण-लोयणाए बद्ध-तिवली-भंगुर-  
णिडालवट्टाए भणियं 'अवेह, णिक्करुणा पावा तुव्वे जं दइयं मयं भणह, इमस्स कारणे तुव्वे चेय मया पडिहया डड्ढा य,

1) P चिंतयंतो, P कलुण for करुणा, P छित्ता for छित्ता, P महसिलिंबी. 2) P परिमुसती अंगे मइया णिहुययं, J दइयाय-  
3) P उच्छूढो अंगे य. 4) J om. पुव्वजम्म, P om. अवि य. 5) P जाइंसराइं मन्ने, P जमे for जणे, J वेसम्मि. 6) J जंजंतरंमि, P द्वियं, P गोसो चेय चंपाउरी आगवो. 7) J समवसरिओ तस्स, P वंदण-, P om. पि. 8) P एतं, P inter. आसि  
& अहं, P समवसरण. 9) P वट्टंति, P om. त्ति. 11) P om. one जय, P दारण. 12) P पणामिओ, P पणामएपच्चुट्टिएण  
13) P जं न जाणसि, J लोआलोअस्मि. 14) J भगवं, J repeats जय, J पडूण for बहुयाण, J णिअज्जातयवत्तं. 16) J देवाणुप्पिया, J सागेतं. 17) P अहं for य महं. 18) P adds तु before महाधणो, J om. य before पुत्तो, P सोमो-  
P सुयणा. 19) P कुसली, P भागी पुभासी व त्ति, J च for य before त्ति, P om. य एरिसस्स, J समाणकम्मकलासद,  
P जंमकालसमाणसंबद्धिया. 20) J सयज्झय P सयज्झिय, P पिय for पिउ, P om. पि. 21) J तेण से पिउणा तस्स य, P adds  
परिजा before परिणीया, P बद्धणे for वट्टणेह. 22) J om. पि, J adds तओ before एवं, P -सिणेह, J पेमरायवसाण-  
23) J अण्णत्ता, J adds व before वेयणी, P अपडु- in both places, P om. सा. 24) J 'सोगाहिदया, J adds  
न हसए after सुयए, P adds त्ति after कुणइ, J 'हिरव्वंभंतर P हिययव्वंभंतर. 25) P सं for संताव, P द्विया, J  
भविअव्वत्ताए. 26) P कम्मक्खयाए, P वणियउत्तो. J वि पुणो for विसण्णो. 28) P पुत्त महा, J गुणमणाणअययया । 29) J कयं च जं करणीयं विणिम्मिवयं भवजाणं । P मयज्जाणवत्तं, J तत्थ वोढुं पयत्तो P तत्थ वोढुमाढत्ता, J om. तओ. 30) P क्रिमयं,  
31) P तुह पती, P पालन for णेऊण, P नयगाए for लोयगाए. 32) J 'वट्टाए for वट्टाए, P repeats वट्टाए, J om. पावा'  
J रट्टाए P वट्टाए for डड्ढा य.

- 1 ण कयाइं एस मह वल्लहो मरीहिइ ढज्झस्सइ' त्ति । तओ तेहिं चित्तिं 'अरे, एस गेह-गह-गहिया उम्मत्तिया पलवइ 1  
वराइं' । 'गेण्हइ एयं कलेवरं, णिक्कासेह मंदिराओ' त्ति भणमाणेहिं पुणो वि उक्खिखिउं पयत्तं । तओ पुणो वि अग्निधावि- 3  
3 ऊणं लगा सुंदरी । 'भो भो दुट्ट-दुट्टुद्धिय-पुरिसा, कथ्य ममं इमं दइयं घेतुं चलय' त्ति । अवि य ।  
'पेच्छइ पेच्छइ लोया एसो मह वल्लहो जियंतो वि । हीरइ कहिं पि माए किं एस अराउलो देसो' 11  
त्ति भणंती णिवडिया उवरिं, तं च सव्वंगियं आलिंकिण ठिया । तओ य ते सयणा सव्वे किं-कायव्व-विमूढा विमणा 6  
6 दुम्मणा चित्तिउं पयत्ता । भणिया य पिउणा 'सुंदरि वच्छे, एस ते भत्ता मओ, मा एयं छिवसु, मुंचसु, ढज्झइ एसो' 6  
त्ति । तीए भणियं 'एयस्स कए तं चिय ढज्झसु' त्ति । तओ जणणीए भणियं ।  
'कीस तुमं गह-गहिया एयं परिरक्खसे विगय-जीयं । मा होह पुत्ति मूढा एस मओ ढज्झए एण्हि 11' 9  
9 तओ तीए भणियं । 'अत्ता,  
णाहं गहेण गहिया गहिया रक्खेण तं चिय अलज्जा । जा मज्झ पियं दइयं ढज्झइ एसो त्ति वाहरसि 11'  
एवं च ससुरेण अण्णेण य गुर्यणेण सही-सत्थेण भणिया वि  
12 पेम्म-महा-गह-गहिया मयं पि सा णेच्छए पियं मोत्तुं । राणेण होंति अंधा मण्णे जीवा ण संदेहो 12  
तओ विसण्णो से जणओ गारुल्लिए भूय-तंतिए अण्णे य मंतिवादिणो मेलेइ, ण य एक्केणं पि से कोइ विसेसो कओ  
त्ति । तओ णत्थि को वि उवाओ त्ति पम्मोक्किया, तम्मि चय अच्छिउं पयत्ता । तओ दुइय-दियहे जीय-विमुक्कं तं कलेवरं 15  
15 सुज्जिउं पयत्तं । पुणो अण्ण-दियहे य उप्पण्णो पोगगलाण वि गंधो । तह वि तं सा मडयं  
आलिंगइ वाहाहिं गुल्लइ हत्थेहिं चुंवइ मुहेण । कीयंत-सुरय-लीलं तं चिय सा सुमए मूढा 11  
तओ णिंदिज्जमाणी परियणेण वारिज्जमाणी सहीहिं इमं भणिउं पयत्ता । अवि य ।  
18 'एहेहि मज्झ सामिय वच्चामो वाहिरं वणंतम्मि । जत्थ ण पेच्छामो चिय अप्पिय-भणिरं इमं लोणं 18  
पेच्छ इमो गह-गहियो लोणो इह भणइ किर मओ तं सि । इय णिट्टर-वयणाणं कह मज्झे अच्छिउं तरसि 11  
किर तं पि य मय-कुहियो एसो अह जंपए जणो धट्टो । एयस्स किं व कीरउ अहवा गह-गहियओ एसो 11  
21 मज्झ ण जुज्झइ एयं सामिय तुह णिंदणं सहेउं जे । तम्हा वच्चामो चिय जत्थ जणो णत्थि तं ठाणं 11' 21  
त्ति भणमाणीए उक्खिखत्तं तं करंके आरोविउं उत्तिमंगे ओइण्णा मंदिराओ पयत्ता गंतुं रच्छा-मुहम्मि विम्वहय-करुणा-हास-  
वीभच्छ-भय-भावेण जणेण दीसमाणी गिग्गया णयरीओ । केरिसं च घेतुं कलेवरं कुहियं । सिमिसिमंत-अंतो-किमि-संकुलं 24  
24 भिणिभिणंत-मच्छियं सडसडंत-चम्मयं फसफसंत-फेसयं कलकलंत-पोट्टयं उव्वमंत-दुरगंधयं दीसंत-हड्डयं फुरंत-पवणयं 24  
तुट्टंत-अंतयं फुडंत-सीसयं वहतंत-मुत्तयं पयट्ट-पुव्वयं खिरंत-लोहयं वमंत-पित्तयं किरंत-मज्जयं ति ।  
अंतो असुइ-सयव्वं वाहिर-दीसंत-सुंदरावयवं । कंचण-कलस-समाणं भरियं असुइस्स मज्झम्मि 11  
27 तं पि तारिसं भीमं दुइंसणं पेम्म-गह-गहिया घेतुं उवगया मसाणं । तथ खंधारोविय-कंकाला जर-चीर-णियंसणा धूलि- 27  
पंडर-सरीरा उद्ध-केसा मलिण-वेसा महा-भइरव-वयं पिव चरंती भिक्खं भमिज्जणं जं तथ सारं तं तस्स णिवेएइ ।  
भणइ य ।  
30 'पिययम एयं भुंजसु भिक्खं भमिज्जण पाचियं तुज्झ । सेसं पि मज्झ दिज्जउं जं तुह णवि रोयए एत्थ 11' 30  
एवं च जं किंचि भुंजिज्जण दियहे दियहे कयाहारा कावालय-वालय व्व रक्खसी वा पिसाईं व तस्सेय रक्खण-वावडा  
अच्छिउं पयत्ता तम्मि महा-मसाण-मज्झम्मि ।

1 > J मरीहइ, J ढज्झस्स त्ति P ढज्झसइ त्ति, P ओमत्तिया विलवइ. 2 > P गेण्ह एयं कडेवरं, P पुणो उवक्खिउं, J अओ  
for तओ. 3 > J भो भो बुद्धिपुरिसा. 4 > P कहं पि. 5 > P om. त्ति, J om. य after तओ, P विमणदुम्मणा चितापरा  
अच्छिउं पयत्ता. 6 > P सुंदरी, J ए for ते, J मा एवं, P om. मुंचसु. 7 > J तीय, J ढज्झासु P ढज्झस, P माया पलविउं पयत्ता  
for जणणीए भणियं (on the margin in J). 8 > P एतं, P जीवं, P एहिं for एण्हि. 10 > P om. one गहिया,  
J अणज्जे for अलज्जा. 11 > P om. वि. 12 > J राएण, J जीआ. 13 > P गारुल्लिए भूते, J भूतंतिए, J मंतवातिणो  
मेलेति ण य एक्को पि, P म for ण य, P सो for से. 14 > P तं उ for तओ, J कोइ for कोवि, P पुणो for तओ before दुइय,  
J adds य before जीय. 15 > P सुज्जिउं, J अंओ for गंधो. 16 > J गोल्लइ for गुल्लइ, P हत्थेण, P जायंत for कीयंत.  
17 > P सहियणेण इमं भणियं पयत्ता. 18 > P adds चिय after वच्चामो, P भणियं इमं, J लोअं. 19 > J लोओ किर भणइ  
किर, P तरइ. 20 > P म for मय, J घेट्टो. 21 > P तुह निदणं पि सोउं जे, P जणे णत्थि. 22 > J भणमाणीय, J  
उत्तमंगे P उत्तिमंगो. 23 > P राय for भय, P om. कलेवरं, J किमिकुलं. 24 > P फसफसंत. 25 > J तुट्टंत for तुट्टंत, P  
adds फुट्टंत अंतयं after अंतयं, J फुरंत P फुट्टंत for फुडंत, P पूव्वयं, J किरंतलोहियं, P adds रसंतवंधयं परंतमेत्तयं after  
पित्तयं, P किरयंत. 26 > J सरिस for कलस. 27 > P भीमं, P रोवयं for मसाणं, P खंधारो वि य, P धूली. 28 > J  
om. तं before तस्स, P तथ for तस्स. 30 > P पाविया एयं, P तुज्झ for तुह, P न for ण वि. 31 > P om. जं किं  
चि, J कावालिणिअ व्व रक्खसी, J वा P य for व after पिसाईं, P बहु व्व for तस्सेय रक्खणवावडा. 32 > P om. महा.

- 1 § ३५० ) पुणो तेण तीए पिउणा विण्णत्तो अम्ह ताओ जहा 'देव एरिसो बुत्ततो, अम्ह धूया गह-गहिया, ता तं 1  
जइ कोइ पडिवोहेइ तस्स जं चये मग्गइ तं चये अहं देमि त्ति दिज्जउ मज्झ वयणेण णयर-मज्झे पडहओ' त्ति । एवं 1  
3 च तायस्स विण्णत्तं तं णिसुयं मए । तओ चिंतियं मए । 'अहो, मूढा वराई पेम्म-पिसाएण ण उण थण्णेणं ति । ता 3  
अहं बुद्धीए एयं पडिवोहेमि' त्ति चिंतयंतेण विण्णत्तो ताओ । 'ताय, जइ तुमं समादिससि ता इहं इमस्स वणियस्स  
संवोहेमि तं धूयं' ति । एवं च विण्णविएण ताएण भणियं । 'पुत्त, जइ काऊण तरसि ता जुत्तं इमं कीरइ वणियाण  
6 उवयारो' त्ति भणिए चलिओ अहं मसाण-संमुहं । जाणिया मए कम्मि ठाणे सा संपयं । जाणिऊण णिवारियासेस-परियणो 6  
एगामी गहिय-चीर-माला-णियंसणो धूली-धूसर-सरीरो होऊण खंधारोविय-दुइय-कंकालो उवगओ तीए समीवं ।  
ण य मए किंचि सा भणिया, ण य अहं तीए । तओ जा जं सा तस्स अत्तणो कंकालस्स कुणइ तं अहं पि णियय-कंकालस्स  
9 करेमि त्ति । तओ वच्चंतेसु दियहंसु तीए भणियो अहं 'भो भो पुरिसा, किं तए एयं कीरइ' त्ति । मए भणियं 'किं 9  
इमाए तुज्झ कहाए' । तीए भणियं 'तह वि साहिज्जउ को एस बुत्ततो' त्ति । मए भणियं 'एसा अम्ह पिया दइया  
सुरूवा सुभगा य । इमा य मणयं अपडु-सरीरा संजाया । ताव य जणो उल्लवइ 'एसा मया, सुंच एयं, डज्झइ' त्ति ।  
12 तओ अहं तेण जणेण गह गहियो इव कओ । मए वि चिंतियं 'अहो, एस जणो अलिओ बलिओ य । ता इमिणा 12  
ण किंचि मज्झ कज्जं ति घेत्तूण दइयं तत्थ वच्चामि जत्थ णत्थि जणो' त्ति । एयं च णिसामिऊण तीए भणियं 'सुंदरं  
कयं जं णीहरिओ पियं घेत्तूण, एस जणो अलिय-भणियो, इमिणा ण कज्जं ति । महं पि एसो च्चिय बुत्ततो' त्ति । ता  
15 अम्ह सम-सहाव-वसणाणं दोणहं पि मेत्ती जाया । मए वि भणियं 'तुम्हं मम भइणी, एस य भइणीवइओ, किं च 15  
इमस्स णामं' ति । तीए साहियं 'पियं करो' त्ति । 'तुह महिलाए किं णामं' । मए भणियं 'मायादेवि' त्ति । एवं च  
कय-परोप्पर-सिणेहा अण्णमण्णं अच्छंति । जइया उण आवस्सय-णिमित्तं जल-पाण-णिमित्तं वा वच्चइ तइया य ममं  
18 भणिऊण वच्चइ । 'एस तए मह दइओ ताव दइओ' त्ति भणंती तुरियं च गंतूण पुणो पडिणियत्तइ त्ति । अहं पि जइया 18  
वच्चामि तइया तं मायादेविं समप्पिऊण वच्चामि, झत्ति पुणो आगच्छामि' त्ति । एवं च उप्पण्ण-वीसंभा अण्णं पुण दियहं  
मम समप्पिऊण गया आगया य । तओ मए भणियं 'भइणि सुंदरि, अज्ज इमिणा तुह पइणा किं पि एसा मह महिला  
21 भणिया तं च मए जाणियं' ति । तीए भणियं । 'भो भो दइय, तुह कारणे मए सव्वं कुलहरं सहियणो य परिच्चत्तो । 21  
तुमं पुण एरिसो जेण अण्णं महिलंतरं अहिलससि' त्ति भणिऊण ईस-कोवा ठिया । पुणो अण्णम्मि दियहे मह समप्पिऊण  
गया कायव्वेणं । मए वि घेत्तूणं दुवे वि करंका कूवे पक्खित्ता । पक्खिविऊण य तीय चये मग्गालग्गो अहं पि उवगओ ।  
24 दिट्ठो य तीए पुच्छिओ । 'कस्स तए समप्पियाइं ताइं माणुसाइं' ति । मए भणियं 'मायादेवी पियं करस्स समोप्पिया, 24  
पियं करो वि मायादेवीए त्ति । अम्हे वि वच्चामो चये सिग्घं' ति भणमाणा काऊण आवस्सयं संपत्ता संभंता जाव ण  
पियं करो णा मायादेवि त्ति ।
- 27 § ३५१ ) तओ तं सुण्णं पएसं दइण मुच्छिओ अहं खणं च समासत्थो धाहाविउं पयत्तो । अवि य, 27  
धावह धावह सुसिओ हा हा दुइणेण तेण पुरिसेण । जीवाओ वि वल्लहिया मायादेवी अवहिया मे ॥  
धावह धावह पुरिसा एस अणाहो अहं इहं सुसिओ । अविआणय-सील-गुणेण मज्झ भइणीए दइएणं ॥  
30 भइणी सुंदरि एण्ह साहसु अह कत्थ सो तुहं दइओ । घेत्तूण मज्झ जाया देसाओ विणिग्गओ होज्ज ॥ 30  
किर तं सि महं भइणी सो उण भइणीवइ त्ति वीसत्थो । तं तस्स समप्पेउं पिय-दइयं णिग्गओ कजे ॥  
जाव तुह तेण पइणा सील-विहूणेण णट्ट-धम्मणेण । साल-महिलं हरंतेण सुंदरं णो कयं होज्जा ॥

1 > J तीय, J om. ता. 2 > P om. मज्झ वयणेण, J om. णयरमज्झे, J इमं for एवं. 3 > J तातस्स, P च तस्स विन्नपंतं, J तओ for अहो, P वराती पिम्म- 4 > P ताहं for अहं, P om. एयं, J om. ताओ, J यदि तुमं समादिससि ता इमस्स अह वणिअस्स, P समाइससि. 5 > P जुत्तमिणं कीरइ वयारो त्ति. 6 > P हं for अहं, P -समुहं, P ट्ठाणे. 7 > P चीरमल, P -सीरीरो, J om. दुइय. 8 > J तीय, P जं for जा, P repeats तं, P om. पि. 9 > J तीय, P om. मए भणियं. 10 > P तुह for तुज्झ, J तीय, P तहा वि, J अम्हं. 11 > J सुहया for सुभगा, P om. य, P मणुयं for मणयं, P अपडुसरीरा, J जाया for संजाया, J om. य, P एत्तं. 12 > P om. इव कओ, P om. वि, P अलिय for अलिओ, J om. बलिओ. 13 > J तत्थ for जत्थ, P om. च, J तीय. 15 > J om. तुम्हं, P य रुविणीवइओ. 16 > P om. ति, J तीय. 17 > P अण्णमण्णुं इच्छंति, J पुण for उण, P om. थ, J मं for ममं. 18 > P om. च. 19 > J समोविऊण, P -विसंभा. 20 > P समप्पिऊ गया, J भइणो, P om. पि. 21 > J adds ण after मए, P om. ति, J तीय, P सव्वकुलहरं, J om. य, P व्व for य. 22 > J अभिलससि, P मम for मह. 23 > P गय, P पक्खिविऊण तस्सेय मग्गा, P पिव for पि. 24 > J तीय, J adds य after पुच्छिओ, P ताइं for तए, P समप्पिया. 25 > P मायादेवी इ त्ति, P om. चये, P भणमाणो, J ण सुहं करो णा. 26 > P om. णा. 27 > J inter. अहं & रूणं, J om. च, P सहाविउं for धाहाविउं, P om. अवि य. 28 > P मो for मे. 29 > J अवि य ॥ णिय-, J भइणीय, P adds, after दइएणं ॥, भइणि सुंदरि एस अणाहो अहं इहं सुसिओ । and repeats the line अविआणय etc. 30 > J भइणो P भइणि, P साहह अह, P सो द तुह दइओ, P जायं, P अज्ज for होज्ज. 31 > J ममं for महं, J तीय for तस्स, J पिय दइयं. 32 > P सालमहलं.

- 1 तद्वय च्चिय मे णायं जइया अवरोप्परेण जंपंता । किं-किं पि विहसमाणा जह एस ण सुंदरो पुरिसो ॥ 1
- ता संपइ कथ गओ कथ व मग्गामि कथ वचामि । जो चोरिज्जण वचइ सो किर ओवल्लभए केणं ॥
- 3 ति भणमाणो पुणो पुणो वि अलियमलिय-दुक्ख-भर-मउलमाण-णयण-जुवलो विमुक्क-णीसह-वेवमाण-सच्चंगो णिवडिओ 3
- धरणिवट्टे । पुणो वि सो विलविउं पयत्तो ।
- हा दइए हा मह वल्लहिए हा पिययमे अणाहो हं । कथ गया वर-सुंदरि साहसु तं ता महं तुरियं ॥ ति । अवि य ।
- 6 तुज्झ कएणं सुंदरि धण-जण-कुल-मित्त-बंधवे सव्वे । परिहरिए जीयंते तुमए पुण एरिसं रइयं ॥ 6
- इमं च अलिय-पलवियं सोऊण सुद्ध-सहावाए चित्तियं वणिय-दारियाणु जहा 'किर तेण मह पइणा इमस्स महिला
- उच्चालिज्जण अणत्थ णीया होजा । ता एरिसो सो अणज्जो णिक्खिओ णिग्घिणो णिदओ धणप्पणो कयग्घो पावो
- 8 चंडो चवलो चोरो चप्फलो पारदारिओ आलप्पालिओ अकज्ज-णिरओ त्ति जेण मह भाउणो महिलं वल्लिज्जण 9
- कहिं पि घेत्तूण पलाणो त्ति । अवि य ।
- तुज्झ कए परिचत्तो घर-परियण-बंधु-वग्ग-परिवारो । कह कीरउ एत्ताहे अणज्ज भण त्तिपियं एक्कं ॥
- 12 दइओ त्ति इमीए अहं मरइ विसुक्का मए त्ति णो गणियं । अह कुणइ मज्झ भत्तिं भत्तो अवहत्थिओ कह णु ॥ 12
- अह एस मह विणीया तुमए गणियं ण मूढ एयं पि । मोत्तूण ममं णिदय का होहिइ एरिसा महिला ॥
- एस महं किर भाया एसा उण साल-महिलिया मज्झ । गग्गामग्ग-विवेगो कह तुह हिययम्मि णो फुरिओ ॥
- 15 ता जो एरिस-रूवो माइल्लो कवड-कूड-णिण्णेहो । किं तस्स कएण अहं झिज्जामि असंभला मूढा ॥ 15
- § ३५२ ) जाव य इमं चित्तिउं पयत्ता ताव मए भणियं । 'सुंदरि, एरिसे ठिए किं कायव्वं' ति । तीए भणियं
- 'णाहं जाणामि, तुमं जाणामि किमेत्थ करणीयं' ति । भणियं च मए । 'सुंदरि,
- 18 को णाम एत्थ दइओ कस्स व किर वल्लहो हवइ को वा । णिय-कम्म-धम्म-जणिओ जीवो अह भमइ संसारं ॥ अवि य । 18
- सव्वं इमं अणिच्चं धण-धणिया-विहव-परियणं सयलं । मा कुणसु एत्थ संगो होउ विओगो जणेण समं ॥
- सुंदरि भावेषु इमं जेण विओगे वि ताण णो दुक्खं । होइ विवेग-विसुद्धो सध्वमणिच्चं च चित्तिसु ॥
- 21 जह कोइ मय-सिलिंओ गहिओ रोद्वेण सीह-पोएण । को तस्स होइ सरणं वण-मज्जे हम्ममाणस्स ॥ 21
- तह एस जीव-हरिणो दूसह-जर-मरण-वाहि-सिंघेहिं । घेप्पइ विरसंतो च्चिय कत्तो सरणं भवे तस्स ॥
- एवं च चित्तयंतस्स तस्स णो होइ सासया बुद्धी । संसार-भउव्विग्गो धम्मं चिय मग्गए सरणं ॥
- 24 एस अणादी जीवो संसारो कम्म-संतति-करो य । अणुसमयं च स वज्झइ कम्म-महाकसिण-पंकेण ॥ 24
- णर-तिरिय-देव-णारय-भव-सय-संवाह-भीसण-दुरंतं । चक्काइद्धो एसो भमइ जिओ णत्थि से थामं ॥
- ण य कोइ तस्स सरणं ण य बंधू णेय मित्त-पुत्तो वा । सव्वो च्चिय बंधुयणो अब्बो मित्तं च पुत्तं च ॥
- 27 सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण जीयाण । सव्वाण आसि मित्तं पुत्तो वा बंधवो वा वि ॥ 27
- होऊण को वि माया पुत्तो पुण होइ दास-रूवो सो । दासो वि होइ सामी जणओ दासो य महिला य ॥
- होऊण इत्थि-भावो पुरिसो महिला य होइ य णपुंसो । होऊण कोइ पुरिसो णपुंसयं होइ महिला वा ॥
- 30 एवं चउरासीई-जोणी-लक्खेसु हिंडए जीवो । रागद्वेष-विमूढो अण्णोणं भक्खणं कुणइ ॥ 30
- अण्णोणं वह-बंधण-वाउव्वेवेहिं पावए दुक्खं । दुत्तार-दूर-तीरं एयं चित्तिसु संसारं ॥
- एवं चित्तैतस्स य संसार-महा-भएण गहियस्स । णिव्वेओ होइ फुडं णिव्विण्णो कुणइ धम्मं सो ॥

1 > J तद्वय, P पि वहसमाणी. 2 > P गओ जत्थ व, P ओवल्लभए णं के त्ति. 3 > J om. one पुणो, J जुवलो. 4 > J om. वि सो. 5 > P दयए, P om. हा मह, J adds हा before अणाहो, J कथ गयासि तुमं । अवि य. 6 > P जाण for जण, P रतियं. 7 > J -वलवियं ( विलवियं ? ), J जह किर. 8 > P उच्चालिज्जण अणत्थ, P om. कयग्घो. 9 > P inter. चंडो & चवलो, P पारदारिओ आलपालिओ, J अयज्जणिरओ, P भाइणो. 11 > P om. परिचत्तो धर, J परिआरो, J एयाए for एत्ताहे. 12 > P दइ त्ति इमीए हं, P भग्गो for भत्तो. 14 > P सा for साल. 15 > J तउ for ता, P माइणो, P inter. कूड & कवड, J महं for अहं, P असंभलाडा. 16 > P मए भणियो, P द्विए, J तीय. 18 > J inter. णाम & एत्थ. 19 > P धणवणिया, J होइ विओओ. 20 > J विआए for विओगे, P विवो for विवेग, J 'णिच्चं ति चित्तैइ. 21 > P को वि. 22 > P सिंघेण । 23 > J om. तस्स, J सासया, J भवुव्विग्गो, P धम्मो च्चिय. 24 > P अणाई, J -संततिकरो P संततिरो. 25 > J माणुस for णारय, P सो for से. 26 > P को वि तस्स, J तत्थ for तस्स, P णेय पुत्त मित्तो वा, J सव्वो for अब्बो. 27 > P को वि for कोइ. 29 > J पुरिसो, P होइ अणुपुरिसो, P णपुंसयं. 30 > J चउरासीती P चउरासीतिजोणि. 31 > J वाउव्वेवेहिं P वाउखेवेहिं, J एवं for एयं. 32 > P निद्वेओ होइ पुडं, J से for सो.



- 1 एको चिय एस जिओ जायइ एको य मरइ संसारे । ण य हं कस्सइ सरणं मह अण्णो णेय हो अत्थि ॥ 1  
 ण य मज्झ कोइ सरणं सयलो सयणो व्व परजणो वा त्ति । दुक्खम्मि णत्थि विदिओ एको अह पच्चए णरए ॥
- 3 एत्वं चित्तेतीए भाविय-एगत्तणाए तुह एण्हि । सयणेसु अवेह फुडं पडिवंधो सुट्टु वि पिण्णु ॥ 3  
 ण य परजणेसु रोसो णीसंगो भमइ जेण चित्तेण । पारंपरेण मोक्खो एगत्तं चित्तए तेण ॥  
 अण्णं इमं सरीरं अण्णो हं सव्वहा विचित्तेसु । इंदिय-रहिओ अप्पा सरीरयं सेंदियं भणियं ॥
- 6 अण्णं इमं सरीरं जाणइ जीवो वि सव्व-भावाइं । खण-भंगुरं सरीरं जीवो उण सासओ एत्थ ॥ 6  
 संसारम्मि अण्णंते अण्णत-रूवाइं मज्झ देहाइं । तीयाणि भविस्संति य अहमण्णो ताणि अण्णाणि ॥  
 एत्वं चित्तेतीए इमम्मि लोगम्मि असुइ-सरिसम्मि । ण य होइ पडीवंधो अण्णत्तं भावए तेण ॥
- 9 अह भणसि कइं असुइं सरीरमेयं ति तं णिसामेहि । पढमं असुइय जोणी विइयं असुइत्तणं च तं अंते ॥ 9  
 असुइय-भायणमेयं असुइं-संभूइमसुइ-परिणामं । ण य तं तीरइ काउं जेण सुइत्तं इमं होइ ॥  
 पढमं चिय आहरो पक्खित्तो वयण-कुहर-मज्झम्मि । उल्लेज्जइ सेंभेण सेंभट्टाणम्मि सो असुइं ॥
- 12 तो पावइ पित्तेण अंबिल-रस-भाव-भावो पच्छा । पावइ वायुट्टाणं रस-खल-भेदे य कीरए तेण ॥ 12  
 होइ खलाओ मुत्तं वचं पित्तं च तिविह-मल-भेओ । रस-भेओ पुण भणो सो णियमा तीय सत्त-विहो ॥  
 जो तत्थ रस-विसेसो रत्तं तं होइ लोहियं मासं । मासाओं होइ मेओ मेयाओ अट्टिओ होंति ॥
- 15 अट्टीओ पुणो मज्जा मज्जाओ होइ सुक्क-भावेण । सव्वं च तं असुइयं सेंभादी सुक्क-पज्जंतं ॥ 15  
 णह-दंत-कण्ण-णासिय-अच्छी-मल-सेय-सेंभ-वच्चाणं । असुइं-घरं व सुंदरि भरियं राओ कइं होउ ॥  
 असुइंओ उप्पण्णं असुइं उप्पज्जइ त्ति देहाओ । गव्भे व्व असुइ-वासे असुइं मा वहसु सुइ-वायं ॥
- 18 उट्टु-काल-रुहिर-विंदू-णर-सुक-समागमेण पारदं । कललव्वुद-दव्वादी-पेसी संवद्धए एवं ॥ 18  
 बाल-कुमारय-जोव्वण-मज्झिम-थेरत्त-सव्व-भावेसु । मल-सेय-दुरहि-गंधं तम्हा असुइं सरीरं तु ॥  
 उच्चट्टण-णहाण-विलेवणेहिं तह सुरहि-गंध-वासेहिं । सव्वेहिं वि मिलिएहिं सुइत्तणं कत्थ तीरेज्ज ॥
- 21 सव्वाइं पि इमाइं ऊकुम-कप्पूर-गंध-मल्लाइं । ताव चिय सुइआइं जा देहं णेय पावेंति ॥ 21  
 देहम्मि पुणो पत्ता खणेण मल-सेय-गंध-परिमिलिया । ओमालयं ति भण्णइ असुइत्तं जंति सव्वे वि ॥  
 तम्हा असुइ सरीरं सुंदरि भावेसु जेण णिव्वेओ । उप्पज्जइ तुह देहे लग्गासि धम्मम्मि णिण्णेहा ॥
- 24 चित्तेसु आसवाइं पावारंभाइं इंदियस्साइं । फरिसिंदिय-रस-विवसा बहुए पुरिसा गया णिहणं ॥ 24  
 फरिस-सुहामय-लुद्धा वेगसरी गेण्हए उ जा गव्वं । पसवण-समए स चिय अह दुक्खं पावए घोरं ॥  
 बहु-करिणी-कर-कोमल-फरिस-रसासाय-दिण्ण-रस-लोलो । बज्झइ वारीबंधे मत्त-गओ फरिस-दोसेण ॥
- 27 इह लोए चिय दोसा परलोए होइ दुग्गईं ताण । फासिंदिय-लुद्धाणं एत्तो जिडिंभदियं सुणसु ॥ 27  
 मय-हत्थि-देह-पविसण-रुंभण-वासोह-पत्त-उयहि-जले । जह मरइ वायसो सो धावंतो दस-दिसं मूढो ॥  
 हेमंत-थीण-घय-कुंभ-भक्खणे मूसओ जहोइण्णो । गिन्हम्मि विलीयंते मरइ वराओ रसण-मूढो ॥
- 30 गोट्टासण्ण-महद्वह-वासी कुम्मो जहा सुवीसत्थो । रसणेंदिय-लोल-मणो पच्छा मारिज्जइ वराओ ॥ 30  
 जह मास-पेसि-लुद्धो घेप्पइ सेणो झसो व्व बडिस्सस । तह मारिज्जइ पुरिसो मओ य अह दोग्गइं जाइ ॥  
 घाणिंदिए वि लुद्धो ओसहि-गंधम्मि बज्झए सप्पो । पललेण मूसओ वा तम्हा मा रज्ज घाणम्मि ॥
- 33 रूवेण पुणो पुरिसा बहुए णिहणं तु पाविया वरया । दीवेण पर्यगो इव तम्हा रूवं पि वजेसु ॥ 33

1 > P जायति, P ण for य, P अह for मह. 2 > P inter. मज्झ & कोइ, P om. सयलो, J सुयणो for सयणो, P सुवणो for व्व परजणो, P वीओ for विदिओ. 3 > P एग for एगत्तणाए, P सुयणेसु, J पडिवद्धो P पडिवद्धो, J सुहुं वि, P पएसु. 4 > P परजणय रोसो, P भणइ जेण, P एगंतं. 5 > J सेंदअं P सेंदियं. 6 > J अयणं for अण्णं, J repeats after सासओ एत्थ ॥, a verse from above ण य परजणेसु रोसो etc. to चित्तए तेण and some other portion. 7 > P om. अण्णंते, J तीताणि, J अह अण्णो ताणं अणाइणि, P अहमन्ने. 8 > J लोअंभि, J पडीवद्धो P पडिवंधो. 9 > P असती सरीरमेत्तं, J सरीरमेत्तं, J वितियं, P चित्तिइ for विइयं, P om. च तं. 10 > P असुइं भोयणमेत्तं असुती, J संभूतअसइ, J जोण for जेण. 11 > P संभेणं संभट्टा-णंभि, J जो असुइं P सो असुती. 12 > P अवरसंभाव, J भावितो, P पावइ असुइट्टाण, J रसविलभेतेण कीरए. 13 > P मुत्तं वचं, J मलमाति for तिविहमलभेओ, J om. a line रसभेओ पुण etc. 14 > J लोहिया, J मेज्जो मेताओ, P अट्टिए. 15 > P पुणो मिज्जा मिज्जाओ, J सुक्कसवेण P सुक्कभावे. 16 > J मासिअ, P om. अच्छी, J सेतसेंभवच्चारं, P सेत for सेंभ, P घरयं सुंदरि, P राउं, P होइ. 17 > P असुतीओ, J उप्पज्जति, P गव्वो, P -वासो असुती, J सुइवार्तं. 18 > P उवकाल, J कललव्वुदव्वहादी P करलंलुदव्वदादी. 19 > J कुमार, J येरंत for येरत्त, J गंधे. 20 > P सव्वेहिं मि मिलिएहिं मि, J महेहिं for मिलिएहिं. P कुंकर, J चिय असुइअइं, P जावेहं. 22 > J परिमलिया. 23 > P om. जेण णिव्वेओ etc. to णिण्णेहा ॥ चित्तेसु, J विरया for विवसा. 24 > P इंदियस्साइं. 25 > P सुरहामय, J वेगसरीगेण्हए, J तु for उ. 26 > P बहुकरिसरसायदिअरस, P बज्झति, P महागओ. 27 > P दुग्गती. 28 > P -वासोयपत्त, P दसदिसि. 29 > P जहोइण्णा. 30 > P लोद्धमणो. 31 > P घेप्पइ सयणो, J पडिस्सस P वडिस्सस, P वि for य. 32 > P तम्हा मारेज्ज. 33 > P पुरिसो, P पावया, J पतंगो.

- 1 सर्वाण्दियमि लोला तित्तिरय-कवोय-हरिणमादीया । पावंति अप्प-णिहणं तम्हा परिहरसु दूरेण ॥ 1
- एवं आसव-भावं सुंदरि भावेसु सव्व-भावेण । पडिरुद्ध-आसवो सो जेण जिओ मुच्चए तुरियं ॥ 3
- 3 चित्तिसु संवरं चिय महव्वए गुत्ति-समिह-गुण-भावे । एण्हिं संवुत्तप्पा जीवो ण य वंधए पावं ॥
- चित्तिसु णिजरं चिय णरए घोरमि तिरिय-मणुएसु । अवसस्स होइ दुक्खं पावं पुण वंधए णिययं ॥
- जइ पुण सहामि एण्हि परीसहे भीसणे य उवसग्गे । ता मज्झ होइ धम्मो णिजरणं चेय कम्मस्स ॥ 6
- 6 एण्हि च रम्मए चिय थोयं दुक्खं ति विसहियं एयं । मा णरय-तिरिय-मज्जे ढहणकण-बंधण-सएण्हिं ॥
- एवं चित्तेतीए परीसहोवद्वेहिं णो चलसि । धम्ममि घटसि तुरियं णिजरणं भावए एवं ॥
- पंचत्थिकाय-मइयं पोगगल-परिणाम-जीव-धम्मादी- । उप्पत्ति-णास-ठाणं इय लोणं चित्तए मतिमं ॥ 9
- 9 एवं चित्तैतस्स य लोए तत्तं च पेहमाणस्स । संजम-जोए बुद्धी होइ थिरा णाय-भावस्स ॥
- एसो अणादि-जीवो संसारो सागरो व्व दुत्तारो । णर-तिरिय-देव-णारय-सएसु अह हिंडए जीवो ॥
- मिच्चत्त-कम्म-मूढो कइथा वि ण पात्रए जिणाणत्तिं । चित्तिसु दुल्लहत्तं जिणवर-धम्मस्स एयस्स ॥
- 12 § ३५३ ) एवं च भो सुरासुर-णरवरिंदा, मणिरह-कुमार तुमं च णिसुणेसु । एवं च साहिए सयल-संसार-सहावे 12
- तओ आगय-पुव्व-बुद्धीए जाया अवगय-पेम्म-राय-महग्गाहा जंपित्तं पयत्ता ।
- तं णाहो तं सरणं तं चिय जणओ गुरु तुमं देवो । पेम्म-महा-गह-नहिया जेण तए मोइया एण्हि ॥
- 15 भणमाणी णिवडिया चलणेसु । मए वि भणिया 'सुंदरि, एरिसो संसार-सहावो किं कीरउ त्ति ता संपयं पि तं कुणसु 15
- जेण एरिसाणं संसार-दुक्खाणं भायणं ण होसि' त्ति भणिए सुंदरीए भणियं ।
- ता पसिय देव मज्झं आएसो को वि दिज्जउ असकं । किं संपइ करणिज्जं किं वा सुकयं कयं होइ ॥ 18
- 18 त्ति भणिए मए भणियं ।
- सुंदरि गंतूण घरं दिट्ठीए ठविज्जण गुरुर्यणं सयलं । जिणवर-कहियं धम्मं पडिवज्जसु सव्व-भावेण ॥
- पडिवज्जसु सम्मत्तं गेण्हसु य महव्वए तुमं पंच । गुत्तीहिं होसु गुत्ता चारित्ते होसु संजुत्ता ॥ 21
- 21 णाणेण कुणसु कज्जं सीलं पालेसु कुणसु तव-जोगं । भावेसु भावणाओ इय कहियो भगवया धम्मो ॥
- एयं काज्जण तुमं सुंदरि कम्मेण विरहिया तुरियं । जत्थ ण जरा ण मच्च तं सिद्धिं पावसे अहर ॥ त्ति ।
- एवं च भो मणिरह-कुमार, संबोहिया सा मए सुंदरी घरं गया । कओ वणिएण मूसवो । पयट्ठो य णयरे वाओ 24
- 24 'अहो कुमारेण पडिवोहिया एस' त्ति । ता भो भो मणिरह-कुमार, जो सुंदरि-जीवो सो तम्मि काले लद्ध-सम्मत्त-वीओ 24
- मरिज्जण माणभडो जाओ, पुणो य पउमसारो, पुणो कुवलयचंदो, पुणो वेरुलियप्पभो, पुणो एस मणिरह-कुमारो त्ति ।
- जो उण सो वणियउत्त-जीवो सो इमं संसारं भमिज्जण एस वणे वणमई जाओ त्ति । तुमं च दइण कइं कइं पि 27
- 27 जहा-णाणेण तुह उवरिं पुव्व-जाई-णेहो जाओ' त्ति ।
- § ३५४ ) एवं च भगवया सयल-जय-जंतु-जम्म-मरणासेस-वुत्तंत-सक्खिणा साहिए विण्णत्तं मणिरह-कुमारेण ।
- 'भगवं, एवं णिमं, ता ण कज्जं मह इमिणा भव-सय-रहट्ट-घडी-सरिसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासेणं त्ति ।
- 30 देसु मे सिव-सुह-सुहयं पव्वज्जा-महारयणं' त्ति भणमाणेण कयं पंच-मुट्ठियं लोयं । दिक्खिओ भगवया मणिरह-कुमारो त्ति । 30
- एयमि अवसरे पुच्छियं भगवया गोयम-गणहरेणं 'भगवं, संसारि-जीव-मज्जे को जीवो दुक्खिओ' त्ति । भगवया भणियं
- 'गोयम, सम्मादिट्ठी जीवो अविरओ य णिचं दुक्खिओ भणिओ' । गोयमेण भणियं 'भगवं, केण उण कजेणं' त्ति । 33
- 33 भगवया भणियं ।

1 > J सर्वाण्दियं पि लोला P सर्वाण्दि लोला, J तित्तिरय कवोतहरिणयादीया, P तित्तरकाओयहरिणं, P अप्पहणिहणं प तम्हा परिहरसु. 2 > J सव्वहावेण. 3 > JP तिय for चिय, P adds तुरियं before गुत्ति, J समिति, P समित्ति, J एतेहिं. 5 > P होउ for होइ. 6 > J अण्णे व्व रंभई विय for एण्हि etc., P दहणं. 7 > P एवं च चित्तेती परी, J एअं for एवं. 8 > P परिमाणजीव, J धम्माती, P-ट्ठणं, J लोअं. 10 > P अणाइ, P णायर for णारय, P आ for अह. 11 > P हो for मूढो, P जिणाणं ति । 12 > P नरिवरिंदा, J adds य after णरवरिंदा, J मणिरहकुमारं, J om. तुमं, J om. च after एवं, P सयले, P सहावो. 13 > P om. तओ आगय-पुव्व etc. to एरिसो संसारसहावो before किं कीरउ. 15 > P om. तं before कुणसु. 16 > P एरिसारं, J inter. भायणं & ण, J होमि. 17 > P संकं for असकं, J कइं for कयं. 19 > P थितीए for दिट्ठीए. 20 > P गुत्तीसु, P गुत्तो. 21 > J तवजोअं. 22 > P दूरं for तुरियं, P तत्थ for जत्थ, P पावए, J अहरा ॥ इति । 23 > P om. च भो, P om. य, J ततो for वाओ. 24 > J कुमारा जो सुंदरीजीओ, P adds सो before सुंदरि. 25 > J पउमप्पभो for पउमसारो, P कुवलयचंदो, P मणिरकुमारो. 26 > J वणियउत्तो P वणियउत्त, P om. इमं, P मयी for वणमई. 27 > P जहा-णेण, P-जाती. 28 > P थंम for जम्म, P-सक्खिणो. 29 > P मिमं for णिमं, J भवसयरहट्टवडो- P भवसायरअरहट्टवडी, P मरणे. 30 > P मि for मे, P सिवसुहयं. 31 > J adds पुणो before पुच्छियं, J om. गोयम-, P-गणहरिणा, P संसारे जीवाण मज्जे जीवो. 32 > P गोयम संगमदिट्ठी अविरओ निचं, J अविरतो, J उ for उण.

- 1 'जो होइ सम्मदिट्ठी जाणइ णर-तिरिय-मणुय-वियणाओ । पेच्छइ पुरओ भीमं संसार-भयं च भावेइ ॥ 1
- ण य कुणइ विरह-भावं संसार-विमोक्खणं खणं पि णरो । अणुहवइ णरय-दुक्खं अणुदिण-वडुंत-संतावो ॥
- 3 एएण कारणेण अवरियओ सम्मदिट्ठि-जीवो उ । सो दुक्खियाण दुहियो गोयम अह भण्णइ जयम्मि ॥ 3
- गणहारिणा भणियं 'भगवं, सुहियाण को जए सुहिको' त्ति । भगवया भणियं ।  
सुहियाणं सो सुहियो सम्मदिट्ठी जयम्मि विरओ य । सेसा उण जे जीवा ते सव्वे दुक्खिया तस्स ॥
- 6 गणहरेण भणियं 'भगवं, केण कज्जेण' । भगवया भणियं । 6
- 'जो होइ सम्मदिट्ठी विरओ सव्वेसु पाव-जोगेसु । चित्तेण होइ सुद्धो ण य दुक्खं तस्स देहम्मि ॥  
जिणवयणे वट्ठतो वट्ठइ जह-भणिय-सुत्त-मग्गेण । अवणेइ पाव-कम्मं णवयं च ण वंधए सो हु ॥
- 9 संसार-महाजलहिं तरियं पिव मण्णए सुचित्तेण । अत्ताणं पुण पत्तं सिद्धि-पुरिं मण्णए सहसा ॥ 9
- सारीरे वि हु दुक्खे पुव्व-कए णत्थि एत्थ अण्णं तु । ण य भाविज्जइ तेहिं ण य दुक्खे माणसे तस्स ॥  
इय गोयम जो विरओ सम्मदिट्ठी य संजयप्पाणो । सो सुहियो जीवाणं मज्जे जीवो ण संदेहो ॥ भणियं च ।
- 12 देव-लोगोवमं सोक्खं दुक्खं च णरओवमं । रयाणं अरयाणं च महाणिरय-सारिसं ॥ ति । 12
- एवं वहुयाइं पण्हावागरण-सहस्साइं कुणंता भविय-सय-संवोह-कारए अदूर-ववहिय-अंतरिय-सुहुम-तीयाणागय-वट्ठमाण-  
वुत्ताताइं साहिज्जणं समुट्ठिओ भगवं सव्व-जय-जीव-बंधवो महति-महावीर-वट्ठमाण-जिणिंदयं दो त्ति ।
- 16 § ३५५ ) ताव य उवगया णियय-ठाणेषु देव-दाणव-णरवरिंदा, अण्णे उण उप्पण-धम्माणुराय-परमत्था अणुगया 16
- सुरासुर-गुरुणो जिणवरिंदस्स । भगवं पि णिट्ठविय-अट्ठकम्मद्व-समुप्पण-णाण-धरो विहरमाणो सावत्थिं पुरवरिं संपत्तो ।  
अण्णम्मि य दिवहे समोसरिओ भगवं, तेणेय समवसरण-विरयणा-कमेणं समागया सुरासुर-मुणि-णिंदा । णिग्गओ
- 18 सावत्थी-वत्थव्वओ राया रयणंगओ साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धम्मं । एवं च साहिए सयले 18
- धम्मे जाणमाणेणावि अल्लुह-जण-वोहणत्थं पुच्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्थयरो त्ति । भणियं च तेण ।  
सो चिय वच्चइ णरयं सो चिय जीवो पयाइ पुण सगं । किं सो चिय तिरिएसुं सो चिय किं माणुसो होइ ॥
- 21 सो चेय होइ बहियो अंधो सो चेय केण कम्मेणं । होइ जडो मूओ वि हु पंगू अह ईसर-दरिदो ॥ 21
- सो चिय जीवो पुरिसो सो चिय इत्थी णपुंसओ सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥  
केण व सुहओ जायइ केण व कम्मेण दूहवो होइ । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥
- 24 कह पंडियो पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खत्तं । कह धीरो कह भीरू कह विज्जा णिप्फला तस्स ॥ 24
- केण व णासइ अत्थो कह वा संगलइ कह थिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवइ केण व बहु-पुत्तओ होइ ॥  
जच्चंधो केण णरो केण व भुत्तं ण जिज्जइ णरस्स । केण व कुट्ठी खुज्जो कम्मेण केण व असत्तो ॥
- 27 केण दरिदो पुरिसो केण व सुकएण ईसरो होइ । केण व रोगी जायइ रोग-विहूणो हवइ केण ॥ 27
- संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संखित्तो । कह णिवडइ संसारे कह बद्धो मुच्चए जीवो ॥  
सव्व-जय-जीव-बंधव सव्वण्णू सव्व-दंसण-मुणिंद । सव्वं साहसु एयं कस्स व कम्मस्स कज्जमिणं ॥
- 30 § ३५६ ) इमं च पुच्छिओ भगवं तियासिंद-सुंदरी-वंदिज्जमाण-चलणारविंद-जुयलो साहिउं पयत्तो । अवि य । 30
- गोयम जं मे पुच्छसि एक्को जीवो इमाइं सव्वाइं । पावेइ कम्म-वसओ जह तं कम्मं णिसामेसु ॥  
जो मारओ जियाणं अलियं मंतेइ पर-धणं हरइ । परदारं चिय वच्चइ बहु-पाव-परिग्गहासत्तो ॥
- 33 चंडो माणत्थद्वो मायावी णिट्ठरो खरो पावो । पिसुणो संगह-सीलो साहूणं णिंदओ अधमो ॥ 33

1 > P सम्मदिट्ठी, P-वियणातो, J भावेति. 2 > J कुणति विरति-, P सहतावो for संतावो. 3 > J एतेण, J अविरतओ P अविरओ, P संमदिट्ठी जो जीवो, J तु for उ, J गोतम, P जगंमि ॥ 6 > P om. केण कज्जेण, P या for भगवया. 7 > P संमदिट्ठी, J-जोएसु. 8 > P वडुंतो, J भणित-, P मग्गेणे, P बंधते साहू ॥ 9 > J सचित्तेण, P सित्तिपुरिं. 10 > P कए एत्थ नत्थिन्नं तु, P माणसो. 11 > J गोतम सो विरतो संजमदिट्ठीय संजतप्पाणो, P समदिट्ठी. 12 > J देवलोगोयमं P देवलोजवमं, J णरयोवमं, J रताण अरताणं च महाणरय सरिसं, P-सरिसं. 13 > J सहस्साहि, J-ववहित P-ववहरिय for ववहिय, J सुहमती-ताणागत, P-तीताणागय. 14 > P महती-, P वट्ठमाण. 15 > P-ट्टाणेषु. 16 > P जिणिंदस्स, P निट्ठविय, P om. अट्ठ, P कम्मसमुप्पन्न, J-णाणवरो. 17 > P om. य, P तेणेव, P समोसरयणाकमेण, J-विरयणाणा-. 18 > P-वत्थव्वव्वओ, P राया हरणंगओ साहिउं समाहा सागरतीर-, J सयले for सयले. 19 > P जीणमाणेणावि, J यल्लुह for अल्लुह, P om. जण, P भगवं for भगवया, J गोतम, P om. गोयमरिसिणा तित्थयरो त्ति । भणियं च तेण. 20 > J adds मयवं before सो चिय, J om. सो चिय before जीवो, P पयाति. 21 > P सो चिय, J सो चेय कज्जेण, P चेय कम्मेणं, P मुओ, P पंगू दोसो य सो जीवो. 22 > P होइ. 23 > J दूहओ, P होति. 24 > P पंडिओ य पुरिसो, P होइ दुक्खत्तं. 25 > J संमिलइ, P व for ण. 26 > J जिज्जइ, J कुज्जो for खुज्जो, J केण अवसत्तो. 27 > P केण व कम्मेण दुक्खलो ईसरो होति । 28 > P-संखित्तो, P बुद्धो for वद्धो. 30 > J adds वंदिअ after वंदिज्जमाण. 31 > J गोदम, J om. पावेइ, P निसामेह. 32 > P मारओ. 33 > P माणी धट्टो मायावी, J णिट्ठुरखरो, P निदिओ अहम्मो.

- 1 धालपाल-पसंगी दुट्टो बुद्धीएँ जो कयगधो य । बहु-दुक्ख-सोय-पउरे मरिउं णरयम्मि सो जाइ ॥ 1
- कज्जथी जो सेवइ मित्तं कय-कज्जो उज्झए सढो कूरो । पिसुगो मइ-दुम्मइओ तिरिओ सो होइ मरिउण ॥ 3
- 3 अज्जव-मइव-जुत्तो अकोहणो दोस-वज्जिओ सज्जो । ण य साधु-गुणेषु ठिओ मरिउं सो माणुसो होइ ॥ 3
- तव-संजम-दाण-रओ पयईए मइवो क्वाल, य । गुरु-विणय-रओ णिचं मओ वि देवेषु सो जाइ ॥ 6
- जो चवलो सढ-भावो माया-कवडेहिँ वंचण सुयणं । ण य कस्सइ वीसत्थो सो पुरिसो महिलिया होइ ॥ 6
- 6 संतुट्ठा सुविणीया य अज्जवा जा थिरा हवइ णिचं । सचं जंपइ महिला पुरिसो सा होइ मरिउण ॥ 6
- आसं वसइ पसुं वा जो लंछइ वद्धियं पि हु करेइ । सो सच्चाण वि हीणो णपुंसओ होइ लोगम्मि ॥ 9
- मारेइ णिहय-मणो जीवे परलोयं णेय मण्णए किंपि । अइ-संकिलिट्ठ-कम्मो अप्पाऊ सो भवे पुरिसो ॥ 9
- 9 मारेइ जो ण जीवे दयावरो अमय-दाण-परितुट्ठो । दीहाऊ सो पुरिसो गोयम भणिओ ण संदेहो ॥ 9
- देइ ण णिययं संतं दिण्णं हारेइ वारए दंतं । एएहिँ कम्मएहिँ भोगेहिँ विवज्जओ होइ ॥ 12
- सयणासण-वत्थं वा पत्तं भवखं च पाणयं वा वि । हियण्ण देइ तुट्ठो गोदम भोगी णरो होइ ॥ 12
- 12 अगुणो य गव्विओ च्चिय णिंदइ रागी तवस्सिणो धीरे । माणी विडंबओ जो सो जायइ दूहवो पुरिसो ॥ 12
- गुरु-देवय-साधूणं विणय-परो संत-दंसणीओ य । ण य कं पि भणइ कडुयं सो पुरिसो जायए सुभगो ॥ 15
- तव-णाण-गुण-समिद्धं अवमण्णइ किर ण-याणए एसो । मरिउण सो अउण्णो दुम्मोहो जायए पुरिसो ॥ 15
- 15 जो पढइ सुणइ चित्तइ अण्णं पाढेइ देइ उवएसं । सुद-गुरु-भत्ती-जुत्तो मरिउं सो होइ मेहावी ॥ 15
- जो जंत-दंड-कस-रज्ज-खग-कोतेहिँ कुणइ वियणाओ । सो पावो णिकरुणो जायइ बहु-वेयणो पुरिसो ॥ 18
- जो सत्ते वियणत्ते मोयावइ बंधणाओ मरणाओ । कारुण-दिण्ण-हियओ थोवा अह वेयणा तस्स ॥ 18
- 18 मारेइ खाह पियह य किं वा पढिण्ण किं व धम्मेण । एयं चिय चित्तंतो मरिउणं काहलो होइ ॥ 18
- जो उण गुरुयण-सेवी धम्माधम्माइँ जाणित्तं महइ । सुय-देवय-गुरु-भत्तो मरिउं सो पंडिओ होइ ॥ 21
- विज्जा विण्णाणं वा मिच्छा-विण्णए गेण्हित्तं पुरिसो । अवमण्णइ आयरियं सा विज्जा णिप्फला तस्स ॥ 21
- 21 बहु मण्णइ आयरियं विणय-समग्गो गुणेहिँ संजुत्तो । इय जा गहिया विज्जा सा सहला होइ लोगम्मि ॥ 21
- देमि त्ति ण देइ पुणो आसं काऊण कुणइ विमुहं जो । तस्स कयं पि हु णासइ गोयम पुरिसस्स अहमस्स ॥ 24
- जं जं इट्ठं लोए तं तं साहूण देइ सव्वं तु । थोवं पि पुणइ सुकयं तस्स कयं णो पणस्सेज्ज ॥ 24
- 24 जो हरइ तस्स हिज्जइ ण हरइ जो तस्स संचओ होइ । जो जं करेइ पावं चिवरीयं तस्स तं होइ ॥ 24
- पसु-पक्खि-मणूसाणं वाले जो विप्पउंजइ अकामं । सो अणवच्चो जायइ अह जाओ तो विवजेज्ज ॥ 27
- जो होइ दया-परमो बहु-पुत्तो गोदमा भवे पुरिसो । असुयं जो भणइ सुयं सो वहिरो जायए पुरिसो ॥ 27
- 27 अदिट्ठं चिय दिट्ठं जो किर भासेज्ज कह वि मूढप्पा । जच्चंधो सो जायइ गोदम एएण कम्मेणं ॥ 27
- जाइ-मउम्मत्त-मणो जीवे विक्रिणइ जो कयगधो य । सो इंदभूइ मरिउं दासत्तं वच्चए पुरिसो ॥ 30
- जो उण चाइ विणओणओ य चारित्त-गुण-सयाइण्णो । सो जण-सय-सम्माओ महिड्ढिओ होइ लोगम्मि ॥ 30
- 30 जो वाहेइ णिसंसो छाउव्वायं च दुक्खियं जीयं । सीयंत-गत्त-संधिं गोदम सो पंगुलो होइ ॥ 30
- महु-वाय-अग्गि-दाहोदहणं जो कुणइ कस्सइ जियस्स । वालाराम-विणासो कुट्ठी सो जायए पुरिसो ॥ 33
- गो-महिस-पसुं करहं अइभारारोवणेण पीडेइ । एएण णवरि पावेण गोदमा सो भवे खुज्जो ॥ 33
- 33 उच्छिद्धमसुंदरयं पूइं जो देइ अण्ण-पाणं तु । साहूण जाणमाणो भुत्तं पि ण जीरए तस्स ॥ 33

1 > J बुद्धीय, P बहुसोगदुक्खपउरे, P जायइ ॥ 2 > P उज्झए, J मयगुम्मइओ. 3 > J उज्जुय for अज्जव, P दीस for दोस, J साधुगणेषु, P सुहु for साधु, P ठिओ. 4 > P मइओ for मइवो, P जायइ for जाइ. 5 > P सुयणो । 6 > J सुविणीया, P om. य, P अज्ज विज्जा, J अथिरा for जा थिरा, P सो for सा. 7 > J आसवसहं, J बुद्धिअं for वद्धियं, J सच्चाण णिहीणो; J लोगम्मि. 8 > P om. जीवे. 9 > J गोदम. 10 > J एतेहिँ, P कंमेहिँ. 11 > P भत्तं च पाणियं, J देइ दुट्ठो, P om. गोदम, P सोगी for भोगी. 12 > P अगुणे वि गव्विओ, P धीरो, P मणी for माणी, J दूहवो. 13 > P साहूणं, P सुहओ. 15 > P सुयगुरु. 16 > J दण for दंड. 17 > J थोवा. 18 > P मारेयइ, P खाह पीयह किं, P om. चिय. 21 > P सफला, J लोयंमि. 22 > P त्ति न देमि, J गोतम. 23 > P देइ दवं तु, P पणासेज्जा. 25 > P माणुसाणं, J विप्पउंजइ P विप्पउंजइ, P विवजेज्जा. 26 > P गोयमा, J असुतं, J सुतं. 27 > J अदिट्ठं, P किर for चिय, P गोयम, P एतेण. 28 > J मयुम्मत्तमणो P मणोमत्तमाणो, J विक्रिणइ, J इंदभूती. 29 > P उण चादी विणओय, J विणओणतो, J उण for जण, P सयत्तमओ, J लोयंमि. 30 > J सीयंत, P संधी गोयम. 31 > J वात, P को for जो, P कस्स वि. 32 > P पसुं करं, P गोयन पसो. 33 > P उच्छिद्धम, J पूतिं, P पुवं for पूइं, P भत्त for अण, P पि न जिज्जए.

- 1 लहु-हत्थदाएँ धुत्तो कूड-तुला-कूड-माण-भंडेणं । ववहरइ णियडि-बहुलो तस्सेगं हीरए अंगं ॥
- कुक्कुड-तित्तिर-लावे सूयर-हरिणे य अहव सव्व-जिए । धारेइ णिच्च-कालं णिच्चुव्विग्गो हवइ भीरु ॥
- 3 ण य धम्मो ण य जीवो ण य पर-लोगो त्ति णेय कोइ रिसी । इय जो जंपइ मूढो तस्स थिरो होइ संसारो ॥
- धम्मो वि अत्थि लोए अत्थि अधम्मो वि अत्थि सव्वण्णू । रिसिणो वि अत्थि एवं जो मण्णइ सो ण संसारी ॥
- सम्मत्त-माण-दंसण-ति-गुणेहिँ इमेहिँ भूसिय-सरीरो । तरिऊण भव-समुद्धं सिद्धि-पुरिं पावए अइरा ॥
- 6 § ३५७ ) एवं च साहिए भगवया तियसिंद-सुरिंद-परिवंदिय-चलणारविंद-जुयलेण तओ सव्वेहि मि कर-किसल- 6
- यंजली-वडिय-भालवट्टेहिँ भणियं तियसिंद-गरिंद-पमुहेहिँ । 'अहो, भगवया साहिओ सयल-जय-जंतु-जम्म-जरा-मरण-
- अरहट्ट-घडी-परिवाडी-कारण-वित्थरो' त्ति । एत्थंतरम्मि समागओ पलंब-दीह-भुयप्फलिह-मणोहरो पिहुल-वच्छत्थलं-
- 9 दोलमाण-मुत्ताहल-हार-रेहिरो बद्धुद्ध-कसिण-कंत-कौंतल-कलावो गंडयल-विलसमाण-मणि-कुंडल-किरण-पडिप्फलंत-दिणयर- 9
- कर-संघाओ, किं च बहुणा,
- वेल्लहल-ललिय-वाहू वच्छत्थल-रेहमाण-हारिल्लो । समवसरणे पविट्टो देवकुमारो व्व कोइ णरो ॥
- 12 तेण य 'जय जय' त्ति भगमाणेण ति-पयाहिणी-कओ भगवं लज्जीव-णिक्काय-पिय-बंधवो जिणिंदो । पायवडणुट्टिएणं भणियं 12
- तेणं । 'भगवं,
- दिट्ठं सुयमणुभूयं रयणी-मज्झम्मि जं मए अज्जं । तं साहसु किं सुमिणं महिंदजालं व सच्चं वा ॥'
- 15 भगवया भणियं । 15
- 'देवाणुपिया सच्चं सच्चं त्ति जं तए दिट्ठं । जोगिंदयाल-कुहयं णरवर सुविणं पि हु ण होइ ॥'
- एवं च भणिय-मेत्ते गुरुणा तक्खणं चेष तुरिय-पय-णिकखेवं णिग्गओ समवसरणाओ दिट्टो य तिय-वलिय-वलंत-कुवल्य-
- 18 दल-दीहराहिँ दिट्ठि-मालाहिँ तियसिंदप्पमुहेहिँ जण-समूहेहिँ । एत्थंतरम्मि जाणमाणेणावि भगवया गणहारिणा पुच्छिओ 18
- भगवं महावीरो । 'भगवं,
- को एस होज्ज पुरिसो किं वा दिट्ठं सुयं व राईए । जं पुच्छइ मह साहसु किं सुमिणं होज्ज सच्चं वा ॥'
- 21 इमम्मि य पुच्छिए सव्वेहिँ सुरिंदप्पमुहेहिँ भणियं 'भगवं, अम्हाणं पि अत्थि कोऊहलं, ता साहउ भगवं, करेउ 21
- अणुगगहं' त्ति भणिय-मेत्ते गुरुणा भणियं ।
- § ३५८ ) 'अत्थि इओ णाइदूरे अरुणाभं णाम पुरवरं, जं च वित्थिणं पि बहु-जण-संकुलं, अणंतं पि रम्मोववण-
- 24 पेरंतं, महंतं पि फरिहा-वल्य-मज्झ-संठियं, थिरं पि पवण-चंचल-धयवडं त्ति । तम्मि य णयरे रणगइंदो णाम राया । 24
- सो य सूरो धीरो महुरो पच्चलो दक्खो दक्खिण्णो दया-दाण-परायणो त्ति । तस्स य पुत्तो कामगइंदो णाम । सो य
- कामी काम-गय-मणो कामत्तो काम-राय-रइ-रत्तो । कामेणं कामिज्जइ काम-गइंदो सहावेण ॥
- 27 तस्स य बहूणं पि मज्झे महिलानं वल्लहा एका राय-दारिया पियंगुमदी णाम । अह अण्णम्मि दियहे रायपुत्तो 27
- मज्जिय-जिमिय-विलित्तो महादेवीए सह मत्त-वारणए णिसण्णो आलोएंतो णयर-जण-विहव-विलासे अच्छिउं पयत्तो ।
- तेण य तहा अच्छमाणेण एकम्मि वणिय-धरोवरि-कोट्टिमे एका वणिय-दारिया कुमारी कंदुव-कीला-वावडा दिट्ठा । तं च
- 30 दट्ठूण चित्तियं कामगइंदेण । 'अहो, पेच्छ पेच्छ वणिय-धूयाए परिहत्थत्तणं । जेण 30
- ता वलइ खलइ वेवइ सेय-जलं फुसइ बंधए लक्खं । सुरय-पडुय व्व बाला कंदुय-कीलाएँ वट्ठती ॥
- एवं पेच्छमाणस्स काम-महाराय-वसयस्स गुरुओ से अणुराओ समुप्पणो । अवि य ।
- 33 होइ सुरुवे पेम्मं होइ विरुवे वि कम्मि वि जणम्मि । मा होह रूव-मत्ता पेम्मस्स ण कारणं रूवं ॥ 33
- तओ पासट्टिय-महादेवीए वीहमाणेण कयं आथार-संवरणं । तीय य तं सयं लक्खियं तस्स पेम्म-चित्तं । तओ तस्स
- रायउत्तस्स तं ज्ञायंतस्स हियए उव्वेवो जाओ, ण य पुच्छिओ वि साहइ । पुणो तीए चित्तियं । 'किं पुण इमस्स

1) P हत्थयाइ धत्तो. 2) P तित्तिलवे, P अहइ for अह, P णिच्च, P भवइ for हवइ. 3) P जीवो नयरलोगो. 4) P अहम्मो. 5) P सिद्धिपुरी. 6) P जुलेण, P om. मि, P करयंजली. 7) JP भालवट्टेहिँ, J -प्पमुहेहिँ, P मययल, P om. जम्म. 8) P अरिहट्टघटी, P दीहरंतभुयफलिह, J मणोहर. 9) J om. हार, J कुंतला, P गंडल, P om. मणिकुंडलकिरण, P -परि-फलंत. 11) P बाहुवच्छलरेहिमाणहारिरिल्लो, J को वि णरो. 14) J सुतमणुभूतं, P तं कहयसु किंसु किं सुमिणं अदिंदियालं व, P 16) P सुविणं मिहु. 17) P तक्खणं चिय, J om. य, P तिवलिय-. 18) P प्पमुहिहिँ जणेहिँ. 20) P inter. एस & होज्ज, P रातीय. 21) P इमं पुच्छिए, J अत्थि कुतूहलं, P साहहं, P करेह. 22) P भयणियमेत्ते. 23) J इतो, J अरणहं, P पुरवं for पुरवरं, P रम्मोववणा-. 24) P रयणगइंदो, J om. धीरो. 25) J om. दया. 26) P कामगयणो कामत्तो P कामराया, P कामगयंदो. 27) P om. य, P पियंगुमती णामा, P रायउत्तो. 28) P जिमियवलित्तो, P आलोएंतो णरजण. 29) P तह for तहा, J वणिदारिया. 30) P कामगयंदेण, J वणिअधूताए, P परिहत्थणं. 31) P पडुय. 33) P सुरुवपेम्मं, P अकारणं for ण कारणं. 34) J सयलं for सयं, P adds तं before पेम्म. 35) P ज्ञायंतस्स, P उव्वेवो, P साहइइ, J तीय.

- १ उव्वेय-कारणं होज्ज । अहवा जाणियं मए सा चेय कंदुय-रमिरी वणिय-दुहिय त्ति । ता दे अत्रणेमि से उव्वेवं'ति 1  
 चित्तिज्जण पियंगुमईए सदाविया तीय दारियाए माया । सा तीए भणिया 'रायउत्तस्स देसु धूइं' ति । तीय  
 ३ वि दिण्णा, उव्वूढा य । तओ तुट्टेण कामगइं देण भणिया महादेवी 'अहो, लक्खिओ तए भावो मम, ता भण 3  
 भण किं ते वरं देमि' । तीए भणियं 'जइ सच्चं देसि, ता भणामि' । तेण भणियं । 'भण णीसकं, अवस्स देमि' त्ति  
 भणिए, तीए भणियं ।  
 6 'जं किंचि तुमं पेच्छसि सुणेसि अणुहवसि एत्थ लोगम्मि । तं मज्झ तए सच्चं साहेयव्वं वरो एसो ॥' 6  
 तेण भणियं 'एवं होउ' त्ति । तओ एवं च ताणं अच्छमाणणं अण्णम्मि दिवहे समागओ एक्को चित्तयर-दारओ ।  
 तेण य पडे लिहिया समप्पिया चित्त-पुत्तलिया । सा य केरिसी । सयल-कला-कलाव-कुसल-जण-वण्णणिज्ज त्ति ।  
 9 तं च दट्टूण भणियं कामगइं देण 'अहो, सच्चं केणावि भणियं । त्रीण्येते नरकं यान्ति राजा चित्रकरः कविः ।' 9  
 तेण भणियं 'देव, किं कारणं' । राइणा भणियं ।  
 पुहईए जं ण दीसइ ण य होहिइ णेय तस्स सव्भाओ । तं चेय कुणइ राया चित्तयरो कवियणो तइओ ॥  
 12 अलियस्स फलं णरयं अलियं च कुणंति तिण्णि ते पुरिसा । वच्चंति तेण णरयं तिण्णि वि एए ण संदेहो ॥ 12  
 तओ चित्तयर-दारएण भणियं । 'देव, विण्णवेमि ।  
 राया होइ सतंतो वच्चउ णरयम्मि को णिवारेइ । जं चित्त-कला-कुसलो कइं य अलियं पुणो एयं ॥  
 15 सत्तीए कुणइ कच्चं दिट्ठं व सुयं व अहव अणुभूयं । चित्त-कुसलो वि एवं दिट्ठं चिय कुणइ चित्तम्मि ॥' 15  
 § ३५९ ) भणियं कामगइं देण ।  
 'जइ दिट्ठं चित्तयरो अह रूवं कुणइ ता विरुद्धमिणं । कत्थ तए दिट्ठमिणं जं रूवं चित्तियं पडए ॥' 18  
 18 तेण भणियं 'णणु देव, दिट्ठं मए लिहियमिणं' । राइणा भणियं 'कहिं ते दिट्ठं' । तेण भणियं ।  
 उज्जेणीए राया अत्थि अवंति त्ति तस्स धूयाए । दट्टूण इमं रूवं तइउ चिय विलिहियं एत्थ ॥'  
 तं च सोज्जण राया पुणरुत्तं पलोइउं पयत्तो जाव पेच्छइ णिइं पिव मण-णयण-हारिणी, तिलोत्तिमं पिव अणमिस-  
 21 दंसणं, सत्तिं पिव हियय-दारण-पच्चलं, सग्गपुरिं पिव बहु-पुण्ण-पावणिज्जं, सुद्ध-पक्ख-पढम-चंदं पिव रेहा-विसुद्धं, 21  
 महाराय-रज्ज-वित्तिं पिव सुविभत्त-वण्ण-सोहियं, धरणिं पिव ललिय-दीसंत-वत्तिणी-विरयणं, विवणि-मग्गं पिव माण-जुत्तं,  
 जिणणं पिव सुपइट्ठिय-अंगोवंगं सुंदरि त्ति । अवि य ।  
 24 भंतूण मयण-देहे मसिणं मुसुमूरिज्जण अमएण । चित्त-कला-कुसलेणं लिहिया णूणं पयावइणा ॥ 24  
 तं च दट्टूण राया खणं थंभिओ इव ज्ञाण-गओ इव सेलमओ इव आसि । पुणो पुच्छियं 'अहो एसा किं कुमारी' । तेण भणियं  
 'देव, कुमारी' । राइणा भणियं ।  
 27 'भुमय-धणु-कालवट्टा सिय-पम्हल-दीहरच्छि-वाणेहिं । मारंती भमइ जणं अहो कुमारी ण सा मारी ॥'  
 भणमाणो राया समुट्ठिओ । कयं कायव्वं पुणो । दंसिया महादेवीए, भणियं च तेण 'सुंदरं होइ, जइ एसा कुमारी पाविज्जइ'  
 त्ति । पुणो मंतीहिं भणियं । 'देव, णियय-रूवं चित्तवडए लिहावेसु, तेणेय चित्तयरएण पुणो तं चेय पेसेसु तत्थ जेण  
 30 राय-धूया तं दट्टूण सयं चेय तं वरेहिइ' त्ति भणिए मंतीहिं तं चेय णिरुवियं । लिहिओ कामगइंदो । णिग्गओ 30  
 चित्तयर-दारओ, संपत्तो उज्जयणीए, दंसिओ राय-दुहियाए, अभिरुइओ हिययस्स । साहियं रण्णो अवंतिस्स जहा  
 'अभिरुइओ इमीए पुरिसइसिणीए रायधूयाए कामगइंदो णाम रायउत्तो' । इमं च सोज्जण अवंतिणा 'अहो, सुंदरं  
 33 जायं जं कत्थ वि चित्तस्स अभिरुइं जाया' । दिण्णा तस्स । जायं वद्धावणं । 'एहि परिणेषु' त्ति संदिट्ठो पयट्ठो 33

१ > P कंदुय, J रमिणी. २ > P पियंगुमतीए, J माता, J ती for तीए, P भणिया उत्तस्स, P धूय त्ति. ३ > P om. one भण.  
 ४ > J तीय, P om. भणियं, P निरसकं. ५ > J तीय. ६ > P om. 'सुणेसि, J लोअम्मि, J साहेतव्वं P सायव्वं. ७ > P  
 एक्को for एक्को. ८ > P पडिलेहिया, P om. कला, P कुसला, P वण्णणिज्जत्ति. ९ > J तृण्येते, J यांति. १० > P om. देव.  
 ११ > J पुहईए, P inter. पुहईए & जं, J होहिइ, P om. णेय, P adds होइ after तस्स, J संभवो (followed by जस्स  
 written on the margin), P चेव, P कहयणो. १२ > P कुणंति त्ति त्ति पुरिसा, J एते. १४ > P होति, P वच्चइ, P  
 adds वि after को. १५ > P सत्तीए for सत्तीए, J सुत्तं, J अणुभूयं. १७ > P इह for अह, P विरुद्धमण । १८ > P कइं  
 ति दिट्ठं. १९ > P inter. राया & अत्थि, J धूयाए, P धूणइ मं for धूयाए, P om. दट्टूण इमं, J तत्थ for एत्थ. २० > P या  
 for राया, J पलोइउं, P मणिरयणहारिणी, P अणमिस-. २१ > P सत्तं for सत्ति, P दारुणं, J om. पक्ख. २२ > P सुविहत्त, P पि  
 for पिव, J वत्तणी. २३ > J अंगोवंगं P अंगोवंगु. २४ > P भंतूण for भंतूण, P पयाविहिणा. २५ > P ज्ञाणगओ. २७ >  
 P भुमइ, P पत्तल for पम्हल, P वाणेणि । मारंती, J कुमारी. २९ > P णियरूवं, P चित्तपडए, P लेहाविय तेणय चित्तयरएण पुणो, P  
 adds तं after जेण. ३० > J वरेहित्ति, P वरेहित्ति, P चेय नियरूवं गहिओ कामगइंदो. ३१ > J चित्तयरओ, P उज्जेणीए, P साहिउं.  
 ३२ > J अदिरुइओ P अभिरुविओ, J रायधूयाए. ३३ > P कत्थइ चित्तत्तस्स अभिरुती.

- 1 कामगइंदो तं परिगेउं समं महादेवीए वद्ध-खंधावारोण य । इओ णाइदूरे समावासिओ । ताव य अत्थं गओ बहु- 1  
जण-समूहेक-लोयणं सूरु । तओ राईए कय-कायव्व-वावारो खंधावार-जणो बहुओ पसुत्तो, को वि जामइलो, को  
3 वि किं पि गायइ, अण्णो अण्णं किं पि कुणइ त्ति । एवं च राईए दुइए जामे पसुत्तो राया पल्लंके समं महादेवीए 3  
जाव विउद्धो केण वि अउव्व-कोमल-करयल-फरिसेणं, चिंतितुं च पयत्तो । 'अहो, एरिसो मए फरिसो ण अणुहूय-  
पुव्वो त्ति । सव्वहा ण य कोइ इमं सामणं माणुस-फरिसं' ति चिंतयंतेण विहडियाइं गियय-लोयणेंदीवराइं जाव पेच्छइ  
6 दुवे कुमारीओ पुरओ ठियाओ । 6

§ ३६० ) केरिसाओ पुण ताओ । अवि य ।

- एका रणंत-गेउर-णच्चिर-चलणग-रेहिर-पयारा । अण्णा णिहित्त-जावय-रस-राय-भिलंत-कंतिल्ला ॥  
9 एका कोमल-कयली-थंभोर-जुएण जियइ तेलोक्कं । अण्णा करि-कर-मासल-लायण्णपीण-जंघिल्ला ॥ 9  
एका णियंव-गरुई रणंत-रसणा मणं वियारेइ । अण्णा पिहुल-कडियला घोलिर-कंची-कलाविल्ला ॥  
एका मउंद-मज्झा तिवलि-तरंगेण रेहरा सुयणू । अण्णा मुट्टिगेज्जं अह मज्जं वहइ रहसेण ॥  
12 एका णाभी-वेढं महाणिहाणस्स वहइ वयणं व । अण्णा लायण्णामय-वावि-सरिच्छं समुव्वहइ ॥ 12  
एका मालूर-थणी किंचि-समुत्तिभण्ण-रोम-राइल्ला । अण्णा कविट्ट-सरिसा पयहर-जुवलेण रेहिल्ला ॥  
एका मुणाल-कोमल-बाहु-लया सहइ पल्लव-करिल्ला । अण्णा णव-लय-वाहा पउम-दलारत्त-पाणिल्ला ॥  
15 एका मियंक-वयणा रुइराहर-रेहमाण-वयणिल्ला । अण्णा सयवत्त-मुही कुवल्लय-दल-वियसमाणच्छी ॥ 15  
एका पियंगु-वण्णा रेहइ रयणेहिं भासरच्छाया । अण्णा वर-चामीयर-णिम्मविया णज्जए बाला ॥  
इय पेच्छइ णरणाहो संभम-कोऊहलेक्क-तल्लिच्छो । दोणं पि ताण रूवं कामगइंदो रइ-दिहीणं ॥

- 18 § ३६१ ) चिंतियं च णरवइणा । 'अहो 18

- किं होज्ज रइ-दिहीओ किं सिरि-हिरि-रंभ-उव्वसीओ व्व । किं वा सावित्ति-सरस्सइओ अव्वो ण-याणामो ॥'  
इमं च चिंतियं भणियं राइणा । अवि य ।  
21 'किं माणुसीओ तुम्हे किं वा देवीओ किं गरीउ व्व । किं वा विजाहर-बालियाओ साह मह कोउयं एत्थ ॥' 21  
ताहिं भणियं ।

- 'विजाहरीओ अम्हे तुह पासं आगयाओ कजेणं । ता पसिय कुणसु कज्जं आसा-भंगो ण कायव्वो ॥'  
24 राइणा भणियं । 24

- 'आसंधिज्ज घरमागयाण पणइण कज्ज-हिययाण । सुंदरि आसा-भंगो ण कओ म्ह कुलम्मि केणावि ॥'  
ताहिं भणियं ।

- 27 'जइ ण कओ तुम्ह कुले आसा-भंगो कइं पि पणइण । ता भणसु तिणिण वयणे कज्जं तुम्हाण कायव्वं ॥' 27  
राइणा चिंतियं । 'ण-याणीयइ किं ममाओ इमे पत्थेहिंति । अहवा

- जं ण पणइण दिज्जइ भुज्जइ मित्तेहिं वंधु-त्रगेण । आ सत्तमम्मि वि कुले मा हो अम्हाण तं होउ ॥  
30 सत्तेण होइ रज्जं लब्भंति वि रोहणम्मि रयणाइं । णवर ण कहिं पि कत्थ वि पाविज्जइ सज्जणो पणइ ॥ 30  
विजाहर-बालाओ मडुरा मुद्धाओ गुण-समिद्धाओ । कं पत्थेति इमाओ मं चिय मोत्तूण कय-पुण्णं ॥  
ता जइ मगंति इमा धण-रज्जं विहव-परियणं वंधुं । सीसं व जीवियं वा तं चिय मे अज्ज दायव्वं ॥'

- 33 ति चिंतयंतेण भणियं णरिंदेण 'सुंदरि इमं तुम्हेहिं भणियं जहा भणसु तिणिण वयणे त्ति । अवि य । 33  
जइ पढमं चिय वयणं होइ पमाणं गिरत्थया दोण्णि । अह ण पढमं पमाणं गिरत्थयं सेस-लक्खं पि ॥  
सव्वहा भणह तं कज्जं' ति

1 > P कामगइंदो, P वधकंधावारो णीहरिओ णाइदूरे, J इतो, 2 > P रातीए, J वउउ for बहुओ. 3 > P अन्नं पि, P एवं रातीए,  
J सुत्तो for पसुत्तो. 4 > J विउद्धो, J फरिसेणं, P फरिसो अणुभूय. 5 > J om. य, P adds किं पि before इमं, J माणुस-  
हरिसं, P लोवणिंदीवराइं. 6 > P पुराडियाओ. 7 > J om. केरिसाओ पुण ताओ. 8 > P -कुंतिळा. 9 > P जुयेण, J जिणेद  
for जियइ, P मंसललायणापीण, J °प्ली. 10 > J गरुइ, P मयं for मणं, P कलत्ता for कडियला. 11 > J -मज्जा, P तरंगेण  
रेहरे अण्णा । अन्नाए मुट्टिनिज्जं, J अण्णज्जं for अहमज्जं, P inter. अह & मज्जं. 12 > P णाहीवेढं. 13 > J समुत्तिण्ण  
P सुभित्त for समुत्तिभण्ण, J पयर for पयहर, P पओहरजुवेण. 14 > P अण्णाणव, P -वाहो पउदलारत्त. 15 > P रेदिमाण,  
P कुवल्लयदल्लयदल्लवियससमालच्छी ॥. 16 > P भासुरच्छाया. 17 > P कामइंदो. 18 > P om. किं before सिरि, J रंभउ-  
सीउव्व P रंभव उव्वसीउ, P सावत्ति, J adds सवत्ति after सावित्ति. 19 > J किं विजाहरबालिआ सोहट मह, P साहए मह-  
24 > P रायणा. 25 > P केणावि ॥. 27 > J तुम्ह for अम्ह. 28 > P णताणियइ किं ममाओ ममच्छेहि त्ति । 29 > P  
ज ण पणदीण दिज्जइ, P मित्तेण. 30 > P विराहणंमि, P ता भण for णवर ण, P ममं च for मं चिय. 32 > J इमे (or इमं)  
for इमा, P वंधू, P जीविसं वा. 33 > P चिंतियंतेण, J तुम्हेहिं, P तिणि वयणे. 34 > P om. ण पढमं.

1 § ३६२) ताहिं भणियं । 'जइ एव ता सुणसु । अथि इओ उत्तर-दिसा-भाण सच्च-रयण-णिम्मिओ पज्जरंत-  
 कंचण-धाऊ-रसा पिंजर-कडण्क-देसो दरि-सुह-रममाण-विजाहर-मिहुण-सुंदरो वाजिंदणील-मरगय-भूसिय-कडओ सिद्ध-  
 3 भवणोवरि-विहण्ण-धवल-धयवढ-रेहिरो णाणा-विह-पज्जलंत-दित्तोसही-सय-मंडिओ वेयट्ठो णाम पच्चय-त्रो । तत्थ 3  
 य दोण्णि सेटीओ, उत्तर-सेटी दाहिण-सेटी य । तत्थ विजाहरागं णिवासो । तत्थ रायउत्त, उत्तर-सेटीए सुंदराणंदमंदिंरं णाम  
 णयरं । तं च कुमार, बहु-मंदिर-सुंदरं बहु-पुरिस-सेवियं बहु-महिलायण-मणहरं बहु-रयण-रेहिरं बहु-जलासय-परिगयं  
 6 बहु-कुसुमिओववणं, किं बहुणा, बहु-वयण-वण्णणिज्ज-सरूचं । तत्थ य राया पुहइसुंदरो णाम, सो य बहु-वण्णणिज्जो । 6  
 तत्स य महिला महादेवी मेहला णाम । तीय धूया समुपण्णा, तीण णामं विंदुमती । सा उण चउरा महुरा दक्खा  
 दक्खिण्णा दयालू रूविणी सोहगंत-विण्णाण-णाणा-कला-कोसलेणं सच्चहा असरिसा पुहइए महिलायणेण बहु-वास-  
 9 कोडि-जीवणेहिं पि पंडिय-पटिय-पुरिसेहिं अलद्ध-गुण-समुह-पार ति । ता कुमार, किं बहुणा जंपिण्णं, सा य 9  
 पुरिसदेसिणी जाया, रूव-विहव-विलास-पोरस-माहण्य-जुत्ते वि णेच्छइ विजाहर-त्रालए । पुणो जोव्वण-वसं च वट्टमाणी  
 गुरु-जणेण भणिया । 'अहो गेणहसु सयंवरं भत्तारं कं पि जं पावसि' ति भणिया भमिउं समादत्ता । तत्थेक्कम्मि  
 12 दियहे तीए भणियं 'हला वयंसीओ, एहि, दाहिण-सेटी-दाहिण-संसिए उववणाभोए परिभमामो' ति । अम्हे वि 12  
 'एवं होउ' ति भणंतीओ समुपइयाओ धोय-खग्ग-णिम्मलं गयणयलं, अवहण्णाओ य एक्कम्मि गिरि-वर-कुहर-काण्ण-  
 तरम्मि । तत्थ रममाणीहिं णिसुयं एकं किण्णर-मिहुणयं नायंतं । तं च णिसामिऊण दिण्णं सविसेसं कण्णं जाव ।  
 15 तेहिं गीया इमा गीदिया । अवि य । 15

रूवेण जो अणंगउ संगय-वेसो जसेण लोयम्मि । कत्तो कामगइंदउ लवभइ दट्टं पि पुण्ण-रहिएहिं ॥

§ ३६३) इमं च सोऊण पियसहीए भणियं 'हला हला पवणवेगे, पुच्छसु इमं किण्णर-जुवलं को एस, कत्थ  
 18 वा कामगइंदओ, जो तुम्हेहिं गीओ' ति । अहं पि 'जहाणवेसि' ति भणिऊण उवगया पुच्छियं च तं किण्णर-जुवलं 18  
 'को एस कत्थ वा कामगइंदओ जो तुम्हेहिं गीओ' ति । तओ तीए किण्णरीए भणियं ।  
 किं विजाहर-त्राले सुणेसि कण्णेहिं पेच्छसे किंचि । जइ सच्चमिणं सच्चं कामगइंदो कहं ण सुओ ॥ 21

21 मए भणियं ।

'तण्णाया सि वियड्ढा इमिणा परिहास-वित्थरेणेय । ता सहि साहसु मज्झं कामगइंदो कहिं होइ ॥  
 तीए भणियं 'जइ तुह कामगइंदेणं कज्जं, ता पुच्छसु इमं' ति । पुच्छओ किण्णरो । तेण भणियं । 'अत्थि रयणां  
 24 पुरं । तत्थ रणगइंदस्स पुत्तो कामगइंदो णामं । सो एरिसो जेण तत्स चरिय-णिवेधाइं दुवई-खंड-थढ-जंभेद्विया-चित्त- 24  
 गाहा-रुवयाइं संपयं सयल-किण्णर-गणेण गिज्जंति । इमं च सोऊण रायउत्त, णिवेदयं मए विंदुमईए । तप्पभूईं च  
 सा केरिसा जाया । अवि य सरवस्तारिय व्व कमलिणी, थल-गय व्व सफरुहिया, मोडिया इव वण-लया, उक्खुडिया  
 27 इव कुसुम-मंजरी, विउत्ता विव हंसिया, गह-गहिया इव चंदलेहिया, मंताहया इव भुयंगिया, ण कुणइ आलेक्खयं, 27  
 ण गुणइ णट्टयं, ण मुणइ गीययं, ण पडइ चागरणं, ण लिहइ अक्खराइं, ण पेच्छइ पोत्थयं, ण वायइ वीणं, ण जवइ  
 विज्जं । केवलं मत्ता इव परायत्ता इव सुत्ता इव गह-गहिया इव मया विव भणिया वि ण भणइ, दिट्ठा वि ण  
 30 पेच्छइ, चलिया वि ण चलइ, णवरं पुण अकारणं वच्चइ, आलेक्खं णियच्छइ, अकज्जं कुणइ, णिदयं उट्टइ, विवभणं 30  
 उद्धाइ, अमणं ज्ञायइ, दुम्मणं गायइ, दीइं णीससइ, सहियणं णिंदइ, परियणं जूरइ, गुरुयणं हसइ । किं च कइया  
 वि हसइ, कइया वि रुवइ, कइया वि धावइ, कइया वि गाइ, कइया वि चलइ, कइया वि सुणइ ।  
 33 कइया वि कणइ ति । किं च बहुणा । 33

33 कइया वि कणइ ति । किं च बहुणा ।

1) J सच्चरयदमणिचित्तो. 2) J धातूरसा P धाओ रसो, P हरि for दरि, P वज्जंदनील, J भूसियकडगु. 3) J  
 पिण्ण for विहण्ण, P दित्तोसहि, J सम for सय. 4) P राय for रायउत्त. 5) P महियणमणहरं. 6) J कुसुमिउववणं, J  
 repeats बहु, P वन्नणिज्जं, J पुहइसुंदरो, J बहुदिअहवण्णणिज्जो. 7) P महिला for मेहला, J धूता. 8) P om. दक्खिण्णा, J  
 सोहगण्णविण्णाण, P om. णाणा, P om. सच्चहा, J असरिस, P पुहतीए. 9) P पटिय, P समुहं. 10) P माप्य for माहण्य, P  
 वालए, P om. च. 11) P गुरुयणेण, J भणिअं P भणिय for भणिया, P भत्ताइं । किं पि, J भणिउं for भमिउं, P तत्थेक्कम्मि.  
 12) P om. एहि दाहिणसेटी, P adds च before उववणा. 13) P गयणयत्तं. 14) P रममाणाहिं. 15) तेहिं  
 गीइया इमा गीया । 16) P अणंगओ संसयवेसो, P कामगइंदो. 17) P पवणवेए, P किन्नरजलयं । सो एस. 18) P तुमेहिं,  
 P भमिऊण गया, P जुवलं । को एस कामगइंदो ति । तओ. 20) J -त्राल, P सुणेसु, P पेच्छसि, J सुणसु for ण सुओ ॥  
 22) J वियड्ढो, P वित्थरेणय । 23) P कामगदेण. 24) P रणगरं इंदस्स, P जेणस्स चरिय निवद्धाइं, P दुवइखंडवढजंतेहि  
 before केरिसा, P सवस्तारिय, P वया for वणलया, J उक्खुडिया P उक्खुडिया. 27) P om. विउत्ता, P मंताहया, P कुणइयालक्खयं  
 ण कुणइ. 28) P वायरणं. 29) P मत्ता विव, J परयत्ता, P पराइत्ता विव, P मया इव. 30) P om. पुण, P वच्चइ, J  
 om. णिदयं उट्टइ, P om. विवभणं उद्धाइ. 31) P ज्ञायइ दुमणं, P किं च कइया. 32) J रुवइ for रुवइ, P द्दार for  
 धावइ, P om. कइया वि वलइ, J मुणेइ for सुणइ. 33) P कइ वि भणइ ति, P om. च.



- 1 सा वलइ खलइ वेवइ जूरइ सोएण परिगया होइ । भीय व्व सुहय-मुद्धा कामगइंदस्स णामेणं ॥ 1  
तओ मए जाणियं इमाए कामगइंदो वाही, कामगइंदो चिय ओसहं । अवि य ।
- 3 जो किर भुयंग-डको डंके अह तस्स दिज्जए महुरं । एसा जणे पउत्ती विसस्स विसमोसहं होइ ॥ 3  
त्ति चित्तयंतीए मए भणिया माणसवेगा इमा 'हला, इमीए कामगइंदो परं वेज्जो पियसहीए' । तत्तो कामगइंदो त्ति सहायणणेण केरिसा जाया । अवि य ।
- 3 उक्कंठ-दिण्ण-हियया कामगइंदस्स सुहय-सहेण । तंडविय-कण्ण-वण-हत्थिणि व्व तत्तो-मुही जाया ॥ 6  
तओ मउय-मंजु-महुरक्खरालावं तीए पलत्तं । अवि य ।  
पियसहि अत्थि विसेसो इमिणा मंतेण मम य वाहिस्स । पीयक्खराइं जं मे कामगइंदो त्ति ता भणसु ॥
- 9 तओ रायउत्त, अम्हेहिं मंतिथं हिययाणुकूलत्तणं कीरंतीहिं । विरइओ इमो अलियक्खरालावो मंतो । अवि य । ओं । 9  
सरलो सुहओ दाया दक्खो दयालु दक्खिण्णो । अवणेउ तुज्ज वाहिं कामगइंदो त्ति हुं साहा ॥  
तओ कुमार इमिणा य मंत-गोत्त-कित्तणेण केरिसा जाया पियसही । अवि य ।
- 12 सुक्कोदय-तणु-खंजण-कडुयालय-वलिय व्व सा सुहय । तुह सूर-गोत्त-किरणेहिं ताविया मरइ व फुडंती ॥ 12  
तं च तारिसं दहूण चित्तियं अम्हेहिं । सव्वहा,  
काम-भुयंगम-डक्का अइकाय-विसोयलंत-विहलंगी । धीरिजइ कामगइंद गरुल-मंतेहिं जइ णवरं ॥
- 15 इमं च चित्तयंतीहिं सा भणिया 'पियसहि, तुमं अच्छसु । अम्हे गंतूण तत्थ जो सो कामगइंदो तं अब्भत्थिऊण इहाणेमो, 15  
जेण पियसहीए वाही अवणेइ' त्ति । तीए सणिय-सणियं भणियं । अवि य ।  
'वच्चह दुवे वि वच्चह एक्को दूओ ण जाइ वेज्ज-घरे । दाऊण वि णिय-जीयं करेह तह तं जहा एइ ॥'
- 18 तओ इमं च वयणं सोऊण अम्हेहि 'तह' त्ति पडिवण्णं । तओ एकम्मि वियड-गिरिवर-कुहर-सिलायलम्मि विविह-वंदण- 18  
कप्पतस्वर-साहा-लयाहरए विरइओ सत्थरो सरस-सरोरुह-दलेहिं । तत्थ णिक्खविऊण समुप्पइयाओ कुवल्यबभंतर-दलंत-  
णीलं गयणयलं । तओ कुमार, पेच्छंतीओ विविह-णगरागर-णइ-गाम-तरु-गहण-गोउल-जलासयं पुहईयलं ति संपत्ता य
- 21 इमं पएसं । तओ ण-याणिमो कत्थ सा णयरी जत्थ तुमं होहिसि, कत्थ वा तुमं पावेयव्वो त्ति । इमस्स य अत्थस्स 21  
जाणणत्थं आहूया भगवई पण्णत्ती णाम विज्जा, विण्णविया य 'साहसु कत्थ उण कामगइंदो अम्हेहिं दट्ठव्वो'  
त्ति । भगवईय वि आणत्तं जहा 'एस अहो, खंधावार-णिवेसे संपयं' ति । इमं च णिसामिऊण अम्हे अवहण्णाओ
- 24 संपयं 'देव, तुहायत्तं पियसहीए जीवियं' ति । तओ कामगइंदेण चित्तियं 'अहो, अइगरुया कामावत्था वराईए' । 24  
भणियं च मए जहा 'अवस्सं कज्जं तुम्हाणं कायव्वं' ति । चित्तयंतेण भणियं 'ता संपयं भणह को एत्थ उवाओ,  
जेण ए पिय-सही जीएज्ज' । ताहिं भणियं । अवि य ।
- 27 'एक्को परं उवाओ काम-करेणूए सुंदरं होज्ज । कामगइंद-करालिहण-फरिस-सुह-संगमोवाओ ॥ 27  
ता मा विलंबसु, उट्टेसु संपयं जइ कह वि जीयंतिं पेच्छसि पियसहिं । अवि य ।  
तुज्जाणुराय-हुयवह-जाला-हेलाहिं सा विलुट्ठी । एत्तिय-मेत्तं वेलं मुद्धा जइ दुक्करं जियइ ॥'
- 30 § ३६४ ) कामगइंदेण भणियं 'जइ अवस्सं गंतव्वं ता साहेमि इमीए महादेवीए' । तओ ताहिं भणियं 30  
'एरिसो तुमं राया सव्व-णीइ-कुसलो लोयं पालेसि जेण महिलाण रहस्सं साहसि । किं ण सुओ ते जणम्मि एसो  
तंतक्खणे य सिलोओ । अवि य ।

1 > P वलइ for खलइ, P जूरइ for जूरइ, P सेएण for सोएण. 2 > P मे for मए, J मए for इमाए, P वही for वाही.  
3 > J दंसे for डंके, J पयुत्ती. 4 > P चित्तयंतं, J om. मए, J इमाए for इमा, P वर for परं, P पियसहिए, J तओ कामगइंद  
त्ति सहायणणेण. 6 > P अहव for सुहाय, P तंडुट्ठियकन्न. 7 > P मंजुर for मंजु. 8 > J इमय P इमस्स for मम य  
(emended), P वीइक्खराइ जं मि क्लामगइंदो, J जंमि for जं मे. 9 > J om. कीरंतीहिं, J अलिअक्खालावो, P क्खरालावो, J  
उउं P ओ for ओं. 10 > JP दाता, JP दयालु, P उवणेओ for अवणेउ, P वाही कामइंदो हुं साहा ॥. 12 > J सुखेदयतणु,  
P सा सुहया, J फुरंती ॥. 16 > P वाहिं, J तीय, P om. सणिय सणियं. 17 > J दूतो, P वेज्जहरे, J करेसु. 19 > P  
साहलयाहरए, P trans. सत्थरो after 'दलेहिं, P दलं for दलंतणीलं. 20 > J णणणअरा for णगरागरा, P पुहतीयलं, P संपत्ता  
इमं. 21 > P adds कत्थ व तुमं होहिसि after तुमं होहिसि, P व for वा, J पावेयव्व त्ति, P om. य. 22 > J आहूता, P  
भगवती, P om. कामगइंदो अम्हेहिं दट्ठव्वो etc. to जीवियं ति । तओ. 24 > P वरातीय. 25 > J जहावस्सं, P तेण for चित्तयंतेण.  
26 > P पियसहीए, J जीएज्जा. 27 > P कामगइंदक्खलिहणफरिस. 28 > P जीयंती, P पेच्छसि पियसही. 29 > P विलुट्ठी.  
31 > J णीति- P निती, J किण्ण P तेन for किं ण. 32 > J तक्काण य preceded on the margin by पंचतं (in a  
later hand).

- 1 'नीयमानः सुपर्णेन नागः पुण्डरिकोऽब्रवीत् । यः स्त्रीणां गुह्यमाख्याति तदन्तं तस्य जीवितम् ॥' 1  
 ता मा साहसु णारीणं रहस्सं' ति । तेण भणियं 'सच्चमिणं, किंतु अत्येत्य कारणं, कर्हिं पि कारणंतरे तथा-तुट्टेण मए  
 2 वरो इमीए दिण्णो जहा 'जं किंचि सुविणं पि तं मम साहेयव्वं । मए 'तह' ति पडिवण्णं । ता एस महंतो वुत्ततो । 3  
 विजाहर-लोय-गमणं अवस्सं एस साहेयव्वो' ति । तर्हिं भणियं 'जइ एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतव्वं' ति ।  
 पडिवोहिया महादेवी । तीए साहियं सयलं वुत्तंतं । 'ता दइए, संपयं वचामि अहं तत्य' । तीए भणियं 'जारिसं  
 6 चय महाराइणो रोयइ तारिसं चय कुणउ, को पडिवंधं कुणइ देवस्स । केवलं इमाओ दिव्वाओ विण्णवेमि' । 6  
 वद्ध-करयलंजलीए भणियं देवीए । अवि य ।  
 'विजाहरीओ तुट्टे देवीय व विण्णवेमि ता एकं । एसो तुट्टं णासो अप्पेज्जसु मज्झ दीणाए ॥'  
 9 ति पडिया पाएसु । 'एवं होउ' ति भणमाणीहिं आरोविओ विमाणम्मि । उप्पइया तमाल-दल-सामलं गयणयलं । 9  
 देवी वि उप्पाडिय-फणि-मणि-रयणा इव फणा, उक्खुडिय-कुसुमा इव कुसुम-मंजरी, उट्टीण-हंसा इव णल्लिणिया,  
 अचंदा इव रयणिया, दिणयर-कर-विरह-विओय-विमणा इव चक्काय-वालिय ति सुविणं पिव, इंदयालं पिव, कुहयं  
 12 पिव, चक्खु-मोहणं पिव, परलोगं पिव, दिट्ठं पिव णिसुयं पिव अणुहूयं पिव मण्णमाणी चित्तिं पयत्ता । 'कस्स 12  
 साहामि, किं भणामि, किं मा भणामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्थ वचामि, को एस वुत्ततो, कहां गओ,  
 किं गओ, काओ ताओ, एरिसा मणुस्सा, विसमा विसयासा, भीसणो णेह-रक्खसो, रोहो विरह-भुयंगमो, एरिसाओ  
 15 कवड-वहल-पत्तल-दल-समिद्धाओ होंति महिलाओ महाविस-वल्लीओ ति । अवि य ।  
 किं होज इमं सुमिणं दिट्ठी-मोहं व किं व अण्णं वा । कहया पुण पेच्छामो अवहरिओ माए देवीहिं ॥'  
 § ३६५ ) जाव य इमाइं अण्णाणि महादेवी विट्ठेइ ताव य थोवावसेसिया रयणी जाया । अवि य ।  
 18 जह जह झिज्जइ रयणी दइय-विउत्ता वि सुद्धड-कवोला । तह तह झिज्जइ देवी गयणं-मुह-दिण्ण-दिट्ठीया ॥ 18  
 तओ एवं च गयणंगण-दिण्ण-णीलुप्पल-दल-सरिस-दीहर-दिट्ठीए दिट्ठं देवीए विमाणं । तओ णल्लिणी-वण-दंसणेण व  
 रायहंसिया, अहिणव-जलय-वंद-हरिसेण व वरहिण-वालिया, अवर-सरवर-तीरागमेण व रहंगस्स रहंगिय ति । तं पेच्छ-  
 21 माणीए ओवइयंतम्मि पएसंतरम्मि दिट्ठाओ ताओ सुंदरीओ कामगइंदो य, ओइण्णो विमाणाओ, णिसण्णो सयणवट्ठे । 21  
 भणियं तर्हिं विजाहरीहिं । अवि य ।  
 'देवि इमो ते दइओ णिक्खेवो अम्ह जो तए णिहिओ । एस सहत्थेणं चिय पणामिओ मा हु कुप्पेज्ज ॥'  
 24 ति भणंतीओ समुप्पइयाओ धोय-खग्ग-सामलं गयण-मग्गं । राया वि दिट्ठो देवीए अणहय-सरीरो । तओ किं सो किं 24  
 वा अण्णो ति चितयंतीए पुलइयाइं असाहारणाइं लक्खण-वंजणाइं जाव जाणियं सो च्चैय इमो ति । चितियं च देवीए ।  
 'संपयं एस दीण-विमणो विव लक्खीयइ' ति । 'ता किं पुच्छामि । अहवा दे पुच्छामि' ति चितयंतीए पायवडणुट्ठियाए  
 27 सविणयं पुच्छिओ कामगइंदो । 'देव, भणह कहां तत्य तुमं गओ, कहां वा पत्तो, किं वा दिट्ठं, किं वा अणुहूयं, कहां वा सा 27  
 विजाहरी पाविया । वहु-कोऊहल-संकुलो य विजाहर-लोओ, ता पसीय सव्वं साह मज्झं' ति भणिए राया साहिउं  
 समाढत्तो । अत्थि इओ समुप्पइया अरहे मुसुमूरियं जण-पुंज-सच्छमं गयणयलं । तओ देवि, अउच्च-णहयल-गमण-रहस-  
 30 पसरमाण-गमणुच्छाहो विमाणाखुओ गंतुं पयत्तो । तओ इमम्मि सरय-काले राइए गयणयल-गमण-वेएणं किंचि 30  
 दीसिउं पयत्तं । अवि य ।

1 > P नीयमानो सुपर्णेन राजा नागाधिपो ब्रवीत्, J सुपर्णेन, J तदंतं जीवितमिति. 2 > P adds मि after कारणं, J om. कर्हिं  
 पि, P कारणे for कारणंतरे, J om. तथा. 3 > P दिण्णो तथा जं किं पि सुविणं मि तं. 5 > J तीय, J inter. साहियं & सयलं, P  
 तावइए, J तीय, 6 > P च for चय, P को वि पडिवंधं, J करेइ for कुणइ, P om. दिव्वाओ. 7 > P करयंजलीए. 8 > P देवीसु  
 व, P मित्यं for एकं, P उप्पेज्जसु. 9 > J आरोवितो, P आरोविओ माणंमि. 10 > J हणा for फणा, P उक्खुडिया इव, J om.  
 कुसुम. 11 > P रयणीय, P om. विओय, J om. कुहयं पिव, P repeats कुहयं पिव. 12 > J चक्खुम्मोहणं, P चितयं पयत्ता.  
 13 > J कं भणामि कण्ण भणामि, P adds वा before करेमि, J om. किं वा ण करेमि, P किच्छ वा न करिमि. 14 > P जओ  
 for काओ. 15 > P वह for वहल, P वेल्लीओ. 16 > J मोहं व किण्णमणं वा l, P कहया उण, J माय, P देवेहिं. 17 >  
 P इमाणि, P महादेवी ति चित्तेइ. 18 > P om. one जह, P विउत्ता, P om. one तह, P गय से मुह. 19 > P om. दल, J  
 दिट्ठिआ. 20 > P रायहंसिया, P हरिसेणेव, P तीरागमेणे, P om. रहंगस्स, P om. तं, J पेच्छमाणीय. 21 > P ओवयंतंमि, J  
 adds य after दिट्ठाओ, J om. सुंदरीओ, P निसण्णा सयणे निविट्ठो । भणियं. 23 > J ए for ते, P लिहिओ l. 24 > P  
 अणहसरीरो. 25 > P पुलोइयाइं, P om. जाव, P जाणियं, J चय P विय. 26 > J om. पायवडणुट्ठियाए. 27 > P om.  
 सविणयं, J भण आव for भणइ, P कत्थ for कहां तत्य, J अणुहूतं, P कर्हिं for कहां. 28 > P वहु; P य ज्जाहरलोओ ता पसिय.  
 29 > J इतो for इओ, P मुसुमूरियं जसच्छमं. 30 > J किंच दीसिउं.

- 1 गयण-सरे तारा-कुमुय-मंडिण् दोसिणा-जलुप्पीले । सेवालं पिव तिमिरं ससिहं सो सहइ भमिऊण ॥ 1  
गिरि-रुक्ख-सणाहाणं गामाणं मंदिराई दीसंति । जोणहा-जलहर-पडिपेहियाई कीडोयराइं च ॥
- 3 कास-कुसुमेहिं पुहई गयणं ताराहिं हसइ अण्णोणं । दट्टूण सराईं पुणो कुमुएहिं समं पहसियाइं ॥ 3  
जायमि अड्डरत्ते णलिणी-महिलायणे पसुत्तमि । फुल्ल-तरुहिं हसिज्जइ जलेण सह संगया जोणहा ॥  
तेल्लोक्क-मंथणीए जोणहा-तक्केण अड्ड-भरियाए । दीसंति महिहरिंदा देवि किलाड व्व तरमाणा ॥
- 6 § ३६६ ) तओ सरय-समय-ससि-दोसिणा केरिसा मए वियप्पिया हियएणं । अवि य । वड्डइ व धरणिहर-सिहरेसु, 6  
वित्थारिज्जइ व जल-तरंगेसु, हसइ व कास-कुसुमेसु, अंदोलइ व धयवडेसु, णिसम्मइ व धवल-धरेसु, पसरइ व जाल-  
गवक्खएसु, धावइ व वेलायडेसु, वग्गइ व समुइ-कल्लोलेसु, णिवडइ व ससिमणि-मय-वडिय-पणाल-णाल-मुहेणामय-जलं  
9 व त्ति । अवि य । 9
- इय बहु-तरुवर-जोणहा-गिरि-चंद-सराईं पेच्छमाणो हं । वच्चांमि देवि देवो व्व सरहसं गयण-मग्गेण ॥  
पुणो ताओ कुमारियाओ भणिउं पयत्ताओ । अवि य ।
- 12 कामगइंद गइंदो एसो रण्णमि पेच्छसु पसुत्तो । कामि व्व करिणि-कुंभत्थलमि हत्थं णिमेऊण ॥ 12  
पेच्छ कुमुएहिं समयं दट्टुं हसमाणिउ व्व ताराओ । सस-लंछणेण मइलं करेइ मुह-मण्डलं चंदो ॥  
धवल-सुरहीण वंद्रं गोट्टुंगणयमि पेच्छ पासुत्तं । रे अणिया-छिणं पिव सेरीसि-सिरं पिडु-पिडमि ॥
- 15 एयं पि पेच्छ णयरं जामय-पूरंत-संख-घोराहिं । लक्खिज्जइ सुत्तं पिव पसंत-जण-कलकलारावं ॥ 15  
एयं च पेच्छ गोट्टुं अज्ज वि आबड्ड-मंडली-बंधं । रासय-सरहस-ताला-वलायावलि-कलयलारावं ॥  
जोणहा-चंदण-परिधूसराओ चक्काय-सद-हुंकारा । किं विरहे किं सुरए पेच्छसु एयाओ सरियाओ ॥
- 18 एसो वच्चइ चंदो तारा-महिलायणं इमं घेतुं । अत्थाहो व्व सरहसं अवर-समुइस्स तित्थेसु ॥ 18  
एवं च जाव ताओ वच्चंतीओ पहमि सोहंति । ता पत्ता वेएणं दइए तं ताण आवासं ॥  
तओ तं च मियंकर-कर-सच्छमं दट्टूण महावेयड्ड-गिरिवरं भणियं ताहिं विज्जाहर-वालियाहिं । अवि य ।
- 21 'एसो वेयड्ड-गिरी एस णियंबो इमो वणाओओ । एसो सो धवलहरो संपत्ता तक्खणं अम्हे ॥' 21  
त्ति भणंतीओ पविट्ठाओ तमि वियड-गिरि-गुहा-भवण-दारमि । दिट्ठं च मणि-पईव-पज्जलंतुज्जोविय-दिसियक्कं भवणो-  
वरं । तत्थ य णलिणी-दल-सिसिर-सत्थरे णिवण्णा दिट्ठा सा विज्जाहर-राय-कुमारिया । केरिसा उण दइए । अवि य ।
- 24 कोमल-मुणाल-वलाया चंदण-कप्पूर-रेणु-धवलंगी । कयली-पत्तोच्छइया कावालिणिय व्व सा बाला ॥ 24  
§ ३६७ ) तओ तं च तारिसं दट्टूण सहरिसं उवगयाओ ताओ बालाओ । भणियं च ताहिं । अवि य ।  
'पिय-ग्रहि उट्टेसु लहुं लगासु कंठमि एस तुह दइओ । संपत्तो अह भवणं जं कायव्वं तयं कुणसु ॥'
- 27 एवं च भणमाणीहिं अवणीयाइं ताइं णलिणी-दलाइं । पेच्छंति जाव ण चलंति अंगाइं । तओ झत्ति ससंकाहिं पुलइयाइं 27  
णयणाइं जाव दिट्ठाइं मउलायमाण-कंदोट्ट-सच्छमाइं । ताइं च दट्टूण संभंताहिं दिण्णं हियए कर-पल्लवं जाव ण फुरइ तं ।  
तओ हा हा ह त्ति भणंतीहि णिहित्तं वयण-पंकए करयलं जाव ण लक्खिओ ऊसासो । परामुसियाइं सयलाइं मम्मट्टाणाइं ।
- 30 सव्वाइं मि णिफुराइं सीयलीहूयाइं ति । तओ दइए, तं च पेच्छिऊण ताहिं धाहावियं विज्जाहर-वालियाहिं । अवि य । 30  
हा देव्व तए हा हा हा पिय-सहि हा हयं महाकट्ठं । हा कामगइंद इमा पेच्छ सही केरिसा जाया ॥  
तओ दइए, अहं पि तं तारिसं पेच्छंतो गरुय-मण्णु-यंभिज्जमाण-वाहुप्पीलो 'हा किमेयं' ति ससंभमं जंपतो पलोइउं

1 > P मंडिदोसिणी-, J सो अहइ असिऊण ॥, P हसति for सहइ. 2 > J -जलयर-, J कीडोअराइं P खीरोअराइं. 3 > P कासव-  
कुसुमेहिं, P पुणो कुमरेण समं पहसिइं. 5 > P महहरिंदा लोणियपिड व्व तरमाणा. 6 > J -दोसिणा. 7 > P om. कासकुसुमेसु,  
अंदोलइ व, P धवलहरेसु, P वेलायलेसु. 10 > J णहतरुवर P वडुतरयर, P om. व्व. 12 > P कामगइंदो, J करणि-, P हत्थं  
मिमिऊणा. 13 > P पेच्छसु for पेच्छ, P समं for समयं, P ससि-. 14 > P गोट्टुंगणयमि, P रे यणआ, P सिरीसि for सेरीसि, P  
पिडंति. 15 > P णयं for णयरं, J पलंत for पसंत, P जलकलारावं. 16 > J रोसव-, P रासव सारहस-. 17 > J -हुंकाओ !,  
P य इमाओ for एयाओ. 18 > P सत्थाउ for अत्थाहो. 19 > P om. च, P सहंति । 20 > J inter. वेयड्ड & महा-  
21 > J वणाहोउ. 22 > J om. त्ति, P -हरण- for भवण, P दिसायकं भवणोयरं. 23 > P om. य, P विवण्णो for णिवण्णा,  
P दए for दइए. 24 > P कइली. 25 > J om. तारिसं, J om. ताओ. 26 > P उट्टेइ लहुं. 27 > P ण चलंति तओ  
अंगयाइं, P inter. झत्ति & तओ, J सासं काहि. 28 > P दिट्ठायं, P कंदोट्ट, P संभंताइं, J om. ण, P om. तं. 29 > P हा  
हा हित्ति, P तं for णिहित्तं. 30 > J सव्वइ मिणिफुरा सीयलीहूआइं, P om. मि, P णपुराइं, P repeats सीयलीहूआइं, P धाहा  
for धाहावियं, P वालियाइं. 31 > P देव्व for देव्व, J हा हयन्ह हा कट्ठं, P कामइंद इइ पेच्छ इमा केरिसा. 32 > J -त्यभिज्जमाण-

- 1 पयत्तो जात्र पेच्छामि चंदण-पंक-समलं गिचलंगी विणिमीलिय-लयणं गिचलंगोवंगं दंत-विणिमियं पिव वाउल्लियं ति । 1
- ता दइए, तं च तारिसं दट्टण मए वि भणियं । अवि य । 3
- 2 हा मह दइए हा हा वाले हा अयाणु सुद्धे । हा मह विरह-विवरणे हा देव्व ण पुरिसं जुत्तं ॥ 3
- ति भणमाणो मोहमुवगओ खणं च विवुद्धो गिसुणेमि ताणं विलावे । अवि य ।
- 3 हा पियसहि कीस तुमं पडिवयणं णेय देसि अम्हाणं । कि कुधियासि किमोवरि अइ-चिर-वेला कया जेण ॥ 6
- 6 किं वा पियसहि कुविया जं तं अम्हाहिं गिदय-मणाहिं । हा एक्किय ति मुक्का तुमए चिय पेसिया अम्हे ॥ 6
- हा देव्व ण ए जुत्तं तं सि मणूसो जयम्मि पयडयरो । एसा महिला वाला एक्का कह परिहयं कुणसि ॥
- हा हा तिहुयण-कामिण-जण-मण-वासम्मि दूर-दुल्लिया । काम ण जुज्जइ तुमं अवलं एयाइणी हंतुं ॥ 9
- 9 वहसि मुह चिय चावं हा गिज्जिय-तिहुयणेक्क-खंभं व । हा तं सव्व-जसं चिय धिरत्थु तुह अवगयं एण्हि ॥ 9
- पिय-सहि कामगइंदो एसो सो पाविओ घरं एण्हि । एयस्स कुणसु सयलं जं कायच्चं तयं सुयणु ॥
- जो किणोरेहिं गीओ पिय-सहि एस म्ह अच्छइ सहीणो । तुमए चिय पेसविया जस्स कए एस सो पत्तो ॥
- 12 भणंतीओ मोहमुवगयाओ । तओ खणं च मए णव-कयली-दल-मारुण आसासियाओ पुणो भणितं समाढत्ताओ । अवि य । 12
- हा देव्व कथ्य संपइ किं काहं कथ्य वच्चिमो कहय । को वा सरणं होहिइ किमुत्तरं राइणो साहं ॥
- § ३६८ ) एवं च भणमाणाओ पुणो पुणो से परामुसंति तं कोमल-मुणाल-सीयलं अंगं । भणियं च ताहिं । 16
- 15 कामगइंद इमा सा जा तुह अम्हेहिं साहिया वाला । एसा तुह विरहाणल-करालिया जीविय-विमुक्का ॥ 16
- ता संपइ साह तुमं का अम्ह गई कहं व किं काहं । किंचुत्तरं व दाहं जणणी-जणयाण से एण्हि ॥
- इमं दइए, सोज्जण महं पि महंतं उव्वेय-कारणं जायं । ण-याणामि किं करेमि, किं वा ण करेमि, किमुत्तरं देमि, किं वा 18
- 18 भणामि, विलक्खो विव थंभिओ इव मोहिओ विव परायत्तो इव, सव्वहा इंदयालं पिव मोहणं पिव कुहयं पिव दिव्वं पिव 18
- माया-रमणं पिव पडिहायइ ति । तह वि मए भणियं
- ‘अव्वो ण-याणिमो चिय किं करणिज्जं ति एत्थ अम्हेहिं । तुम्भे चिय तं जाणहु इमस्स कालस्स जं जोरगं ॥’ 21
- 21 जात्र य एस एत्तिओ उल्लाओ ताव य,
- अरुण-कर-भासुरंगो दस-दिस-णासंत-तम-महामहिसो । णहयल-वणम्मि दइए सूर-मइंदो किलोइण्णो ॥
- तं च दट्टण पणट्ट-तम-वंदं दिणयरं भणियं ताहिं वालियाहिं ‘रायउत्त, पभाया रयणी, उगगओ कमलिणी-रहंगणा-पिय- 24
- 24 पणइणी-पसंग-संसग्गा-पत्तट्टो सूरु, ता जं करेयच्चं तं करेमो’ ति । मए भणियं ‘किमेत्थ करणीयं ।’ ताहिं भणियं ‘अग्गि- 24
- सकारो’ ति । मए भणियं । ‘एवं होउ’ ति भणिए आहरियाइं चंदण-लवंग-सुरदारु-कप्पूर-रुक्खागुरु-सुक्खाइं दारुयाइं ।
- रइया य महाचित्ता । पक्खित्ता य सा महागइंद-दंत-वडिय व्व वाउल्लिया विज्जाहर-वालिया । दिण्णो य अभिणवुरगय- 27
- 27 दिणयर-कर-पुंज-पिंजरो जलणो । उज्झिउं च समाढत्ता जलण-जालावली-करालिज्जंतावयवा सा वालिय ति । तओ तं च 27
- दट्टण ‘हा पियसहि’ ति भणंतीओ मोहमुवगयाओ वालियाओ । अहं पि ताओ समासासिउं पयत्तो । समासत्याओ य
- विलेविउं पयत्ताओ । अवि य । 30
- 30 हा पियसहि हा वाले हा सुद्धे हा वयंसि हा सोम्मे । हा विंदुमई सुहए हा पिउणो वल्लहे तं सि ॥
- तुज्ज ण जुज्जइ एयं अम्हे मोत्तूण जं गया एक्का । अम्हेहि विणा एक्का कथ्य व तं पवसिया भइ ॥
- वचामो कस्स घरं अहव गया णाम किं व पेच्छामो । किं उत्तरं च दाहं विंदुमई कथ्य पुच्छाए ॥ 33
- 33 ता पियसहि अम्हाणं किमेत्थ जीएण दुक्ख-तविएण । तुमए चिय सह-गमणं जुज्जइ सुद्धे हयासाण ॥ 33

1 > P -पंकफलसंगी विणिमी, J समलं or ससलं, J गिचलंगी विणिमीलियलोअणं गिचलं अंगोवंगं दंतविणिमियं, P वाउल्लिय ति.  
 3 > P हा हा महए हा हा. 4 > J om. ति, P मोहमवगओ. 5 > P नय for णेय, P किसोयदि, P -वेला कयं तेण ॥. 7 >  
 P तुह for ए, P एस महिला, P एक्को, P परिहवं. 8 > J कामिणि, J एसाए गिहणं तु ॥. 9 > P गिज्जिय, P खंभे व्व. 10 >  
 P adds पियसहि कामगइंदो before एयस्स, P तए for तयं. 11 > JP किण्णरेहिं, P ज for जस्स. 12 > J कयलि, P आसा-  
 सिओ J समाढत्त. 13 > J वच्चिमे, JP होहित्ति, P om. से. 14 > P पुरामुसंति. 15 > P विरहानल. 16 > P गती, J किं  
 उत्तरं, J एण्हि for एण्हि. 17 > P महंतं पि महं उव्वेय, J om. महंतं, J णयरेमि, J om. वा. 18 > P इव for विव, J परयत्तो,  
 P इंदयालं, P पिव देव्वं. 19 > J om. मायारमणं पिव, P पि for पिव, J पडिहायदि ति. 20 > P om. अव्वो ण-याणिमो etc.  
 ताहिं वालियाहिं, J कालस्स जो जंगं. 24 > P तो for ता, P किमत्थ. 25 > J झाहविझाइं, P आहारयाइं for आहरियाइं  
 (emended), J कप्परुक्खागुरु, P रुक्खागभासुक्काइं दारुयाइं. 26 > P महा चित्ता, J वाहुल्लिया, J om. विज्जाहर वालिया, P  
 अहिगवुग्गय. 27 > P om. च, P जलणजावली, P om. तं च. 28 > J om. वालियाओ, P समासत्थिओ. 29 > P विलेविउं.  
 30 > P हा सोमे, P विंदुमती. 31 > J आसि for भइ. 32 > J adds व before घरं, P णामं च पेच्छामो, J किमुत्तरं P किं  
 उत्तरं, P विंदुमई. 33 > J अम्हाहिं, P किमत्थ, J जुज्जइ मइए गयासाणं.

- 1 इमं च पलवंतीओ झत्ति तम्मि चैय चित्ताणलम्मि पविट्ठाओ । तं च दट्टण ससंभमो हं 'मा साहसं, मा साहसं' ति 1  
 भणंतो पहाइओ जाव खर-पवण-जलण-जालावली-विलुट्ठाओ अट्टि-सेसाओ । तं च दट्टण अहं पि पहाओ इव महामोह-मोगरेणं, 1  
 3 भिण्णो इव महासोय-कौतेण, परद्धो इव महापाव-पव्वण चित्तिउं समाढत्तो । 'अहो, पेच्छिहिसि मह विहि-विहियत्तणस्स, 3  
 जेण पेच्छ ममं चैय अणुराय-जलण-जालावली-विलुट्ठा विवण्णा विंदुमइं, तीए चैय मरण-दुक्ख-संतत्त-मणाओ इमाओ वि  
 बालाओ जलणे पविट्ठाओ । ता मए वि किमेरिसेणं इत्थी-वज्झा-कलंक-कलुसेण जीविण । इमम्मि चैय चियाणले अहं पि  
 6 पविसामि' ति चित्तयंतस्स तेण गयणंगण-पहेण विज्जाहर-जुवल्यं वोलिउं पयत्तं । तओ भणियं तीए विज्जाहरीए 6  
 'पिययम, पेच्छ पेच्छ,

अह एरिसा मणुस्सा णिकरुणा णिट्ठरा णिरासंसा । जेण उज्झइ दइया एसो उण एस पासत्थो ॥

- 9 § ३६९ ) विज्जाहरेण भणियं । 'दइए, मा एवं भण । अवि य । 9  
 महिलाण एस धम्मो मयम्मि दइए मरंति ता वस्सं । जेण पढिज्जइ सत्थे भत्तारो ताण देवो ति ॥  
 एस पुरिसाण पुरिसो होइ वियद्धो य सत्त-संपण्णो । जो ण विमुच्चइ जीयं कायर-महिलाण चरिण ॥  
 12 जुज्जइ महिलाण इमं मयम्मि दइयम्मि मारिओ अप्पा । महिलत्थे पुरिसाणं अप्प-वहो णिंदिओ सत्थे ॥' 12  
 ति भणंतं वोलीणं तं विज्जाहर-जुवल्यं । मए वि चित्तियं 'अहो, संपयं चैय भणियं इमिणा विज्जाहरेण जहा ण जुज्जइ  
 पुरिसस्स महिलत्थे अत्ताणं परिच्चइउं । ता णिंदियं इमं ण मए कायव्वं ति । दे इमाए सच्छच्छ-खीर-वारि-परिपुण्णाए  
 15 विसट्टमाणेदीवर-णयणाए धवल-मुणाल-वलमाण-वलय-रेहिराए वियसिय-सरस-सयवत्त-वयणाए तरल-जल-तरंग-रंगंत- 15  
 भंग-भंगुर-मज्झाए वियड-ऊणय-तड-णियंब-वेढाए वावी-कामिणीए अवयरिऊण इमाणं जलंजली देमि' ति चित्तिऊण  
 दइए, जाणामि अवइण्णो तं वारिं णिवुड्डो अहं, खणेण उच्चुड्डो हं उम्मिल्लिय-णयण-जुवलो पेच्छामि गयणंगण-वलगो तरुरे  
 18 महापमाणाओ ओसहीओ गिरिवर-सरिसे वसहे महल्लाई गोहणाई ऊसिय-देहे तुरंगमे पंच-धणु-सय-पमाणे पुरिसे महादेहे 18  
 पक्खिणो णाणाविह-समिद्ध-सफल-ओसहि-सणाहं धरणि-मण्डलं ति । अवि य ।

इय तं पेच्छामि अहं अदिट्टउव्वं अउव्व-दट्टव्वं । गाम-पुर-णगर-खेडय-मडंब-गोट्टंगणाइणं ॥

- 21 तं च तारिसं सव्वं पि महप्पमाणं दट्टण जाओ मह मणे संकप्पो । 'अहो, किं पुण एयं । अवि य । 21

किं होज्ज इमो सग्गो किं व विदेहो णणुत्तरा-कुरवो । कीं विज्जाहर-लोओ किं वा जम्मतरं होज्ज ॥

- सव्वहा जं होउ तं होउ ति । अहं दीवं ताव ण होइ, जेण तत्थ सत्त-हत्थप्पमाणा पुरिसा । एत्थं पुण पंच-धणु-  
 24 सयप्पमाणा गयणंगण-पत्त व्व लक्खिज्जंति । ण य इमे रक्खसा देवा वा संभावियंति, जेण सव्वं चिय महल्ल-पमाणं इमं । 24  
 अण्णं च विविह-कुसुमामोओ रुणरुणेत-महु-मत्त-मुइय-महप्पमाण-भमर-गणा य तरुरे । ता सव्वहा अण्णं किं पि इमं  
 होहिइ' ति चित्तिऊण उत्तिण्णो वावि-जलाओ जाव दइए, पेच्छामि तं वारिं । अवि य ।

- 27 जल-जाय-फलिह-भित्ति विसट्ट-कंदोट्ट-दिण्ण-चच्चिकं । विमलं वावि-जलं तं जलकंत-विमाण-सच्छायं ॥ 27

- तं च दट्टण मए चित्तियं । 'अहो, अउव्वं किं पि वुत्तंतं, जेण पेच्छ जं तं वावि-जलं तं पि विमाणत्तणं पत्तं । ता एत्थ  
 कंचि पुच्छामि माणुसं जहा को एस दीवो, किं वा इमस्स णामं, कत्थ वा अहं दीवो, को व अह्माण वुत्तंतो' ति । इमं  
 30 च चित्तयंतो समुत्तिण्णो वावि-जल-विमाणाओ परिभमिउमाढत्तो जाव पेच्छामि सग्ग-सरिसाई णयराई णयर-सरिस- 30

1 > J विलवंतीओ, J om. तम्मि चैय, P चित्तानलंमि, P om. one मा साहसं, J om. ति. 2 > P om. पवण, J om.  
 जलण, P पिलुट्ठाओ, J om. 'मोह. 3 > J भिण्णोविव, P महामोहकौतेण, J कुंतेण, P पारद्धो, J पेच्छमह P पेच्छिसिहि, P om. मह.  
 4 > P मज्झं for ममं, P -पिलुट्ठा, P विंदुमइ, P om. वि. 5 > P जलण, P कि for वि, J वज्झ, J जीवमाणेणं for जीविण, J  
 चित्ताणले, P om. अहं पि. 6 > P वोलिउं. 8 > P repeats मणुस्सा for मणुस्सा, P एसो for एस. 9 > P वं for मा एवं.  
 11 > P एसो पुण सप्पुरिसो होइ, P विमुच्चइ. 12 > J मारिउं, P अत्थवहो. 13 > P om. ति, J om. तं, P om. वि.  
 14 > P महिणाजत्थे, J अत्ताणयं, P णिंदिउं, P कायव्वो ति । दो इमाए, J खीरोअवारि, P वारिपुत्ताए. 15 > P om. विसट्टमाणे-  
 दीवरणयणाए, P om. वलमाण, P सरससयवणाए, J adds सं before तरंग, J om. रंगंतभंग. 16 > J भंगुरंणुरमज्झाए, P भंगु  
 for भंगुर, P तडंणियंब, P अवतरिऊण, J जलंजलीं P जलंतजली. 17 > P अवइण्णा तं वावीओ णिवुड्डो खणेण उच्चुड्डोहं, J णिवुड्डो,  
 J om. हं, J उच्चुड्डो अहं, P जुवलो, J adds य before पेच्छामि, J तरुरे. 18 > P महप्पमाणाओ, P अउव्वे for गिरिवर,  
 सरिसे, P महल्लाई मोहणाई, J देहतुरंगमे, J सत्तप्पमाणे, P पमाणपुरिसे. 19 > J पक्खिणो णविहसमिद्धं सफलोसहि, P सफलय-  
 20 > J गामणगरखेडकव्वडगोट्टंगणणयरसोहिउं ॥. 22 > P मो for इमो, P किं व देहाण, J om. ण after विदेहो. 23 > J  
 om. पंचधणुसयप्पमाणा. 24 > P गयणंगणं पत्ता । अत्रं च विविह. 25 > J कुसुमामोओ रंत्तमहु. 26 > J होइति चिति'.  
 28 > P om. वाविजलं तं ( before पि ), P एत्थ किंनि वुच्छामि. 29 > J दीवं को व. 30 > P वाविपासायदोओ विमाणाओ  
 परिभमिउं समाढत्तो.

- 1 विहवाइं गाम-ठाणाइं, गाम-ठाण-समाइं गोट्टाइं, गोट्टंगणाउलाइं सयल-सीमंताइं, सीमंत-वसिमाइं वणंतराइं, पुरंदर- 1  
समप्पभावा राइणो, वेसमण-समा सेट्टिणो, कामदेव-सरिसो जुवाण-जणो, कप्पतरु-सरिसा तरुयरा, गिरिवर-संठाणाइं
- 3 मंदिराइं, विरुव-धरिणी-रुव-लायण्ण-वण्ण-विण्णण-कला-कोसला ववण-सरिसाओ महिलियाओ त्ति । अवि य । 3  
जं जं एत्थ महव्वं सुंदर-रुवं च अम्ह दीवस्स । तं तं तत्थ गणिज्जइ पक्कण-कुल-कयवर-सरिच्छं ॥  
§ ३७०) ता संपयं किंचि पुच्छामि । 'को एस दीवो' त्ति चिंतयंतेण दिट्ठा दुवे दारया । केरिसा । अवि य ।
- 6 वाला वि तुंग-देहा रुहरा कंद्दप्प-दप्प-सच्छाया । रयण-विभूसिय-देहा णज्जइ दइए सुर-कुमारा ॥ 6  
दट्टण मए चिंतियं । 'दे इमे णयण-मणहरे सोम्म-सहावे पुच्छामि ।' चिंतयंतेण भणिया मए 'ओ भो दारया, किंचि  
पुच्छिमो अम्हे, जइ णोवरोहं सोम्म-सहावाणं' त्ति । इमं च सइं सोऊण धव्वल-विलोल-पम्हला पेसिया दिट्ठी । कइं  
9 च तेहिं दिट्ठो । 9  
कीडो व्व संचरंतो किमि च्च कुंथू-पिवीलिया-सरिसो । मुत्ताहल-छिड्डं पिव दइए कह कह वि दिट्ठो हं ॥  
तओ जाणामि पए, तेहिं अहं कोउय-रहस-णिवभरेहिं पुलइओ । भणियं च अवरोप्परं । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, केरिसं  
12 किंपि माणुस-पलावं माणुसायारं च कीडयं ।' दुइएण भणियं । 'सच्चं सच्चं केरिसं जीव-विसेसं । अहो अच्छरीयं सयलं 12  
माणुसायारं माणुस-पलावणं च । ता किं पुण इमं होज्ज ।' पढमेण भणियं 'अहो मए णायं इमं' । दुइएण 'वयंस, किं' ।  
तेण भणियं । अवि य ।
- 15 'वण-सावयस्स लीवं छाउव्वायं सुट्टुक्सियं दीणं । माऊए विप्पणट्टं उव्वंत-मणेरयं भमइ ॥' 15  
दुइएण भणियं 'वयंस, कत्तो एरिसाई एत्थ वणाइं जत्थ एरिसाई वण-सावयाइं उप्पज्जंति ।'  
'सर-खेव-मेत्त-नामं गामंगण-संचरंत-जण-णिवहं । जण-णिवह-पूरमाणं अवर-विदेहं वयंस इमं ॥'
- 18 इमं च सोऊण दइए मए चिंतियं । 'अहो, अवरविदेहो एस, सुंदरं इमं पि दिट्ठं होहि' त्ति चिंतयंतस्स भणियं पुणो 18  
एक्केण दारएण 'वयंस, जइ एस वण-सावओ ता केण एसो कडय-कंठयादीहिं मंडिओ होज्ज' त्ति । तेण भणियं 'वयंस,  
एसो माणुसाणं हेलिओ दीविय-मइ व्व मणुएहि मंडिओ' त्ति । अपणेण भणियं 'सव्वहा किं वियारेण । इमं च गेण्हज्जण  
21 सयल-सुरासुर-वंदिज्जमाण-चलणारविंदस्स सयल-संसार-सहाव-जीवादि-पदत्थ-परिणाम-वियाणयस्स भगवंत-सीमंधर-सामि- 21  
तित्थयरस्स समवसरणं वच्चामो । तत्थ इमं दट्टण सयं चेय उप्पण्ण-कोउओ को वि भगवंतं पुच्छिहिइ जहा 'को एस  
माणुसागिइं सावय-विसेसो' त्ति भणंतेहिं दइए, चडओ विव गहिओ हं करयलेणं, पत्थिया गंतुं । अहं पि चिंतेमि ।  
24 'सुंदरं इमं जं भगवओ सव्वण्णुस्स समवसरणं ममं पावेहिंति । तं चेय भगवंतं पुच्छिहामि जहा को एस वुत्तंतो' त्ति 24  
चिंतंतो चिय पाविओ तेहिं जाव पेच्छामि पुहइ-मंडल-णिविट्ठं पिव सुरगिरिं भगवंतं धम्म-देसयं सीहासणत्थं अणेय-  
णर-णारी-संजुया सुरासुरिंद-प्पसुहा वहुए दिव्वा य रिद्धी जा सव्व-संसारीहिं सव्व-कालेणं पि सव्वहा णो वण्णेउं तीरइ त्ति ।  
27 ते य वंदिज्जण भगवंतं करयल-संगहियं काउं ममं णिसण्णा एक्कम्मि पएसे । भणियं च तेहिं । 'वयंस, ण एस अवसरो 27  
इमस्स कीडयस्स दंसियव्वे । भगवं गणहारी किं पि पुच्छं पुच्छइ, ता इमे णिसुणेमो' त्ति चिंतयंता णिसण्णा एक्कम्मि  
पएसंतरम्मि सोउं पयत्ता ।
- 30 § ३७१) भणियं च भगवया गणहारिणा । 'भगवं, जं तए णाणावरणीयाइ-पयडी-सलाया-वडियं कम्म-महापंजरं 30  
साहियं इमस्स किं णिमित्तं अंगीकाउं उदओ खयं वा खओवसमो उवसमो जायइ' त्ति । इमम्मि पुच्छिए भणियं तेण  
वहु-सुणि-सय-वंद-वंदिज्जमाण-चलण-कमलेण सीमंधर-सामि-धम्म-तित्थयरेण । 'देवाणुप्पिया, णिसामेसु ।

1) P गामट्टाणाइं गामंगणसमाइं, J om. गोट्टंगणाउलाइं, सयलसीमंताइं सीमंतवसिमाइं वणंतराइं. 2) J सम्पभावा P समयपभावा, P से for सेट्टिणो, P संट्टाणाइं. 3) J रुवलावणुवणुक्कलाकोसला, P रुयलोयण्ण, P वण्ण for ववण. 4) P मणव्वं, P अम्हदीवमि, P एक्केण, J करिवर for कयवर. 5) J दुवे दो राया. 6) J विउंगदेहा. 7) P सोमसहावे, P तेण for चिंतयंतेण. 8) P अम्ह पुछामि अहं for पुच्छिमो अम्हे जइ णोवरोहं सोम्मसहावाणं त्ति, P adds मइ before दिट्ठी. 10) P व्व कंथू, P पुरिसो for सरिसो, P om. one कह. 11) P जाणामि पए, J om. अहं, P रहसपूरेहिं पुलइय, P om. one पेच्छ. P om. किं after केरिसं. 12) P om. कीडयं, P om. one सच्चं, P अच्छरीयं. 13) P om. (after सयलं माणुसा) यारं माणुसपलावणं etc. to भणियं । अवि य, J पलाविणं. 15) P विप्पणयं. 16) P दइएण for दुइएण, J repeats एरिसाई before एत्थ. 17) P om. जणणिवह. 18) P दइए, P om. अहो, P विदेहे, P होहिति त्ति, P inter. पुणो & एक्केण. 19) J कंठयाहीहिं, J एस for एसो. 20) P हेलिओ वाडेव होहिति त्ति, P om. च. 21) P वंदिज्जमाण, P जीवाइ-पयत्थ, J वियाणायस्स, P भगवयातो सीमंधरसामिं तित्थयरस्स. 22) P चेव, P om. उप्पण्णकोउओ, J om. को वि, J पुच्छीही P पुच्छिहि त्ति. 23) J माणुसागिती सावतविसेसो, P माणुसागिति. P om. चडओ, P विय, J करेणं P करयलेणं. 24) J भगवतो, P पावेति, J पुच्छीहामि. 25) P चिंतंतो, P om. तेहिं. 26) J om. संजुया, P वहुवे दिव्वाए रिद्धीए संपण्णा जो सो सव्व-, J सव्वहा ण विण्णेउं. 27) J तेण for तेहिं, P adds ण before वयंस. 28) P कीडस्स, P om. पुच्छं, P पुच्छति, J इमं णिसुणेमि. 30) J P वरणीयाति, P पयतीसलाय. 31) J उदयो, J खयोवसमो, P वसमो for उवसमो, J जायति त्ति । इमं च पुच्छिए. 32) P चल for चलण, J om. देवाणुप्पिया णिसामेसु.

- 1 उदय-खय-खओवसमोवसमा जं च कम्मुणो भणिया । दव्वं खेतं कालं भवं च भावं च संपप ॥ 1  
कम्मस्स होइ उदओ कस्स वि केणावि दव्व-जोएण । पहयस्स जह व वियणा वजेण व मोहणीयस्स ॥
- 3 गाणावरणीयस्स व उदओ जह होइ दिसि-विमूढस्स । पत्तस्स किं पि खेतं खेत-णिमित्तं तयं कम्मं ॥ 3  
पित्तस्सुदओ गिम्हे जह वा लुह-वेयणीय-कम्मस्स । कालम्मि होइ उदओ सुसमादीसुं सुहादीणं ॥  
विहय-गह-णाम-कम्मं होइ भवं पपप जहा पक्खीणं । तथ भवो च्चिय हेऊ णरय-भवो वा वि वियणाए ॥
- 6 पढमे कसाय-भावे दंसण-मोहस्स होइ जह उदओ । जिण-गुण-वण्णण-भावे दंसण-कम्मस्स जह उदओ ॥ 6  
एण्हि खयं पि वोच्छं तित्तय-दव्वेण जह य सेंभस्स । होइ खओ खरणेण व आउय-कम्मस्स सुपासिद्धं ॥  
खेत्ताणुबंधि-कम्मं एरिसयं होइ किं पि जीवस्स । जं पाविज्जण खेतं एकं चिय होइ तं मरणं ॥
- 9 सुसमा-कालम्मि खओ जीवाणं होइ कम्म-जालस्स । दुसमाएँ ण होइ च्चिय कालो च्चिय कारणं तथ ॥ 9  
गाणावरणं कम्मं मणुय-भवे च्चय तं खयं जाइ । सेस-भवेसु ण वच्चइ कारणमित्थं भवो च्चय ॥  
भावम्मि तम्मि णियमा अउव्वकरणम्मि वट्टमाणस्स । होइ खओ कम्माणं भावं च्चिय कारणं एत्थ ॥
- 12 जह ओसह-दव्वेणं वियणा-कम्मस्स कथइ कहिं पि । होइ खओवसमो वि हु अण्णो णवि होइ दव्वेण ॥ 12  
आरिय-खेत्तम्मि जहा अविरइ-कम्मस्स होइ मणुए वा । खय-उवसमाइँ एत्थं खेतं च्चिय कारणं भणियं ॥  
सुस्सम-दुसमा-काले चारित्तावरण-कम्म-जालस्स । होति खओवसमाइँ काले वि हु कारणं तथ ॥
- 15 देवाण णारयाण य अवही भावाण-कम्म-पंकस्स । होति खओवसमाइँ होइ भवो च्चय से हेऊ ॥ 15  
उदए त्ति होति मणुए मणुस्स-भावम्मि वट्टमाणस्स । खय-उवसमेहिं तह इंदियाइँ अधवा मई-णाणं ॥  
जं दव्वं अवलंबइ खेतं कालं च भाव-भव-हेऊ । उवसम-सेणी जीवो आरोहइ होइ से हेऊ ॥
- 18 इय दव्व-खेत-काला भव-भावो च्चय होति कम्मस्स । उदय-खय-उवसमाणं उदयस्स व होति सव्वे वि ॥ 18

§ ३७२ ) एवं च भगवया सव्व-तेल्लोक्केकल्ल-बंधवेण सयल-गम्मागम्म-सीमंधरेण सीमंधर-सामिणा समाइट्टे कम्म-

- परिणाम-विसेसे पडिवणं सव्वेहिं मि तियसिंद-णरिंद-मुणि-गाणिंदप्पमुहेहिं भणियं च । 'अहो भगवया सिट्ठाओ कम्म-
- 21 पयडीओ, साहियं कम्मस्स उदयादीयं सयलं वुत्तंत' ति । एत्थंतरम्मि अवसरो त्ति काज्जण तेहिं कुमारेहिं मुक्को अहं 21  
करयल-करंगुली-पंजर-विवराओ ठिओ भगवओ तित्थयरस्स पुरओ । एत्थंतरम्मि ममं च्चय अइ-कोउय-रहस-भरमाण-  
णयण-मालाहिं दिट्ठो हं देव-देवि-णर-णारीयणेणं, अहं च पयाहिणीकाउं भगवंतं थुणित्तं पयत्तो । अवि य ।
- 24 'जय सव्व-जीव-बंधव संसार-जलोह-जाण-सारिच्छ । जय जम्म-जरा-वज्जिय मरण-विमुक्का जयाहि तुमं ॥ 24  
जय पुरिस-सीह जय जय तेल्लोक्केकल्ल-पत्थिय-पयाव । जय मोह-महामूरण रण-णिज्जिय-कम्म-सत्तु-सय ॥  
जय सिद्धिपुरी-गामिय जय-जिय-सत्थाह जयहि सव्वणू । जय सव्वदंसि जिणवर सरणं मह होसु सव्वत्थ ॥'
- 27 त्ति भणंतो णिवडिओ चलणेसु, णिसण्णो य णाइदूरे । ममं च णिसण्णं दट्टण दइए, एक्रेण आवद्ध-करयलंजलिणा 27  
पुच्छिओ णरणाहेण भगवं सव्वणू । 'भगवं, किमेस माणुसो किं वा ण माणुसो, कहं वा एत्थं संपत्तो, किं वा कारणं,  
केण वा पाविओ, कथ वा एस त्ति महंतं महं कोऊहलं, ता पसीय साहेसु'त्ति भणिज्जण णिवडिओ चलणेसु ।
- 30 § ३७३ ) एवं च पुच्छिओ भगवं मुणि-गण-वंदिय-चलण-जुवलो भणित्तं समाढत्तो । अवि य । 'अरिय इमम्मि 30  
च्चेय जंबुद्दीवे भारहं णाम वासं । तथ य मडिम्म-खंडे अरुणाभं णाम णयरं । रणगइंदो णाम राया । तस्सेस पुत्तो  
कामगइंदो णाम । इमो य इमेहिं देवेहिं महिला-लोलुओ त्ति काज्जण महिला-वेस-धारीहिं अवहरिज्जण वेयड्ड-कुहरं पाविओ ।

1 > P उदओ, J -खयोवसमो, P खओवसमो जं च कम्मुणा भणियं, J भणिया । 2 > J उदयो, P कस्स व, J मजेण for वजेण. 3 > P नाणावरणीयकम्मस्सवरणीयस्स व उदओ, J कम्मि for किं पि. 4 > J जह वण्णुहवेदणीअस्स कम्मस्स, J ससमादिसु जहे सुहादीण, P सुहादीणि. 5 > J -गति, J होइ, P होइ तवं जह पपप पक्खीणं, J जह, P भवे च्चिय, J हेतू, P om. वि. 6 > J उदयो ॥ 7 > J चित्तय for तित्तय, P जह वसंतस्स । 8 > P होइ कंपि, J जीअस्स, P होति. 9 > J कालखयो यो जीवाणं हीउ कम्म, P दसमाए, P कालो च्चिय. 10 > J भवं च्चय P भवो च्चय, P जायइ, J कारणमत्थं. 11 > P अउव्वकरणं निवट्टं, J P कम्माणं ताव च्चिय, P तथ for एत्थ. 12 > J खयोवसमो, P अत्रा वि होइ. 13 > P आयारिय, P वहो for जहा, J अविरति-, P कम्माणं ताव च्चिय, P तथ for एत्थ. 14 > P दुस्समा, J कालो, P होति, J खयोवसमाइँ, P खओवसमाइँ होइ भवो च्चय से होओ ॥ 15 > P om. P खउवसमाइँ. 16 > P उदउत्ति होइ, P om. four lines खयउव- the gāthā देवाण णारयाण etc., J खयोवसमाइँ होइ भवे च्चिय तेसिं हेतू ॥ 17 > J हेतू, J हेतू ॥ 18 > J सयल for सव्व, P तेल्लोक्केक- P गंमागंमा, समेहिं etc. to होति कम्मस्स ॥, J मत्तीणाणं. 19 > J हेतू, J हेतू ॥ 20 > P उदउत्ति होइ, P om. four lines खयउव- the gāthā देवाण णारयाण etc., J खयोवसमाइँ होइ भवे च्चिय तेसिं हेतू ॥ 21 > P om. त्ति, P अत्थंतरम्मि, 22 > P करयंजलीपंजर, P J समाइट्टो P इहे. 23 > P -मुणिंदप्पमुहेहिं महेहिं भणियं. 24 > P om. त्ति, P अत्थंतरम्मि, 25 > P करयंजलीपंजर, P विओव for ठिओ, P च्चय, J भरमाणे. 26 > P om. देवि, P पयाहिणीकाउं, J om. थुणित्तं. 27 > P जम्भोद्वज्जिय- P विमुक्क- जयाहि तुमं. 28 > P om. one जय, P पयावा, J सया ॥ 29 > P जय जस्तथाह, J जिण सरणमहं, P सरणं for सरणं. 30 > J पविओ, J त्ति for त्ति, P om. महं, P पत्थिय. 31 > J भारहं for भारहं, P om. य affor तथ, J अरुणाभं, P रणइंदो, P तस्सेय. 32 > P om. व, P om. त्ति, P adds य after धारिदि.

1 तत्थ अलिय-विउक्विय-भवणे किर विजाहर-त्रालिया, सा उण मया, किर तुह विओय-दुक्खेण एसा मय त्ति विलवमाणीहिं 1  
 दद्दा, ते वि तत्थेय आरूढा । इमेणावि कवड-महिला-अवहरिय-माणसेण चित्तिं 'अहं पि जलणं पविसामि'त्ति । एवं-  
 3 मणस्स विजाहर-जुवलय-रूवं दंसियं अवरोप्परं-मंतण-त्रयण-विण्णाण-त्रयण-विण्णासेण णियत्तिओ इमाओ साहसाओ । 3  
 पुणो दे एत्थ वावीण्णहामि त्ति जाव णिउड्ढो जाव जल-कंत-विमाणेण इहं पाविओ । पुणो कुमार-रूवं काऊण इमेहिं  
 अरण्ण-सावओ त्ति काऊण अलिय-परिहास-हसिरेहिं इहाणीओ जेण किर सव्वण्णु-दंसणेण एत्थ सम्मत्तं पाविहिइ त्ति  
 6 अवसरेण विसुक्को'त्ति । णरवइणा भणियं 'भगवं, किं पुण कारणं एस अवहरिओ इमेहिं देवेहिं ।' भगवया आइहं 'पुवं 6  
 पंचहिं जणेहिं अवरोप्परं आयाणं गहियं ता 'जत्थ ठिया तत्थ तए सम्मत्तं अम्ह दायव्वं'त्ति । एसो सो मोहदत्तो देव-  
 लोगओ चविऊण पुहइसारो आसि । पुणो देवो, पुणो एस संपयं चरिम-सरीरो कामगइंदो त्ति समुप्पणो । ता भो भो  
 9 कामगइंदा, पडिबुज्जसु एत्थ मग्गे, जाणसु विसमा कम्म-गई, दुग्गसो मोक्खो, दुरंतो संसार-वसुद्धो, चंचला इंदिय- 9  
 तुरंगमा, कलि-कलंकिओ जीवो, दुज्जया कसाया, विरसा भोगा, दुलहं भव-सएहिं पि जिणयंद-वयणं ति । इमं च  
 जाणिऊण पडिबुज्जसु सम्मत्तं, गेणहसु जहा-सत्तीए विरइं' ति । इमस्मि भणिए मए भणियं 'जहा संदिससि भगवं, तह'  
 12 त्ति । एत्थंतरस्मि पुच्छियं णरवइणा 'भगवं, जह एस माणुसो, ता कीस अम्हे पंच-धणु-सयप्पमाणा, इमो पुण सत्त- 12  
 रयणिप्पमाणो ।' भगवया भणियं । 'देवानुप्पिया, णिसुणेसु । एस अवरविदेहो, सो उण भरहो । एत्थ सुह-कालो,  
 तत्थ आसण्ण-दूसमा । एत्थ सासओ, तत्थ असासओ । एत्थ धम्मपरो जणो, तत्थ पावपरो । एत्थ दीहाउया, तत्थ  
 15 अप्पाउया । एत्थ बहु-पुण्णा, तत्थ थोव-पुण्णा । एत्थ सत्तवंता, तत्थ णीसत्ता । एत्थ थोव-दुज्जण-बहु-सज्जण-जणो, तत्थ 15  
 बहु-दुज्जणो थोव-सज्जणो । एत्थ एग-तिथिया, तत्थ बहु-कुत्तिथिया । एत्थ उज्जय-पण्णा, तत्थ वंक-जडा । एत्थ सासओ  
 मोक्ख-मग्गो, तत्थ असासओ । एत्थ सुह-रसाओ ओसहीओ, तत्थ दुह-रसाओ । सव्वहा एत्थ सासय-बहु-सुह-परिणाम-  
 18 पत्तट्ठा, तत्थ परिहीयमाण-सुह-परिणाम त्ति । तेणेत्य महंता पुरिसा तत्थ पुण थोयप्पमाणा ।' एवं च भगवया साहिए 18  
 किर मए चित्तिं देवि जहा 'अहो, एरिसो अम्हाण दीवो बहु-गुण-हीणो । एसो पुण सासय-सुह-परिणामो । एरिसो एस  
 भगवं सव्वण्णू सव्व-दंसी सव्व-जग-जीव-बंधवो सव्व-सुरिंद-वंदिओ सव्व-मुणि-गण-गायगो सव्व-भासा-वियाणओ सव्व-  
 21 जीव-पडिवोहओ सव्व-लोग-चूडामणी सव्वुत्तिमो सव्व-रूवी सव्व-सत्त-संपण्णो सव्व-महुरो सव्व-पिय-दंसणो सव्व-सुंदरो 21  
 सव्व-धीरो सव्व-धीरो सव्वहा सव्व-तिहुयण-सव्वाइसय-सव्व-संदेहो त्ति । अवि य ।

जइ सव्वण्णु महायस जय णाण-दिवायरेक्क जय-णाह । जय मोक्ख-मग्ग-गायग जय भव-तीरेक्क-वोहित्थ ॥

24 त्ति भणंतो णिवडिओ हं चलणेसु । पायवडिओ चैय भत्ति-भरेक्क-चित्तत्तणेण विणिमीलमाण-लोल-लोयणो इमं चित्तिउ- 24  
 माढत्तो । अवि य ।

दंसण-मेतेण चिय भगवं बुद्धाण एत्थ लोगस्मि । मण्णे हं ते पुरिसा किं पुरिसा वण-मया वरइ ॥

27 त्ति भणिऊण जाव उण्णामियं मए सीसं ता पेच्छामि इमो अम्हं चिय कडय-संणिवेसो, एयं तं सयणं, एसा तुमं देवि' त्ति । 27

§ ३७४ ) एवं च साहिए सयले णियय-वुत्तंते कामगइंदेण देवीए भणियं । 'देव, जहाणवेसि, एकं पुण विण्णवेमि  
 'देव, जो एस तए वुत्तंते साहिओ एत्थ उग्गओ दिवायरो, तओ दिट्ठा विभाया रयणी, महंतोवक्खेवो, बहुयं परिकहियं,  
 30 बहुयं णिसामियं, सव्वहा महंतो एस वुत्तंते । ता ममं पुण जत्तो चिय तुमं ताहिं समं गओ, तप्पभूइं चैव जागरमाणीए 30  
 जाम-मेत्तं चैय वोलियं । तो विरूइं पिव लक्खिज्जए इमं । ता ण-याणीयइ किं एयं इंदयालं, उदाहु कुहगं, किं वा सुमिणं,  
 होउ मइ-मोहो, किं णिमित्तं, किं अलियं, आहु सच्चं' ति वियप्पयंतीए किं जायं । अवि य ।

1 > P त for तत्थ, J om. विउक्विय, J किर, J सोऊण for सा उण, P विलवमाणेहिं. 2 > P om. आरूढा, P इमिणा वि, P  
 -वहरिय-, P एवं माणस्स. 3 > P विजाहजुवलयं, J जुवलरूवं, P देसियं for दंसियं, J अवरोप्परा-, J मंतणा-, P मंतणवैयणविनासेण.  
 4 > P निउत्तो for णिउड्ढो, P जाव जाललकतं विमाणे इहं. 5 > J पावेहि पावेहित्ति. 6 > J दिव्वेहिं for देवेहिं. 7 > P जत्थ गया तत्थ  
 गया संमत्तं. 8 > P चरम-. 9 > J पडिबुज्ज for पडिबुज्जसु, P कम्मगती, P मोक्खो. 10 > J तुरंगमा, P कल for कलि, J भोआ  
 for भोगा, P दुलहं, P om. च. 11 > J जहा दिससि. 12 > J सत्तप्पमाणा ईसो पुण. 13 > P रयणिप्पमाणो, J देवानुप्पिया.  
 14 > J तत्थासण्ण-. 15 > P अप्पाइया for अप्पाउया, J थोअपुण्णा, J सत्तमंता, P णीसंता, J थोअदुज्जण. 16 > P -दुज्जणा, J  
 थोअसज्जणो, P बहुतिथिया, P एत्थ उज्जयपुण्णो तत्थ, J एस सासओ. 17 > P दुरसाओ, J एस सासत-. 18 > J पत्तट्ठा P पच्चट्ठा,  
 P परिहीयमाणासुपरिणाम, J तत्थ उण, J थोअपमाणा, P थोयप्पमाणो त्ति. 19 > P एसो उण. 20 > P गय for गण. 21 > J लोअ  
 for लोग, P सव्वत्तमो. 22 > J -सव्वात्तिसय-. 23 > P सव्वण्णू, P adds दिवाण after णाण, P भगवं एक-वोहित्थ, J वोहित्थे.  
 24 > P om. हं, P भरेणक्क, P विणिमीलमाण, J om. लोल, P चित्तिउं समाढत्तो. 26 > J भगवं जे तुह बुद्धाण एत्थ लोअस्मि, P  
 वणमयावय ॥ 27 > P उण्णामियं, J ताव for ता, P अहं for अम्हं, J करय for कडय, P देवि ति । 29 > J दिट्ठो विभाता, P महंतो  
 विक्खेवो. 30 > J बहुयं णिसामियं, J om. ता, J समयं गओ, J तप्पभूर्ति चैव. 31 > J ता for तो, P लक्खिज्जइ, J ण  
 याणीयति किं एतं, P उदाहु, P कुहयं. 32 > J P मतिमोहो, P om. किं णिमित्तं, P आउ सच्चं पि, J वियप्पयंतीय P वियप्पयंतीय.



1 कीरइ सक्खित्तणं दिट्ठ-वली-पलिय-पंडुरंगेण । सच्चं सच्चं ति अहो भणियं गोसग्ग-संखेणं ॥ 1  
 ताव य पवज्जियं पाहाउय-मंगल-त्तूरं, पढियं वंदि-वंदेहि, उग्गीयं वारविलासिणीयणेण । इमं च णाऊण एरिसं पभाय-  
 3 समयं भणियं कामगइंदेण । 'सच्चं इमं मए दिट्ठं णिसुयं अणुभूयं च, णत्थि वियप्पो । जं पि तए भणियं महंतो बुत्ततो 3  
 एस थोवं कालंतरं । एत्थ वि देव-माया य । देवा ते भगवंतो अचित्त-सत्ति-जुत्ता जं हियएण किर चित्तिज्जइ तं सच्चं तक्खणं  
 संपज्जइ त्ति । जेण भणियं 'मनसा देवानां वाचा पार्थिवानाम्' इति । जो सो भगवं सीमंधरसामि-तित्थयरो दिट्ठो सो णज्जइ  
 6 अहं पेच्छंतो चेय अज्ज वि हियएण चिट्ठामि, मंतयंतं पिव उप्पेक्खामि । अहवा किमेत्थ वियारेणं । एस भगवं सच्चणू 6  
 सच्च-दरिसी वीर-वड्ढमाण-जिणयंदो विहरइ एयम्मि पएसंतरम्मि । संपयं पभाया रयणी । तेण तं चेय गंतूण भगवंतं  
 पुच्छिमो 'भगवं, किं सच्चमिणं किंवा अलियं'ति । ता जइ भगवया समाइट्ठं 'सच्चं', ता सच्चं, अण्णहा इंदयालं ति भण-  
 9 माणो पत्थिओ कामगइंदो मसंतिए । पत्थिओ य भणिओ महादेवीए । 'देव, जइ पुण भगवया सच्चणुणा आइट्ठं होज्ज 9  
 जहा सच्चं ता किं पुण कायव्वं देवेण' । कामगइंदेण भणियं 'देवि, णणु सयल-संसार-दुक्ख-महासायर-त्तरणं ति किमणं  
 कीरउ' । तीए भणियं 'देव, जइ एवं ता अक्खसं पसाओ कायव्वो, एकं वारं दंसणं देज्जं, जेण जं चेय देवो पडिवज्जइ तं  
 12 चैव अम्हारिसीओ वि कहं पि पडिवज्जिहंति' ति भणमाणी णिवडिया चलणेसु । तओ पडिवणं च कामगइंदेण । 'एवं 12  
 होउ' ति भणंतो एस संपत्तो मय समवसरणं । वंदिओ अहयं पुच्छिओ इमिणा 'किं इंदयालं आउ सच्चं' ति । मए वि  
 भणियं 'सच्चं' ति ।

15 § ३७५) इमं च णिसामिऊण कय-पव्वज्जा-परिणाओ उप्पण्ण-वेरग्ग-मग्गो 'विसमा इमा कम्म-गइं, असासया 15  
 भोगा, दुरंतो संसारो, दुल्लंघं सिणेह-बंधणं, विरसाइं पिय-विओयाइं, कडुय-फळो कामो, पयडो मोक्ख-मग्गो, सासयं  
 मोक्ख-सुहं, पडिबुद्धो अहं' ति चित्तयंतो कडय-णिवेसं गओ त्ति । एवं च भगवया वीर-मुणिणाहेण साहिए पुच्छियं गणहर-  
 18 सामिणा 'भगवं, इओ गएण किं तेण तत्थ कयं, किं वा संपइ कुणइ, कत्थ वा वट्ठइ' ति । भगवया आइट्ठं 'इओ गंतूण 18  
 साहियं महादेवीए जहा सच्चं सच्चं ति । तओ दिसागइंदं पढम-पुत्तं रज्जे अभिसिंचिऊण आउच्छिय-सयल-णरवइ-लोओ  
 संमाणिय-बंधुयणो पूरण-मणोरहो पडिणियत्त-पणइयणो एस संपयं समवसरण-पढम-पागार-गोउर-दारे वट्ठइ' ति भण-  
 21 माणस्स चैय समागओ त्ति । पयाहिणं च काउं भणियं तेण 'भगवं, अवि य, 21

मा अच्छसु वीसत्थं कुणसु पसायं करेसु मज्झ दयं । संसारोयहि-त्तरणे पव्वज्जा-जाणवत्तेण ॥  
 एवं च भणिए पव्वाविओ सपरियणो राया कामगइंदो, पुच्छिओ य 'भगवं, कत्थ ते पंच जणा वट्ठति' । भगवया  
 24 भणियं 'एक्को परं देवो, सो वि अप्पाऊ, सेसा उण मणुय-लोए । दाविओ य भगवया मणिरह-कुमारो महारिसी । अवि य । 24  
 एसो सो माणभडो तम्मि भवे तं च मोहदत्तो त्ति । एसो उ पउमसारो विइय-भवे पउमकेसरो तं सि ॥

एसो कुवल्लयचंदो पुहईसारो इमस्स तं पुत्तो । वेरुलियाओ एसो वेरुलियंगो तुमं देवो ॥  
 27 मणिरहकुमार एसो कामगइंदो पुणो तुमं एत्थ । भव-परिवाडी-हेउं एएण भवेण सिज्झिहिइ ॥ 27

त्ति आदिसंतो समुट्ठिओ भव्व-कुमुद-मियंको भगवं ति । एवं च भगवं तिहुयण-धरोदरेक-पदीव-सरिसो विहरमाणो  
 अण्णम्मि दियहे संपत्तो कायंदीए महाणयरीए बाहिरुज्जाणे । तत्थ वि तक्खणं चेय विरइओ देवेहिं समवसरण-विहि-  
 30 वित्थरो । णिसण्णो भगवं सीहासणे । साहिओ जीव-पयत्थ-वित्थरो, संघिओ य जीव-सहावो, उप्फालिओ कम्मासव-विसेसो, 30  
 वज्जरिओ जीवस्स बंध-भावो, सिट्ठो पुण्ण-पाव-विहाओ, सूइओ सच्च-संवरप्पओगो, णिदरिसिओ णिज्जरा-पयारो, पयं-  
 सिओ सयल-कम्म-महापंजर-मुसुमूरणेण मोक्खो त्ति ।

1 > P सक्खित्तणं पिव दिट्ठ, J वलिअ for पलिय, J सच्चं सच्चं. 2 > P ताव पडिवज्जियं. 3 > P om. णिसुयं. 4 > J थोअं, JP  
 ए for य, P देवया ए for देवा ते, J सत्ति-जुत्तो जो. 5 > P om. त्ति, P पढियं for भणियं, J वाचा पार्थिवानामिति, P  
 पार्थिवानामिति, P 'सामी, P दिट्ठा. 6 > J उवेक्खामि, P अहावा, P om. सच्चणू after भगवं. 7 > P वड्ढमाण, P विहरइ त्ति  
 इमंमि, P इं for तं. 8 > P om. सच्चं before ता. 9 > P पुच्छिओ for पत्थिओ, P पट्ठिओ भणिओ देवीए, P adds after  
 भणिओ देवीए । देव जइ, some fourteen lines beginning with पि य साहइ लेसामेएण बंधए कम्मं etc. to एकंमि तरुवरंमि  
 तं भत्तं ट्ठायियं तेहिं ॥ which come again below, p. 245, lines 7-13. 10 > P देव्वेण, P दुक्खसायर, J  
 adds किमणं ति before किमणं. 11 > J तीअ P तए, P inter. देव & जइ, J तावस्सं, J देज्जा, P पटिवज्जए. 12 > J  
 चेअ, J कहिं पि, P कहं ति पडिवज्जिहंति. 13 > P वंदिउं, J उच्छयं for पुच्छिओ, P उंदयालं, P om. मए वि भणियं सच्चं  
 ति. 15 > J om. च, P कामगती. 16 > P दुल्लंघं, J पिव, P कडुयप्फळो. 17 > P कडुय for कटय, P 'मुणिणा साहिए, P  
 गहर for गणहर. 18 > J कत्थ for तत्थ, J संपयं कुणइ, P वट्ठइ, J इतो, P इयं for इओ. 19 > P महादेवि, P adds देवि after  
 जहा, J णरवइणओ. 20 > P पूरणारहो, J पणइअणो, J पायारगोउरदारे. 21 > P काऊण for काउं. 24 > P परे for  
 परं, J उ for उण, P om. य after दाविओ, J कुमारमहारिसी. 25 > J माणहटो, JP विनियभवे, P adds त before पउमं.  
 26 > P वेरुलियाओ तुमं. 27 > P -कुमारो, P om. पुणो, P adds पुण before एत्थ, P परिवाटीए हंतुं, J हेतुं एतेण, J सिज्झिहिइ  
 त्ति P सिज्झिहिइ त्ति. 28 > J अइट्ठंतो, J adds भगवं after आदिसंतो, P -कुमुद, J धरोदरेक, P विरमाणो. 31 > P यद्वा,  
 J 'पयोगो णिदरिसिओ, P णिज्जारापायारो पसांसिओ. 32 > J सच्चमहापावपंजर.

- 1 १) ३७६) एत्थंतरम्मि पुच्छियं भगवया गोदम-महामुणि-णायणेणं । अवि य । 1  
भगवं पुरिसा बहुए वटंता एक्यम्मि वावारे । थोय-बहु-भेय-भिण्णं किं कम्मं केइ वंधंति ॥
- 3 भगवया वि सयल-कम्म-पयडी-पच्चक्ख-सव्व-दव्व-सहावेण समाणत्तं । अवि य । 3  
गोदम बहुए पुरिसा जोगे एक्यम्मि ते पुणो लग्गा । थोय-बहु-भेय-भिण्णं णियमा वंधंति अवि पावं ॥  
भणियं च गणहरेणं । अवि य ।
- 6 केणट्ठेणं भंते आइट्ठं तियसिंद-वद्ध-पुज्जेहिं । बहुए जीवा एकं कुणमाणा वंधिरे भिण्णं ॥ 6  
अह भगवं पि य साहइ लेस्ता-भेएण वंधिरे कम्मं । वंधइ विसुद्ध-लेस्सो थोवं बहुयं असुद्धाए ॥  
किण्हा णीला काज तेज पउमा य होइ सुक्का य । छवेय इमा भणिया संसारे जीव-लेस्ताओ ॥
- 9 जह फलिह-पत्थरम्मि य कसिणे णीले व्व पीय-रत्ते व्व । उवहाणे तं फडियं कसिणं णीलं व जाएज्जा ॥ 9  
अप्पा वि तह विसुद्धो फालिह-मइओ व्व गोयमा जाण । कसिणाइ-कम्म-पोग्गल-जोए कसिणत्तणं जाइ ॥  
जारिसयं तं कम्मं कसिणं णीलं व पीय-पउमं वा । तारिसओ से भावो जंबू-फल-भक्ख-दिट्ठतो ॥
- 12 गामाओ छप्पुरिसा भत्तं घेतूण णिग्गया रण्णं । सव्वे वि परसु-हत्था किर दारं छिंदिमो अग्हे ॥ 12  
गहणं च ते पविट्ठा पेच्छंति य तरुवरे महाकाए । एक्यम्मि तरुवरम्मि तं भत्तं ठावियं तेहिं ॥  
अह छिंदिउं पयत्ता भमिउं रण्णम्मि ते महारुक्खे । ता तम्मि भत्त-रुक्खे वाणर-जूहं समाहूढं ॥
- 15 अह तेण ताण भत्तं सव्वं खइज्जण भायणे भग्गे । अह लुंपिज्जण सव्वं पडिवह-हुत्तं गया पवया ॥ 15  
वण-छिंदिया वि पुरिसा मज्झण्हे तिसिय-भुक्खिया सव्वे । किर भुंजिमो त्ति एण्हिं तं भत्त-तरं समल्लीणा ।  
पेच्छंति ण तं भत्तं ण य भायण-कप्पडे य फालियए । अह णायं तेहिं समं वाणर-जूहं समल्लीणं ॥
- 18 ता संपइ छायाणं का अग्हाणं गइ त्ति चिंतेमो । वण-पुष्प-फले असिमो वणम्मि अण्णोसिमो सव्वे ॥ 18  
एत्थंतरम्मि कालो दर-पच्चिर-जंबु-पिक्क-सहयारो । पढमोवुट्ठ-मही-रय-पसरिय-वर-गंध-गंधवो ॥  
अह पुरिसम्मि काले तम्मि वणे तेहिं अण्णिसंतेहिं । दिट्ठो जंबुय-रुक्खो णिरुविओ फलिय-दर-पिक्को ॥
- 21 दट्ठूण छावि पुरिसा तुट्ठा ते भंतिउं समाढत्ता । संपइ पत्ता जंबू भण पुरिसा कह वि खायामो ॥ 21  
एक्केण तत्थ भणियं फरसू सव्वाण अत्थि अग्हाणं । मा कुणह आलसं तो मूलाओ छिंदिमो सव्वं ॥  
छिण्णो पडिहिइ एसो कडयड-रावं वणम्मि कुणमाणो । पडिण्णं रुक्खेणं भक्खेस्सं राय-जंबूणि ॥
- 24 एवं च णिसामेउं भणियं दुइएण तत्थ पुरिसेण । छिण्णेण इमेण तुहं को व गुणो भणसु मूलाओ ॥ 24  
छिज्जंतु इमाओ परं एयाओ चैय जाओ साहाओ । पडियाओ भक्खेस्सं मा अलसा होह हो पुरिसा ॥  
तइय-पुरिसेण भणियं मा मूलं मा य छिंद साहाओ । छिंदह पडिसाहं से जा जा फलिया इहं होज्जा ॥
- 27 पुरिसो भणइ चउत्थो मा बहुयं भणह कुणह मह बुद्धी । थवए छिंदह सव्वे जे जे सफले य पेच्छेज्जा ॥ 27  
अह पंचमेण भणियं मा पलवह किंचि कुणह मह भणियं । लउडेण हणह एयं पक्कं आमं च पाडेह ॥  
सोज्जण इमे वयणे ईसी हेलाए हसिय-वयणेण । छट्ट-पुरिसेण भणिया सव्वे वि णरा समं चैय ॥
- 30 किं कट्ठं अण्णाणं अहो महारंभया अयाणत्तं । थोवा तुहं बुद्धी पुरिसयं जेण मंतेह ॥ 30  
किं एत्थ समाढत्तं जंबू-फल-भक्खणं तु तुब्भेहिं । जइ ता किं एएहिं मूलाइच्छेय-पावेहिं ॥  
एए सहाव-पिक्का पडिया सुय-सारियाहिं अण्णे वि । पिक्क-फल-जंबु-णिवहा धरणियले रयण-णिवह व्व ॥
- 33 वीसमिज्जण णिवण्णा अहव णिसण्ण ट्ठिया व इच्छाए । घेतूण खाह तुब्भे वच्चह अहवा वि अण्णत्थ ॥ 33

1) J om. भगवया, P गोयम. 2) P बहुए भगवंता एक्यम्मि. 3) P inter. सयल & कम्म, P om. सहावेण. 4) P गोयम. 6) P ति असंवद्ध, J om. वद्ध. 7) J आह for अह, P लेसा, P वंधए कम्मं, P वंधइ य सुद्धलेसो, J लेस्से थोवं. 8) J तेजा for तेज, P मा for इमा, P लेसाओ. 9) P om. य, P पीवरत्ते वा l, P तं पडियं, J लीलं for णीलं. 10) P कह for तह, P फालिहयमइ व्व, J गोतमा, P जायइ ॥. 12) P वि फरसुहत्था, P दारं. 13) P om. ते, J तरुवरे, P ठावियं. 14) P भमिउं रुंभेहिं. 16) P वणच्छिंदिया, J मज्झणह for मज्झण्हे. 17) P कप्पडेण फा, J य फलियए, J अह णाओ. 18) J च्छायाणं, P गय त्ति, P-पुष्प-. 19) P काले दरपिच्चरजंबु, J वट्ट for वुट्ठ, P-महीपरयपसरियवरसुगंधवो. 20) J दिक्खो for दिट्ठो, P-रुक्खा. 21) J मंतिउं. 22) J परसु, P मूलाउं. 23) J छिण्णा पडिहिति एसो, J कुणमाणा, J पडिआए पक्खएणं, P एक्केयं for रुक्खेणं, J राजजंबूणि. 24) P एवं निसामेत्तं, J छिण्णाए इमाए तुहं कोव्व, J मूलातो. 25) J छिज्जंति इमाए इहं एआओ, J दो for हो. 26) P साहा l, P होज्ज. 27) P मा बहुयं, P कुणह for कुणह, J बुद्धि । चैवए छिंदह, P जो जस्स फले. 28) P एयं for भणियं, P हण एयं. 29) J ईस P इसी. 30) J अयाणत्तं । थोआ. 31) J तत्थ for एत्थ, J एतेहिं, P मूलाइं छेय. 32) P-पक्का पाडिया, P पक्क-. 33) P वीसमिज्जण निवण्णो, J om. अहव निसण्ण, J टिआ, J adds हि after तुब्भे.

- 1 इय ते भणिया सव्वे एयं होउ त्ति णवर भणमाणा । असिऊण समाढत्ता फलाइँ धरणीएँ पडियाइँ ॥ 1
- तित्ता तेहिं चिय ते धरणी-वडिणहिँ णवर जंबूहिँ । सरिसो से फल-भोओ पावं पुण बहु-विहं ताणं ॥
- 3 जो सो मूलं छिंदइ थोवे कज्जम्मि बहु-विहारंभो । मरिऊण कण्ह-लेस्सो अवस्स सो जाइ णरयम्मि ॥ 3
- बिदिओ सालं छिंदइ वरयरओ सो वि णील-लेसिल्लो । मरिऊण पाव-चित्तो णरयं तिरियं व अल्लियइ ॥
- तइओ वि पाव-पुरिसो भणइ पसाहाउ छिंदिमो अम्हे । कावोय-लेस्स-भावो सो मरिउं जाइ तिरिएसु ॥
- 6 जो उण चउत्थ-पुरिसो थवए सव्वे वि एत्थ अवणेह । सो तेयस-लेस्साए पुरिसो वा होइ देवो वा ॥ 6
- जो उण पंचम-पुरिसो पक्के आमे व्व गेण्हिमो सव्वे । सो पउम-लेस्स-भावो अवस्स देवत्तणं लहइ ॥
- जो उण छट्ठो पुरिसो भूमिगए गेण्हिमो त्ति सदय-मणो । सो होइ सुद्ध-भावो मोक्खस्स वि भायणं पुरिसो ॥
- 9 ता गोदम पेच्छ तुमं कजे एकम्मि जंबु-भक्खणए । छणं पि भिण्ण-भावो लेसा-भेओ य सव्वानं ॥ 9
- भिण्णो य कम्म-बंधो भिण्णा य गइँ मइँ वि से भिण्णा । एकम्मि वि वावारे वट्टता ते जहा भिण्णा ॥
- एवं जं जं कज्जं केण वि पुरिसेण काउमाढत्तं । कज्जम्मि तम्मि एया छल्लेसा होंति णायव्वा ॥
- 12 हण छिंद भिंद मारे-चूरे-चमडेह लुंपह जहिच्छं । जस्स ण दया ण धम्मो तं जाणह किण्ह-लेस्स त्ति ॥ 12
- जो कुणइ पंच-कजे अधम्म-जुत्ते व्व भणइ जो वयणे । थोवं पुण कसणयरं तं जाणह णील-लेस्सं तु ॥
- चत्तारि वियण-कजे कुणइ अकजे व्व पाव-संजुत्तो । जो धम्म-दया-जुत्तो कवोय-लेस्सं पि तं जाण ॥
- 15 जो कुणइ तिण्णि पावे तिण्णि व वयणे स कक्कसे भणइ । धम्मम्मि कुणइ तिण्णि य तेउल्लेस्सो हु सो पुरिसो ॥ 15
- काऊण दोण्णि पावे चत्तारि पुणो करेइ पुण्णाइं । णिंदइ पावारंभं तं जाणसु पउम-लेस्सं तु ॥
- एकं पावारंभं पंच य धम्मस्स कुणइ जो पुरिसो । सो होइ सुक्क-लेस्सो लेसातीओ जिणो होइ ॥
- 18 § ३७७ ) एवं च साहिए भगवया भन्वारविंद-संड-पडिवोहण-पडु-वयण-किरण-जालेण जिणवर-दिवायरेणं 18
- आबद्ध-करयलंजलिउडेहिँ सव्वेहिँ मि भणियं तियसिंदप्पमुहेहिँ । 'भगवं, एवं एयं, सद्दहामो पत्तियामो, ण अण्णहा जिणिंद-वयणं' ति भणंतेहिँ पसंसियं ति । एत्थंतरम्मि पविट्ठो समवसरणं एक्को रायउत्तो । सो य,
- 21 दीहर-भुओ सुणासो वच्छत्थल-वोलमाण-वणमालो । णिमिसंतो जाणिजइ अव्वो किर माणुसो एसो ॥ 21
- तेण पयाहिणीकओ जय-जंतु-जम्मण-मरण-विणासणो वीरणाहो । भणियं च ।
- जय मोह-मल्ल-मूरण णिस्सुंभण राय-रोस-चोराणं । जय विसय-संग-वज्जिय जयाहि पुज्जो तिहुयणम्मि ॥
- 24 पाय-पणाम-पच्चुट्ठिण य भणियं । अवि य । 24
- भगवं किं तं सच्चं जं तं दिव्वेण तत्थ मह पडियं । मंगलमंगलं पिव को वा सो किं व तं पढइ ॥
- भगवया वि आइट्टं ।
- 27 देवाणुपिया सव्वं सच्चं तं तारिसं चिय मुणेसु । सो दिव्वो तुज्ज हियं परलोए पढइ सव्वं पि ॥ 27
- इमं च सोऊण 'जइ एवं ता तं चेय कीरउ' त्ति भणंतो णिकवंतो समवसरणाओ । णिगए य तम्मि आबद्ध-करयलं-जलिउडेण पुच्छिओ भगवं गोयम-गणहारिणा । अवि य । 'भगवं,
- 30 को एस दिव्व-पुरिसो किं वा एएण पुच्छिओ तं सि । किं पडियं मंगलवाटएण अह णिगओ कत्थ ॥' 30
- एवं च पुच्छिओ अणोय-भव्व-सत्त-पडिवोहणत्थं साहिउं पयत्तो ।
- § ३७८ ) अत्थि इमम्मि जंबुहीवे भरहद्ध-मज्झिम-खंडे उसभपुरं णाम णयरं । तं च
- 33 बहु-जण-कय-हलबोलं हलबोल-विसट्टमाण-पडिसद्धं । पडिसद्ध-मिलिय-वज्जं वज्जिर-तूरोघ-रमणिज्जं ॥ 33

1 > P भणमाणा, P समारूढो फलाइँ. 2 > J तेत्तिहिँ चिय तित्ता धरणी, P धरणिपडिणहिँ, P om. से, P बहुविहत्ता ॥ 3 > P किण्ह for कण्ह, P लेसो, P जाय for जाइ. 4 > P वीउं for विदिओ, P णीय for णील, P च for व. 5 > P ततिओ, J कावोत, P लेसभावो, P मरिओ जाय तिरियं सो. 6 > J चेवए for थवए, J तेअसत्तलेस्सोए, P -लेसाए. 7 > P पउमो लेसमवो. 8 > P हायणं for भायणं. 9 > P तायम, P कज्जं, P जंबुतक्खण ।, J छणं पि, P लेसा तेउ य. 10 > P गती मती. 11 > P कम्मं केण, P एते for एया. 12 > P लपह जरिच्छं, P -लेस त्ति. 13 > J छट्ठं पुण धम्मिइं तं जाणसु णील्लेस्सं ति for थोवं पुण etc., P लेस्सो. 14 > P वयण for वियण, J अयज्जे, P व for व्व, J -जुत्ते, P कावोतलेसं. 15 > P वि for व, J तेउल्लेस्सो P तेउल्लेसो. 16 > J कोऊण for काऊण, J पावाइँ for पुण्णाइँ, P -लेसं. 17 > P पारंभं पंच, P सा for सो, P -लेसो लेसातीवे, J लेस्सातीतो. 18 > J -संद-, J पडुअ-. 19 > P -करकमलंजलेउडेहिँ, J om. सव्वेहिँ, P यद्दहामो for सद्दहामो. 20 > P सम-वसरणंमि एक्को. 21 > J अणासो P सुवेसो for सुणासो, P वलमालो । णिमिसंतो, J जाणिज्जति. 22 > J पयाहिणीकओ, P विसरणांमि एक्को. 23 > J गिस्सुंभणाराय, J पुज्जा. 24 > P पच्चुट्ठिण भणियं. 27 > P देवाणु-पिया, P मुणेसु for मुणेसु. 28 > P om. य. 29 > J गोतम-. 30 > P पुच्छिउं, P अण्ण for अह. 31 > J adds य after पुच्छिओ, P सव्व for भव्व. 32 > P मज्झिमे. 33 > P विसट्टमाणहमाणपडिसद्धं, P वज्जिरवतूरोघ-

- 1 तत्थ य राया सूरु धीरो परिमलिय-सत्तु-संगामो । णामेण चंदगुत्तो गुत्तो मंते ण उण णामे ॥ 1  
तस्स य पुत्तो एसो णामेण इमस्स वहरगुत्तो त्ति । संपद्द इमस्स चरियं साहिप्पंतं णिसामेह ॥
- 3 तस्स य चंदगुत्तस्स अण्णम्मि दियहे पायवडण-पच्चुट्टियाए विण्णत्तं पडिहारीए 'देव, दुवारे सव्व-पुर-महल्लया देवस्स 3  
चलण-दंसण-सुहं पत्थेंति, सोउं देवो पमाणं' । भणियं च ससंभमं णरवड्ढणा 'तुरियं पवेसेसु णयर-महल्लए' त्ति । णिग्गया  
पडिहारी, पविट्ठा महल्लया, उप्पियाणि दंसणीयाणि । भणियं च णरवड्ढणा 'भणह, किं कज्जं तुम्हागमणं' त्ति । तेहिं भणियं  
6 'देव, उभय-वेळं चेष इट्ठ-देवयं पिव दंसणीओ देवो, किंतु णत्थि प्पत्तिए पुण्ण-विसेसे, अज्जं पुण सविसेसं दंसणीओ' 6  
त्ति । राड्ढणा भणियं 'किं तं कज्जं' । तेहिं भणियं 'देव, दुर्वलानां वलं राजा ।' इत्ति । ता अण्णिसावेउ देवो दिव्वाए  
दिट्ठीए उसभपुरं, जो को वि ण मुसिओ । देव, जं जं किंचि खोहणं तं तं राड्ढेए सव्वं हीरड्ढ । जं पि माणुसं किंचि  
9 सुंदरं तं पि देव णत्थि । एवं ठिए देवो पमाणं' त्ति । राड्ढणा भणियं । 'वच्चह, अकाल-हीणं पावेमि' त्ति भणंतेण तेण 9  
पेसियां णयर-महल्लया । आड्ढो पडिहारो 'तुरियं दंडवासियं सदावेह' । आएसणंतरं च संपत्तो दंडवासिओ । भणियं  
च तेण 'आइसउ देवो' त्ति । राड्ढणा भणियं 'अहो, णयरे कीस एरिसो चोर-उवड्ढवो' त्ति । तेण भणियं । 'देव,  
12 ण य दीसड्ढ हीरंतं चोरो वि ण दीसए भमंतेहिं । एक-पए चिय सुव्वइ गोसे सयलं पुरं मुसियं ॥ 12  
ता देव बहु-वियप्पं अम्हे अणुरक्खिओ ण उवलद्धो । अण्णस्स देउ देवो आएसं जो तयं लहड्ढ ॥'  
इमम्मि य भणिए राड्ढणा पलोइयं सयलं अत्थाणि-मंडलं । तओ वहरगुत्तो समुट्ठिओ, भणिओ य तेण चलण-पणाम-  
15 पच्चुट्टिएण राया । 'देव, 15  
जह् सत्त-रत्त-मज्जे चोरं ण लहामि एत्थ णयरम्मि । ता जल्लिधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥  
ता देव कुणसु एयं मज्ज पसायं ति देसु आदेसं । पढमो चिय मज्ज इमो मा भंगो होउ पणयस्स ॥'  
18 विण्णत्ते वहरगुत्तेण राड्ढणा चंदउत्तेण भणियं । 'एवं होउ' त्ति भणिय-मेत्ते 'महापसाओ' त्ति पडिविण्णं कुमारेण । वोलीणो 18  
सो दियहो, संपत्तो पओस-समओ । तत्थ य णिम्मज्जियं परियरं जारिसं राड्ढेए परिभमणोइयं । तं च काउं णिग्गओ  
रायतणओ मंदिराओ । पूरियं च पउट्ठे वंसुणंदयं । करयल-संगहियं च कयं खग-रयणं । तओ णिहुय-पय-संचारो परिभभिउं  
21 समाढत्तो । केसु पुण पएसेसु । अवि य । 21  
रक्खामुह-गोउर-चच्चरेसु आराम-वह-तलाएसु । देवउलेसु पवासु य वावीसु मडेसु णीसकं ॥  
एवं च वियरमाणस्स वोलीणा छट्ठा राड्ढे तह वि ण कोइ उवलद्धो दुट्ठ-पुरिसो । तओ सत्तमए य दियसे चित्तियं  
24 वहरगुत्तेण 'अहो, अमाणुसं किं पि दिव्वं कम्मं, जेण पेच्छ एवं पि अणुरक्खिज्जंतो तह वि ण पाविज्जह चोरो । ता 24  
को एत्थ उवाओ होहि त्ति । पच्चूसे य मज्ज पड्ढणा पूरड्ढ । अवि य ।  
जह् सत्त-रत्त-मज्जे चोरं ण लहामि एत्थ णयरम्मि । ता जल्लिधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥  
27 ता आगओ मज्ज मच्च अपूर-पड्ढणो हं । ता सव्वहा अज्ज राड्ढेए मसाणं गंतूण महामंसं विकेज्जण कं पि वेयाळं आराहिज्जण 27  
पुच्छामि जहा 'साहसु को एत्थ चोरो' त्ति, अण्णहा णीसंसयं मज्ज मरणं' त्ति । वोलीणो सो दियहो । संपत्ता राड्ढे ।  
णिग्गओ रायतणओ राड्ढेए णगरीए संपत्तो महामसाणं ।  
30 § ३७९ ) तत्थ य काज्जण कायव्वं उक्कत्तियं असिधेणूए ऊरुसु, णिययं महामंसं गहियं हत्थेण, भणियं च तेणं । 30  
'भो भो रक्ख-पिसाया भूया तह वंतरा य अण्णे य । विकेमि महामंसं घेप्पउ जह् अत्थि ते मोळं ॥'  
एवं च एक-वारं दुइयं तहयं पि जाव वेलाए । उद्धाड्ढओ य सद्दो भो भो अह गेण्हिमो मंसं ॥

1 > P वीरो for धीरो, P परिमलियसत्तुसंगामे, P om. गुत्तो, P मंतेण न उण. 2 > P वयरगुत्तो. 3 > P -पच्चुट्टियाए.  
4 > P नयरे महल्लए. 5 > J उप्पियाणि P उप्पयाइं, P दंसणीयाइं, J om. च, P om. तेहिं भणियं. 6 > P उभयवेयं,  
P इत्तिओ पुत्रविसेसो. 7 > P om. तं before कज्जं, J दुर्वलानां, P दुर्वलानामनाथानां बालवृद्धतपस्विनां । अनार्थे [ : ]  
परिभूतानां सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥, P om. इत्ति. 8 > J कोइ ण, J किंपि for किं चि, P किंपि सुंदरं. 9 > P ट्टिए, J om. तेण. 10 > P  
आइसो. 11 > J आइसु त्ति, P om. अहो, P om. देव. 12 > P हीरंतो, P भमंतमि, P गोस सयलं. 13 > P अम्हे आर-  
क्खिओ, J adds उण after ण, P आएसो. 14 > P om. राड्ढणा, P सयलमत्थाणमंडवं, J adds अत्थं after सयलं, J वेरगुत्तो,  
P समट्ठिओ अ भणिओ, P पणाममच्चुट्टिएण. 15 > J adds अवि य after देव. 16 > P om. रत्त, P ता जल्लिधण, P जलणे  
पविस्तामि. 17 > J एवं for एयं, J ति देव आएसं. 18 > P om. राड्ढणा चंदउत्तेण. 19 > P निम्मिजयपरियरं, J राड्ढे परि°  
J काज्जण for काउं. 20 > P खयरयणं, P निहुयपयं. 22 > P तह लाएसु. 23 > P वोलीण, P राती, P कोवि उवलद्धो, P om.  
दुट्ठपुरिसो, P सत्तमे य दिवसे. 24 > P अमाणुसो. 25 > J होहि, P अपूरमाणस्स for पूरड्ढ. 26 > P चोरो न, J णयरंमि,  
P जल्लिधण, P जलणे पविस्तामि. 27 > J अपूरड्ढ, P अ for अज्ज, J महामासं, P किंपि, J वेअरं for वेयाळं, P साहिज्जण for  
आराहिज्जण. 28 > J से for सो, P संपत्त. 29 > P रायतओ नगरीए, J णयरीए, P जहामसाणं. 30 > P repeats काज्जण,  
P उक्कत्तियं, J णिअयमहामासं. 31 > P रक्खस, J भूता, J तथ वंतरा व अण्णे वा, J अत्थि सेम्मोळं. 32 > J एकं, J महामंसं  
for मंसं.

- 1 पहाइओ रायतणओ तं दिसं 'को इहं गेणहइ मंसं' । वेयालेण भणियं 'पेच्छामि केरिसं मंसं' । कुमारेण भणियं ।  
 'एयं मंसं गेणहसु जिग्घसु चक्खसु सुरहिं मिट्ठं च । ता मह देज्जसु तुट्ठो जं दायव्वं इहं मोल्लं ॥'
- 3 ति भणिए पसारिओ हल्यो वेयालेणं । णिक्खित्तं तस्स करयले मंसं कुमारेण । तओ तेण आसाइऊण भणियं ।  
 'ओ भो एयं आमं णिस्सत्तं विस्सगंधियं एयं । णाहं गेणहामि इमं जइ पकं देसि अग्गीए ॥'  
 रायउत्तेण भणियं ।
- 6 'पकं देमि जहिच्छं पयट्ट वच्चासु इह चित्तिं जाव । उक्कत्तिय पक्क-रसं देमि अहं भुंज तं तत्थ ॥'  
 वेयालेण भणियं 'एयं होउ' त्ति भणंता उवगया दोणिण वि तक्खण-पलीविय-चिय-समीवं । तत्थ य 'णिसम्मसु भुंजसु'  
 त्ति भणंतेण रायतणएणं उक्कत्तियं अण्णं महामंसं, पोइय-संठए पकं, पणामियं तस्स वेयालस्स । गहियं तेण भुत्तं च ।
- 9 § ३८० ) एत्थंतरम्मि पुच्छिओ भगवं महावीर-जिणिंदो गोदम-सामि-गणहारिणा 'भगवं, किं पिसाया रक्खसा 9  
 वा देव-जोणिया इमे महामंसं अण्णं वा कावलियं आहारं आहारंति' । भगवया समाणत्तं 'गोदमा ण समाहारंति' ।  
 भणियं गोयमेण 'भगवं, जइ ण आहारंति, ता कीस एयं महामंसं तेण असियं ति भण्णइ' । भगवया समाइट्ठं 'पयइए  
 12 इमे वंतरा केलीगिल-सहावा वाल व्व होंति । तेण पुरिसेहि सह खेलंति, सत्तवंतं च दट्ठूण परितोसं व्वंति, वलियं पिव 12  
 महं रायउत्तं, तस्स सत्तं णाणा-खेलावणाहिं परिक्खंति । तेण मंसं किर मए भुत्तं ति देसेंति, तं पुण पक्खिवंति । तेण  
 पक्खित्तं तं मासं । पुणो भणियं वेयालेण । अवि य ।
- 15 भो भो एयं मासं णिरट्ठियं णेय सुंदरं होइ । जइ देसि अट्ठि-सरिसं भुज्जं तं कडयडारारवं ॥ 15  
 कुमारेण भणियं ।  
 भुंजसु देमि जहिच्छं मंसं वा अट्ठिएहिं समयं ति । एयं चेय भणंतेण कप्पिया दाहिणा जंवा ॥
- 18 छूढा चित्तणले, पक्का उप्पिया वेयालस्स । पक्खित्ता तेण । भणियं पुणो । 18  
 भो भो अलं इमेणं संपइ तिसिओ पियामि तुह रुहिरं । पियसु त्ति भाणिऊणं कुमारेण विचारियं वच्छं ॥  
 तं च रुहिरं पाऊण पुणो वि भणियं । अवि य ।
- 21 'एयं जं तुज्झ सिरं छिण्णं करवत्त-कत्तिय-विरिकं । माणुस-वस-रुहिरासव-चसयं मह सुंदरं होइ ॥' 21  
 कुमारेण भणियं ।  
 छेत्तूण देमि तुज्झं जं पुण करवत्त-कत्तरण-कम्मं । तं भो सयं करेज्जसु एत्तिय-मेत्तं महायत्तं ॥
- 24 ति भणमाणेण कवाल्लो कंत-कसिण-कौतला-कलावो वाम-हत्थेण दाहिण-हत्थेण य छेत्तूण पयत्तो असिधेणूए । ताव य 24  
 हा-हा-रव-सइ-मुहलो उद्धाइओ अट्ट-हासो गयणंगणे । भणियं च तेण वेयालेण । अवि य ।  
 'एएण तुज्झ तुट्ठो अणण-सरिसेण वीर-सत्तेण । ता भणसु वरं तुरियं जं मग्गसि अज्ज तं देमि ॥'
- 27 कुमारेण भणियं । 27  
 'जइ तं सि मज्झ तुट्ठो देसि वरं णिच्छियं च ता साह । केण मुसिज्जइ णयरं चोरो भण कत्थ सो तुरियं ॥'  
 तेण भणियं ।
- 30 'एसा महइ-महल्ला वीर तए पुच्छिया कहा ष्णिंह । तुह सत्त-णिज्जिएणं साहेयव्वं मए वस्सं ॥ 30  
 लद्धो वि णाम चोरो कुमार भण तस्स होज्ज को मल्लो । दिट्ठो वि सो ण दीसइ अह दिट्ठो केण गहियव्वो ॥'  
 तओ 'कीस ण घेप्पइ' त्ति चिंतयंतेण पुलइयं अत्तणो देहं जाव सव्वंग-संपुण्णं अक्खयं सुंदरयरं ति । भणियं च कुमारेण ।
- 33 'ओ भो, 33  
 पेच्छामि परं चोरं एत्तिय-मेत्तं सि पुच्छिओ तं मे । घेप्पइ ण घेप्पइ व्वा एत्थ तुहं को व वावारो ॥'  
 तेण भणियं ।

1 > P om. रायतणओ, J केरिसं मासं. 2 > J मासं, P जिग्घसु भक्खसुरभि मिट्ठं च, J adds जइ तुमं पडिहाइ before सुरहिं, P ता मेह. 3 > J मासं. 4 > J थोअं P एवं for एयं, P णिस्सायं विस्सगंधेयं. 6 > P जदिच्छं, P पक्करिसं. 7 > P दो for दोणिण, P om. य, J पलीविअं. 8 > P उक्कित्तियं, J महामासं, P पोइयं सोउए पकं, P om. तस्स, J om. भुत्तं च. 9 > P om. भगवं, P गोतम-, P पिसाता रक्खरा वा. 10 > P इमं, J महामासं, P वा कालियं, P om. आहारं, J आहारंति, P गोयमा णो आहारंति.. 11 > J गोदमेण, P जइ णा, J महामासं, P om. ति. 12 > P केलीकिल, P पुरिसेण सह. 13 > J महारायउत्तं P महं रायउत्ता, P तंच for तस्स, P परिक्खवंति, P परिक्खवे for पक्खिवंति, P om. तेण पक्खित्तं तं मासं etc. to तं कडयडारारवं ॥ 14 > J तम्मासं. 17 > J मज्झं P तुज्झं for मंसं, P सि for ति. 18 > J वूढा for छूढा, J inter. पुणो and भणियं and adds अवि य. 19 > J इमिणा संपइ, J भणिएण, J कुमारेण. 20 > P om. वि. 21 > J -किरिक्कं, P सुह for मह. 23 > P देइ, J तुहं for तुज्झं, J कत्तणं कम्मं, P को for भो, J महापत्तं ॥ 24 > P repeats दाहिण, P घेत्तूण for छेत्तूण, P om. अवि य. 26 > P एतेण, P अणणसरिसेत्तेण. 28 > P निच्छयं ति ता, P मुणिज्जइ. 30 > J महति-, P तु for तुह, P साहे-यव्वो. 31 > P गहियव्वो ॥ 32 > P om. तओ, P चिंतियंतेण पलोइइं, P सव्वंगं, P अक्खरसुंदरयं ति. 34 > P पुच्छिउं, P घेप्पइ वा.

- 1 'णं वप्पो तस्सग्हे पुरओ ठाउं पि णेय चाएमो । जो पुण तस्सावासो तं दूरत्था पयंसेमो ॥' 1  
कुमारेण भणियं ।
- 3 'जइ तं मज्झ ण साहसि आवासं मज्झ तं चिय कहेसु । रक्खामि ताव तं चिय जा दिट्ठो सो वि तत्थेय ॥' 3  
तेण भणियं 'जइ एवं ता गिसुणेसु ।  
जो एस मसाण-वडो आरुहिउं एत्थ कोत्थरो अत्थि । तं चेय तस्स दारं चोरावासस्स हो वीर ॥'
- 6 § ३८१) इमं च सोऊण पविरेल-पयच्छोहो पहाइओ तं चेय दिसं रायतणओ, संपत्तो तं च वड-पादवं । अवि य । 6  
इय वहल-पत्तलं तं साह-पसाहा-लुलंत-घर-जालं । बहु-पसरिय-पारोहं मसाण-वड-पायवं पत्तो ॥  
तं च दट्ठूण आरुढो कुमारो, अण्णेसिउं पयत्तो तं च कुडिच्छं । कत्थ ।
- 9 साहासु पसाहासु य मूल-पलंवेसु पत्त-णियरेसु । गिक्कड्ढिय-करवालो विलस्स वारं पलोएइ ॥ 9  
कहं पुण पलोइउं पयत्तो । अवि य ।  
परिसुसइ करयलेहिं पायं पक्खिवइ जिंघए गंधं । खण-णिहुयंगो सइं इच्छइ सोउं कुडिच्छेसु ॥
- 12 एवं च पुलोएतेण एक्कम्मि कुडिच्छ-समीवे उवणीयं वयणं, जाव 12  
णिम्महइ धूव-गंधो कुकुम-कप्पूर-मासलुग्गारो । उच्छलइ तंति-सदो वर-कामिणि-गीय-संवल्लिओ ॥  
तं च सोऊण अग्घाइऊण य चित्तियं राय-तणएण । अच्चो,
- 15 लइं जं लहियव्वं दिट्ठं चोरस्स मंदिरं तस्स । तस्स य महं च एण्ह जो वलिओ तस्स रज्जमिणं ॥ 15  
इमं च चित्तिऊण पविसिउं समाढत्तो । थोवंतरं च जाव गओ ताव  
वहु-णिज्जूहय-सुहयं आलय-चुंपाल-वेइया-कलियं । धुवंत-धयवडायं वर-भवणं पेच्छए कुमरो ॥
- 18 तं च दट्ठूण रहस-वस-विसेस-पसरिय-गइ-पसरो पविट्ठो तं भवणं । केरिसं च तं पेच्छइ । अवि य । 18  
फालिह-रयण-मयं पिव णाणा-मणि-चुण्ण-विरइयालेक्खं । कंचण-तोरण-तुंगं वर-जुवई-रेहिर-पयारं ॥  
चित्तियं च तेण 'अहो महंतं इमं भवणं' । 'कत्थ दुरायार-कम्मो होहिइ चोरो' त्ति चित्तियंतेण दिट्ठा एक्का जुवई ।
- 21 केरिसा । अवि य । 21  
णीलुप्पल-दीहच्छी पिहुल-णियंवा रणंत-रसणिळा । अहिणव-तुंग-थणहरा देवाण वि मणहरा बाला ॥  
तं च दट्ठूण चित्तियं रायतणएण । 'अहो एसा तुरिय-पय-णिकखेवं तस्सेव आप्सेण पत्थिया, ण ममं पेच्छइ, ता किंचि
- 24 सइं करोमि जेण ममं पेच्छइ' त्ति । भणियं तेणं । अवि य । 24  
'गरुओ सिहिणाण भरो तणुयं मज्झं ति सुयणु चित्तेसु । मा गमण-वेय-पहया भरेण कणइ व्व भज्जिहिसि ॥'  
तं चिय सहसा सोऊण कह तीए पुलइयं । सुण ।
- 27 संभम-विलास-मीसं वलिउं अइ-दीह-लोयण-तिभायं । तह तीए पुलइओ सो जह भिण्णो मयण-वाणेहिं ॥ 27  
§ ३८२) तं च तहा दट्ठूण संभम-भयाणुराय-कोउय-रस-थंभिया इव ठिया । तं च तारिसं दट्ठूण चित्तियं  
रायतणएण । 'अहो,
- 30 जत्तो विलोल-पम्हल-धवलइ वलंति णवर णयणाइं । आयण-पूरिय-सरो तत्तो चिय धावइ अणंगो ॥' 30  
किं च इमाए पुच्छामि किंचि पुच्छियव्वं' ति भणिया ।  
'को य इमो आवासो का सि तुमं सुयणु को इहं णाहो । कत्थ व सो किं व इमो गायइ महिलायणो एत्थ ॥'

1) P ण for णं, P पुरउ हाउं पि णेय वाएमो, P जं for जो. 3) P दिट्ठा, P तत्थेवा. 6) P -पवित्थोहो, P om. च.  
7) P अइ for इय, P पत्तलवं तं, J -ललंतघरयालं. 8) P om. च before कुडिच्छं. 9) P विलस्स दारं पलोएत्ति ॥, 12) P  
पलोइएतेण, P कुडिच्छय-. 13) P गिस्सइ for गिम्महइ. 14) J अग्घाइऊण, P om. य, P अवो for अवो. 15) P  
तस्स रज्जं तु ॥. 16) P adds अवि य before थोवंतरं, JP add पेच्छइ after ताव. 17) P adds तु before आलय,  
P पालयगरुथवेइताकलियं ।. 18) J वससविसेस, J inter. तं & च after केरिसं. 19) J हालिय P फालिह for फालिह, P  
रयणामयं, P रेहिर for तोरण. 21) J om. च, J होहिति P होहि त्ति, P चित्तियं तेण, P adds आए before दिट्ठा, P om.  
एक्का. 22) P नीलुप्पील, P वि महणरा. 23) P पयनिकखेवो, J तस्सेव. 24) P भणिया. 25) P सुयण, P trans.  
भरेण after कणइ व्व, P कणय व्व- 26) P च for चिय, J कय तीय पुलं, P सुयणुं for सुण. 27) P वलियं, J तीय for  
तीए. 28) P थंभिय इव वट्ठिया. 30) P आइव, 31) P किं वा इमा. 32) J को व इमो, J adds हो before कत्थ,  
P कत्थ वि सो.

- 1 तीए भणियं । 'सुंदर,  
जो जं जाणइ थाणं अह सो पावेइ तं सकजेणं । कह तं अयाणंतो चिय एत्तिय-मेत्तं अइगओ सि ॥'
- 3 तेण भणियं ।  
'अयाणंतो चिय मूढो कह वि तुलग्गेण पाविओ एत्थ । ता साहसु परमत्थो को एत्थ पहु कहिं सो वा ॥'  
तीए भणियं ।
- 6 'जइ तं पंथ-विमूढो कत्तो णयराओ आगओ एत्थ ।' भणियं च तेण 'सुंदरि उसभपुरा आगओ अहयं' ॥  
तीए भणियं ।  
'जइ तं उसभपुरे चिय किं जाणसि चंदउत्त-णरणाहं । पुत्तं च वइरगुत्तं सुहयमंगं व रुवेणं ॥'
- 9 तेण भणियं ।  
'सुंदरि कहं वियाणसि रुवं णामं च ताण दोणहं पि ।'  
तीए भणियं ।
- 12 'किं तेण बोलियं तं आसि गुलो खाइओ एण्ह ॥'  
तेण भणियं ।  
'सुंदरि साहेसु फुडं ताणं किं होसि किंचि पुरिसाणं । कह व वियाणसि ते तं केण व हो पाविया एत्थं ॥'
- 15 तीय भणियं ।  
'सावत्थी-णरवइणो धूया हं वलहा सुरिंदस्स । बाल चिय तेणाहं दिण्णा हो वइरगुत्तस्स ॥  
एत्थंतरम्मि इमिणा विजासिद्धेण सुहय केणावि । हरिउण एत्थ कत्थ वि पायालयलम्मि पक्खत्ता ॥
- 18 जाणामि तेण ते हं णामं रुवं च ताण णिसुयं मे । णाहं एक्का हरिया महिलाओ एत्थ बहुयाओ ॥'  
तेण चित्तियं । 'अहो, एसा सा चंपयमाला ममं दिण्णा आसि, पच्छा किर विजाहरेणावहरिया णिसुया अम्हेहिं, ता सुंदरं जायं, दे साहिमो इमाए सब्भावं' । चित्तिउण भणियं तेणं ।
- 21 'सो वइरगुत्त-णामो पुत्तो हं सुयणु चंदगुत्तस्स । एयं विजासिद्धं अणिसमाणो इहं पत्तो ॥  
ता साह कत्थ संपइ विजासिद्धो कहं व हंतव्वो । मह किंचि साह मम्मं जइ णोहो अत्थि अम्हेसु ॥'  
तीए भणियं ।
- 24 § ३८३ ) जइ तं सि वइरगुत्तो ता पिययर सुंदरं तए रइयं । साहामि तुज्ज सव्वं जह सो मारिजए पावो ॥  
जं जं परम-रहस्सं सिद्धं वसुणंदयं च खगं च । एत्थं चिय देवहरे अच्छइ तं ताव तं गेणह ॥  
गहिएहिं तेहिं सुपुरिस अल-छिण्णो विच्चुओ व्व सो होही । अह तं पावइ हत्थे उप्पइओ केण दीसेज्ज ॥
- 27 रायउत्तेण भणियं 'ता सुंदरि, साहसु कहं पुण सो संपइ वइइ विजासिद्धो । तीए भणियं 'कुमार, राईए सो ममइ, 27  
अत्थमिए महिलं वा अण्णं वा जं किंचि सुंदरं तं अक्खवइ । दियहओ उण एत्थ बिल-भवणे महिला-वंद-मज्झनाओ  
अच्छइ । ता संपइ णत्थि सो एत्थ । अह सो होइ ता अत्थि तुमं अहं च एवं अवरोप्परं वीसत्था आलावं करेता ।' तेण
- 30 भणियं 'जइ सो णत्थि ता कीस एयाओ महिलाओ गायंति' । तीय भणियं ।  
'सुंदर तेणेय विणा इमाओ हरिसम्मि वट्टमाणीओ । गायंति पढंति पुणो रुयंति अण्णाओ णच्चंति ॥'  
तेण भणियं ।
- 33 'सुंदरि साह फुडं चिय विजासिद्धस्स मज्झ दोणहं पि । को होहिइ एयाणं वेसो व्व पिओ व्व हिययस्स ॥'  
हसिउण तीए भणियं ।  
'अइ सुद्ध किं ण-याणसि महिला-चरियं वियाणियं केण । गामेल्लओ व्व पुच्छसि महिल चिय महिलिया-हिययं ॥

2 > J तं तं for अह, J पावइ अ कजेणं, P अह तं अयाणंतो. 4 > P अयाणंतो, P कह व, P कव हिं for कहिं. 6 > P आहयं ॥ 8 > P चि for चिय, J च वेरगुत्तं संगमंगं व, P वइरइगुत्तं सुहयमंगं. 11 > J तेण for तीए. 12 > J खइदओ for खाइओ. 13 > P om. तेण भणियं. 14 > P वि for व, P inter. तं and ते, P केण वि हो. 15 > P om. तीय भणियं. 17 > P विज्जो, P पायालवलंमि. 19 > P विजाहरेण अवहरिया, J णिसुय, P सुरं for सुंदरं. 21 > P 'गुत्तनामा P सुयण चंद'. 22 > P किंचि साहसु तुमं. 24 > P जं for जइ, J सुंदर for पिययर, P पियय सुंदरं, P रइ for रइयं, P om. साहामि तुज्ज सव्वं जह etc. to चंचलहियपेम्माओ इमाओ. This passage is reproduced in the text with ya-sruti and minor corrections etc. from J alone. 26 > J अलच्छिण्णो.

- 1 घेष्यद् जलस्मि मच्छो पक्खी गयणस्मि भिज्जए राहा । गहियं पि विहडइ च्चिय दुग्गेज्झं महिलिया-हिययं ॥ 1  
वेस्सं पि सिणेहेण वि रमंति अइवल्लहं पि णिण्णेहा । कारण-वसेण णेहं करंति णिकारणेणं पि ॥
- 3 रामंति विरुवं पि हु रूविं पुण परिहरंति दूरेण । रूव-विरूव-वियप्पो हियए किं होइ एयाण ॥ 3  
वीहंति पंडियाणं कुमार लज्जंति रूवमंतस्स । वंके वंचेति पुणो उज्जय-सीलं उवयरंति ॥  
रज्जंति अस्थवंते रत्ते पुण परिहरंति रोर व्व । जाणंति गुणा पेम्मं करंति ते णिग्गुणे तह वि ॥
- 6 सूरं जाणइ पुरिसं तहा वि तं कायरं समल्लियइ । जाणंति जं चिरत्ते घडेति पेम्मं तहिं चये ॥ 6  
गुण-रहिणं वि हु पेम्मं पेम्म-पराओ वि तं णिसुंभंति । हंतूण तं सयं चिय जलणे पविसंति तेणेय ॥  
सव्वे जाणंति गइं अत्तत्तणयाण सुदिह-हिययाण । महिला णिययस्स पुणो हिययस्स गइं ण-याणंति ॥
- 9 इय विज्जु-विलसियं पिव खर-पवणुद्धय-धयवडाचलणं । महिलाण हियय-पेम्मं कुमार को जाणितं तरइ ॥ 9  
तह वि एत्तियं लक्खेमि जइ तुमं पेच्छंति ता अवस्स तुमस्मि गेहो जायइ । अण्णं च सव्वा इमाओ उसभपुर-  
वत्थव्वाओ तुमं च दट्टूण अवस्सं पच्चभिजाणंति, तेण इमाणं दिज्जउ दंसणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, तं ताव  
12 सिद्ध-वसुणंदयं खग्गं च समप्पेसु, ता पच्छा दंसणं दाहामि' । तीए भणियं 'एवं होउ' त्ति । 'केवलं कुमारेण एयस्मि 12  
चेय पएसे अच्छियच्चं जावाहं तं खग्ग-खेडयं घेतूण इहागच्छामि' त्ति भणितं गया । कुमारो वि तस्मि ठाणे अच्छित्तं  
पयत्तो । चित्तियं च तेण । 'अहो, संपयं चिय इमीय चये साहियं खर-पवणुद्धय-धयवड-चंचल-हियय-पेम्माओ इमाओ  
15 महिलियाओ होंति, ता कयाइ इमा गंतूण अण्णं किं पि संतं मंतिज्जण ममं चये णिसुंभणोवायं कुणइ । ता ण जुत्तं मम 15  
इहं अच्छिज्जणं' ति चित्तयंतो अण्णत्थ संकंतो, आयारिय-खग्ग-रयणो पूरिय-वसुणंदओ य अच्छित्तं पयत्तो । थोव-वेलाए  
य आगया गहिय-वसुणंदया गहिय-खग्ग-रयणा य । पलोइए तस्मि पएसे, कुमारो ण दिट्ठो । तओ तरल-तार-पम्हल-वलंत-  
18 लोयणा पलोइउं पयत्ता । भणिया य कुमारेण । 'एहि एहि सुंदरि, एस अहं अच्छामि' भणिया संपत्ता । तीए भणियं 18  
'रायउत्त, कीस इमाओ ठाणाओ तुमं एत्थ संपत्तो' । तेण भणियं । सुंदरि, णणु तुमए चये साहियं जहा 'चंचल-  
पेम्म-वंधाओ होंति जुवईओ' । तेण मए चित्तियं 'कयाइ कहं पि ण भिरुइओ होमि, ता णिहुयं होऊण पेच्छामि को  
21 वुत्तंतो त्ति तेण चलिओ हं' । तीए सहरिसुफुल्ल-लोयणाए भणियं । 'कुमार, जोगो पुहइ-रज्जस्स तुमं जो महिलाणं ण 21  
वीसंभसि' त्ति । सव्वहा,

भुयगस्स व मुह-कुहरे पक्खिव ता अंगुली सुवीसत्थो । महिला-चंचल-भुयईण सुहय मा वच्च वीसंभं ॥

- 24 ता सुंदरं कयं, जं चलिओ सि । गेणहसु एयं वसुणंदयं खग्ग-रयणं च ।' णिक्खित्तं वसुमईए । रायउत्तेणावि णिययं 24  
विसज्जिज्जण ति-पयाहिणं वंदिज्जण गहियं तं वसुणंदयं दिव्वं खग्ग-रयणं च । तओ गहिय-खग्ग-रयणो केरिसो सो दीसिउं  
पयत्तो । अवि य ।
- 27 विजाहरो व्व रेहइ तक्खण-पडिचण्ण-खग्ग-विजाए । संपइ उप्पइओ इच विजाहर-वालियाएँ समं ॥ 27  
तओ तीए भणियं 'विजयाय होउ कुमारस्स एयं खग्ग-रयणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, साहसु संपयं कथ सो  
दट्ठवो विजासिद्धो' त्ति । तीए भणियं 'कुमार, तुमं केण मग्गेणेत्य पविट्ठो' । तेण भणिण 'वड-पायव-विलेण' । तीए  
30 भणियं 'णाहं किंचि जाणामि, परं एत्तियं पुण जेण दारेण तुमं आगओ तेणेय सो वि आगमिस्सइ' त्ति । ता जाव इमिण्ण 30  
मग्गेण पढमं उत्तिमंगं पेसेइ, ता तं चये छेत्तव्वं । अण्णाहा दुस्सज्जो पुण होहिइ' त्ति । कुमारेण भणियं । 'एवं होउ'  
त्ति भणिज्जण आयरिय-खग्ग-पहारो ठिओ विल-दुवारो ।

2 > J सिणेहेणं. 3 > J हिययंभि for हियए. 15 > J कयाइ मा P कयावि मा, J कंभि for किंपि, P णिसुंभणावायं. 16 > P  
om. ति, P पायट्टिय for आयारिम, J य पुच्छित्तं. 17 > P om. य before आगया, P om. गहिय before खग्ग, P रयणे य ।  
पलोइओ, P तओ तारतरलपंतलवलंत. 18 > P संपत्ती. 19 > P ट्ठाणाओ, P एस for एत्थ, J om. णणु, P मए for तुमए.  
20 > J पेम्मावंधाओ, P जुवतीउ, P कया वि कहिं पि, P om. ण भिरुइओ होमि, J तेण for णिहुयं होऊण. 21 > P om. त्ति, P  
ण for तेण, P सहरिसुफुल्ल, P भणितं, P om. पुहइरज्जस्स, P om. जो. 23 > P पक्खिवि, P य for ता, P भुयंगीण सुह मा.  
24 > J जं वलिओ, P वसुणंदयं, P वसुमतीए. 25 > J om. ति, P om. दिव्वं, P रयणा before केरिसो, P om. सो before  
दीसिउं. 26 > P तक्खण, P सम्मं ॥. 28 > J तीय for तीए, P विजाओ for विजयाय, P om. एयं, P om. साहसु, J om. सो.  
29 > J तीय, P केणे मग्गेण पविट्ठो, J तीय. 30 > P वारं for परं, J तेणय, P om. वि. 31 > P पेसइ, P दुस्सज्जो, P om.  
पुण, J होइ त्ति P होहिति त्ति. 32 > J ट्ठिओ.



- 1 § ३८४) एत्यंतरम्मि किंचि-सेसाए राईए वियलमाणेसु तारा-णियरेसु पलायंतेसुं तम-वंदेसु दूरीहूयासु सयल- 1  
दिसासु पहायं ति कलिऊण परिभमिऊण धवलहरोवर-अंतेउर-चच्चर-रच्छासु उसभपुरवरस्स समागओ । तस्सेव 1  
3 राय-तणयस्स एकल-पसुत्तं भारियं घेत्तूण पविट्ठो य तं बिलं । तं च पविसंतं दट्टूण धाहावियं राय-धूयाए । 3  
'हा वइरगुत्त-सामिय एसा सा तुज्ज महिलिया अहयं । गहिया केण वि धावसु रक्खस-रुवेण रोहेणं ॥  
चंपावइ-गामा हं महिला हा वइरगुत्त-गामस्स । एसा हीरामि अहं सरण-विहीणा वराइ व्व ॥'  
6 एवं च तीए विलवंतीय भणिया विज्जासिद्धेणं । 6  
'ओ कस्स होइ सरणं कथं घ सो किं व तेण करणिज्जं । जइ तं पावेमि अहं तुह दइयं तं चिय अस्सामि ॥'  
त्ति भणंतो णिसुओ कुमारेण । 'अहो, एस दुरायारो भागओ सो मह महादेवी घेत्तूण । ता दे सुंदरं जायं सलोत्तो एस  
9 चोरो' त्ति चिंतयंतस्स णीहरियं उत्तिमंगं बिलाओ सिद्धस्स । चिंतियं कुमारेणं 'एयं उत्तिमंगं छिंदासि । अहवा णहि णहि । 9  
किं जुज्जइ पुरिसाणं छल-घाओ सब्बहा ण जुत्तमिणं । पेच्छामि ताव सत्ती इमस्स ता णवर सिद्धस्स ॥'  
चिंतयंतो णिक्खंतो बिलाओ, भणियो य कुमारेण । 'रे रे पुरिसाहम, अवि य,  
12 जइ तं विज्जासिद्धो वट्टसु णाएण एत्थ लोगम्मि । जं पुण राय-विरुद्धं करेसि किं सुंदरं होइ ॥ 12  
ता जं चोरेसि तुमं राय-विरुद्धाई कुणसि कम्माइं । तेणेस णिगहिज्जसि अह सज्जो होसु सत्तीए ॥'  
एवं च राय-तणयं पेच्छिऊण चिंतियं विज्जासिद्धेण 'अहो, एस सो वइरगुत्तो, कहं एस सयं पत्तो । विणट्ठं कज्जं ।  
15 ता किं इमिणा बलेणं ।' चिंतियं तेण, भणियं च । 15  
केणेत्य तुमं छूढो कयंत-वयणे व्व रोइ-विल-मज्जे । अच्चो सुंदर-रुवो कह णिहणं गच्छइ वराओ ॥ त्ति  
'अरे अरे, खगं खगं' ति भणंतो चलिओ तं देवहरयं । तेण गहियं च तं खगं वसुणंदयं च, जं रायउत्त-संतियं ।  
18 गहियं जाणियं च ण होइ तं सिद्ध-खगं । ता किं व इमिणा समत्यस्स' चिंतयंतो कुमार-मूलं पत्तो । भणियं च तेण । 18  
'सुण्णम्मि मज्ज अंतेउरम्मि तं मूढ पेसिओ केण । अहवा कुविओ देवो लउडेणं हणउ किं पुरिसं ॥  
ता तुज्ज जमो कुविओ संपइ तुह णत्थि एत्थ णीहरणं । सूवार-सालवडिओ ससओ व्व विणस्ससे ष्ण्ह ॥'  
21 कुमारेण भणियं । 21  
'आलप्पालिय रे रे अच्छसि महिलायणं म्हु हरिऊण । जारो होऊण तुमं संपइ घर-सामिओ जाओ ॥  
चोरो त्ति मज्ज वज्जो अरहसि तं चेय पढम-दुच्चयणं । इय विवरीयं जायं ससएहिं वि लउडया गहिया ॥'  
24 भणमाणो पहाविओ कुमारो तस्स संमुहं, पेसिओ खग-पहारो । तेण वि बहु-कला-कोसल-परिहत्थेणं वंचिऊण पडिपहारो 24  
पेसिओ । सो वि कुमारेण वंचिओ । तओ पहर-पडिपहर-विसमं संपलगं महाजुद्धं । कहं ।  
दोणिण वि ते सुसमत्था दोणिण वि णिउणा कलासु सच्चासु । दोणिण वि अणंग-सरिसा दोणिण वि सत्ताहिया पुरिसा ॥  
27 दोणिण वि रोसाइट्टा दोणिण वि अवरोप्परेण मच्छरिणो । दोणिण वि णिट्टुर-पहरा दोण्हं वि खगाइं हत्थम्मि ॥ 27  
दोणिण वि फरम्मि णिउणा दोणिण वि उक्कोट्ट-मिउडि-भंगिळा । दो वि वलंति सहेलं दोणिण वि पहरे पडिच्छंति ॥  
§ ३८५) एवं च एकेकमस्स पहरंता केरिसा दिट्ठा जुवइ-वंद्रेणं । अवि य ।  
30 विज्जाहर व्व एए अहव समत्यत्तणेणं वण-महिसा । अह व दिसा-करि-सरिसा दोणिण वि चालंति महिवेढं ॥ 30  
एवं च जाव ताणं एक्को वि ण छलिउं तीरइ ता चिंतियंतीए चंपावईए ताव 'एएण एस छलिउं ण तीरइ विज्जासिद्धो ।  
ता दे कवडं किंचि चिंतेमि' त्ति भणियं तीए 'कुमार, सुमरसु इमं खग-रयणं' ति । कुमारेण वि चिंतियं 'सुंदरं पलत्तं'  
33 ति । भणियं तेण । अवि य । 33

1 > P रातीए, P दूतीहूयासु. 2 > P परिभमिऊण, J धवलहरोवरंतेउरे चच्चर-, P चच्चरवच्छासु. 3 > P एकलयमुत्तं भारि  
घेत्तूण, J रायधूताए. 4 > J वैरं, P धाविसु. 5 > P चंपावइणो धूया महिला हो वहरं, J वैरगुत्त, P सरणविहूण. 6 > P तीए  
पलोविउं सोऊण भणिया. 7 > P किं कस्स. 9 > P नीहरिउं, P चिंतयं. 11 > P चिंतयंतस्स for चिंतयंतो, P पुरेसाहम-  
12 > J लोअंमि. 13 > P चोरोसि, P कुणसु, P तेणेय, J सत्तीय ॥. 14 > J तं for एवं, P om. सो, P एस संपत्तो. 15 > J  
om. किं, J इमिणा बालेण. 16 > P सुंदर for रूवो, J गच्छिहिति वराओ. 17 > J om. अरे अरे, P om. तं, J खगयं, P  
रायउत्तस्स संतियं. 18 > J inter. जाणियं & च, P om. व, P मूलं संपत्तो. 19 > P अन्नंमि for सुण्णम्मि, P देवो, P हणइ  
किं पुरिसो. 20 > P एत्थ नीसरणं, P सूतारसाल, J विणस्सए. 22 > J आलवालियरे रे रे, P आलिप्पालिय, P महिणम्म हरिऊण P  
होइ पुण for होऊण. 23 > J वज्जे, P जीयं for जायं, P मि for वि. 24 > P संमुहो, J कलाकोमलपरिहच्छेण वंचिऊण पडिप्पहा  
पणिण वि सत्ताहिआ पुरिसा । दोणिण वि रोसाइट्टा; thus J has omitted some portion here. 26 > P दोणिण मि in two  
places. 27 > P मच्छरिणो, P दोणिण मि निट्टुरट्टुर, J दोणिण वि P दोणिण मि for दोण्हं वि (emended). 28 > P  
दोणिण मि फरंमि, P उक्केहभमरभंगिळा, J -भडिळा, P दो वि गिलंति, P दोणिण मि पहरे. 29 > P om. च. 30 > P एते, P  
-महिसे, P -सरिसे, P मि for वि, J चालंति. 31 > P om. जाव, P ण विच्छलिउं, P om. चंपावईए J ण for एएण, J om. ण.  
32 > J तीय for तीए, P om. वि, J om. चिंतियं, J संवलत्तं for पलत्तं.

- 1 'जह सिद्धासि चक्रीणं विजा-सिद्धाण सत्त-सिद्धाण । ता खग्ग-रयण एयं पहरसु मह करयलत्थो वि ॥' 1  
जाव इमं भणह ताव विजासिद्धेण चित्तिं 'अरे इमीए विलयाए इमं खग्ग-रयणं इमस्स समप्पियं' । 'आ पावे कथ  
3 वच्चसि' ति पहाइओ तं चेय दिसं विजासिद्धो । अवि य । 3  
जा पावह महिलाणं करणं सोत्तूण जुञ्ज-समयम्मि । ताव उज्जड ति लुइयं सीसं अह रायउत्तेण ॥  
दिट्ठो य धरणिवट्ठो केरिसो । अवि य ।  
6 कसिणं रुक्ख-विवण्णं लहुयं सिरि-विरहियं व दीणं व । दिट्ठं पडिय-कवंधं सीसं पुण अहिय-तेइहं ॥ 6  
इमं च चित्तयंतस्स भणियं चंपयमालाए । 'कुमार, वयणे इमस्स गुलिया अच्छइ, तं पि गेण्हउ कुमारो' ति भणिएण  
वियारियं मुह-पुडं असिधेणूए । दिट्ठा य कणगप्पभा गुलिया । पक्खालिऊण पक्खित्ता वयणे कुमारेण । अवि य ।  
9 दिप्यंत-अहिय-सोहो णिव्वडिय-विसेस-रुव-सच्छाओ । वड्ढिय-दप्पुच्छाहो सो कुमरो तीए गुलियाए ॥ 9  
तओ जय जय ति अभिवाइय-ललिय-विलासिणी-चलण-खलण-मणि-णेउर-रणरणाव-मुहलं पमक्खिओ उव्वत्तिअ-णहाणिओ  
कओ णिसण्णो सीहासणे, अहिसित्तो तम्मि महिला-रज्जम्मि । महिलाहिं समं च विविहं च भोए भुंजिउं पयत्तो ।  
12 अवि य । 12  
जुवईयण-मज्ज-गओ विल-भवणे खग्ग-खेडय-सणाहो । गुलिया-सिद्धो सो वि हु णिस्संको भुंजए भोए ॥  
§ ३८६) एवं च तस्स अणेय-महिला-णियं व-विंजुत्तुंग-पओहर-सहरिस-समालिं गण-परिरं हणा-फरिसामय-सुहेलि-  
15 णिअभरस्स परहुट्ट-सयल-गुरु-धण-विहव-रज्जस्स णिय-सत्ति-विणिज्जिय-सिद्ध-लद्धाणेय-पणइणी-सणाहं पायाल-भवणम्मि 15  
रज्ज-सुहमणुहवंतस्स अइकंताइं वारस संवच्छराइं, वारसमे य संवच्छरे संपुण्णे पसुत्तस्स राईए पच्छिम-जामे सहसा  
उद्धाइओ अदिस्समाणस्स कस्स वि वंदिणो सद्धो 'जय, महारायाहिराय वहरउत्त-परमेसर दरिय-रिउ-णिइलण-लद्ध-  
18 माहप्प । अवि य । 18  
उज्जोविय-भुवणयलो एसो णरणाह झिज्जए चंदो । अहवा उदयत्थमणं भण कस्स ण होइ भुवणम्मि ॥  
णासइ तारायकं अरुण-करालिद्धयम्मि गयणम्मि । माणं मा वहउ जगो वलियरा अस्थि लोगम्मि ॥  
21 एयं पि गलइ तिमिरं राई-विरमम्मि पेच्छ णरणाह । अहवा णियय-समाओ अहियं भण को व पावेइ ॥ 21  
उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरु उग्गओ सुतेइल्लो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिं जणस्स उग्गमणं ॥  
इय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि जुञ्ज णरणाह । उज्जसु णिद्धा-मोहं परलोग-हियं पवज्जासु ॥  
24 इमं च सोऊण चित्तिं रायतणएण 'अहो, कथ एसो वंदि-सद्धा, अपुव्वं च इमं पडियं' । पुच्छिओ य परियणो 'केण 24  
इमं पडियं' । तेण भणियं 'देव, ण-याणामो केणावि, ण दीसइ एत्थ एरिसो कोइ केवलं सद्धो चेय सद्धो सुव्वइ' ति ।  
§ ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पडिउमाडत्तं । अवि य ।  
27 रमसु जहिच्छं णरवर को पेच्छइ तुञ्ज भोग-संपत्ती । किंतु विवत्ती वि धुवा चित्तिजउ सा पयत्तेण ॥ 27  
को पेच्छइ संजोगं गस्स-णियं बाहिं देव विलयाहिं । किंतु विओगो वस्सं होहिइ एयाहि चित्तिसु ॥  
सच्चं हीरइ हिययं जुवईयण-णयण-वाण-पहरेहिं । किंतु दुरंतो कामो पावारंभेसु उज्जमइ ॥  
30 सच्चं भो हरइ मणं लीलावस-मंथरं गयं ताण । किंतु ण णज्जइ एसो अप्पा अह कथ वच्चिहिइ ॥ 30  
सच्चं हरंति हिययं लजा-भर-मंथराइं हसियाइं । किंतु इमो चित्तिजउ णरवर एयस्स परिणामो ॥  
सच्चं हरंति हिययं महिलाणं पेम्म-राय-वयणाइं । किंतु दुरंतं पेम्मं किंपाग-फलं व कडुयं तं ॥  
33 इय जाणिऊण णरवर मा मुञ्जसु एत्थ भोग-गहणम्मि । संबुज्जसु वीर तुमं विरइं ता कुणसु हिययम्मि ॥ 33

1) P repeats सत्तसिद्धाणं, P महं. 2) P रे for अरे, P ता for आ. 3) P om. अवि य. 4) J उज्जण for उज्जड, P ति पडुइयं, J चिय for सीसं अह रायउत्तेण. 5) P धरणिवट्ठे केरिसो. 6) J सु for व before दीणं, J अविअ for अहिय. 7) P भणिए for भणिएण. 8) P मुहयंदं असिधेणू किं दिट्ठा, P om. य, P वयणो. 9) P सोहा. 10) P रणरणारोवमुहलं पमक्खिओ उव्वत्तिअ, J सुणहाणिओ for 'यणहाणिओ. 11) J सीहासणेसु अभिसित्तो, P -रज्जम्मि, J om. समं च, P repeats विविहं च. 12) P om. अवि य. 14) P नियं वउत्तुंग, P परिमरिमलफरिसा, J- हरिसामयमुहलि. 15) P -निज्जरस्स, J सत्त for सत्ति, J भवणस्स P भुवणम्मि. 16) J om. रज्जसुहमणुहवंतस्स, P 'मणुहवंतो, P वारस वच्छराइं, P om. य, P संपत्तो for संपुण्णे, P रातीए. 17) J अइस्स, P om. 'माणस्स, J om. जय महारायाहिराय etc. to लद्धमाहप्प, P वयरउत्त, P निइलणलद्धमाहप्पा. 19) P उदयवयणं. 20) P करालिययंमि गणंमि, J लोअम्मि. 21) P राइं for राई, J अहवालियसमयाओ, J को व्व. 22) P तुञ्ज for बुज्ज, P परलोअ-, P पवज्जयं ॥. 24) J adds आई before इमं, J वंदी-, P om. अपुव्वं च इमं पडियं, J पुच्छिमो परिणो. 25) P पडिंम for पडियं, J ताहिं for तेण, P न याणिमो, J तत्थ for एत्थ, P को वि केवलो चिय. 26) P om. तम्मि, P पहाय-. 27) J भो for को, P भोय-, P पयत्ते ॥. 28) J संजोगो, J देववामाहिं, J होहिहि एताहि. 29) P रइ for हीरइ, P जुवईयं नयण-, J पहराहिं. 30) J हो for भो, P वइ for अह, J वच्चिहि. 32) J किंपाक-. 33) P adds एनु before एत्थ, P संबुज्जामु, P विरयं कुणसु.

- 1 § ३८८) एवं च तद्व्य-द्वियहे पहाय-वेलाए पुणो वि भणितं समादत्तो । अवि य । 1  
कीरट भोग-पसंगो जह किर देहमि जीवियं शचलं । अह उज्ज्वल काओ पडिहिह नउवेडयं अणं ॥  
3 पावं काउण पुणो लग्गह धम्ममि सुंदरो सो वि । सा वि सह चिय णरवर जा एइ पहाय-समयमि ॥ 3  
ना अउत्तु संसारे णिभित्तो वीर धीह मञ्जुस । मयरेण सह विरोहो वासं च जलमि णो होइ ॥  
भोग-तिरियो धि जीवो पुणोहिं विणा ण चय पावेइ । उट्टो जह परिओ चिय पंगुरिओ भणसु सो केण ॥  
6 धम्मं ण कुणह जीवो इउत्तु धम्मफलाहं लोगमि । ण य तेहं ण य कलणी दुहे तं पयसु वडयाइ ॥ 6  
जो कुणह तवं इहहं सो पर-ओए मुहाइ पावेइ । जो सिंचइ सहयारे सो साउ-फलाहं चक्खेइ ॥  
जह इउत्तु परलोगो इह णथि अहहं णवर ण परं । दोहंतस्स य णरवर अयस्स किर णाएए एहं ॥  
9 जो खलसो नेहे चिय धम्मं अट्टिलसइ एरिसो पुरिसो । वडवड-मुहमि पडिया भाउय-मज्झमि तं भणसु ॥ 9  
इय वीर पाव-भोए भोत्तुं णरयमि भुंजए दुक्खं । खासि करयं णरवर विडंयणं कीस णो सहसि ॥  
§ ३८९) एवं च पुणो चउव्य-द्वियह-राइए पहाय-समए णिसुयं पडिजमाणं । जय महारायाहिराय-सेविय,  
12 जाणामि कमल-मउए चलोए प्याण तुज्ज जुवईण । सरणं ण होति णरए कुप्पेज्जसु तं च मा वीर ॥ 12  
कोमल-कदली-सरिसं कइ-मुयलं ति जाणामो वीर । णरए ण होइ सरणं मा कुप्पसु तेण तं भणिमो ॥  
प्याण णियं चयइं पिहुलं कल-कगिर-कंचि-नामिहं । णरए ण होइ सरणं वीरमहे जूरिमो तेण ॥  
16 पीणं पउल-मुंगं हारावलि-सोहियं च थणवट्टं । णरए ण होइ सरणं भणामि धम्मकखरं तेण ॥ 16  
वियसिय-सयवत्त-णिभं सुहयं जह धि वीर जुवईण । णरए ण होइ सरणं तेण हियं तुज्ज तं भणिमो ॥  
दीहर-पम्हल-धवलं णयण-मुयं जह धि वीर जुवईण । णरए ण होइ सरणं चिंता मह तेण हिययमि ॥  
18 इय जाणिउण णरवर ताणं सरणं च णथि णरयमि । तम्हा करेसु धम्मं णरयं चिय जेण णो जासि ॥ 18  
§ ३९०) एवं च पुणो पंचम-द्वियह-राइए पहाय-समय-वेलाए पुणो पडियं । जय महारायाहिराय, जय,  
सगं गणण णरवर तियसिंद-धिलासिणीहिं सह रमियं । कंतार-यंभणस्स च पज्जती णथि भोएसु ॥  
21 मणुयत्तणे वि रजं बहुसो भुत्तं चलंत-चमरालं । जीवस्स णथि तोसो रोरस्स व धण-णिहाएण ॥ 21  
असुरत्तणे वि बहुसो वलवंतो देवि-परिगओ रमिओ । तह वि ण जायइ तोसो जलणस्स व वीर कट्टेहिं ॥  
जक्खत्तणमि बहुसो रमियं बहुयाहिं जक्ख-जुवईहिं । तह वि तुह णथि तोसो णरिंद जलहिस्स व जलेहिं ॥  
24 बहुसो जोइस-वासे देवीयण-परिगएण ते रमियं । तह वि ण भरियं चित्तं णरिंद गयणं व जीवेहिं ॥ 24  
इय णरवर संसारे पत्ताइं सुहाइं एत्थ बहुयाहं । जीवस्स ण होइ दिही वट्टइ रामो तह वि एण्हि ॥  
§ ३९१) एवं च छट्ठ-द्वियह-राइए पहाय-समए पुणो पडियं । जय महारायाहिराय, जय । अवि य ।  
27 सुलारोवण-उंभण-वेयरणी-लोह-पाण-दुक्खाइं । मा पम्हुस चित्तेणं मा होसु असंभलो वीर ॥ 27  
बंधह हणेज्ज णथ्यण-गुरु-भारारोवणाइं तिरियत्ते । पम्हुट्टाहं खणेणं किं कज्जं तुम्ह णरणाह ॥  
जर-खास-सोस-वाही-दूसह-दारिइ-दुम्मणस्साइं । पत्ताइं मणुयत्ते मा पम्हुस वीर सव्वाइं ॥  
30 अभियोग-पराणत्ती चवण-पलावाइं वीर देवत्ते । दुक्खाइं पम्हुसंतो किं अण्णं कुणसि हिययमि ॥ 30  
असुइ-मल-रुहिर-कदम-वमालिओ गवभ-वास-मज्झमि । वसिओ सि संपयं चिय वीर तुमे कीस पम्हुट्टं ॥  
संकोडियंगमंगो किमि व्व जणणीए जोणि-दारोणं । संपइ णीहरिओ चिय पम्हुट्टं केण कजेणं ॥

1) J पुणो पडिउमादत्तो. 2) P भोय-, J कीर for किर, P अयलं, JP पडिहिति, P नउवेयडं. 3) J एति पहाय-, P कालंमि for समयमि. 4) J विव्भ for वीह, J वासो, J om. च, P किं for णो. 5) P उडो वत्थविहिओ केण सो भणसु for the second line उट्टो जह etc. 6) J लोअमि, P वयडाइं. 7) J जो किर धावइ णरवर सो खायइ मोरमंसाइं for the second line जो सिंचइ etc., P से for सो, P नरवेइं for चक्खेइ. 8) J परलगो णथि अह इहं ण परं । दोहंतस्स, P इह इहं नवरं न य तेहं । 9) P अहिसइ, J पडया, J -मज्झं पि तं भणया ॥. 10) J भोच्छिती for भुंजए, J विलंबयं कीसु णो सहसि. 11) J जय महाराजाहिराजसेविय. 12) P जुवईण, J होइ for होति, J तं सि मा वीर. 13) J कयली, P -जुवलं, P जाणि नो वीर, J धीर for वीर. 14) P किवि for कंचि, P वीरमहे जूरिमो. 16) P inter. जह वि & वीर, P जुवतीण, P om. ण. 17) J दीहरवम्हल, P -पंभल, P जुवतीण. 18) P नरयति । 19) P रातीए, P om. समय, P भणियं for पडियं. 20) P रमिउं, J धज्जती for पज्जती. 21) P adds ण before वि, P चत्तं for भुत्तं, P धणनिहाणेण. 22) P परगओ, P सार for वीर. 23) P रमिओ, P adds हुं before जक्ख, P जुवतीहिं, P जलणस्स व जलेहिं. 24) J जोतिस, J परिगए ते, P रमिउं, J गयणं जादेहिं । The letters on this folio (No. 227) in J are rubbed and not clearly readable. P adds, after जीवेहिं । three lines: इय नरवर संसारे पत्ताइं सुहाइं एत्थ बहुसो । जोइसवासे देवीयण-परिगएण ते रमिउं ॥ तह वि न भरियं चित्तं नरिंद गयणं च जीवेहिं । 25) P संसा for संसारे, P होइ दीही वट्टइ, P adds इ before राजो. 26) P -रातीए पहाय-, P पुवि for पुणो. 27) P सुलारोवणेणं किं कज्जं तुम्ह, i. e., it omits a portion of about three lines ending with पम्हुट्टाहं खणेणं. 29) P खासे-, P दुम्मणस्साइं. 30) J अहियोग-, P अभिगओ पराणत्ती कंकणवलवाइं वीर, P कुणसे. 31) J कदमपमालिओ, J om. वसिओसि. 32) J जणणीय जोणिभारेणं.

- 1 संपह् वालत्तणए कजाकजेसु मूढ-चित्तेसु । अवि असियं ते वचं पम्हुट्टं तुज्झ ता कीस ॥ 1  
इय णरवर संसारो घोरो अह सयल-दुक्ख-दुत्तारो । बुज्झसु मा मुज्झ तुमं विरमसु मा रमसु जुवईहिं ॥
- 3 § ३९२ ) एवं च पुणो सत्तम-राईए पच्छिम-जामे णिसुयं । जय महारायाहिराय, जय । अवि य । 3  
फरिंसिदियम्मि लुद्धो णरवर बहुसो वि पाविओ णिहणं । विरमसु ण्णिह वज्झसि वारी-बंधम्मि व गइंदो ॥  
रसणिदियम्मि लुद्धो णरवर बहुसो विडंबणं पत्तो । विरमसु ण्णिह णाससि गलेण मच्छो व्व जल-मज्झे ॥
- 6 वार्णिदिय-गय-चित्तो मत्तो णरणाह पाविओ दुक्खं । विरमसु एण्हि घेप्पसि ओसहि-गंधेण भुयगो व्व ॥ 6  
णयणिदिएण बहुसो रुवे गय-चेयणो विणट्ठो सि । विरमसु एण्हि डज्झसि णरवर दीवे पयंगो व्व ॥  
सोइंदियम्मि लुद्धो सुद्धो बहुसो विणासिओ धीर । विरमसु एण्हि घेप्पसि वाहेण मथो व्व गीएहिं ॥
- 9 इय णरवर पंचेए एक्केएहिं घायणं पत्ता । तुह पुण पंच वि एए महारिणो एत्थ देहम्मि ॥ 9  
ता वीर फुडं भणिमो पंचहिं समिइहिं समियओ होउं । काय-मण-वाय-गुत्तो णीहरिउं कुण तवं घोरं ॥  
§ ३९३ ) एवं च अणुदिणं भणिज्जमाणस्स रायउत्तस्स तम्मि पायाल-भवणे अच्छमाणस्स चित्ते वियप्पो जाओ ।
- 12 'अहो, को पुण एस दियहे दियहे जयकार-पुच्चं इमाइं वेरगुप्पादयाइं कुलयाइं पढइ । ता जइ अज्ज एइ अवस्सं ता 12  
पुच्छामि' त्ति चित्तयंतस्स, जय महारायाहिराय वइरगुत्त जय, अवि य, जाव पढिउं समाढत्तो ताव भणियं रायउत्तेण ।  
'भो भो दिव्वो सि तुमं केण व कजेण एसि मह पासं । किं च इमं वेरगं अणुदियहं पढसि मह पुरओ ॥'
- 15 दिव्वेण भणियं । 15  
'तुज्झ हिययम्मि णरवर जइ किंचि कुज्जहलं पि ता अत्थि । णीहरिउणं पुच्छसु पायाल-घराओ सव्वणू ॥'  
कुमारेण भणियं ।
- 18 'किं पायाल-घरमिणं केत्तिय-कालं च मज्झ बोलीणं । कत्तो वच्चाभि अहं सव्वणू कत्थ दट्ठव्वो ॥' 18  
तेण भणियं ।  
'एत्थं पायाल-घरं वारस-वासाइं तुज्झ एयम्मि । एएण णीहि दारेण पेच्छसे जेण सव्वणू ॥'
- 21 भणिए समुट्ठिओ पास-परिवत्तमाण-विलासिणी-गुरु-णियंब-विंवयड-मणि-मेहला-णिवद्ध-किंकिणी-जाल-माला-रवारद्ध-संगीय- 21  
पूरिज्जमाण-पायाल-भवणोयरो वइरगुत्त-कुमारो पायवडणुट्ठियाहिं विण्णत्तो सव्वार्हिं । 'देव,  
जं सुपुरिसाण हियए कह वि तुलग्गेण संठियं किंचि । तं तेहिं अवस्सं चिय वीर तह च्चैय कायव्वं ॥
- 24 ता को तीरइ काउं आणा-भंगं णरिंद देवस्स । होउ तुह कज्ज-सिद्धी एक्कं अब्भत्थणं सुणसु ॥ 24  
जह पढमं पडिवण्णो सुपुरिस पुरिसेहिं जो जणो कह वि । सो तेहिं तह च्चिय आयरेण अंते वि दट्ठव्वो ॥  
अण्णं च देव, किं ण णिसुयं तुम्हेहि णीदि-सत्थेसु ।
- 27 सत्संगतमार्येपु अनाये नास्ति संगतम् । अनया सह राजेन्द्र एकरात्र्युपिता वयम् ॥ इत्ति । 27  
ता देव,  
एत्तिय-मेत्तं कालं तुमए समयं जहिच्छियं रमियं । एक्क-पए च्चिय णरवर कीस विरत्तो अउण्णाण ॥'
- 30 एवं च भणिओ कुमारो भणित्ताढत्तो । 30  
'जं तुव्भेहिं पलत्तं सच्चं सव्वं पि णत्थि संदेहो । पडिवण्णं सप्पुरिसा छेए वि ण मुंचिरे पच्छा ॥  
किं मुंचह एक्कपए जं तुव्भे भणह चंदवयणाओ । तं तुव्भेहिं मि णिसुओ सत्त-दिणे धम्मवयणोहो ॥'
- 33 ताहिं भणियं । 'देव, 33

1 > J ग्रहियं (?) for असियं, J तं for ता. 2 > P संसारे घोरमहासयल, P दुत्तारे, P मा बुज्झ, P जुवतीहिं. 3 > J एवं पुण सत्तम-, P रातीए. 4 > P वज्झ वारी, P वि for व. 5 > J om. णरवर, J adds वि after बहुसो, P adds वि after पत्तो, P विरमस्सु, P णालसु गलेण. 6 > P om. मत्तो, J भुअओ व्व. 8 > J सोतिदियम्मि. 9 > J पंचयं एक्केकरेहिं, J पत्तो, P तुज्झ पुणं च एए, J एते. 10 > JP समितीहिं, J समितओ होउ. 11 > P adds रायस्स before रायउत्तस्स, J adds वि before वियप्पो. 12 > P को उण, P वेरगपाययाइं. 13 > P om. त्ति, P जा for जाव, P ता for ताव. 16 > J कुज्जहलं P कुज्जहलं. 20 > P एतेण, P सव्वन्नू. 21 > J णियंबयड-, P र्वावद्ध. 22 > P -पाणयाल-, P -पायवडणोणयाहिं. 23 > P सुपुरिसाण, J तव for तह. 24 > J -भंगो, P तुम्हाण for देवस्स, P कुणसु for सुणसु. 25 > P पुरिसेण जो, P आयरेहिं. 26 > P तुव्भेहिं नीइत्तयेसु. 27 > P एकरात्रोपिता वयमिति ।. 28 > J om. ता देव. 29 > P समियं, P adds वर before कीस, P अउत्ता for विरत्तो. 31 > J सपुरिस छेए, P मुंचए for मुंचिरे. 32 > P मुंचवह, P जं for तं, P निसुयं, J धम्मवियणोहो.

- 1 जेगं चिय गितुयो सो देवं जह विण्णवेसु तेगेय । संसार-यागरं नो अम्हे हि नितरिउभिच्छामो ॥  
तथो हरिम-पुलह-नमाग-भरिरेण कुमारेण भणियं । अथि य ।
- 2 महुर-मिउ-मम्मणुहाविरीहिं णागा-विलास-लावाहं । वारस-वागाहं अहं तुम्हाहिं चासिओ एव्य ॥  
इह-परलोय-विनुद्धं सपक्क-परपक्क-रामगं वणणं । अम्हेहिं वसुय-पुवं अभागि-पुवं च तुम्हाहिं ॥  
ता सुंदरीओ सुंदरमिणमो संपह् विभित्तिवं कम्मं । जर-भरण-सोग-विसमो संसारो जुज्जए तरिउं ॥ किंतु,
- 3 पुच्छामि ताव गंतुं सव्वं सव्वण्णु हियमगदियं च । को एत किं च जंपह् किं काउं जुज्जए एवं ॥  
नि भणिए ताहिं भणियं । 'एस  
सुह अजली विरइओ धग्गं सव्वाहि सुगमु वेण्णप्यं । जं पडिवज्जहि णवर अम्हाहि नि तं करेयव्वं ॥'  
4 ति भणिज्जण गिवडिया चल्लेसु । एवं 'पडिवण्णं' नि भणमाओ णिग्गओ वहरगुत्त-कुमारो तेगेय वड-पायव-कुञ्चिच्छ-मगेणं, 9  
समागओ य इह समवसरणे । पुच्छिज्जण संदेहं णीउरिओ समवसरणाओ ति ।  
§ ३९४) ता भो गोयम, जं तए पुच्छियं जग्ग को एस पुरिसो । एस चंद्रगुत्त-पुत्तो वहरगुत्तो, इमिणा देव-  
12 पओणेण पडिउत्तो ति । भणियं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कथं सो उवगओ' ति । भगवया भणियं 'तं 12  
सव्वं महिलायणं तम्हाओ पायाल-घराओ णिक्कोसिज्जण आणेहिइ । एसो य संपयं समवसरण-तइय-तोरणासण्णे संपत्तो'  
त्ति, जाव एत्तियं साहइ भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकाज्जण समं महिला-सव्वेण भगवं कुमारेण पणामिओ उवविट्ठो ।  
15 सुहासणत्थेण य पुच्छिओ भगवं 'वेण क्केण को या एव दिव्वो ममं पडिओत्तेइ, कहिं वा सो संपयं' ति । भगवया 15  
वि साहिओ सयलो पंचण्ह वि ज्जणाणं भव-परंपरा-विशरो ता जा नणिरह-कुमारो, कामगइंदो, तइओ सो चेय वहरगुत्तो ।  
तथ देवलोग-चुओ तुमं लोहदेव-जिओ एथ उववण्णो पमत्तो य । तथो मायाइच्च-चंदसोम-जीएहिं इमिणा पाहाउय-  
18 मंगल-पटणच्छेणेण पडिओहिओ ति । इमं च सौज्जण भणियं । 'भगवं, किं संपयं विलंबसि, देसु मे दिक्खं' ति भणिए 18  
द्विच्छिओ समं चेय विलासिणीहिं वहरगुत्तो ति ।  
मणहर-विलासिणीयण-करेणु-परियारिओ वण-गओ व्व । दिक्खा-वारी-अंधे सुहफले णवर सो वदो ॥ ति ।  
21 § ३९५) एवं च सयल-तेल्लोक्केल्ल-सरोयर-सरस-पुंदरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महावीरणाओ विहरमाणो पुणो 21  
संपत्तो हत्थिणाउरं णाम णयरं । तथ य वाहिरुज्जाणे विरइयं देवेहिं से समवसरणं विहि-वित्थरा-अंधेण । तथ य भगवया  
साहियं जियाणं अणेय-भव-लक्ख-परंपरा-कारणं । पुणो आबद्ध-करयलंजलिणा पुच्छिओ भगवं गोदम-गणहारिणा  
21 धम्म-तित्थयरो ति । 'भगवं,  
लोगम्मि केइ पुरिसा णरणाहं सेविरे सुसंतुट्ठा । दाहिइ एसो अत्थं तेण्णहे भुंजिमो भोए ॥  
अह ताण सो वि तुट्ठो देइ धणं हरइ सो चिय अतुट्ठो । अह ताण तस्स सेवा जुज्जइ सफला भवे जेण ॥  
27 जो पुण एसो लोगो देवं अच्चेइ भत्ति-विणएण । तस्स ण दीसइ किंचि वि इह लोए जं फलं होइ ॥'  
एवं च पुच्छिएणं भगवया भणियं वीरणाहेण ।  
'गोदम जं मे पुच्छसि देवच्चणयम्मि कह फलं होइ । इह-लोए पर-लोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥  
30 देवानुपिया दुविहा देवा एयम्मि होंति लोगम्मि । एके होंति सरागा विरागिणो होंति अण्णे वि ॥  
गोविंद-खंद-रुहा वंतर-देवा गणाहिवो दुग्गा । जक्खा रक्खस-भूया होंति पिसाया तहा मण्णे ॥  
किणरा य किंपुरिसा गंधव्वा महोरगा य चंद-तारया उडु-गहाइच्चा ।

1 > P विन्नवेमि, J हो for तो. 3 > P विलासलाहं. 4 > P परलोयविरुद्धं, P अम्हाहिं for तुम्हाहिं. 5 > P सुंदरिमिणमो, J सोअ for सोग, P जुज्जए for जुज्जए. 6 > J P om. सव्वं, J सव्वण्णू P सव्वन्नु, J हिअं अणहिअं च, J कातुं, J एअं ॥. 8 > J विरओम्ह, P om. अम्हं, P adds अम्हाहिं before सुणसु, P करेयव्वमिति भणि. 9 > J om. भणिज्जण, P om. पायव. 10 > J adds ति before समागओ, P om. य, P om. त्ति. 11 > J गोतमा, J जधा, P adds ता after पुरिसो, J चंदउत्त, P चंदगुत्तो गुत्तो. 12 > J पओएण, J om. भगवया, J सोवगओ. 13 > P महिलायणं, J पयालघराओ, P repeats पायालघराओ, J णिक्कोसिज्जण, J आणेहित्ति P अणेहाति, एस संपयं. 14 > P om. त्ति, P ताओ for सो, J कओ for काज्जण, J पणमिओ, P adds य after पणामिओ. 15 > P सुहासणत्थेण. 16 > P om. वि before साहिओ, P तव for भव, P ताव जाव for ता जा. 17 > J चुतो, P देवेहिं for जीएहिं, P पभाओ य for पाहाउय. 19 > P वयरगुत्तो, P om. त्ति. 20 > P करिकरेणुपरि-वारिओ वणगइंदो व्व, J वदो, P सुहफलेण. 21 > P तेल्लोक्केल्ल, P सरोअ-, J adds सरय before सरस, P विहारमाणो पत्तो. 22 > P विरइओ, P om. से, P समवसरण, J वद्वेण, P वंधो for वंधेण. 23 > J साहिया, J om. कारणं, P करयंजलिणा, P गोयम-. 24 > P भणियं च भगवया for भगवं. 25 > J लोअंमि, JP दाहित्ति. 26 > J विअ for चिय, P सफला पभवे तेण. 27 > P अच्चेइ, P दीसति. 29 > P गोयम, P होति. 30 > P देवानुपिया, P एवंमि होति, J लोयंमि, P om. वि. 31 > P दुग्गा for दुग्गा, J रक्खसभूता पिसाय तह किणरा etc. 32 > J गंधव्वमहोरयचंद, P om. य.

- 1 नागा उदहि-सुवर्णा अग्नी विज्जू य जाव इंदंता । एए सव्वे देवा सराइणो दोस-मोहिह्ला ॥ 1  
 एयाण पूयणं अच्चणं च जो कुणइ परम-भत्तीए । राय व्व तस्स तुट्ठा देंति धणादी य कल्लाणे ॥
- 3 भत्तीएँ जे उ तुट्ठा णियमा रूसंति ते अभत्तीए । सह-भाविणो य मोहे रागदोसा इमे दोण्णि ॥ 3  
 जह णरवइणो कुविया रजादी-दिण्णयं पुण हरंति । इय तह देवा एए सुहमसुहं वा फलं देंति ॥  
 अह पुच्छसि पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण किं व देवेहिं । अह देवेहि मि कीरइ ता कम्मं णिप्फलं तत्थ ॥
- 6 जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं । अह तस्स देवय चिय करैति ता णिप्फलं कम्मं ॥ 6  
 एसो तुज्झ वियप्पो गोदम चित्तमि वट्टए एत्थ । तं अबुह-बोहणत्थं साहिप्पंतं णिसामेहि ॥  
 णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणए कम्मे । दव्वं खेत्तं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥
- 9 तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमसिएण देवाण । वच्चइ उदयं खय-उवसमं च खेत्तमि वा काले ॥ 9  
 ता तारिस-कम्मदओ देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खल्लि-विल्ल-सरिसं कागागम-तालवडणं च ॥  
 जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देइ । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णरवइणा ॥
- 12 देवा य मंगलाइं सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करैति पुरिसं जह दिट्ठं पुव्व-कम्मेहिं ॥ 12  
 इय एए राग-मणा संपइ णीरागिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कओ मोक्खस्स गइं णिरूवेइ ॥  
 तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिदुद्ध-कम्म-वण-गहणा । भव-केवल्लिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥
- 15 ताणं वयणाभिरए आयरिउज्जाय-सव्वसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुयं पुण्णप्फलं लहसि ॥ 15  
 पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओ सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओ धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  
 तत्तो णाणं णाणाओ होइ चरणं पि तेण णिज्जरणं । णिज्जरणाओ मोक्खं मोक्खे सोक्खं अणावाहं ॥
- 18 जो ताण कुणइ थवणं भयणं विंबं च पूयणं अहवा । पारंपरेण सो वि हु मोक्ख-सुहं चय पावेइ ॥ 18  
 अह भणसि तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणंति कह मोक्ख-सोक्खाइं ॥  
 जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्ठा कुणंति वर-सावे । सावाणुग्गह-रहियं को किर सेवेज्ज थाणुं वा ॥
- 21 § ३९६ ) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागदोसेहिं वज्जिया जइ वि । सावाणुग्गह-हेऊ भवंति ते भावण-वसेण ॥ 21  
 जह वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरमि चउरंसे । माहिंद-वज्ज-चिंधे विचिंतिओ कुणइ विस-थंभं ॥  
 जह तज्जणीएँ सो चिय अट्टमि-चंदमि अमिय-भरियमि । पउमच्चण-जलदेवे हरइ विसं खत्तिय-फणिमि ॥
- 24 जह मज्झिमाए सो चिय रत्ते तं सेय-सोत्थिय पसत्थे । वइस-फणिंदे छूढो विसस्स अह थोहणं कुणइ ॥ 24  
 जह य अणामाएँ पुणो कसणो वट्टो य विहुम-विचित्तो । सुद्ध-फणि-चाउ-देवे छूढो संकामणं कुणइ ॥  
 सो चिय हंसो णह-मंडलमि रव-मेत्त-संठिओ सुहुमो । चिंतिय-मेत्तो एसो विसस्स णिव्वाहणं कुणइ ॥
- 27 एवं गोदम पुहइं आऊ तेऊ य पवण-गयणंता । पंच वि भूया पंचंगुलीसु पयरंति कम्माइं ॥ 27  
 एको चिय विण्णत्तो मंडल-भेदेण कुणइ कम्माइं । ण य तस्स राग-दोसा हिय-अणहिय-चिंतणं णेय ॥  
 एएण चिंतिओ हं पीओ थंभं करेमि एयस्स । एएण अमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥
- 30 एवं थोहो संकम-णिव्वाहा रत्त-कसिण-सामेहिं । ण य सो करेइ चिंतं अणुग्गहं णिग्गहं कुणइ ॥ 30  
 एसो तुह दिट्ठंतो वण्णंतो गोदमा मए दिण्णो । जह एसो तह भगवं जाणेज्जसु वीयरारो वि ॥  
 ण य सो चिंतेइ इमं अणेण जह संथुओ अहं एसो । पावेमि सिद्धि-वसइं ण कयाइ विचिंतए एवं ॥ अहवा,

1 > J उवहि, J एते, P होति for दोस. 2 > P adds पडिमा before पूयणं, P om. अच्चणं, J घणाइं. 3 > J om. उ, P र्मंति ते य तुट्ठीए ।, P मोहो रागं दोसा इमे होति ॥. 4 > P जह नवरं नरवइणा कुविया, P रजादि-दित्रय हरंति ।, J एते. 5 > P अहं, P किंन्नि for किं, P अहवा देवेहिं मि, P तस्स for तत्थ. 6 > P तस्स दिवय, J adds ताणि before ता. 7 > P गोयम चित्तं पि वट्टए, P जं for तं. 8 > J उदयाती, P om. उदयाई, J मिस्सदि परिणदि कम्मे, P मिस्सादी-. 9 > P भवे नमसिएण, J देवेण, P repeats उदयं, P om. वा, P कालो. 10 > J कम्मदयो, P कंसुवओ देवाणमंसियं च सुहभावी ।, J तं खिल्लि विल्लि, P कागागमल-वडणं. 11 > P णरवई, P गोयम सेवाधंमेण, J तोसितो, P विवासो तह. 12 > J सउणा for सुमिणा, P तं for second तह. 13 > J एदे. 14 > J भयवंतो, P सिद्ध निदुद्ध, J णिदुद्ध, J एते. 15 > P वयणा तिरए, P गरु for गरुयं. 17 > P सोखं. 18 > P भवणं for थवणं. 19 > P गोयम, J कोय-, P तह for कह, J सोक्खाती P सोक्खाइ. 20 > J जित, P जे वीतरागमोहा, P व्व for वा. 21 > P गोयम, J हेतू, P भणंति ते. 22 > J वण्णा J वंत्तो for वण्णे, P चउरंसि, P चिण्णे for चिंधे, J विण्णत्तिओ for विचिंतिओ, P विसं. 23 > P जे for जह, J तज्जणीय, J अट्टमि, J अमय, P जलदेवा. 24 > J से for सो, P सो चि रत्ते तं चिय सोत्थिय पसत्थे, J वेइसहाणछूढो, P अहवा कुणं हणइ ॥. 25 > J कसणवट्टो, P पुणो वसणे वट्टे य विदुयविचित्ते । अट्टमि, J वायु-. 26 > J सामो for हंसो, P वर for रव, P चिंतिमेत्तो, J चिय सो for एसो. 27 > P गोयम, P पवणमयणे य ।, J भूता पंचंगुलीसा पयरंति, P कंमाइ. 28 > J वण्णंतो for विण्णत्तो, P एण वि for अणहिय, J अणहियं. 29 > J पीतो P पीउं, J adds देत्ता before थंभं, J एतस्स, J एतेण, J एदस्स विसं व णासंमि. 30 > P adds च ॥ after एवं, J रंत-, P से करेइ, J अणुग्गओ णिग्गहे. 31 > J om. वण्णंतो, P गोयमा, J दिट्ठणो for दिण्णो, J वीतरारो. 32 > P जह for ण य सो, J अणेण जह संथुतो, P कयावि, P om. एवं.

- 1 जेगं चिय गिसुओ सो देवं अहं विण्णवेमु तेणेय । संसार-जागरं तो अम्हे हि वितरिउमिच्छामो ॥  
तवो हरिस-पुल्लङ्गमाग-सररेण कुमारेण भणियं । अवि च ।
- 3 महुर-मिड-मम्मणुहाविरीहिं णागा-विलाय-लाराइं । वारस-वागाईं अहं तुम्हाहिं वासिओ एव्य ॥  
इह-परलोय-विसुद्धं सपक्क-परपक्क-सामयं वयणं । अम्हेहिं असुय-पुब्बं अणणिय-पुब्बं च तुम्हाहिं ॥  
ता सुंदरीओ सुंदरमिणओ संपहं विधितियं कम्मं । जर-मरण-सोग-विसमो संसारो जुज्जए तरिं ॥ किंतु,
- 6 पुच्छामि ताव गंतुं सव्वं सव्वण्णु हियमणहियं च । को एस किं च जंपहं किं काउं जुज्जए एव ॥  
ति भणिए ताहिं भणियं । 'एव  
तुह अंजली विरहओ अम्हं सव्वाहि सुणमु वेण्णयं । जं पडिच्चमि णवर अम्हाहि ति सं करेयव्वं ॥'  
9 ति भणिऊण विवडिया चलणमु । एव 'पडिचणं' ति भणमाओ णागओ वहरगुत्त-कुमारो तेणेय वड-पायव-कुडिच्छ-मणेणं,  
समागओ य इह समवसरणे । पुच्छिऊण संदं णोडरिओ समवसरणाओ ति ।
- § ३९४) ता ओ गोयम, अं तए पुच्छियं जहा को एत पुरिसो । एव चंदगुत्त-गुत्तो वहरगुत्तो, इमिणा दिव्व-  
12 पओणेण पडिउत्तो ति । भणियं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कथं सो उवगओ' ति । भगवया भणियं 'तं 12  
सव्वं महिलाणयं तम्हाओ पायाल-घराओ णिक्कोसिऊण आणेहिइ । एसो य संपयं समवसरण-तट्टय-तोरणासणे संपत्तो'  
ति, जाव एत्तियं साहइ भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकाऊण तमं महिला-सत्थेण भगवं कुमारेण पणामिओ उवविट्ठो ।  
16 सुहासणत्थेण य पुच्छिओ भगवं 'कण कथेण को वा एत दिव्वो ममं पडिओइइ, कहिं वा सो संपयं' ति । भगवया 16  
वि साहिओ सयलो पंचण वि जणाणं भव-परंपरा-विथरो ता जा मणिरह-कुमारो, कामगइंदो, तइओ सो चैय वहरगुत्तो ।  
तव्य देवलोग-सुओ तुमं लोहदेव-विओ एथ उववण्णो पमत्तो य । तवो मायाइअ-चंडसोम-जीएहिं इमिणा पाहाउय-  
18 मंगल-पटणच्छलेण पडिओहिओ ति । इमं च सोऊण भणियं । 'भगवं, किं संपयं विलंबसि, देसु मे दिक्खं' ति भणिए 18  
दिक्खिओ समं चैय विलासिणीहिं वहरगुत्तो ति ।
- मणहर-विलासिणीयण-करेण-परियारिओ घण-गओ व्व । दिक्खा-वारी-बंधे सुहफले णवर सो वद्धो ॥ ति ।
- 21 § ३९५) एव च सयल-तेल्लोक्कल्ल-सरोयर-सरस-पुंदरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महावीरणाओ विहरमाणो पुणो 21  
संपत्तो हत्थिणाउरं णाम णयरं । तव्य य वाहिरुआणे चिरइयं देवेहिं से समवसरणं विहि-वित्थरा-बंधेण । तव्य य भगवया  
साहियं जियाणं अणेय-भव-लक्ख-परंपरा-कारणं । पुणो आवद्ध-करयलंजलिणा पुच्छिओ भगवं गोदम-गणहारिणा  
24 धम्म-तित्थयरो ति । 'भगवं,  
लोगम्मि केह पुरिसा णरणाहं सेविरे सुसंतुट्ठा । दाहिइ एसो अत्थं तेणम्हे सुंजिओ भोए ॥  
अह ताण सो वि तुट्ठो देइ धणं हरइ सो चिय अतुट्ठो । अह ताण तस्स सेवा जुज्जइ सफला भवे जेण ॥  
27 जो पुण एसो लोगो देवं अचेइ भत्ति-विणएण । तस्स ण दीसइ किंचि वि इह लोए जं फलं होइ ॥'  
एवं च पुच्छिणं भगवया भणियं वीरणाहेण ।  
'गोदम जं मे पुच्छसि देवचणयम्मि कह फलं होइ । इह-लोए पर-लोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥  
30 देवाणुपिया दुविहा देवा एयम्मि होंति लोगम्मि । एके होंति सरागा विरागिणो होंति अण्णे वि ॥  
गोविंद-खंद-रुहा वंतर-देवा गणाहिवो दुग्गा । जक्खा रक्खस-भूया होंति पिसाया तहां मण्णे ॥  
किंणरा य किंपुरिसा गंधव्वा महोरगा य चंद-तारया उडु-गहाइच्चा ।

1 > P विववेमि, J हो for तो. 3 > P विलासलाइं. 4 > P परलोयविरुद्ध, P अम्हाहिं for तुम्हाहिं. 5 > P सुंदरिमिणिमो, J सोअ for सोग, P दुज्जए for जुज्जए. 6 > J P om. सव्वं, J सव्वण्णु P सव्वन्नू, J हिअं अणहिअं च, J कातुं, J एअं ॥. 8 > J विरओम्ह, P om. अम्हं, P adds अम्हाहिं before सुणसु, P करेयव्वमिति भणि'. 9 > J om. भणिऊण, P om. पायव. 10 > J adds ति before समागओ, P om. य, P om. ति. 11 > J गोतमा, J जधा, P adds ता after पुरिसो, J चंदउत्त, P चंदगुत्तो गुत्तो. 12 > J पओएण, J om. भगवया, J सोवगओ. 13 > P महिलाणयं, J पयालघराओ, P repeats पायालघराओ, J णिक्कोसिऊण, J आणेहित्ति P अणेहात्ति, एस संपयं. 14 > P om. ति, P ताओ for सो, J कओ for काऊण, J पणमिओ, P adds य after पणामिओ. 15 > P सुहासणत्थेण. 16 > P om. वि before साहिओ, P तवं for भव, P ताव जाव for ता जा. 17 > J चुत्तो, P देवेहिं for जीएहिं, P पमाओ य for पाहाउय. 19 > P वयरगुत्तो, P om. ति. 20 > P करिकरेणुपरि-वारिओ वणगइंदो व्व, J वडे, P सुहफलेण. 21 > P तेल्लोक्कल्ल, P सरोअ, J adds सरय before सरस, P विहारमाणो पत्तो. 22 > P विरइओ, P om. से, P समवसरण, J वडेण, P वंधो for बंधेण. 23 > J साहिया, J om. कारणं, P करयंजलिणा, P गोयम-. 24 > P भणियं च भगवया for भगवं. 25 > J लोअंमि, JP दाहिति. 26 > J विअ for चिय, P सफला पभवे तेण. 27 > P अचेइ, P दीसति. 29 > P गोयम, P होति. 30 > P देवाणुपिया, P एवमि होति, J लोयंमि, P om. वि. 31 > P दुग्गा for दुग्गा, J रक्खसभूता पिसाय तह किण्णरा etc. 32 > J गंधव्वमहोरयचंद, P om. य.

- नागा उदहि-सुवण्णा अग्गी विज्जू य जाव इंदंता । एए सव्वे देवा सराइणो दोस-मोहिल्ला ॥ 1
- एयाण पूयणं अच्चणं च जो कुणइ परम-भत्तीए । राय न्व तस्स तुट्ठा देंति धणादी य कल्लाणे ॥ 3
- भत्तीए जे उ तुट्ठा णियमा रूसंति ते अमत्तीए । सह-भाविणो य मोहे रागदोसा इमे दोण्णि ॥ 3
- जह णरवइणो कुविया रज्जादी-दिण्णयं पुण हरंति । इय तह देवा एए सुहमसुहं वा फलं देंति ॥
- अह पुच्छसि पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण किं व देवेहिं । अह देवेहि मि कीरइ ता कम्मं णिप्फलं तत्थ ॥ 6
- जइ तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं । अह तस्स देवय चिय करेति ता णिप्फलं कम्मं ॥ 6
- एसो तुज्झ वियप्पो गोदम चित्तमि वट्टए एत्थ । तं अबुह-बोहणत्थं साहिप्पंतं णिसामेहि ॥
- णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणए कम्मे । दव्वं खेत्तं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥ 9
- तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमसिएण देवाण । वच्चइ उदयं खय-उवसमं च खेत्तमि वा काले ॥ 9
- ता तारिस-कम्मदओ देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खल्लि-विल्लि-सरिसं कागागम-तालवडणं च ॥
- जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देइ । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णरवइणा ॥ 12
- देवा य मंगलाइं सउणा सुमिणा गहा य णकखत्ता । तह तह करेति पुरिसं जइ दिट्ठं पुच्च-कम्मेहिं ॥ 12
- इय एए राग-मणा संपइ णीराणिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कओ मोक्खस्स गई णिरुवेइ ॥
- तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिइड्ड-कम्म-वण-गहणा । भव-केवल्लिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥ 15
- ताणं वयणाभिरए आयरिउज्जाय-सव्वसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुयं पुण्णप्फलं लहसि ॥
- पुण्णेण होइ सग्गो सग्गाओ सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओ धम्म-डुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥
- तत्तो णाणं णाणाओ होइ चरणं पि तेण णिज्जरणं । णिज्जरणाओ मोक्खं मोक्खे सोक्खं अणावाहं ॥ 18
- जो ताण कुणइ थवणं भयणं विवं च पूयणं अहवा । पारंपरेण सो वि हु मोक्ख-सुहं चेय पावेइ ॥ 18
- अह भणसि तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणंति कह मोक्ख-सोक्खाइं ॥
- जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्ठा कुणंति वर-सावे । सावाणुगह-रहियं को किर सेवेज्ज थाणुं वा ॥ 21
- § ३९६ ) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागदोसेहिं वज्जिया जइ वि । सावाणुगह-हेज्ज भवंति ते भावण-वसेण ॥ 21
- जह वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरमि चउरंसे । माहिंद-वज्ज-चिंधे विचिंतिओ कुणइ विस-थंभं ॥
- जह तज्जणीए सो चिय अट्ठमि-चंदमि अमिय-भरियमि । पउमच्चण-जलदेवे हरइ विसं खत्तिय-फणिमि ॥ 24
- जह मज्झिमाए सो चिय रत्ते तं सेय-सोत्थिय पसत्थे । वइस-फणिदे छूढो विसस्स अह थोहणं कुणइ ॥ 24
- जह य अणामाए पुणो कसणो वट्टो य विहुम-विचित्तो । सुद्ध-फणि-वाउ-देवे छूढो संकामणं कुणइ ॥
- सो चिय हंसो णह-मंडलमि रव-मेत्त-संठिओ सुहुमो । चिंतिय-मेत्तो एसो विसस्स णिव्वाहणं कुणइ ॥ 27
- एवं गोदम पुहई आऊ तेऊ य पवण-गयणंता । पंच वि भूया पंचगुलीसु पररंति कम्माइं ॥
- एक्को चिय विण्णत्तो मंडल-भेदेण कुणइ कम्माइं । ण य तस्स राग-दोसा हिय-अणहिय-चिंतणं णेय ॥
- एएण चिंतिओ हं पीओ थंभं करेमि एयस्स । एएण अमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥ 30
- एवं थोहो संकम-णिव्वाहा रत्त-कसिण-सामेहिं । ण य सो करेइ चिंतं अणुगहं णिगहं कुणइ ॥ 30
- एसो तुह दिट्ठंतो वण्णंतो गोदमा मए दिण्णो । जह एसो तह भगवं जाणेज्जसु वीयरगो वि ॥
- ण य सो चिंतेइ इमं अणेण जह संथुओ अहं एसो । पावेमि सिद्धि-वसइं ण कयाइ विचिंतए एवं ॥ अहवा,

1 > J उवहि, J एते, P होति for दोस. 2 > P adds पडिमा before पूयणं, P om. अच्चणं, J धणाइं. 3 > J om. उ, P रुमंति ते य तुट्ठीए ।, P मोहो रागं दोसा इमे हीति ॥. 4 > P जह नवरं नरवइणा कुविया, P रज्जादि-दिन्नयं हरंति ।, J एते. 5 > P अहं, P किंचि for किंव, P अहवा देवेहिं मि, P तस्स दिवय, J adds ताणि before ता. 6 > P गोयम चित्तं अहं, P किंचि for किंव, P अहवा देवेहिं मि, P तस्स दिवय, J adds ताणि before ता. 7 > P गोयम चित्तं अहं, P किंचि for किंव, P अहवा देवेहिं मि, P तस्स दिवय, J adds ताणि before ता. 8 > P उदयाती, P om. उदयाई, J मिस्सदि परिणदि कम्म, P मिस्सादी-. 9 > P भवे नंसिएण, J देवेण, P वट्टए, P जं for तं. 10 > J उदयाती, P om. उदयाई, J मिस्सदि परिणदि कम्म, P मिस्सादी-. 11 > P णरवइ, P गोयम सेवाधंमेण, J तोसितो, P विवासो तह. 12 > J सउणा for सुमिणा, P तं for second तह-वडणं. 13 > J एदे. 14 > J भयवंतो, P सिद्ध निद्ध, J णिइड्ड, J एते. 15 > P वयणा तिरए, P गरु for गरुयं. 17 > P सोखं. 18 > P भवणं for थवणं. 19 > P गोयम, J कोय-, P तह for कह, J सोक्खाती P सोक्खाइ. 20 > J जित, P जे वीतरागमोहा, P व्व for वा. 21 > P गोयम, J हेतू, P भणंति ते. 22 > J वण्णा J वंजो for वण्णे, P चउरंसि, P चिंहे for चिंधे, J विण्णत्तिओ for विचिंतिओ, P विसं. 23 > P जे for जह, J तज्जणीय, J अट्ठमि, J अमय, P जलदेवा. 24 > J से for सो, P सो चि रत्ते तं चिय सोच्चिय पसत्थे, J वेइसट्टाणल्लूढो, P अहवा कुणं हणइ ॥. 25 > J कसणवट्टो, P पुणो वसणे वट्टे य विदुयविचित्तो । अहफणि, J वायु-. 26 > J सामो for हंसो, P वर for रव, P चिंतिमेत्तो, J चिय सो for एसो. 27 > P गोयम, P पवणमयणे य ।, J भूता पंचगुलिआ पररंति, P कंमाइ. 28 > J वण्णंतो for विण्णत्तो, P एण वि for अणहिय, J अणहियं. 29 > J पीतो P पीडं, J adds देत्ता before थंभं, J एतस्स, J एतेण, J एदस्स विसं व णासंमि. 30 > P adds च ॥ after एवं, J रंत-, P से करेइ, J अणुगओ णिगहं. 31 > J om. वण्णंतो, P गोयमा, J दिट्ठाणो for दिण्णो, J वीतरागो. 32 > P जह for ण य सो, J अणेण जह संथुतो, P कयावि, P om. एवं.



- 1 एषुण निदिओ ढं इमस्स पावं करेमि ना बहुयं । ण क्खाइ धीयरानो भगवं चिनेहिइ विपयं ॥ 1  
जेण ण भणो ण रागो ण य रोमो नस्स जेय सा इच्छा । गिक्कारणे गिरत्थं अमणं को चित्तिउं तरह ॥
- 3 तह वि थुणंनो गोदम धुइ-सुल्लमठळं तु पावए पुरियो । गिदंनो गिदा-फलमइवा जइ णरयवटणाइं ॥ 3  
तम्हा एको भगवं पुण्ण-कणो होइ पाव-हेऊ य । विप-अंभण-णिच्चहि जइ वणणंनो मए भणियो ॥  
मा चिनेसु विपयं गोदम इवाइं देति लोअम्मि । तवरोपरं विरोहो जाणसु अह दीसए पयडो ॥
- 6 जइ अग्गी पञ्जलिओ तावण-उज्जोवणं च सो कुगइ । अरहा तह य पयासं पावस्स य तावणं कुगइ ॥ 6  
गोदम जइ य रविदो अयंभियो अग्गि-मइइ-पक्खित्तो । फुड्डिऊण नक्खणं विप दिमो-दिसं वच्चइ अविट्ठो ॥  
तह जिग-इंसण-जलणेण नाथियो पाव-पारय-रमोहो । एत्थिय इत्ति विट्ठिजइ असहंनो संगमं तस्स ॥
- 9 जइ रविणा भिभिरोहो भिभिरण वि चक्खु-इंसणं यइसा । इंसण-मोहेण जइ णासिजइ कह वि सम्मत्तं ॥ 9  
तह गोदम जिग-इंसण-जिण-चिण्ण जिणवराण वयगेहिं । णासइ पाव-कलंके जिण-वंदण-जिण-गुगेहिं च ॥  
एवं च साहिए सयल-पुरिमिद-पुंडरीण भगवया णाय-कुंठयर-पुण्णयंदेण जिग-वंदण पडिवण्णं सव्वेहि मि आवइ-क-
- 12 कमल-मठळ-सोहेहिं तिगामिदण्णगुहेहिं सयल-सत्तेहिं । 12

§ ३९७) एयंतरम्मि पविट्ठो एको वंभण-दारओ समवसरणम्मि । केरियो । अवि य ।

सामल-यच्छवल-घोलमाण-सिय-यम्ह-सुत्त-सोहितो । पयणंदोलि-सोदिय-कंठइ-णिवइ-वसणिओ ॥

- 15 तिगुणं पयाहिणीकओ जेण भगवं । पाववटण-पञ्चट्टिण्ण य भणियं तेण । भगवं, 15  
को सो वणम्मि पक्खी माणुस-भासाएँ अंपए किं वा । जं तेण तय्य भणियं तं वा किं सव्वयं सव्वं ॥  
भगवया भणियं ।

- 18 देवाणुपिया सुव्वड जो सो पक्खी वणम्मि सो दिव्वो । जं किंचि तेण भणियं सच्चं तं सोम्म सव्वं पि ॥ 18  
तेण भणियं ।

भगवं जइ तं सच्चं वणम्मि जं पक्खिणा तहिं भणियं । ता रयणाणि इमाइं ताणं सामीण उप्पेमि ॥

- 21 भगवया आइट्टं । 21

देवाणुपिया जुजइ पच्छायावो बुहाण काउं जे । दिट्ठो चिय तम्मि वडे तुमए पक्खीण ववहारो ॥

एवं च भणिय-मेत्ते णिक्खंतो समवसरणाओ सो वंभण-दारओ । तओ पुच्छिओ भगवं जाणमाणेणावि गोयम-नाणहारिणा ।

- 24 'भगवं, 24

को एस दियाइ-सुओ किं वा एएण पुच्छिओ भगवं । को सो वणम्मि पक्खी किं वा सो तय्य मंतेइ ॥'

एवं च पुच्छिओ भगवं महावीरो साहिउं पयत्तो । 'अत्थि णाइदूरे सरलपुरं णाम वंभणाणं अग्गाहारं । तय्य जण्णदेवो

- 27 णाम महाधणो एको चउव्वेओ परिवसइ । तस्स य जेट्टउत्तो सयंभुदेवो णाम । सो य इमो । एवं च तस्स 27  
बहु-सयण-जण-वेय-विज्जा-धण-परिवारियस्स वच्चंति दियहा । एवं च वच्चंतेसु दियहेसु, अवस्सं-भावी सव्व-जंतूण एस मच्चू,

तेण य सो जण्णदेवो इमस्स जणओ संपुण्ण-णिय-आउयप्पमाणो परलोअं पावियो । इओ य सव्वं अत्थं परियलमाणं

- 30 गिहणं पावियं । सव्वहा तारिसेणं कम्म-परिणामेणं तं ताण णत्थि जं एग-दियह-असणं । तओ एवं च परिवियलिए 30  
विहवे ण कीरंति लोगयत्ताओ, विसंवयंति अतिहि-सक्काराइं, सिठिलियाओ वंभण-किरियाओ, अवहत्थियाइं णिद्ध-वंधु-

दाणाइं ति । सव्वहा,

- 33 गुरु-णिद्ध-भिच्च-वंधव-परियण-जण-सामिणो य पुरयम्मि । ता मण्णिजइ पुरिसो जा विहवो अत्थि से तस्स ॥ 33

हेतू, P थंभणे निव्वाहो जइ, P भणियं ॥ 5 > P गोयम, J लोअम्मि. 7 > P गोयम, P फड्डिऊण, P -दिसिं वच्चए. 8 > P असंतो

संगमं. 9 > P om. वि. 10 > P गोयम, P om. दंसण, P om. वंदणजिण, P adds ति after च. 11 > J भगवता. 14 > P

वंम for वम्ह. 15 > J णिउणं पयाहिणीकओ, P तिगुणीं, J पायवटणणु, P om. पायवटण etc. to भगवं. 16 > P after तय्य

repeats भणिल्लो । तिगुणीपयाहिणीकओ जेण भगवं । पाववटणुट्टिण्णं भणियं तेण भगवं को for भणियं तं वा किं etc. to सुव्वड जो.

18 > P om. पक्खी, P सोम सव्वं. 20 > P रयणाइं, J तं पि for ताणं, P सामाण उप्पेमि. 21 > P भणियं for आइट्टं. 22 > P

दुहाण for बुहाण. 23 > P भणियमेत्तो, J om. तओ पुच्छिओ, J गोदम. 25 > P एतेण, P om. किं. 26 > P अग्गाहारं ।

जत्थ. 27 > P जेट्टो उत्तो. 28 > P -वर- for धण, J असव्वं भावी P अवस्सभावी. 29 > J णियाउअ° P नियआओय°, J

परलोअं, J इतो, P om. य, P परिसयलमाणं. 30 > P तारिसाणं, J ता for तं, P ता for ताण, P असणं, P परिवियलिए. 31 > P

कीरयंति, J लोअयत्ताओ, J -सक्काराइं, P वंधु for वंभण, J अवहत्थियाइं, J वंधुदाणाइं P णिद्धदाणाइं. 33 > P निद्ध for णिद्ध.

- 1 गिञ्जीण-पुव्व-विहवा पुरिसा पुरओ ठिया ण दीसंति । दारिहंजण-जुत्ता पत्तिय-सिद्ध व्व दीसंति ॥ 1
- इमं च पुरिसं णाऊणं सयंभुदेवस्स जणणीए भणिओ सयंभुदेवो । अवि य । 3
- 3 पुत्त घण-सार-रहिओ उवहखणिज्जो जणम्मि सव्वम्मि । मय-किरियाएँ विहूणो जीवंत-मयल्लओ पुरिसो ॥ 3
- अम्हाण तुमं पुरिसो णिक्खित्तं तुह कुडुं-भारं ति । ता तह करेसु पुत्तय जह पिउ-सरिसं कुणसि अत्थं ॥ 6
- णिउणो तुमं पि पुत्तय पंडिय-पडिओ य सूर-चित्तो य । ता तह करेसु संपह जह जियइ कुडुं-वयं मज्झं ॥ 6
- 6 § ३९८) एवं च दीण-करुणं भणिओ जणणीए इमो सयंभुदेवो अहिय-संजाय-मण्णु-गगार-वयणो भणिउमाढत्तो । 6
- अवि य ।
- पुण्णेहिँ होइ अत्थो अम्हं पुण्णाइँ माएँ णट्ठाइँ । घेतूण विहव-किरणे रवि व्व सो चेय अत्थमिओ ॥ 9
- 9 एक्कस्स होइ पुण्णं ण पोरुसं दोणिण होंति अण्णस्स । अण्णो दोहिँ पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रहिओ य ॥ 9
- पुण्णेहिँ होइ लच्छी अलसा महिल व्व णाम-मेत्तेण । पुण्ण-णियलेहिँ वद्धा अण्णमणा चेय वंदि व्व ॥ 12
- जो पुण्ण-पोरुसेहिँ लच्छी पुरिसस्स होइ दोहिँ पि । सुरय-वियड्ढा पोढ व्व सहइ सा वंचियं साहुं ॥ 12
- 12 जा पुण पुण्णेहिँ विणा एक्केणं पोरुसेण णिव्वडिया । अथिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-विज्जु-रेह व्व ॥ 12
- पोरुस-पुण्ण-विहूणा लच्छी घेतुं ण तीरइ जणेण । चवलत्तण-दुल्लिया माए जल-चंद-रेह व्व ॥ 15
- पुण्ण-रहियाण अम्हं अम्मो सत्तेण किं पि जइ होइ । तं तं करेमि एण्हं जं भणियं तं खमिज्जासु ॥ 15
- 15 त्ति भणंतो णिव्वडिओ चलणेषु, समुट्ठिओ य । भणियं च तेण । अवि य ।
- भमिऊण सयल-पुहइँ छाउव्वाओ खुड त्ति पडिऊण । अवि णाम मरेज्ज अहं अरुयत्थो णो घरं एमि ॥ 18
- त्ति भणंतो णिक्खंतो मंदिराओ सो वंभण-दारओ । तप्पभूइँ च णयर-पुर-सोहियं वसुंधरं भमिउमाढत्तो । कत्थ । अवि य । 18
- 18 णयर-पुर-खेड-कव्वड-गामागर-दीव-तह-मडंवेसु । दोणमुहाडइ-पट्टण-आराम-पवा-विहारोसु ॥ एवं च, 18
- अत्थ-परिमगिरो सो सव्वोवायाइँ णवरि काऊण । भमिऊण सयल-पुहइँ चंपा-णयरिं समणुपत्तो ॥
- § ३९९) तत्थ य अत्थंगए दिणयरे ठइय-दुवारे सव्वम्मि णयरि-जणवए चित्तियं तेण । 'दे एत्थ जुण्णुज्जाणे 21
- 21 पविसिय एक्कम्मि पायवे समारुहिऊण राइ-सेसं णेमि' त्ति चित्तयंतो पविट्ठो आरुढो य एक्कम्मि तमाल-पायवम्मि । 21
- तत्थ य अच्छमाणो चित्तिउं पयत्तो । अवि य ।
- 'अव्वो भवणुव्वाओ उदर-दरी-भरण-चावडो दियहं । तरु-साहासु पसुत्तो पक्खा-रहिओ अहं काओ ॥ 24
- 24 ता धिरत्थु इमस्स अम्ह जम्मस्स, ण संपत्तं किंचि मए अत्थं, जेण घरं पविसामि' त्ति चित्तयंतेण णिसुओ कस्स 24
- वि सद्दो । तओ 'अहो, को एत्थ जुण्णुज्जाणे मंतेइ' त्ति जायासंको आयण्णयंतो अच्छिउं पयत्तो जाव एक्केण भणियं ।
- 'एस तमाल-पायवो, इमस्स अधे कीरउ इमं कज्जं' ति भणंता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता । णिरुवियाओ 27
- 27 तेहिँ दस वि दिसाओ । तओ भणियं । 'अहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे णिहणसु इमम्मि पदेसे' त्ति भणंतेण तेण 27
- खणिउमाढत्तं तं पएसंतरं । णिक्खित्तं च तत्थ तेहिँ तंभमय-करंडयं, पूरियं धूलीए, वेळि-लयाहिँ कयं साहिण्णाणं ।
- तत्तो तेहिँ भणियं । अवि य । 30
- 0 'जो एत्थ को वि रक्खो भूय-पिसाओ व्व होज्ज अण्णो वा । णासो तस्स णिहित्तो पालेज्जसु अह पसाएणं ॥' 30
- त्ति भणिउं जघागयं पडिगया । चित्तियं च इमेण । अहो,
- जं जेण जहिँ जइया जत्तिय-मेत्तं च जस्स पासाओ । तं तेण तहिँ तइया पाविज्जइ तत्तियं चेय ॥ 33
- 33 जेण पेच्छ । 33

1) P गिञ्जीण, J ट्टिया P ट्टिया, J जणसिद्धा पत्तिय. 2) P एरिसं नाऊणं भुदेवस्स. 3) P सव्व for मय, P जीय व्व मयल्लओ. 4) P अम्हा तुमं, P तह कुडुं-भारं, P पिओ सारिसं. 5) P पंडियओ सूर. 6) P adds स before दीण, P इमं for इमो, J अहिअंजाय, J adds माए after अवि य. 7) P करणे, P चेव. 8) P होइ अत्थं पुत्तेहिँ पोरुसेण दिन्नं पि ।, P दो for दोहिँ, P विणा अपुरुसो. 9) P अण्णमणो. 10) P होति, J सुरयावियड्ढा, P सव्वंगियं for सा वंचियं, P साहुं for साहुं. 11) P जो पुण, P एक्केणं पुरिसेण, J णिव्वरिआ, J विज्जरेह. 12) J विहीणा, P घेतुं, P रेहि. 13) P होइ । ता तं, J भणिया तं खमेज्जासि. 14) P पुहइ, J पुहइ त्ति, P ति for त्ति, P मरेज्जाहं. 15) J तप्पभूइँ. 16) P अत्थि for अत्थ, P om. भमिऊण, P पुहती, J चंपं. 17) J अत्थंगदे, P दिणयरट्टविय, P घर for णयरि, P जिणुज्जाणे परिवसिय. 18) J om. य. 19) P तत्थ माणो चित्तिउं. 20) J उअर for उदर, P तव for तरु. 21) P तो for ता, P adds जं before अम्ह, P संसत्तं किं पि मए. 22) P जिणुज्जाणे, P अण्णेण for एक्केण. 23) P अहो for अवे, P om. ति, J adds तं before तमाल, J दुवे विणियपुत्ता P दुवे वणियउत्ता. 24) P दसा दिसाओ, J P ततो for तओ, P इमं थाणं ता देहिँमि हणमु, P पएसे, J om. तेण. 25) J खणिउमाढत्तो, J om. तंभमय, J om. धूलीए, P वडि for वेळि. 26) J ततो. 27) P वि रक्खे भूय, P अण्णा वा, J अम्ह पसएणं. 28) J जघागतं, P जघागया तहा पडिगया, P om. च, P om. अहो. 29) P जत्तिमेत्तं, P चेव for चेय.

- 1 तत्रो ताय, तेण भगवया सञ्चणुणा साहिओ सयलो संसार-सहावो, पदंसिओ जीव-संसरणा-वित्थारो, वित्थारिओ 1  
कम्म-पयइ-विसेसो, विसेसिओ बंध-णिज्जरा-भावो, भाविओ संवरासव-वियप्पो, वियप्पिओ उप्पाय-ट्टिइ-भंग-वित्थारो,  
3 परूविओ जहट्टिओ मोकख-मग्गो त्ति । तत्रो इमं च सोऊण सव्वं उप्पण-संवेय-सद्धा-सुद्ध-हियएण पुच्छिओ मए भगवं 3  
सञ्चणू जहा 'भगवं, अम्हारिसा उप्पण-वेरग्गा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायत्त-करणा' । तो इमं च लक्खिऊण  
मह हिययत्थं भणियं भगवया । 6  
6 देवानुपिया सण्णी तिरिओ पंचिदिओ सि पज्जत्तो । सम्मत्तं तुह जायं होहिइ विरइ वि देसेण ॥ 6  
§ ४०१ ) एत्थंतरम्मि पुच्छिओ भगवं गणहर-देवेण । अवि य ।  
'भगवं के पुण सत्ता णरयं वच्चंति एत्थ दुक्खत्ता । किं वा कम्मं काउं बंधइ णरयाउयं जीवो ॥' 9  
9 भगवया भणियं ।  
'णरयाउयस्स गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाइं । जे जीवा तेसु ठिया णरयं वच्चंति ते चेय ॥  
पंचेदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं । केवट्टाईं गोदम ते मरिउं जंति णरयम्मि ॥ 12  
12 कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मंसं ति तं च आहारो । सावय-पक्खीण वहो मरिऊणं ते वि णरयम्मि ॥ 12  
सर-दह-तलाय-सोसण-हल-णंगल-जंत-वावडा पुरिसा । मरिऊण महारंभा गोदम वच्चंति णरयम्मि ॥  
गाम-णगर-खेड-कव्वड-आराम-तलाय-विसय-पुहईसु । परिमाण-विरइ-रहिया मुच्छिय-चित्ता गया णरयं ॥'  
15 तत्रो इमं च सोऊण ताय, मए चित्तिं । 'अहो भगवया मंसाहारिणो पंचेदिय-वह-कारिणो य णरय-नामिणो आइट्ठा । 15  
ता अम्हे पंचेदिय-वहया मंसाहारिणो य गया णरयं, ण एत्थ संदेहो । ण-याणिमो अत्थि कोइ संपयं उवाओ ण व'त्ति  
चित्तयंतस्स पुणो पुच्छिओ भगवं गणहारिणा 'भगवं, जइ पढमं इमेसु ठाणेसु होऊण पच्छा उप्पण-विवेगत्तणेण य  
18 णरय-दुक्ख-भीरू कोइ विरमइ सव्व-पाव-ठाणाणं ता किं तस्स णरय-णियत्तणं हवइ किं वा ण हवइ' त्ति । भगवया 18  
भणियं । 'गोयम, होइ जइ ण वद्धाउओ पढमं । बद्धाउओ पुणो सव्वोवाएहिं पि ण तीरइ णरय-गमणाओ वारेउं' ति ।  
तत्रो ताय, इमं च सोऊण मए चित्तिं 'अहो, महादुक्ख-पडरो णरयावासो, पमाय-बहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गई,  
21 दुरंतो संसार-वासो, कट्ठिणो पेम्म-णियला-बंधो, दारुण-विवागो एस पंचेदिय-वहो, णरयग्ग-दूओ एस कुणिमाहारो, 21  
णिदिओ एस तिरियत्त-संभवो, पाव-परमं अम्हाणं जीवियं ति । एवं च ववत्थिए किं मए कायव्वं' ति । तत्रो एत्थंतरम्मि  
भणियं भगवया । अवि य । 24  
24 जो छिंदिऊण णेहं इंदिय-तुरए य संजमेऊण । विहिणा मुंचइ देहं जहिच्छियं पावए सिद्धिं ॥ 24  
ति भणंतो समुट्ठिओ भगवं सञ्चणु त्ति । विहरिउं समाढत्तो । जहागयं पडिगया देव-दाणवा । अहं पि ताय, अहो  
भगवया अण्णोवप्सेण दिण्णो महं उवएसो । इमं चेय काहामि । अवि य । 27  
27 छेत्तूण णेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं सुगई पुण लहामि ॥ 27  
त्ति । ता दे करेमि, अहवा णहि णहि गुरुयणं आउच्छामि । अवि य ।  
आउच्छिऊण गुरुणो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च । जं करियव्वं पच्छा तं चेय पुणो अहं काहं ॥ 30  
30 ति चित्तयंतो अज्ज अकयाहारो एत्थ संपत्तो त्ति ।  
ता विण्णवेमि संपइ ताय तुमे एस पायवडणेण । देसु अणुज्जं खमसु य मह अज्जं सव्व-अवराहे ॥  
त्ति भणिऊण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

1 > J सहाओ, P संसिओ for पदंसिओ, P संसरणापयत्थारो वियत्थारिओ. 2 > P विसेसओ वद्धनिज्जरा, J om. वियप्पिओ,  
P ट्टि- 3 > J पत्रविओ for परूविओ, P मोकखमग्ग त्ति, P om. सव्वं, P उप्पणसंवेसद्धा. 4 > P repeats किं, P कुणंति, P  
जोणियपरायत्तकरणा, J परयत्त, J ततो for तो. 5 > P om. भणियं. 6 > P देवानुपिया, P adds पज्जत्तियाहिं before पज्ज-  
त्तो, JP होहिहि, P ति for वि. 7 > P एत्थंतरंति. 10 > P गोयम, P ट्टाणाइं, P हिया for ठिया. 11 > P जीवाणं केवट्टाती  
गोयम. 12 > P आहारो. 13 > P सोसेण, J जुत्त for जंत, P मरिऊ महारंभा, P गोयम, P नरयंति. 14 > P गामागर-  
खेडमदंबआराम-, P पुहतीसु. 15 > J ततो, P माय for ताय, J om. य. 16 > P काइं for कोइ. 17 > J किं तायवस्स for  
चित्तयंतस्स, J गणहारिणो, P om. पढमं, P ऊण for होऊण, P विवेयत्तणेण नरय-. 18 > P मएण for भीरू, J विमरइ सव्वं,  
P पाणट्टाणाइं ता, P तस्स रयणत्तणं हवइ. 19 > J गोतम, P होइ जणइ वद्धाउयं, J om. पढमं । बद्धाउओ, P om. पुणो, J सव्वं  
वाएहिं, P धारिउं for वारेउं. 20 > P om. च, J य for मए, P णरयावासो, J बहुलो जीवफली, P कंमगाती. 21 > P कट्ठिणो,  
P एसं चिंदियवहो णरयग्गिदूओ. 22 > J संभवो, P पोव for पाव, P om. च, J किम्मए P किं मयं. 23 > J om. अवि य.  
24 > P जहच्छियं पावसिद्धिं, J सिद्धि त्ति. 25 > P सव्वदू, P जहा पडिगया, P ताह for ताय. 26 > P अण्णोवप्सेण.  
27 > P छेऊण, P णियओ, P भत्तू for भत्त, P om. पुण, P लहीहामि. 28 > P om. one णहि, P अउच्छामि, P अहवा for  
अवि य. 29 > J णिद्धं for मित्तं, P काहिंति. 30 > P अज्ज कयाहारो. 31 > J विण्णवेसि (?), P अणुज्जं. 32 > P ति  
for त्ति, J चलणेसु । तत्रो, P वलय for चलण.

- [ ४०१ ]

- 1 तत्रो ताय, तेण भगवया सञ्चण्णुणा साहियो सयलो संसार-सहावो, पदंसिओ जीव-संसरणा-वित्थारो, वित्थारिओ 1  
 कम्म-पयइ-विसेसो, विसेसिओ बंध-णिज्जरा-भावो, भाविओ संवरासव-विषयो, वियप्पिओ उप्पाय-ट्टिइ-भंग-वित्थरो,  
 3 परुविओ जहट्टिओ मोक्ख-मग्गो त्ति । तत्रो इमं च सोऊण सच्चं उप्पण-संवेय-सद्धा-सुद्ध-हियएण पुच्छिओ मए भगवं 3  
 सच्चणू जहा 'भगवं, अम्हारिसा उप्पण-वेरग्गा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायत्त-करणा' । तो इमं च लक्खिऊण  
 मह हिययत्थं भणियं भगवया ।  
 6 देवाणुपिया सण्णी तिरिओ पंचिदिओ सि पज्जत्तो । सम्मत्तं तुह जायं होहिइ विरइं वि देसेण ॥ 6  
 § ४०१ ) एत्थंतरम्मि पुच्छिओ भगवं गणहर-देवेण । अवि य ।  
 'भगवं के पुण सत्ता णरयं वच्चंति एत्थ दुक्खत्ता । किं वा कम्मं काउं बंधइ णरयाउयं जीवो ॥'  
 9 भगवया भणियं ।  
 'णरयाउयस्स गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाइं । जे जीवा तेसु ठिया णरयं वच्चंति ते चेय ॥  
 पंचेदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं । केवट्टाई गोदम ते मरिउं जंति णरयम्मि ॥ 12  
 12 कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मंसं ति तं च आहारो । सावय-पक्खीण वहो मरिऊणं ते वि णरयम्मि ॥ 12  
 सर-दह-तलाय-सोसण-हल-णंगल-जंत-चावडा पुरिसा । मरिऊण महारंभा गोदम वच्चंति णरयम्मि ॥  
 गाम-णगर-खेड-कच्चड-आराम-तलाय-विसय-पुहइंसु । परिमाण-विरइ-रहिया मुच्छिय-चित्ता गया णरयं ॥'  
 15 तत्रो इमं च सोऊण ताय, मए चित्तिंयं । 'अहो भगवया संसाहारिणो पंचेदिय-वह-कारिणो य णरय-गामिणो आइट्टा । 15  
 ता अम्हे पंचेदिय-वहया संसाहारिणो य गया णरयं, ण एत्थ संदेहो । ण-याणिमो अत्थि कोइ संपयं उवाओ ण व'त्ति  
 चित्तयंतस्स पुणो पुच्छिओ भगवं गणहारिणा 'भगवं, जइ पढमं इमेसु ठाणेषु होऊण पच्छा उप्पण-विवेगत्तणेण य  
 18 णरय-दुक्ख-भीरु कोइ विरमइ सच्च-पाव-ठाणाणं ता किं तस्स णरय-णियत्तणं हवइ किं वा ण हवइ' त्ति । भगवया 18  
 भणियं । 'गोयम, होइ जइ ण वद्धाउओ पढमं । वद्धाउओ पुणो सच्चोवाएहिं पि ण तीरइ णरय-गमणाओ वारेउं' ति ।  
 तत्रो ताय, इमं च सोऊण मए चित्तिंयं 'अहो, सहादुक्ख-पउरो णरयावासो, पमाय-वहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गई,  
 21 दुरंतो संसार-वासो, कट्टिणो पेम्म-णियला-बंधो, दारुण-विवागो एस पंचेदिय-वहो, णरयग्ग-दूओ एस कुणिमाहारो, 21  
 णिदिओ एस तिरियत्त-संभवो, पाव-परमं अम्हाणं जीवियं ति । एवं च ववत्थिए किं मए कायव्वंति । तत्रो एत्थंतरम्मि  
 भणियं भगवया । अवि य ।  
 24 जो छिंदिऊण णेहं इंदिय-तुरए य संजमेऊण । विहिणा सुंचइ देहं जहिच्छियं पावए सिद्धिं ॥ 24  
 ति भणंतो समुट्ठिओ भगवं सच्चणु त्ति । विहरिउं समाढत्तो । जहागयं पडिगया देव-दाणवा । अहं पि ताय, अहो  
 भगवया अण्णोवप्सेण दिण्णो महं उवप्सो । इमं चेय काहामि । अवि य ।  
 27 छेत्तण णेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं सुगई पुण लहामि ॥ 27  
 ति । ता दे करेमि, अहवा णहि णहि गुरुयणं आउच्छामि । अवि य ।  
 आउच्छिऊण गुरुणो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च । जं करियव्वं पच्छा तं चेय पुणो अहं काहं ॥ 30  
 30 ति चित्तयंतो अज्ज अकयाहारो एत्थ संपत्तो त्ति ।  
 ता विण्णवेमि संपह ताय तुमे एस पायवडणेण । देसु अणुज्जं खमसु य मह अज्जं सच्च-अवराहे ॥  
 ति भणिऊण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

1 > J सहाओ, P संसिओ for पदंसिओ, P संसरणापयत्थारो वियत्थारिओ. 2 > P विसेसओ वद्धनिज्जरा, J om. वियप्पिओ,  
 P ट्टि- 3 > J पन्नविओ for परुविओ, P मोक्खमग्ग त्ति, P om. सच्चं, P उप्पणसंवेसद्धा. 4 > P repeats किं, P कुणंति, P  
 जोणीयपरायत्तकरुणा, J परयत्त, J ततो for तो. 5 > P om. भणियं. 6 > P देवाणुपिया, P adds पज्जत्तियाहिं before पज्ज-  
 त्तो, J P होहिति, P ति for वि. 7 > P एत्थंतरंति. 10 > P गोयम, P ट्टाणाइं, P हिया for ठिया. 11 > P जीवाणं केवट्टाती  
 गोयम. 12 > P आअहारो. 13 > P सोसेण, J जुत्त for जंत, P मरिऊ महारंभा, P गोयम, P नरयंति. 14 > P गामागर-  
 खेडमद्वंआराम- , P पुहतीसु. 15 > J ततो, P माय for ताय, J om. य. 16 > P काई for कोइ. 17 > J किं तायवस्स for  
 चित्तयंतस्स, J गणहारिणो, P om. पढमं, P ऊण for होऊण, P विवेयत्तणेण नरय-. 18 > P भएण for मीरु, J विमरइ सच्चं,  
 P पाणट्टागाई ता, P तस्स रयणत्तणं हवइ. 19 > J गोतम, P होइ जणइ वद्धाउयं, J om. पढमं । वद्धाउओ, P om. पुणो, J सच्चं  
 वाएहिं, P धारिउं for वारेउं. 20 > P om. च, J य for मए, P णरयावासो, J बहुलो जीवफली, P कंमगती. 21 > P कट्टिणो,  
 P एत्तं चिंदियवहो णरयग्गिदूओ. 22 > J संभववो, P पोव for पाव, P om. च, J किम्मए P किं मयं. 23 > J om. अवि य.  
 24 > P जहच्छियं पावसिद्धिं J सिद्धिं त्ति. 25 > P सच्चयू, P जहा पडिगया, P ताह for ताय. 26 > P अण्णोवप्सेण.  
 27 > P छेऊण, P णियलो, P भत्त for भत्त, P om. पुण, P लहीहामि. 28 > P om. one णहि, P अउच्छामि, P अहवा for  
 अवि य. 29 > J जिदं for मित्तं, P काहिंति. 30 > P अज्ज कयाहारो. 31 > J विण्णवेसि (?), P अणुज्जं. 32 > P ति  
 for त्ति, J चलनेसु । तत्रो, P वल्लय for चलण.

- 1 जेगं चिय जिमुओ सो देवं अह विण्णवेसु तेणेय । संसार-सायरं तो अम्हे हि वितरिउमिच्छामो ॥ 1
- तओ हरिस-पुल्लइजमाग-सररेण कुमारेण भणियं । अवि य ।
- 3 महुर-मिउ-मन्मणुल्लाविरीहिं णाणा-विलास-लासाइं । वारस-वासाइं अहं तुम्हाहिं वासिओ एत्थ ॥ 3
- इह-परलोच-विसुद्धं सपक्ख-परपक्ख-रामयं वयणं । अम्हेहिं असुय-पुव्वं अभाणिय-पुव्वं च तुम्हाहिं ॥
- ता सुंदरीओ सुंदरमिणमो संपह विचिंतियं कज्जं । जर-भरण-सोग-विसमो संसारो जुज्जए तरिउं ॥ किंतु,
- 4 पुच्छामि ताव गंतुं सत्थं सच्चणु हियसणाहियं च । को एस किं च जंपइ किं काउं जुज्जए एवं ॥ 6
- वि भणिय नाहिं भणियं । 'एत्थ
- तुइ अजली विरहओ अम्हं सच्चाहि सुणतु वेण्णप्यं । जं पडिवज्जसि णरवर अम्हाहि वि तं करेयव्वं ॥'
- 5 वि भणिक्ख गिवटिया चलणेसु । एवं 'पडिवण्णं' ति भणमागो णिग्गओ वहरगुत्त-कुमारो तेणेय वड-पायव-कुडिच्छ-मग्गेणं, 9
- ममागओ य इह समवसरणे । पुच्छिऊण संदेहं णीहरिओ समवसरणाओ ति ।
- ( § ३९४ ) ता भो गोयम, जं तए पुच्छियं जहा को एस पुरिसो । एस चंदगुत्त-पुत्तो वहरगुत्तो, इमिणा दिव्व-
- 12 पञ्चोनेय पडिवुत्तो ति । भणियं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कथ सो उवगओ' ति । भगवया भणियं 'तं 12
- सत्थं मदिआयनं तम्हाओ पायाल-घराओ णिकासिऊण धाणेहिइ । एसो य संपयं समवसरण-तहय-तोरणासण्णे संपत्तो'
- वि, जाव एत्थियं साहइ भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकाऊण समं महिला-सत्थेण भगवं कुमारेण पणाभिओ उवविट्ठो ।
- 13 सुवावायेण य पुच्छिओ भगवं 'केण कजेण को वा एस दिव्वो ममं पडिबोहेइ, कहिं वा सो संपयं' ति । भगवया 15
- वि मदिओ मयणे पंचगह वि जणाणं भव-परंपरा-वित्थरो ता जा मणिरह-कुमारो, कामगइंदो, तइओ सो चेष वहरगुत्तो ।
- तएव देवणेय-सुओ मुमं लोहदेव-विओ एत्थ उववण्णो पमत्तो य । तओ मायाइच्च-चंडसोम-जीएहिं इमिणा पाहाउय-
- 14 ईगण-परणसट्ठेण पण्योहिओ ति । इमं च सोऊण भणियं । 'भगवं, किं संपयं विलंबसि, देसु मे दिक्खं' ति भणिए 18
- विभियओ ममं चेष विद्यामिणीहिं वहरगुत्तो ति ।
- मणर-विद्यामिणोयण-करेणु-परियारिओ घण-गओ व्व । दिक्खा-वारी-बंधे सुहप्फले णवर सो वद्धो ॥ ति ।
- 15 ( § ३९५ ) एवं य मगल-तेलोह-एल्ल-सरोयर-सरस-पुंडरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महावीरणाहो विहरमाणो पुणो 21
- संदेहे हि म्हाउं णाम णवरं । तत्थ य घादिरुजाणे विरइयं देवेहिं से समवसरणं विहि-वित्थरा-बंधेण । तत्थ य भगवया
- मत्थियं विण्णमं अणेय-भव-नदस्स-परंपरा-कारणं । पुणो आवद्ध-करयलंजलिणा पुच्छिओ भगवं गोदम-गणहारिणा
- 16 अम्हाहिं ववसो ति । 'भगवं,
- 24
- गोदमिण इइ पुमिवा एतणां' तेरिरे मुसंतुट्ठा । दाहिइ एसो धत्थं तेणम्हे सुंजिमो भोए ॥
- एइ ताण सो वि सुट्ठो इइ धत्थं इइ सो चिय अतुट्ठो । अह ताण तस्स सेवा जुज्जइ सफला भवे जेण ॥
- 7 सो सुए एतो एणो देवं अहोइ भवि-विजण्ण । तस्स ण दीमइ किंचि वि इह लोए जं फलं होइ ॥' 27

- 1 नागा उदहि-सुवण्णा अग्गी विज्जू य जाव इंदंता । एए सव्वे देवा सराह्णो दोस-मोहिल्ला ॥ 1  
 एयाण पूयणं अच्चणं च जो कुणह् परम-भत्तीए । राय च्च तस्स तुट्ठा देति धणादी य कल्लाणे ॥
- 3 भत्तीएँ जे उ तुट्ठा णियमा रुसंति ते अभत्तीए । सह-भाविणो य मोहे रागदोसा इमे दोण्णि ॥ 3  
 जह् णरवह्णो कुविया रज्जादी-दिण्णयं पुण्ण हरंति । इय तह् देवा एए सुहमसुहं वा फलं देति ॥  
 अह् पुच्छसि पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण्णि किं व देवेहिं । अह् देवेहि मि कीरइ ता कम्मं णिप्फलं तत्थ ॥
- 6 जइ तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं । अह् तस्स देवय च्चिय करंति ता णिप्फलं कम्मं ॥ 6  
 एसो तुज्ज वियप्पो गोदम च्चित्तमि वट्टए एत्थ । तं अवुह-वोहणत्थं साहिप्पंतं णिसामेहि ॥  
 णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणए कम्मे । दव्वं खेत्तं कालं भवं च भावं च संपप ॥
- 9 तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमसिएण देवाण । वच्चइ उदयं खय-उवसमं च खेत्तमि वा काले ॥ 9  
 ता तारिस-कम्मदओ देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खल्लि-विल्ल-सरिसं कागागम-तालवडणं च ॥  
 जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देइ । कम्माण सो विवागो तह् वि हु दिण्णं ति णरवह्णा ॥
- 12 देवा य मंगलाइं सडणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह् तह् करंति पुरिसं जह् दिट्ठं पुच्च-कम्मेहिं ॥ 12  
 इय एए राग-मणा संपइ णीरागिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कओ मोक्खस्स गइं णिरुवेइ ॥  
 तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिद्ध-कम्म-वण-गहणा । भव-केवल्लिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥
- 15 ताणं वयणाभिरए धायरिउज्जाय-सव्वसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुथं पुण्णप्फलं लहसि ॥ 15  
 पुण्णेण होइ सगो सग्गाओ सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओ धम्म-डुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥  
 तत्तो णाणं णाणाओ होइ चरणं पि तेण णिज्जरणं । णिज्जराओ मोक्खं मोक्खे सोक्खं अणावाहं ॥
- 18 जो ताण कुणह् थवणं भयणं विवं च पूयणं अहवा । पारंपरेण सो वि हु मोक्ख-सुहं चेय पावेइ ॥ 18  
 अह् भणसि तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणंति कह मोक्ख-सोक्खाइं ॥  
 जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्ठा कुणंति वर-सावे । सावाणुगह-रहियं को किर सेवेज्ज थाणुं वा ॥
- 21 § ३९६) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागदोसेहिं वज्जिया जइ वि । सावाणुगह-हेऊ भवंति ते भावण-वसेण ॥ 21  
 जह् वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरमि चउरंसे । माहिंद-वज्ज-चिंधे विचिंतितो कुणइ विस-थंभं ॥  
 जह् तज्जणीएँ सो च्चिय अट्टमि-चंदमि अमिय-भरियमि । पउमच्चण-जलदेवे हरइ विसं खत्तिय-फणिमि ॥
- 24 जह् मज्झिमाएँ सो च्चिय रत्ते तं सेय-सोत्थिय पसत्थे । वइस-फणिंदे लूढो विसस्स अह् थोहणं कुणइ ॥ 24  
 जह् य अणामाएँ पुणो कसणो वट्टो य विहुम-विचित्तो । सुद्ध-फणि-वाउ-देवे लूढो संकामणं कुणइ ॥  
 सो च्चिय हंसो णह-मंडलमि रव-मेत्त-संठिओ सुद्धमो । चिंतिय-मेत्तो एसो विसस्स णिब्वाहणं कुणइ ॥
- 27 एवं गोदम पुहईं आऊ तेऊ य पवण-गयणंता । पंच वि भूया पंचगुलीसु पयरंति कम्माइं ॥ 27  
 एक्को च्चिय विण्णत्तो मंडल-भेदेण कुणइ कम्माइं । ण य तस्स राग-दोसा हिय-अणहिय-चिंतणं णेय ॥  
 एएण चिंतितो हं पीओ थंभं करेमि एयस्स । एएण अमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥
- 30 एवं थोहो संकम-णिब्वाहा रत्त-कसिण-सामेहिं । ण य सो करेइ चिंतं अणुगहं णिग्गहं कुणइ ॥ 30  
 एसो तुह् दिट्ठंतो वण्णंतो गोदमा मए दिण्णो । जह् एसो तह् भगवं जाणेज्जसु वीयरगो वि ॥  
 ण य सो चिंतेइ इमं अणेण जह् संथुओ अहं एसो । पावेमि सिद्धि-वसइं ण कयाइ विचिंतए एवं ॥ अहवा,

1 > J उवहि, J पते, P होति for दोस. 2 > P adds पडिमा before पूयणं, P om. अच्चणं, J घणाइं. 3 > J om. उ, P रमंति ते य तुट्ठीए । P मोहो रागं दोसा इमे होति ॥. 4 > P जह् नवरं नरवह्णा कुविया, P रज्जादि-दिन्नय हरंति ।, J पते. 5 > P अहं, P किंचि for किं, P अहवा देवेहिं मि, P तस्स for तत्थ. 6 > P तस्स दिवय, J adds ताणि before ता. 7 > P गोयम चित्तं पि वट्टए, P जं for तं. 8 > J उदयाती, P om. उदयाई, J मिस्सदि परिणदि कम्मे, P मिस्सादी. 9 > P भवे नंमंसिएण, J देवेण, P repeats उदयं, P om. वा, P कालो. 10 > J कम्मदयो, P कंसुवओ देवाणमंसियं च सुहभावी ।, J तं खिल्लि विल्लि, P कागागमल-वडणं. 11 > J णरवई, P गोयम सेवार्थमेण, J तोसितो, P विवासो तह. 12 > J सडणा for सुमिणा, P तं for second तह. 13 > J एदे. 14 > J भयवंतो, P सिद्ध निद्ध, J णिद्धु, J पते. 15 > P वयणा तिरए, P गरु for गरुथं. 17 > P सोखं. 18 > P भवणं for थवणं. 19 > P गोयम, J कोय-, P तह for कह, J सोक्खाती P सोक्खाइ. 20 > J जित, P चिंधे for चिंधे, J P च्च for वा. 21 > P गोयम, J हेतू, P भणंति ते. 22 > J वण्णा J वंनो for वण्णे, P चउरंसि, P चिंधे for चिंधे, J विण्णतिओ for विचिंतितो, P विसं. 23 > P जे for जह, J तज्जणीय, J अट्टमि, J अमय, P जलदेवा. 24 > J से for सो, P सो चि रत्ते तं चिय सोत्थिय पसत्थे, J वेइसड्ढाणलूढो, P अहवा कुणं हणइ ॥. 25 > J कसणवट्टो, P पुणो कसणे वट्टे य विट्ठयविचित्तो । अहफणि-, J वायु-. 26 > J सामो for हंसो, P वर for रव, P चिंतितो, J च्चिय सो for एसो. 27 > P गोयम, P पवणमयणो य ।, J भूता पंचगुलिआ पयरंति, P कंमाइ. 28 > J वण्णंतो for विण्णत्तो, P एण वि for अणहिय, J अणहिय. 29 > J पीतो P पीउं, J adds देत्ता before थंभं, J एतस्स, J एतेण, J एदस्स विसं व णासंमि. 30 > P adds च ॥ after एवं, J रंत-, P से करेइ, J अणुगओ णिग्गह. 31 > J om. वण्णंतो, P गोयमा, J दिट्ठाणो for दिण्णो, J वीतरागो. 32 > P जइ for ण य सो, J अणेण जह् संथुतो, P कयावि, P om. एवं.

- 1 पृष्ण जिदिओ हं इमस्स पावं करेमि ता बहुयं । ण कयाइ वीयरगो भगवं चित्तेहिइ वियप्यं ॥  
जेण ण मणो ण रागो ण य रोसो तस्स णेय सा इच्छा । णिक्कारणं गिरत्थं अमणं को चित्तिउं तरइ ॥
- 3 तह वि थुणंतो गोदम थुइ-फलमउलं तु पावए पुरिसो । जिंदंतो जिंदा-फलमहवा अह णरयवडणाइं ॥  
तम्हा एक्को भगवं पुष्ण-फलो होइ पाव-हेऊ य । विस-थंभण-णिग्वाहे जह वण्णंतो मए भणिओ ॥  
मा चित्तेसु वियप्यं गोदम दम्वाइं होंति लोगम्मि । अवरोपरं विरोहो जाणसु अह दीसए पयडो ॥
- 6 जह अग्गी पज्जलिओ तावण-उज्जोवणं च सो कुणइ । जरहा तह य पयासं पावस्स य तावणं कुणइ ॥  
गोदम जह य रसिंदो अयंभिओ अग्गि-मज्झ-पक्खित्तो । फुडिउण तक्खणं चिय दिसो-दिसं वच्चइ अदिट्ठो ॥  
तह जिण-दंसण-जलणेण ताविओ पाव-पारय-रसोहो । एत्तिय झत्ति विलिज्जइ असहंतो संगमं तस्स ॥
- 9 जह रविणा तिमिरोहो तिमिरेण वि चक्खु-दंसणं सहसा । दंसण-मोहेण जहा णासिज्जइ कह वि सम्मत्तं ॥  
तइ गोदम जिण-दंसण-जिण-चित्तण जिणवराण वयणेहिं । णासइ पाव-कलंकं जिण-वंदण-जिण-गुणेहिं च ॥  
एवं च माहिए सयल-पुरिसिंद-पुंडरीएण भगवया णाय-कुलंबर-पुष्णयंदेण जिण-चंदेण पडिवण्णं सब्बेहि मि भाबद्ध-कर-
- 12 कम्म-मउल-मोहेहिं तियमिदप्पमुहेहिं सयल-सत्तेहिं ।

( § ३९७ ) एत्थंतरम्मि पविट्ठो एक्को बंभण-दारओ समवसरणम्मि । केरिसो । अवि य ।

सामन-वच्छथन-सोलमाण-सिय-बम्ह-सुत्त-सोहिल्लो । पवणंदोलिर-सोहिय-कंठइ-णिबद्ध-वसणिह्लो ॥

- 15 त्रिगुणं पयाहिणोक्कओ जेण भगवं । पायवडण-पच्चट्टिएण य भणियं तेण । भगवं,  
ओ सो षणम्मि पक्खी माणुस-भासाएँ जंपए किं वा । जं तेण तथ भणियं तं वा किं सच्चयं सच्चं ॥  
भगवथा भणियं ।

- 16 देवापुरिया सुय्यउ जो सो पक्खी वणम्मि सो दिव्वो । जं किंचि तेण भणियं सच्चं तं सोम्म सच्चं पि ॥  
नेण भणियं ।

भगवं जइ मं सच्चं वणम्मि जं पक्खिणा तहिं भणियं । ता रयणाणि इमाइं ताणं सामीण उप्पेमि ॥

- 21 भगवथा भाइँट् ।

देवापुरिया जुअइ पज्जायाओ तुहाण काउं जे । दिट्ठो चिय तम्मि वडे तुमए पक्खीण ववहारो ॥

एवं च अत्थि-मेले तिसुत्तं गो समवसरणाओ सो बंभण-दारओ । तओ पुच्छिओ भगवं जाणमाणेणावि गोयम-गणहारिणा ।

- 24 भगवं,

- 1 गिज्जीण-पुव्व-विहवा पुरिसा पुरओ ठिया ण दीसंति । दारिहंजण-जुत्ता पत्तिय-सिद्ध व्व दीसंति ॥ 1  
इमं च एरिसं णाऊणं सयंभुदेवस्स जणणीए भणिओ सयंभुदेवो । अवि य ।
- 3 पुत्त धण-सार-रहिओ उवहसणिज्जो जणम्मि सव्वम्मि । मय-किरियाएँ विहूणो जीवंत-मयल्लओ पुरिसो ॥ 3  
अम्हाण तुमं पुरिसो णिक्खित्तं तुह कुडुंब-भारं ति । ता तह करेसु पुत्तय जह पिउ-सरिसं कुणसि अत्थं ॥  
णिउणो तुमं पि पुत्तय पंडिय-पडिओ य सूर-चित्तो य । ता तह करेसु संपइ जह जियइ कुडुंबयं मज्झं ॥
- 6 § ३९८) एवं च दीण-करुणं भणिओ जणणीए इमो सयंभुदेवो अहिय-संजाय-मण्णु-गगार-वयणो भणिउमाढत्तो । 6  
अवि य ।  
पुण्णेहिँ होइ अत्थो अम्हं पुण्णाइँ माएँ णट्टाइँ । घेत्तूण विहव-किरणे रवि व्व सो चेय अत्थमिओ ॥
- 9 एकस्स होइ पुण्णं ण पोरुसं दोणिण होंति अण्णस्स । अण्णो दोहिँ पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रहिओ य ॥ 9  
पुण्णेहिँ होइ लच्छी अलसा महिल व्व णाम-मेत्तेण । पुण्ण-णियलेहिँ वद्धा अण्णमणा चेय वंदि व्व ॥  
जो पुण्ण-पोरुसेहिँ लच्छी पुरिसस्स होइ दोहिँ पि । सुरय-वियड्ढा पोढ व्व सहइ सा वंचियं साहुं ॥
- 12 जा पुण पुण्णेहिँ विणा एक्केणं पोरुसेण णिव्वडिया । अथिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-विज्जु-रेह व्व ॥ 12  
पोरुस-पुण्ण-विहूणा लच्छी घेत्तुं ण तीरइ जणेण । चवलत्तण-दुल्ललिया माए जल-चंद-रेह व्व ॥  
पुण्ण-रहियाण अम्हं अम्मो सत्तेण किं पि जइ होइ । तं तं करेमि एण्हं जं भणियं तं खमिज्जासु ॥
- 15 त्ति भणंतो णिव्वडिओ चलणेसु, समुट्ठिओ य । भणियं च तेण । अवि य । 15  
भमिऊण सयल-पुहईँ छाउव्वाओ खुड त्ति पडिऊण । अवि णाम मरेज्ज अहं अकयत्थो णो घरं एमि ॥  
त्ति भणंतो णिक्खंतो मंदिराओ सो वंभण-दारओ । तप्पभूइँ च णयर-पुर-सोहियं वसुंधरं भमिउमाढत्तो । कत्थ । अवि य ।
- 18 णयर-पुर-खेड-कव्वड-गामागर-दीव-तह-मडंवेसु । दोणमुहाडइ-पट्टण-आराम-पवा-विहारेसु ॥ एवं च, 18  
अत्थ-परिमगिरो सो सव्वोवायाइँ णवरि काऊण । भमिऊण सयल-पुहईँ चंपा-णयरिं समणुपत्तो ॥  
§ ३९९) तत्थ य अत्थंगए दिणयरं ठइय-दुवारं सव्वम्मि णयरि-जणवए चित्तियं तेण । 'दे एत्थ जुण्णुज्जाणे
- 21 पविसिय एकम्मि पायवे समारुहिऊण राइ-सेसं णेमि' त्ति चित्तयंतो पविट्ठो आरुहो थ एकम्मि तमाल-पायवम्मि । 21  
तत्थ य अच्छमाणो चित्तिउं पयत्तो । अवि य ।  
'अव्वो भवणुव्वाओ उदर-दरी-भरण-वावडो दियहं । तरु-साहासु पसुत्तो पक्खा-रहिओ अहं काओ ॥
- 24 ता धिरत्थु इमस्स अम्ह जम्मस्स, ण संपत्तं किंचि मए अत्थं, जेण घरं पविसामि' त्ति चित्तयंतेण णिसुओ कस्स 24  
वि सद्दो । तओ 'अहो, को एत्थ जुण्णुज्जाणे मंतेइ' त्ति जायासंको आयण्णयंतो अच्छिउं पयत्तो जाव एक्केण भणियं ।  
'एस तमाल-पायवो, इमस्स अधे कीरउ इमं कज्जं' ति भणंता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता । णिरूवियाओ
- 27 तेहिँ दस वि दिसाओ । तओ भणियं । 'अहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे णिहणसु इमम्मि पदेसे' त्ति भणंतेण तेण 27  
खणिउमाढत्तं तं पएसंतरं । णिक्खित्तं च तत्थ तेहिँ तंबमय-करंडयं, पूरियं धूलीए, वेळि-लयाहिँ कयं साहिण्णाणं ।  
तत्तो तेहिँ भणियं । अवि य ।
- 0 'जो एत्थ को वि रक्खो भूय-पिसाओ व्व होज्ज अण्णो वा । णासो तस्स णिहित्तो पालेज्जसु अह पसाएणं' 30  
त्ति भणिउं जघागयं पडिगया । चित्तियं च इमेण । अहो,  
जं जेण जहिँ जइया जत्तिय-मेत्तं च जस्स पासाओ । तं तेण तहिँ तइया पाविज्जइ तत्तियं चेय ॥
- 33 जेण पेच्छ । 33

1 > P गिज्जीण, J ट्टिया P ट्टिया, J जणसिद्धा पत्तिय. 2 > P एरिसं नाऊणं भुदेवस्स. 3 > P सव्व for मय, P जीय व्व मयल्लओ. 4 > P अम्हा तुमं, P तह कुडुंब-, P पिओ सारिसं. 5 > P पंडियओ सूर-. 6 > P adds स before दीण, P इमं for इमो, J अहिअंजाय, J adds माए after अवि य. 8 > P करणे, P चेव. 9 > P होइ अत्थं पुत्तेहिँ पोरुसेण दिन्नं पि ।, P दो for दोहिँ, P विणा अपुरुसो. 10 > P अण्णमण्णो. 11 > P होति, J सुरयावियड्ढा, P सव्वंणियं for सा वंचियं, P साहु for साहुं. 12 > P जो पुण, P एक्केण पुरिसेण, J णिव्वरिआ, J विज्जेरेह. 13 > J विहीणा, P घेत्तुं, P रेहि. 14 > P होइ । ता तं, J भणिया तं खमेज्जासि. 16 > P पुहइ, JP खुडु त्ति, P ति for त्ति, P मरेज्जाहं. 17 > J तप्पभूइँ. 19 > P अत्थि for अत्थ, P om. भमिऊण, P पुइती, J चंप. 20 > J अत्थंगदे, P दिणयरट्टविय, P घर for णयरि, P जिणुज्जाणे परिवसिय. 21 > J om. य. 22 > P तत्थ माणो चित्तिउं. 23 > J उअर for उदर, P तव for तरु. 24 > P तो for ता, P adds जं before अम्ह, P संसत्तं किं पि मए. 25 > P जिणुज्जाणे, P अण्णेण for एक्केण. 26 > P अहो for अधे, P om. ति, J adds तं before तमाल, J दुवे विणियपुत्ता P दुवे वणियउत्ता. 27 > P दसा दिसाओ, J P ततो for तओ, P इमं थाणं ता देहिमि हणसु, P पएसे, J om. तेण. 28 > J खणिउमाढत्तो, J om. तंबमय, J om. धूलीए, P वळि for वेळि. 29 > J ततो. 30 > P वि रक्खे भूय-, P अण्णा वा, J अम्ह पसाएणं. 31 > J जघागतं, P जहागया तथा पडिगया, P om. च, P om. अहो. 32 > P जत्तिमेत्तं, P चेव for चेय.



- 1 एएण णिदिओ हं इमस्स पावं करेमि ता बहुयं । ण कयाइ वीयरानो भगवं चिंतेहिइ वियपं ॥ 1
- जेण ण मणो ण रागो ण य रोसो तस्स णेय सा इच्छा । णिकारणं णिरत्थं अमणं को चिंतिउं तरइ ॥
- 3 तह वि थुणंतो गोदम थुइ-फलमउलं तु पावए पुरिसो । णिंदंतो णिंदा-फलमहवा अह णरयवडणाइं ॥ 3
- तम्हा एको भगवं पुण्ण-फलो होइ पाव-हेऊ य । विस-थंभण-णिव्वाहे जह वण्णंतो मए भणिओ ॥
- मा चिंतेसु वियपं गोदम दव्वाइं होंति लोगम्मि । अवरोप्परं विरोहो जाणसु अह दीसए पयडो ॥
- 6 जह अग्गी पज्जलिओ तावण-उज्जोवणं च सो कुणइ । अरहा तह य पयासं पावस्स य तावणं कुणइ ॥ 6
- गोदम जह य रसिंदो अथंभिओ अग्गि-मज्झ-पक्खित्तो । फुडिऊण तक्खणं चिय दिसो-दिसं वच्चइ अदिट्ठो ॥
- तह जिण-दंसण-जलणेण ताविओ पाव-पारय-रसोहो । एत्तिय झत्ति विलिज्जइ असहंतो संगमं तस्स ॥
- 9 जह रविणा तिमिरोहो तिमिरेण वि चक्खु-दंसणं सहसा । दंसण-मोहेण जहा णासिज्जइ कह वि सम्मत्तं ॥ 9
- तह गोदम जिण-दंसण-जिण-चित्तण जिणवराण वयणेहिं । णासइ पाव-कलंकं जिण-वंदण-जिण-गुणेहिं च ॥
- एवं च साहिए सयल-पुरिसिंद-पुंडरीएण भगवया णाय-कुलंवर-पुण्णयंदेण जिण-वंदेण पडिवण्णं सव्वेहि मि आवइ-कर-
- 12 कमल-मउल-सोहेहिं तियसिंदपमुहेहिं सयल-सत्तेहिं । 12

§ ३९७) एत्थंतरम्मि पविट्ठो एको वंभण-दारओ समवसरणम्मि । केरिसो । अवि य ।

सामल-वच्छत्थल-घोलमाण-सिय-बम्ह-सुत्त-सोहिल्लो । पवणंदोलिर-सोहिय-कंठइ-णिवइ-वसणिल्लो ॥

- 15 तिगुणं पयाहिणीकओ णेण भगवं । पायवडण-पच्चुट्टिएण य भणियं तेण । भगवं, 15
- को सो वणम्मि पक्खी माणुस-भासाएँ जंपए किं वा । जं तेण तत्थ भणियं तं वा किं सच्चयं सव्वं ॥
- भगवया भणियं ।

- 18 देवाणुपिया सुव्वउ जो सो पक्खी वणम्मि सो दिव्वो । जं किंचि तेण भणियं सच्चं तं सोम्म सव्वं पि ॥ 18
- तेण भणियं ।

भगवं जइ तं सच्चं वणम्मि जं पक्खिणा तहिं भणियं । ता रयणाणि इमाइं ताणं सामीण उप्पेमि ॥

- 21 भगवया आइट्टं । 21

देवाणुपिया जुज्जइ पच्छायावो बुहाण काउं जे । दिट्ठो चिय तम्मि वडे तुमए पक्खीण ववहारो ॥

एवं च भणिय-मेत्ते णिक्खंतो समवसरणाओ सो वंभण-दारओ । तओ पुच्छिओ भगवं नाणमाणेणावि गोयम-गणहारिणा ।

- 24 'भगवं, 24

को एस दियाइ-सुओ किं वा एएण पुच्छिओ भगवं । को सो वणम्मि पक्खी किं वा सो तत्थ मंतेइ ॥'

एवं च पुच्छिओ भगवं महावीरो साहिउं पयत्तो । 'अत्थि णाइदूरे सरलपुरं णाम वंभणाणं अग्गाहारं । तत्थ जण्णदेवो

- 27 णाम महाधणो एको चउव्वेओ परिवसइ । तस्स य जेट्ठउत्तो सयंभुदेवो णाम । सो य इमो । एवं च तस्स 27

बहु-सयण-जण-वेय-विज्जा-धण-परिवारियस्स वच्चंति दियहा । एवं च वच्चंतेसु दियहेसु, अवस्सं-भावी सव्व-जंतूण एस मच्चू,

तेण य सो जण्णदेवो इमस्स जणओ संपुण्ण-णिय-आउयप्पमाणो परलोगं पाविओ । इओ य सव्वं अत्थं परियलमाणं

- 30 णिहणं पावियं । सव्वहा तारिसेणं कम्म-परिणामेणं तं ताण णत्थि जं एग-दियह-असणं । तओ एवं च परिवियलिए 30

विहवे ण कीरंति लोगयत्ताओ, विसंवयंति अत्तिहि-सक्काराइं, सिडिलियाओ वंभण-किरियाओ, अवहत्थियाइं णिद्ध-बंधु-

दाणाइं ति । सव्वहा,

- 33 गुरु-णिद्ध-भिच्च-बंधव-परियण-जण-सामिणो य पुरयम्मि । ता मणिज्जइ पुरिसो जा विहवो अत्थि से तस्स ॥ 33

1 > P कयावि, JP चिंतेहिति. 2 > P तम्हा for अमणं. 3 > P गोयम, JP थुति, J पावई, P निर्दिंतो, J फल अहवा. 4 > J हेतू, P थंमणे निव्वाहो जइ, P भणियं ॥. 5 > P गोयम, J लोगम्मि. 7 > P गोयम, P फडिऊण, P-दिसि वच्चए. 8 > P असंतो संगमं. 9 > P om. वि. 10 > P गोयम, P om. दंसण, P om. वंदणजिण, P adds त्ति after च. 11 > J भगवता. 14 > P वंभ for बम्ह. 15 > J णिवणं पयाहिणीकओ, P तिगुणीं, J पायवडणणु, P om. पायवडण etc. to भगवं. 16 > P after तत्थ repeats भणिओ । तिगुणीपयाहिणीकओ णेण भगवं । पावपडणुट्टिएणं भणियं तेण भगवं को for भणियं तं वा किं etc. to सुव्वउ जो. 18 > P om. पक्खी, P सोम सव्वं. 20 > P रयणाइं, J तं पि for ताणं, P सामाण उप्पेमि. 21 > P भणियं for आइट्टं. 22 > P दुहाण for बुहाण. 23 > P भणियमेत्तो, J om. तओ पुच्छिओ, J गोदम. 25 > P यतेण, P om. किं. 26 > P अग्गहारं । जत्थ. 27 > P जेट्ठो उत्तो. 28 > P-वर- for धण, J असव्वं भावी P अवस्सभावी. 29 > J णिअयाउअं P नियआओयं, J परलोजं, J इतो, P om. य, P परिसयलमाणं. 30 > P तारिसाणं, J ता for तं, P ता for ताण, P असणं, P परियलिए. 31 > P कीरयंति, J लोगयत्ताओ, J-सक्काराइं, P बंधु for वंभण, J अवहत्थियाइं, J बंधुदाणाइं P णिद्धदाणाइं. 33 > P निद्ध for णिद्ध.

- 1 गिज्जीण-पुव्व-विहवा पुरिसा पुरओ ठिया ण दीसंति । दारिद्वंजण-जुत्ता पत्तिय-सिद्ध च्च दीसंति ॥ 1  
इमं च एरिसं णाऊणं सयंभुदेवस्स जणणीए भणियो सयंभुदेवो । अवि य ।
- 3 पुत्त धण-सार-रहियो उवहसणिज्जो जणम्मि सव्वम्मि । मय-किरियाएँ विहूणो जीवंत-मयल्लओ पुरिसो ॥ 3  
अम्हाण तुमं पुरिसो णिक्खित्तं तुह कुडुंय-भारं ति । ता तह करेसु पुत्तय जह पिउ-सरिसं कुणसि अत्थं ॥  
णित्तणो तुमं पि पुत्तय पंडिय-पडिओ य सूर-चित्तो य । ता तह करेसु संपइ जह जियइ कुडुंयं मज्झं ॥
- 6 § ३१८ ) एवं च दीण-करुणं भणियो जणणीए इमो सयंभुदेवो अहिय-संजाय-मण्णु-गग्गार-वयणो भणित्तमादत्तो । 6  
अवि य ।  
पुण्णेहिँ होइ अत्थो अम्हं पुण्णाइँ माएँ णट्ठाइँ । घेत्तूण विहव-किरणे रवि च्च सो चेय अत्थमिओ ॥
- 9 एकस्स होइ पुणं ण पोरुसं दोणिण होंति अण्णस्स । अण्णो दोहिँ पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रहियो य ॥ 9  
पुण्णेहिँ होइ लच्छी अलसा महिल च्च णाम-मेत्तेण । पुण्ण-णियलेहिँ वद्धा अण्णमणा चेय वंदि च्च ॥  
जो पुण्ण-पोरुसेहिँ लच्छी पुरिसस्स होइ दोहिँ पि । सुरय-वियड्ढा पोढ च्च सहइ सा वंचियं साहुं ॥
- 12 जा पुण पुण्णेहिँ विणा एक्केणं पोरुसेण णिव्वडिया । अथिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-विज्जु-रेह च्च ॥ 12  
पोरुस-पुण्ण-विहूणा लच्छी घेत्तुं ण तीरइ जणेण । चवलत्तण-दुल्ललिया माए जल-चंद-रेह च्च ॥  
पुण्ण-रहियाण अम्हं अम्मो सत्तेण किं पि जइ होइ । तं तं करेमि एण्हं जं भणियं तं खमिज्जासु ॥
- 15 त्ति भणंतो णिव्वडियो चलणेसु, समुट्ठिओ य । भणियं च तेण । अवि य । 15  
भमिऊण सयल-पुहइँ छाउव्वाओ खुढ त्ति पडिऊण । अवि णाम मरेज्ज अहं अकयत्थो णो वरं एमि ॥  
त्ति भणंतो णिक्खंतो मंदिराओ सो वंभण-दारओ । तप्पभूइँ च णयर-पुर-सोहियं वसुंधरं भमिउमादत्तो । कत्थ । अवि य ।
- 18 णयर-पुर-खेड-कव्वड-गामागर-दीव-तह-मडंवेसु । दोणमुहाडइ-पट्टण-आराम-पवा-विहारेसु ॥ एवं च, 18  
अत्थ-परिमगिरो सो सव्वोवायाइँ णवरि काऊण । भमिऊण सयल-पुहइँ चंपा-णयरिं समणुपत्तो ॥  
§ ३१९ ) तत्थ य अत्थंगए दिणयरे ठइय-दुवारे सव्वम्मि णयरि-जणवए चित्तियं तेण । 'दे एत्थ जुण्णुज्जाणे
- 21 पविसिय एकम्मि पायवे समारुहिऊण राइ-सेसं णेमि' त्ति चित्तयंतो पविट्ठो आरुढो य एकम्मि तमाल-पायवम्मि । 21  
तत्थ य अच्छमाणो चित्तिउं पयत्तो । अवि य ।  
'अव्वो भवणुव्वाओ उदर-दरी-भरण-वावडो दियहं । तरु-साहासु पसुत्तो पक्खा-रहियो अहं काओ ॥
- 24 ता धिरत्थु इमस्स अम्ह जम्मस्स, ण संपत्तं किंचि मए अत्थं, जेण वरं पविसामि' त्ति चित्तयंतेण णिसुओ कस्स 24  
वि सद्दो । तओ 'अहो, को एत्थ जुण्णुज्जाणे मंतेइ' त्ति जायासंको आयण्णयंतो अच्छिउं पयत्तो जाव एक्केण भणियं ।  
'एस तमाल-पायवो, इमस्स अधे कीरउ इमं कज्जं' ति भणंता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता । णिरुवियाओ
- 27 तेहिँ दस वि दिसाओ । तओ भणियं । 'अहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे णिहणसु इमम्मि पदेसे' त्ति भणंतेण तेण 27  
खणित्तमादत्तं तं पएसंतरं । णिक्खित्तं च तत्थ तेहिँ तंवमय-करंडयं, पूरियं धूलीए, वेह्लि-लयाहिँ कयं साहिण्णाणं ।  
तत्तो तेहिँ भणियं । अवि य ।
- 0 'जो एत्थ को वि रक्खो भूय-पिसाओ च्च होज्ज अण्णो वा । णासो तस्स णिहित्तो पालेज्जसु अह पसाएणं ॥' 30  
त्ति भणित्तं जधागयं पडिगया । चित्तियं च इमेण । अहो,  
जं जेण जहिँ जइया जत्तिय-मेत्तं च जस्स पासाओ । तं तेण तहिँ तइया पाविज्जइ तत्तियं चेय ॥
- 33 जेण पेच्छ । 33

1 > P गिज्जीण, J द्विआ P द्विया, J °जणसिद्धा पत्तिय. 2 > P एरिसं नाऊणं भुदेवस्स. 3 > P सव्व for मय, P जीय च्च मयल्लओ. 4 > P अम्हा तुमं, P तह कुडुंय, P पिओ सारिसं. 5 > P पंडियओ सर. 6 > P adds स before दीण, P इमं for इमो, J अहिअंजाय, J adds माए after अवि य. 8 > P करणे, P चेव. 9 > P होइ अत्थं पुत्तेहिँ पोख्सेण दित्रं पि 1, P दो for दोहिँ, P विणा अपुरसो. 10 > P अण्णमण्णो. 11 > P होति, J सुरयावियड्ढ, P सव्वंगियं for सा वंचियं, P साहु for साहुं. 12 > P जो पुण, P एक्केण पुरिसेण, J णिव्वरिआ, J विज्जरेह. 13 > J विहीणा, P घेत्तुं, P रेहि. 14 > P होइ । ता तं, J भणिया तं खमेज्जासि. 16 > P पुहइ, JP खुडु त्ति, P ति for त्ति, P मरेज्जाहं. 17 > J तप्पभूइँ. 19 > P अत्थि for अत्थ, P om. भमिऊण, P पुहती, J चंप. 20 > J अत्थंगदे, P दिणयरद्विय, P वर for णयरि, P जिणुज्जाणे परिवसिय. 21 > J om. य. 22 > P तत्थ माणो चित्तिउं. 23 > J उअर for उदर, P तव for तरु. 24 > P तो for ता, P adds जं before अम्ह, P संसत्तं किं पि मए. 25 > P जिणुज्जाणे, P अण्णेण for एक्केण. 26 > P अहो for अवे, P om. ति, J adds तं before तमाल, J दुवे विणियपुत्ता P दुवे वणियउत्ता. 27 > P दसा दिसाओ, J P ततो for तओ, P इमं थाणं ता देहिंमि हणण, P पएसे, J om. तेण. 28 > J खणित्तमादत्तो, J om. तंवमय, J om. धूलीए, P वेह्लि for वेह्लि. 29 > J ततो. 30 > P वि रक्खे भूय, P अण्णा वा, J अम्ह पसाएणं. 31 > J जधागतं, P जहागया तहा पडिगया, P om. च, P om. अहो. 32 > P जत्तिमेत्तं, P चेव for चेय.

- 1 सयलं भमिऊण इमं पुहइं वण-सेल-काणण-सणाहं । अज्ज इहं संपत्तो देव्वेण पणामियं अत्थं ॥ 1  
 अवइण्णो पायवाओ । अवणीयं सयलं कयारुक्केरं । उप्पाडिया करंडिया । उग्घाडिऊण पुलइया जाव पेच्छइ पंच  
 3 अणग्घेयाइं रयणाइं । ते य दइण हारिख-वसूसलंत-रोमंच-कंचुओ अंगे वि ण माइउं पयत्तो । 'दे, संपयं घरं वच्चाभि' 3  
 त्ति पयत्तो सयल-पुरग्गहाराभिमुहं । अइपहे य तस्स महाडई, तीए वच्चामाणस्स का उण वेला वट्ठिउं पयत्ता । अवि य ।  
 संकोडिय-रत्त-करो आर्यवो अत्थ-सेल-सिहरमि । दीवंतर-कय-सज्जो रेहइ पवओ विय पयंगो ॥
- 6 इमम्मि य वेला-समए चित्तियं सयंभुदेवेण । 6  
 अब्बो वण-मज्झगओ पत्तो रहसेण णत्थि इह वसिमं । ता किं करेमि संपइ कत्थ व रयणीए वच्चाभि ॥  
 चित्तयंतस्स बुद्धी समुप्पणा । 'दे, इमम्मि अण्येय-पादव-साहा-समाउले वड-पारोहे आरुहिऊण णिसं अइवाहयामि ।  
 9 बहु-पच्चवाओ एस वणाभोगो' त्ति । आरूढो तम्मि वड-पायवम्मि । एक-पएसे य बहु-विडव-संकुले अण्येय-साहा-पत्त-णियरे 9  
 अच्छिउं पयत्तो । चित्तियं च णेण 'अहो, विहिणा दिण्णं जं मह दायवं । संपयं गंतूण घरं एकं विकेऊण रयणं पुणो  
 सयल-कुडुंब-बंधवाणं जं करणीयं सवं काहामि' त्ति । इमं चित्तयंतस्स वहलो अंधयारो उत्थरिउं पयत्तो दस-दिसं ।  
 12 आवासीहूया सव्वे सउण-सावय-णिवहा । बहुए य पक्खि-कुले तत्थ णिवसंति वडोयरे । ते य णाणाविह-पलावे 12  
 णाणाविह-वण्णे बहुप्पमाणा पेच्छंतो तक्काल-सुलह-वियपंतर-संभरंत-चित्त-महापवंगो अच्छिउं पयत्तो सयंभुदेवो त्ति ।
- § ४००) एत्थंतरम्मि समागओ झत्ति एक्को महापक्खी । सो य आगंतूण एक्कस्स महापक्खि-संघ-मज्झट्टियस्स  
 15 महाकायस्स चिर-जरा-जुण्ण-पक्ख-जुवल-परिसडिय-पत्त-पेहुणस्स पुरओ ठाऊण पायवडणुट्टिओ विण्णविउं पयत्तो । अवि य । 15  
 'ताय तुमे हं जाओ तुमए संवड्ढिओ य तरूणे हं । कुणसु य मज्झ पसायं ता विण्णत्तिं णिसामेसु ॥  
 णयणे अज्ज कयत्थे मण्णे कण्णे वि अज्ज मह जाए । एयं पि पक्ख-जुवलं अज्ज कयत्थं ति मण्णामि ॥  
 18 अज्ज तुमे हं जाओ अज्ज य मण्णामि सफलयं जीयं । गरुडा अवि अज्ज अहं अप्पाणं गरुयमं मण्णे ॥' 18  
 भणियं च तेण जुण्ण-पक्खिणा ।  
 'किं अज्ज जोग-रज्जं णिक्खित्तं अज्ज तुज्झ खगवइणा । किं पुत्त पुत्त-लाहो पत्तं वा अक्खय-णिहाणं ॥'  
 21 तेण भणियं । 21  
 'को ताय रज्ज-लाभे तोसो को वा धण-पुत्त-विहव-लाभेहिं । तं अज्ज मए लद्धं कत्तो खग-राइणो होज्ज ॥  
 जुण्ण-पक्खिणा भणियं ।
- 24 'दे पुत्त साह सवं दिट्ठं व सुयं व अज्ज अणुभूयं । किं व तए संपत्तं कीस व हो हरिसिओ तं सि ॥' 24  
 तेण भणियं । 'णिसुणेसु, अज्ज अहं तुम्हाण सयासाओ उप्पइओ गयणयलं किंचि आहारं अण्णेसिउं बद्ध-लक्खो  
 धरणियले-परिभमामि जाव दिट्ठं मए एकम्मि पएसे पायार-परिययं महाजण-समूहं । तत्थ य उप्पयंति देवा, णिवयंति  
 27 विज्जाहारा, परिसकंति मणुया, गायंति किंणरा, णच्चंति अच्छरा, वग्गंति वंतरा, थुणंति सुरवरा, जुज्जंति असुर-मल्ल त्ति । 27  
 तं च दइण जाओ ममं हियए वियप्पो 'अहो, किं पुण इमं' त्ति । 'दे पेच्छामि' त्ति चित्तयंतो उवइओ गयणयलाओ  
 जाव पेच्छामि अण्णे वि बहुए पक्खिणो एकम्मि पायारंतरम्मि । तओ हं ताणं मज्झ-गओ पेच्छामि कोमल-किसलय-  
 30 सिलिसिलेंत-वियसमाण-णव-कुसुम-गोच्छस्स रत्तासोय-पायवस्स हेट्टओ महरिहे सीहासणे णिसण्णो भगवं को वि 30  
 दिव्व-णाणी तेलोक्क-सुंदरावयव-सव्वंग-दंसणीओ मणहरो सयल-जय-जंतु-जण-णिवहाणं सदेवासुराए परिसाए मज्झ-गओ  
 धम्माधम्मं साहेतो । तं च दइण चित्तियं मए 'अहो, मए दिट्ठं मए जं दइव्वं एरिसं तिहुयणच्छेरयं पेच्छमाणेण' ।

1 > J पुहई, J om. सेल, P सेण for सेल, P इमं for इहं. 2 > J अवणिअं, P कयवरुक्केरं, P पेच्छओ पंच, J पंचअणग्घेयाइं  
 P पंच अग्घेयाइं. 3 > P inter. माइउं & ण. 4 > P om. त्ति, P पयत्ता, J पुरग्गहा, P पुरग्गहादिमुहं, P महाडईए, J तम्मि य  
 वट्टमाणस्स for तीए etc. 5 > J कतसज्जो P कयसिज्जो, P पहविओ विय, J इव for विय, J पतंगो. 6 > P om. य, P वेलासए.  
 7 > P व for वसिमं, P after इह व repeats सिहरंमि । दीवंतरकयसिज्जो etc. to रहसेण नत्थि इहत्थ and again सेलसिहरंमि ।  
 दीवंतर etc. to इह वसिमंतो, P om. ता, J adds कत्थ before वच्चाभि. 8 > J पातव P पाठव for पादव, J अतिवाहयामि.  
 9 > J पतेसे, P विडवि-, P अण्येय-. 10 > P adds जह before जं, P om. मह. 11 > P कुटुंब. 12 > P आवासीभूआ,  
 P णिहाया for णिवहा, P वहले for बहुए, P कुले त्थ विवसंति, J वडे य एतो for वडोयरे, P ते अन्न विहपलावे, J -पलाव. 13 >  
 P बहुप्पमाणो, P सुलभ, J संचरंतमहा, P अच्छिओ, P पवत्तो. 14 > P एयस्स for एकस्स, P rep. महापक्खिसंघ. 15 > J  
 om. महाकायस्स, P -जुयल-, P ट्ठाऊण. 16 > P सड्ढिओ य, P वा for ता. 17 > J om. मण्णे, J अज्जमेव सह, P अज्जे,  
 P एतं जुअलं, P adds अ before कयत्थं. 18 > J सफलं, P जायं, P गरुडा य वि [गरुडाण वि]. 20 > J पुत्तलाओ P  
 पुत्तलाहो. 22 > P -लाओ, P विहवलोभेहिं । जज्ज मए, P कत्ता. 23 > P om. जुण्णपक्खिणा भणियं. 24 > P साह व्वं, J om.  
 अज्ज, J अणुभूतं, P हरिसिउं. 25 > J अण्णेसित्तुं. 26 > P धरणियलं, P पएसो, P देवा नियवंति. 27 > J किण्णरा P  
 किण्णरा, P जुज्जंति. 28 > J हिअय. 29 > P ताव for जाव, P पायारंतरंमि, J ततो, P om. हं, P पेच्छओ. 30 > J सिलिसिणेंत,  
 P को for को वि. 31 > P पत्थ for सव्वंग, P सलसयजंतु. 32 > J धम्माधम्मं, P साहेता, J om. अहो मए दिट्ठं जं  
 दइव्वं, P एरिसं तुहणयच्छेरयं.

- 1 तत्रो ताय, तेण भगवया सञ्चणुणा साहिको सयलो संसार-सहावो, पदंसिओ जीव-संसरणा-वित्थारो, वित्थारिको 1  
कम्म-पयइ-विसेसो, विसेसिको बंध-णिज्जरा-भावो, भाविको संवरासव-वियप्पो, वियप्पिको उप्पाय-ट्टिइ-भंग-वित्थरो, 1  
3 परूविको जहट्टिको मोक्ख-मग्गो त्ति । तत्रो इमं च सोऊण सव्वं उप्पण-संवेय-सद्धा-सुद्ध-हियएण पुच्छिको मए भगवं 3  
सञ्चणू जहा 'भगवं, अम्हारिसा उप्पण-चेरगा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायत्त-करणा' । तो इमं च लक्खिऊण 3  
मह हिययर्थं भणियं भगवया ।
- 6 देवाणुपिया सण्णी तिरिको पंचिदिको सि पज्जत्तो । सम्मत्तं तुह जायं होहिइ विरइ वि देसेण ॥ 6  
§ ४०१ ) एत्थंतरम्मि पुच्छिको भगवं गणहर-देवेण । अवि य ।  
'भगवं के पुण सत्ता णरयं वच्चंति एत्थ दुक्खत्ता । किं वा कम्मं काउं बंधइ णरयाउयं जीवो ॥'
- 9 भगवया भणियं । 9  
'णरयाउयस्स गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाइं । जे जीवा तेसु ठिया णरयं वच्चंति ते चेय ॥  
पंचेदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं । केवट्टाईं गोदम ते मरिउं जंति णरयम्मि ॥
- 12 कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मंसं ति तं च आहारो । सावय-पक्खीण वहो मरिऊणं ते वि णरयम्मि ॥ 12  
सर-दह-तलाय-सोसण-हल-गंगल-जंत-वावडा पुरिसा । मरिऊण महारंभा गोदम वच्चंति णरयम्मि ॥  
गाम-णगर-खेड-कच्चड-आराम-तलाय-विसय-पुहईसु । परिमाण-विरइ-रहिया मुच्छिय-चित्ता गया णरयं ॥'
- 15 तत्रो इमं च सोऊण ताय, मए चित्तिं । 'अहो भगवया मंसाहारिणो पंचेदिय-वह-कारिणो य णरय-गामिणो आइट्टा । 15  
ता अम्हे पंचेदिय-वहया मंसाहारिणो य गया णरयं, ण एत्थ संदेहो । ण-याणिमो अत्थि कोइ संपयं उवाओ ण व'त्ति  
चित्तयंतस्स पुणो पुच्छिको भगवं गणहारिणा 'भगवं, जइ पढमं इमेसु ठाणेसु होऊण पच्छा उप्पण-विवेगत्तणेण य
- 18 णरय-दुक्ख-भीरू कोइ विरमइ सव्व-पाव-ठाणाणं ता किं तस्स णरय-णियत्तणं हवइ किं वा ण हवइ' त्ति । भगवया 18  
भणियं । 'गोयम, होइ जइ ण वद्धाउओ पढमं । वद्धाउओ पुणो सञ्चोवाएहिं पि ण तीरइ णरय-गामणाओ वारेउं' ति ।  
तत्रो ताय, इमं च सोऊण मए चित्तिं 'अहो, महादुक्ख-पउरो णरयावासो, पमाय-वहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गईं,
- 21 दुरंतो संसार-वासो, कट्टिणो पेम्म-णियला-बंधो, दारुण-विवागो एस पंचेदिय-वहो, णरयग-दूओ एस कुणिमाहारो, 21  
णिंदिको एस तिरियत्त-संभवो, पाव-परमं अम्हाणं जीवियं ति । एवं च ववत्थिए किं मए कायव्वं' ति । तत्रो एत्थंतरम्मि  
भणियं भगवया । अवि य ।
- 24 जो छिंदिऊण पेहं इंदिय-तुरए य संजमेऊण । विहिणा मुंचइ देहं जहिच्छियं पावए सिद्धिं ॥ 24  
ति भणंतो समुट्टिको भगवं सञ्चणु त्ति । विहरिउं समाढत्तो । जहागयं पडिगया देव-दाणवा । अहं पि ताय, अहो  
भगवया अण्णोवप्सेण दिण्णो महं उवएसो । इमं चेय काहामि । अवि य ।
- 27 छेत्तूण पेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं सुगई पुण लहामि ॥ 27  
त्ति । ता दे करेमि, अहवा णहि णहि गुरुयणं आउच्छामि । अवि य ।  
आउच्छिऊण गुरुणो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च । जं करियव्वं पच्छा तं चेय पुणो अहं काहं ॥
- 30 ति चित्तयंतो अज्ज अकयाहारो एत्थ संपत्तो त्ति । 30  
ता विण्णवेमि संपइ ताय तुमे एस पायवडणेण । देसु अणुज्जं खमसु य मह अज्जं सञ्च-अवराहे ॥  
त्ति भणिऊण णिवडिको चलण-जुवलेसु ।

1 > J सहाओ, P संसिओ for पदंसिओ, P संसरणापयत्थारो वियत्थारिको. 2 > P विसेसओ वद्धनिज्जरा, J om. वियप्पिको, P ट्टि-  
P ट्टि- 3 > J पन्नविको for परूविको, P मोक्खमग्ग त्ति, P om. सव्वं, P उप्पणसंवेसद्धा. 4 > P repeats किं, P कुणंति, P  
जोणीयपरायत्तकरणा, J परयत्त, J ततो for तो. 5 > P om. भणियं. 6 > P देवाणुपिया, P adds पज्जत्तियाहिं before पज्ज-  
त्तो, JP होहित्ति, P ति for वि. 7 > P एत्थंतरंति. 10 > P गोयम, P व्हाणाइं, P हिया for ठिया. 11 > P जीवाणं केवट्टाती  
गोयम. 12 > P आअहारो. 13 > P सोसेण, J जुत्त for जंत, P मरिऊ महारंभा, P गोयम, P नरयंति. 14 > P गामाण-  
खेडमढंवाआराम-, P पुहतीसु. 15 > J ततो, P भाय for ताय, J om. य. 16 > P काइं for कोइ. 17 > J किं तायवस्स for  
चित्तयंतस्स, J गणहारिणो, P om. पढमं, P ऊण for होऊण, P विवेयत्तणेण नरय-. 18 > P भएण for भीरू, J विमरइ सव्वं,  
P पाणव्हाणाइं ता, P तस्स रयणत्तणं हवइ. 19 > J गोतम, P होइ जणइ वद्धाउयं, J om. पढमं । वद्धाउओ, P om. पुणो, J सव्वं  
वाएहिं, P धारिउं for वारेउं. 20 > P om. च, J य for मए, P णरयवासो, J बहुलो जीवकली, P कंमगती. 21 > P कट्टिणो,  
P एसं चिंदियवहो णरयग्गिदूओ. 22 > J संभववो, P पोव for पाव, P om. च, J किम्मए P किं मयं. 23 > J om. अवि य.  
24 > P जहच्छियं पावसिद्धिं, J सिद्धि त्ति. 25 > P सञ्चू, P जहा पडिगया, P ताह for ताय. 26 > P अण्णोवप्सेण-  
27 > P छेऊण, P -णियलो, P भत्तू for भत्त, P om. पुण, P लहीहामि. 28 > P om. one णहि, P अउच्छामि, P अहवा for  
अवि य. 29 > J णिद्धं for मित्तं, P काहित्ति. 30 > P अज्ज कयाहारो. 31 > J विण्णवेसि (?), P अणज्जं. 32 > P ति  
for त्ति, J चलणेसु । तत्रो, P वलय for चलण.

- 1 § ४०२) तथो पसरंतंतर-सिणेह-पगलमाण-णयण-जुयलेण अंसु-किलिण-वयणेण भणियं जुण-पक्खिणा । अवि य । 1  
 'पुत्त ण कीरइ एसो ववसाओ दुत्तरो सुरेहिं पि । अणं च अहं थेरो षच्छ ममं मुंचसे कहयं ॥'
- 3 तेण भणियं 'ताय जं तए भणियं तं णिसामेसु । 3  
 किं दुत्तरं तिलोए णरयावासाउ होज्ज बहुयं पि । णियओ जो तुह जणओ ताय तुमे कस्स सो मुक्को ॥'  
 बुद्धेण भणियं ।
- 6 'जह पायवस्स पुत्तय पारोहो होइ लग्गणक्खंभो । तह किर पुत्त तुमं पि हु होहिसि मह पुत्तओ सरणं ॥' 6  
 तेण भणियं । 'ताय,  
 को कस्स होइ सरणं को वा किर कस्स लग्गणक्खंभो । णिय-कम्म-धम्म-वसओ जीवो अह भमइ संसारे ॥'
- 9 बुद्धेण भणियं । 9  
 'अज्ज वि तरुणो पुत्तय मा मर इह ताव भुंजसु सुहाइं । पच्छा काहिसि धम्मं वच्छय जा बुद्धओ जाओ ॥  
 तेण भणियं ।
- 12 'किं मरइ णेय तरुणो बुद्धत्तं ताय को ण पावेइ । तं अच्छसि बुद्धयरो ण-यणसि धम्मस्स णामं पि ॥' 12  
 बुद्धेण भणियं ।  
 'अत्थो कामो धम्मो तरुणत्तण-मज्झ-बुद्ध-भावेसु । कीरंति कमेणेवं पुत्तय मा तिकमं कुणसु ॥'
- 15 तेण भणियं । 15  
 'को व ण इच्छइ एसा परिवाडी ताय जा तुमे रइया । जइ अंतरेण पडिउं मच्चु-गइंदो ण विहणेइ ॥'  
 बुद्ध-पक्खिणा भणियं ।
- 18 'जणिओ सि पुत्त दुक्खं दुक्खं संवड्ढिओ य जणणीए । किर होहिसि आलंबो बुद्धत्तणयस्मि अग्हाण ॥' 18  
 तेण भणियं ।  
 'सुरयासत्त-मणेण जाओ संवड्ढिओ य आसाए । इंधण-कजेण गओ ससयं जह पावए को वि ॥'
- 21 बुद्ध-सउणेण भणियं । 21  
 'एत्थ वि तुज्झ अधम्मो होइ च्चिय पुत्त ताव चिंतेसु । बुद्धं मोत्तूण ममं कायर-पुरिसो व्व तं जासि ॥'  
 तेण भणियं ।
- 24 'जइ तं वच्चसि णरयं मए वि किं ताय तत्थ गंतव्वं । अयडे णिवडइ अंधो ता णिवडउ किं सच्चक्खू वि ॥' 24  
 बुद्ध-पक्खिणा भणियं ।  
 'तह वि पियो मे पुत्तय तुह विरहे णेय धारिमो जीयं । पिइ-वज्झाए धेप्पसि एस अधम्मो तुहं गरुओ ॥'
- 27 तेण भणियं । 27  
 'ताय ण तुज्झं दइओ जेणं णरयस्मि खिवसि घोरस्मि । को कस्स मरइ विरहे जाव ण खुटं णियं कम्मं ॥'  
 बुद्धेण भणियं ।
- 30 'तुज्झ पियो हं पुज्जो पुत्तय ता कुणसु मज्झ वयणं ति । मुच्चउ मरणासंसा पढमं पिव अच्छ णीसंको ॥' 30  
 तेण भणियं ।  
 'को कस्स होइ जणओ को व जणिजइ जणेण हो एत्थ । जणओ सो च्चिय एक्को धम्ममुवदेसं तु जो देइ ॥'
- 33 बुद्ध-पक्खिणा भणियं । 33  
 'जइ पुत्त तुमे एयं अवस्स करणिज्जयं तु ता विसह । जा ते पेच्छामि सुहं दीह-पवासस्मि चलियस्स ॥'  
 तेण भणियं ।

1 > J पसरंत सिणेहेण पगलं, J -जुअले आलिकिलिण, P जुगलो for जुयलेण. 2 > P एसो ओ दुत्तारो, P अन्नं वाहं घोरा वच्छ, J मए for ममं, J कस्स for कहयं, P adds थेरं after कहयं. 3 > P निसामेहि. 4 > J णरयावासो हु. 6 > P पुत्तस्स, P लग्गणक्खंतो. 8 > P inter. कस्स & होइ, P परि for अह. 11 > J adds य after तेण. 12 > P ताव को, J को व for को ण, P न य जाणसि धम्मनामं पि. 13 > P बुद्धेण. 14 > J om. मज्झ, P बुद्धभावेणु, P कामं णेयं for कमेणेवं, J उज्जमं for तिकमं. 16 > P पडिउं, J गइंदे, J हारेइ for विहणेइ. 17 > J बुद्धेण for बुद्धपक्खिणा. 18 > P संठिओसि जणणीए. 20 > J गओ संसयं. J कोइ ॥. 22 > P तुज्झ न धम्मो, P तुमं for व्व तं. 24 > P जइ सिं तं, P अंधो जइ निवडिओ किं. 26 > P पिय, P एस अहंमो. 27 > J adds तओ before तेण. 28 > P adds ति after खुटं. 30 > P कुज्झ पियाहं. 32 > J होइ सरणं को. 34 > P तए for तुमे, P ति for तु, J ए for ते.

- 1 'जं कायव्वं कीरउ को जाणइ दिवह-पक्ख-मासाणं । किं होहिइ अहिययरं वयणं जेणम्ह दीसेज्ज ॥'  
ता खमसु अहं वच्चामि' त्ति भणंतो उवगओ माऊए समीवे । 1
- 3 § ४०३ ) तत्थ य पायवडणुट्टिएण विण्णविया माया । अवि य । 3  
तं धरणी सावित्ती सरस्सई तं भगीरही पुहई । धारणि-अम्मा देवी माया जणणी य जीयं च ॥  
ता खमसु माए एण्ह कय-पुव्वं जं म्ह अविणयं किंचि । संपह मरियव्वमिणं उवट्टियं अम्ह संसारे ॥
- 6 इमं च सोऊण जरा-जुण्ण-खुडिय-पक्खावली-वियलणा-पयड-पंडर-सरंडय-डंडावली-मेत्त-पक्ख-पडली-सणाहाए भणियं 6  
जुण्ण-पक्खणीए । अवि य ।  
'हा हा पुत्त किमेयं वयणं अइ गिट्टुरं तए भणियं । थक्किय-पडिहयमेयं ण सुयं म्ह ण यावि ते भणियं ॥'
- 9 तेण भणियं । 9  
चिरजीविणीए अम्मो दिट्ठो व्व सुओ व्व कोइ लोगम्मि । मरणाओ जो चुको मंगल-सय-लक्ख-वयणेहिं ॥'  
थेरीए भणियं ।
- 12 'पुत्त तहा वि ण जुज्जइ भणिऊणममंगलं इमं वयणं । सोऊण इमं दुल्लह मह दुक्खं होइ हिययम्मि ॥'  
तेण भणियं । 12  
'अम्मो वयणेण इमं दुक्खं जायं ति तुज्ज दुत्तारं । जइ सच्चं चिय मरणं हवेज्ज ता किं तुमं भासि ॥'
- 15 थेरीए भणियं । 15  
'पुत्त ण वट्टइ एयं भणितं जे जइ पुणो कह वि होज्जा । ता पुत्त तुम्ह णेहेण तं चित्तिं चेय पविसेज्जा ॥'
- 18 'अम्मो मा भण अलियं एकेकं अणुमरेज्ज जइ तं सि । ता कह थेरी होंती बाल चिय तं मुआ होंती ॥'  
थेरीए भणियं । 18  
'मा पुत्त भणसु एयं जीयाओ वि वल्लहो तुमं मज्झ । मा मं मुंचसु एण्ह थेरत्तण-दुक्ख-संतत्तं ॥'
- 21 तेण भणियं । 21  
'अम्मो को कस्स पिओ को वा जीवेज्ज कस्स व वसेण । को वा मुच्चइ केणं को थेरो किं व से दुक्खं ॥'
- 24 'पुत्त इमो ते अम्मो अम्मा-तायाण कुणसि जं त्रिणयं । वंधुयणस्स य पोसं पम्मुको होहिइ अहम्मो ॥'  
तेण भणियं । 24  
'अम्मो सच्चं एयं भणियं घर-वास-संठिय-जियस्स । जो पुण मुंचइ सब्बं तस्स ण कज्जं इमेहिं पि ॥'
- 27 थेरीए इमं भणियं । 27  
कुच्छीए मए धरिओ णव-मासे पुत्त-भार-सुडियाए । उवयारस्स फलं ते पच्चुवयारो कओ को वा ॥'
- 30 'अम्मो कीस तए हं धरिओ गवभम्मि केण कजेण । णियय-जणणीए तुमए उवयारो को कओ होज्ज ॥'  
माए हं ते जणिओ तुमं पि जणिया मए भव-सएसु । अरहट्ट-वडि-समाणा अवरोप्परयं पिया-पुत्ता ॥'  
भणंतो उवगओ जेट्ट-भाउणो समीवं । 30
- 33 § ४०४ ) तत्थ वि पायवडणुट्टिओ विण्णविडं पयत्तो । अवि य । 33  
'भाउय तं सि खमेज्जसु अम्हे उच्छंग-वडिया तुम्ह । डिंभत्तण-दुल्ललिइहिं तुज्ज जो अविणओ रइओ ॥'  
भाउणा भणियं ।

1 > P जाणओ for जाणइ, JP होहिति, P दीसेज्जा. 2 > P समीवं. 3 > P विण्णविय, P om. माया, P adds after अवि य like the following which is partly repeated subsequently तं धरणी सत्तवती सरस्सीती तं भगीरही पुहती । धार-अंगादेवी माय जण अहं वच्चामि त्ति भणंतो उवगओ माऊए समीवं । तत्थ य पायवडणुट्टिएण विण्णविय. 4 > P धरणी सत्तवती सरस्सीती, P पुहती । धारणिअंगी, J धरणीअम्मा, P जणणी अजीयं च. 5 > J जम्ह P जम्ह for जं म्ह, P अम्ह for अम्ह. 6 > P मुडिया से सडिय पक्खावली वियडणापयडा-, J पम्हावली, J -संडय-, J -पडली. 8 > J थुक्किय, J ण मुअम्ह P णयं अम्हे for ण सुयं म्ह, J ए P तं for ते. 10 > J चिरजीविणीय P चिरजीविणीए, P repeats मुओ व्व, J लोअम्मि, P सक्खव-. 12 > P भणिऊण अंगमं, P om. दुल्लह मह. 14 > P दुक्खं जीवं ति पइसेज्जा ।, P o'n. जइ सच्चं चिय मरणं etc. to चित्तिं चेय पविसेज्जा । 18 > P होंति in both places. 20 > P पुत्त भणसुएणुं जीयाउ वि. 22 > J वा मुंचइ, P केण व को. 23 > J थेरीय P थोरीय. 24 > J ए for ते P वंधुयणस्स पसायं पंमुके, JP होहिति. 26 > P भणियं परवाससंठियस्स जीवस्स, P उग for पुण, P वि for वि. 27 > P has additional lines here beginning with थेरीए भणियं । कुच्छीए etc. धरिओ गवभं नि which are repeated below, P om. इमं. 28 > P भणिओ for धरिओ, P सुडियाए. 32 > P जेट्ट भाउणो समीवं नत्त. 33 > P पीयवडणुट्टिओ विडं पयत्तो. 34 > P खमज्जसु, P तुम्हे for तुज्ज.

- 1 'हा कीस वच्छ मुंचसि केण व तं किंचि होज्ज भणियो सि । को णाम एत्थ धम्मो किं वा पावं भवे लोए ॥' 1  
तेण भणियं ।
- 3 'मा भाउय भण एवं धम्माधम्मेहिं संठियो लोओ । अह अत्थि को वि धम्मो विणयाए सुओ जहा राया ॥' 3  
भाउणा भणियं ।  
'मुद्धो सि वच्छ बालो केण वि वेयारियो वियड्ढेण । सो को वि इंदयाली वेयारंतो भमइ लोयं ॥'
- 6 तेण भणियं । 6  
'भाउय विवेग-रहियो तं मुद्धो जं भणासि कावडियो । मा हो तं भण एवं तियासिंद-णमंसियं वीरं ॥'  
भाउणा भणियं ।
- 9 वच्छसु मुंज जहिच्छं परलोओ वच्छ केण सो दिट्ठो । एकं हूयं अण्णं होहिइ का तम्मि ते सिद्धा ॥' 9  
तेण भणियं ।  
'धम्मेण एत्थ भोगा भाउय धम्मेण होइ सर्गं पि । ता तं चय करिस्सं णत्थि सुहं धम्म-रहियस्स ॥'  
12 भणमाणो उवगओ कणियसं भाउयं, तं पि उत्तिमंगे चुंविऊण भणितं समादत्तो । अवि य । 12  
'उच्छंग-लालियो मे वच्छ तुमं पुत्तओ व्व मह दइओ । खर-फरुसं सिक्खवियो अवरान् खमसु ता मज्झं ॥'  
कणीयसेण भणियं ।
- 15 'हा भाउय कत्थ तुमं चलिओ होज्जा णु अम्ह मोत्तूण । अम्हाण तं सि सामी तुज्झायत्तं इमं सव्वं ॥' 15  
तेण भणियं ।  
वच्छ चलिओ मि मरिउं तुम्हे मोत्तुं पुणो वि गंतव्वं । को कस्स वच्छ सामी जम्मण-मरणेहिं गहियम्मि ॥
- 18 § ४०५ ) इमं भणंतो उवगओ जेट्ठं भइणिं, तीय पायवडणुट्टिएण भणियं । 18  
भइणी तं महादेवी सरस्सइं तं सि पूयणिज्जा सि । ता खमसु अविणयं मे डिंभ-सहावेण जं रइयं ॥  
तीए वि वियलमाण-णयण-जल-पवाहाए भणियं । अवि य ।
- 21 'वच्छम्हाण तुमं चिय कुलम्मि किर भो कुमारओ आसि । पोमाय म्ह तुमे चिय तुमए चिय जीविसो अम्हे ॥' 21  
तेण भणियं ।  
जीयइ कम्मेण जियो पोमायइ सुंदरेण तेणेय । जइ हं कुले कुमारो माए ण य लज्जणं काहं ॥'
- 24 तीए भणियं । 24  
'थेरं मुंचसि पियरं कस्स इमं मायरं च गइ-वियलं । सत्थेसु किर पडिज्जइ अयण्ण-परिपालणं काउं ॥'  
तेण भणियं ।
- 27 'किर वाहेण तओ हं वद्धो पासेण अहव ण य जाओ । मोत्तूण ममं पुत्ता अण्णे वि हु अत्थि तायस्स ॥' 27  
§ ४०६ ) इमं भणंतो उवगओ कणीयसं भइणिं । तं पि साणुणयं उवसप्पिऊण भणित्तामादत्तो । अवि य ।  
'खर-णिट्ठुर-फरुसाइं वच्छे भणिया सि बाल-भावम्मि । ता ताइं खमसु एणिं होसु विणीया गुरुणं ति ॥'
- 30 तं च सोऊण मंतु-गग्गरं तीए भणियं । अवि य । 30  
'हा भाउय मं मोत्तुं दीणमणाहं च कत्थ तं चलिओ । ताओ वट्ठइ थेरो तुज्झम्हे चितणीयाओ ॥'  
तेण भणियं ।
- 33 'अलिओ एस वियप्पो जं चित्तिज्जइ जणो जणेणं ति । वच्छे पुव्व-कएणं दुक्ख-सुहे पाविरे जीवा ॥' 33  
§ ४०७ ) एवं च भणमाणो उवगओ भारियाए समीवं सो पक्खी । भणियं च तेण । अवि य ।  
सुंदरि सुहय-त्रिलासिणि तणुयंगे पम्हलच्छि घर-लच्छि । धणिए मह हियय-पिए वल्लह-दइए य सुण वयणं ॥

3 > P एवं धंमेहिं, J धम्माधम्मेहि, P लोए । 5 > J सि वद्धवाला, P वेयारंतो. 7 > P विवेय-, P भणामि for भणासि.  
9 > P जहच्छि, P om. वच्छ, P adds कत्थ before सो, JP होहिति, P ते सिद्धा. 11 > J भोआ. 12 > J कण्णसं भाउअंतेण.  
तं पि, P भणियो. 13 > P से for मे, P तुह for मह. 14 > J कण्णसेण भणियं. 17 > P मरियो तुम्हे म्हेत्तुं पुणो, P  
मरणिहिं, J गहिअस्स ॥. 18 > P भणितं for भणंतो, P जेट्ठभणिणीं, J adds तेण before तीय. 19 > J तमहं देवी, P तं  
महादेवी, J भो for मे. 20 > J तीय वि, P om. णयण, P जलह-. 21 > P तुच्छम्हाण, P पिय for चिय, P हो for भो, J  
कुनासओ, J पोमाय P पामाय. 23 > P सुंदरे य तेणेय, JP कुमासो. 24 > J तीअ for तीए. 25 > P अइल्ल for अयण्ण.  
27 > P कर for किर, P कओ हं [ हओ हं? ], P वद्धो पोसेण अह वि न य, P अत्थे for अण्णे. 28 > J कण्णस्स for कणीयसं,  
P भरणी. 29 > P फरिसाहं, P ता माइं खमसु. 30 > J मणु for मंतु, P मंतुयग्गरं. 31 > P घोरो (थोरो?). 33 > P  
जीवो ॥. 34 > P गओ for उवगओ. 35 > J वंमलच्छि, P घरलच्छी I, P om. य, P सुवयणं.

- 1 खद्वाणि य पीयाणि य तुमए समयं बहुणि तणुयंगि । गयणंगणम्मि भमियं ह्खखग्गे णिवसियं समयं ॥ 1  
सुरसरि-पुल्लिणेषु तए समयं तणुयंगि विलसियं बहुसो । माणस-सरस-सरोरुह-दलेसु सुहरं पसुत्ता मो ॥
- 3 किलिकिचियं च बहुसो कय-कलयल-राव-मुइय-मणसेहिं । तं णत्थि जं ण रइयं दइए ता खमसु तं सव्वं ॥ 3  
इमं च सोऊण गुरु-दुक्ख-भर-भार-सुडिया इव णिवडिया से मुच्छा-णीसहा दइया । तं च णिवडियं दइए तेण भणियं ।  
'आसस मुद्धे आसस सरल-सहावा ण-याणसे किंचि । किं ण सुयं ते सुंदरि संजोया विप्पभोयंता ॥
- 6 आसस मुद्धे आसस विहडइ अंते सराय-घडियं पि । संपुण्ण-णियय-कालं पेम्मं चक्काय-जुवलं व ॥ 6  
आसस मुद्धे आसस चडुलं संकमइ अण्णमण्णेषु । विंझगिरि-सेल-सिहरे वाणर-लीलं वहइ पेम्मं ॥  
आसस मुद्धे आसस चवलं परिसकए सराइलं । णव-पाउस-जलहर-विज्जु-विलसियं चय हय-पेम्मं ॥
- 9 आसस मुद्धे आसस एयं चित्तेशु ताव लोगम्मि । खर-पवणुद्धय-धयवड-चवलं छउयंगि हय-पेम्मं ॥ 9  
इय उज्झिऊण सुंदरि मा मोहं वच्च आससु मुहुत्तं । गय-कलह-कण्ण-चंचल-चलाओं पेम्माण पयईओ ॥' ति ।  
इमं च भणमाणेण आसासिआ सा तेण पक्खिणी । तओ होंत-विओयाणल-जणिय-जालावली-पिलुट्ट-हिययुत्तत्त-णयण-
- 12 भायणोयर-कदंतुव्वत्त-वाह-जल-पवाहाए भणियं सगगयं तीए पक्खि-विलासिणीए । अवि य । 12  
'हा दइय णाह सामिय गुण-णिहि जियणाम णाह णाह ति । एक्क-पए चिय मुंचसि केण वि चेतारिओ अरुहं ॥  
हा णाह विणा तुमए सरणं को होहिइ अउण्णाण । कस्स पलोएमि मुहं सुण्णाओ दस दिसाओ वि ।'
- 15 तेण भणियं । 15  
'मा विलव किंचि सुंदरि एस पलावो गिरत्थओ एण्हि । जंतो य मरंतो विय किं केणह वारिओ को वि ॥  
जं जस्स किं पि विहियं सुहं व दुक्खं व पुव्व-जम्मम्मि । तं सो पावइ जीवो सरणं को कस्स लोगम्मि ॥
- 18 तीए भणियं । 18  
'जइ एवं णिण्णेहो वज्जमओ तं सि मुच्चसे अरुहं । ता किं जाणसि डिंभे अह जणिए किं परिचयसि ॥'  
तेण भणियं ।
- 21 'मोहंघेणं सुंदरि किंचि-सुहासाय-जणिय-राएण । एयं कयं अकजं दुक्खमणंतं ण तं दिट्ठं ॥ 21  
जइ काम-मोह-भूढो बद्धो वारीए कह वि वण-हत्थी । मुद्धे किं मरउ तहिं किं वा वंधं विमोएउ ॥  
जं कह वि मोह-भूढेण सेविओ किं मरेज तत्थेव । जो जाओ गोत्तीए किं जाउ खयं तहिं चय ॥
- 24 जइ सेवियन्दिह कामो कह वि पमाएण तं च ईहामि । किं कह वि जो णिउड्ढो सो पायालं समहियउ ॥ 24  
तीए भणियं ।  
'जइ तं वच्चसि सामिय अहं पि तत्थेय णवरि वच्चामि । भत्तार-देवयाओ णारीओ होंति लोगम्मि ॥'
- 27 तेण भणियं । 27  
'सुंदरि पयट्ट वच्चसु पारत्त-हियं ण रोयए कस्स । पेच्छसु भव-जल-रासिं जम्म-जरा-दुक्ख-भंगिल्लं ॥'  
तीए भणियं ।
- 30 'एयं बालारामं णिसंस-मुक्कं तए अह मरेज । किं मुच्चामि तुमे चिय जह अहयं मुंचिमो एयं ॥' 30  
तेण भणियं ।  
'णिय-कम्म-धम्म-जाया जियंति णियएण चय कम्मेण । बालाण किं मए किं तए व्व मा कुणसु मिसमेयं ॥'
- 33 इमं च णिसामिऊण तीए भणिया ते डिंभरूवा । 33  
एसो य तुम्ह जणओ पुत्तय मरणम्मि दिण्ण-ववसाओ । ता लग्गह पायाहिं कम्मम्मि इमस्स गाढयरा ॥

1 > J वीआणि for खद्वाणि, P बहुणि तणुयंगी, P भमिउं. 2 > P पुल्लेयु. 3 > P om. च, P om. ता. 4 > J om. भर, P सुट्टिया, P णिवडिय, J adds अवि य after भणियं. 5 > P णयासे. 6 > P थंते for अंते, P repeats पेम्मं. 7 > J विंझगिरि, J वाणरणीअं वहय. 8 > J चलं च for चवलं. 9 > P एवं, J चित्तेशु आव लोअंमि, P लोणं, P धयवडवटवणं. 10 > P आसस. 11 > J om. तेण, J -विओआलि-जलिअजालावलीविलुट्ट, P -पिलुट्टहिययुत्तत्तगयमायागट्टकदंतुव्वत्त. 12 > P -प्पवाहाए, P सगगयं, J तीय पक्खिविलासिणीय. 13 > P हे for हा, P जियनाहराह ति, P मुद्धय for मुंचसि, J केणावि, P विचारिओ. 14 > JP होहिती, J अउण्णाए. 16 > P किंच सुंदरि, J गिरत्थयो, P केण व धारिओ, J इहमि for दोवि. 17 > J लोअम्मि. 18 > J तीय. 19 > P जइ व णिणेहो, P तं च से अरुहं, P जणेहि for जाणसि, J adds पि after किं. 21 > J सुहासाए. 22 > P कोव for मोह, P वारीय कह व, J वद्धं, P वंधं मिमाएउ. 23 > P जीवो for जणो after सो, P ति for खयं, P तहिं चिय. 24 > J सेविअन्दिह P सेविओसि, J जो णिउड्ढो, P समहियउ. 25 > J तीय. 26 > P देवयाओ, J लोअंमि. 29 > J तीय. 30 > P निस्संतं, P मरेजा, P adds अह before अहयं, P मुंचिमा. 33 > J तीय भणियं तेण ते, P डिभरूवा. 34 > J om. य, J तुम्हं, P ता लवह पायाहिं, J मा दाहिह for पायाहिं, J कणम्मि, J गाढयरं.



- 1 § ४०८ ) एवं च भणिया समाणा किं काउमाढत्ता । अवि य । 1  
उद्धाइया सरहसं सव्वे च्चिय सुद्ध-मम्मणुळावा । खंधम्मि केइ कंठे अण्णे पट्ठिं समाखुढा ॥
- 3 'मोत्तूण ताय अम्हे कत्थ तुमं पवससि ति णिणणेहो । अंबं पेच्छ रुवंतिं अम्हे वि मरामु तुह विरहे ॥' 3  
तेण भणियं ।  
'पुत्त मए तुम्हाणं ण किंचि कज्जं ति जियउ ए अंबा । स च्चिय दाही भत्तं होह समत्था सयं चेव ॥'
- 6 तेहिं भणियं । 6  
'अंबाए ताय कहियं ताएण विणा मरामि हं पुत्त । तुम्हे वि मए सुक्का मरिहिह मा देसु गंतुं जे ॥'  
तेण भणियं ।
- 9 'मा पत्तियाह पुत्तय एसा अह कुणइ तुम्ह परिहासं । को केणं जीविज्जइ को केणं मरइ लोगम्मि ॥ 9  
भव-रुक्ख-पाव-कुसुमफलाइँ एयाइँ डिंभ-रुवाइँ । महिला णियलमलोहं बंधण-पासं च बंधुयणो ॥  
त्ति चिंतयंतेण धुणिऊगं देहं तरुयरं पिव पिक्क-फलाइँ व पाडिऊग डिंभ-रुवाइँ चलिओ ससुरंतेणं । भणियं च तेण ।
- 12 'तुह ताय पायवडणं करेमि एसो म्ह खमसु जं भणियं । जारिसओ मह जणओ तारिसओ चेय तं पुज्जो ॥' 12  
तेण भणियं ।  
'कल्लाणं ते पुत्तय जइ मरियव्वं अवस्स ता सुणसु । अज्ज वि बालो सि तुमं को कालो वच्छ मरणस्स ॥'
- 15 तेण भणियं । 15  
बालो तरुणो बुद्धो ताय कयंतस्स णत्थि संकप्पो । जलणो व्व सव्व-भक्खो करेउ बालो वि तो धम्मं ॥'  
ति भणंतो उव्वणओ अत्ततेण । भणियं च ।
- 18 'अत्ता तुह पावडणं अम्हं जणणी तुमं ण संदेहो । ता खमसु किंचि भणियं डिंभत्तण-विलसियं अम्ह ॥' 18  
तीए भणियं ।  
'अज्ज वि पुत्तय बालो कुग्गाहो केण एरिसो रइओ । अंजसु भोए पच्छा बुद्धो पुण काहिसी धम्मं ॥'
- 21 तेण भणियं । 21  
'धम्मत्थ-काम-मोक्खा अत्ता चत्तारि तरुण-जण-जोग्गा । जोव्वण-गलियस्स पुणो होंति समुदो व्व दुत्तारो ॥'  
तीए भणियं ।
- 24 'धूयं मोत्तूण इमं फुल्ल-फल-भरिययं सुरूवं च । मा मरसु पुत्त मुद्धो ण-याणसि अत्तणो सारं ॥' 24  
तेण भणियं ।  
'अत्ता फुल्ल-फलेहिं किं वा रुवेणं किं व तरुणीए । घोरं णरए दुक्खं इह जम्माणंतरं होइ ॥'
- 27 तीए भणियं । 27  
'जं तुह कुलस्स सरिसं भणियं तं पुत्त आसि पढमम्मि । भिंदसि कुल-मज्जायं संपइ तुह हो ण जुत्तमिणं ॥'  
तेण भणियं ।
- 30 भत्तार-देवयाणं अत्ता जुत्तं ण एव णारीणं । अहयं मरामि सा उण ण मरइ जुत्तं कुलं तीय ॥' 30  
त्ति भणंतो चलिओ पिय-मित्ततेणं । भणियं च तेण ।  
मित्तं ति णाम लोए वयंस अह केण णिम्मियं होज्ज । वीसंभ-गब्भ-हरओ पणय-दुमो दिण्ण-फल-णिवहो ॥
- 33 परिहास-मूल-पसरं रइ-खंधं पेम्म-राय-साहिल्लं । धिइ-कुसुम-चित्तिय-फलं मित्त-तरुं को ण संभरइ ॥ 33  
ता मित्त तुमे समयं जयम्मि तं णत्थि जं तुहं गुज्जं । जइ किंचि अम्ह खलियं खम सव्वं पसियं तं सुयणु ॥'  
मित्तेण भणियं ।  
'साहसु मह सब्भावं किं कज्जं मित्त पवससे तं सि । को णाम एउ णरओ मुद्धो सि विचारिओ केण ॥'

2 > P उद्धाइय सहरिसं, P को वि for केइ. 3 > J पाव P ताव for ताय, P पवसस, P पेच्छे, J रुवंतिं P रुवंती, P त्तह for तुह. 5 > P तु for ति, P inter. अंबा & ए, J दाहिति for दाही, J चेअ. 7 > P तुम्हे, P मरिहिह, P देसु गंतव्वं ॥. 9 > P पत्तियाहि, P कुणहइ, P । जा वाविज्जइ केणं को केणं, J लोअंमि. 10 > J -रुवाइँ, J णिअल्लुमलोहं बंधं व पासं. 11 > J om. पिव, P पिव पक्कः, P ससुत्तेणं. 12 > J चेव. 14 > J जइ करिअव्वं. 16 > P तया for ताय, J करेसु, P उ for वि. 17 > P अण्णेण for अत्ततेण, P om. च. 19 > J तीय. 20 > P एरिसो वइओ. 22 > P मोक्खो अत्थ चत्तारि. 23 > J तीय. 24 > J धूतं, P रइयं for भरिययं, J याणसी. 26 > J repeats किं वा. 27 > J तीय. 28 > J inter. पुत्त and तासि for आसि, J भिंदसि. 30 > P एय for एव. 31 > P om. भणियं च तेण. 32 > J adds पिय before मित्तं, P मित्तं ति णाम, J पोए for लोए, J होज्जा, P फणयदुमो दिण्णल. 33 > P पेम्मराइ-, J धिति-, P चित्तसफलं. 34 > J तुमं समयं, J बुद्धं गुज्जं, P खनियव्वं पसियं तं सुयणु. 36 > J मुद्धो वैआरिओ.

1 तेण भणियं ।

‘एत्थ ण जुज्झ भणितं णवरि तुहं मित्त-वयण-मेत्तं पि । गहियं जं तुह चित्तं तं सि अभव्वो अकल्लाणो ॥’

3 तेण भणियं ।

‘जइ अत्थि कोइ णरओ पावो य हवेज्ज जीव-णिहणेणं । किं एस सव्व-लोओ ण मरइ जह तं मरिउ-कामो ॥’

तेण भणियं ।

6 ‘किं सव्वो च्चिय पेच्छइ तं वीरं सुणइ किं व वयणाइं । णिसुए वि कस्स सत्ती जो मुंचइ सव्व-पावाइं ॥’

मित्तेण भणियं ।

‘तं एक्को पंडियओ मज्झे किं पक्खि-लक्ख-कोडीण । गो-सय-मज्झे कुल्लो खज्जइ मसएहिं जह एक्को ॥’

9 तेण भणियं ।

‘किं सव्वस्स विवेओ धम्मो बुद्धी व होइ पक्खीण । रक्ख-सयाण वि मज्झे विरलं को चंदणं होइ ॥’

सि भणंतो चलिओ सामण-सव्व-पक्खि-लोगंतेण । भणियं च तेण ।

12 ‘भो भो हो पक्खिगणा वसिया एक्कम्मि रक्ख-सिहरम्मि । गयणम्मि समं भमिया सरिया-पुलिणेसु कीलियया ॥  
ता खमह किंचि भणियं अव्वो वालत्तणेण दुच्चयणं । सहवास-परिहवो हो होइ च्चिय सव्व-लोगम्मि ॥’

इमं च भणिया सव्वे सहरिस-दीण-कलुणा हास-रस-भरिज्जमाण-माणसा भणितं पयत्ता ।

15 ‘एवं होउ खमेज्जसु जं तुह रुद्धं करेसु तं धीर । सुट्ठु वि जइ विण्णप्पसि ण कुणासि अरुहं तुमं वयणं ॥’

तेण भणियं ।

‘कीस ण कीरइ वयणं ओसारिय-मच्छरस्स पुरिसस्स । किं तु ण दीसइ कथ वि एक्कं मोत्तण तं वीरं ॥’

18 भणंतो ससुप्पइओ तमाल-दल-सामलं गयणयलं सो विहंगमो ।

एत्थंतरम्मि सूरु कय-मेरु-पयाहिणो णियमियंगो । वियसाच्चिय-कमल-वणो जिणच्चणं कुणइ भत्तीए ॥

ताव थ करयरंति सउणया, णिलुक्कंति घूया, णिसियंति वग्घा, वियरंति सिंघा, वियसंति कमलायरा, संकुयंति कुमुयायरा,

21 कुसुमिय-सिय-कुसुमइ-हास-हसिरा वणसिरि त्ति । अवि य ।

सिय-कुसुम-लोयणोदर-णिविट्ट-मूयल्लिएक्क-भमरेहिं । गोसग्गम्मि वण-सिरी पुलएइ दिसीओ व विउद्धा ॥

§ ४०९ ) तथो तं च तारिसं पंडरं पहायं दट्ठूण उप्पइथा सव्वे ते पक्खिणो तम्हाओ वड-पायवाओ त्ति । ते य

24 उप्पइए दट्ठूण विमिहय-खित्त-हियओ चित्तिउं पयत्तो सयंभु-देवो । ‘अहो, महंतं अच्छरीयं जं पेच्छ वणे पक्खिणो ते वि

माणुस-पलाविणो फुडक्खरं मंतयंति, ते वि धम्मपरे । ता कहं आहार-भय-मेहुण-सण्णा-मेत्त-हियय-विफुरंत-विण्णाणा, कहं

वा एरिसी धम्म-बुद्धि त्ति । ता ण होइ एयं पयइत्थं, दिव्व-पक्खिणो त्य एए । अहो तस्स पक्खिणो फुडक्खरालावत्तणं,

27 अहो सत्तसारो, अहो ववसाओ, अहो पियं वत्तणं, अहो णिट्ठुरत्तणं, अहो णिण्णेहया, अहो-गुरु-गउरवो, अहो दद-धम्मया,

अहो वेरगं, अहो णरय-भीरुत्तणं अहो मरणाणुवंधो त्ति । सव्वहा ण सुट्ठु जाणीयइ किं पि इमं जं सो पक्खी

कुडुवं सव्वं परिच्चउण अत्तणो हियं धम्मं पडिवज्जइ त्ति । अहवा पेच्छ, पक्खिणो वि धम्मपरा कुडुव-णिण्णेहा धम्म-गय-

30 चित्ता । अहं पुण कीस पर-संतियाइं रयणाइं चोरिउण इमं एरिसं दिट्ठ-सव्भावं विड-क्वड-कुडुवं जीवावेमि । ता संपयं 30

इमं एत्थ करणीयं । जस्स सयासे इमिणा धम्मो णिसुओ तं गंतूण पेच्छामि । पुच्छामि य जहा ‘भगवं, के ते वणम्मि

पक्खिणो, किं वा तेहिं मंतिंयं, किं कारणं’ ति । इमं च सोऊण पच्छा जं करियव्वं तं काहामि जं इमिणा पक्खिणा कयं’ति

33 चित्तिउण अवहण्णो वड-पायवाओ, गंतुं पयत्तो हत्थिणपुराभिमुहं जाव ‘भो भो गोदम, एस ममं समवसरणे पविट्ठो, 33

2) P अभव्वा. 4) J व्व for य, P मरिउंकामो. 6) P सव्वो च्चिय, P व for वि. 8) P कोडी, P जुज्झ.

10) P सव्वविधिओ, P om. को. 11) J लोअतेण P णोगंतेण, P om. च तेण. 12) J om. हो, P समा for समं.

13) P खमसु, J सव्वलोएसु. 14) P-करणा, J-हरिज्जमाण-, P om. माण. 15) J एअं for एवं, P रुद्धं, P repeats वि

जइ, J जइ भणिणप्पसि. 16) J om. तेण भणियं. 17) P om. कीस ण, P उत्सरिय, P om. पुरिसस्स, P किं तुइण. 18)

P भणंतो उप्पइओ, P गणयलं. 19) P पयाहिणा, J णियसंगो, J करकमलो for कमलवणो, J भत्तीय. 20) P करयरंति, P

घुअया, J विरंति सिंघा, J संघडंति for संकुयंति. 21) J कुसुमप्पहास, P वणसिरि त्ति. 22) P सेव for सिय, J लोअणोअर,

J मूयल्लिएक्क, J इव for व. 23) P om. पंडरं, J सहायं for पहायं. 24) J चित्त for खित्त, P अच्छरीयं, P पक्खिणो.

P om. ते वि. 25) P धम्मं परा ते वि कहं, J सण्णा-, J विफुरंत, P विण्णाणो. 26) J एवं for एयं, P खु एवं ते for त्य

एए, J लावित्तणं. 27) J पियं वयत्तणं, P om. अहो णिट्ठुरत्तणं, P गुरुगवो । अह दद-. 28) J भीरुत्तणं । मरणाणुवंधि

त्ति, J जाणीयति P जाणीयं. 29) P कुडुवं, P inter. कुडुवं & सव्वं, P अहवा पच्छ, P कुट्टवं. 30) P कुट्टवं. 31) P

om. इमं, J om. य. 32) P om. जं करियव्वं, J हत्थिणउराभिमुहं, P गोयमा, P om. ममं.

- 1 पुच्छिओ य अहं इमिणा 'को सो वणम्मि पक्खी' । साहिओ मए जहा 'दिच्चो' त्ति ।' इमं च सोऊण उप्पण-वेरगो 1  
 गिच्चिण-काम-भोगो उप्पण-कुट्टुव-णीसार-बुद्धी संजाय-विवेगो उइण-चारित्तावरणीय-खओवसमत्तणेण चारित्त-वेदणीय-  
 3 सुह-कम्मो त्ति ताणं समप्पिऊण रयणाइं आउच्छिऊण पक्खिणोवएस-सरिसुत्तर-पडिउत्तरालावेहिं ममं चेय सयासं एहिइ त्ति । 3  
 § ४१० ) इमं च एत्तियं जाव भगवं वीरणाहो साहइ गोयमाइंणं ताव संपत्तो सयंभुदेवो त्ति, पयाहिणं च काऊण  
 पायवडणुट्ठिओ भणिउं समाढत्तो । अवि य ।
- 6 'जय संसार-महोयहि-जर-मरणावत्त-भंगुर-तरंगे । जय जीव-जाणवत्तो सिद्धि-पुरी-सामिओ तं सि ॥ 6  
 भगवं पडिबुद्धो हं वणम्मि सोऊण पक्खिणो वयणं । ता देसु गियय-दिक्खं कुणसु पसायं सुदीणस्स ॥'  
 इमं च वयणं सोऊण दिक्खिओ जहा-विहिणा भगवया गोदम-गणहारिणा चंडसोम-जीवो सयंभुदेवो त्ति ॥
- 9 § ४११ ) एवं च भगवं भव्व-कुमुयागर-अहस्स-संबोहओ विहरमाणो मगहा णाम देसो, तत्थ य रायगिहं णाम 9  
 णयरं, तत्थ संपत्तो, देव-दाणव-गणेहिं विरइयं समवसरणं । तत्थ य सिरिसेणिओ णाम राया । सो य तं भगवंतं  
 सोऊण समागयं जिणचंदं हरिस-वस-वियसमाण-मुह-पंकओ सयल-जण-हलबोल-वट्टमाण-कलयलो गंतुं पयत्तो । भगवंतं  
 12 वंदिऊण संपत्तो, समवसरणं पविट्ठो । ति-पयाहिणीकओ भगवं जिणयंदो, पायवडणुट्ठिण य भणियं तेण । अवि य । 12  
 'जय दुज्जय-मोह-महा-गइंद-णिद्वारणम्मि पंचमुहा । जय विसम-कम्म-काणण-दहणेक्क-पयाव-जलण-समा ॥  
 जय कोवाणल-पसरिय-विवेय-जल-जलहरिंद-सारिच्छा । जय माणुद्धर-पव्वय-मुसुमूरण-पच्चला कुलिसा ॥
- 15 जय माया-रुसिय-महाभुयंणि तं णाम-मणि-सारिच्छा । जय लोह-महारक्खस-णिण्णासण-सिद्ध-मंत-समा ॥ 15  
 जय अरइ-रइ-णासण जय-णिज्जिय हास-वज्जिय जयाहि । जयहि जुगुच्छा-मुक्का असोय जय जयसु तं देव ॥  
 जयहि ण-पुरिस ण-महिला णोभय जय वेय-वज्जिय जयाहि । सम्मत्त-मिच्छ-रहिया पंच-विहण्णाण-भय-मुक्का ॥
- 18 अज्जेव अहं जाओ अज्ज य पेच्छामि अज्ज णिसुणेमि । मगहा-रज्जम्मि ठिओ दट्टं तुह वीर सुहयंदं ॥ 18  
 तं णाहो तं सरणं तं माया बंधवो तुमं ताओ । सासय-सुहस्स मुणिवर जेण तए देसिओ मग्गो ॥'  
 त्ति भणंतो णिवडिओ चलणेसु, णिसण्णो य गिययासणट्टाणेसु । साहियं च भगवया अंगोवंग-पविट्टं सुत्त-णाणं मइ-णाणं  
 21 च, परुवियं भव-पच्चयं कम्मक्खओवसमयं च णाणा-संठाणं ओहि-णाणं, सिट्ठं तु उज्जय-विउल-मइ-भेयं मणुय-लोकभंतरं 21  
 मणपज्जव-णाणं, वज्जरियं च सयल-लोकभंतर-पयत्थ-सत्थ-जहावट्टिय-सहाव-पयासयं केवल-दंसणं केवल-णाणं च त्ति ।  
 § ४१२ ) एत्थंतरम्मि आबद्ध-करयलंजलिउडेण पुच्छियं महारायाहिराइणा सिरिसेणिण्ण 'भगवं, केण उण  
 24 णाणेण एए णेमिस्सिणो सुहासुहं तीयाणागय-पञ्चुप्पणं वियाणंता दीसंति, केण वा पयारेणं' त्ति । भगवया भणियं । अवि य । 24  
 'देवाणुपिया एयं सुय-णाणं जेण जाणए लोओ । केवलि-सुत्त-णिबद्धं केवलिणा केवली-सुत्तं ॥  
 जइ जाणिऊण इच्छसि सुणेसु णरणाह थोव-वित्थरियं । अप्पक्खरं महत्थं जइ भणियं केवलि-रिसीहिं ॥
- 27 होंति इमे अ-इ-क-च-उ-त-प-य-सक्खरा वि य सोहणा वण्णा । आ-इ-ख-छ-ठ-थ-फ-र-सा असोहणा ते पुणो भणिया ॥ 27  
 ए-ऊ-ग-ज-ड-द-व-ल-सा सुहया अह होंति सव्व-कज्जेसु । ए-ओ-घ-झ-ढ-ध-भ-व-हा ण सोहणा सव्व-कज्जेसु ॥  
 हो होंति ओ-ओ-ण-न-मा मीस-सहावा हवंति कज्जेसु । संपइ फलं पि वोच्छं एयाणं सव्व-वण्णाणं ॥
- 30 सोहणमसोहणं वा सुह-दुक्खं संधि-विगहं चेय । एइ ण एइ व लाभो ण लाभ-जय-अजय-कज्जे य ॥ 30  
 होइ ण होइ व कज्जं खेममखेमं च अत्थि णत्थी वा । संपत्ती व विवत्ती जीविद-मरणं व रिसमरिसं ॥  
 पढम-वयणम्मि पढमा सुह-वण्णा होंति अहव बहुया वा । ता जाण कज्ज-सिद्धी असुहेहिं ण सिज्झए कज्जं ॥
- 33 अहवा पुच्छय-वयणं पढमं चेतून तं णिरुवेसु । विहि-वयणे होइ सुहं असुहं पडिसेह-वयणम्मि ॥ अहवा । 33

1 > P अहो for अहं, P च सोऊणप्पन्न- 2 > P निच्छिन्नकामभोगा, P कुट्टुवनीरसा बुद्धी, J विवेओ, P उदियोय for उइण, P वेयणीय- 3 > P सरिसमुत्तर, P चेय सयासं एहिय त्ति- 7 > P दिक्खं- 8 > J भगवओ, P गोयम- 9 > J om. य- 10 > P समवसरणं, J om. तं, P भगवं- 11 > J जिणयंदं, P सयलसजलहरबोलवट्टमाण- 12 > P पविट्ठो, P जिचंणयंदो, P om. य- 13 > P विद्वारणम्मि, P विसय for विसम- 14 > P विवियजलहरिद, J सारिच्छ, P जह माणुमहपव्वय, P मुसुमूरणलिसा ॥, J कुलिस- 15 > P मोह for लोह, P विण्णासण- 16 > J अरतिरतीणासण, P -रयणासण जयनिक्खय, P जहाहि ।, P जुगुच्छा, P देवा- 17 > J वेत-, P तित्थय for मिच्छ, J विवण्णाण- 18 > J अज्जेय, J दिट्ठं for दट्टुं- 19 > P पविट्ठो सुयणाणं- 21 > P भव्व for भव, J खयोवसमयं, P सिद्धं उज्जय, JP मति-, J -भेदं- 22 > P om. च, J जहावट्टिय, P दंसण- 23 > P 'रायाहिराएण, J om. सिरिसेणिण्ण- 24 > P एते निमित्तिण्णो, J तीयाणागत- 25 > P देवाणुप्पिया, J एदं- 26 > P दोष for थोव, P केवल-, J -इसीहि- 27 > P om. इमे, J अ-ए-, P om. इ, P शक्खरा, J चेअ for विय, J ए for ई, P दतप for ठथ, P फरया- 28 > J ओ for ऊ, JP अ for ओ- 29 > P ओअडवणनमा: अं अ: मीस-, J adds जइ before ओण, P ति for पि, P वणाणं ॥ 30 > J सोहण असोहणं, J एउ for second एइ, J जय अज्जयं चेअ ॥ 31 > P क्खेममक्खेमं- P व for वा, P विवत्ती जीविय, P मरणं वरिसं ॥ 32 > J वयणं पि, P पढमो सुहवणो होति, J adds जा before ता, J सिज्झदी, P सिज्झ-.

- 1 फल-कुसुमक्वय-पत्ते रूवय अण्णं च पुरिस-रूवं च । अट्ट-विभत्ते लद्धं तेण फलं सुणसु तं एयं ॥  
होइ झए सव्व-फलं धूमे फल-णिप्फलं च संतावो । सीहे विक्कम-लाभो साणे तुच्छाह-वदिवित्ती ॥ 1
- 3 वसहे गउरव-लाभो खरम्मि कलहो य सोय-संतावो । होइ गए पुण पूया टंके णिच्चं परिवभमणं ॥ अहवा ।  
पुच्छाणंतर-पुलइय-दिट्ठे णिसुणु व्व सोहणे अत्थे । कज्जस्स अत्थि सिद्धी विवरीए णत्थि सा भणसु ॥ 3
- 6 चलण-पणाम-पञ्चट्टिण्ण भणियं । अवि य ।  
'जाणमि अज्ज सुमिणे भगवं पेच्छामि कसिण-वण-वण्णं । कालायस-कंचण-मिसियं व एक्कं महापुंजं ॥  
जाणामि मए धमियं जलियं जालोलि-त्तावियं गलियं । कालास-मीस-गलियं जच्च-सुवण्णं ठियं तत्थ ।  
9 एत्थंतरे विउट्ठो भगवं पडु-पढह-संख-सदेहिं । साहसु सुमिणस्स फलं संपह किं एत्थ भवियव्वं ॥ 9  
भगवया भणियं ।  
'भइसुह एस सुमिणो साहइ सस्सत्त-चरण-दिक्खाए । केवल-णाणं सिद्धी सासय-सुह-संगमं अंते ॥  
12 कालायसयं कम्मं जीयं कणयं च मीसियं तत्थ । ज्ञाणाणत्तेण धमिउं सुद्धो जीवो तए ठविओ ॥ 12  
अण्णं च तुमं एरिसो चरिम-सरीरो य एत्थ उप्पण्णो । कुवलयमाला-जीवो देवो देवत्तणाओ तुमं ॥  
सव्वं च तस्स कहियं मायाहच्चादि-देव-पज्जंतं । सव्वे ते पव्वइया तुम्ह सहाया इमे पेच्छ ॥'  
15 इमं च वुत्तंतं णिसामिऊण भणियं महारह-कुमारेण 'भगवं, जइ एवं तो विसमो एस चित्त-तुरंगमो' । 'किं विलंबेसि' ति 15  
भणिए भगवया गणहारिणा दिक्खिओ जहा-विहिणा महारह-कुमारो ति । मिलिया य ते पंच वि जणा अवरोप्परं जाणंति  
जहा 'कय-पुव्व-संकेया सम्मत्त-लंभे अस्हे' ति । एवं च ताण भगवया जिणयंदेण समं विहरमाणं वोलीणाइं बहुयाइं  
18 वासाइं । 18
- § ४१३ ) साहियं च भगवया सव्वण्णुणा मणिरह-कुमार-साहुणो जहा 'तुज्ज थोवं आउयं ति जाणिऊण जहासुहं  
संलेहणा-कम्मं पडिवज्जिऊण उत्तिम-ठाणाराहणं' ति । तओ मणिरहकुमारो वि 'इच्छं' ति अणुमण्णमाणेण समादत्ता चउ-खंधा  
21 धाराहणा काउं । कय-संलेहणा-कम्मो दिण्णालोयण-वित्थरो णिसण्णो तक्कालप्पाओगे फासुय-संधारए, तत्थ भणिउं 21  
समादत्तो । अवि य ।  
'पणमामि तित्थणाहं तित्थे तित्थाहिवं च उसभ-जिणं । अवसेसे तित्थयरे वीर-जिणिंदं च णमिऊणं ॥  
24 णमिऊण गणहरिंदे आयरिए धम्मदायए सिरसा । णमिऊण सव्व-साधू चउव्विधाराहणं वोच्छं ॥ 24  
णाणे दंसण-चरणे विरिया धाराहणा चउत्थी उ । णाणे अट्ट चियप्पा तं चिय वोच्छामि ता णिउणं ॥  
पढमं काले विणए बहुमाणुवहाण तह य णिणहवणे । वंजण-अत्थ-तदुभए णाणस्साराहओ तेसु ॥  
27 जो काले सज्जाओ सो ण कओ जो कओ अकालम्मि । जं जह-कालं ण कयं तं णिंदे तं च गरिहामि ॥ 27  
अच्चुट्टाणं अंजलि आसण-णीयं च विणय-पडिवत्ती । जा ण कयं म्ह गुरुणं तमहं णिंदामि भावेणं ॥  
भावेण अणुदिणं चिय एस गुरु पंडिओ महप्पा य । ण कओ जो बहु-माणो मिच्छा हो दुक्कडं तस्स ॥  
30 जं जत्थ तवच्चरणं अंगोवंगेसु तह पइण्णेसु । ण कयं उवहाणं मे एण्हिं णिंदामि तं सव्वं ॥ 30  
असुयं पि सुयं भणियं सुयं पि ण सुयं ति कह वि मूढेण । अण्णाए णिण्हवियं तमहं णिंदामि भावेण ॥  
मत्ता-यिंदु-वियप्पं काउं अण्णत्थ जोडियं अत्थं । वंजण-विचंजणेण य एण्हिं णिंदामि तं पावं ॥

- 1 > J पत्तो, P adds रूवयपत्ते before रूवय. 2 > J अए for झए, P धूमफल, P सिंवे for सीहे, P वनिवित्ती. 3 > P गयवरलाभो, P ढंके for टंके, J पडिक्कमणं ॥ 4 > P पुच्छलइय, J -दिट्ठो, P णिसुणे, J अत्थ for अत्थि. 6 > P -पणाम. 7 > P पेच्छमि, P वणं, P मीसियं व एक्कपुंजं. 8 > P धंमियजलियजलिय जालालि, J कालायसमीसयं गलियं, P om. कालायसमीस-गलियं (emended), P सुवणहियं तत्थ. 9 > P सुविणस्स. 11 > P सुविणो, P दिक्खाया, P नाणसिद्धी. 12 > P कालाययं, J मेड्डिअं for मीसियं, P सुद्धिय for धमिउं, P ट्टविओ. 13 > P चरिमो for एरिसो, P देवा देवत्तणाउ तुमं. 14 > P om. ते, J पव्वइता, P पेच्छा. 15 > P त for च, J वुत्तं for वुत्तंतं, P adds च after भणियं, J ता for तो, P क विचंबेसि. 16 > J जहाविहाणं, J om. य, P जणो, P जाणति. 17 > J णेण for ताण. 19 > J थोअं, P जाणिऊण अह्मानुहं. 20 > J पव्व-ज्जिऊण, J उत्तम, P -ट्टारोहणं, P तव for तओ, P मणिरह साहुणोवि, P अणुमण्णं, P समादत्तो. 21 > J धाराहणा, P धाराहणं, P कयसंमोहणाकंमो, P लोयणाविलोयणा वित्थरो, P तक्कालपओगे, J तत्थ य भणिउमादत्तो. 23 > P तित्थाहव्वं. 24 > P साहू चउव्विहे रोहणं, J धाराहणा. 25 > P विरिय. 26 > JP बहुमाणं, J वंजण, J तदुभये. 27 > J om. जो, J कओ, P om. कओ after जो, P -काले, J कओ तं. 28 > J णिणय P विण for विणय, P नाणकयं मि for जा etc., J कयं च. 29 > P जा बहु हो दुक्कडं for जो etc. 30 > P तवतच्चकरं. 31 > P अत्राओ. 32 > P ॥ मित्ता, J च for य.

- 1 अमयप्पवाह-सरिसे जिण-वयणे जं कहा-विमूढेण । अत्थस्स विवज्जासो रइओ णिंदे तयं पावं ॥ 1  
सुत्तथाणं दोण्ह वि मोहेण व अधव होज हासेण । जो कह वि विवज्जासो एण्हि णिंदामि तं पावं ॥
- 3 उस्सुत्तो उम्मग्गो उक्करणिज्जो व्व एत्थ जो जोग्गो । मोहंधेण ण दिट्ठो संपह् आराधिमो णाणं ॥ 3  
एसो णाणायारो भगवं जइ खंडिओ मए कह वि । मिच्छामि दुक्कडं तं संपह् अह दंसणं वोच्छं ॥  
णिसंसंक्रिय-णिकंखिय-णिव्वित्तिगिच्छा अमूढ-दिट्ठी य । उववूह-थिरीकरणे वच्छल्ल-पभावणे अट्ट ॥
- 6 सच्चं जिणाण वयणं एत्थ वियप्पो ण चेय कायव्वो । एयं होज ण होज व जइ मह संका तयं णिंदे ॥ 6  
गेण्हामि इमं दिक्खं एयं लिंगं इमो य परमत्थो । मूढेण कंखिओ मे मिच्छा हो दुक्कडं तत्थ ॥  
अह होज ण वा मोक्खं आयरियादीण जा य वित्तिगिच्छा । जइ मे कह वि कया सा णिंदामि ह पावयं एण्हि ॥
- 9 दट्ठूण रिद्धि-पूयं परवाईणं कुत्तिथ-मग्गेषु । जइ मह दिट्ठी मूढा एण्हि णिंदामि तं पावं ॥ 9  
खमगं वेयावच्चं सज्जाए चेव वावडं साहुं । उववूहणा य ण कया एस पमाओ तयं णिंदे ॥  
साधु-किरियासु कासु वि दट्ठुं सीयंतयं मुणिं ण कया । बहु-दोसे माणुस्से थिरिकरणा णिंदिरे तमहं ॥
- 12 गुरु-बाल-त्वस्सीणं समाण-धम्ममाण वा वि सव्वाणं । वच्छल्लं ण कयं मे आहारादीहिं तं णिंदे ॥ 12  
मेरु व्व णिप्पयंपं जिणाण वयणं तथा वि सत्तीए । ण कयं पभावणं मे एस पमाओ तयं णिंदे ॥  
पावयणी धम्मकधी वाई णेमिस्सिओ तवस्सी य । विज्जा-सिद्धो य कवी अट्टे व पभावया भणिया ॥
- 15 सव्वाणं पि पसंसा कायव्वा सव्वहा विसुद्धेण । सा ण कया तं णिंदे सम्मत्ताराहणा सा हु ॥ 15  
पंच समिईओ सम्मं गुत्तीओ तिण्णि जाओ भणियाओ । पवयण-मादीयाओ चारित्ताराहणा एसा ॥  
इरियावहं पयत्तो जुगमेत्त-णिहित्त-णयण-णिकखेवो । जं ण गओ हं तइया मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥
- 18 जंपंतेण य तइया भासा-समिएण जं ण आलत्तं । तस्स पमायस्साहं पायच्छित्तं पवज्जामि ॥ 18  
वत्थे पाणे भत्तेसण-गहण-घासमादीया । एसण-समिई ण कया तं आणा-खंडणं णिंदे ॥  
आयाण-भंड-मेत्ते णिकखेवग्गहण-ठावणे जं च । दुपमज्जिय-पडिलेहा एस पमाओ तयं णिंदे ॥
- 21 उच्चारे पासवणे खेले सिंघाण-जल्ल-समितीओ । दुप्पडिलेह-पमज्जिय उम्मग्गो णिंदिओ सो हु ॥ 21  
भंजंतो सीलवणं मत्तो मण-कुंजरो वियरमाणो । जिण-वयण-वारि-बंधे जेण ण गुत्तो तयं णिंदे ॥  
जो वयण-वण-दवग्गी पज्जलिओ डहइ संजमारामं । मोण-जलेण णिसित्तो एस पमाओ तयं णिंदे ॥
- 24 अय-गोलओ व्व काओ जोग-फुल्लिगेहिं डहइ सव्व-जिए । तुंडेण सो ण गुत्तो संजम-मइएण तं णिंदे ॥ 24  
इय एत्थ अईयारो पंचसु समिईसु तिसु व गुत्तीसु । जो जो य महं जाओ तं णिंदे तं च गरिहामि ॥  
वारस-विधम्मि वि तवे सभित्तर-वाहिरे जिणक्खाए । संते विरियम्मि मए णिगूहियं जं तयं णिंदे ॥'
- 27 एवं च चउक्खंधं आराहणं आराहिज्जण मणिरहकुमारो साधू अउव्वकरणेण खवग-सेटीए अणंत-वर-णाण-दंसणं उप्पाडिज्जण 27  
तक्काले कालस्स व्वगताए अंतगड-केवली जाओ त्ति ॥

§ ४१४ ) एवं च वच्चमाणेषु दियहेसु कामगइंद-साधू वि णिय-आउक्खयं जाणिज्जण कय-संलेहणाइ-कप्पो णिसण्णो

- 30 संधारए । तत्थ भणिउमाहत्तो । अवि य । 30

णामिज्जण तिलोय-गुरुं उसभं तेलोक्क-मंगलं पढमं । अवसेसे य जिणवरे करोमि सामाइयं एण्हि ॥

एस करोमि य भंते सामाइय तिविध जोग-करणेण । रायदोस-विमुक्को दोण्ह वि मज्झम्मि वट्टामि ॥

- 1 > P सरिसो जिणं वयणं, P विवज्जो for विवज्जासो, P om. रइओ णिंदे etc. to उक्करणिज्जो. 3 > P जोगो, P आराहणो नाणं. 5 > P णीसंक्रिय, P णिव्वित्तिगिच्छा, J दिट्ठीया, P -पभावणो. 6 > J एवं, J व्व for व, P जय मह. 7 > J व्व for य, J मो for मे. 8 > P मोह for अह, J आयरियातीण, P जा भवे कुच्छा. 9 > P परवाईणं. 10 > J गमगं for खमगं, J ज वेतावच्चं, P चेय, P उव्ववूहा णेय कयाइस्स, J कता एस पमातो. 11 > P साधु-, P दट्ठुं, J सीयंतयं, J थिरिअवणा P थिरकरणे. 13 > P व्व निप्पयंपं, P वि तत्तीए, J om. मे. 14 > J धम्मकधी वाती, P वानीणोमिस्सिओ, P व वभावया. 15 > J सव्वाण वि यासंसा, P या for कया. 16 > JP समितीओ, J -मातीयाओ. 17 > J एरिसावहे for इरियावहं, P नय for णयण, J जणचउहं, J जण्ण for जं ण, P तस्सा. 19 > J पाणे भावेणेसणगहण-, P गहणे, JP समिती, J कता. 20 > J आताण, P मेत्त, J णिकखेवग्गहण, P गगहणट्टाणसेच्चं च । उपमपडिलेहा, J पमातो. 21 > P सिंघाण, P दुडिलेह, P उम्मग्गा, P साहु ॥. 22 > P वंधो. 23 > P । नाणज्जणेण निसिचित्ति. 24 > P अतमोलउच्चकाओ, P कूडेण for तुंडेण. 25 > JP अहीयारो, J ज समिती, P तीनु गुत्तीसु, P जो कोइ महं. 26 > P -विदंमि, J य for वि, J जिणक्खाते, P निग्गहियं. 27 > P कुमारसाह, P खवसेटीए, J सेटीए अणंतं, P उप्पडिज्जण तक्कालो. 28 > P खयंताए, P केवली जाओ. 29 > J वच्चमाणदियहेसु, P साहु वि, P संलेहणो कप्पो J संलेहणाउक्कम्मो. 31 > P om. य, J सामाइयं P सामाइयं. 32 > P तिविहकंमज्जेणं ।

- 1 जं सुहुम वायरं वा पाण-वहं लोह-मोह-जुत्तस्स । तिविधेण कयं तिविधं तिविधेण वि वोसिरे सव्वं ॥ 1  
जं कह वि मुसं भणियं हास-भय-क्रोध-लोभ-मोहेहिं । तं तिविध-काल-जुत्तं तिविधेण य वोसिरे तिविधं ॥
- 3 थोवं वहुं व कत्थइ दव्वं पारकयं अदिण्णं तु । तं तिविधम्मि वि काले वोसिरे तिविधं पि तिविधेण ॥ 3  
जं णर-तिरिक्ख-दिव्वे मेहुण-संजोग-भावियं चित्तं । तिविधे वि काल-जोगे वोसिरे तिविधं पि तिविधेण ॥  
चित्ताचित्तो मीसो परिग्गहो कह वि भाव-संजुत्तो । तिविधम्मि वि तं काले तिविधं तिविधेण वोसिरसु ॥
- 6 राह्णं जं भुत्तं असणं पाणं व खाइमं अण्णं । तिविधम्मि वि तं काले वोसिरे तिविधेण तिविधं पि ॥ 6  
जो मह धणे ममत्तो महिलासु य सुंदरासु तरुणीसु । रयणेसु रुवणसु व तिविधं तिविधेण वोसिरियं ॥  
वत्थेसु जो ममत्तो पत्तेसु य डंडओवयरणेसु । सीसेसु जो ममत्तो सव्वो तिविधेण वोसिरिओ ॥
- 9 पुत्तेसु जो ममत्तो धूयासु य सुंदरेसु भिच्चेसु । अहवा सहोदरेसु व सव्वो तिविधेण वोसिरिओ ॥ 9  
भइणीसु जो ममत्तो माया-वित्तेसु अहव मित्तेसु । सो सव्वो वि दुरंतो तिविधं तिविधेण वोसिरिओ ॥  
सोमिम्मि जो ममत्तो सयणे सुयणे व्व परिजणे जे वि । भवणे व्व जो ममत्तो सव्वो तिविधेण वोसिरिओ ॥
- 12 बंधुम्मि जो तिणेहो सेज्जा-संथार-फलहए वा वि । उवयरणम्मि ममत्तो सव्वे तिविधेण वोसिरिओ ॥ 12  
देहम्मि जो ममत्तो मा मे सीदादि होज्ज देहस्स । सो सव्वो वि दुरंतो तिविधं तिविधेण वोसिरिओ ॥  
णियय-सहाव-ममत्तो अम्ह सहावो त्ति सुंदरो एसो । सो सव्वो वि दुरंतो वोसिरिओ मज्झ तिविधेण ॥
- 15 देसेसु जो ममत्तो अम्हं णारो त्ति अम्ह देसो त्ति । सहेसु जो ममत्तो तिविधेण वोसिरे सव्वं ॥ 15  
जो कोइ कओ कोवो कम्मि वि जीवम्मि मूढ-भावेण । वोसिरिओ सो सव्वो एण्हि सो खमउ मह सव्वं ॥  
जो कोइ कओ माणो कम्मि वि जीवम्मि मूढ-चित्तेण । सो खमउ ममं सव्वं वोसिरिओ सो मए माणो ॥
- 18 जा काइ कया माया कम्मि वि जीवम्मि मूढ-भावेण । सो खमउ ममं सव्वं वोसिरिया सा मए एण्हि ॥ 18  
जो कोइ कओ लोहो परस्स दव्वम्मि मूढ-भावेण । सो खमउ महं सव्वं वोसिरिओ सो मए लोभो ॥  
जो कोइ मए विहिओ कम्मि वि कालम्मि राय-रत्तेण । सो मज्झ खमउ एण्हि मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥
- 21 जो मे दुक्खावियओ ठाणाठाणं व संकमं णीओ । सो खमउ मज्झ एण्हि मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥ 21  
पेसुण्णं जस्स कयं अलिए सच्चे व भाणिए दोसे । रागेण व दोसेण व एण्हि सो खमउ मह सव्वं ॥  
णिट्ठर-खर-फरुसं वा दुव्वयणं जस्स किंचि मे भणियं । विद्धं च मम्म-वेहं सो सव्वं खमउ मह एण्हि ॥
- 24 दाऊण ण दिण्णं चिय आसा-भंगो व्व जस्स मे रइओ । दिज्जंतं व णिरुद्धं सो एण्हि खमउ मह सव्वं ॥ 24  
जो दीणो परिभूओ गह-गहिओ रोर-वाहि-परिभूओ । हसिओ विडंयणाहिं एण्हि सो खमउ मह सव्वं ॥  
अण्णेसुं पि भवेसुं जो जं भणिओ अणिट्ठ-कडुयं वा । सो खमउ मज्झ एण्हि एसो मे खामणा-कालो ॥
- 27 मित्तं पि खमउ मज्झं खमउ अमित्तो वि मज्झत्थो । मित्तामित्त-विसुक्को मज्झत्थो एस मे जीवो ॥ 27  
खामेमि अहं मित्ते एस अमित्ते वि हं खमावेमि । खामेमि दोण्णि मग्गे मज्झत्था होंतु मे सव्वे ॥  
मित्तो होइ अमित्तो होंति अमित्ता खणेण ते मित्ता । मित्तामित्त-विवेओ काऊण ण जुज्जए एण्हि ॥
- 30 सयणा खमंतु मज्झं खामंतु तह परियणा वि खमेमि । सयणो परो व्व संपइ दोण्णि वि सरिसा महं होंति ॥ 30  
देवत्तणम्मि देवा तिरियत्तणे व्व होंति जे केइ । दुक्खेण मए ठविया खमंतु सव्वे वि ते मज्झं ॥  
णरयत्तणम्मि णरया मणुया मणुयत्तणम्मि जे केइ । दुक्खेण मए ठविया खमंतु ते मज्झ सव्वे वि ॥
- 33 छण्ह वि जीव-णिक्कायाण जं मए किंचि मंगुलं रइयं । ते मे खमंतु सव्वे एस खमावेमि भावेण ॥ सव्वहा, 33

1) P वातरं, P -मोहजोत्तेण । तिविधेण, P तिविधं तिविधेण. 2) P भयकोहलोह, P तिविह, P repeats काल, P तिविधेण वोसिरे तिविधं. 3) P कत्थ विदद्धं पारकयं च जं गहियं । जं तिविधंमि, J पारक्काहिअयं अदिण्णं तु, P तिविधं पि तिविधेण. 4) J संजोय, P तिविधे, J कालजोय, P तिविधं पि तिविधेण. 5) P om. तिविधम्मि वि तं काले, P तिविधं तिविधेण. 6) J स्वाणिमं, P तिविधंमि, P कालं वोसिरे तिविधं पि तिविधेण. 7) P जा for जो, P सुंदरातरुणीसु, J तरुणासु, P om. व, P तिविधं तिविधेण. 8) P तिविधंमि, P कालं वोसिरे तिविधं पि तिविधेण. 9) J धूतासु, P सुंदरेसु भिच्चेसु, J सहोदरेसु सव्वो. 10) P तिविधं ममत्तो वत्तेसु व, P वमरणेसु, J सिस्सेसु, P तिविधेण. 11) J धूतासु, P सुंदरेसु भिच्चेसु, J सहोदरेसु सव्वो. 12) P तिविधं ममत्तो पत्तेसु व, P वमरणेसु, J सिस्सेसु, P तिविधेण. 13) P तिविधेण. 14) P सोमिम्मि जो, P परजणो जो वि, P तिविधेण. 15) P मत्तो for ममत्तो, J सव्वो, P तिविधेण. 16) P तिविधेण. 17) P सोमिम्मि जो, P परजणो जो वि, P तिविधेण. 18) P एसो, P तिविधेण. 19) P कए for कओ, P ममं for महं. 20) P कोवि मए, P inter. माणेण. 21) P जो को वि कया, J काय for कया. 22) P कए for कओ, P ममं for महं. 23) P कोवि मए, P inter. माणेण. 24) P जो को वि कया, J काय for कया. 25) P जो को वि कया, J काय for कया. 26) P जो को वि कया, J काय for कया. 27) P जो को वि कया, J काय for कया. 28) P जो को वि कया, J काय for कया. 29) P जो को वि कया, J काय for कया. 30) P जो को वि कया, J काय for कया. 31) P जो को वि कया, J काय for कया. 32) P जो को वि कया, J काय for कया. 33) P जो को वि कया, J काय for कया.

- 1 से जाणमजाणं वा रागदोसेहिं अहव मोहेणं । जं दुक्खविया जीवा खमंतु ते मज्झ सव्वे वि ॥ 1  
 खामेसि सव्व-जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे । मेत्ती मे सव्व-भूएसु वेरं मज्झ ण केणइ ॥'
- 3 एवं च कय-सावज्ज-जोग-वोसिरणो कय-पुव्व-दुक्ख-दूमिय-जंतु-खामणा-परो वड्डमाण-सुहज्जवसाय-कंडओ अउव्व- 3  
 करण-पडिवण-खवग-सेदि-परिणामो उप्पण-केवल-णाण-दंसण-धरो अंतगडो कामगहंद-मुणिवरो त्ति ।
- 6 § ४१५ ) एवं च वच्चमाणेसु दिथहेसु वड्डगुत्त-साधू वि णाऊण आउय-कम्मक्खयं दिग्गालोयणो उद्धरिय-भाव- 6  
 सल्लो कय-कायव्वो णिसण्णो संथारए, तत्थ भणिउमाढत्तो । अवि य ।
- 'एस करेमि पणामं जिणवर-त्तिथस्स वारसंगस्स । त्तिथयराणं च णमो णमो णमो सव्व-साधूणं ॥  
 काऊण णमोक्कारं धम्मयारियस्स धम्म-जणयस्स । भावेण पडिक्कमणं एसो काहामि समयम्मि ॥
- 9 कय-सामाइय-कम्मो सोहिय-इरियावहोसमण-चित्तो । इच्छिय-गोयर-चरिओ पणाम-सेजाए णिविण्णो ॥ 9  
 मह मंगलमरहंता सिद्धा साहू य णाण-विणय-धणा । केवलिणा पणत्तो जो धम्मो मंगलं सो मे ॥  
 सरणं मह अरहंता सिद्धा साधू य बंभ-तव-जुत्ता । केवलिणा पणत्तो धम्मो सरणं च ताणं च ॥
- 12 जिणधम्मो मह माया जणओ य गुरू सहोयरो साहू । अह धम्म-परा मह बंधवा य अणणं पुणो जालं ॥ 12  
 किं सारं जिणधम्मो किं सरणं साहुणो जए सयले । किं सोक्खं सम्मत्तं को बंधो णाम मिच्छत्तं ॥  
 अस्संजमम्मि विरओ रागदोसे य बंधणं णिंदे । मण-वयण-काय-डंडे विरओ तिण्हं पि डंडाणं ॥
- 15 गुत्तीहिं तीहिं गुत्तो णीसल्लो तह य तीहिं सल्लेहिं । माया-णिदाण-सल्ले पडिक्कमे तह य मिच्छत्ते ॥ 15  
 इड्डी-गारव-रहिओ सातरसा-गारवे पडिक्कंतो । णाण-विराहण-रहिओ संपुण्णो दंसणे चरणे ॥  
 तह कोह-माण-माया-लोभ-कसायस्स मे पडिक्कंतं । आहार-भय-परिगह-मेहुण-सण्णं परिहरामि ॥
- 18 इत्थि-कह-भत्त-देसे राय-कहा चय मे पडिक्कंता । अट्टं रोहं धम्मं सुक्कज्जाणे पडिक्कमणं ॥ 18  
 सह-रस-रूव-गंधे फासे य पडिक्कमामि काम-गुणे । काइय-अहिगरणादी-पंचहिं किरियाहिं संकप्पे ॥  
 पंच-महव्वय-जुत्तो पंचहिं समिद्धेहिं समियओ अहयं । छज्जीव-णिकायाणं संरक्खण-माणसे जुत्तो ॥
- 21 पडिक्कंतो छल्लेसा-सत्त-भयट्ठाण-वज्जिओ अहयं । पम्हुट्ट-इट्ट-चेट्टो अट्ट-मयट्ठाण-पब्भट्टो ॥ 21  
 णव-बंध-गुत्ति-गुत्तो दस-विह-धम्मम्मि सुट्टु आउत्तो । समणोवासग-पडिमा एगारसयं पडिक्कंतो ॥  
 वारस-भिकख-पडिमा-संजुत्तो तेरसाहिं किरियाहिं । चोइस-भूयग्गामे पडिक्कमे खंडियं जं मे ॥
- 24 परमाहम्मिय-ठाणे पणरसं ते वि मे पडिक्कंते । गाहा-सोलसएहिं पडिक्कमे सोलसेहिं पि ॥ 24  
 अस्संजमम्मि सत्तारसम्मि अट्टारसे य अब्बंमे । एगूणवीस-संखे पडिक्कमे णाम अज्झयणे ॥  
 असमाही-ठाणाणं वीसण्हं एकवीस-सव्वेहिं । वावीस-परीसह-वेयणम्मि एत्थं पडिक्कंतो ॥
- 27 तेवीसं सूयगडे अज्झयणा ताण हं पडिक्कंतो । चउवीसं अरिहंते अस्सइहणे पडिक्कंतो ॥ 27  
 वीसं पंच य सिद्धा समए जा भावणाओ ताणं पि । छव्वीसं दस-कप्पे ववहारा सहहे ते वि ॥  
 अणयारय-कप्पाणं सत्तावीसा य सहहे अहयं । अट्टावीस-विधम्मि आयय-पगप्प-गहणम्मि ॥
- 30 पाव-सुय-पसंगाणं अउणत्तीसाण हं पडिक्कंतो । तीसं च मोहणिज्जे ठाणा णिंदासि ते सव्वे ॥ 30  
 एकत्तोसं च गुणे सिद्धादीणं च सहहे ते वि । वत्तीस-जोग-संगह-पडिक्कमे सव्व-ठाणेसु ॥  
 तेत्तीसाए आसायणाहिं अरहंत-आइगा एगा । अरहंताणं पढमं णिंदे आसायणा जाओ ॥
- 33 सिद्धाणायरियाणं तह य उवज्जाय-सव्व-साहूणं । समणीण सावयाण य साविय-वग्गस्स जा वि कया ॥ 33

1 > P रागदोसेण, P खमंति. 2 > J भूतेसु. 3 > J वोसिरणा P वोसिरिणो, P पुव्वयदुक्खय, J दुमिअ, P जंतुखामणापरो वट्टमाण, P कंडओ. 4 > J सेदी. 5 > P एवं वट्टमाणदियहेसु, P साहू वि, J दिण्णो°. 6 > J संसारए तत्थ. 7 > P साहूणं. 8 > P जणियस्स. 10 > P मंगलमरिहंता, P जं for जो. 11 > P साहू, P inter. सरणं च & ताणं च. 12 > P सहोयरा, P सह for अह, J धम्मयरा, P म for मह. 13 > P जले for जए, P धंमो for बंधो. 14 > J विरतो, P दंडे, P दंडाणं. 15 > P om. तह य, P adds हियय before सल्लेहिं, J णियाण, P मिच्छत्तो. 16 > P संपुण्णदंसणे. 17 > J लोह, P पडिक्कंतो l. 18 > P पडिक्कमणे ॥. 19 > P फासेसु य, P काइह, J अधिगरणाती, P संतप्पो ॥. 20 > J समितीहिं सभित्तो, J संरक्खमाणुसे जत्तो. 21 > JP पडिक्कंतो. 23 > J भिकखप्पडिमा, J भूतग्गामे. 24 > P परमाहम्मियट्ठाणे, J पण्णारस ते, P पडिक्कंतो, P च for पि. 25 > P सत्तरसंमि. 26 > J असमाहिं, J वीसण्हं एकवीस, P एत्थं च्छडिक्कंतो. 27 > J सूतयडे, J अस्सइहणे. 28 > P छव्वीदस, P ववहारो. 29 > J गप्पाणं, J आयरपगप्प, P विहिंमि आचारयकप्पगहणं ॥. 30 > J सुत्त, P अउणत्तीसाण, J मोहणिज्जे ठाणा. 31 > P ट्ठाणेसु. 32 > J आसातणाहिं अरहंत आतिता एता l, P अरिहंत आइगा, P एत्ता, J आसातणा, P साओ for जाओ. 33 > P सिद्धाणायरियाणं, P सव्व साधू य l, P ए for य before सा विय.

- 1 देवाणं देवीणं इह-लोग-परे य साधु-वग्गस्स । लोगस्स य कालस्स य सुयस्स आसायणा जाओ ॥ 1  
सुय-देवयाएँ जा वि य वायण-आयरिय-सव्व-जीवाणं । आसायणाउ रइया जा मे सा णिंदिया एण्हि ॥
- 3 हीणक्खर अच्चक्खर विच्चा-मेलिय तथा य वाइइं । पय-हीण-घोस-हीणं अकाल-सज्जाइयं जं च ॥ सव्वहा, 3  
छउमत्थो मोह-मणो केत्तिय-मेत्तं च संभरे जीवो । जं पि ण सरामि तम्हा मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥  
सम्मत्त-संजमाइं किरिया-कण्णं च वंभचेरं च । आराहेमि सणाणं विवरीए वोसिरामि त्ति ॥ अहवा ।
- 6 जं जिणवरेहिं भणियं मोक्ख-पहे किंचि-साहयं वयणं । आराहेमि तयं चिय मिच्छा-वयणं परिहरामि ॥ 6  
णिगंथं पावयणं सच्चं तच्चं च सासयं कसिणं । सारं गुरु-सुंदरयं कल्लाणं मंगलं सेयं ॥  
पावारि-सल्लगतण-संसुद्धं सिद्ध-सुद्ध-सद्धम्मं । दुक्खारि-सिद्धि-मगं अवितह-णिव्वाण-मगं च ॥
- 9 एत्थं च ठिया जीवा सिज्झंति वि कम्मणा विमुच्चंति । पालेमि इमं तम्हा फासेमि य सुद्ध-भावेण ॥ 9  
सम्मत्त-गुत्ति-जुत्तो विलुत्त-मिच्छत्त-अप्पमत्तो य । पंच-समिद्धिंहिं समिओ समणो हं संजवो एण्हि ॥  
कायव्वाइं जाइं भणियाइं जिणेहिं मोक्ख-मगग्गिम् । जइ तह ताइं ण तइया कयाइं ताइं पडिक्कमे तेण ॥
- 12 पडिसिद्धाइं जाइं जिणेहिं एयम्मि मोक्ख-मगग्गिम् । जइ मे ताइं कयाइं पडिक्कमे ता इहं सव्वे ॥ 12  
दिट्ठं-हेउ-जुत्तं तेहिं विउत्तं च सद्धेयव्वं । जइ किंचि ण सद्धियं ता मिच्छा दुक्कडं तत्थ ॥  
जे जइ भणिए अत्थे जिण्णिदयं देहिं समिय-पावेहिं । विवरीए जइ भणिए मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥
- 15 उस्सुत्तो उम्मगो ओक्कपो जो कओ य अइयारो । तं णिंदण-गरहाहिं सुज्झउ आलोयणेणं च ॥ 15  
आलोयणाए अरिहा जे दोसा ते इहं समालोए । सुज्झंति पडिक्कमणे दोसाओ पडिक्कमे ताइं ॥  
उमएण वि अइयारा केइ विसुज्झंति ताइं सोहेमि । पारिट्ठावणिणं अह सुद्धी तं चिय करेमि ॥
- 18 काउस्सग्गेण अहो अइयारा केइ जे विसुज्झंति । अहवा तवेण अण्णे करेमि अब्भुट्ठिओ तं पि ॥ 18  
छेदेण वि सुज्झंती मूलेण वि के वि ते पवण्णे हं । अणवट्ठावण-जोग्गे पडिक्कणो जे वि पारंची ॥  
दस-विह-पायच्छित्ते जे जइ-जोग्गा कमेण ते सव्वे । सुज्झंतु मज्झ संपइ भावेण पडिक्कमंतस्स ॥'
- 21 एवं च आलोइय-पडिक्कंतो विसुज्झमाण-लेसो अउव्वकरणावण्णो खवग-सेटीए समुप्पण-णाण-दंसणो वीरिय-अंतराय- 21  
आउक्खीणो अंतगडो वहरगुत्त-मुणिवरो त्ति ।

§ ४१६ ) एवं च सयंभुदेव-महारिसी वि जाणिऊण णिय-आउय-परिमाणं कय-दव्वं-भावोभय-संलेहणो कय-कायव्व-

- 24 वावारो य णिसण्णो संथारए, भणिडं च समाढत्तो । अवि य । 24  
णमिऊण सव्व-सिद्धे णिद्धूय-रए पसंत-सव्व-भए । वोच्छं मरण-विभत्तिं पंडिय-वालं समासेणं ॥  
णाऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणेण णवरि मरियव्वं । बालं संसार-फलं पंडिय-मरणं च णेव्वाणं ॥
- 27 को बालो किं मरणं बालो णामेण राग-दोसत्तो । दोहिं चिय आगलिओ जं वद्धो तेण बालो त्ति ॥ 27  
मरणं पाणच्चाओ पाणा ऊसासमाइया भणिया । ताणं चाओ मरणं सुण एण्हि तं कहिजंतं ॥  
कललावत्थासु मओ अवत्त-भावे वि कत्थइ विलीणो । गलिओ पेसी-समए गव्वे बहुयाण णारीणं ॥
- 30 पिंडी-मेत्तो कत्थइ गलिओ खारेण गव्व-वासाओ । अट्ठिय-बंधे वि मओ अणट्ठि-बंधे वि गलिओ हं ॥ 30  
खर-खार-मूल-डड्डो पंसुलि-समणी-कुमारि-रंडाणं । गलिओ लोहिय-चाहो बहुसो हं णवर संसारे ॥  
कत्थइ भएण गलिओ कत्थइ आयास-खेय-वियणत्तो । कत्थइ जण्णीएँ कहं फालिय-पोट्टाए गय-चित्तो ॥

1 > J लोअ for लोग, P परेसु साधु धम्मस्स । लोयस्स, J सुतस्स आसातणा जातु ॥ 2 > J सुतदेवताय जा वि वायण, P ण  
for वायण, J आसातणाउ. 3 > P अच्चक्खरा, P तथाय आइइं, J पतहीण, P चय for जं च. 4 > J छउमत्थो, P संभरए  
जीवो, P जं न सुमरामि तम्हा. 5 > P संजमादी, P सणाणं for सणाणं. 6 > P साहियं, P तहिं चिय. 7 > J सारं P सावियं  
for सासयं. 8 > P सल्लगूण, J संसुद्धं, P दुक्खाहिसुद्धिमगं, J णेव्वाण-. 9 > J यिता for ठिया, J om. वि, P विसुंघंति । पालोमि-  
10 > J -जुत्तिगुत्तो, J प समितीहिं, J मित्तो for समिओ. 11 > P जिणेह, P inter. तइया & न (for ण), J ताहिं for  
ताइं (emended), P om. ताइं. 12 > J पडिक्कडं, P पडिमे ता, J अइं for इहं. 13 > P तस्स for तत्थ. 14 > J  
समित, P ते तहा भणसु for समियपावेहिं. 15 > P उम्मगो अक्कपो, P -गरिहाहिं. 16 > J ता for ते. 17 > J अविआण के  
वि. 18 > J वहो for अहो, J केवि जे, P ने for जे, J अब्भुट्ठित्ते, P तं वि ॥ 19 > J छेदेण, J वि को वि तं, P जोगे, P  
व for वि. 20 > J जो for जे. 21 > J -लेसो, P करणवणो खयगसेटीए उपपन्नान, J वीरिअंतराय. 23 > P om. च,  
P महारिसी, P आउयपरमाणं, P संलेहणा. 25 > P मरणविहितं. 26 > J णवर for णवरि. 27 > J -गोसत्तो P दोसत्तं, J  
आगणिओ. 28 > J ऊसासमाइया P ओसासमाइया, P ताण च्चाओ. 29 > P कललावत्थासु, J अम्मुत्तभावे. 30 > P पिंडो  
मित्तो, P अणिट्ठबंध वि. 31 > P खीमूलडड्डो पंसुणि. 32 > P आयास, J -भेअविदगत्तो ।



- 1 कथइ दर-गीहरिओ जगणी-जोणीएँ हं मुओ बहुसो । कथइ गीहरिओ च्चिय गुरु-वियणा-वेंभलो गलिओ ॥ 1  
कथइ जगणीएँ अहं ठइय-मुहो थण-मुहेण वहिओ हं । कथइ पक्खित्तो च्चिय सव-सयणे जीवमाणो वि ॥
- 3 जायावहारिणीए कथइ हरिओ मि छट्ट-दियहम्मि । कथइ बलि च्चिय कओ जोइणि-समयम्मि जगणीए ॥ 3  
कथइ पूयण-नाहिओ कथइ सउणी-गहेण गहिओ हं । कथइ बिडाल-नाहिओ हओ मि बालगगह-गहेण ॥  
कथइ खासेण मओ कथइ सोसेण सोसिय-सरीरो । कथइ जरेण वहिओ कथइ उयरेण भग्गो हं ॥
- 6 कथइ कुट्टेण अहं सडिओ सव्वेसु चेय अंगेसु । कथइ भगंदरेणं दारिय-देहो गओ णिहणं ॥ 6  
दंत-वियणाएँ कथइ कथइ णिहओ मि कण्ण-सूलेण । अच्छी-दुक्खेण पुणो सिर-वियणाएँ गओ णासं ॥  
कथइ रहिर-पवाहेण णवर णित्थामयं गयं जीयं । कथइ पुरीस-वाहो ण संठिओ जाव वोलीणो ॥
- 9 कथइ लूयाए हओ कथइ फोडीए कह वि णिहओ हं । कथइ मारीएँ पुणो कथइ पडिमाय-उक्कामे ॥ 9  
कथइ विफोडेहिं कथ वि सूलेण णवर पोट्टस्स । कथ वि वज्जेण हओ कथ वि पडिओ मि टंकरस्स ॥  
कथइ सूलाखुओ कथइ उब्बद्धिज्जण वहिओ हं । कथइ कारिसि-सेवा कथइ मे गुग्गुलं धरियं ॥
- 12 कथइ जलग-पविट्टो कथइ सलिलम्मि आगया मच्चू । कथइ गएण मलिओ कथइ सीहेण गिलिओ हं ॥ 12  
कथइ तण्हाए मओ कथइ सुको बुभुक्ख-वियणाए । कथइ सावय-खइओ कथइ सपेण डको हं ॥  
कथइ चोर-विलुत्तो कथइ भुत्तो भिह संगिवाएण । कथइ संभेण पुणो कथइ हो वाय-पित्तेहिं ॥
- 15 कथइ इट्ट-विओए संपत्तीए अणिट्ट-लोगस्स । कथइ सज्जस-भरिओ उब्बाओ कथ वि मओ हं ॥ 15  
कथ वि चक्केण हओ भिण्णो कौत्तेण लउड-पहराहिं । छिण्णो खग्गेण मओ कथइ सेलेण भिण्णो हं ॥  
कथइ असिधेणूए कथ वि मंतेहि णवरि णिहओ हं । कथइ वच्च-णिरोहे कथइ य अजिण्ण-दोसेण ॥
- 18 कथइ सीएण मओ कथइ उण्हेण सोसिओ अहयं । अरईय कथइ मओ कथइ रोहेण सोत्ताणं ॥ 18  
कथइ कुंभी-पाए कथइ करवत्त-फालिओ णिहओ । कथइ कडाह-डडो कथइ कत्ती-समुक्कतो ॥  
कथइ जलयर-गिलिओ कथइ पक्खी-विलुत्त-सव्वंगो । कथइ अवरोप्परयं कथ वि जंतम्मि छूओ हं ॥
- 21 कथ वि सच्चूहिं हओ कथ वि कस-घाय-जजरो पडिओ । साहस-बलेण कथ वि मच्चू विस-भक्खणेणं च ॥ 21  
मणुयत्तणम्मि एवं बहुसो एकेकयं मए पत्तं । तिरियत्तणम्मि एण्हिं साहिजंतं णिसामेसु ॥  
रे जीव तुमं भणिमो कायर मा जूर मरण-कालम्मि । चित्तिसु इमाइँ खणं हियएणाणंत-मरणाइँ ॥
- 24 जइया रे पुढवि-जिओ आसि तुमं खणण-खारमादीहिं । अवरोप्पर-सत्थेहि य अब्बो कह मारणं पत्तो ॥ 24  
किर जिणवरेहिं भणियं दप्पिय-पुरिसेण आहओ थेरो । जा तस्स होइ वियणा पुढवि-जियाणं तहकंते ॥  
रे जीय जल-जियत्ते बहुसो पीओ सि खोहिओ सुको । अवरोप्पर-सत्थेहिं सीउण्हेहिं च सोसविओ ॥
- 27 अगणि-जियत्ते बहुसो जल-धूलि-कलिंच-वरिस-णिवहेणं । रे रे दुक्खं पत्तं तं भरमाणो सहसु एण्हिं ॥ 27  
सीउण्ह-खलण-दुक्खे अवरोप्पर-संगमे य जं दुक्खं । वाउक्काय-जियत्ते तं भरमाणो सहसु एण्हिं ॥  
छेयण-फालण-डाहण-मुसुमूरण-भंजणेण जं मरणं । वण-कायमुवगएणं तं बहुसो विसहियं जीव ॥
- 30 तस-कायत्ते बहुसो खइओ जीवेण जीवमाणो हं । अकंतो पाएहिं मओ उ सीउण्ह-दुक्खेण ॥ 30  
सेल्लेहिं हओ बहुसो सूयर-भावम्मि तं मओ रण्णे । हरिणत्तणे वि णिहओ खुरप्प-सर-भिण्ण-पोट्टिल्लो ॥  
सिंघेण पुणो खइओ मुसुमूरिय-संधि-बंधणावयवो । एयाइँ चित्तयंतो विसहसु वियणाओ पउराओ ॥

1 > J जगणीए हं, J गुरुवेअण, P -विबभलो. 2 > J सयणो. 4 > P सउणिगहेण, P विरालि for बिडाल, P om. हओ.  
5 > P कथइ रोसेण गओ. 7 > P सिरिवियणओ. 8 > P मयं for गयं, J कथ पुरिसवाहो ण ट्टिओ ता जाव, P -वाहेण. 9 >  
P कथ वि, J कथइ होडीए, P वि नीओ हं, P om. seven lines कथइ मारीए पुणो etc. to गिलिओहं ॥. 13 > P गओ for  
मओ after तण्हाए. 14 > P कथ वि in both places, J भुत्तो मि, P संभेण, J हो वाउ. 15 > J लोअस्स, J तत्थइ for  
कथइ, P adds त्यवि before मओ. 16 > P सेलेण, P मंतेहि नवर, P वच्चनिरोहो. 18 > P कथइ उहेण, J अरतीय, P  
वरइय अत्थइ मओ. 19 > P कथइ कीडेहिं डको कथइ सत्थी सत्ती समूकंतो । 20 > P कत्थी पक्खी, J पक्खीहिं लुत्त, P कथ-  
वि अवरो, J जंतम्मि छूओ हं. 21 > J सामसवलेण P सामवलेणं. 22 > P मय्य मत्तं, P साहिपत्तं. 23 > P इ for इमाइँ,  
P हियइ एमाणंत. 24 > J पुढइ, P खणेण खारमादीह, J खारमादीहिं, P सत्थेहिं अब्बो. 25 > P जिणवरेण, P -पुरिसेहिं, J  
थेरो for थेरो, P होति विवगा, P पुव्व for पुढवि, P तहा कंतो. 26 > P जलजियंतो, P खाहिओ, J सीउण्हेहिं. 27 > J  
अगणिजियत्ते, P -निवहेहिं, P पत्तो संभरं. 28 > J सीउण्हखणण, P खखलेण, P adds प्पर before संगमे, P वाउयक्काय, J  
जिंभंते, P सं for तं. 29 > J डाहे, P दाहण, J विसाहिअं जिअ. 30 > J तस्स कायत्ते, P कायत्तो, J खइओ जीएण, P णु for  
ड. 31 > P अण्णेहिं for सेल्लेहिं, J हरिणत्तणे, P सिर for सर, J पोक्किल्लो. 32 > P om. विसहसु, P घोरओ for पउराओ.

- 1 तित्तिर-कवोय-सउणत्तणम्मि तह ससय-मोर-पसु-भावे । पासत्थं चिय मरणं बहुसो पत्तं तए जीय ॥ 1  
पारद्विएण पहओ णट्ठो सर-सल्ल-वेयणायल्लो । ण य तं मओ ण जीओ मुच्छा-मोहं उवगओ सि ॥
- 3 दट्ठण पदीव-सिहं किर एयं णिम्मलं महारयणं । गेण्हामि त्ति सयणहं पयंग-भावम्मि डट्ठो सि ॥ 3  
वड्डिसेण मच्छ-भावे गीएण मयत्तणे चिवण्णो सि । गंधेण महुरयत्ते बहुसो रे पावियं मरणं ॥  
§ ४१७ ) किं वा बहुएण भणिएणं ।
- 6 जाइं जाइं जाओ अणंतसो एकमेक-भेयाए । तत्थ य तत्थ मओ हं अओ वालेण मरणेण ॥ 6  
णरयम्मि जीव तुमए णाणा-दुक्खाइं जाइं सहियाइं । एण्ह ताइं सरंतो विसहेज्जसु वेयणं एयं ॥  
करवत्त-कुंभि-रुक्खा-संबलि-वेयरणि-वालुया-पुलिणं । जइ सुमरसि एयाइं विसहेज्जसु वेयणं एयं ॥
- 9 तेत्तीस-सागराइं णरए जा वेयणा सहिज्जंति । ता कीस खणं एकं विसहामि ण वेयणं एयं ॥ 9  
देवत्तणम्मि बहुसो रणंत-रसणाओ गुरु-णियंवाओ । मुक्काओ जुवईओ मा रज्जसु असुइ-णारीसु ॥  
वज्जिद-णील-मरगय-समप्पभं सासयं वरं भवणं । मुक्कं सग्गम्मि तए वोसिर जर-कडणि-कयमेयं ॥
- 12 णाणा-मणि-मोत्तिय-संकुलाओ आवद्ध-इंद-धणुयाओ । रयणाणं रासीओ मोत्तुं मा रज्ज विहवेसु ॥ 12  
ते के वि देवदूसे देवंगे दिव्व-भोग-फरिसिल्ले । मोत्तण तुमं तइया संपइ मा सुमर कंथडए ॥  
वर-रयण-णिम्मियं पिव कणय-मयं कुसुम-रेणु-सोमालं । चट्ठज्जण तत्थ देहं कुण जर-देहम्मि मा मुच्छं ॥
- 15 मा तेसु कुण णियाणं सग्गे किर एरिसीओ रिद्धीओ । मा चित्तेहिसि सुवुरिस होइ सयं चेव जं जोगं ॥ 15  
देहं असुइ-सगव्भं भरियं पुण मुत्त-पित्त-रुहारेण । रे जीव इमस्स तुमं मा उवरिं कुणसु अणुबंधं ॥  
पुण्णं पावं च दुवे वच्चंति जिण्ण णवर सह एए । जं पुण इमं सरिरं कत्तो तं चलइ ठाणाओ ॥
- 18 मा मह सीयं होहिइ ठइओ विविहेहिं वत्थ-पोत्तेहिं । वच्चंते उण जीए खलस्स कण्णं पि णो सिण्णं ॥ 18  
मा मह उण्हं होहिइ इमस्स देहस्स छत्तयं धरियं । तं जीव-गमण-समए खलस्स सव्वं पि पम्हुट्ठं ॥  
मा मह छुहा भवीहिइ इमस्स देहस्स संबलं वूढं । तं जीव-गमण-काले कह व कयग्घेण णो भरियं ॥
- 21 मा मे तण्हा होहिइ मरुत्थलीसुं पि पाणियं वूढं । तेण चिय देह तुमं खल-गहिओ किं ण सुकएण ॥ 21  
तह लालियस्स तह पालियस्स तह गंध-मल्ल-सुरहिसि । खल देह तुज्ज जुत्तं पयं पि णो देसि गंतव्वे ॥  
अओ जणस्स मोहो धम्मं मोत्तूण गमण-सुसहायं । देहस्स कुणइ पेच्छसु तदियहं सव्व-कज्जाइं ॥
- 24 णत्थि पुहईए अण्णो अविसेसो जारिसो इमो जीवो । देहस्स कुणइ एकं धम्मस्स ण गेण्हए णामं ॥ 24  
धम्मणे होइ सुगई देहो वि विलोट्टए मरण-काले । तह वि कयग्घो जीवो देहस्स सुहईं चित्तेइ ॥  
छारस्स होइ पुंजो अहवा किमियाण सिलिसिलेंताण । सुक्खइ रवि-किरणेहिं वि होहिइ पूयस्स व पवाहो ॥
- 27 भत्तं व सउणयाणं भक्खं वासाण कोल्लुयाईणं । होहिइ पत्थर-सरिसं अओ सुक्कं व कट्ठं वा ॥ 27  
ता एरिसेण संपइ असार-देहेण जइ तवो होइ । लद्धं जं लहियव्वं मा मुच्छं कुणसु देहम्मि ॥ अवि य,  
देहेण कुणह धम्मं अंतम्मि विलोट्टए पुणो एयं । फग्गुण-मासं खेह्ण परसंते णेय पिट्ठे य ॥
- 30 ताविज्जउ कुणह तवं भिण्णं देहाओ पुगलं देहं । कट्ठ-जलंतिगाले परहत्थेणेय तं जीव ॥ 30  
देहेण कुणह धम्मं अंतम्मि विलोट्टए पुणो एयं । उट्ठस्स पामियंगस्स वाहियं जं तयं लद्धं ॥  
पोगाल-मइयं कम्मं इममउ देहेण पोगाल-मएण । रे जीव कुणसु एयं विहं विह्णेण फोडेसु ॥

1) J कपोत, P कवोतसउणवरंमि तह, P मासत्थं for पासत्थं, J जाअं P जीव. 3) J पईवसिहं, P त्ति यणं, P दट्ठो सि.  
4) P पड्डिसेण for वड्डिसेण, P मयत्तणे, P महुरयत्ते, P महुरयत्ते, J ए for रे, P पाविओ मरणं. 5) J बहुभणिएण. 6) P  
जाओ for the first जाइं, P om. जाओ, P एकमेकदाए. 7) P नरणंमि भरंतो, J वेसहेज्जदु. 8) P om. the verse करवत्त  
etc. to वेयणं एयं ॥ 9) J तेत्तीसं सगराइं. 10) J रसणा गुरु, P मारेज्जसु. 11) P मरमयसमप्पयं, P om. जर, P  
कडकयनिकयमेयं. 12) P धनुया । णाणं रासीओ, P मारेज्ज. 13) P दिव्वंगे, P फारिसिल्लो, P कंथण, 14) J मोत्तुं मा  
15) P सपुरिस, J चेय. 16) P सगव्भंतरियं, P रुहिराण, P कुमणसु. 16) P वच्चति, P एते, P ट्ठान्णो. 18) P  
महं सीहं होही, P कण्णं पि ना भिहं ॥ 19) P देह छत्तयं. 20) P भवीइइ, P संबलं वूढं. 21) J वेयं चिय, P मय  
for खल. 22) P एयं for पयं. 24) P पुहवीए अण्णो, P देह कुणइ कम्मं धम्मस्स. 25) P मग्गो. 26) P सुमर,  
P वा for वि, J होहिति पुत्तिस व, P पूयस्स वाहो ॥ 27) J कोल्लुआतीग । होहिति. 28) P तओ ओर, P कयं सु मा  
मुच्छंति कुणसु. 29) J खेह्ण, P परसंते, P परिसंवेणाय पिट्ठेणं. 30) J कत्थमुत्तयतिगायो पर परं P मग्गुणं मारे  
परहत्थेणाय. 31) P वाहितं. 32) P इमं उ, P जीव कुण एयं, P फोडेडेसु.

- 1 अवस-वसएहिं देहो मोत्तव्वो ता वरं सवसएहिं । जो हसिर-रोइरीए वि पाहुणो ता वरं हसिरी ॥ 1
- इय जीव तुमं भण्णसि णिसुणेंतो मा करे गय-णिमीलं । देहस्स उवरि मुच्छं णिब्बुद्धिय मा करेज्जासु ॥
- 3 § ४१८ ) किं च रे जीव तए चित्तीयं । अवि य । 3
- सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि एत्थ रे जीव । जो जो तए ण खइओ सो वि हु तुमए भमंतेण ॥
- सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि तुह भमंतस्स । ण य आसि कोइ बंधू तुह जीव ण जस्स तं बहुसो ॥
- 6 सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि सुणसु ता जीव । जो णासि तुज्झ मित्तं सत्तु वा तुज्झ जो णासि ॥ 6
- जे पेच्छसि धरणिहरे धरणि व्व वणं णई-तलाए वा । ते जाण मए सव्वे सय-हुत्तं भक्खिया आसि ॥
- जं जं पेच्छसि एयं पोग्गल-रूवं जयम्मि हो जीव । तं तं तुमए भुत्तं अणंतसो तं च एएण ॥
- 9 तं णत्थि किं पि ठाणं चोइस-रज्जुम्मि एत्थ लोयम्मि । जत्थ ण जाओ ण मओ अणंतसो सुणसु रे जीव ॥ 9
- गोसे मज्झणहे वा पओस-कालम्मि अह व राईए । सो णत्थि कोइ कालो जाओ य मओ य णो जम्मि ॥
- जाओ जलम्मि णिहओ थलम्मि थल-वद्धिओ जले णिहओ । ते णत्थि जल-थले वा जाओ य मओ य णो जत्थ ॥
- 12 जाओ धरणीए तुमं णिहओ गयणम्मि णिवडिओ धरणिं । गयण-धरणीण मज्जे जाओ य मओ य तं जीय ॥ 12
- जीवम्मि तुमं जाओ णिहओ जीवेण पाडिओ जीवे । जीवेण य जीवंतो जीयत्ये लुप्पसे जीय ॥
- जीवेण य तं जाओ जीवावियओ य जीव जीवेणं । संवद्धिओ जिणं जीवेहि य मारिओ बहुसो ॥
- 15 ता जत्थ जत्थ जाओ सच्चित्ताचित्त-मीस-जोणीसु । ता तत्थ तत्थ मरणं तुमए रे पावियं जीव ॥ 15
- मरणाइं अणंताइं तुमए पत्ताइं जाइं रे जीव । सव्वाइं ताइं जाणसु अयणु अहो बाल-मरणाइं ॥
- किं तं पंडिय-मरणं पंडिय-बुद्धि त्ति तीय जो जुत्तो । सो पंडिओ त्ति भण्णइ तस्स हु मरणं इमं होइ ॥
- 18 पायव-मरणं एकं इंगिणि-मरणं लांड-मरणं च । संथारयम्मि मरणं सव्वाइ मि णियम-जुत्ताइं ॥ 18
- छज्जीव-णिकायाणं रक्खा-परमं तु होइ जं मरणं । तं चिय पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं तु ॥
- आलोइयम्मि मरणं जं होइइ पंडियं तयं भणियं । होइ पडिक्कमणेण य विवरीयं जाण बालं त्ति ॥
- 21 दंसण-णाण-चरित्ते आराहेउं हवेज्ज जं मरणं । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं त्ति ॥ 21
- तिथ्यराइ-पणामे जिण-वयणेणावि वट्टमाणस्स । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं होइ बालस्स ॥
- किं वा बहुणा एत्थं पंडिय-मरणेण सग-मोक्खाइं । बाल-मरणेण एसो संसारो सासओ होइ ॥
- 24 § ४१९ ) एयं णाऊण तुमं रे जीव सुहाइं णवर पत्थेंतो । चइऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥ 24
- इट्ट-विओओ गरुओ अणिट्ट-संपत्ति-वयण-दुक्खाइं । एमाइं संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥
- छेयण-भेयण-ताडण-अवरोप्पर-घायणाइं णरएसु । एयाइं संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥
- 27 णत्थि ण वाहण-बंधण-अवरोप्पर-भक्खणाइं तिरिएसु । एयाइं संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥ 27
- जाइ-जरा-मरणाइं रोगायंकेण णवर मणुएसु । जइ सुमरसि एयाइं पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥
- रे जीव तुमे दिट्ठो अणुभूओ जो सुओ य संसारे । बाल-मरणेहिं एसो पंडिय-मरणं मरसु तम्हा ॥
- 30 भणियं च । 30
- एकं पंडिय-मरणं छिंदइ जाइ-सयाइं बहुयाइं । तं मरणं मरियव्वं जेण सुओ सुम्मओ होइ ॥
- सो सुम्मओ त्ति भण्णइ जो ण मरीहिइ पुणो वि संसारे । णिड्डु-सव्व-कम्मो सो सिद्धो जइ परं मोक्खो ॥

1) J अवसवसेहं, P मोत्तव्वं, P हुणो for पाहुणो, P हसिए त्ति ॥ 2) P निसुणंतो, J उवरि. 3) J जीअ तए, P चित्तीयं. 4) J एत्थ ए जीअ, P जो सो तेण न, P भवंतेण. 5) P repeats सो, P णह आसि, J जीअ. 6) J जीअ, P जा for जो. 7) J जो for जे, P व्व वरणं नती तलाए, P सयउत्तं. 8) J जीअ, P भुत्तुं, P च तेएण. 9) P तं किं चि नत्थि ट्ठणं, P रज्जुम्मि, J सुणसु ए जीअ. 10) P रातीय, P कोलो for कोइ कालो. 11) P जोओ for जाओ, P repeats थलंमि, P व्व for च in both places. 12) P निहओ मयणंमि, P तं जीवं. 13) P जीवेण तुमं, P जीवो, P जीयत्ये लुप्पसे जीव. 14) J जीवावियो, P तं वद्धिओ, P मारिसो. 15) J सच्चित्तां, P सच्चित्ताचिमीसं, J जीअं ॥ 16) J मित्तमए for तुमए, P पुत्ताइं जाइं, P अयाणु ता बालं. 17) J पंडा बुद्धि, P भणइ, P सुहं for इमं. 18) J पायवमरणे, P वि for मि. 19) P रक्खा. 20) J तिजं for तयं, P वि for य, P बाल त्ति ॥ 21) P चरित्ताण हेउं, J तं for जं, P om. three lines तं हो पंडिय etc. to होइ बालस्स. 22) J तिथ्यराति-. 23) P तं चिय for किं वा बहुणा एत्थं, J मोक्खाती P मोक्खाइं. 24) P नाडण, P पत्थेंतो. 25) P अट्ट for इट्ट, P संभरंतो, P मर for मरसु, P om. एण्हि. 26) J तावण, P संभरंतो पट्ठि ॥ 27) P नत्थ ण, P भक्खाइं, P संभरंतो पं ॥ 28) P जाइं, J रोगायंकेण, P सुमरएसु एयाइं पं ॥ 29) J जीअ, J अणुभूओ, J संसारो. 31) J जाइं P जाती, P जेण मओ, J सुमओ, P repeats सुम्मओ. 32) J सुम्मतो P सुम्मओ, J जेण मरणेण for जो ण, J मरीहिइ P मरिहीति, P निड्डु-, P मोक्खे.

- 1 गत्थि मरणस्स णासो तित्थयराणं पि अहव इंदाणं । तम्हा अवस्स मरणे पंडिय-मरणं मरसु एक्कं ॥ 1
- जइ मरणेहिं ण कज्जं खिण्णो मरणेण चयसि मरणाइं । ता मरण-दुक्ख-भीरुय पंडिय-मरणं मरसु एक्कं ॥
- 3 अह इच्छसि मरणाइं मरणेहि य गत्थि तुज्झ णिव्वेओ । ता अच्छसु वीसत्थो जम्मण-मरणारहट्टम्मि ॥ 3
- इय वाल-पंडियाणं मरणं णाऊण भावओ एण्हि । एसो पंडिय-मरणं पडिवण्णो भव-सउत्तारं ॥
- ति भणमाणस्स सयंभुदेवस्स महारिसिणो अउव्वकरणं खवग-सेढीए अणंतरं केवल-वर-णाण-दंसणं समुप्पण्णं, समयं च
- 6 आउय-कम्मक्खओ, तेण अंतगडो सयंभुदेव-महारिसि त्ति । 7
- § ४२० ) एवं च वच्चंतेसु दिवहेसु महारह-साधू वि णाऊण थोव-सेसं आउयं दिण्ण-गुर्यणालोयणो पडिकंत-  
सव्व-पावट्टाणो संलेहणा-संलिहियंगो सव्वहा कय-सव्व-कायव्वो उवविट्ठो संथारए । तत्थ य णमोक्कार-परमो अच्छिउं  
9 पयत्तो । अवि य । 9
- एस करेमि पणामं अरहंताणं विसुद्ध-कम्माणं । सव्वातिसय-समग्गा अरहंता मंगलं मज्झ ॥  
उसभाइए सव्वे चउवीसं जिणवरे णमंसामि । होहिंति जे वि संपइ ताणं पि कओ णमोक्कारो ॥
- 12 ओसप्पिणि तह अत्रसप्पिणीसु सव्वासु जे समुप्पण्णा । तीताणागय-भूया सव्वे वंदामि अरहंते ॥ 12
- भरहे अवर-विदेहे पुव्व-विदेहे य तह य एरवए । पणमामि पुक्खरद्धे धायइ-संडे य अरहंते ॥  
अच्छंति जे वि अज्ज वि णर-तिरिए देव-णरय-जोणीसु । एणाण्येय-भवेसु य भविए वंदामि तित्थयरे ॥
- 15 तित्थयर-णाम-नोत्तं वेण्ंते वद्धमाण-वद्धे य । वंधिसु जे वि जीवा अज्जं चिय ते वि वंदामि ॥ 15
- विहरंति जे मुणिंदा छउमत्था अहव जे गिहत्था वा । उप्पण्ण-णाण-रयणा सव्वे तिविहेण वंदामि ॥  
जे संपइ परिसत्था अहवा जे समवसरण-मज्झत्था । देवच्छंद-गया वा जे वा विहरंति धरणियले ॥
- 18 साहेंति जे वि धम्मं जे व ण साहेंति छिण्ण-मय-मोहा । वंदामि ते वि सव्वे तित्थयरे मोक्ख-मग्गस्स ॥ 18
- तित्थयरीओ तित्थंकरे य सामे य कसिण-गोरे य । मुत्ताहल-पउमाभे सव्वे तिविहेण वंदामि ॥  
उज्झिय-रज्जे अहवा कुमारए दार-संगह-सणाहे । सावच्चे णिरवच्चे सव्वे तिविहेण वंदामि ॥
- 21 भव्वाण भव-समुद्धे णिवुड्डुमाणाण तरण-कज्जम्मि । तित्थं जेहिं कयमिणं तित्थयराणं णमो ताणं ॥ 21
- तित्थयराण पणामो जीवं तारेइ दुक्ख-जलहीओ । तम्हा पणमह सव्वायरेण ते चेय तित्थयरे ॥  
लोय-गुरूणं ताणं तित्थयराणं च सव्व-दरिसीणं । सव्वण्णूणं एयं णमो णमो सव्व-भावेणं ॥
- 24 अरहंत-णमोक्कारो जइ कीरइ भावओ इह जणेणं । ता होइ सिद्धि-मग्गो भवे भवे बोहि-लाभाए ॥ 24
- अरहंत-णमोक्कारो तम्हा चित्तेमि सव्व-भावेण । दुक्ख-सहस्स-विमोक्खं अह मोक्खं जेण पावेमि ॥  
§ ४२१ ) सिद्धाण णमोक्कारो करेसु भावेण कम्म-सुद्धाण । भव-सय-सहस्स-वद्धं धंतं कम्मिधणं जेहिं ॥
- 27 सिज्झंति जे वि संपइ सिद्धा सिज्झंसु कम्म-खइयाए । ताणं सव्वाण णमो तिविहेणं करण-जोएण ॥ 27
- जे केइ तित्थ-सिद्धा अतित्थ-सिद्धा च एक्क-सिद्धा वा । अहवा अणेग-सिद्धा ते सव्वे भावओ वंदे ॥  
जे वि सलिंगे सिद्धा गिहि-लिंगे कह वि जे कुलिंगे वा । तित्थयर-सिद्ध-सिद्धा सामण्णा जे वि ते वंदे ॥
- 30 इत्थी-लिंगे सिद्धा पुरिसेण णपुंसएण जे सिद्धा । पच्चेय-बुद्ध-सिद्धा बुद्ध-सयंबुद्ध-सिद्धा य ॥ 30
- जे वि णिसण्णा सिद्धा अहव णिवण्णा ठिया व उस्सग्गे । उत्ताणय-पासेल्ला सव्वे वंदामि तिविहेण ॥  
णिसि-दियस-पदोसे वा सिद्धा मज्झण्ह-गोस-काले वा । काल-विवक्खा सिद्धा सव्वे वंदामि भावेण ॥

1 > P एक्के. 2 > J भीरु, P adds य after भीरुय. 3 > P तो for ता. 4 > J भावतो, J सयुत्तारं. 5 > J om.  
ति, P अणंतकेवल. 6 > J कम्मक्खयो P कंमक्खओ. 7 > J om. च, P साहुणा नाऊण, J थोअ-, J गुरुअणालोअणो P गुरुआलोअणो.  
8 > J om. सव्व. 10 > P अरिहंतणं. 11 > JP उसभातीए, P सव्वो 12 > P ओसप्पिणी तह, P समुप्पण्णो,  
J °णागतभूतां. 13 > P om. पुव्वविदेहे, P पुव्वरद्धे, J धातइसण्डे. 14 > P एयाण्येयभवंतरभविए. 15 > J वेण्ंते P वेयंतो, J  
वद्धिसु. 16 > P adds वि before मुणिंदा, J छतुमत्था, P जो for जे. 17 > P जो for जे J गता, P om. धरणि.  
18 > P सोहेंति, J वि for व, P om. वि. 19 > P मुत्ताफउ, P वंदिमि. 20 > P om. सव्वे, P वंदिमि. 21 > J  
णिवुड्डुमाणाण, P मरण for तरण. 23 > P ताणं for एयं, P om. one णमो. 24 > J भावतो, P तो for ता. 25 >  
P चित्तेण for चित्तेमि. 26 > P करेसु P कंमसुव्वाण, P वद्धं for धंतं. 27 > P om. संपइ, P सिद्धिमु, J सयनाए. 28 > J  
भावतो. 29 > P om. कह वि जे कुलिंगे. 30 > J पुंसए for णपुंसएण, J om. जे, P जि, P पत्तय बुद्धसयंबुद्ध, J °मुद्धिसिद्धा  
J सयंबुद्धि. 31 > J अहवि णिविण्ण, P ठिया, J ऊत्तग्गे. 32 > दिवस, J पतोसे, P गोसकालंमि ।

- 1 जोव्वण-सिद्धा बाला थेरा तह मज्झिमा यं जे सिद्धा । दीवण्ण-दीव-सिद्धा सव्वे तिविहेण वंदामि ॥ .1  
 दिव्वावहार-सिद्धा समुद्द-सिद्धा गिरीसु जे सिद्धा । जे केइ भाव-सिद्धा सव्वे तिविहेण वंदामि ॥  
 3 जे जत्थ केइ सिद्धा काले खेत्ते यं दव्व-भावे वा । ते सव्वे वंदे हं सिद्धे तिविहेण करणेण ॥ 3  
 सिद्धाण णमोक्कारो जइ लब्भइ आगए मरण-काले । ता होइ सुगइ-मग्गो अण्णो सिद्धिं पि पावेइ ॥  
 सिद्धाण णमोक्कारो जइ कीरइ भावओ असंगेहिं । रुंभइ कुगइ-मग्गं सग्गं सिद्धिं च पावेइ ॥  
 6 सिद्धाण णमोक्कारं तम्हा सव्वायरेण काहामि । छेत्तुण मोह-जालं सिद्धि-पुरिं जेण पावेमि ॥ 6  
 § ४२२ ) पणमामि गणहराणं जिण-वयणं जेहिं सुत्त-बंधेणं । बंधेज्जण तह कथं पत्तं अम्हारिसा जाव ॥  
 चोइस-पुव्वीण णमो आयरियाणं तहूण-पुव्वीण । वायग-वसहाण णमो णमो य एगारसंगीण ॥  
 9 आयार-धराण णमो धारिज्जइ जेहिं पवयणं सयलं । णाण-धराणं ताणं आयरियाणं पणिवयामि ॥ 9  
 णाणायार-धराणं दंसण-चरणे विसुद्ध-भावाणं । तव-विरिय-धराण णमो आयरियाणं सुधीराणं ॥  
 जिण-वयणं दिप्पंतं दीवंति पुणो पुणो ससत्तीए । पवयण-पभासयाणं आयरियाणं पणिवयामि ॥  
 12 गूढं पवयण-सारं अंगोवंगे समुद्द-सरिसम्मि । अम्हारिसेहिं कत्तो तं णज्जइ थोय-बुद्धीहिं ॥ 12  
 तं पुण आयरिएहिं पारंपरएण दीवियं एत्थ । जइ होंति ण आयरिया को तं जाणेज्ज सारमिणं ॥  
 सूयण-मेत्तं सुत्तं सुइज्जइ केवलं तहिं अत्थो । जं पुण से वक्खाणं तं आयरिया पयासेति ॥  
 15 बुद्धी-सिणेह-जुत्ता आगम-जलणेण सुट्टु दिप्पंता । कह पेच्छउ एस जणो सूरि-पईवा जहिं णत्थि ॥ 15  
 चारित्त-सील-किरणो अण्णाण-तमोह-णासणो विमलो । चंद-समो आयरिओ भविए कुमुए व्व बोहेइ ॥  
 दंसण-विमल-पयावो दस-दिस-पसरंत-णाण-किरणिल्लो । जत्थ ण रवि व्व सूरी मिच्छत्त-तमंधओ देसो ॥  
 18 उज्जोयओ व्व सूरु फलओ कप्पहुमो व्व आयरिओ । चिंतामणि व्व सुहओ जंगम-तित्थं च पणओ हं ॥ 18  
 जे जत्थ केइ खेत्ते काले भावे व सव्वहा अत्थि । तीताणागय-भूया ते आयरिए पणिवयामि ॥  
 आयरिय-णमोक्कारो जइ लब्भइ मरण-काल-वेलाए । भावेण कीरमाणो सो होहिइ बोहि-लाभाए ॥  
 21 आयरिय-णमोक्कारो जह कीरइ तिविह-जोग-जुत्तेहिं । ता जम्म-जरा-मरणे छिंदइ बहुए ण संदेहो ॥ 21  
 आयरिय-णमोक्कारो कीरंतो सल्लगत्तणं होइ । होइ णरामर-सुहओ अक्खय-फल-दाण-दुल्लिओ ॥  
 तम्हा करेमि सव्वायरेण सूरीण हो णमोक्कारं । कम्म-कलंक-विमुक्को अइरा मोक्खं पि पावेस्सं ॥  
 24 § ४२३ ) उवझायणं च णमो संगोवंगं सुयं धरेंताणं । सिस्स-णाण-हियट्टाए झरमाणणं तयं चेय ॥ 24  
 सुत्तस्स होइ अत्थो सुत्तं पादेंति ते उवज्झाया । अज्झावयाण तम्हा पणमह परमेण भावेण ॥  
 सज्झाय-सलिल-णिवहं झरंति जे गिरियड व्व तदियहं । अज्झावयाण ताणं भत्तीए अहं पणिवयामि ॥  
 27 जे कम्म-खयट्टाए सुत्तं पादेंति सुद्ध-लेसिल्ला । ण गणेंति णियय-दुक्खं पणओ अज्झावए ते हं ॥ 27  
 अज्झावयाण तेसिं भइं जे णाण-दंसण-समिद्धा । बहु-भविय-बोह-जणयं झरंति सुत्तं सया-कालं ॥  
 अज्झावयस्स पणमह जसस पसाएण सव्व-सुत्ताणि । णजंति पढिजंति य पढमं चिय सव्व-साधूहिं ॥  
 30 उवझाय-णमोक्कारो कीरंतो मरण-देस-कालम्मि । कुगइं रुंभइ सहसा सोगइ-मग्गाम्मि उवणेइ ॥ 30  
 उवझाय-णमोक्कारो कीरंतो कुणइ बोहि-लाभं तु । तम्हा पणमह सव्वायरेण अज्झावयं मुणिणो ॥  
 उवझाय-णमोक्कारो सुहाण सव्वाण होइ तं मूलं । दुक्खक्खयं च काउं जीयं ठावेइ मोक्खम्मि ॥

1) P दीवण्ण. 2) P केवि for केइ. 3) P कह वि for केइ, P कालखेत्ते, P व्व for य. 4) P अण्णे, P पावेमि.  
 5) J भावतो, P। संभइ कुगइ, P पावेंति. 6) P सिद्धिं. 7) P गहराणं, P जावा ॥ 8) P णवण्ह for तहूण, P  
 वायय-. 9) J पणम तामि ॥ 10) P चरणेहि सुद्धभावे । तवकिरिय. 11) P दिव्वंति, P ससत्तीए, P पहासयाणं, J  
 पणिवयामि. 12) J तण्णज्जउ, P थोव-. 13) P होति. 14) P अत्थे, P repeats से. 15) P पेच्छइ, P पतीवा.  
 16) P कुमुयवियोहेइ. 17) P विमलपलपयावोदयदिस-. 18) J उज्जोतउ. 19) J व्व for व, J तीताणागतभूता, J  
 पणिवयामि. 20) J होहि ति P सो हित्ति. 21) P om. कीरइ, P जोय-. 22) P मोक्कं पि. 23) J उवझायणं P उवज्झा-  
 यणं, P संगोवंगं सुत्तं, J सुत्तं, J हितट्टाए, P भरमाणणं. 24) J पादं ति, P म्हा for तम्हा. 25) J om. जे, P गिरि व्व, J  
 भत्तीव, J पणिवयामि. 26) P कम्मक्खयं, P अज्झावए. 27) P बोहयाणं सरंति सुत्तं. 28) P om. पढिजंति, P साधूहिं.  
 29) J P उवज्झाव, P देव्याम्मि, P रुंभइ. 30) J उवज्झाय. 31) J उवज्झाय, P om. सव्वाण, J जीवं, P पावेइ for  
 दरेइ.

- 1 § ४२४) साहूण णमोक्कारं करेमि तिविहेण करण-जोएण । जेण भव-लक्ख-वद्धं खणेण पावं विणासेमि ॥ 1  
पणमह ति-गुत्ति-गुत्ते विलुत्त-मिच्छत्त-पत्त-सम्मत्ते । कम्म-करवत्त-पत्ते उत्तम-सत्ते पणिवयामि ॥
- 3 पंचसु समिहंसु जए ति-सल्ल-पडिपेळणम्मि गुरु-मल्ले । चउ-विकहा-पम्मुकुके मय-मोह-विक्खए धीरे ॥ 3  
पणमामि सुद्ध-लेसे कसाय-परिवज्जिए जियाण हिए । छज्जीव-काय-रक्खण-परे य पारंपरं पत्ते ॥  
चउ-सण्णा-विप्पजडे दढव्वए वय-गुणेहिं संजुत्ते । उत्तम-सत्ते पणओ अपमत्ते सव्व-कालं पि ॥
- 6 परिसह-वल-पडिमल्ले उयसग्ग-सहे पहम्मि मोक्खस्स । विकहा-पमाय-रहिए सहिए वंदामि समणे हं ॥ 6  
समणे सुयगे सुमणे समणे य-पाव-पंकस्स सेवए । सवए सुहए समए य सचए साहु अह वंदे ॥  
साहूण णमोक्कारो जइ लब्भइ मरण-देस-कालम्मि । चिंतामणिं पि लद्धं किं मग्गसि काय-मणियाइं ॥
- 9 साहूण णमोक्कारो कीरंतो अवहरेज्ज जं पावं । पावाण कथं हियए णिवसइ एसो अउण्णाण ॥ 9  
साहूण णमोक्कारो कीरंतो भाव-मेत्त-संसुद्धो । सयल-सुहाणं मूलं मोक्खस्स य कारणं होइ ॥  
तम्हा करेमि सव्वाथरेण साहूण तं णमोक्कारं । तरिऊण भव-समुद्धं मोक्खय-दीवं च पावेमि ॥
- 12 § ४२५) एए जयम्मि सारा पुरिसा पंचेव ताण जोक्कारो । एयाण उवरि अण्णो को वा अरिहो पणामस्स ॥ 12  
सेयाण परं सेयं मंगल्लाणं च परम-मंगल्लं । पुण्णाण परं पुण्णं फलं फलाणं च जाणेज्जा ॥  
एयं होइ पवित्तं वरयरयं सासयं तहा परमं । सारं जीयं पारं पुच्चाणं चोदसण्हं पि ॥
- 15 एयं आराहेउं किं वा अण्णेहिं एत्थ कज्जेहिं । पंच-णमोक्कार-मणो अवस्स देवत्तणं लहइ ॥ 15  
चारित्तं पि ण वट्ठइ णाणं णो जस्स परिणयं किंचि । पंच-णमोक्कार-फलं अवस्स देवत्तणं तस्स ॥  
एवं दुह-सय-जलयर-तरंग-रंगंत-भासुरावत्ते । संसार-समुद्धम्मि कयाइ रयणं व णो पत्तं ॥
- 18 एयं अब्भुरुहुल्लं एयं अप्पत्त-पत्तयं मज्झ । एयं परम-भयहरं चोज्जं कोहुं परं सारं ॥ 18  
विज्झइ राहा वि फुडं उम्मूलिज्जइ गिरी वि मूलाओ । गम्मइ गयणयलेणं दुलहो एसो णमोक्कारो ॥  
जलणो व्व होज्ज सीओ पडिवह-हुत्तं वहेज्ज सुर-सरिया । ण य णाम ण देज्ज इमो मोक्ख-फलं जिण-णमोक्कारो ॥
- 21 णूणं अलद्धउव्वो संसार-महोयहिं भमंतेहिं । जिण-साहु-णमोक्कारो तेणज्ज वि जम्म-मरणाइं ॥ 21  
जइ पुण पुवं लद्धो ता कीस ण होइ मज्झ कम्म-खओ । दावाणलम्मि जलिए तण-रासी केच्चिरं ठाउ ॥  
अहवा भावेण विणा दव्वेणं पाविओ मए आसि । जाव ण गहिओ चिंतामणिं त्ति ता किं फलं देइ ॥
- 24 ता संपइ पत्तो मे आराहेव्वउ मए पयत्तेणं । जइ जम्मण-मरणाणं दुक्खाणं अंतमिच्छामि ॥ 24  
त्ति भणमाणो महारह-साहू अउव्व-करणेणं खवग-सेणिं समारूढो । कह ।

§ ४२६) झोसेइ महासत्तो सुक्कञ्जालानलेण कम्म-तहं । पढमं अणंत-णामे चत्तारि वि चुण्णिए तेण ॥

- 27 अण्ण-समएण पच्छा मिच्छत्तं सो खवेइ सव्वं पि । सीसं च पुणो सम्मं खवेइ जं पुग्गलं आसि ॥ 27

1 > P नमोक्कारो, J om. करण, P लख, P पावं पणासेमि. 2 > P om. गुत्ते, P -विच्छत्तपत्त-, J पणिवयामि. 3 > JP समितीय, J जते P जहे, J परिसोल्लगंमि, P परिमुक्के. 4 > P पारंपरे पत्तो. 5 > J सण्णी, P विप्पजडे, P संजुत्तो, P मि for पि. 6 > P परिसव्व, J जते P जहे, J परिसोल्लगंमि, P परिमुक्के. 7 > P om. समणे सुयणे, P adds दुक्खदायस्स after पंकस्स, J स एव for य सव्वए. 8 > P लद्धि. 9 > P om. अवहरेज्ज जं पावं etc. to साहूण णमोक्कारो कीरंतो. 10 > P मेत्तसमिडो l. 11 > साहु, P साहू. 12 > P लद्धि. 13 > P सेयण, J होइ for परम, P परमं, J adds J सोक्खं दीवं च P मोक्खपदीवं. 14 > P पुरिसाण पंचेव, J ता णमोक्कारो. 15 > P परो for मणो. 16 > P मि for पि, P adds नोणं before नो. 17 > P समुद्धम्मी अपत्तदव्वं च माणिकं ॥, J कयाइ रयणाइं य. 18 > P अब्भुरुहुल्लं, P मज्ज l. 19 > P दुलहो सो. 20 > P जलणा व्व, P सीलो पडिवहज्जुत्तं, J जिणे. 21 > P महोयइं नमंतेहिं l. 22 > P पुण्ण for पुण, P दावानलम्मि, P जाओ for ठाउ. 23 > P दव्वेणं पाविओ, P जाव न हियओ. 24 > P आराहेव्वो, J om. मए, P पयत्तेणं, P दुक्खाणं इच्छसे अंतं ॥. 25 > P om. त्ति, P खवगसेदी-, J adds अवि य after कर. 26 > P झोसेइ, P सुक्कञ्जालानलेण, P अणंतनामो. 27 > J तं for जं.

- 1 एयं गियट्टि-ठाणं खाइय-सम्मत्त-लाभ-दुल्ललियं । लंघेऊणं अट्ट वि कसाय-रिवु-डामरे हणइ ॥ 1
- झोसेइ णवुंसत्तं इत्थी-वेयं च अण्ण-समएण । हास-रइ-छक्कमणं समएणं णिइहे वीरो ॥
- 3 णिय-जीय-वीरिएणं खग्गेण व कयलि-खंभ-सम-सारं । पच्छा णिय-पुंवेयं सूडेइ विमुद्ध-लेसाओ ॥ 3
- कोघाई-संजलणे एकेकं सो खवेइ लोभंतं । पच्छा करेइ खंडे असंख-मेत्ते उ लोहस्स ॥
- एकेकं खवयंतो पावइ जा अंतिमं तयं खंडं । तं भेत्तूण करेइ अणंत-खंडेहिं किट्ठीओ ॥
- 6 तं वेण्तो भण्णइ महामुणी सुहुम-संपराओ त्ति । अहखायं पुण पावइ चारित्तं तं पि लंघेउं ॥ 6
- पंचक्खर-उरिगरणं कालं जा वीसमिज्जु सो धीरो । दोहिं समएहिं पावइ केवल-णाणं महासत्तो ॥
- पयलं णिइं पढमं पंच-विहं दंसणं चउ-वियप्पं । पंच-विहमंतरायं च खवेत्ता केवली जाओ ॥
- 9 आउय-कम्मं च पुणो खवेइ गोत्तेण सह य णामेण । सेसं पि वेयणीयं सेलेसीए विमुक्को सो ॥ 9
- अह पुव्व-पओएणं वंधण-खुडियत्तणेण उड्ड-गई । लाउय-परंड-फले अग्गी-धूमे य दिट्ठंता ॥
- ईसीपवभाराए पुहईए उवरि होइ लोयंतो । गंतूण तत्थ पंच वि तणु-रहिया सासया जाया ॥
- 12 णाणमणंतं ताणं दंसण-चारित्त-वीरिय-सणाहं । सुहुमा णिरंजणा ते अक्खय-सोक्खा परम-सुद्धा ॥ 12
- अच्छेज्जा अब्भेज्जा अब्भत्ता अक्खरा णिरालंबा । परमप्पाणो सिद्धा अणाय-सिद्धा य ते सव्वे ॥
- सा सिवपुरि त्ति भणिया अयला स च्चैय स च्चियापावा । से तं दीवं तच्चिय तं चिय हो बंभ-लोयं त्ति ॥
- 15 खेमंकरी य सुहया होइ अणाउ त्ति सिद्धि-ठाणं च । अववग्गो णेव्वाणं मोक्खो सोक्खो य सो होइ ॥ 15
- तत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । अच्चंत-सासयं चिय भुंजंति अणोवमं सोक्खं ॥
- एत्थ य क्हा समप्पइ कुवलयमाल त्ति जा पुरा भणिया । दिक्खिण्ण-इंध-बुद्धी-वित्थारिय-गंध-रयणिज्जा ॥
- 18 § ४२७ ) पणय-तियसिंद-सुंदरि-मंदर-मंदार-गलिय-मयरदं । जिण-चलण-कमल-जुयलं पणमइ मुहलालि-संगीयं ॥ 18
- पढमं चिय णयरी-वण्णणम्मि रिद्धीओ जा मए भणिया । धम्मस्स फलं अक्खेवणि त्ति मा तत्थ कुप्पेज्जा ॥
- जं चंडसोम-आई-वुत्तंता पंच ते वि कोघाई । संसारे दुक्ख-फला तम्हा परिहरसु दूरेण ॥
- 21 जाओ पच्छायावो जह ताणं संजमं च पडिवण्णा । तह अण्णो वि हु पावी पच्छा विरमेज्ज उवएसो ॥ 21
- जिण-वंदण-फलमेयं जक्खो जिणसेहरो त्ति जं कहिओ । साहम्मियाण णेहो जीयाण बलं वदीणं तं ॥
- वइर-परंपर-भावो संवेगो तिरिय-धम्म-पडिवत्ती । विज्जाहराण सिद्धी अच्चरियं एणियक्खाणे ॥
- 24 सरणागयाण रक्खा धीरं साहम्मि-वच्छलत्तं च । अपमत्त-सुलभ-वोही संवेगो भिच्छ-वुत्तंतो ॥ 24
- कुवलयमाला-रुवं धम्म-फलं तत्थ जो य सिंगारो । तं कव्व-धम्म-अक्खेवणीय सम्मत्त-कज्जेण ॥
- सम्मत्तस्स पसंसा घेप्पउ वयणं जिणाण लोगम्मि । चित्तवडेण विचित्तो संसारो दंसिओ होइ ॥
- 27 विण्णाण-सत्त-सारो होइ कुमारस्स दंसिओ तेण । जिण-णाम-मत्त-सत्ती वुत्तंतेणं णरिंदाण ॥ 27
- पर-तिथियाण-मेत्ती सरूव-जाणा-मणेण जिण-वयणं । होइ विमुद्ध-वरायं जुत्ति-पमाणेहिं तं सारं ॥
- जुय-समिला-दिट्ठंतो दुलहं माणुस्सयं च चित्तेशु । दिय-लोए धम्म-फलं तम्हा तं चैय कायव्वं ॥
- 30 कम्मस्स गई णेहस्स परिणईं वुज्झणा य थोएण । धम्म-पडिवोह-कुसलत्तणं च वीरेण णियय-भवे ॥ 30

1 > P नियट्टिठ्ठाणं खाइसम्मत्तलाह. 2 > J झोसइ णमंसत्तं इत्थीवेतं P सोसेइ नपुंसत्तं इत्थीनेयं, P हासाइछक्कमणं, J -रति-, P निज्जिरे वीरो, J धीरो for वीरो. 3 > P कस्सयलि, J पुंवेतं, J लेस्साओ. 4 > J कोधाती संजलणा, P कोहाई-, J लोहंतं, J करेति, J मेते तु P मेत्तो उ. 5 > P णवइ for पावइ, J करेती. 6 > J अहखातं. 7 > P पंचक्खर, J सो for जा, P वीसमीउ सो वीरो, P केवलिनलं. 8 > J पढमे, P om. च. 9 > P आउयखंमं, J खवेत्ति, P इ for य, J वेतणीयं. 10 > J परंडहलं. 11 > P has संजया twice for सासया. 13 > P अच्छेज्जा अकया निरालंबा, P अणायसुद्धा. 14 > P स च्चिय अणाहा, J तदीवं, P om. तच्चिय. 15 > J होउ for होइ, P अपवग्गो. 16 > P नेय दुक्खसव्वाइं, J सासतं, P adds य after चिय. 17 > J दिक्खिण्णं, P बुद्धी-. 18 > P पणयसुरसिद्धसुंदरि, P मंदारमल्लि, P जिणचयण. 19 > P चिय नगरी, J वण्णगंति, P वण्णगंमि. 20 > JP आती for आदे, J कोधावी P कोहाती, J संसार. 22 > J बलं च दीपंतं, P वदीणत्तं. 23 > P विज्जाहराण सिद्धि, J अच्चयदं, P एणियाक्खाणे. 24 > P रक्खी, J सुद्ध-. 25 > J कम्म for कव्व. 26 > J लोकंमि P चित्तवडे वि विचित्तो. 27 > P कुमार, J जिणे णाणं सम्मत्तसत्ती. 28 > J तित्थयाण नेली, P मिच्छी, P om. तं सारं. 30 > P गदं नेयस्स, P वेवण L

- 1 बुद्धीएँ देव-माया वंचण-वेला खु धम्म-पडिवत्ती । अवर-विदेहे दंसण कामागइंदस्स वुत्तंते ॥ 1  
उच्छाह-सत्त-सारो सिद्धी विजाणु भोग-संपत्ती । सम्मत्त-दाण-कुसलत्तणं च तह वइरगुत्तम्मि ॥
- 3 दिव्वाणं संलावो बोहत्थं सो सयंभुदेवस्स । मा कुण कुडुंव-कजे पावं एसा गई तस्स ॥ 3  
सुह-संवोधी-सुमिणं महारहे जम्मि ताहं भणियाइं । भव्वाणं एस टिइं थोवेण वि जेण वुज्झंति ॥  
आराहणा य अंते आलोयण-णिंदणा य वोसिरणा । पंच-णमोक्कारो विय मोक्खस्स य साहणो भणियो ॥
- 6 केवल-णाणुप्पत्ती भणिया सेठीए खवग-णामाए । मोक्खे परमं सोक्खं संपत्ता तत्थ सव्वे वि ॥ 6  
§ ४२८) जं खल-पिसुणो अम्मं च मच्छरी रत्त-मूढ-वुग्गहिओ । भणिहिइ अभाणियव्वं पि एत्थ भणिमो सयं चेय ॥  
रागो एत्थ णिवद्धो किं कीरइ राग-बंधणा एसा । पडिवयणं तत्थ इमं देज्जसु अह राग-चित्तस्स ॥
- 9 रागं णिदंसिज्जण य पढमं अह तस्स होइ वेरगं । रागेण विणा साहसु वेरगं कस्स किं होउ ॥ 9  
धम्मस्स फलं एयं अक्खेवणि-कारणं च सव्वं च । रागाथों विरागो वि हु पढमं रागो कओ तेण ॥  
वसुदेव-धम्मिलाणं हिंडीसुं कीस णत्थि रागो त्ति । तत्थ ण किंचि वि जंपसि अम्मं मज्जे ण तुह णेहो ॥
- 12 रागेण तुमं जाओ पच्छा धम्मं करेसि वेरगी । रागो एत्थ पसत्थो विराग-हेज भवे जम्हा ॥ 12  
कीस पइणं राया दढवम्मो कुणइ गुग्गुलाईयं । अज्ज वि मिच्छादिट्ठी जुज्जइ सव्वं पि भणिउं जे ॥  
किं सो राया णम्मं लच्छीएँ समं करेइ देवीए । णणु होजा रज्ज-सिरी अरहइ सिंगार-वयणाइं ॥
- 15 पुरिसाइ-लक्खणेहिं किं कीरइ एत्थ धम्म-उल्लावे । णणु धम्मो कव्वाणं अक्खेवणि-कारणं जम्हा ॥ 15  
हरि-खंद-रुइ-कुसुमाउहेसु उवमाण णागारी-वण्णे । कालम्मि तस्मि कत्तो उवमाणं किं असंतेहिं ॥  
भण्णाए समए भणिया णव-जुवला चक्कि-कामपाला य । रुहा खंदा य पुणो अइवहुए विज्ज-सिद्ध त्ति ॥
- 18 खंदाणं रुहाणं गोविंदाणं च जेण अंगेसु । णामाहं सुणिज्जंति वि सासय-रूवेसु सव्वेसु ॥ 18  
चोजं ण होइ एयं धम्मो कव्वस्स जेण उवमाणं । कीरइ अणसंते वि हु अच्छउ ता लोय-सिद्धेसु ॥  
उडुं पिसुणाण इहं वोलीणो अवसरो त्ति णो भणियं । सव्व च्चिय-धम्म-कहा सम्मत्तुपायणी जेण ॥
- 21 § ४२९) जो पढइ भाव-जुत्तो अहवा णिसुणेइ अहव वाएइ । जइ सो भव्वो वस्सं सम्मत्तं जायए तस्स ॥ 21  
लद्धं पि थिरं होहिइ होइ वियद्धो कइं य पत्तट्ठो । तम्हा कुवलयमालं वाएज्जसु हो पयत्तेण ॥  
जो जाणइ देसीओ भासाओ लक्खणाइं धाऊ य । वय-णय-गाहा-छेयं कुवलयमालं पि सो पढउ ॥
- 24 एयाइं जो ण-याणइ सो वि हु वाएउ पोत्थयं घेतुं । एत्थं चिय अह णाहिइ कइणो णिउणत्तण-गुणेण ॥ 24  
जो सज्जणो वियद्धो एसा रामेइ तं महालक्खं । जो पिसुण-दुब्बियद्धो रस-भावं तस्स णो देइ ॥  
जीएँ मह देवयाए अक्खाणं साहियं इमं सव्वं । तीए च्चिय णिम्मविया एसा अम्हे मिसं एत्थ ॥
- 27 दियहस्स पहर-मेत्ते गंथ-सयं कुणइ भणसु को पुरिसो । हियय-नाया हिरि-देवी जइ में लिहंतस्स णो होइ ॥ 27  
पउमासणम्मि पउमप्पभाए पउमेण हत्थ-पउमम्मि । हियय-पउमम्मि सा मे हिरि-देवी होउ संणिहिया ॥  
जइ किंचि लिंग-भिण्णं विभत्ति-भिण्णं च कारय-विहीणं । रहसेण मए लिहियं को दोसो एत्थ देवीए ॥

1 > P देवनायावंचण, P कामइंदस्स वुत्तंतो. 2 > P विजाण, J सम्मत्त. 3 > P बोहित्थं, P कुडुंव. 4 > P संवोधी. 5 > P ए for य after णिंदणा, P य हसाहणं भणियो. 6 > P adds नाग before णामाए, P मोक्खं, J adds ते after तत्थ. 7 > J वुग्गहियं. 9 > P रागं निदंसिज्जण पढमं रागो अहं तस्स वेरगं, P किह for किं, P होइउ. 10 > P adds वि after कजं, P कजं for सव्वं, J राओ कओ. 12 > J करोसि, P एस for एत्थ, J विरागहेत्. 13 > JP दढवम्मो, J मुग्गुलातीयं, P नणु मिच्छादिट्ठीणं, J adds इय before जुज्जइ. 14 > J लच्छीयं, P नणु भोजा रज्जसिरी. 15 > J पुरिसाति, P कव्वाणं for कव्वाणं. 16 > P रुइसुमाउहेसु, P वण्णे । 17 > P भणइ, J adds ए before समए, J जवला चक्कि-कामपाला । 18 > P खंदाणं. 20 > P सव्वं च्चिय, J सम्मत्तुपायणी जम्हा ॥ 21 > P पढम for पढइ, P om. जइ, P वस्सं for वस्सं. 22 > J होहिइ P जोहिइ. 23 > P कव्वाइं for धाऊ य. 24 > J om. हु, P पोत्थयं, J णाहिइ, P नाइं हइ, J कइणो इइ णिउणत्तण. 25 > P नो होइ for नो देइ. 26 > P जाए for जीए. 27 > J कुणउ, J जइ मि लिहं, P जइ संलिहियं तस्स, J देइ for होइ. 28 > J पउमंनि भाए for पउमप्पभाए. 29 > P विहत्ति.



- 1 उज्जुय-पय-गमणिळा सरलुहावा य भूसण-विहूणा । दुग्गय-बाल व्व मए दिण्णा तुह सुयण-गेहेण ॥ 1  
गेहं देज इमीए खलियं छाएज वयणयं पुलए । अहवा कुलस्स सरिसं करेज्ज हो तुज्झ जं सुयणा ॥
- 3 दंसिय-कला-कलावा धम्म-कहा गेय-दिक्खिय-णरिंदा । इह छोए होइ थिरा एसा उसभस्स कित्ति व्व ॥ 3  
§ ४३०) अत्थि पुहई-पसिद्धा दोणिण पहा दोणिण चेय देस त्ति । तत्थत्थि पहं णामेण उत्तरा बुह-ज्जाइणं ॥  
सुइ-दिय-चारु-सोहा विथसिय-कमलाणणा विमल-देहा । तत्थत्थि जलहि-दइया सरिया अह चंदमाय त्ति ॥
- 6 तीरम्मि तीय पयडा पव्वइया णाम रयण-सोहिळा । जत्थ ट्ठिएण भुत्ता पुहई सिरि-तोरराएण ॥ 6  
तस्स गुरु हरिउत्तो आयरिओ आसि गुत्त-वंसाओ । तीएँ णयरीएँ दिण्णो जेण णिवेसो तहिं काले ॥  
तस्स वि सिस्सो पयडो महाकई देवउत्त-णामो त्ति । .....सिवचंद-गणी अह महयरो त्ति ॥
- 9 सो जिण-वंदण-हेउं कह वि भंमंतो कमेण संपत्तो । सिरि-भिळमाल-णयरम्मि संठिओ कप्परुक्खो व्व ॥ 9  
तस्स खमासमण-गुणो णामेण य जक्खदत्त-गणि-णामो । सीसो महइ-महप्पा आसि तिलोए वि पयड-जसो ॥  
तस्स य बहुया सीसा तव-वीरिय-वयण-लद्धि-संपण्णा । रम्मो गुजर-देसो जेहि कओ देवहरएहिं ॥
- 12 णागो विंदो मम्मड दुग्गे आयरिय-अग्गिसम्मो य । छट्ठो वडेसरो छम्मुहस्स वयण व्व ते आसि ॥ 12  
आगासवप्प-णयरे जिणालयं तेण णिम्मविथं रम्मं । तस्स सुह-दंसणे च्चिय अवि पसमइ जो अहव्वो वि ॥  
तस्स वि सीसो अण्णो तत्तायरिओ त्ति णाम पयड-गुणो । आसि तव-तेय-णिज्जिय-पात्र-तमोहो दिणयरो व्व ॥
- 15 जो दूसम-सलिल-पवाह-वेग-हीरंत-गुण-सहस्साण । सीलंग-विउल-सालो लक्खण-रुक्खो व्व णिक्कपो ॥ 15  
सीसेण तस्स एसा हिरिदेवी-दिण्ण-दंसण-मणेण । रइया कुवलयमाला विलसिय-दक्खिण्ण-इंधेण ॥  
दिण्ण-जहिच्छिय-फलओ बहु-कित्ती-कुसुम-रेहिराभोओ । आयरिय-वीरभहो अथावरो कप्परुक्खो व्व ॥
- 18 सो सिद्धंतेण गुरु जुत्ती-सत्थेहि जस्स हरिभहो । बहु-सत्थ-गंथ-वित्थर-पत्थारिय-पयड-सव्वत्थो ॥ 18  
आसि तिकम्माभिरओ महादुवारम्मि खत्तिओ पयडो । उज्जोयणो त्ति णामं तच्चिय परिभुंजिरे तइया ॥  
तस्स वि पुत्तो संपइ णामेण वडेसरो त्ति पयड-गुणो । तस्सुज्जोयण-णामो तणओ अह विरइया तेण ॥
- 21 तुंगमल्लं जिण-भवण-मणहरं सावयाउलं विसमं । जावालिउरं अट्ठावयं व अह अत्थि पुहईए ॥ 21  
तुंगं धवलं मणहारि-रयण-पसरंत-धयवडाडोयं । ढसभ-जिणिंदाययणं करारियं वीरभहेण ॥  
तत्थ टिएणं अह चोइसीए चेतस्स कण्ह-पक्खम्मि । णिम्मविया बोहिकरी भव्वाणं होउ सव्वाणं ॥

- 1) P adds निरलंकारा य after गमणिळा, P सरलउहावा, P om. भूसण विहूणा, P om. बाल व्व, P तुह सयण-  
2) P करेज्ज जं तुज्झ हो सुयणु. 3) P -कलावो धंमक्खण्येय, P लोय, P om. होइ. 4) P om. two verses  
अत्थि पुहई etc. to चंदमाय त्ति, J adds व्हं after उत्तरा. 6) P अत्थि for तीरम्मि तीय, P adds पुरीणं  
after पयडा, J जत्थत्थि ट्ठिए भुत्ता, P तत्थ for जत्थ, P सिरितोरसाणेण (°साणेण can be read as °माणेण). 7) P हरियत्तो,  
J तीय णयरीय, P दिन्नो जिणनिवोसा तहिं काले. 8) P बहुकलाकुसलो सिद्धंतवियाणओ कई दक्खो । आयरियदेवगुत्तो जज्ज वि विज्जरए  
कित्ती ॥ for the line तस्स वि सिस्सो etc. to देवउत्तणामो त्ति. The line is defective: perhaps some syllables  
like [तस्स वि सीसो सो] are missing at the beginning, JP मयहरो. 9) P सो एत्थ आगओ देसा for the line  
सो जिगवंदण हेउं etc. to संपत्तो. 10) J गुणा, P om. य, J जक्खयत्त P जक्खदत्त, P सिस्सो for सीसो. 11) P inter.  
बहुया & सीसा, P om. वयण, P लद्धचरणसंपण्णा. 12) P om. a verse णागो विंदो etc. to ते आसि, J वडेसरो, J स्स for व्व.  
13) J -गरो for णयरे, P नयरे वडेसरो आसि जो खमासमणो, J जिणणयं, J अम्मत्थो for अहव्वो. 14) P य आयावरो for वि  
सीसो अण्णो, J अन्तो for अण्णो, P सार for पयड, J णिज्जिय-पविगयमोहो, J om. दिणयरो व्व ॥ etc. to हीरंतगुणसहस्साण ।  
15) P लमामल्लं व्व. 16) P कुवलयमाला विळसिः. 17) J अथावरो P अवावरो. 18) P सो सिद्धंतगुरु पमाणाय जस्स, P बहु  
for बहु, P inter. गंथ & सत्थ, J पत्थारिय. 19) P सया खत्तियायं वंसे जाओ वडेसरो नाम for the three lines आसि तिकम्मा-  
भिरओ etc. to त्ति पयटगुणो, J आसी. 20) J वडेसरो. 21) J सावयाउलं, J विउरं for विसमं, P om. जावालिउरं, P inter.  
अह अत्थि & पुहईए. 22) P धयवडाडोयं, J वडाडोयं, P उसह, J जिणिंदाययणं, P करारियं. 23) P तंमि for  
तत्थ, J P ट्ठिएणं, P विज्ज, P बोहिकरी.

- 1 पर-भड-भिउडी-भंगो पणईश्रण-रोहिणी-कला-चंद्रो । सिरि-वच्छराय-णामो रण-हत्थी पत्थिवो जइया ॥ 1
- को किर वच्चह तीरं जिण-वयणं-महोयहिस्स-दुत्तरं । थोयं-मइणा वि वद्धा एसा हिरिदेवि-वयणेण ॥
- 3 जिण-वयणाओ उणं अहियं व विरुद्धयं व जे बद्धं । तं खमसु सठवेज्जसु मिच्छा अहं दुक्कं तस्स ॥ 3
- चंदकुलावयवेणं आयरिउज्जोयणेण रइया मे । सिव-संति-ओहि-मोक्खाण साहिया होउ भवियाण ॥
- एयं कहं करेउं जं पुणं पाविंयं मए विउलं । साहु-किरियासु चित्तं भवे भवे होउ मे तेण ॥
- 6 सग-काले वोलीणे वरिसाण सएहिं सत्तहिं गएहिं । एग-दिणेणूणेहिं रइया अवरणह-वेलाए ॥ 6
- ण कहत्तणाहिमाणो ण कव्व-बुद्धीए विरइया एसा । धम्मकहं ति णिवद्धां मां दोसे काहिह इमीए ॥
- § ४३१ ) अरहंते णमिऊणं सिद्धे आयरिय-सव्व-साहू य । पवयण-मंगल-सारं वोच्छामि अहं समासेण ॥
- 9 पढमं णमह जिणाणं ओहि-जिणाणं च णमह सव्वाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-ओही जिणे णमह ॥ 9
- वंदे सव्वोहि-जिणे पणमह भावेण केवल्लि-जिणे य । णमह य भवत्थ-केवल्लि-जिण-णाहे तिविह-जोएण ॥
- णमह य उज्जुमईण विउलमईणं च णमह भत्तीए । पण्णा-समणे पणमह णमह य तह वीय-बुद्धीणं ॥
- 12 पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सव्वाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥ 12
- वंदे चोइस-पुव्वी तह दस-पुव्वी य वायए वंदे । एयारसंग-सुत्तथ-धारए णमह आयरिए ॥
- चारण-समणे पणमह तह जंघा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्जासिद्धे आगास-नामे य जिणकप्पे ॥
- 15 आमोसहिणो वंदे खेलोसहि-जल्लोसहिणो णमह । सव्वोसहिणो वंदे पणमह आसीविसे तह य ॥ 15
- पणमह दिट्ठी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विप्पोसहिणो य पणमामि ॥
- खीरासविणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥
- 18 पणमामि विउव्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्जीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूवे य पणमामि ॥ 18
- मण-वेगिणो य पणमह गिरिराय-पडिच्छिरे य पणमामि । दिस्सादिस्से णमिमो णमह य सव्वट्ठि-संपण्णे ॥
- पणमह पडिमावण्णे तवो-विहाणेषु चैय सव्वेषु । पणमामि गणहराणं जिण-जणणीणं च पणमामि ॥
- 21 केवल-णाणं पणमामि दंसणं तह य सव्व-णाणाइं । चारित्तं पंच-विहं तेसु य जे साहुणो सव्वे ॥ 21
- चकं छत्तं रयणं झओ य चमराइं दुंदुहीओ य । सीहासण-कंकल्ली पणमह वाणी जिणंदस्स ॥

1) P om. four verses परभडभिउडीं etc. to होउ भवियाण ॥, J रोहणो for रोहिणी. 3) J om. व before जं. 4) J आयरियउज्जो अणेण, J साहियाण होउ. 5) P कउं for करेउं, P पिमलं for विउलं, P किरिया चित्तं. 6) P एगदिणेणूणेहिं एस समत्तावरणंमि ॥. 7) P om. the verses ण कहत्तणाहिमाणो etc. to काहिह इमीए ॥. For the Section § 431 consisting of verses beginning with अरहंते णमिऊणं etc. to होइ तं तं च ॥ of J, the Ms. P has the following verses which are reproduced with very minor corrections, some of its orthographical traits like the initial न etc. being retained:

उज्जंति जत्थ जीवा सिज्जंति वि के वि कम्म-मल-मुक्का । जं च नमियं जिणेहिं तं तित्थं नमह भावेण ॥  
 पणमामि उसह-नाहं सेसे वि जेणेज उत्तरं ( जिणे य उत्तरे ) नमिमो । जणणि-जणए य ताणं गणहर-देवे य पणमामि ॥  
 केवल-नाणं पणमामि दंसणं तह य सव्व-नाणाइ । चारित्तं पंच-विहं भावेण नमामि संपणं ॥  
 पणमामि धम्म-चकं जिणाण छत्तत्थियं रयण-चित्तं । धम्मज्झयं ति वंदे चैइय-रुक्खं पहा-जालं ॥  
 पडमासणं च वंदे चामर-जुवलं च चंद-किरणाभं । सुमरामि दुंदुभि-रवं जिणस्स वाणिं च वंदामि ॥  
 वंदामि सव्व-सिद्धे पंचाणुत्तर-निवासिणो जे य । लोयंतिए य देवे वंदे सव्वे सुरिंदे य ॥  
 आहारय देव(ह)हरे वंदह परिहार-संठिए मुणिणो । उवसाग-सेणित्थे वंदह तह खवग-सेणित्थे ॥  
 वंदे चउदस-पुव्वी ण्णे तह रायगे ( वायगे ) य पणमामि । एगारसन्नि आयार-धारए पंच-समिए य ॥  
 अक्खीण-महाणसिए वंदे तह सीय-तेय-लेसिल्ले । चारण-समणे वंदे तह जंघा-चारणे नमिमो ॥  
 आसीविसे य वंदे जल्लोसहि-खेल-ओसहि-धरे य । आमोसही व विप्पोसही य सव्वोसहिं वंदे ॥  
 वंदामि वीय-बुद्धिं वंदे विउलं च कोट्ट-बुद्धिं च । सव्वायरिए पणओ अज्जावय-सव्व-साहू य ॥  
 ओहिण्णाणी पणओ मणपज्जव-नाणिणो य जे समणे । पणमामि अणंतं सव्वेहिं वंदिमो अहयं ॥  
 वल-केसवाण जुवणे ( जुवले ) सुमरामि ह चक्कवट्ठिणो स [ व्वे ] । अण्णे वि वंदमिजे पवयण-सारि ( पणि ) वदामि  
 जिण-जम्मण-भूमिओ वंदे निव्वाण-नाण-भेरं च । सन्नेय-सेल-सिहरे सिद्धायदणे पणिवदामि ॥  
 एयं जो पइ नरो गोत्तणे अवल-भत्ति-संजुत्तो । सव्वं सिज्जद कज्जं तदियं तस्स विउलं ति ॥ ८ ॥

- 9) J अणंतं ओहिजिणे. 10) J सव्वोहिजिणे. 12) J बुद्धीं पयाणु, J om. द before मु. 15) J एगारसनि  
 16) J दिट्ठी विसणो, J तव for तेय. 17) J महुस्सवाणं.

- 1 वंदामि सव्व-सिद्धे पंचाणुत्तर-णिवासिणो जे य । लोयंतिए य देवे वंदह सव्वे सुरिदे य ॥ 1  
 आहारय-देह-धरे उच्चसामग-सेठि-संठिए वंदे । सम्मद्विट्ठिप्पभुई सव्वे गुणठाणए वंदे ॥
- 3 संती कुंथू य अरो एयाणं आसि णव महाणिहिओ । चोइस-रयणाई पुणो छणणउई नाम-कोडीओ ॥ 3  
 बल-केसवाण जुयले पणमह अण्णे य भव्व-ठाणेषु । सव्वे वि वंदणिजे पवयण-सारे पणिवयामि ॥  
 ओ मे भवग्ग-वग्गू सुमणे सोमणस होंतु महु-महुरा । किलिकिलिय-घडी-चक्का हिलिहिलि-देवीओ सव्वाओ ॥
- 6 इय पवयणस्स सारं मंगलमेयं च पूइयं एत्थ । एयं जो पढइ णरो सम्मद्विट्ठी य गोसग्गे ॥ 6  
 तदियसं तस्स भवे कल्लाण-परंपरा सुविहियस्स । जं जं सुहं पसत्थं मंगलं होइ तं तं च ॥
- § ४३२ ) इय एस गणिज्जंती तेरस-कलणाई जइ सहस्साइ । अण्णो वि को वि गण्णी सो णाही णिच्छिया संखा ॥
- 9 इय एस समत्त च्चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण । कइणो होउ पसण्णा इच्छिय-फलया य संघस्स ॥ 9

卐

॥ इति कुवलयमाला नाम संकीर्ण-कथा परिसमाप्ता ॥

॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

3) J मरानिवहो, J छण्णउर. 8) J अविचका. 9) J om. two verses एयं एस गणिज्जंती etc. P ए for एत्त. The colophon of P stands thus: समाप्तं कुवलयमाला नाम कथा ॥ छ ॥ अथ संख्या सहस्र ॥ १००००१ कृते श्री कृष्णदेवरायणस्य कविपुत्रस्य श्री कृष्णदेवरायणस्य कविपुत्रस्य ॥ छ ॥ ॥ छ ॥ The Ms. J adds something more after महाश्रीः, ॥ छ ॥ संवत् ११३१ पाल्पु वदि १ रवि दिने लिखितमिदं पुस्तकमिति ॥

# LIST OF THE PUBLICATIONS

## OF

### THE SINGHI JAIN SERIES

1. *Prabandhacintāmaṇi* of Merutuṅgācārya (A. D. 1306): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendix and Indices of Stanzas. This is an important collection of stories, legends and anecdotes connected with kings like Vikramārka, Bhoja, Kumārapāla etc. and author-poets like Siddhasena, Māgha, Dhanapāla etc. Critically edited with various research accessories by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 12 + 136. Price Rupees 6.50.
2. *Purātana-Prabandha-Saṅgraha*: This is a noteworthy collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the *Prabandhacintāmaṇi*. Authentically edited with Indices of Verses and Proper Names, a short Introduction in Hindi describing the Mss. and materials used in preparing this part and with plates by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 15 + 32 + 156 + 8. Price Rupees 8.50.
3. *Prabandhacintāmaṇi* (Complete Hindi Translation): A complete and correct Hindi translation is given in this volume, so as to enable the purely Hindi-knowing public to grasp fully the contents of the original. The translator is Pandit Hajāri-prasād Dwivedi, Ācārya, Hindi Dept. Viśvabhāratī, Śāntiniketan. Along with the translation has been given an exhaustive Introduction in Hindi by the General Editor, Āchārya JINA VIJAYA MUNI, which contains useful material for the proper understanding of the text. Demy quarto pp. 12 + 12 + 156. Price Rupees 6.00.
4. *Dharmābhayudaya-Mahākāvya* of Udayaprabha: This is a stylistic kāvya in Sanskrit celebrating the religious activities of Vastupāla, the great minister of the Gūjara King Viradhavala, and the patron and lover of fine arts & literature. The author is not only a contemporary but also the religious preceptor of Vastupāla. Critically edited with various Indices etc. by Munirāja Śrī CATURAVIJAYAJI and Śrī PUNYAVIJAYAJI. Super Royal 8vo pp. 16 + 48 + 190 + 18, Bombay 1949, Price Rs. 8.50.
5. *Sukṛtakīrti-kallolinī-ādi-Vastupāla-praśasti-Saṅgraha*: A collection of numerous Praśastis relating to the Minister Vastupāla. Edited by Muni Rājaśrī PUNYAVIJAYAJI. (in the press).

6. *Prabandhakosa* of Rājāsekharasūri (A. D. 1349): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendices and Alphabetical Indices of stanzas and all Proper Names. This gives twenty-four biographical Prabandhas dealing with celebrities of ancient India such as Bhadrabāhu, Mallavādi, Haribhadra, Sātavāhana, Vastupāla etc. Critically edited in the original Sanskrit from good old Mss. with Variants, Hindi Translation, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya JINA VIJAYA MŪNI. Demy quarto pp. 8 + 8 + 136 + 14. Price Rupees 6.50.
7. *Devānanda-Mahākāvya* of Meghavijayopādhyāya (A. D. 1671): This is a Sanskrit poem in ornate style composed as a Samasyā-pūrti incorporating some line or the other, in each verse, from the Śisupālavadhā of Māgha. In its seven cantos, it presents a biography of Vijayadevasūri who was honoured by both Akbar and Jehangir. Critically edited from an old Ms. with Notes, Index and Hindi Introduction, summary etc. by Pt. BECHARDAS J. DOSHI. Demy quarto pp. 8 + 16 + 80. Price Rupees 4.50.
8. *Jaina Tarkabhāṣā* of Yaśovijaya (A. D. 1624-1688): It is a manual of Nyāya dealing with Pramāṇa, Naya and Nikṣepa. Edited by Pt. SUKHLALJI SANGHAVI with his Tātparyasaṅgraha Vṛtti and an Introduction in Hindi. Super Royal 8vo pp. 8 + 8 + 14 + 78. Price Rupees 3.50.
9. *Pramāṇamīmāṃsā* of Hemacandrācārya: This is a treatise on Nyāya left incomplete perhaps by the author himself. It propounds the Jaina point of view after reviewing the tenets of other systems. Edited with a valuable Introduction and still more valuable Notes in Hindi by Pt. SUKHLALJI SANGHAVI and Pts. MAHENDRAKUMARA and MALAVANIA. Super Royal 8vo pp. 8 + 16 + 56 + 76 + 144 + 36. Price Rupees 8.50.
10. *Vividhatīrthakalpa* of Jinaprabhasūri (A. D. 1332): Part I, Text in Sanskrit and Prakrit with Variants, and an Alphabetical Index of all Proper Names. This work gives a description of nearly 60 holy places together with the names of their founders etc.; and thus forms a sort of guide-book or gazetteer of Jaina sacred places of India of the 14th Century. It contains valuable information of historical and topographical interest. Critically edited with Variants, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya JINA VIJAYA MŪNI. Demy quarto pp. 8 + 16 + 114 + 14. Price Rupees 6.50.

11. *Kathākośāprakaraṇam* of Jineśvarasūri: The Prākṛit Text with Sanskrit commentary. The commentary contains many Prākṛit stories, which illustrate various religious virtues and is interesting from the sociological point of view. The tales are a fine specimen of Prakrit narrative literature. Critically edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Super Royal 8vo pp. 8 + 16 + 124 + 184, Bombay 1949, Price Rs. 12.50.
12. *Akalaṅka-Granthatrayam* comprising Laghiyastrayam with Svopajña-vṛtti, Nyāya-viniścaya and Pramāṇasaṅgraha: These are three noteworthy Nyāya works of Akalaṅkadeva (c. A. D. 720-780), the last two being brought to light for the first time. Edited with Critical Notes, Variant Readings, Introduction [in Hindi] and Indices etc. by Pt. MAHENDRA-KUMARA. Super Royal 8vo pp. 8 + 14 + 118 + 184 + 60. Price Rupees 8.50.
13. *Prabhāvaka-carita* of Prabhācandrācārya (A. D. 1277): Part I, Text in Sanskrit, with Variants and Indices of stanzas and all Proper Names. It presents in ornate style the traditional biographies of twenty eminent personalities including religious teachers like Vajrasvāmī, authors like Haribhadra and Hemacandra and poets like Mānatuṅga who have contributed to the glory of Jainism and the Jaina church. Critically edited from many old Mss. with Notes, Index and Hindi Introduction by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 10 + 6 + 226. Price Rupees 8.00.
14. *Digvijaya-mahākāvya* of Meghavijaya: This is an ornate poem in Sanskrit presenting the biography of Vijayaprabhasūri in thirteen cantos. The Sanskrit Text with the svopajña glosses critically edited with an Introduction in Hindī, an Index of Proper Names and the text of the *Śrī-Tapagaṅga paṭṭāvalī-sūtra vṛtṭyanusāndhanam* in an Appendix by Pt. A. P. SHAH. Demy quarto pp. 8-10-16-144. Bombay 1945. Price Rs. 8.00.
15. *Bhānu-candra-caritra* of Siddhicandra Upādhyāya: This is a remarkable composition of Sanskrit literature in which an able pupil, namely, Siddhicandra has chronicled, without the least exaggeration, acts of social and religious service rendered by his great Guru Bhānu-candra. It is not only a biography of the Guru but also an autobiography of the pupil, both of whom had connections with and were honoured at the Moghul court by Akbar and Jehangir. The English Introduc-

tion by the Editor is a rich mine of historical information. Critically edited from a single rare Ms. with elaborate Introduction, Summary, Appendices, Indices etc. by M. D. DESAI. Demy quarto pp. 8 + 12 + 104 + 68. Price Rupees 8.00.

16. *Jñānabindu-prakarana* of Yaśovijaya Upādhyāya: This is a systematic manual of Jaina epistemology. The Hindi Introduction of the editor is a brilliant exposition of Jaina theory of knowledge in the back-ground of Indian metaphysics. The Sanskrit Text edited with Introduction, Notes and Index etc. by Pt. SUKHLALJI SANGHAVI, Pt. DALSUKH MALVANIA and Ptā. HIRA KUMARI DEVI. Super Royal 8vo pp. 12 + 8 + 84 + 136. Price Rupees 5.00.
17. *Brhatkathākośa* of Hariṣeṇācārya: The work contains a number of narrative tales—as many as 157—on all sorts of subjects including folk-tales and parables which inculcate religious-moral principles of Jainism and glorify men of religion and ascetic heroes. They have been selected from different strata of Jaina literature. The Introduction which is exhaustive and illuminating, evinces mature erudition of the editor. It is the first of its kind in so far as it presents an outline survey of Jaina Kathānaka literature in the back-ground of Indian literature. The Sanskrit text is critically edited with Introduction, Notes and Indices by Dr. A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt. Super Royal 8vo pp. 20 + 128 + 402. Price Rupees 16.00.
18. *Jainapustakaprasāstisamgraha*: Vol. I. The work contains 111 Prasāstis and 544 colophons, attached at the end of the ancient palm-leaf manuscripts of the Jaina and other works. They throw enormous light on the historical facts, social conditions, the Kulas, Gaṇas and Gaṇachas of the Jainas. Their historical importance is on a par with that of the inscriptions and the copperplates. Critically edited with an informative Introduction and ten Appendices by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 20 + 180. Price Rupees 10.00.
19. *Dhūrtākhyāna*: The Original Prākṛit Text of Haribhadrasūri: Sanskrit metrical Version of Saṅghatilaka, an Old-Gujarati Prose Rendering; also an elaborate Critical Essay on the Dhūrtākhyāna by Dr. A. N. UPADHYE; Critically edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. This is a unique satire in Indian

literature, remarkable for its originality of thought and plot. De luxe edition, Ledger Paper, Super Royal 8vo pp. 8 + 24 + 56 + 70. Bombay 1944, Price Rs. 8.00.

20. *Nyāyāvatāravārtikavṛtti* of Śāntisūri: The Vārtika and Vṛtti of Śāntisūri (some time between A. D. 993 and 1118) on the *Nyāyāvatāra* of Siddhasena (c. 5th century A. D.). Critically and authentically edited in the original Sanskrit with an elaborate Introduction, Notes, Indices etc. in Hindi by Pt. DALASUKHA MALVANIA. Royal 8vo pp. 32 + 152 + 332. Bombay 1949. Price Rs. 16.50.
21. *Riṣṭasamuccaya* of Durgadeva (A. D. 1033): A Prakrit Text dealing with omens and portents. Critically edited with exhaustive Introduction, English Translation, Sanskrit chāyā, Notes, Appendix, Indices etc. by Dr. A. S. GOPANI. Royal 8vo pp. 12 + 16 + 8 + 72 + 172. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
22. *Samdeśa-Rāsaka* of Abdul Rahamān: A Unique work of a Muslim Poet in Apabhraṃśa Language. Critically edited with Sanskrit Tippanaka and Avacūrika, English Translation, Exhaustive Introduction, Notes, Appendix, Indices etc. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI and Prof. H. C. BHAYANI. Royal 8vo. pp. 8 + 14 + 18 + 106 + 124. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
23. *Satakatrāyādi-subhāṣita-saṃgraha* of Bhartṛhari. This is an exhaustive compilation of the Epigrams attributed to Bhartṛhari including the Three Centuries. Collated and critically edited for the first time with principal variants and an introduction by Prof. D. D. KOSAMBI. Royal 8vo pp. 8 + 8 + 84 + 240. Bombay 1948. Price Rs. 12.50.
24. *Pañmasīricarī* of Dhāhila: An Apabhraṃśa Poem in four cantos. Critically edited by Profs. M. C. MODI and H. C. BHAYANI with an Introduction, Summary, Notes etc. in Gujarati. Royal 8vo pp. 16 + 40 + 48. Bombay 1948. Price Rs. 4.75.
25. *Nāṇapañcamīkahāo* of Maheśvarasūri: A Prakrit Text giving Tales on the Jñānapañcamī. Edited by Dr. A. S. GOPANI with various readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. Super Royal pp. 8 + 16 + 44 + 88. Bombay 1949. Price Rs. 7.25.
26. *Bhadrabāhu-saṃhitā* of Bhadrabāhu: A Sanskrit Text dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with Various



- Readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. by Dr. A. S. GOPANI. Super Royal pp. 8 + 8 + 12 + 32 + 84. Bombay 1949. Price Rs. 5.75.
27. *Jinadattākhyāna-dvaya* : Two Prākṛit Texts dealing with the life-story of Jinadatta, one by Sumatisūri and another of an anonymous author. Edited for the first time by Pt. A. M. BHOJAK. Royal 8vo pp. 8 + 16 + 92. Bombay 1953. Price Rs. 3.50.
28. *Dharmopadesamālā-vivarāṇa* : Here is the Vivarāṇa of Jayasimha sūri who gives a number of Prākṛit Tales while explaining the gāthās of the *Dharmopadesamālā*. Edited with Various Readings by Pt. L. B. GANDHI. Super Royal 8vo pp. 8 + 16 + 240. Bombay 1949. Price Rs. 9.75.
29. *Bhartrhariya Śatakatrāya* with the Vyākhyā of Dhanasāra ; This is a companion volume of No. 23. comprising the oldest available commentary on the Śatakas of Bhartrhari. Dhanasāra wrote it at Jodhpur in Rajasthan in Samvat 1535. It is also interesting because of its Colloquial Jain Sanskrit. Edited with various Readings, Appendices, etc. by Prof. D. D. KOSAMBI. Royal 8vo. pp. 325. Bombay 1959. Price Rs. 10.50.
30. *Sṛṅgāramañjarīkathā* of Bhojadeva : It contains a courtesan's professional advice to her daughter in the form of eleven entertaining and edifying tales in the rich kāvya style. Composed by the famous Paramāra king Bhojadeva of Dhārā. Edited with Introduction, Translation, Notes etc. from the only available A. fragmentary Palm-leaf Ms. belonging to the Jesalmere Bhaṇḍāra by Kumārī KALPALATA K. MUNSHI, M. A., Ph. D. Royal 8vo. pp. 10 + 90 + 96 + 104. Bombay 1959. Price Rs. 12.50.
31. *Līlavai* of Kouhala : A Romantic Kāvya in Māhārāṣṭrī Prākṛit with the Sanskrit Vṛtti of a Jaina Author. Critically edited for the first time with an Introduction, Variant Readings, Glossary, Notes etc. by Prof. A. N. UPADHYE. Royal 8vo. pp. 28 + 88 + 384. Bombay 1949. Price Rs. 15.00.
32. *Kirtikaumudī-Mahākāvya* of Someśvara and *Sukṛtasamkīrtana* of Arisimha : They treat the life-story and explores of the famous minister Vastupāla in the Mahākāvya form. Edited by Muni Rājasri PUNTA VIJAYAJI (in the press).

33. *Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and Its Contribution to Sanskrit Literature*, a learned dissertation by Dr. B. J. SANDESARA, M. A., Ph.D.. Royal 8vo pp. 8 + 6 + 28 + 218. Bombay 1953. Price Rs. 9.50.
- 34-35. *Pañcamaṅga* of Svayambhūdeva, Vols. 1-2 : A great Epic in Apabhraṁśa dealing with the Rāma Tale. Critically edited for the first time with an elaborate Introduction, Index Verborum and Appendices by Dr. H. C. BHAYANI. Royal 8vo First Part pp. 8 + 4 + 16 + 132 + 40 + 168 + 76, Second Part pp. 8 + 4 + 24 + 328. Bombay 1953. Price Rs. 12.50 and 10.50 respectively.
36. *Pañcamaṅga* of Svayambhūdeva, Vol. 3. Edited by Dr. H. C. BHAYANI (*in the press*)
- 37-38. *Studies in Indian Literary History*, Vols. I and II, containing 132 Papers and Indices, proper Names and Subjects, by Prof. P. K. GODE. Royal 8vo Vol. I, pp. 6 + 4 + 3 + 16 + 546, Vol. II pp. 6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 544. Bombay 1953-54. Price Rs. 20.00 each.
39. *Uktivyakti-prakarāṇa* of Dāmodara : An elementary handbook of Sanskrit Composition with parallel illustrations in Old Kosali of the 12th century. Edited for the first time from the single available Ms. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI with an exhaustive Study of the Old-Kosali of the text by Dr. S. K. CHATTERJI, M. A., D. Litt. and with an Essay on material of social and historical interest in the text by Dr. MOTI CHAND. Royal 8vo pp. 8 + 4 + 10 + 84 + 68. Bombay 1953. Price Rs. 8.00.
40. *Kāvya-prakāśa-khaṇḍana* of Siddhicandra-Gaṇi : An adverse critique of some of the topics of Mammaṭa's *Kāvya-prakāśa*. Edited for the first time from the single available Ms. with an Introduction, Indices etc. by Prof. R. C. PARIKH. Royal 8 vo. pp. 8 + 4 + 20 + 108. Bombay 1953. Price Rs. 4.50.
41. *Kumārapālacaritra-saṅgraha* : A collection of works of various authors relating to life of king Kumārapāla of Gujarat. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Double Demy pp. 8 + 18 + 36 + 12 + 158. Price Rs. 10.00.
- 41A. *The Life of Hemacandrācārya* : The eminent German orientalist, Dr. G. Bühler, wrote in 1889, an epoch-making essay in German on Hemacandra (A. D. 1088-1173) who occupies a place of honour in Indian literature. This essay is a fine model of historical research; and, as such, for the benefit of English knowing readers, it has been translated here into English by Dr. MANILAL PATEL. Demy quarto pp. 16 + 104. Price Rupees 5.00.

42. *Kharataragaccha-brhadgurvāvali*: A Collection of Works of JINAPĀLA UPADHYĀYA and others relating to the spiritual lineage of the eminent Ācāryas of the Kharatara Gaccha. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Double Demy pp. 8 + 12 + 120. Price Rs. 7.00.
43. *Jayapāyada-nimittasāstra*: An ancient work pertaining to the Science of Prognostics making prophecies on the basis of the letters of speech. Edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Price Rs. 8.50.
44. *Jambucariyam* of Guṇapāla: It is a Prakrit narrative of the life of Jambūsvāmin, the first patriarch of Jain church after the last Tirthamkara Mahāvīra. Edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Price Rs. 12.50.
- 45-46. *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (Part I & II). A unique campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time with an Introduction; Various readings, Notes etc. by Prof. A. N. UPADHYE, M. A., D. litt. Part I contains the Prākrit text and various readings. Price Rs. 15.00.
- Part II with an elaborate Introduction, and Ratnaprabha-Sūri's Sanskrit Version of Kuvalayamālā-kathā etc. (*in the Press*).

—◆◆◆—

To be had from—

**BHARATIYA VIDYA BHAVAN**

Chowpati, BOMBAY. 7